

तमसे मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI  
LIBRARY  
SANTINIKETAN

032 - 2

R 186

v. I





AN  
ILLUSTRATED  
ARDHA-MAGADHI DICTIONARY

---

Literary, Philosophic and Scientific  
WITH  
**Sanskrit, Gujarati, Hindi and English**  
EQUIVALENTS REFERENCES TO THE TEXTS & COPIOUS QUOTATIONS  
BY

*Shatavdhani* The Jaina Muni Shri Ratnachandrajī

Maharaj.

DISCIPLE OF SWAMI SHRI GULABCHANDRAJI (Limdi).  
WITH

A N INTRODUCTION

BY

A. C. Woolner Esquire M. A. (Oxon),  
PRINCIPAL, ORIENTAL COLLEGE, LAHORE.

Vol. 1

Published

BY

*Kesarichand Bhandari*

FOR

THE S. S. JAINA CONFERENCE.

---

*All Rights Reserved.*

1923.

---

---

*Printed by Babu Durga Prasad Manager at,  
Shri Sukhaddeo sahai Jain Printing Press  
Dhanmandi, Ajmer.*

---

*London Agents*  
PROBSTHAIN & CO.  
Oriental Booksellers,  
41 Great ~~Russell~~ Street, London, W. C. 1.

॥ श्रीः ॥

१९८ नमोऽस्तु महाराज ५००

सचिव

अर्ध-मागधी कोष.

सम्पादक

पूज्यपाद श्री गुलाबद्वन्द्रजी स्वामी के शिष्य

शतावधानी जैनमुनि श्री रत्नचन्द्रजी महाराज

(लीम्बड़ी सम्प्रदाय).

भाग १.

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स की तरफ से

प्रकाशक

केसरीचंद भंडारी.

राजबाड़ा चौक इन्हौर.

सर्व आधिकार स्वाधीन.

---

---

प्रबन्धकर्ता बाबू दुर्गाप्रसाद के प्रबन्ध से श्रीसुखदेवसहाय  
जैन छापाखाना धानमण्डी अजमेर में सुद्धित.

---

---

सचिन्न अर्ध-मागधी झोष ५८

त्वरितं किं कर्तव्यं, विदुषा संसारसंततिच्छ्रेदः ।  
किं मोक्षतरोर्बीजं, सम्यग् ज्ञानं क्रियासहितम् ॥  
किं पथ्यदनं धर्मः, कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् ।  
कः परिषटो विवेकी, किं विषमवधीरिता गुरवः ॥



# अर्पणपत्रिका ।

—३०५—

धर्म-धुरंधर-प्रवर-पंडित पूज्यपाद श्रीगुलाष्चंद्रजीस्वामी  
तथा तम्भुभ्राता महाराजश्रीवीरजीस्वामी ! आप  
बन्ने सहोदरोए धर्णी छार्णी वयमां प्रब्रज्या अंगीकारं  
करी शास्त्राभृतनो अपूर्व आस्वाद लीघो अने आ  
चरणरज सेवकने दीक्षित करी, विद्यानो मधुर रस  
चलाउयो, शास्त्राभ्यासमां धर्णी, सहाय्य आपी,  
म्होटो उपकार कर्यो छे; एठलुंज नही पण  
शासनोपयोगी साहित्यविकासना कार्यमां  
पण आजसुधी सहाय आपता रहो छो,  
तेथीज आ सेवक कोषनिर्माण जेवा  
विकटमार्गमां चालवाने समर्थ  
थयो छे अने तेनो पार पाम्यो  
छे, ते सर्व आपनी कृपालुं  
फळ छे एठला माटे आ-  
भारवश आ सेवक धर्म-  
साहित्य अने भाषा  
साहित्यना अंग-  
रूप आ पुस्त-  
क, अपना  
चरण मां  
अर्पण  
करे  
छै.

रत्नचंद्र,



# INTRODUCTION.

---

## 1. Need and Value of an Ardhā-Māgadhi Dictionary:—

All those who have occasion to study the ancient scriptures of the Jains will welcome this Dictionary. Especially will this be true of laymen who are not deeply learned in the ancient language of the Jain church, and also of those who are starting the study of Ardhā-Māgadhi, whether for the purposes of philology, of philosophy, or for the general history of Indian thought and religion. Such have had to depend on Commentaries and detached Glossaries dealing each with one particular text. A further justification for the enterprise lies in the hope that it may furnish useful material for a more comprehensive Prākrit Dictionary embracing all the known dialects of the Middle stage of the Indian language, which has come down in various forms from Vedic ages to the Indo-Aryan languages of to-day. The spelling of MSS. varies and in order that a student or editor may be able to see what forms are found in other passages and are recognised as correct he needs a Dictionary with references to the texts. That is what this book proposes to supply for Ardhā-Māgadhi. Further study may lead to the correction of many forms, but it is to facilitate such study that this work has been undertaken.

## 2. Inception and Compilation of the Dictionary:—

In 1912 Dr. Luigi Suali announced his intention of preparing a Prākrit Dictionary, (Z D. M. G. 1912 p. 544). Mr. Kesarichand Bhandāri of Indore had sent a list of words to Dr. Suali, who returned it when his work was interrupted by the Great War. Mr. Kesarichand Bhandāri then persuaded a Jain priest Śatāvadhāni Pandit Śrī Ratnachandryaji to take up the work of making a Dictionary of the Jain Prākrits. The Sūtras were indexed with the assistance of three other priests. For this they used their own MSS., and Baluchar printed texts. (see below). In 1920 my pupil and

colleague Mr. Banarsi Das Jain, who had been invited to advise, consulted several other scholars, including Drs. Gune, Belvalkar and A. B. Dhruva. It was then decided that the meanings of the Prākrit words should be given in English as well as in Hindi and Gujarātī. The editing and the Gujarātī translation have been done by Swāmī Ratnachandraji, a renowned monk of great literary abilities and reputation, while the Hindi and English translations are by other hands. The expenses have been borne by the S. S. Jain Conference. As Dr. Suali records, the question was debated at the Jain ( Śvetāmbara ) Conference at Bhāvanagar in 1908. The opinion of Prof. H. Jacobi was asked, and he had suggested the name of Dr. Suali. This Dictionary, however, is not of the comprehensive character then contemplated. It has been confined to Ardha-Māgadhi.

### **3. Ardha-Māgadhi Glossaries and Encyclopaedias:—**

Several Jain Sūtras have been published with Prākrit-Sanskrit glossaries. The following may be mentioned:—

- I. *Ayāramga* (*Ācārāṅga-sūtra*). First Śruta-skandha, ed. W. Schubring, German Oriental Society, Leipzig, 1910.
- II. Fragment der Bhagavatī, ed. Weber. Legend of Khamdaka, Berlin, 1866–67.
- III. Specimen der Nāyādhammadakahā, by P. Steinthal. First Chapter; Leipzig, 1881.
- IV. *Uvāsagadasāo*, ed. Hoernle, Calcutta, 1888–90.
- V. *Ovavāiya* (*Aupapātika*), ed. E. Leumann, Leipzig, 1883.
- VI. *Nirayāvaliyā-suttam*, ed. S. J. Warren, Amsterdam, 1879.
- VII. *Kappa-suttam*, ed. H. Jacobi, Leipzig, 1879.

Mention should be made of the Abhidhāna-Rājendra. Some 80 years ago a Jain priest, Rājendra Vijaya by name, conceived

the idea of preparing an encyclopaedia of Jainism. After 22 years' work in collaboration with several disciples he brought out the first volume of the *Abhidhāna Rājendra* in 1910. Since then four more volumes have appeared, the last word being *Bhola*. One or two more volumes are expected to complete the work.

Each Prākrit word is followed by its Sanskrit equivalent, meanings in Sanskrit, reference to the text, and a discussion of the various aspects of the word with quotations from other works. The size and cost ( each volume 1000 pages for Rs. 25 ) make it a work of reference for libraries rather than a student's dictionary. The introduction contains Hemacandra's Prākrit Grammar with his commentary. In the sketch of the declensions, all possible forms are given, whether they occur in literature or not. Thus about 50 forms of the Ablative singular of *yushmad* are catalogued, though hardly any of these occur in AMg. literature. This Encyclopaedia puts together under each head what is to be found in the original texts and in the commentaries.

#### 4. Texts:—

For the general student without an inside knowledge of the Jain Scriptures it may be useful to mention the AMg. texts which have been published.

(a) *BĀLUCHAR TEXTS*:— R. B. Dhanpati Singh of Bāluchar, Murshidabad District ( Bengal ) brought out an edition of the AMg. canon with a Sanskrit commentary and Gujarāti translation, printed at Benares, Bombay, and Calcutta, 1875–1886. Hoernle criticised this series as paying "no regard whatsoever to textual or grammatical correctness". The series was presented free to Sādhus, Jain temples, and several libraries.

(b) *JAINĀGAMODAYA TEXTS*:— More scholarly is the series brought out by the Jaināgamodaya Samiti, Bombay, 1910–1920. The volumes are printed in MS. form, i. e., on loose leaves

## INTRODUCTION

---

ties in a bundle. There is a Sanskrit commentary and some variant readings in footnotes.

(c) HYDERABAD SERIES.—AMg. Texts with a Hindi translation prepared by a Jain priest, Śrī Amolak Rikhi; printed at the expense of a rich Jain patron, Hyderabad ( Deccan ) 1919–1920, in MS. form, and distributed free to Sādhus and libraries. The text is not free from errors.

Besides these, of which the second series is much the best for students of the language, there are various editions of the more popular works such as the Kappa, Uttarajjhayaṇa, Daśaveyāliya, etc.

In Section 3 above have been enumerated seven texts published by European scholars with vocabularies. To these may be added four without vocabularies:—

VIII. Āyārāṅga, ed. H. Jacobi, Pali Text Society, 1882.

IX. Anuttaravāyiya, ed. L. D. Barnett, Oriental Translation Fund, Vol. XVII. London 1907 ( appendix to Translation of Antagada ).

X. Daśaveyāliya, ed. Leumann in Z. D. M. G., Vol. 46.

XI. Uttarajjhayaṇa ed. Jarl Charpentier, Uppsala, 1922.

### 5. Translations:—

The Gujarātī translation of the whole Canon in the Bāluchar series and the Hindi translation in the Hyderabād edition have been mentioned above. In English there are Jacobi's in the "Sacred Books of the East" Series, ( Vols. XXII, XLV ); Hoernle's Uvasagadasāo; and Barnett's Antagadadasāo and Anuttaravāyiya.

### 6. Grammars and Readers:

Ardha-Māgadhī ( or Ārsha ) grammar is expounded by the Prākṛit grammarians. The most important are those of Hemācandra in India and of Pischel in Europe. A sketch of the grammar, which

has been prepared by Mr. Banarsi Das Jain, M. A., is appended to this introduction. Mention may also be made of an *Ardha-Māgadhi Reader* by the same scholar, which is being published by the University of the Punjab.

### Material included in this Dictionary:

About 50,000 words have been collected by indexing 49 works. These include 11 Āngas, 12 Upāṅgas, 7 Pañṇas, 6 Chedasūtras, 4 Mulasūtras, the Nandisutta, the Anugadāra, and the Oghanir-yukti. That is nearly the whole of the Svetāmbara Canon and all important supplementary works.

### 8. History and peculiarities of Ardha-Māgadhi:

The Language of the Jain Sūtras is called Ardha Māgadhi. The Sūtras state that the Blessed Mahāvīra preached the Law in that language, and regard it as the basic language from which others are derived. The Indian Grammarians call the language of the Sūtras "Ārṣam," i.e. the language of Rishis.

Pischel in his Prakrit Grammar, §16, quotes the following passages :—

Sāmavāyamga-sutta 98. Ovavāiya-sutta 56. Pañṇavañā-sutta 59. Hemacandra I. 3, IV. 287. Premacandra Tarkavāgiśa's commentary on Daṇḍin's Kāvyādarśa I 33. Namisādhu on Rudrata's Kāvyaśākāra 2. 12. Vāgbhata's Alamkāratilaka. I. 1.

From these passages Pischel shows (§17) "that Ārṣa and Ardhamāgadhi are identical, and that according to the tradition the language of the old Jaina-suttas was Ardha-Māgadhi, and indeed as Hemacandra's example from the Dasa-veyāliya-sutta (633-19) shows, not only prose but also Poetry."

Why was it called Ardha-Māgadhi? The chief characteristics of Māgadhi are *rasor lasau*, *la* and *sa* instead of *ra* and *sa* and *e* in the nom. sing. masc.; thus *Rāmo* becomes *Lāme*. Ardha-Māgadhi

## INTRODUCTION

---

retains *ra* and *sa*, but has the nom. masc. in *e*; *Mahāvīre* except in poetry, where *o* is frequently found.

Thus Ardha-Māgadhi has some of the peculiarities of Māgadhi but not all. This is the explanation of the name "Half-Māgadhi" given by Abhayadeva on *Samavāyamga* p. 98 and *Uvāsagadassī* p. 46. (Pischel, Prākrit Gr. §17.)

In poetry the language differs somewhat from that of prose. Nominative singular in *-o* is frequently found instead of *e*. The AMg. form *milakkhu* (Skt. *mleccha*) is found only in prose; poetry has *meccha* like other Prākrits. Some of these differences have been attributed to translation from Sanskrit originals.

The metrical works have also a number of peculiarities common to Māhārāshṭri, and this form of the language has been described as a mixture of Māhārāshṭri and Māgadhi. The later Jain writings are in a form of Māhārāshṭri tinged with Ardha-Māgadhi. In this change of dialect we may see a trace of the spread of Jainism towards the South-West.

### Where did Ardha-Māgadhi originate?

The oldest Sanskrit work on poetics, ascribed to Bharata, mentions (17.48) Ardha-Māgadhi as one of the seven languages, the others being Māgadhi, Āvanti, Prācyā, Śauraseni, Bāhlikā and Dāksinātyā. In the Drama, according to the same authority, it is the language of servants, Rājputs and guildmasters (*śreshthinām*). In the MSS. of the Dramas, however, this statement is not borne out. The monk Jīvasiddhi in the *Mudrārākṣasa*, and Kṣapāṇaka in the *Prabodhacandrodaya* are shown as speaking Māgadhi.

Nevertheless in the fragments of Buddhist plays found in Central Asia, and ascribed to Āsvaghoṣa, the learned editor Professor Lüders would recognise some passages of Old Ardha-Māgadhi.

• In the Southern dialect of Asoka's inscriptions we find *sa* and *ra* combined with nom. sing. in *e*.

Asoka's Eastern dialect has *la* for *ra* e.g. *lājā* for "king"; so that we may conclude Ardha-Māgadhi was not the language of Patna in the Mauryan period.

Exactly when and where what we call Ardha-Māgadhi arose remains a question for investigation. It seems probable that its original home was not very far to the West or perhaps to the South West of ancient Magadha.

During the Mauryan empire it is likely that the Eastern language of Patna spread further to the West, at least in palaces and bazars though not in villages. When the Mauryan empire declined, the use of the Eastern idiom probably contracted; when in later times the central power had its centre of gravity further West, the Śauraseni form of speech would press further down the Ganges valley. Such movements of the prevailing literary dialects would make it difficult to locate a particular form of language, even when the exact date was given, a circumstance that occurs but rarely.

According to tradition Mahāvīra taught in Ardha-Māgadhi, and his words are recorded in that language. According to tradition again Gautama Buddha taught in Māgadhi, while his words are recorded not in Māgadhi but in Pāli. Yet both are represented as contemporaries, and associated with the same part of the country.

If both Teachers used the same language, perhaps an old form of language, resembling Ardha-Māgadhi, spoken round Benares, between the Śauraseni and the Māgadhi countries, the literary language of either church must have changed before the extant scriptures were recorded in writing. When such changes took place, and how great they were, it would be hardly possible to determine.

Ardha-Māgadhi, as we have it, is (like Pāli) more archaic than the Dramatic Prākrits. It agrees with Māgadhi in having the Nom. sing. masc. in *ɛ*; the use of gen. sing. *tava*; past participles


in *Da* for *Ta* after roots in *r.* (but not always); *ga* for *ka*, “*Aśoga*; but this is rare in Māgadhi.

It differs markedly in retaining *ra* and *sa*. Ardha-Māgadhi differs in many respects from Māhārāṣṭri e. g. locative in *ṇsi*; (M. has *-mī*) dative in *ttāe*, infinitives in *ttāe*, *-ittāe*, gerunds in *ttā,-tiānam,-ccā,-ccūnam*, and so on.

A clearer view of the structure of the language is given in Mr. Banarsi Das' sketch of the grammar appended herewith. This is based on forms found in the texts, not merely on the theory of the grammars.

Oriental College, Lahore.

A. C. Woolner,



# Skeleton Grammar of Ardha-Māgadhi.

## Alphabet.

### Vowels.

I	Short	अ a	इ i	उ u	( ए ) ए	( ओ ) ओ
	Long	आ ā	ई ī	ऊ ū	ए e	ओ o

### Consonants.

2	Surds.	Sonants.
---	--------	----------

	Unaspirate	Aspirate	Unaspirate	Aspirate	Nasal
Mutes.	क k	ख kh	ग g	ঘ gh	ঙ় n
	ছ ch	চ chh	ঝ j	ঝ় jh	ঞ় ñ
	ত t	ঠ th	ঢ d	ঢ় dh	ণ় n̪
	ত t	ঠ th	ঢ d	ঢ় dh	ণ় n
	প p	ফ ph	ব b	ঝ় bh	ম m
Fricatives.	স s	স় s	য় y, র় r,	হ় h	ম় m
	.	.	ল় l, ব় v,		( anusvāra)

### Notes.

- 3 ( 1 ) Nasal vowels, also, are used in verse. A pure vowel when followed by an anusvāra is often nasalised for the sake of metre; and then the anusvāra disappears.

( 2 ) Short ए and ओ ऋ are not distinguished in MSS. They are indifferently denoted by ए or इ and ओ or उ respectively.

( 3 ) ह्, ख्, ग्, न् and म् when followed by mutes of their class, are always replaced by the + anusvāra.

( 4 ) Conjugent consonants may occur as ( i ) double e. g. अङ्ग, अग्नि etc., ( ii ) an unaspirate followed by a similar aspirate of the same class e. g. क्षव, ग्व, च्छ etc., ( iii ) a nasal followed by a mute of the same class in which case the nasal must be changed to anusvāra e. g. अंग ( अङ्ग ), संख ( शङ्ख ), पञ्च ( पञ्च ) etc., ( iv ) anusvāra followed by व् or स् e. g. संकरै, हंस etc. or ( v ) ण् or म् followed by ह् e. g. विरहु, अम्हे etc.

### Declension.

4 Ardha-Māgadhi admits of declension in ♀ nouns for number and case. It has two numbers, Singular and Plural; three ♫ genders, Masculine, Feminine and Neuter; and eight cases Nominative, Accusative, Instrumental, † Dative, Ablative,

+ This is only a peculiarity of spelling. In pronunciation the nasals retain their proper sound e. g. अंग is pronounced as अङ्ग aṅga, पञ्च as पञ्च pañcha, दंड as दण्ड dañḍa, दंत as दन्त danta, अम्ब as अम्ब amba and so forth.

♀ Including Adjectives, Numerals and Pronouns.

† The gender of most nouns is fixed. Nouns denoting animate objects and adjectives change their gender according to certain rules.

† To say that Prakrits have no Dative case means that they have lost the direct descendant from the old Indian prototype, its place having been taken by the Genitive form. Ardha-Māgadhi, however, retains the old Dative Singular side by side with the new one.

Genitive, Locative and Vocative with their same functions as in Sanskrit.

The order of cases as given above is that followed by Sanskrit Grammarians who based it on similarity of forms. On the same principle the order of cases in a Prakrit Grammar should be Nominative, Vocative, Accusative, Dative, Genitive, Instrumental, Locative and Ablative which will be followed when full declension of a word is given.

### Nouns.

5 For convenience sake, the declension of nouns may be treated under the following heads:—

- a. Masculine nouns ending in अ.
- b. Masculine nouns ending in ह or उ.
- c. Neuter nouns ending in अ, ह or उ.
- d. Feminine nouns ending in ह or उ.
- e. Feminine nouns ending in आ, ह or ऊ.
- f. Irregular forms.

6 देव m. 'a god'

	Singular	Plural
N.	देवे, देवो	देवा
V.	देवा ! देवो !	देवा !
A.c.	देवं	देवे, देवा
D.	देवस्स, देवाए	देवाण्य
G.	देवस्स	देवाण्य
I.	देवाण्यं	देवेहि
L.	देवांसि, देवै	देवेसु
Ab.	देवाश्चो, देवा	देवेहितो

Note 1. Sometimes in poetry the final anusvāra disappears and the preceding vowel may or may not be nasalised.

- 2. The forms देवो N. Sing. and देवा Ac. Pl. are frequent in poetry, but rare in prose.

7

मुणि 'sage'

साहु 'monk'

Singular

N.	मुणी	साहु .
V.	मुणी !	साहु !
A.C.	मुणि	साहुं
D. G.	मुणिणो, मुणिस्स	साहुणो, साहुस्स
I.	मुणिणा	साहुणा
L.	मुणिणि.	साहुणि. •
Ab.	मुणीओ, मुणिणो	साहूओ, साहुणो

Plural

N. Ac.	मुणिणो, मुणी	साहुणो, साहू, साहवो
V.	मुणिणो ! मुणी !	साहवो !
D. G.	मुणीणं	साहूणं
I.	मुणीहि	साहूहि
L.	मुणीमु	साहूमु
Ab.	मुणीहिंतो	साहूहिंतो

Note. In N. and Ac. Pl. the forms मुणीओ and साहूओ, also, are met with.

8

बण् n. 'forest'

दहि n. 'curd'

महु n. 'honey'

Singular

N, Ac. बण्

दहि

महुं,

Plural

N. Ac. बणाहं, बणाणि

दहीहं, दहीणि

महुहं, महीणि

Note. For other cases the neuter stems are declined like the corresponding masculine ones.

कुच्छि f. 'womb'

धेणु f. 'cow'

## Singular

N. V.	कुच्छी	धेरू
A.C.	कुच्छिं	धेरण्
D. G. I.	कुच्छीए	धेराए
L.	कुच्छिसि	धेराणुसि
Ab.	कुच्छीओ	धेराओ

## Plural

N. V. A.C.	कुच्छीओ, कुच्छी	धेराओ, धेरू
D. G.	कुच्छीयं	धेरूयं
I.	कुच्छीहि	धेराहि
L.	कुच्छीसु	धेरासु
Ab.	कुच्छीहितो	धेराहितो

10 साला f. 'house'      देवी f. 'goddess'      बहू f. 'daughter-in-law'

## Singular

N.	साला	देवी	बहू
V.	साले	देवी	बहू
A.C.	सालं	देविं	बहुं
D. G. I. L.	सालाए	देवीए	बहूए
Ab.	सालाओ	देवीओ	बहूओ

## Plural.

N. V. A.C.	सालाओ, साला	देवीओ, देवी	बहूओ, बहू
D. G.	सालायं	देवीयं	बहूयं
I.	सालाहि	देवीहि	बहूहि
L.	सालासु	देवीसु	बहूसु
Ab.	सालाहितो	देवीहितो	बहूहितो

11 There are a number of words of frequent use that are declined a little differently from the above types. Their irregular forms are generally the direct descendants of the corresponding old Indian ones which analogy has failed to reduce to any of the common types. Among masculines may be noted:—

पितु or पित् ( skt. पितृ ) 'father'.

	Singular	Plural
N. V.	पिया ( skt. पिता, पितः )	पियरो ( skt. पितरः )
A.c.	पियरं ( skt. पितरम् )	पियरो
D. G.	पिडयो, पिउस्स	पिऊणं, पिईणं
I.	पिडया	पिऊहि, पिईहि
L.	पियरि ( skt. पित्रि )	पिऊसु, पिईसु
Ab.	पिडयो	पिऊहिंतो, पिईहिंतो

भाउ or भाइ ( skt. भ्रातृ ) 'brother'.

Sing. N. V. भाया ( skt. भ्राता, भ्रातः ); A.c. भायरं ( skt. भ्रातरम् ); D. G. भाऊयो, भाऊस्स; Pl. N. V. भायरो ( skt. भ्रातरः ), भायरा; A.c. भायरो, भायरे; D. G. भाऊणं, भाईणं; I. भाऊहि, भाईहि.

Similarly are declined the agent nouns derived from the old stems ending in अ e. g. दाऊ or दाइ ( skt. दातृ ) 'giver.'

Among feminines may be noted:—

12 माऊ or माइ ( skt. मातृ ) 'mother'.

	Singular	Plural
N.	माया ( skt. माता )	मायरो ( skt. मातरः )
A.c.	मायरं ( skt. मातरम् )	मायरो
D. G.	माऊए	माऊणं, माईणं
I.	माऊया	माऊहि, माईहि, मायाहि
L.	माऊए	माऊसु, माईसु

धूया ( skt. दुहित् ) 'daughter' is declined like साक्षा f., but धूयरं A.c. Sing. and धूयराहि I. Pl. also occur. Other examples are राय m. 'king' and आय or अप्य m. 'self'.

राय ( skt. राजन् ) m. 'king'.

Sing. N. राया ( skt. राजा ); V. रायं ( skt. राज्ञ् ), राया; A.c. रायं, रायाण्य ( skt. राजानम् ); D. G. राययो ( skt. राज्ञः ), रायसंस्; I.: रायणा, राया.

( skt. राजा ); Pl. N. V. रायाशो ( skt. राजानः ); Ac. रायाशो; D. G. राहंशं; I. राईहे; L. राहेसु.

आय or अप्प ( skt. आत्मन् ) m. ‘self’.

Sing. N. आया, अप्पा ( skt. आत्मा ); Ac. आयाणं, अप्पाणं, अताणं ( skt. आत्मानम् ); D. G. अप्पशो ( skt. आत्मनः ); I. अप्पण ( skt. आत्मना ); Ab. आयओ, अत्तओ ( skt. आत्मनः ); Pl. N. अप्पशो ( skt. आत्मानः ); Ac. अप्पशो ( skt. आत्मनः ).

- 13 Sometimes the irregular forms exist side by side with the regular ones. This occurs chiefly where old stems end in अत्, वत्, मत् or अस् e.g. वय ‘word’ has I. Sing. वएण and वयसा ( skt. वचसा ); तव ‘penance’ has I. Sing. तवेण and तवसा ( skt. तपसा ); तेय ‘heat’ has I. Sing. तेएण and तेयसा ( skt. तेजसा ); अरहंत ‘Arahanta’ has N. Sing. अरहंते and अरहं ( skt. अर्हत् ); भगवंत ‘venerable’ has G. Sing. भगवंतस्त and भगवशो ( skt. भगवतः ); I. Sing. भगवंतेण and भगवया ( skt. भगवता ) etc.

### Adjectives.

- 14 Adjectives are declined exactly like nouns. They take the same number, gender and case as the nouns which they qualify.

Comparative and Superlative degrees are expressed by adding -यर ( or -तर ) and -यम ( or -तम ) respectively to the positive e. g. अप्प ‘little’ अप्पयर ‘less’ अप्पयम ‘least’; दठ ‘strong’ दठयर ‘stronger’ दठयम ‘strongest’; मह ( skt. महत् ) ‘great’ महतर ‘greater’ महतम ‘greatest’. Some of the forms are the remnants of the old prototypes in ईयस् and इष्ट e. g. सेवं ( skt. भ्रेयस् ) ‘better’ कणिष्ठ ( skt. कनिष्ठ ) ‘youngest’, जेट्ट ( skt. उद्येष्ट ) ‘eldest’.

### Numerals.

- 15 Cardinal.

1 एग or एक used in the singular.

	N.	Ac.	D. G.	I.	L.	Ab.
Mas.	एगे	एगं	एगस्त	एगेणं	एगांसि	एगांष्ठा
Neu.	एग	"	"	"	"	"
Fem. :	एगा	"		एगाए		"

एवं when used in the plural means 'some', 'a few'.

	N. Ac.	D. G.	I.	L.	Ab.
Mas.	एगे	एगोहिंसि	एगोहि	एगेसु	एगोहिंतो

2 दो from 2—18 ( दो to अट्टारस ) are used in the plural.

	N. Ac.	D. G.	I.	L.	Ab.
Mas.	दो	दोणहं	दोहि	दोसु	दोहिंतो
Neut.	दोरिण	"	"	"	"
Fem.	दुवे	"	"	"	"

At the beginning of a compound दो often becomes दु or दे e.g. दोमासिय 'lasting for two months', दुगुण 'double' दुपय 'biped' देहंदिय 'having two sense-organs.'

3 ति

	N. Ac.	D. G.	I.	L.	Ab.
Mas.	तथो	तिरहं	*तिहि	तीसु	तीहिंतो
Neut.	तिरिण	"	"	"	"

At the beginning of a compound ति may become ते e. g. तिविह 'of three kinds', तेहंदिय 'having three sense-organs'.

4 चउ

	N. Ac.	D. G.	I.	L.	Ab.
Mas.	चत्तारो	चउरहं	चउहि	चउसु	चउहिंतो
"	चउरो	"	"	"	"
Neut.	चत्तारि	"	"	"	"

In compounds चउ becomes चउर before words beginning with a vowel, e.g. चउरिंदिय 'having four sense-organs'. But if the word begins with a consonant, the latter is doubled e. g. चउचिह 'of four kinds', चउप्पय 'quadruped'.

\* No regard is paid to the gender of दो, ति and चउ. The same form may be used for all genders, thus we find तिरिण पुरिसा 'three men' चत्ताराइ 'three forests'. Other numerals have a single form to represent all the genders.

\* Sometimes तीहि !

## 5 पञ्च

N. A.C.	D. G.	I.	L.	Ab.
पञ्च	पञ्चरहं	पञ्चद्वि	पञ्चसु	पञ्चहितो

Before other numerals पञ्च becomes पण or परण e. g. पणवीसं ‘twenty-five’, परणरस ‘fifteen’.

## 6 छ

In compounds छ becomes सट before words beginning with a vowel, e. g. सङ्गवी ‘knowing the six Angas (of the Vedas)’. A consonant after छ is doubled, e. g. छ्रमासिय ‘lasting for six months’, छहिसि, in six directions’.

7. सत्त; 8. अद्वृ; 9. नव; 10. दस; 11. एकारुस, इकारस; 12. दुवालस, बारस; 13. तेरस; 14. चोद्वास, चउद्वास; 15. पणरास; 16. सेतास; 17. सतरस; 18. अट्टारस; 19. एगूणवीस, अउणवीसह; 20. वीस, वीसह; 21. एगावीस; 22. बावीस; 23. तेवीस; 24. चउवीस; 25. पणवीस; 26. छ्रवीस; 27. सतवीस; 28. अट्टवीस; 29. अउणवीस; 30. तीस; 31. एकतीस; 32. बत्तीस; 33. तेत्तीस; 34. चोत्तीस; 35. पणतीस; 36. छ्रत्तीस; 37. सत्ततीस; 38. अट्टतीस, अट्टतीस; 39. एगूणचालीस; 40. चालीस; 41. एकचत्तालीस, इगयाल; 42. बायालीस; 43. तेयालीस; 44. चउयालीस, चोयालास; 45. पणयालीस; पणयाल; 46. छ्रयालीस; 47. सत्तचत्तालीस, सत्तचालीस, सायालीस; 48. अट्टचत्तालीस; अठयालीरा, अठयाल; 49. एगूणपरणस, अउणपरण; 50. पणपरण<sup>1</sup>; 51. एकावरण; 52. बावरण; 53. तेवरण; 54. चउवरण; 55. पणपरण; 56. छ्रपरण; 57. सत्तावरण; 58. अट्टावरण; 59. एगूणसट्टि, अउणट्टि; 60. सट्टि<sup>2</sup>; 61. इगसट्टि, एगट्टि; 62. बासट्टि, बावट्टि; 63. तेसट्टि, तेवट्टि; 64. चोसट्टि, चउबट्टि; 65. पणसट्टि, परणट्टि; 66. छ्रावट्टि; 67. सत्तसट्टि; 68. अट्टसट्टि, अदसट्टि; 69. एगूणसत्तरि, अउणत्तरि; 70. सत्तरि<sup>3</sup>; 71. एक-सत्तरि; 72. बावत्तरि; 73. तेवत्तरि; 74. चोवत्तरि; 75. पञ्चहत्तरि, परणत्तरि; 76. छ्रावत्तरि; 77. सत्तहत्तरि; 78. अट्टहत्तरि; 79. एगूणसीइ; 80. असीइ, 81. एकासीइ; 82. बासीइ; 83. तेसीइ, तेयासी; 84. चउरासीइ, चोरासी; 85. पंचासीइ; 86. छ्रत्तासीइ; 87. सत्तासीइ; 88. अट्टासीइ; 89. एगूणणउइ; 90. नउइ; 91. एकणउइ; 92. बाणउइ; 93. तेणउइ; 94. चउणउइ; 95. पंचणउइ; 96. छ्रणउइ; 97. सत्तणउइ 98. अट्टणउइ; 99. नवणउइ.

1. Changed to -परण or -वरण in other numerals.

2. May change to -अट्टि or वट्टि in other numerals.

3. May change to -हत्तरि or -वत्तरि in other numerals.

16 Rules for the use of Numerals.

1 is used in the Singular and in all the genders.

2-4 have different forms in different genders but no regard is paid to them.

5-18 are used in the Plural as Masculine and are declined exactly like पञ्च.

19-48 are used in the Singular. They are declined in the Nom. and Acc. like Neuters ending in अ and in other cases like Feminines ending in आ or ई.

49-58 are used in the Plural and are declined like पञ्च.

In cases other than the Nom. and Acc. they are often declined like Feminines ending in आ.

59-99 are used in the Singular. They are declined in the Nom. and Acc. like Neuters ending in इ, and in other cases like Feminines ending in ई.

17 Examples.

Nom. अष्टमस्स अंगस्स दस अङ्गमयणा परणता 'of the eighth Āṅga ten chapters have been preached.' नायाण एग्रूणवीसं अङ्गमयणा परणता 'of the Nāyās nineteen chapters have been preached.' तेवीसं तिथ्यरा '(there had been) twenty-three Tīrthaṅkaras'. सुमिणसथेसु बायालीसं सुमिणा,तीसं महासुमिणा, बावत्तरि सज्वसुमिणा परणता' in books on dreams forty-two dreams, thirty great dreams, twenty-two dreams in all, have been preached.

Acc. अरहंतमायरे चउदस भद्रामुमिणे पासिता पदिङुभांति 'mothers of Arhantas awake after seeing fourteen great dreams, वीसं वासाइं सामरणपरियागं पाउणिता 'after leading the life of a Sāmaṇa for twenty years.' अरहंते कितइस्वामि चउर्वीसं दि केवलौ 'I shall praise the Arhantas, all the twenty-four Kēvalin.' बावत्तरि कल्याणो सिखाविता 'having taught the seventy-two arts.'

Instn. एकवीसाए तिथ्यरोहि by twenty-one Tīrthaṅkaras. पञ्चहत्तरीए वासेहि छसेहि 'seventy-five years being left'.

**Gen.** दुवालसरणं भारियाणं 'of twelve wives' पश्चिं चउद्दसणं महासुमिषाणं, of these fourteen great dreams.' बत्तीसाए देवाणं 'of thirty-two gods.'

**Lec.** तीसाए वास सहस्रेसु 'in thirty thousands of years.' बावीसाए परीसहेसु 'in twenty-two sufferings'.

18

### Higher numerals.

100 सय used as Neut. or Mas. 200 दो सयाइं, दो सया; 300 तिश्य सयाइं; 400 चत्तारि सयाइं.

1000 दस सया, सहस्र Mas. or Neut. साहस्री Fem. 2000 दो सहस्राइं, दुबे सहस्रे. 14000 Samanas चौहसमणसाहस्रीओ. 36,000 Nuns. छत्तीसं अजिजया साहस्रीओ.

108 अट्टुसय; 1008 अट्टुसहस्र; 30, 249 Yojanas तीसं च सहस्राइं, दोरिण य अड्यापण्ये जोयणसप. 1721 Yojanas सत्तरस एकवर्षिसे जोयणसप. 430 Yojanas चत्तारितीसे जोयणसप.

100,000, सयसहस्र (Neut., Mas.) सयसाहस्री Fem. Sometimes लक्ख N. 1,000,000 दस सयसहस्राइं.

10,000,000 कोडि Fem. 100,000,000,000,000 कोडाकोडि Fem.

19

### Ordinals.

1 पठम, पढमिल्ल; 2 बिहृय, बीय, दोच्च; 3 तहृय तच्च; 4 चउत्थ; 5 पंचम, 6 छट्ट; 7 सत्तम; 8 अट्टम; 9 नवम; 10 दसम; 11 एकारसम; 12 बावरसम, दुवालसम; 19 एगूणवीसइम, एगूणवीसम; 20 बीसइम, बीस; 23 तेवीसइम; 24 चउनीसइम; 30 तीसइम, तीस 40 चत्तारोसइम; 49 अड्यापण्य; 50 पञ्चपञ्चइम; 72 बावत्तर; 80 आसीइम; 84 चउरासीइम; 97 सत्ताणउय.

**Note.** 1. Ordinals are generally formed by adding म to the cardinals.

2 Their Feminine is formed by adding ई or आ. पठम has always. पठमा.

20

### Numerals increased by half.

half अहु, अद्;  $\frac{1}{2}$  दिवहु 2½ अड्हाइज्ज; 3½ अड्हुट्ट; 4½ अद्ध पंचम 5½ अद्धष्टट्ट;  
6½ अद्दसरसम 7½ अद्धष्टुम 8½ अद्धनवम.

Note. A number increased by half is generally denoted by adding the next higher ordinal to अद्, दिव्यु=Skt. द्विकार्ध or द्वितीयार्ध.

21

### Multiplicatives.

1 सहं 'once' 2 दुस्रुतो, दोष्वं 'twice' 3 तिखुतो, तिक्ष्वुतो, तत्वं 'thrice' 7 सत्त्वुतो 'seven times' 3×7 तिसत्त्वुतो 'twenty-one times' अयंत्वुतो 'infinitely, ad infinitum.'

### Pronouns.

22

First person.

	Singular.	Plural
N.	अहं, हं	अहे, वयं
A.c.	ममं, मं	अमेह, यो
D. G.	मम, ममं, मे	अमहं, यां
I.	मण्	अमहेहि
L.	[ ममंसि, मह ]	अमहेसु
Ab.	[ ममाहितो ]	[ अमहेहितो ]

23

Second person

	Singular	Plural
N.	तुमं, तं	तुम्हे, तुम्हं
A.c.	तुमं	तुम्हे, भे
D. G.	तव, ते, तुम्ह	तुम्हं, तुम्हं, भे, वो,
I.	तुमे	तुम्हेहि
L.	तुमंसि, [ तह ]	[ तुम्हेसु ]
Ab.	[ तुमाहितो ]	[ तुम्हेहितो ]

24

Third person

	Singular:		
	Mas.	Neut.	Fem.
N.	से, सो	तं	सा
Ac.		तं	तं

D. G.	तस्स, से	तीसे
I.	तेणं	तीएं, ताएं
L.	तंसि, तंमि	तीसं
Ab.	ताश्चो	ताश्चो

## Plural.

	Mas.	Neut.	Fem.
N. Ac.	ते	तर्वं, ताणि	ताश्चो
	<hr/>		
D. G.	तंसि	तासि	
I.	तोहं	ताहं	
L.	तेसु	तामु	
Ab.	[ तोहिंतो ]		ताहिंतो

25      Demonstratives 1. एय (Skt. एतद्) 'this', 'that'.

## Singular

	Mas.	Neut.	Fem.
N.	एसे, एसो	एयं	एसा
	<hr/>		
Ac.	एयं	एयं	
D. G.	एयस्स	एयाएं	
I.	एण्डां	एयाएं	
L.	एयंसि, एयंमि	एयाएं	
Ab.	एयाश्चो		एयाश्चो

## Plural

	Mas.	Neut.	Fem.
N. Ac.	एप्	एयाइं	एयाश्चो
	<hr/>		
D. G.	एप्सि	एयासि	
I.	एप्हिं	एयाहं	
L.	एप्सु	एयासु	
Ab.	[ एप्हिंतो ]		[ एयाहिंतो ]

## 2. इम् ( Skt. इदम् ) 'this.'

## Singular

	Mas.	Neut.	Fem.
N.	अयं, इमे	इमं, इदं	इयं इमा
Ac.	इमं	इमं, इदं	इमं
D. G.		इमस्स, अस्स	इमीसे, इमाए
I.		इमेण	इमाए
L.		इमंसि, इमिमि आस्सि	इमीसे इमाए
Ab.		इमाओ	इमाओ

## Plural

	Mas.	Neut.	Fem.
N. Ac.	इमे	इमाइं	इमाओ
D. G.		इमेसि	इमासि
I.		इमेहि	इमाहि
L.		इमेशु	इमाशु
Ab.		[ इमेहितो ]	[ इमाहितो ]

## 26 Interrogative. क ( Skt. किम् ) 'who?' 'which'?

## Singular.

	Mas.	Neut.	Fem.
N.	के	कं	का
Ac.		कं	कं
D. G.		कस्स	कीसे
I.		केण	कए
L.		कंसि, [ कंभि, कर्सि ]	कीसे
Ab.		काओ	काओ

## Plural.

	Mas.	Neut.	Fem.
N. Ac.	के	काइं	काओ

D. G.	कोसि	कासि
I.	केहि	काहिं
L.	केसु	कासु
Ab.	[ केहेतो ]	[ काहेतो ]

27. Relative. ज ( Skt. य ) ' who ' ' which '.

Declined exactly like the Interrogative ' क '.

### 28 Other pronouns.

अरण्य ' other ', अबर ' other ' एग ( pl. ) ' some ', कपर ' which ' पर ' other ' सब ' all ' etc. are declined like ' क '.

29

### Sandhi.

In Ardha-Māgadhi there is no room for the Visarga and Consonant Sandhi, for the former does not exist in it and the latter never stands alone at the end of a word. From among the Vowel Sandhi, the following are the chief types:—

(i) अ + अ = आ

जीव + अजीव = जीवाजीव ' Jiva and Ajiva '.

य + अवि = यावि ' and also '.

(ii) अ + अ followed by a Conjunct Consonant\* = अ

मरण्य + अंत = मरण्यंत ' lasting till death ', ' fatal '.

उत्तर + अहु = उत्तरहु ' northern half '.

न + आरथि = नारथि ' it is not '.

(iii) अ + इ = ए

राय ( राअ ) + इसि = राएसि ' a royal sage '.

महा + इसि = महैसि ' the great sage '.

---

\* Anūsvāra must be regarded as a consonant.

(iv) अ + ह followed by a Conjunct Consonant = ह

देव + हंद् देवंद् 'the lord of gods'.

महा + हङ्गि = महिङ्गि 'great glory'.

(v) अ + उ = ओ

सीय ( सीअ ) + उदग = सीओंदग 'cold water'.

समण + उवासग = समणोवासग 'Samana's servant', 'a Shrāvaka'.

(vi) अ + उ followed by a conjunct consonant = उ

पुरिस + उत्तम = पुरिसुनम 'the best among men', 'an epithet of the Jinas'.

जिरण + उज्जाण = जिरुज्जाण 'a ruined old garden'.

(vii) अ + ए = ए

इह + एव = इहेव 'even here'

(viii) अ + ओ = ओ

भक्त्र + ओयण = भक्तोयण pastry and boiled-rice'.

(ix) An anusvāra followed by a vowel is changed into म e. g.

धम्मं + आइच्छह=धम्ममाइच्छह 'he declares the law', फलं इच्छह=फलामिच्छह 'he desires the fruit'.

(x) In compound, an anusvāra is often inserted when the next member begins with a vowel. e. g. अरण + अरण = अरणमरण 'one another' दीह + अद्वा = दीहमद्वा 'having a long journey', 'distant', 'vast', गौण + आह = गौणमाह 'ox' etc.

### Verb,

30 A verb in Ardha-Māgadhi is conjugated for persons, number, \* tense, mood and voice. There are three persons, three tenses, two moods ÷ and two voices.

\* Present Past and Future with their half unctions.

÷ Imperative denoting order or command and Potential denoting precept, authority or choice.

The verbal roots are divided into two groups—the पास group and the कर group—according as the terminations are directly added to the root, or an additional ए is inserted between the root and some of the terminations \*.

31

### Present Tense (Active).

#### Terminations.

	III.	II.	I.
Singular	इ	सि	आमि
Plural	अंति	ह	आमो

Note. Sandhi rules are observed while adding terminations to the root.

Exceptions. 1 इ ( III Sing. ) does not undergo Sandhi.  
2 In कर roots अंति ( III pl. ) loses its अ, and आमि ( I Sing. ) and आमो ( I pl. ) their आ.

पास 'to see'		कर 'to do'	
Singular	Plural	Singular	Plural
III पासइ	पासंति	करेह *	करेंति
II पाससि	पासह	करेसि	करेह
I पासामि	पासामो	करमि	करमो

#### Irregular.

अस्थि	He, she, it is	• संति	they are
असि, सि •	Thou art	थ	you are
झासि, मि	I am	मो	we are

The above are derived from the corresponding forms of the Sanskrit root अस् 'to be'.

\*Especially the Present and Imperative terminations.

## Past Tense ( Active ).

## Terminations.

Sing. III, II, I इत्था.

Pl. III, II, I इतु

Sing. III, II, I पासित्था	करेत्था or करित्था
Pl. III, II, I पासितु	करेतु or करितु

Irregular:—व्याप्ति from व्य 'to speak' and अकासि from कर 'to do' are used for all numbers and persons.

## Future Tense ( Active ).

## Terminations.

III.

II.

I.

Sing.	इस्त्रै	इस्त्रिसि	इस्त्रामि.
-------	---------	-----------	------------

Pl.	इस्तंति	इस्त्रह	इस्त्रामो.
-----	---------	---------	------------

III. पासिस्त्रै	पासिस्त्रंति	करिस्त्रै	करिस्त्रंति
-----------------	--------------	-----------	-------------

II. पासिस्त्रामि	पासिस्त्रह	करिस्त्रामि	करिस्त्रह
------------------	------------	-------------	-----------

I. पासिस्त्रामि	पासिस्त्रामो	करिस्त्रामि	करिस्त्रामो
-----------------	--------------	-------------	-------------

Besides this, there is another way of forming the future viz by substituting हि for त्र in the terminations. कर is changed to का before हि,

III. पासिहिए	पासिहिति	काहिए or काही	काहिति *
--------------	----------	---------------	----------

II. पासिहिसि	पासिहिह	काहिसि	काहिह
--------------	---------	--------	-------

I. पासिहिमि	पासिहिमो	काहिमि	काहिमो
-------------	----------	--------	--------

Note. In the III Sing. ही + ए often contract into ही as in काही 'he will do', नाही 'he will know'.

Irregular, I Sing. वोच्छं from व्य 'to speak', करिस्तं from कर 'to do'.

## Imperative Mood.

## Terminations.

III

II

I

Sing.

उ

माहि

आमि

Pl.

अन्तु

ह

आमो

III पासङ्ग	पासंतु	करेतु	करेतु
II पास, पासाहि	पासह	करेहि	करेह
I पासामि	पासामो	करेमि	करेमो

Irregular. (1) II Sing. sometimes ends in यु e. g. सरयु from सर 'to remember', कहयु from कह 'to tell'.

(2) अस्यु III Sing. corresponds to Sanskrit अस्तु from अस् 'to be'.

35

### Potential Mood.

Terminations.

III

II

I

Sing.	एजा	एजा, °सि, °हि	एजा, °मि
Pl.	एजा	एजाह	एजाम

Singular

Plural

III पासेजा	पासेजा
II पासेजा, पासेजासि, पासेजाहि	पासेजाह
I पासेजा, पासेजामि	पासेजाम

Note. (1) No distinction is made between the roots of पास and कर groups.

(2) The Vowel before जा is short ए for which इ or उ are indiscriminately found in MSS.

Another way of forming the Potential Mood is to add ए to the root for all numbers and persons e.g. III, II, I Sing, and Pl. पासे, करे etc.

Irregular. कुर्जा III Sing. ( Skt. कुर्यात् ) from कर 'to do,' सिया ( Skt. स्यात् ) from the Sanskrit root अस् 'to be'.

36

### Causals and Denominatives.

Note. These roots are generally conjugated like those of कर group.

( i ) Causals are formed by adding वा to the roots that end in आ e. g. आ 'to stand'; आइ 'he stands', आवैइ 'he causes to stand', रहा 'to bathe'. रहाइ 'he bathes', रहावैइ 'he causes to bathe.'

( ii ) If a root ends in short अ, the short अ is lengthened and वा added to it e. g. कर 'to do'; करेइ 'he does', करावैइ 'he causes to do'; कप्प 'to cut'. कप्पइ 'he cuts', कप्पावैइ 'he causes to cut'.

( iii ) In some roots the medial short अ is lengthened without adding वा e. g. मर 'to die', मरइ 'he dies' मारेइ 'he kills', फट 'to fall, to lie', पड़इ 'he lies', पाड़ेइ 'he lays'.

( iv ) In Demonstratives, the nouns themselves are used as verbs. Sometimes वा is inserted. रहायेइ 'he bathes' (रहाणा 'bath') उच्चारेइ 'he eases himself' (उच्चार 'stools'), पासवयेइ 'he makes water' (पासवण्ण 'urine'), सहावेइ 'he calls' (सह 'sound').

### Passive Voice.

As a general rule, the Passive is formed by inserting इज्ज between the root and the termination e. g. सुणइ 'he hears' सुणिज्जइ 'he is heard'; पुछइ 'he asks' पुछिज्जइ 'he is asked'; कहइ 'he says', कहिज्जइ 'he is said.'

### Irregular.

( i ) लब्धइ (Skt. लभ्यते) 'he is found', मुक्तइ (Skt. मुक्ष्यते) 'he is released', मिज्जइ (Skt. भिद्धते) 'he is separated', नज्जइ (Skt. ज्ञायते) 'it is known' etc.

( ii ) कीर is sometimes used instead of करिज्ज e.g. कीरइ 'it is done.'

### Participles.

( i ) Present Active Participle is formed by adding अंत or माण्ण to the root, e.g. पसित, पासमाण 'seeing'; बिट्टत, बिट्टमाण 'staying'; चरंत, चरमाण 'moving'.

( ii ) Present Passive Participle is formed by adding अत् or माण् to the Passive form of the root e. g. करिज्जंत, करिज्जमाण् ‘being done,’ दिज्जंत, दिज्जमाण् ‘being given.’

( iii ) Past Active Participle is formed by adding वंत to the Past Passive Participle e. g. रक्षित्यवंत ‘( he ) protected’ हसियवंत ‘( he ) laughed’. Its use is extremely rare in Ardha-Māgadhi.

( iv ) Past Passive Participle is generally formed by adding इय् to the root e. g. रक्षित् ‘protected’ पुच्छिय् ‘asked’ चलिय् ‘shaken.’

### Irregular.

गय ( Skt. गत् ) ‘gone’ कठ ( Skt. कृत् ) ‘done’ मुय, मड, ( Skt. मृत् ) ‘dead’ मुत्त ( Skt. मुक्त् ) ‘released’ etc.

( v ) Future Active Participle. No examples have been met in the scriptures.

( vi ) Future Passive participle ( Necessitative ) is formed ( a ) by adding शिउज् to the root or ( b ) by adding व्व to the Past Passive Participle e. g. करण्यिउज् ‘ought to be done’ वदण्यिउज् ‘ought to be greeted, respectable’ पासियव्व ‘ought to be seen’, जाणियव्व ‘ought to be known, ‘knowable’ पुच्छियव्व ‘ought to be asked.’

### Irregular.

कायव्व ‘ought to be done’ ऐज् ‘ought to be drunk, drinkable’.

### Gerund.

Gerundial Participle is formed in many ways. The chief ones are noted below:-

( i ) By adding इत्ता to the root e. g. पासित्ता ‘having seen’ करित्ता ‘having done’ गच्छित्ता ‘having gone.’

( ii ) By adding यं to form No. 1 e. g. पासित्तायं ‘having seen, चहृत्तायं having left.’

( iii ) By adding ऊण् or इऊण् to the root e.g. नात्तूण् ‘having known’ दात्तूण् ‘having given’ बंधित्तूण् ‘having bound’ पासित्तूण् ‘having seen.’

( iv ) By adding इतु to the root e. g. धितु 'having bound' जाणितु 'having known.'

### Irregular.

- ( a ) कहु 'having done' साहहु 'having removed,'
- ( b ) किच्चा (Skt. कृत्वा) 'having done', नज्जा (Skt. ज्ञात्वा) 'having known', चिरच्चा (Skt. स्यक्त्वां) 'having left'.
- ( c ) अभिगम्म (Skt. अभिगम्य) 'having known', निसम्म (Skt. निशात्म) 'having heard'.
- ( d ) परिज्ञाय (Skt. परिज्ञाय) 'having known', समादाय (Skt.) 'having taken'.

40

### Infinitive.

The Infinitive is generally formed by adding इत्ते to the root e. g. करित्ते 'to do', गच्छित्ते 'to go', पाउद्भवित्ते 'to appear'.

Sometimes उं or हउं is added to the root e. g. दाउं 'to give', काउं 'to do', पासिउं 'to see', गिरिहउं 'to take'.

41

### Compounds.

Two words joined together without using the termination to express the relation between them form a compound. Compounds are treated like single words. They may be divided into three classes according to their use as, a noun, an adjective or an adverb.

42

A noun compound may be formed in the following ways:—

- ( a ) By putting together two nouns which would have required the copulative and ( च or य ) to express their relation if used separately. Such compounds are generally used in the Plural, e. g. जीवाजीवा (जीवे य अजीवे य) 'soul and non-soul', भरपसूयं ( जरा य

पश्य=नरपश्यो ते सिं ) 'of men and animals', गाम नयरेसु ( गामेसु च नयरेसु य ) 'in villages and towns'.<sup>1</sup>

- ( b ) By putting together two nouns of which the first would have taken an oblique case\* if used separately e. g. विसमरण ( विसेण मरणं ) 'death by taking poison', सुहृष्टमे ( सुहाए ध्रम्मे ) 'virtuous actions for happiness', चोरभयं ( चोराद्यो भयं ) 'fear from a thief', पुण्यफलं ( पुण्यस्त फलं ) 'result of good deeds' गिहवासे ( गिहंसि वासे ) 'residence at home'.<sup>2</sup>
- ( c ) By putting together an adjective and a noun, the latter being qualified by the former e. g. नीलुप्पलं ( नीलं उप्पलं ) 'blue lotus', सुभक्षमाइं ( सुभाइं कम्माइं ) 'good deeds'.<sup>3</sup>

43 An adjective compound may be formed:-

- ( a ) By putting together two adjectives e. g. सेयरत्ते ( सेण रत्ते ) 'white and red'.<sup>2</sup>
- ( b ) By putting together a noun which would have taken an oblique case if used separately, and an adjective e. g. गिहं गए ( गिहं गए ) 'gone home' संजम संजुते ( संजमेण संजुते ) 'possessed of restraint', रुक्षपदिष् ( रुक्षाद्यो पदिष् ) 'fallen from a tree', गायकुसले ( गायंसि कुसले ) 'skilled in singing'.<sup>3</sup>
- ( c ) By putting together two nouns, or an adjective and a noun, the relation between which would have been expressed by an oblique case of the relative pronoun 'ज' if used separately e. g. जियकोहे ( जिएकोहे जेणं ) 'that has overcome wrath' पांचदिए ( पांच इदियाइं जस्त ) 'who has five sense-organs'.<sup>4</sup>

44 An adverb compound is formed by adding an adverbial preposition to a noun e. g. आङ्गंगि 'along the Ganges', आङ्गुष्ठिं 'in due order'.<sup>5</sup> Such compounds are rarely met with.

<sup>1,2</sup>Sanskrit name for these compounds is द्वन्द्व.

\*Any case except the Nominative and the Vocative.

<sup>3</sup>Sanskrit name for such compounds is तत्पुरुष.

<sup>1,2</sup> Sanskrit कर्म धारय.

<sup>4</sup> Sanskrit वदुभीहि.

<sup>3</sup> Sanskrit तत्पुरुष.

<sup>5</sup> Sanskrit अन्यथीभाव.

- 45 A compound may be further joined with another compound, a noun or an adjective. e. g. पञ्चिदियजीवा ( पञ्चिदिय adj. comp.+जीव ) 'souls having five sense-organs', सत्थकोसहस्रे ( सत्थकोस noun com.+ हस्र ) 'having a surgical box in hand'.

### Suffixes.

- 46 To form a feminine आ or ई is added to words ending in अ e. g. अय 'he goat', अया 'she goat., दारय 'male child', दारिया 'female child' सुंजमाणा m. सुंजमाणी f. 'enjoying', पंचम m. पंचमी f. 'fifth',
- 47 To form an abstract त्त or त्तण is added to the word e. g. देव 'god' देवत 'godhood', पुत्र 'son' पुत्रत 'sonship', आश्रिय 'preceptor', आश्रियत or आश्रित्यत्तण 'preceptor ship', तकर 'thief', तकरत or तकरत्तण thievishness,
- 48 To form a possessive वंत or मंत is added to the noun e. g. धन्य 'wealth' धन्यवंत 'wealthy', गुण 'merit' गुणवंत 'possessing merits' विज्ञा 'knowledge' विज्ञामंत 'learned', मह 'wisdom', महमंत 'wise.'
- 49 To form an adjective इल्ल is added to the noun e. g. दाहिण 'south' दाहिणिल्ल 'southern' 'right', गाम 'village' गामिल्ल or गामेल्ल 'vulgar', 'rural'.

### Syntax.

In prose the words are arranged much in the same order in Hindi, Punjabi or Gujrati e. g. से ये नरगांधो उवष्टिता सुपृष्ठपुरे नये गोणताए पच्चायाहि 'returning from hell, he will be born as an ox in the town of Supäitthapura', अहं पिंचासियु उरिसाणं श्रटा कृवांशो सर्विष्णु जलं कहुआमे 'I draw cold water from the well for the sake of thirsty persons.'

- 51 In a verse, however, the words may be put in any order e. g. सुणेह मे एगगमणा, मग्म जिणेहि देसिय 'O ye ! Listen heedfully of me, the law preached by the Jinas.



# GRAMMATICAL ABBREVIATIONS AND THEIR EQUIVALENTS.

## कोषाद्वार्ता-व्याकरणानां संकेतो ।

---

पु०	पुर्णिंग.
स्त्री०	स्त्रीतिंग.
न०	नपुंसकलिंग
पु० म०	पुर्णिंग अने नपुंसकलिंग.
पु० स्त्री०	पुर्णिंग अने स्त्रीतिंग.
त्रिः	त्रिलिंग-पुर्णिंग, स्त्रीतिंग अने नपुंसकलिंग.
ह० क० अ०	गम्यस्थाने कृदन्त अवधय.
ह० क० अ०	हे वर्त कृदन्त अवधय.
व० क० अ०	वर्तमान कृदन्त त्रिलिंग.
अ०	अथाच
था० I. II. I, II.	प्रातुने गहेलो गणा श्रीजो गणा अथवा उभयगणा
था० था० ,	नाम थानु , , ,
विं०	विष्यधे
आ०	आऽत्यधे.
भूत०	भूतवाक्त,
भविं०	भविष्यकाल.
सं० क०	संवधार्थ कृदन्त.
ह० क०	हेत्वधर्थ कृदन्त
व० क०	वर्तमान कृदन्त.
क० वा०	कर्मस्ति वाच्य.
स्त्रि०	स्त्रिजन्त.
प्र० ए० ब०	प्रथमा विभक्तिनु एक वचन, बहुवचन.
• हिं० ए० ब०	हितायानु एक वचन, बहुवचन.
तृ० ए० ब०	तृतीयानु एक वचन, बहुवचन.
पृ० ए० ब०	पञ्चमीनु एक वचन, बहुवचन.
य० ए० ब०	पठानु एक वचन, बहुवचन.
०स० ए० ब०	सप्तमीनु एक वचन, बहुवचन.

# A GUIDE TO TRANSLITERATION

---

## Vowels.

अ=A	उ=U	ए=Li	ओ=O
आ=Ā	ऊ=Ū	ऐ=Lli	औ=Au
इ=I	ऋ=Ri	ऐ=E	◌=M̄
ई=Ī	ऋ=Rī	ऐ=Ai	◌=H̄

## Consonants.

क-Ka	त-Ta	प-Pa	ष-Sa
ख-Kha	थ-Tha	फ-Pha	स-Sa
ग-Ga	ঢ-Da	ব-Ba	হ-Ha
ঘ-Gha	ঢঢ-Dha	বব-Bha	ক্ষ-Kṣa
ঞ-Na	ণ-Na	ম-Ma	ঝ-Jña
চ-Cha	ত-Ta	য-Ya	
ছ-Chha	ঘ-Tha	ৰ-Ra	
জ-Ja	দ-Da	ল-La	
ঝ-Jha	ঘ-Dha	ব-Va	
ঞ-Na	ন-Na	শ-Sa	

## PREFACE.

---

It is an established fact that Prākrit had once been the chief language in India, and religious and important literary works of different castes and creeds have been written in this language. Such monumental works prove beyond doubt the lofty ideals and brilliant progress of India in olden days. Archaeologists and scholars have discovered its outstanding and chosen works from time to time and have appreciated the high ideals with which the language is well neigh saturated. Its richness in thought and classical literature has thus attracted the attention of scholars both in the East and the West and has made them discover its hidden literature from time to time with increasing zeal and devotion. It may safely be said that the works have a shining flush of their own and have awakened the curiosity of men of letters more and more with the advance of research work. The importance of its literature has carved its way for being prescribed in the different Eastern and Western Universities. The greatness of ancient India in general and of Jainism in particular lies in the depths of this language. It is the mother of almost all Āryan languages in India and due to its resourcefulness is the key note to the real comprehension of other languages and dialects, once prevalent in India and now in some form or other connected with its vast literature. This should speak for the importance of the language in the annals of India and her people. That there should be no dictionary on scientific lines for such an all-absorbing literature is in itself pitiable.

It is an admitted fact that no language can be rightly understood without its grammar and dictionary. This speaks for the pressing necessity of compiling these volumes. Ardha-Māgadhi is the one important offshoot of this great language as is evident from the fact that the great Tirthākara Mahāvīra of enlightened intelligence preached the sacred tenets of the great religion in this form of Prākrit language. As has already been remarked, no

dictionary on scientific lines exists for throwing sufficient light on even the most important expressions, used by these master minds of old. In the existing literature, only two small dictionaries are seen and these too are rare. Their names are Pāīalachhīnāmamālā and Desināmamālā.

Both are on metrical lines and not very useful, for the general public or for scholars of modern taste and type.

With the researches made by scholars, it has now become a matter of prime importance to prepare comprehensive dictionaries, elucidating the important terms, used in the different branches and offshoots of the great Prākrit which stands in need of the close and unceasing attention of scholars and general readers without whose active co-operation no hope can exist for the revival of the great literature, reflecting India and her people in the real light of civilization. The importance of a comprehensive dictionary on scientific lines is not unknown to scholars. In the absence of such a dictionary, confusion in thought is unavoidable and it is for this confusion that the great author of the Mahābhārata, the renowned Vyās of old remarked "Veda is afraid of a man of little learning, lest he might harm it" (by putting wrong interpretation on its contents). From what is written above it will be clear that the glorious history of ancient India is lying in the dark depths of obscurity and no history of the civilization of the country in the past can be brought together without compilation of dictionaries, explaining the real sense of the important terminology of the literature. The whole of Jaina literature especially the thirty-two Āgamas (the sacred scriptures of the Jainas) is written in the Ardha-Māgadhi form of Prākrit. While studying these sacred texts, my father's attention was drawn to the English translation of some of these works by Western scholars, who with all their keen intelligence, vast erudition and admirable love for literature, have not been able to avoid putting in wrong interpretations because of their ignorance of the definite significance of technical terms due to the lack of a real dictionary. Even the great German scholar of Jaina literature, the learned Professor Hermān Jacobi of

established repute, " Jaina Ratna Divākara," the sun of Jaina religion has not been able to escape misunderstanding, creating a great disturbance among the Jaina public because of his wrong interpretations here and there, in the absence of a really helpful dictionary. Thus a great harm has been done to the religious and literary ancient Prākrit works, the literature is not yet safe and free from being misinterpreted. Such events and circumstances attracted the attention of my revered father and made him realise the absolute necessity of the preparation of one such dictionary, enabling scholars to understand the right application of words and their real significance. Accordingly, in 1910 A. D. my father began the work of collecting and arranging systematically the words, used in the Jaina Sūtras and could with his incessant efforts collect about fourteen thousand words in a short time. On this occasion the reputed Italian scholar, Dr. Suali, expressed his intention of preparing a Prākrit dictionary to the Śvetāmbara Jaina Conference, a fact, which pleased my father Mr. Kesarichandji Bhandāri who made over this list of words to the said conference for being forwarded to Dr. Suali with the view that the great scholar's work would be facilitated to an extent at least, by this collection and would be best arranged by the well-known scholar with his keen intelligence and ability. Unfortunately in the meantime the great war broke out in Europe and on account of this and such other various reasons, Dr. Suali could not undertake the work. At my father's request the Śvetāmbara Sthānakvāsi Jaina Conference promised to help the preparation and publication of this dictionary and happily he took up the work, which was no easy task in the absence of help from scholars and such other important equipments. The great work thus could not make a fast progress and was a source of great anxiety to my father, who for his pressing work, was at this stage called upon to go to Bombay, where he could luckily chance to see the great saint and scholar Śatāvadhāni Muni Sri Ratnachandrajī Mahārāj. Eagerly conscious of the great task before him, my father lost no time in availing himself of this happy occasion and he requested and appealed to the great sage to accept the work. In keeping with the magnanimity of heart and the great devotion

to the sacred cause of literature, the learned sage accepted the task and by his mighty learning and admirable exertion, has been able to finish up so accurately and admirably the work within the short space of only three years.

### Sketch of the life of the great sage.

The great sage, to whose active and constant efforts these volumes owe their compilation was born on Thursday the 12th of Vaishākha Śukla Samvat 1936 in the village of Bhārorā (Kathiawār). His mother's name was Laxmibai and his father was known as Virpāl Shāh. After finishing the six books (complete vernacular course) of Gujarātī language, he, according to the family tradition, was initiated into the commercial work in the twelfth year of his life. In this connection he went to places like Bombay, Belāpur (south) Sanāvad (C. I.) with his elder brother for trading purposes. He was married in his thirteenth year. Hardly had three years of matrimony rolled on when his dear wife left this transitory world for ever, leaving her only daughter behind. This bereavement tended to intensify the pre-existing and growing desire for seclusion from worldly ties and instead of grief and sorrow, gave him an occasion to qualify himself much more for the sacred Mission of his future life. Accordingly Pandit Śri Ratnachandrajī Mahārāj learnt a good deal of the religious principles of ascetic life and received instructions from the great sage Śri Gulabchandrajī Swāmī of Limbdi (Kathiawār). Fortunately his father and his elder brother, though following the commercial occupation, had in themselves a religious turn of mind and did not, as is not unusual, raise obstacles in his way to asceticism. The affection of a mother, however, is invariably unbounded, and she for her sublime affection, could not easily permit her young son to sever all connection with household affairs. Thus for a year more he led the life of a layman, but blessed was he all through to conduct his studies in Daśavaikālika, Uttarādhyayana, Thokadas etc. The deep study of the sacred and philosophic works enlightened his vision all the more and in his seventeenth year he became an avowed disciple of the Limbdi sage. As his extremely keen intelligence would have it, he lost not a minute and just began his Sanskrit

studies, finishing the Siddhānta Chandrikā, Siddhānta Kaumudī, Tatva Bodhinī, Manoramā, Pañcha Kāvyas (all the five important literary works), works on Figures, Prosody, Logic and Dramaturgy, in all of which he became an accomplished scholar very soon. This was followed by his literary pursuits of the different systems of philosophy, Sāṅkhya and Pātañjal specially. Thus the period of thirteenth to twentyfifth year of his life was devoted entirely to literary pursuits, followed by discourses and sermons in Saṃvat 1966. Due to his extraordinary talents he can carry on one hundred discourses at one and the same time, a fact to which testimony is borne by personages like Sir Nārāyaṇ Chandavarkar of Bombay, who was much pleased to admit and admire the great capacity, learning and intelligence of this great sage, endowed with the rare power of discrimination, tranquillity of mind, absence of vanity, energetic enthusiasm and indefatigable exertion. He is an advanced writer and a poet, author of several Sanskrit and Gujarātī works of established repute, of which the following may be noted:—

Kartavyakaumudi, Bhāvanīśataka, Life of Ajārāmarajī Swāmī, Thirty-five verses etc. Many of his articles have been published in several Gujarātī journals. All these have been well put together in Ratna Gadya Mālikā. The present dictionary is the product of the efforts of this learned sage, to whom best thanks are due from men of literary tastes.

### Utility of the Dictionary.

It is a happy fact, indeed, to see the growing number of readers of Jaina literature not only in India, but also in countries abroad like England, Italy, Germany, America, France etc. To learn Jaina literature as also to carry on research work, scholars and historians have to study Ardha-Māgadhi. To such gentlemen these volumes, it is hoped, will be useful as a constant companion. To those interested in Philology and Etymologies of Āryan languages and dialects, like Hindi, Gujarātī, Bēngālī, and Marāthī as also to those interested in a comparative study of these and such other languages, these volumes, it is hoped, will be found very useful and instructive. These volumes, will again be helpful to those interested in

the development of modern Indian languages, and to scholars of advanced literary tastes. Besides Sanskrit, English, Gujarati and Hindi languages have also been used in explaining the words in order that the volumes may be helpful to gentlemen, conversant with different important languages in India and abroad. It is now an admitted fact that Hindi is the Lingua Franca of India and English is the one common language for the vast British Empire and other civilised countries. This dictionary explains the meanings of important terms describing the high ideals and advanced civilization of ancient India. A large number of quotations from standard works have been inserted to signify the exact connotation and use of the particular word. These quotations add considerably to our knowledge and mental pleasure. Derivations of nouns and verbs along with their equivalents have also been discussed herein. Lest some words might yet remain unexplained and unelucidated frequent use has been made of illustrations, showing the form and nature of a particular thing, signified by a word. Technical words have been written in English form with proper marks, explaining their clear pronunciation, which may be of great use to Western scholars. Thus every effort has been made to make these volumes as good and useful as possible by using the five languages. The meanings given herein do not illustrate or explain a particular creed or religion, but are clear, free from all prejudices and admittedly correct on all hands. Such a dictionary then sees the light of the day, due to the perseverance and self-sacrificing nature of a learned propounder of Jainism. I must specially invite the attention of my Jaina brethren, following a form of creed other than that of Śvetāmbara Sthānakwāsi Jainas to the fact that the volumes are expected to be useful not merely to Śvetāmbara Sthānakawāsi Jainas but also to the Digambara Jainas equally.

### Difficulties in the compilation of this dictionary

It is a well-known fact that the majority of those, supposed to be well-versed in the Ardha-Māgadhi form of Prākrit are the Jaina ascetics, whose religion is wholly written in this language. As enjoined by the Śāstras (scriptures) a Jaina saint cannot stay in

one particular place beyond a prescribed period and must move round from place to place, big or small, a fact which on the face of it looks arduous and inconvenient for collection of words and compilation of a dictionary. Learned Pandits, belonging to other religions, being not well acquainted with Jainism and its principles, could not be fully well utilised. Again, they could not freely undertake a change from place to place with the compiler of this dictionary. Thus when some learned men, trained in the technicalities left the work, others had to be engaged afresh and the same amount of trouble had again to be taken in training them for the work.

Great, again, was the difficulty in finding out scholars for English and Hindi translation work. Some non-Jainas or Digambara Jainas were the person obtainable for the work and they, on account of their unfamiliarity with the technicalities could not do full justice to the real significance of terms and thus in some places the meaning was entirely upset or misunderstood. In order that the readers may fully realise the difficulty in the translation work, a few specimens, proposed before consultation, the second and third those of the English translator and all the rest those of the Hindi translator are noted below.

### **Original expressions. Correct meanings. Mistaken translation.**

1—अजाया. न्नि०	Careful abandonment of things on the part of an ascetic.	Careful preservation of things on the part of a Sādhu.
2—अग्नाहक्षमण् न०	Unwary; without proper circumspection.	Useless.
3—अग्नाहक्षमण् न०	Movement without proper circumspection.	Unnecessary movement; useless movement.
4—अग्नाययण् न०	A place where persons of non-ascetic conduct etc. lodge.	A place of residence for beasts, impotents etc.
5—अंगिदानता. क्षी०	Doing actions without any desire of fruit.	(That) of which the reasons can-not be fathomed.

6—अग्नेसन्धिज. त्रि०

Not acceptable to a Unimaginable to a  
Sādhu due to some Sādhu.  
fault.

It would, however, be unfair to say that this in any way reflects upon the literary ability of the persons concerned.

The last and the greatest difficulty in bringing out the work was the great physical and mental suffering of my revered father, Mr. Kesharīchandjī Bhandārī, whose keen interest and devoted zeal for editing and publishing the Koṣa is clear on the very face of it. In obedience to his esteemed commands I had the fortune to conclude the remaining work. Fully confident though I am of my lack of knowledge and intelligence, yet I venture to submit this literary work to its literary readers with a repeated request for their kind indulgence.

My duty will only be half done without an expression of gratitude to those, who have been of special use and help in the compilation and bringing out of this work. Swāmī Śrī Uttamchandrajī (Limbdi). Upādhāyajī Atinārāmjī of the Punjab, Pandit Mādhava Munijī and Pandit Deochandrajī of Cutch deserve my hearty thanks for their kind assistance in the collection of words. Besides the aforesaid learned Jaina saints I am indebted to Mr. Popatlal Kevalchand Shāha for his kind help in the collection of some words, to Dr. S. K. Belvakar, Professor of Sanskrit, Deccan College Poona, for his kind and valuable suggestions from time to time and to Pandit Gauriśāṅkara Hīrāchand Ozhā of Ajmer for the kind help he gave in correcting proofs to an extent.

My hearty thanks are due to A. C. Woolner Esquire M. A. (oxon) Principal, Oriental College, Lahore for the scholarly contribution that he has made in the form of a really informing Introduction to this Koṣa. He undertook this purely as a labour of love and this affords a clear proof of his noble generosity of heart.

We owe the skeleton Grammar prefixed to the Koṣa to Babu Banarsidasji M. A. professor, Oriental College, Lahore. Although

merely in outlines it must be the result of a great amount of reading of the original Sūtras. For the benefit that he has thus voluntarily given us of his knowledge, I am greatly indebted to him.

I must express my feelings of gratefulness to Mr. P. N. Kachhi B. A. of M. S. High School, Indore, for the trouble he took in translating the Gujarati meanings into English, chiefly because, though he was paid for the same, his work was not mercenary. Moreover, almost the whole of the English portion of this volume has passed under his scrutinising eye. The Koṣa has had the benefit of having Pandit Thakurdattaji as one of the most conscientious and steadily working subordinate working under the supervision of the original compiler. The energy with which he conducted the work of carrying such a vast and varied mass of matter through the press is simply admirable and specially entitles him to my thanks.

Messrs. Naginadas Manakalal of Bombay, Bhavasar Gulabchand Kalyanchand of Surat, Maganlal Kuberdas of Kathor, Nyhalchandji Jaychandji of Dhoraji, Vakil Jivaraj Vardhaman of Jetpur, Ghevaria Devidas Lakhambichand of Porbander, Seth Dhirajlal Trimbaklal of Limbdi, Seth Vanechand Deoji of Vankaner, Seth Vikamchand Amritlal of Morvi and Gopalji Ladka of Thangarh deserve my appreciation and thanks for their kindness in looking after the comforts and conveniences of the compiler and his assistants.

Muni Rupchandraji, Muni Shivalalji and Mr. Kalidas Damji of Dhoraji Girl School deserve my thanks for their kind assistance to the compiler in different ways.

My best and grateful thanks are due to the Śvetāmbara Sthānakavāsi Jaina Conference, whose ready help in money and encouragement, led to the accomplishment of this great work.

Last, but not the least, indebted and grateful am I to the learned gem, the expounder of Jainism, Swāmī Šri Ratnachandraji Mahārāja of Limbdi; owing to whose incessant, active labours and greatest pains in compiling and conducting the dictionary work at

a whole, I have this day been able to put these volumes before the learned for opinion and use. I must frankly admit that the work would not have seen the light of the day had it not been for the learned devotion, energetic attention and dutiful enthusiasm of the Śatāvadhāni saint Ratnachandrajī.

In conclusion, I respectfully request scholars and readers kindly not to mind minor errors, due to mistakes in printing, translation etc. here and there. I shall feel much obliged to those who will kindly take the trouble of communicating their kind suggestions to me, with a view to correction and improvement in the second edition.

Rajawada Chowk,  
Indore (C. India)

SARDARMAL BIHANDARI,



## Publisher's Note.

---

Almost immediately since the time that my longcontinued efforts in the direction of getting a reliable and comprehensive Ardha-Māgadhi Dictionary compiled by competent authorities on the subject, began to take a practical and tangible shape, my health began to fail and I fell a victim to a malady which is peculiarly antagonistic to mental work. Burning with an ardent desire on the one hand to realise an ideal which I had made one of the supreme aims of my life and deprived on the other, of the very instrument which led to its accomplishment, I continued to work with as much energy as I could command, throwing a great deal of my burden and responsibility upon the shoulders of my son Sardarnal. A time came at last, however, when it became absolutely imperative upon me to shift the whole burden upon him and if I am to judge from the results so far achieved, I feel I have every reason to hope that the work will be successfully brought to completion under his care and management. Very few of those persons not actually engaged in a task similar to this, can have an idea of the demand that it makes upon the energy and mental resources of its organizers. Endless correspondence, touring, watchful and diligent supervision of the work as it progressed, from the literary standpoint of accuracy and from the artistic standpoint of external attractiveness-these were and still are the demands to which he has proved himself equal. And I think it is a part of my sacred duty to acknowledge cheerfully the debt I owe to him in this connection. But for the fervour and energy with which my son devoted himself to the work which I was compelled to give up, the Ardha-Māgadhi Dictionary, at least in its present shape, would have taken an indefinitely long time to see the light of the day.

My son, Sardarnal has given an account of the vicissitudes through which my earlier efforts at the compilation of an Ardha

Māgadhi Dictionary had to pass and so I need not detail them here.  
Enough also has been said by him as to its utility.

In conclusion I request scholars and general readers who consult this dictionary to have due regard to the circumstances sketched above and pardon minor inaccuracies if they have crept in.

Rajwada Chowk,

Indore (c. i.)

**KESARICHAND BHANDARI.**

---

---

## TRANSLATOR'S NOTE.

---

It was not without a considerable amount of diffidence that I undertook the work of translating into English the Gujarati portion of the Ardha-Māgadhi Dictionary. The original compiler of a work like this has got certain advantages which a mere translator cannot be expected to have. The former gives the meanings and explanations of words with a thorough grasp of their contextual bearings, while the latter has to depend upon these meanings and explanations without an opportunity to consult the texts on which they are based. One Gujarati word, for instance, might convey a number of different senses and it would be difficult to give the right equivalent for it in English, without knowing the context. Under these circumstances the only course left for me was to consult Mahārāj Shri Ratnachandraji by correspondence and this I have done as far as possible.

Another difficulty was about Jaina religious technical terms in which the Jaina scriptures abound. The little smattering of Jaina religion which I had, was altogether insufficient to answer the purpose of rendering accurately in a foreign tongue the sense conveyed by these technical words. It is true that a number of scholars both Eastern and Western have worked in this field, but the lack of a single comprehensive lexicon made it a matter of great labour, at least at the commencement of my work, to find out the required information lying scattered in various works. Happily for me, however, Mr. Kesharichandji Bhandari, the publisher, of this work placed at my disposal his wide and varied stock of books on Jainism and I have amply and freely availed myself of the information, both in point of manner and matter, supplied by these works. I have frequently referred to the works of Mrs. Sinclaire, Messrs. Jag-mahendralal Jaini, Champatrali Jaini, H. Jacobi, Hoernle, Warren, Gandhi etc., etc.

• Mr. J. L. Jaini's "Jaina Gem Dictionary" has been of inestimable use to me and the same also has been the case with Mrs. Sinclair's "Heart of Jainism". I have also frequently referred to V. S. Apte's "Sanskrit Dictionary". My sincere thanks are due to all the above named scholars for the help I have derived from their works.

In spite of all this, I am far from thinking that the work of translation might be deemed satisfactory by scholars. However, since I have not yet finished the whole stock of 50,000 words, if opinions and suggestions reach me through the publisher, I shall be highly grateful for them and shall willingly make use of them in my future work.

In conclusion I have to express my deep debt of gratitude to Messrs, Kesharichandji J. Bhandari and Sardarmalji K. Bhandari for the untiring zeal with which they answered my numerous queries on various difficult points of Jain<sup>a</sup> creed. Mr, Sardarmalji, who in consequence of his father Kesharichandji's illness, has devoted himself with indefatigable energy to the work of publishing this dictionary, specially deserves my thanks for critically going through my work before it is carried to the press.

Praying, that the great Tirthankaras may enable me to go through the whole of my work and thus to render my services to the cause of the noble Jaina religion, I conclude.

Pritamlal N. Kachhi, B.A.

M. S. High School,

Indore.

## Hints for the study of this Dictionary.

---

1. The original word is printed in the large type followed by the grammatical gender. Then is given its Sanskrit equivalent. The Gujarati, Hindi and English explanations come next in order. References to the Sūtras and other works from which the original word is taken are indicated by an abbreviated terminology, the full explanations of which can be learnt from the list of Sūtras given in the Koṣa. Explanations of grammatical abbreviations can be learnt from the list of abbreviations. In many cases quotations too, are given, followed by proper references. Where a word has more than one sense, the different senses are marked (1) (2) (3) etc.

2. Where a word bears a different sense in a different gender, the latter is indicated along with the former.

3. Compounds of the original word are given along with the latter and are enclosed into brackets with the sign—standing for the original word. The Sanskrit equivalents of compounds are also similarly given with the same mark prefixed.

4. Roots are given with the mark √ prefixed to them and as far as possible, conjugated forms in different tenses and moods are also given.

5. A word which does not belong to Ardha-Māgadhi proper but to some other cognate dialect such as Paiśāchī etc. is marked with an asterisk, thus \* and its explanation only is given for want of the exactly corresponding Sanskrit word to which it can be traced, e. g. \* अगड़ (कृ), etc.

6. When a word which can, by ordinary rules of Prakrit grammar be given a Sanskrit garb, which, however, is not current in Sanskrit literature the nearest approximate Sanskrit equivalent is given with the mark \* prefixed to it, e. g. अवलुय (\*अवलुक-नौकादण्ड), अगड़ (\*अगत-अज्ञात), अभिसुरमाण (\*अभिसरमाण-अभिमग्न), अधंवरोवित्ता (\*अध्यपरोपिता अध्यपरापरण) etc. In some places a great divergence is met with

between the original principal word and its Sanskrit prototype, e. g. फास (स्वरूप), नाण (कान), उपरिल्ला (उपरितम्) etc. No asterisk is prefixed to such words as these, because they belong to Ardha-Māgadhi proper; and they are invariably rendered into Sanskrit by words included in brackets above.

7. The gender given before the principal word applies to that Ardha-Māgadhi word only, and not to its Sanskrit equivalent. Of course, as a general rule, the Sanskrit equivalents agree with the original principal words in gender. Genders of words have been given according as they are found in the Sūtras, e. g. अष्टव्युह. शु. (अशुद्) a Jaina layman. This word is here assigned the masculine gender although in Sanskrit, as an adjective, it would have all the three genders. But in the Sūtras it is used in the sense of "a Jaina layman" only, and so is assigned the masculine gender. In the same way अंधिल. न० (अन्धा) a kind of vegetation. This word is feminine in Sanskrit but in the Sūtras it is used in the neuter gender only and so it is assigned neuter gender only.

8. In Ardha-Māgadhi an Anusvāra is not changed to the nasal of the class of the following consonant as in Sanskrit. The order of words therefore is based upon the natural rank of the Anusvāra which comes after ओ e. g. after अ ओ comes अंक and after अंक comes अक्ष etc.

9. Absolute participle, infinitive of purpose, and present participle have been given separately when the root from which they are formed has not been met with. In other cases they have been included under the root from which they are formed. When the first two formations have been given independently they are regarded as indeclinables, after the fashion of the Sūtrakāras: - e. g. अकियाण् सं. हृ. अ० (अहृत्वा), अभिगंतुं. हे० हृ० अ० (अभिगन्तुम्) etc.

---

† The termination ण् is very common in Ardha-Māgadhi and so no asterisk is prefixed where it occurs. It is rendered in Sanskrit by ता, तस, तन.

10. Roots have been principally divided into three conjugations viz I, II, and I-II. Some conjugated forms of roots have been given separately, e. g. अकार्त्तु, अलाहि etc. the reason for this being that they are in the past tense and take the augment अ. The roots from which they are formed have been indicated here, e. g. vide कृ, लभ etc. In Ardha-Māgadhi words, a preposition is prefixed to the root and the whole given as one word, while in their Sanskrit equivalents they have been separated by a cross.

Denominatives have also been sometimes given and they have been indicated by the abbreviation ना० धा०.\*

11. When the same word ending in अ and also in य signifies the same meaning, either अ or य has been placed after it, preceded by a dash, e. g. अवगअ-य. Sometimes the case is otherwise, य being substituted for अ. This procedure is based upon the frequency of a particular form in the Sūtras or upon the references and quotations given in the Koṣa. Similarly the third person singular terminations namely इ and ति have been given along with the root in the same place. Although अवगअ and अवगय are both met with in the Sūtras, still however, the inflected form is one only, namely अवगए.

12. There are some cases in which क is optionally changed to ग in the middle of a word; these have not been given separately, but the change has been indicated in one and the same place; e. g. अवोक-ग-ड ( अव्याकृत ) etc.


13. तद्, युष्मद्, अस्मद् and other pronouns have been declined in all their cases as far as possible. There is no dative case in Ardha-Māgadhi. Its sense being conveyed by such terminations as, त्वे, द्वे etc. Some words in their inflected forms, undergo changes which are not found in the case of other words, e. g. राजन् Gen. Sing. रण्णो.

\* ए is prefixed to the terminations ( तिप्, तस्, कि� etc. ) before they are applied to the roots in the case of the I Gāṇa. In the case of the II Gāṇa it is not so prefixed. In the case of I-II it is prefixed optionally.

14. No word, not occurring in the Sūtras, has been admitted in the Kosa, nor has any word been introduced in it before clearly grasping its proper sense. Quotations, however, have been given only where necessary or useful. For reasons of space the number of quotations has had to be limited within a reasonable compass. Still however, they have been given in the case of nearly fifty per cent words. The references given have been verified several times over and are therefore absolutely correct. These references are based upon the available works, a classified index of which along with their abbreviations has been given in the Kosa under the heading "A list of works consulted".

15. The Sanskrit equivalents are grammatically correct and have been given after consulting a number of dictionaries. Where one equivalent did not fully serve the purpose, another equivalent has been added. In some cases the original roots and even the terminations applied to them have been shown. Compounds, etymological analysis etc. have been given in some cases where necessary but not too often, for fear of swelling the bulk of the work. Explanations in Gujarati, Hindi and English have been made as full as possible by resorting to different modes of expression.

16. Only that meaning of a word which it bears in the Sūtras is given here; others, though they might be met with in Sanskrit literature, have been excluded.



# प्रस्तावना



[ अनुवादक मि. पी. एन. कच्छी ]

## ( १ ) अर्थ-मागदी कोषनी आवश्यकता अने उपयोगिता ।

पुरातनी जैन शास्त्रोना अभ्यासीओ आ कोषनो आनंदथी स्वीकार करशे. विशेषे करीने जैन धर्मनीह पुरातनी भाषानो जेओने पूर्ण परिचय नथी एवा श्रावको तेमज तुलनात्मक भाषाशास्त्र, तत्खज्ञान अथवा भारत भूमिमां प्रचलित विचारसरणी अने वर्मनु ऐतिहासिक अवलोकन करवाना इरादाथी आ भाषानो अभ्यास करनाराओने आ कोष आदरणीय थरो. ऊरर कहेला वर्गना अभ्यासीओने प्रत्येक शास्त्रीय ग्रन्थ ऊपरनी टीकाओ अने ते ग्रन्थने जोडेला शब्दकोषो ऊरर आवार राखी कार्यनिर्वाह करवो पडे छे. आ उपरांत वैदिक समयथी आरंभीने आयुनिक, भारतवर्षीय आर्यभाषाओनां विविध स्वरूपोमा प्रचलित, हिन्दी आर्यभाषानी मध्यमावस्थाना सर्वे रूपांतरोनो समावेश करता एक वृद्ध शब्दकोष माटे आ कोष उपयोगी साथन पूर्ण पाडेशे एवी आशा राखी शकाय अने ते दृष्टिथी जोतां पण आ साहसिक प्रयत्ननी आवश्यकता सिद्ध करी शकाय तेम छे. हस्तलिखित पुस्तकोमा एकज शब्दनां भिज भिज रूपो जोवामां आवे छे अने आवा शब्दो कये स्थले छे अने तेना केवा केवा रूपो छे ए जाणवा माटे अभ्यासी अथवा तो ग्रन्थसंपादकने मूळग्रन्थमां जे स्थले ते आवेला छे ते दर्शावनार एक कोषनी आवश्यकता रहे छे. अर्वमागदी-भाषा पूरती आ आवश्यकता पूरी पाडवा माटे आ कोष समर्थ थरो. आ भाषाना अभ्यासमां प्रगति थतां कदाचित् घणां रूपो अशुद्ध सिद्ध थाय परन्तु आवा अभ्यासनी तृद्धि करवाना हेतुथीज आ कोष प्रसिद्ध करवानुं कार्य हाथमा लेवामा आवेलुं छे।

## ( २ ) कोषनी शूलग्रात अने रचना ।

ई. स. १६१२ मां डॉ. लयुहगी स्वॉल्टिंगे एक प्राकृत शब्द-कोष तैयार करवानो पोतानो इरादो जाहेर कर्यो ( Z. D. M. G. १६१२ पृ. ४४८ ). इंदोर निवासी श्री. केसरीचंदजी भंडारीए पोते एकत्र करेला शब्दो डा. स्वॉल्टिने मोकली आपेला परन्तु युरोपीय महान युद्ध शरू थवाथी तेना ( डॉ. स्वॉल्टिना ). कार्यमां अंतराय आवाशी आ शब्दो तेमणे श्री. केसरीचंदजी भंडारीने पाण्डा मोकली आप्या. श्री. केसरी-चंदजी भंडारीए विविध जैन प्राकृतोमां आवेला शब्दोनो एक कोष तैयार करवा एक जैन मुनिने आप्रह कर्यो अने सेमणे ते वात स्वीकारी, अने त्रण अन्य मुनिओनी सहायता लई सूत्रोमांथी शब्दोनो संप्रह कर्यो. शब्दो संग्रह करवामा तेओए पोताना पासेनी हस्तलिखित प्रतो अने बालुचर ( Baluchar ) द्वापेज्जा ग्रन्थोनो उपयोग कर्यो. ई. स. १६२० मां मारा शिष्य अने सहाध्यापक श्री. बनारसीदासजी ने आ बाबतमां सलाह आपवा माटे आमन्त्रण करवामां अन्यु अने तेओए डा. गुणे, डा. बेलवेलकर आ. बा. प्रव. बेगेरे विद्वानोनी सलाह लई ठराव्यु के प्राकृत शब्दोना अर्थो इंग्रेजी, तेमज हिन्दी अने गुजराती भाषाओमा आपवा. ग्रन्थ संपादन तथा गुजराती भाषान्तरनुं काम स्वामी मुनि रत्नचंदजीए करेलुं छे अने हिन्दी अने इंग्रेजी-भाषान्तरो अन्य अवहिंगोए करेजां छे. आ कार्यमां लागेलो खर्चे. स्था. जैव कॉफरन्से आपवानुं स्कीकारं ले छे।

डॉ. स्वॉलीना लखवा प्रमाणे आ प्रश्न ई. स. १६०८ मां जैन श्रेतर्गुरु कॉन्फरन्से भावनगर-मां चर्चेलो हतो अने ए बाबतमां प्रो. ह. जेकोबीनो अभिप्राय पूछवामां आवतां तेओए डा. स्वॉलीनुं नाम सूचवेलुं हतु. आ कोष ते समये धारेती विशाल योजनाने अनुसरतो नथी, कारण के अंद्रे तो मात्र अर्धमागधी शब्दानो समावेश करवामां आवेलो छे ।

### ( ३ ) अर्ध-मागधी शब्दसंग्रह अने विश्व-कोषो ।

प्राकृत-संस्कृत शब्दकोषो सहित घणां जैन सूत्रो प्रसिद्ध थयेलां छे, तेमानां केटलां एक नवि प्रमाणे छे:—

- १ आयारांग ( आचारांग सूत्र ) पहेलुं श्रुतस्कंघ, संपादक, उवां. शुर्विंग जर्मन ओरियन्टल सोसाइटी लीप्फार्ग १६१० ।
- २ फ्रमेन्द डर भगवती, संपादक, उवेवर, खंडकनी पुराणिक कथा, वर्लिन १८६६—६७ ।
- ३ स्पेसिमेन डर नयधम्मकहा(ज्ञातार्थमूल)संपादक, पी. स्टेइनथल पहेलुं अध्ययन; लीप्फार्ग १८८१
- ४ उवासगदसाओ ( उपासकदशा ) संपादक, हार्नेल, कलकत्ता १८८८-६० ।
- ५ ओवावाइय ( औपातिक ) संपादक ई. ल्युमेन, लीप्फार्ग १८८३ ।
- ६ निरयावलीय सुत्त, ( निरयावलिका ) संपादक, एस. जे. उवारेन, एमस्टडैम, १८७६ ।
- ७ कप्य सुत्त ( कल्प सूत्र ) संपादक, ह. जेकोबी, लीप्फार्ग १८७६ ।

अत्रे अभिधानराजेन्द्र नामना जैन धर्मना विश्वकोषनो नाम निर्देश करवानी पण जहर छे. लाग भग त्रीश वर्ष पहेला राजेन्द्रविजय नामना सापुण उपरोक्त विश्वकोष तैयार करवानो संकल्प कर्यो. तेमणे पोताना केटलाएक शिष्योनी सधे बावीस वर्ष धर्म कर्णा ई. स. १६१० मां अभिधानराजेन्द्रनुं पहेलुं पुस्तक ( पहेलो भाग ) बहार पाड्यो. व्यार पञ्ची बीजा चार भागो प्रसिद्ध थएलां छे. अने चोथा भागनो अन्तिम शब्द “ भोल ” छे. हजु एक बे भागो बहार पञ्चे सकल ग्रंथनी समाप्त थरे एवी आशा छे ।

उपरोक्त विश्वकोषमां प्रत्येक प्राकृत शब्दनी पावळ तेनुं संस्कृत रूप, संस्कृतमां विवरण, मूलप्रथमां जे स्थले ते आवेलो छे तेनो स्तिरेश अने अन्य ग्रंथोमां जे विविध अर्थोमां ते बपराएलो छे तेनी अवतरणो सहित चर्चा आपवामां आवेल छे. प्रत्येक भागना पृष्ठ १००० हजार छे अने मूल्य रु. २५ छे परंतु आ ग्रंथने विद्यार्थीओने उपयोगी शब्द कोष न कहेतां पुस्तकालयोमां राखवा लायक एक वृहत्-कोष कही शकाय. प्रस्तावनामा हेमचन्द्रनुं प्राकृत-व्याकरण तेमनीज करेसी टीकासहित आपवामां आवेल छे. नामना रूपाख्यानो आपवामां जेटलां शक्य तेटलां रूपो आपवामां आवेलां छे पञ्ची ते साहित्य-मां मली आवे के नहि. उदाहरणार्थ पंचमी एक वचनमां ‘युष्मद्’नां पचास रूपो आपवामां आवेलां छे परन्तु अर्ध-मागधी साहित्यमां आ रूपोमानुं कोई परण भाग्येज जोवामां आवे छे. आ विश्वकोषमां प्रत्येक विषयना सम्बन्धमां जे काङ्ग मूल ग्रन्थोमां तेमज टीकाओमां आपेलुं छे ते सधक्कानो समावेश करक्कामां आवेलो छे ।

## ( ४ ) મૂલ ગ્રન્થો ।

જૈન શાકોનું જ્ઞાન ન ધરાવતા સામાન્ય પરિચય માટે અભ્યાસ કરનારાઓને નીચેના મૂલ અર્ધ-માગધી ગ્રન્થો ઉપયોગી થશે એમ ધારી અને નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે ।

( એ ) બાલુચર મૂલગ્રન્થો—મુરીદાબાદ ( બંગાળ ) જિલ્લામાં આવેલ બાલુચર નિવાસી રા. બ. ધનપતિસિહે અર્ધ-માગધી શાકોની સંસ્કૃત ટાકા અને ગુજરાતી ભાષાન્તરસહિત એક આવૃત્તિ બનારસ, મુંબઈ અને કલકત્તામાં છુપાવી બહાર પાડ્યી ( ઈ. રાન् ૧૯૭૫-૧૯૭૬ ). હોનેલ આ પુસ્તક-માલા ઉપર ટાકા કરતાં જણાવે છે કે ‘તેની અંદર મૂલગ્રન્થની તેમજ વ્યાકરણની શુદ્ધતા ઊપર કાંઈ પણ લાદ આપવામાં આવેલું નથી.’ આ ગ્રન્થમાલા સાધુઓને, જૈન દેવાલયો અને ઘરણાં પુસ્તકાલયોને વિના મૂલ્ય આપવામાં આવેલ છે ।

( બી ) જૈનાગમોદય મૂલગ્રન્થો—જૈન આગમોદય સર્વમિતિએ મુંબિસાં ઈ. સ. ૧૯૧૦-૧૯૨૦ માં બહાર પાડેલ ગ્રન્થમાલા, ઊપરની માલા કરતાં વિદ્વત્તાની દાખિંદ્રે વધારે સારી છે. આ માલાનાં પુસ્તકો પોથીના રૂપમાં છુપાયેલા છે. તેની અંદર સંસ્કૃત ટાકા આપવામાં આવેલી છે. તેમજ ટીપોમાં કોઈ કોઈ પાઠ ભેદો પણ આપેલા છે ।

( સી ) હૈદ્રાબાદ ગ્રન્થમાલા—અમોલકત્રયિપ નામના જૈન સાધુએ તૈયાર કરેલ હિન્દી ભાષાન્તર સહિત અર્ધ-માગધી મૂલગ્રન્થો—આ માલા ઈ. સ. ૧૯૧૬-૧૯૨૦ હૈદ્રાબાદ ( દક્ષિણ ) ના એક ધનવાન આશ્રયદાતાએ પોતાને ખર્ચે પોથીના આકારમાં છુપાવી વિનામૂલ્ય સાધુઓ તેમજ પુસ્તકાલયોમાં બહેંચી આપેલ છે પરન્તુ મૂલગ્રન્થની અંદર અશુદ્ધતાઓ આવી ગયેલી છે ।

આ ઉપરાંત ( જેમાંની બીજા ગ્રન્થમાલા અર્ધ-માગધીના અભ્યાસીઓ માટે સર્વોત્તમ છે ) કષ્ટ, ઉત્તરા-જયયણ, દસવેયાલિય ઇન્યાર્ડ વધારે લોકપ્રિય ગ્રન્થોની જુર્દી જુર્દા ઘરી આવૃત્તિઓ બહાર પઢેલી છે ।

આ પ્રસ્તાવનાના ત્રીજા મથાળાની નીચે યુરોપીય વિડાનોએ શબ્દાર્થ-કોષમાં છુપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલા સાત મૂલ ગ્રન્થો આપવામાં આવેલા છે. આ ઉપરાંત શબ્દાર્થ-કોષરહિત પગા બીજા અથ બહાર પઢેલા છે તે નીચે પ્રમાણે—

દ આયારાંગ, સંપાદક, હ. જેકોર્ડ પાર્લી ટેક્સ્ટ સોસાયરી ૧૮૮૨.

૬ અણુત્તરોવવાઇય, સંપાદક, બનેન્ટ, ઓરિયંડલ ટ્રાન્સલેશન ફંડ પુસ્તક ૧૭ મું, લન્ડન ૧૯૦૭  
( અંતગઢ સૂત્રના ભાષાન્તર ને પરિશીષ્ણના રૂપમાં જોડેલ ) .

૧૦ દસવેયાલિય, સંપાદક, લ્યુમેન પુસ્તક ૪૬ મું ( Z. D. M. G. માં ).

## ( ૫ ) ભાષાન્તરો ।

બાલુચર માલામાં આપેલ શુજરાતી અને હૈદ્રાબાદ માલામાં આવેલ હિન્દી ભાષાન્તરો વિષે ઊપર કહેવામાં આવેલું છે. ઇંગ્રેજીમાં જેક્સેન એ “સેકેડ બુક્સ ઓફ ડિ ઇસ્ટ ” ના પુસ્તક ૨૨ માં આને ૪૫

मां करेल भाषान्तर, हॉनैलनुं करेल उवासगदसाओरोनुं भाषान्तर अने बार्नेटनुं करेल अंतगड़-दशाओ अने अणुत्तरोववाइयनु भाषान्तर ए प्रमाणे छे ।

### ( ६ ) व्याकरणो अने पाठ्य पुस्तको ।

अर्ध-मागधी ( अथवा आर्ष ) व्याकरणो प्राकृत वैयाकरणिकोए रचेता छे. देशी व्याकरणोमां मुख्य हेमचन्द्राचार्य कृत अने विदेशी साज्ञरोए रचेल व्याकरणोमां मुख्य पिश्चेल कृत छे. श्री. बनारसीदास जैन ऐम. ए. एओए तैयार करेल संक्षिप्त व्याकरण आ प्रस्तावनाने जोडवामा आवेल छे. श्रीबनारसीदासे तैयार करेल एक अर्ध-मागधी पाठ्य पुस्तक पंजाब विश्रविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवामा आवनार छे ।

### ( ७ ) आ कोषमां आपेली शब्द संख्या ।

ओगण पचास प्रन्थोमांथा लगभग ५०,००० शब्दोनो संग्रह करी अत्रे समावेश करवामा आवेलो छे. आ प्रन्थोनी अंदर ११ अंगो, १२'उपांगो ७ पश्चात्याओ, ६ छेद सूत्रो, ४ मूलसूत्रो, नन्दीसूत्र, अणुओगद्वार अने ओघनिर्युक्त ए प्रन्थोनो समावेश थयेलो छे; एटले के सघनां श्वेतांबरी शास्त्रोनो अंने तने लगता सघनां मुख्य प्रन्थोनो समावेश थयेलो छे ।

### ( ८ ) अर्धमागधी भाषानो इतिहास अने ते भाषानी विशेषताओ ।

जैन सूत्रोनी भाषाने अर्ध-मागधी कहेवामा आवे छे-आ सूत्रोमां कहेवामा आवेल छे. भगवान् महावीरे आ भाषामां जैनसिद्धान्तनो उपदेश कर्यो अने तेर्ना अंदर एम पण कहेवामा आवेल छे, के आ भाषामांथी अन्य भाषाओ शाखारूपे उद्भवेली छे ।

देशी वैयाकरणिको आ सूत्रोनां भाषाओं “ आर्षम् ” ऐटले अृषिओनी भाषा एवं नाम आपे छे. पिश्चेलकृत प्राकृत व्याकरण ( १ ) मां नाचे निर्दिष्ट अवतरणो आपेलां छे ।

समवायांग सुत्त ६८, ओववाइय सूत्र ५६, परणवणा सूत्र ५६, हेमचन्द १, ३, ४, २८७, प्रेमचंद तर्कवायीशकृत दंडीना काव्यादर्श ऊपरनी टाका १, ३३, रुद्रटकृत काव्यालंकार ऊपर नमिसाधु कृत टाका २, १२, अने वाग्भृकृत अलंकार तिलक, १, १.

ऊपर कहेलां अवतरणो उपरथी पिश्चेल सिद्ध करे छे के ( १७ ) “ आर्य अने अर्ध-मागधी ए बेमा परस्पर भेद नथी अने जैन पुरातनी सूत्रोनी गण अने पद्य बजेनी भाषा परंपरागत मतानुसार अर्धमागधी छे; अने हेमचन्द दसवेयालिय सुन्तमार्था आपेलुं उदाहरण ( ६३३-१६ ) पण एज बात सिद्ध करे छे ” ।

आ भाषाने अर्ध-मागधी शा माटे कहवामां आवी ? मागधी भाषानो मुख्य विशेषताओ आ प्रमाणे छे ‘रसोक्षेशौ’ एटले ‘र’ अने ‘सै’ ने बदले अनुक्रमे ‘ल’ अने ‘श’ थाय छे; उदाहरणार्थ, ‘रामे’ ने बदले ‘लामे’ थाय छे, अने प्रथमा ए. व. पुं. मां ए आवे छे. अर्ध-मागधीनी अंदर ‘र’ अने ‘स’ एमना एम रहे छे. परन्तु प्र. ए. व. पुं. मां ‘ए’ आवे छे; उदाहरणार्थ ‘महावीरै’ परन्तु काव्योमां प्रथमा एक वचन पुं. ओकारान्त पण घणी वस्त दृष्टिगोचर थाय छे ।

आ प्रमाणे अर्ध-मागधीमां मागधी भाषानी केटली एक विशेषताओ समाएली छे, अर्थात् तेनी सघळी विशेषताओनो समावेश थयेलो नथी माटे तेने अर्ध-मागधी कहेवामां आवे छे एवो खुलासो “ अर्ध-मागधी ” नी व्याख्या आपतां समवायांग ( पृष्ठ ६६ ) अने उवासगदसांग, ( पृ. ४६ ) उपरनी तेमनी टीकामां अभयदेवे आपेक्षी छे ( पिंशेल प्राकृत व्या. १७ ).

‘ काव्योनी भाषा गद्यात्मक लेखोनी भाषार्थी थोडी घणी विभिन्न जोवामां आवे छे. उदाहरणार्थ एकारान्त प्रथमा एक वचनने स्थाने घणी वखत ओकारान्त प्रथमा एक वचन जोवामां आवे छे.

अर्ध-मागधी रूप ‘ मिलकु ’ ( सं० म्लेच्छ ) मात्र गद्यमांज जोवामां आवे छे; परन्तु काव्यमां अन्य प्राकृत भाषाओ प्रमाणे ‘ मेच्छ ’ रूप आपवामां आवेल छे. गद्य अने पद्यनी भाषामांना तफावतो-मांना केटला एकतुं कारण एवुं बताववामां आवे छे, के मूळ संस्कृत गद्य पद्यादिनुं प्राकृत भाषान्तर थयेलुं होवाथी आ तफावतो उदभवेला छे ।

काव्य प्रन्थोमां महाराष्ट्री प्राकृतनी पण केटली एक विशेषताओ जोवामां आवे छे अने तेथी आ प्रन्थोनी भाषाने महाराष्ट्री अने मागधीनुं मिश्रण पण कहेवैमां आवेल छे. अर्वाचीन जैन प्रन्थो अर्ध-मागधीर्थी थोडे अंशे मिश्रित महाराष्ट्रीना एक रूपान्तरमां लखाएला छे. भाषाना थयेला आ रूपान्तर ऊपरथी आपणे अनुमानी शकीए के ते समये जैन धर्मनो नैर्गृहित कोण ( दक्षिण पश्चिम दिशा ) तरफ प्रचार थयेलो होवो जोइए ।

अर्ध-मागधीनुं मूळ उद्भव स्थान कयुं ? भरते रचेल कहेवामां आवता काव्यशास्त्र विषयक अतिप्राचीन ग्रन्थमां अर्ध-मागधीने सात भाषाओमांनी एक गणवामां आवी छे; आ सातमांनी बाकीनी छ आ प्रमाणे छे.—मागधी, आवन्ती, प्राच्य, सुरसेनी, बाहतीक अने दक्षिणात्य ( १७, ४८ ).

उपरोक्त ग्रंथकाररनुं कहेवुं एम पण छे, के नाटकोमां आ भाषा, नोकरो, रजपुतो अने व्यापारीओ वापरे छे परन्तु नाटकोनी हस्तलिखित प्रतोमां ऊपर आपेलो नियम पठाएलो जोवामां आवतो नथी. मुद्राराज्ञस नामक नाटकमां जीर्वासिद्धि नामनो साधु अने प्रबोधचन्द्रोदयमां च्छपणक, मागधी भाषा, वापरे छे एम बताववामां आवेल छे ।

तो पण मध्य एशियामां मठी आवेलां अश्वघोषकृत कहेवातां केटलां एक अपूर्ण बौद्ध नाटको-मांना केटलां एक संदर्भो प्राचीन अर्ध-मागधी भाषामां छे एवुं ते नाटकोना विद्वान् संपादक प्रोफेसर ल्युडसेनुं मानवुं छे ।

अशोकना दक्षिणा शिलालेखोनी भाषामां एकारान्त प्रथमा एक वचन तेमज ‘ स ’ अने ‘ र ’ बजेनो समावेश जोवामां आवे छे.

अशोकनी पूर्वतरफनी भाषामां ‘ र ’ ने स्थाने ‘ ल ’ जोवामां आवे छे. उदाहरण—लाजा—राजा; अने आ ऊपरथी आपणे अनुमानी शकीए के मौर्य समयमां पटणानी भाषा अर्ध-मागधी न होती.

जे भाषाने आपणे अर्ध-मागधी कहीए छीए ते भाषा बराबर कर्ये स्थळे अने कये समये

उद्भवी आ प्रश्नो हजु निर्णय थयेतो नथी. तेनु मूळ उत्पत्तिस्थान प्राचीन मंगधदेशना पश्चिम भागयी अथवा नैऋत ( दक्षिण-पश्चिम ) भागयी बहु दूर न होतु एवी मान्यता संभवित जणाय क्षे ।

मौर्य सार्वभौम राजाओना समयमां पूर्व तरफनी पटणानी भाषा पश्चिम तरफ केलाती गई; पच्छी तेनो फेलाव मात्र राजमहेलोमा अने बजारोमांज थयेतो होय अने गामडाओमां न थयेतो होय ।

ज्यारे मौर्यवंशी राज्यनी पडती थई त्यारे कदाचित् आ पूर्वनी भाषानो उपयोग कम थई गयो होय. ज्यारे पाल्ला समयमां सार्वभौम सत्तानुं केन्द्र पश्चिम तरफ थयुं त्यारे प्राकृत भाषानुं शौरसेनी स्वरूप गंगानदीनी आसपासना प्रदेशोमां वधारे वधारे प्रचलित थयुं होय ए स्वाभाविक क्षे. आ प्रमाणे भाषानो मुहुर्य रूपान्तरोनी एक प्रदेशमांथी बीजा प्रदेशमां थयेली गतिओने लीधे भाषाना असुक रूपान्तरनुं स्थान निश्चित करतुं ए, ( जोके ते समयना लेखको क्षचित् तारीखनो निर्देश करे क्षे ) लेखकोए वरावर तारीखनो निर्देश करेतो होय तो पण सुसाध्य नथी ।

परंपराए चाली आवती दन्तकथा उपरथी आपणे जाणी शकीए क्षीए के महावीरे अर्ध-मागधीमां उपदेश कर्यो हतो. तेज प्रमाणे दन्तकथा द्वारा आपणे जाणवा पामीए क्षीए के गौतम बुद्धे मागधीमां उपदेश कर्यो हतो ( जो के गौतमबुद्धनो उपदेश मागधीमां लखायेलो नथी परन्तु पालीमां लखायेलो क्षे ) परन्तु बजे समकालीन हता अने एकज प्रदेशमां रहेता हता एवं वर्णन करवामां आवे क्षे ।

जो बजे धर्मोपदेशकोए एकज भाषानो उपयोग करेलो होय अने आ भाषा शौरसेनी अने मागधी भाषाना प्रदेशोनी बच्चेना बनारसनी आसपासना प्रदेशनी अर्धमागधीने मळती आवती प्राकृतनुं कोई प्राचीन रूपान्तर होय तो एम कही शकाय के आ भाषा बजे धर्मोनां शास्त्रो, ग्रन्थोमां लखायां ते पहेलां विकृत थयेली होवी जोहए ( अर्थात् रूपान्तरने पामेली होवी जोहए ); आ रूपान्तर क्यारे थयुं अने केटले अंशे थयुं ए शक्य जणानुं नर्थी ।

जे स्वरूपमां अर्ध-मागधी आपणा जोवामां आवे क्षे ते स्वरूप ( पाली प्रमाणे ) नाटकोनी प्राकृत भाषाओथी वधारे प्राचीन क्षे. मागधीनी पेठे तेमां प्र. ए. ब. पुं. एकारान्त थाय क्षे, षष्ठी. एक वचनमां “ तव ” नो उपयोग करवामां आवे क्षे, रकारान्त धातुओनुं भूत कृदन्तनुं रूप “ त ” ने वदले “ द ” थी करवामां आवे क्षे. ( परन्तु आम सर्वत्र थतुं नथी ) ‘क’ ने बदले “ ग ” थई जाय क्षे; उदाहरण ‘असोग’ ( परतु मागधीमां आ बहु न्यून प्रमाणामां थाय क्षे ) ।

अर्ध-मागधीनी अंदर ‘र’ अने ‘स’ नुं रूपान्तर न थतुं होवाथी ते मागधीर्थी आ बाबतमां स्पष्ट रीते जुदी पडे क्षे. अर्ध मागधी, महाराष्ट्रीथी घण्ठा बाबतोमां जुदी पडे क्षे. उदाहरणार्थ अर्ध-मागधीनी अंदरनो सप्तमीनो प्रत्यय ‘अंसि’ ( महाराष्ट्री अंदर ‘म्मि’ क्षे ) चतुर्थीनो तथे, हेत्वर्थक कृदन्तनो तथे ‘इत्तए’ संबंधक कृदन्तनो ‘त्ता’ ‘त्तण्म’ इत्यादि ।

अर्ध-मागधी भाषानी घटनानुं वधारे विस्तृत वर्णन श्री बनारसीदासे तैयार करेल अने अत्रे जोडवामां आवेत व्याकरणानी रूपरेखामां करवामां आवेत क्षे. आ रूपरेखा मूळग्रन्थोमां वापरवामां आवेलां नाम, धातु इत्यादिनां रूपे उपरथी तैयार करवामां आवेत क्षे. केवळ प्राकृत व्याकरणोमां अपेल सिद्धान्तो उपरथी नहि ।

ओरियन्टल कॉलेज लाहौर.

प. सी. धूलनर.





# प्रकाशक की ओर से दो शब्द ।

---

यह बात निर्विवाद है कि प्राकृत भाषा भारत वर्ष की प्रधान भाषा है और इसमें समय समय पर अनेकानेक धार्मिक और साहित्य विषयक महत्वपूर्ण प्रन्थ लिखे गये हैं, जो कि आज भी भारतवर्ष के उज्ज्वल आदर्श और उच्च विद्वानों को प्रकाशित कर रहे हैं। प्राचीन तत्ववेत्ताओं और अवेषण-कर्त्ताओं ने इस भाषा के उत्तमोत्तम प्रन्थों को उपलब्ध किया है और इसके गुप्त महत्व पर मुग्ध होकर इसके गुणों को विशेष परिश्रम से अधिकाधिक प्रकट किया है; यहाँ तक कि इस भाषा के जो अमूर्स्य ग्रन्थ अबतक गुप्त थे आज अपनी जागृत ज्योति से देश देशान्तरों को देवीप्रभानन्द कर रहे हैं और प्राचीन भारत की विशेषतः जैन साहित्य की उज्ज्वल कमनीय कीर्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। ग्रन्थों की उपलब्धि के साथ साथ विद्वानों की हचिपूर्ण साहित्य की गवेषणा और इसके बढ़ते हुए महत्व का देखकर केवल भारतवर्षीय ही नहीं बरन् प्राच्य और पाञ्चाली समस्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में किसी न किसी रूप में इस भाषा के रूप रूपान्तरों को योग्य स्थान प्रदान कर इसको यथावत् सम्मानित किया है। पुनः आधुनिक भारतवर्षीय आर्य-भाषाओं (हिन्दी, गुजराती, बंगला, मराठी आदि) का इस भाषा के किसी न किसी रूप से प्रादुर्भाव और निकट सम्बन्ध, तथा इन भाषाओं के सम्यक् ज्ञान के लिये इस भाषा की उपयोगिता आदि अनेक महत्वपूर्ण वातों को यथावत् समझने के लिये इस भाषा के बृहत् कोष की परम आवश्यकता प्रतीत हुई।

किसी भाषा का ज्ञान कोष और व्याकरण के बिना सुलभ नहीं हो सकता। प्राप्य ग्रन्थों में अभीतक आधुनिक शिष्ट प्रणाली के अनुसार अर्धमागधी का कोई कोष उपस्थित नहीं है।

अर्ध-मागधी भाषा इसी प्राकृत भाषा की प्रधान एवं महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें सर्वज्ञ भगवान् तीर्थकर भी महावीर स्वामी ने जैन धर्म का उपदेश किया है। यह बात विद्वानों को ज्ञात ही है कि प्राकृत भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत है और इसकी एक एक शाखा तथा प्रशास्त्र पर इत्य कोष के सदृश अनेक कोष निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता है, जो कि विद्वानों के अविश्वान्त परिश्रम, साहित्य सामग्री की उपस्थिति तथा राजा महाराजा धनी मानी सज्जनों के उत्सह पूर्ण सहानुभूति बिना सुलभ नहीं है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में गुणी और विश्व सज्जन अवश्यमेव दत्तचित् और सचेष्ट होकर भारत के प्राचीन साहित्य को प्रत्यक्ष और सुलभ करेंगे। भारत की समस्त आर्य-भाषाओं के बहुतसे अज्ञात शब्दों की व्युत्पत्ति पर इसी भाषा की शाखा प्रशास्त्राओं के द्वारा पूर्ण प्रकाश डाला जा सकता है। इतिहासकारों को तथा प्राचीन तत्त्व-संशोधकों को ही नहीं सब कारणों से इस भाषा का ज्ञान सम्पादन करना अब आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य होगा है, और भाषा का ऐसा ज्ञान सम्पादन करने के लिये एवं उच्च तत्त्वों से परिपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिये कोष ही एक महान् साधन हो सकता है। कोष के अभाव में अर्थ के स्थान में अनर्थ आदि होजाते हैं जिस कारण साहित्य को बड़ी हानि

हो रही है, और जिससे विद्वान् सज्जन स्वयं परिचित भी हैं। व्यासजी ने महाभारत के आदि में ठीक कहा है “विभेत्यलपशुताहृदो भास्यं प्रहारिष्यति”। उपरोक्त से यह ग्रन्थ सह ही है कि कोष की अनुपलालित के कारण प्राचीन भारत का गोंवयुक्त हृतिहास प्रायः सर्वं साधारण के लिये अबतक प्रकाशित नहीं हुआ है और इसके बिना भारत की प्राचीन सम्यता का दिग्दर्शन होना असंभवसा होता है।

अर्थ-मागधी का महत्व प्रायः जैन साहित्य में भर पड़ा है। इन्हीं परम उपयोगी सद्ग्रन्थों के अध्ययन करते समय मेरे पूज्य पिताजी तथा उनके एक मित्र की हाइ पाश्चिमात्प विद्वानों के जैन सूत्रों के अंग्रेजी अनुवाद पर पढ़ा और उनको यह प्रतीत हुआ कि इन परिश्रम-शील कुशाग्र-बुद्धि विद्वानों ने भी साम्प्रदायिक शब्दों के अर्थ से नितान्त अभिज्ञ होने के कारण विपरीत अर्थ लिख डाले हैं। उदाहरणार्थ-पाश्चात्य प्रस्वर विद्वान् और प्रस्वात परिणित प्रसिद्ध जर्मन डॉ० हरमन जेकोबी जो जैन साहित्य के प्रौढ़ परिणित होने के कारण आज भारतवर्ष में “जैनरत्न-दिवाकर” नाम से प्रख्यात है, आचारांग आदि सूत्रों का जो अंग्रेजी अनुवाद कुछ वर्ष पूर्व किया था उसमें कितने ही शब्दों का जैन सिद्धान्त से विवरित और अमात्मक अर्थ कर दाला, जिससे जैन समाज में एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया और जिसकी दुःखमय स्मृति अभी तक लोगों के हृदय पटल से नहीं हटी है। इस प्रकार साम्प्रदायिक शब्दों को जानने के साधनों के अभाव के कारण साहित्य सम्बन्धी और धार्मिक बहुत कुछ हानि हो चुकी है और हां रही है। ऐसी घटनाओं को देखकर ऐसी वृद्धियों के संशोधन के हेतु, यथार्थ भाव प्रकट करने के लिये कोष के समान अनुपम साधन की अत्यावश्यकता प्रतीत होने लगी और उसके सम्पादन की उक्त इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस दशा में मेरे पूज्य पिताजी ने सन १९१० ईसवी में जैन सूत्रों में शब्द संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया और स्वल्प समय में ही लगभग १५००० शब्दों का संग्रह भी कर लिया। इसी समय इत्याके सुप्रासिद्ध विद्वान् डॉ० स्वाली ने इसी प्रकार का एक कोष निर्माण करने की इच्छा श्री श्वेताम्बर जैन कॉन्फरन्स को प्रकट की। जब यह बात मेरे पूज्य पिताजी के सरीचन्द्रजी भंडारी को ज्ञान हुई तब उन्होंने यह विचार करके कि ये माननीय विद्वान् स्वाली महोदय इस महावृष्टि कार्य को अधिक मुयोग्यता और दक्षता से सम्पादन कर सकेंगे, अपनी संग्रह की हुई शब्दावली उक्त कॉन्फरन्स को डॉ० स्वाली महोदय का सेवा में भेजने के लिये समर्पण कर दी। समय के फेर से यूरोप में भी प्रणाली महायुद्ध प्रारम्भ हो गया तथा अनेक ऐसे कारण उपस्थित हो गये जिससे यह कोष उक्त महोदय द्वारा सम्पादित न हो सका। मेरे पिताजी के अनुरोध से श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स ने इस कार्य में अभिवृच्छि प्रकट की तथा व्यय आदि की मंत्रांश देकर पूर्ण लहायता एवं सहानुभूति प्रकट की। तथापि विद्वानों की सहायता तथा अन्य साधनों की अनुग्रहिति के कारण कोष का महान् कार्य यथेष्ट रूप से उन्नति न कर सका। पिताजी कोष के मुद्यवस्थित रीति से और शीघ्रतासे सम्पादन करने की उग्र चिन्ता में ही थे कि इतने में उन्हें कार्यवश बंबई जाना पड़ा और वहां शतावधानी परिणित मुनिवर श्री रत्नचन्द्रजी स्वामी के शुभ दर्शनों का सुश्रवसर प्राप्त हुआ। मुनिजी की प्रख्यात विद्वत्ता और सामयिक दर्शन का उपयोग पूज्य पिताजी ने पूर्ण रूप से किया और श्री स्वामी जी महाराज से कोष सम्पादन कार्य के वास्ते विनीत विनय किया, जिसको स्वनामधून्य रत्नचन्द्रजी महाराज ने कृपाकर स्वीकार कर लिया, और बहुत ही अल्प समय में सुचारू रूप से सम्पादन कर

दाढ़ा । केवल तीन वर्ष की अवधि में ऐसे महान् कार्य को सर्वाङ्ग सुन्दर और सम्पूर्ण करना स्वामीजी की विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और कल्पनातीत परिश्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

## श्री स्वामीजी का संक्षिप्त जीवनचरित्र ।

---

जैन मुनि श्री रत्नचन्द्रजी महाराज के अविश्वासन परिश्रम का फल यह कोष है । आपका जन्म संवत् १६३६ वैशाख शुक्ल १२ गुरुवार को कच्छ देश में मुंड्रा नगर के पास भारोरा नामक ग्राम में हुआ । आपकी मातृशरी का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम वीरपाल शाह था । गुजराती भाषा की छु: पुस्तकों का अध्ययन करने के अनन्तर आप अपने जेष्ठ बन्धु के साथ कुल-क्रमागत प्रणाली के अनुसार वाणिज्य व्यापार में कुशलता प्राप्त करने के हेतु केवल बारहवें वर्ष ही में बम्बई, बेलापुर ( दक्षिण ) सनावद ( मालवा ) आदि व्यापार स्थानों में भेजे गये, वहां आपने धान्यादि का व्यापार किया । आपका विवाह-संस्कार १३ वें वर्ष हुआ । गृहस्थापन में तीन वर्ष भी व्यतीत न हो पाये थे कि आपकी सहधर्मिणी ने अपने स्मारक स्वरूप केवल एक कन्या को छोड़ इस असार संसार का संदेव के लिये परिच्छाग कर दिया, और इस प्रकार अपने वियोग से महाराज श्री के सहज परम गुण वैराग्य को परिपूर्ण करने में सहायता दी । महाराज श्री के हृदय में वैराग्य का पूर्ण प्रादुर्भाव तो था ही अपनी धर्मपत्नी के विछोह से आपको अपने इस उत्तम उत्पन्न सहज गुण की बुद्धि करने का अवसर प्राप्त होगया और असश्च शोक तथा छोभ के स्थान में वैराग्य-वासना ने अपना उत्तरांतर बदला हुआ अधिकार जमाया और मुनि श्री रत्नचन्द्रजी महाराज को साधुत्व प्रहण करने में सहायता दी । सामुन्न अङ्गीकार करने के पूर्व आपने कुछ समय साधुत्व सम्बन्धी आवश्यक तत्वों के प्रहण करने में व्यतीत किया । दीक्षा स्वरूप महान् संकल्प प्रहण करने में आप को विशेष आपत्ति न हुई । “प्रसादचिन्हन्दामि पुरः फलानि” योंकि आपके पूज्य पिताजी तथा ज्येष्ठ भ्राता वाणिज्य व्यापार द्वारा आजीविका करते हुए भी ऐसे शुभ तथा महान् पुण्य कार्य में मनाही न करने का सत्य सङ्कल्प पहिले ही कर चुके थे । यह असाधारण सुविद्या होने पर भी माता के अपार और अग्राध प्रेम के कारण महाराज श्री को इस निमित्त आज्ञा तुरन्त न मिल सकी । इस प्रकार एक वर्ष पर्यन्त आपने सांसारिक मनुष्य की भाँति जावन व्यतीत करते हुए दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, थोकड़े इत्यादि का अध्ययन दत्तचित्त होकर किया और इसी अवधि में आपने तीव्र वैराग्य भावों का दृश्य इस प्रकार प्रत्यक्ष किया कि स्वयं, पूज्य माताजी ने उन्हें दीक्षा प्रहण करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी । इस प्रकार आपने संवत् १६४३ के जेष्ठ शुक्ल ३ के दिन पूज्यपाद श्री १००८ श्री गुलाबचन्द्रजी स्वामी ( लंबिडी संप्रदाय ) के समीप अपनी उमर के १७ वें वर्ष में परम पवित्र दीक्षा प्रहण की । दीक्षित होने के पश्चात् शीघ्र ही आपने संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया और अल्प काल में ही सिद्धान्तचन्द्रिका, सिद्धान्तकौमुदी, तत्त्वबोधिनी, मनोरमा, पञ्च-काल्य, अलङ्कार, साहित्य, नाटक आदि का सम्यक्त्वान उपार्जन कर लिया, और अनन्तर न्याय के तर्कसंग्रह से लगाकर जगदीश गदाधर के बाध-श्रानुमति ग्रन्थ तक अध्ययन भलीभांति किया । इसके पश्चात् सांख्यदर्शन, पातञ्जलदर्शन आदि ग्रन्थों की शिक्षा कच्छ और काठियावाड़ के

अनेक ग्रामों में रहकर उपार्जन की और इस प्रकार सतरहवें वर्ष की अवस्था से लगाकर उनतीस वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया तदनन्तर संवत् १४६६ से व्याख्यान देना और अवधान करना प्रारम्भ किया । आप ऐसे प्रतिभाशाली मुनिरत्न हैं कि लगातार सौ अवधान कर सकते हैं । इन श्रीमान् के अवधान कई अच्छे अच्छे ग्रामों में हुए हैं और उनकी रिपोर्ट पुस्तकाकार रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है । बम्बई में भी एक समय अवधान हुए थे, उस समय महाराजजी की विद्वाना का प्रत्यक्ष प्रमाण करने के लिये सर चंदावरकर आदि अनेक विद्वान उपस्थित हुए और अन्त में महाराज की सामर्थ्य, विद्वाना और बुद्धिमान, उत्साही, परिश्रमी, विवेकी, शान्तप्रकृति और निरभिमानी मुनि थोड़े ही होंगे । आप जैसे विशिष्ट विद्वान हैं वैसे ही धुरंधर लेखक और आशुकवि भी हैं । आपने कई ग्रन्थों की रचना संस्कृत और गुजराती भाषा में की है जिनमें कर्तव्यकौमुदी, भावनाशतक, अजरामरजी स्वामी का जीवन-चरित्र, गर्भित भक्ताम्बर की पादपूर्ति, ३५ स्तोत्र आदि प्रधान हैं । आपके कई संस्कृत और गुजराती लेख मासिक पत्रों द्वारा प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनका संग्रह “रत्नगद्यमालिका” नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है । यह कोष जिसके अभाव में बड़े विद्वान जैन धर्म के अगम्य और अद्वितीय तत्वों का भाव यथावत् न समझ सकते थे और जिसके लिये आज सकल विद्वत्समाज टकटकी जागाये हुए आतुरता से देख रहा था उक्त मुनिजी ही के अविश्वान्त परिश्रम का फल है ।

## कोष की उपयोगिता ।

---

यह सन्तोष की बात है कि जैन धर्माध्यारी सज्जनों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । भारतीय विद्वान ही नहीं, किन्तु इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, अमेरिका आदि देशों के प्रसिद्ध २ विद्वान भी इस धर्म के साहित्य को ग्रहण करने लगे हैं । इस लिये उन्हें और इतिहास-खोज करने वालों को अर्ध-मागधी भाषा के साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है । इन पाठकों तथा सज्जनों के लिये कोष अमूल्य ही है । इसके सिवाय वर्तमान आर्य भाषाओं जैसे हिन्दी, गुजराती, बंगला, मराठी आदि के शब्दों की व्युत्पत्ति ढूँढ़ कर निकालने में तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के अध्ययन करने वाले को बड़ी कठिनाई होती है । इस कोष से वे कठिनाईयाँ भी दूर हो सकती हैं । साथ में वर्तमान देशी भाषाओं के विकास की जो चर्चा साहित्य-संसार में चल रही है, उसको भी इस ग्रन्थ से बड़ी भारी सहायता मिलने की पूर्ण संभावना है । इसके सिवाय यह कोष अर्ध-मागधी के अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी इन चार भाषाओं में होने के कारण हर एक देश के विद्याप्रेमी को उपयुक्त हो सकता है । प्रायः आज तक जितने कोष देखने में आये हैं; वे सब केवल एक या दो ही भाषा के हैं, और इस कारण सर्व साधारण के लिये उपयुक्त नहीं हो सकते । सार्वजनिक उपयोगी बनाने के हेतु इस कोष की रचना पर विशेष ध्यान रखा गया है । हरएक देश के विद्यार्थियों से लेकर बड़े २ विद्वानों के भी उपयोग में आ सके, इस हेतु भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी, राजभाषा अंग्रेजी, आदि भारी संस्कृत तथा गुजराती का उपयोग किया गया है । अर्ध-मागधी शब्दों का अनुवाद उपरोक्त कही हुई भाषाओं

में किया जाने के कारण सुलनात्मक भाषा शास्त्र और साहित्य अध्ययन करने वालों के लिये वह बड़े ही महत्व की चीज़ होगी, इतना ही नहीं, परन्तु यह कोष अर्ध-भागवी भाषा में भरे हुए जो अगम्य तथा हजारों बर्ष पहिले जाने जा चुके हैं उन्हें सुलभता से और सुगमता से जानने की कुंजी है। इस ग्रन्थ में हजारों अर्ध-भागवी अवतरण भी दिये गये हैं, इस कारण यदि इस कोष को अवतरण-कोष भी कहें तो अनुचित न होगा। इन अवतरणों को पढ़ने से आनन्द और शान्ति के साथ २ ज्ञान की भी खूब वृद्धि होती है। कोष की उपयोगिता बढ़ाने के हेतु क्रियाओं और संज्ञाओं के रूपाल्यान भी दिये गये हैं, तथा गहन शब्दों का स्वरूप स्पष्ट रीति से समझाने के अभिप्राय से जहाँ तहाँ कितने ही चित्रों की भी योजना की गई है। इस कोष की एक और विशेषता यह है कि इसके अंग्रेजी अनुवाद में जहाँ २ पारिभाषिक आदि शब्द उयों के त्वयों अंग्रेजी अव्वों में रखे हैं उनका उच्चारण शुद्ध और सुलभता से हो सके इस हेतु उन शब्दों के अव्वों के ऊपर अलग २ तरह के चिन्ह किये हैं जिससे पाश्चिमात्य विद्वान शब्दों का शुद्ध उच्चारण बहुत ही सुलभता से कर सकते हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में विशेष ध्यान रखा गया है। मैं यह कहना अत्युक्ति नहीं समझता कि इसके समान उपयुक्त पञ्चभाषिक कोष आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। इस कोष में जो अर्थ दिये गये हैं वे विशिष्ट साम्प्रदायिक मतव्य रहित हो कर निर्विवाद, असन्दिग्ध और शुद्ध हैं क्योंकि इस ग्रन्थ के संपादक एक विद्वान तत्त्वज्ञानी और जैन धर्म के आचार विचार को पूर्णतया जानने वाले निर्मल मुनिरत्न हैं। अन्य साम्प्रदायिक जैनी भाइयों से मैं यह विशेष प्रार्थना कर देना चाहता हूँ और उनको पूर्ण विश्वास दिलाना आवश्यक समझता हूँ कि इसमें साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं रखा गया है। इस कारण जैन धर्मान्तर्गत श्वेताम्बर, दिग्म्बर, स्थानकवासी आदि समस्त संप्रदाय के महानुभाव इस ग्रन्थ से महान् लाभ उठा सकते हैं।

## कोष बनाने के कार्य में उपस्थित बाधाएं।

---

प्रथम तो इस भाषा के जानकार विशेषतः जैन मुनि ही होने के करण प्रायः इन मुनियों के सिवाय इस कार्य में विशेष सहायता इतर सजानों से प्राप्त न हो सकी। जैन मुनि धर्मशास्त्रानुसार मर्यादित काल से अधिक समय एक ग्राम में निवास नहीं कर सकते और छोटे बड़े सब ही प्रकार के ग्रामों में उन्हें विचरना होता है ऐसी दशा में कोष जैसे महान् कार्य को करने के साधन व सबूत सामग्री सर्वत्र समुचित उपस्थित न हो सकी। इस कारण शब्द-संग्रह आदि कार्यों में नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हुईं। पुनः इस कार्य में सहायता के हेतु जो शास्त्री आदि अन्य सहायक श्री महाराजजी की सेवा में रखने गये थे वे जैन धर्म से अपरिचित होने के कारण उनसे यथेष्ट सहायता न मिल सकी। श्री महाराजजी के विद्वार के कारण शास्त्री आदि अन्य कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ २ बारबार एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाना आवश्यक होता था और यह परिश्रम बहुतों को असत्य होने के कारण किञ्चित् अनुभवप्राप्त कार्यकर्ता इस कार्य का परिस्थाग कर देते थे। नये कार्यकर्ताओं को पुनः कार्य से परिचित कराने में बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ा और कार्य में विज्ञान द्वारा जिभू जैन मुनियों से शब्द-संग्रह के कार्य में सहायता प्राप्त हुई उनके शुभ नाम

उद्देश करना मेरा आवश्यक धर्म है और वे परिणत, मुनि श्री उत्तमचन्द्रजी स्वामी (लौबड़ी सम्प्रदाय) पंजाब के श्री उपाध्यायजी श्री आत्मारामजी महाराज, प्रवर परिणत पूज्य श्री माधव मुनिजी महाराज और कच्छ आठकोटि सम्प्रदाय के परिणत मुनि श्री देवचन्द्रजी स्वामी हैं। इन्हों के अतिरिक्त श्रीयुत पोपटलाल केवलचंद शाह ने भी शब्द-संग्रह के कार्य में यथाविअल्प किन्तु जो तन मन से सहायता की है उसके लिये मुझे आशा है कि साहित्यानुरागी विद्वान् आप सर्व महानुभावों के अवश्य आभारी होंगे। यह कार्य अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण होने के कारण इस कार्य में योग देने योग्य सज्जन केवल गिने चुने उपरोक्त मुनिवर हैं। मैं उनका परम उपकार मानता हूँ। इन निर्दिष्ट मुनिवरों के सिवाय जैन साधुवर्ग में दो चार महात्मा ऐसे हैं कि जो इस कार्य में विशेष सहायता दे सकते थे, कारण वे अच्छे विद्वान् भी हैं किन्तु कई ऐसे अनिवार्य कारण उपस्थित होगये कि जिससे दे साधुजन कोष जैसे महत्वपूर्ण कार्य में योग न देसके। यदि उन महात्माओं द्वारा इस कोष के कार्य में सहायता मिलती तो यह कोष और भी सुन्दर होजाता किन्तु “कर्मणो गहना गतिः” इस अदृट सिद्धान्त के अनुसार हमें उनकी मौलिक विद्वत्तापूर्ण सहायता से विच्छिन्न ही रहना पड़ा।

मूल शब्दों के गुजराती अर्थ का हिन्दी अनुवाद करवाने में बड़ी भारी बाधा उत्पन्न हुई। वैसे ही अंग्रेजी अनुवाद के लिये अंग्रेजी जानने वाले विद्वानों की खोज की गई परन्तु जितने विद्वान मिले सब अजैन या दिग्मधार जैन मिलने के कारण उनसे अनुवाद करवाने पर कई जगह त्रुटियाँ पाई गईं, जिसका कारण इन सउजनों का साधुओं के आचार से तथा अन्य पारिभाषिक शब्दों से अनभिज्ञ होना ही है। पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद यथावत् न कर सके, इतना ही नहीं, किन्तु कई स्थानों में अर्थ के अनर्थ कर डाले, जिन्हें सुधारने में बहुत ही परिश्रम उठाना पड़ा। इन अनर्थों के कुछ नमूने नीचे उद्धृत किये जाते हैं जिससे विश्व सज्जनों को यह ज्ञात होजायगा कि साम्रदायिक पारिभाषिक शब्दों का भाव अन्य भाषा के अनुवाद में लाना विशेषतः जैन धर्म के रहस्य से अपरिचित विद्वानों के लिये कितना कठिन है।

मूल शब्द।	गुजराती अनुवाद।	हिन्दी या अंग्रेजी अशुद्ध अनुवाद।	हिन्दी या अंग्रेजी शुद्ध अनुवाद।
१ अजाया. त्रि०	साधुने नार्खी देवानी चीज यत्ना-सहित परठवीं ते.	साधु की कैंकदेने योग्य चीज को यत्ना पूर्वक संभाल कर रखना.	साधु के तजने योग्य वस्तु को यत्नाचार पूर्वक त्यागना.
२ अग्याउन्त. त्रि०	उपयोग रहित; उपयोग विनानो; असावधेत.	बिना उपयोग का; निश्चयोगी। Useless.	उपयोग रहित; असावधान। Un-wary; without proper circumspection.
३अण्णाउत्तमगण.न०	उपयोग विना चाल-तुं ते.	Un-necessary movement.	Movement without proper circumspection

४ अथाययण. न०	पासतथा बगोरेनुं उत- रवानुं स्थान.	पशु अथवा नमुसक आदि के उतरने (ठ- हरने) का स्थान.	शिविलाचारी आदि के उतरने (ठहरने) का स्थान
५ अधिदानता. स्त्री०	नियाणुं न करवानो भाव; फलांशसा रहितपणुं.	जिसका निदान न किया जासके वह.	फलाशा रहित भाव; नियाणा न करने का भाव.
६ अणेसशिज. त्रि०	साधुने न कल्पे तेवुं.	साधु की कश्पना में न आवे ऐसा.	साधुके लेने योग्य न हो वैसा; किसी भी दोष से जो अग्राह होगया हो वह.

इस कोष की अंग्रेजी प्रस्तावना लिखने में प्रो. ए. सी. बूलनर साहित ने जो परिश्रम डाकर इस कोष की उपयोगिता और उपादेयता बढ़ाई है उसके लिये मैं उनका अन्तःकरण से आभारी हूँ। वैसे ही श्रीयुत बनारसीदासजी एम. ए. प्रोफेसर ओरियेटेक कॉलेज जाहार, इन्होंने कोष की उपयोगिता बढ़ान के लिये जो अर्ध-मागधी व्याकरण देकर उदारता बताई है तथा कोष के कार्य में जो यथा समय सच्चाएँ दी हैं उनके लिये जो आपका बहुत आभार मानता हूँ।

इस कोष का अंग्रेजी अनुवाद श्रीयुत प्रीतमलालजी कच्छी बी. ए. ने किया है। यद्यपि आप अजैन हैं तो भी आपने इस कार्य के पूर्व ही जैन-शास्त्र आदि का मनन कर लिया था जिस कारण आप साम्प्रदायिक व पारिभाषिक आदि शब्दों के अर्थ का भाव भलीभांति अंग्रेजी में ला सके। यद्यपि इन महाशय को शदानुवाद के लिये पर्याप्त दृश्य प्रदान किया गया था लेयापि इन्होंने यह कार्य केवल वैतनिक दृष्टि से ही नहीं किया, वरन् उत्साह और प्रेम के साथ किया जिसके लिये मैं आपका परम उपकार मानता हूँ। इसी ही प्रकार परिषिद्ध ठाकुरदत्तजी शास्त्री ने महाराज श्री रत्नचन्द्रजी के समीप रहकर जो कोष का कार्य किया है तथा छापखाने में रहकर संशोधन के कार्य में जो परिश्रम उठाया है उसके लिये आप अनेक धन्यवाद के पात्र हैं।

इस कोष के कार्य में प्रो. पू. के. बेलवेलकर एम. ए. पीएच. डी. डेकन कॉलेज पूना, ने बारम्बार अनेक सूचनाएँ देकर कोष को उपयुक्त और सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में जो सहायता दी है तथा परिषिद्ध गौरीशंकर हीराचंद्रजी श्रीभा ने कतिपय पृष्ठ संशोधन के कार्य में जो कष्ट उठाया है उसके लिये मैं आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ। जिन २ ग्रामों में श्री महाराजजी ने रहकर कोष का काम किया है और वहांके संघ के जिन जिन नेताओं ने परमार्थ बुद्धि से स्वयं कोष के कार्य में सहायता दी है उन महानुभावों के नाम निम्नलिखित हैं। मैं उनका परम उपकार मानता हूँ।

बम्बई—श्रीयुतं नगनदास माणेकलाल ।  
कठोर—भावसार मग्नलाल कुबेरदास ।  
जेतपुर—वकील जावराज वर्धमान ।  
लीबड़ी—शेठ भीरजलाल त्रिवेकलाल ।  
झांकानेर—शेठ बनेचंद देवजी ।

संरत—भावसार गुजारचन्द कल्याणचन्द ।  
धोराजी—शा. न्यालचन्द जेचंदजी ।  
पोरबंदर—धेवरिया देवीदास लखमीचंद ।  
थानगढ—शेठ गोपलजी लाडका ।  
मोरची—शेठ वीकमचंद अमृतलाल ।

इन सज्जनों के अतिरिक्त मुनि श्री रूपचन्द्रजी स्वामी, मुनि श्री शिवलालजी तथा वाढीलाल छोटालाल ( लींबडी ), धोराजी कन्याशाला के अध्यापक श्रीयुत कालिदास दामजीने भी जो यथारक्षित मदद दी है उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ ।

साहित्य सम्बन्ध में मेरे पूर्य पिताजी को कितनी निर्भल और उग्र हाचि है इसका साझी स्वयं यह कोष प्रकाशनका कार्य है । मुझे पूर्य विश्वास है कि प्रकाशक के यह दो शब्द यदि स्वयं मेरे पूर्य पिताजी की लेखनी से लिखे जाते तो कहीं अधिक उपयुक्त और रुचिकर होते, परन्तु इस कोष की हस्तलिखित प्रति संपूर्ण पूरी होने के पूर्व ही “ श्वेयांसि बहुविद्म्हानि ” इस नियमके अनुसार मेरे पूर्य पिताजी को गहन मानसिक व्याखि ने आ धेरा और उन्हें यह कार्य इसी ही दशा में विवश हो छोड़ना पड़ा । श्रीमान् पिताजी की आज्ञानुसार यह अवशिष्ट कार्य करना मेरा परम धर्म हुआ । यथापि मेरी शक्ति और बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इस उत्तम ग्रन्थ को विज्ञ सज्जनों की सेवा में उपस्थित कर सकूँ, तथापि पूर्य पिताजी के अनुग्रह और विद्वानों की सुदृष्टि के आधार पर मैं इस कोष को विद्वत्समाज की सेवा में सादर समर्पण करता हूँ और यह विनती करता हूँ कि मेरे अश्वज्ञान के कारण ‘संशोधनकार्य में यदि श्रुटियां रह गई हों तो उदार पाठक दृढ़ “ हंसतीरन्यायेन ” शुद्ध बातों को ग्रहण करेंगे और मेरी अज्ञानता के लिये जमा प्रदान करेंगे, तथा द्वितीय संस्करण के हेतु रचना पद्धति अनुवाद, छपाई आदि सम्बन्धी श्रुटियों की सूचना मुझे देनेका परम अनुग्रह प्रकट करेंगे । अंग्रेजी अनुवाद सम्बन्धी कठिनाहयों का सार अनुवादक महोदय की वचनावली से प्रकट होगा ।

अंत में शतावधानी मुनिवर श्री रथचन्द्रजी महाराज को पुनः अनेकानेक धन्यवाद देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि उनके उत्साह, सदर्म-पालन और अनेक शास्त्र परिशीक्षन विना यह प्रकाशन संवथा असंभव ही होता । श्री श्वेतस्थान को धन्यवाद देना और उसका गुणगान करना मेरा आवश्यक धर्म है, क्योंकि इस संस्था की सहायता और उत्साह बृद्धि के कारण इस उत्तम साहित्य सेवा का परम सौभाग्य मेरे पूर्य पिताजी को प्राप्त हुआ ।

राजबाड़ा चौक

विनीत

इन्दोर (मालवा),

सरदारमल भंडारी,



# कोष देखने के नियम ।

( १ ) प्रथम मूल शब्द मोटे टाइप में दिया गया है और उसके बाद उस शब्द का लिङ्ग अथवा जाति दर्शक संचित वर्ण दिया गया है । तदनन्तर उस मूल शब्द का संस्कृत प्रातिशब्द दिया है, और फिर उस शब्द के अर्थ गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में क्रमशः दिये गये हैं । ये अर्थ पूर्ण हो जाने पर मूल शब्द जिन जिन सूत्रों में या प्रन्थों में प्रयुक्त हुआ है उन २ सूत्रों के या प्रन्थों के संचित नाम और जिस जगह वह शब्द आया है उस गाथा ( श्लोक ) या अध्ययन आदि का निर्देश अङ्कों द्वारा किया गया है, जिनका पूर्ण खुलासा कोषान्तर्गत सूत्रों की सूचि से तथा व्याकरण के संसेप की सूचि से हो सकता है । कई शब्दों के साथ सूत्रों के प्रमाण-वाक्य ( अवतरण ) भी दिये गये हैं । जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उनके भिन्न २ अर्थ १, २, ३, इत्यादि अङ्कों द्वारा क्रमशः बताये हैं ।

( २ ) जहाँ कहीं मूल शब्द अर्थान्तर की दृष्टि से लिङ्गान्तर में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ उस अर्थ के साथ जाति का निर्देश भी कर दिया है ।

( ३ ) सामासिक शब्द मूल शब्द के पेटे में दिये हैं और उन्हें भी मूल शब्द के समान मोटे टाइप में रखकर उनके पूर्व यह—चिन्ह किया है और इसी प्रकार सामासिक संस्कृत प्रति-शब्दों को भी ऊपर निर्दिष्ट चिन्ह के साथ रखा है ।

( ४ ) धातु को पहिचानने के लिये उसके पूर्व यह  $\checkmark$  चिन्ह किया है और उसके जितने रूप प्रायः उपलब्ध हो सके, वे सब लकारादि क्रम से दिये हैं अथवा विशेष प्रतिपत्ति के लिये तत्त्वाकार का निर्देश भी किया गया है जैसे विधि लकार, आज्ञार्थ लकार ।

( ५ ) जो मूल शब्द अर्ध-मायधी का नहीं है किन्तु पैशाची आदि अन्य सर्वर्ण भाषाओं का है, उसके पूर्व यह \* चिन्ह किया है और ऐसे शब्दों के संस्कृत-प्रतिरूप उपलब्ध न होने के कारण उनका अनुवादमात्र संस्कृत में दिया है, जैसे:- \* अगड ( कृप ) आदि ।

( ६ ) जिस मूल शब्द का संस्कृत पर्याय तो यों का त्यों हो सकता है किन्तु वह पर्याय संस्कृत- साहित्य में प्रसिद्ध नहीं है अथवा पूर्व काल में प्रसिद्ध होगा और अब प्रचलित नहीं है, ऐसे संस्कृत पर्यायों को पहिचानने के लिये उनके पूर्व यह \* चिन्ह लगाया है, जैसे:- अवलुय. (\* अवलुक-नौकादण्ड), अगड. (\* अगत-अज्ञात ), आभिसरमाण. (\* अभिसरमाण- अभिसरत् ), अववरोवित्ती. (\* अस्यपरोपिता-अव्यपरोपण ) आदि । कहीं कहीं मूल शब्द और संस्कृत-पर्याय भी शुहू अन्तर देखने में आता है, जैसे:- फास. ( स्पर्श ), नारा. ( ज्ञान )

उपरिलिख. ÷ ( उपरितन ) आदि २ किन्तु ऐसे शब्दों के पूर्व यह \*चिन्ह नहीं दिया उसका कारण वह है कि ये शब्द खास अर्थ-मागधी भाषा के ही हैं और इनके लिये संस्कृत के निर्दिष्ट रूप ही प्रचलित तथा प्रसिद्ध है। वर्णभेद दोते हुए भी केवल शब्दशास्त्र से ही उनके संस्कृत रूपों का बोध हो जाता है। इस कारण ऐसे शब्दों के पूर्व यह \*चिन्ह नहीं दिया। वैसे ही ऐसे शब्दों के रूपान्तर साहित्य में किसी जगह देखने में नहीं आये।

( ७ ) मूल शब्द के आगे जो जाति दी गई है वह अर्ध-मागधी शब्दों की ही है जो कि उनके संस्कृत-पर्यायों की। प्रायः मूल शब्द और संस्कृत प्रतिशब्दों की जाति अधिकांश मिलती जुलती ही है तथापि खासकर वह जाति मूल शब्दों की ही है। जिस शब्द की जो जाति सूत्र में मानी गई है अर्थात् सूत्रकारों ने जिस शब्द को जिस जाति में प्रयुक्त किया है उस शब्द की वही जाति यहां भी दी गई है जैसे:-अक्षुद्र. पुं० ( अक्षुद्र ) गंभीर श्रावक। यह शब्द पुलिङ्ग माना गया है, किन्तु संस्कृत में कुद्र अथवा अक्षुद्र दोनों विशेषण माने गये हैं, वास्ते यह तीनों लिङ्गों में प्रयुक्त होता चाहिये यथाकिन्तु सूत्रों में यह शब्द केवल श्रावक के लिये ही आया है और उसे पुलिङ्ग ही माना है वास्ते कोष में भी उसे पुलिङ्ग बताया है। इसी प्रकार अंबिल. न० ( अम्ला ) एक प्रकार की वनस्पति। संस्कृत में यह शब्द अंबिलिंग माना है किन्तु सूत्रों में इस शब्द को नपुंसक लिङ्ग में ही प्रयुक्त किया है वास्ते यहां भी उसे नपुंसक लिङ्ग में ही रखा है।

( ८ ) शब्दों का अनुक्रम वर्णमाला के अनुसार-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, अं, और बाद में व्यञ्जन-क, ख, ग, वगैरह इस प्रकार रखता है।

( ९ ) संस्कृत भाषा में जिस प्रकार अनुस्वार को परस्वर्ण-वर्ग के अन्त्याहर के रूप में परिवर्तन कर स्थानान्तर-अनुनासिक + अचर के बाद रखता जाता है, वैसा अर्ध-मागधी भाषा में नहीं होता। इस भाषा में अनुस्वार को अनुस्वार के ही रूप में रखता जाता है अतः उसकी गणना अनुस्वार ही में की गई है, इस कारण इस कोष में अनुस्वार को व्यञ्जन के पूर्व ही रखा है, जैसे—अंओं के बाद अंक और उसके पश्चात् अकड़ आदि।

( १० ) सम्बन्धार्थ कृदन्त, हेत्वार्थ कृदन्त, और बतैमान कृदन्त इनमें जिसका धातु नहीं मिला वह अलग दिया है और जिसका धातु उपलब्ध है, उसे धातु के साथ ही रखा है। तीनों प्रकार के कृदन्त जहां स्वतन्त्र ( धातु के अतिरिक्त ) दिये हैं, वहां उन्हें अल्प बर कर दिया है, कारण कि सूत्रकारों ने भी ऐसी हालत में प्रायः इनको अल्प दी माना है। जैसे:- अकियाण्.

÷ 'झ' प्रत्वय अर्धमागधी में प्रसिद्ध होने के कारण यह \*चिन्ह नहीं दिया। इसकी संस्कृत भाषा 'तर तर, तर' है।

+ उत्तर के बाद जब 'क' से 'म' तक कोई भी अचर आता है तब अनुस्वार को परस्वर्ण, पर्याप्तवर्ण या अनुस्वार हो तो 'ह' और चर्वर्ग का कोई वर्ण हो तो व् आदि आदि हो जाता है। इनसे अनुस्वार या अनुस्वार सबसे प्रथम न रखते अन्त में दिया जाता है। वही अनुस्वार प्रथम आता है जिसके अन्त वर्ण य र ल व श व स ह होते हैं।

सं० रु० अ० ( अकृत्या ) आदि २। जहाँ तक हो सका वहाँ तक ऐसे रूपों को धातु के साथ ही रखता है; परन्तु जिनके धातु लोज करने पर भी न मिल सक और जो धातु मिल डनके साथ वर्ष-सारथ न होने के कारण इन्हें पृथक् ही रखना पड़ा ।

( ११ ) धातु + के मुख्यतया तीन गण माने गये हैं जो धातु प्रथम गण के हैं उनके आगे I. ऐसा पछ दिया है। जो द्वितीय गण के हैं उनके आगे II. ऐसा पछ दिया है और जो उभयगण के हैं उनके आगे I, II ऐसे पछ दिये हैं। योद्धे धातुओं की क्रियाएँ अलग भी दो गई हैं, जैसे:- अकर्तिसु, अलाद्वि आदि २। इन क्रियाओं को पृथक् रखने का कारण यह है कि, ये क्रियाएँ खुँक लकार की हैं और इनके पूर्व 'अ' है, अनुक्रम में फरक न आने के हेतु इनको अलग रखकर इनके आगे लिख दिया है कि देखो 'क' धातु और 'लभ्' धातु। क्रिया को देखने के पूर्व उसके धातु को देखना चाहिये जिससे उस धातु के साथ ही सब क्रियाएँ मिल सकती हैं। अर्थ-मागधी में उपसर्ग धातु के साथ ही रखता है और संस्कृत में उपसर्ग और धातु के बीच यह + चिन्ह दिया है। कहीं कहीं नाम धातु भी आये हैं और उनके आगे ना० धा० ऐसा संज्ञेप किया गया है ।

( १२ ) एकार्थ शब्दक शब्दों का अन्तिम अचर यदि 'अ' अथवा 'य' आया है तो दोनों ( अ, य ) उस शब्द के साथ दिखता दिये हैं, जैसे:- अवगाय-य \*। इसी प्रकार धातु के रूपों में भी अन्तिम अचर 'इ' और 'ति' उस रूपके साथ ही बताए हैं। कहीं पर 'अवगाइ' व कहीं पर 'अवगय' ऐसे दोनों रूप देखने में आते हैं परन्तु इस शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ स्वतन्त्र रूप से किया है और जब वह विभक्त्यन्त हो जाता है तब 'अवगय' ऐसा ही होता है ।

( १३ ) कहीं स्थानों में शब्दान्तर्गत 'क' और 'ग' के दो शब्द न दिखाकर उन दोनों क और ग का एक ही शब्द में वैकल्पिक समावेश कर दिया है, जैसे—अव्योक-ग-उ (अव्याहृत) ।

( १४ ) तद्, युग्मद्, अस्मद् आदि त्यदादि शब्दों के रूप जहाँ तक सूत्रों में मिल सके, सभी प्रथमा विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक अनुक्रम से दिये हैं। अर्थ-मागधी में चतुर्थी विभक्ति का अवहार नहीं होता वास्ते उसके रूप नहीं दिये। चतुर्थी विभक्ति को जानने के प्रत्यय

+ जिस धातु के उपान्यवर्ण अर्थात् प्रत्यय ( तिप्, तस्, मिं आदि ) के पूर्व के अचर में 'ए' की मात्रा लग जाती है, वे धातु द्वितीय गण के होते हैं। जिस धातु के उपान्य अचर में "ए" की मात्रा नहीं लगती वे प्रथमगण के होते हैं। कोई धातु ऐसे भी हैं कि जिनको यह मात्रा विकल्प से लगती है। ऐसे धातु उभयगणी माने गये हैं, जैसे:-; अरिहृष्ट प्रथमगणी, अवमयेति द्वितीयगणी; अवहृत, अव्याहृत उभयगणी ।


\* इस शब्द में 'अ' के पांछे 'य' है, कहीं पर 'य' के पांछे 'अ' मिलेगा इस प्रकार का विन्यास प्रमाणाधिक्य ( अर्थात् सूत्रों में अकारान्त शब्दों का बाहुल्य होने से 'अ' प्रथम और यकारान्त शब्दों की प्रबुर्ता से 'य' प्रथम रखता है ) रेफरेंस और कोटेशन्स के लिहाज से किया है ।

‘तथे’ ‘हुए’ हैं। कई शब्दों के ऐसे भी रूप दिये गये हैं कि जिनका अन्य शब्दों की अपेक्षा किसी विभक्ति में भिन्नरूप होता है, जैसे—‘राजन्’ शब्द का उष्णी विभक्ति में ‘रणणो’ ऐसा रूप होता है।

( १५. ) कोई भी शब्द बिना सूत्रों में देखे और इनका अनुसन्धान किये नहीं दिया गया। अवतरण ( कोटेशन ) केवल जहां देना उपयुक्त व आवश्यकीय समझा वहीं दिया गया है तो भी प्रायः फी सदी पचास के अवतरण दिये गये हैं। सूत्रों के जो प्रमाण अङ्क ( रेफरन्स ) दिये हैं वे विज्ञकुल ही सही हैं; कारण उनको एक बार ही नहीं किन्तु अनेक बार जांचकर दिया है। समस्त शब्द वर्तमान में जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं और जिनकी सूचि दे चुके हैं, उन्हीं में से चुने गये हैं। खुलासे के लिये देखो “कोपान्तर्गत सूत्रोनी यादी” ।

( १६ ) संस्कृत-पर्याय अनेक कोषानुमोदित और व्याकरणरीति से भी शुद्ध हैं। जहां एक संस्कृत पर्याय से काम नहीं चला वहां उसका दूसरा पर्याय भी दिया है, वैसे ही कहीं कहीं प्रकृति-प्रत्यय भी दिखलाया है; व्युत्पत्ति समास भी किये हैं। प्रत्येक शब्द का धातु वगैरह लिखने से या प्रकृति-प्रत्यय समासादि करने से अथवा दूसरा पर्याय आदि देने में ग्रन्थ का विस्तार एक दम बढ़ जाता, वास्ते आवश्यकता से अधिक इस विषय की ओर ध्यान नहीं दिया। अन्य भाषाओं में दो दो तीन तीन पर्याय देकर प्रकारान्तर से अर्थ करके समझाया गया है।

( १७ ) संस्कृत साहित्य के अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किन्तु इस कोष में केवल वे ही अर्थ दिये गये हैं जो कि सूत्र-प्रतिपादित हैं। प्रकारान्तर से इस कोष को “आगमकोष” भी कह सकते हैं।



## चित्र-सूची ।

---

नाम						पृष्ठ संख्या
१ अंधयारकेत्त ( अन्धकार-केत्र )	...	...	...	...	...	३८
२ अट्टमंगल ( अष्ट-मङ्गलिक )	...	...	...	...	...	१२५
३ अट्टारससहस्रसीलंगरह ( अष्टादशसहस्र-शालाहु-रथ )	...	...	...	...	...	१२१
४ अद्वाइजदीव ( अदी-अदाई द्वीप )	...	...	...	...	...	१२६
५ अभिगम ( अभिगमन )	...	...	...	...	...	३४६
६ अभिसेयसिला ( अभिषेक-शिला )	...	*	...	...	...	३६७
७ अहोलोय ( अघोलोक )	...	...	...	...	...	५१०

---



॥ श्रीः ॥

→ नमोऽस्तु महावीराय ←

\* सचिव \*

## ॥ अद्वैतमागधी-कोष ॥

अ ]

अ.

[ अद्वैतकक्ष

अ. अ० ( च ) अनें; वणी. और. And; also. दस० ६, १; १३; ( २ ) गायनुं यरणुं पुरुं करवा आ अभ्यय वपराप्ते. गाया का चरण पूरा करने के काल में आने वाला. a particle used expletively. अगुन्त० १०, ८; क० गं० १, ३१; ५८;

अअगर. उं० ( अजगर ) अज-अजरो, तो गर-गणीजनार; अंड जलने, भंडाटा भीड़; भंडु साप; अजगर. अजगर एक सांप का नाम, जो बकरों को भी निगल जाता है. A huge serpent ( boa-constrictor ) said to swallow goats. सू० २, ३, २४;

अइ. अ० ( अति ) अनिश्चय; धाणूः वधारे; अत्यंत. इयादह; बहुत; अतिशय. Excessive; too much. नाया० १; १५; पंचा० १, २; पिं० निं० भा० २५;

अइअंश्चिल. वि० ( अत्यस्त ) अतिखाड़ु. बहुत खट्टा. Very sour; very acid. कप्प० ४, ६५;

अइअच्छ. स० क० अ० ( अत्येत्य ) अतिक्षमणु करीने; उक्षितीने. उलांघकरु. Having transgressed; having gone beyond bounds. “अइअच्छ सब्बओ संगं” आया० १, ६, २, १८३; ( २ ) उपेक्षा करीने;

गणकार्या विना. उपेक्षा करके. having neglected; not having minded. “फहगाइ दुर्तीनकसाहं अइअच्छ मुणी परकम-भागे” आया० १, ६, १, ६;

अइआर. पुं० ( अतिचार ) व्रत, उप्रतिशा लांगवानी तैयारी करनी; व्रतभंगने सन्मुख थनुं ते; वननी लह उड़ान्धवाने पग उपाडवो; व्रतविराधवानी डेशिश. व्रत, अथवा प्रतिशा भंग करने को उद्यत होना. Readiness to violate a vow; a preparatory stage of the violation of a vow. ठा० ३, ४; प्रव० २६६;

अइ. ली० ( अदिति ) पुनर्वसु नक्षत्रो अ-पिण्डाता देवता. पुनर्वसु नक्षत्र का अधिष्ठातु देवता. The presiding deity of the Punarvasu constellation, the seventh of the lunar asterisms. “पुणव्यम् अइदेवयाण् परणात्ते” म० प० १०; ठा० ३, ३;

अइउक्षस. वि० ( अस्युक्षर्ष-उक्षर्षमिभमान-मतिक्रान्तः ) अलिमानरहित; अहंकार विनानो. अहंकार रहित; अभिमान विनाका. •Devoid of pride. “तवस्ती अइउक्षसे” दस० ५, २, ४२;

**आइउच्च.** त्रिं ( अन्युच्च ) अति उंचुः; धारुः उंचुः. बहुत ऊँचा. Very high. “नाइउ-चे व नोएवा” उन० १, ३४;

**आइउज्जल.** त्रिं ( अन्युज्जल ) अनिस्वर्णः; धारुः योऽप्युः. बहुत अच्छा. Extremely clear; very bright. मु० च० ४, १८०;

**आइउग्ह.** त्रिं ( अन्युग्ह ) अनि उन्. बहुत गर्म. Excessively hot. कप० ४, ६५;

\* **आइउस्त्र.** त्रिं ( अल्याद्र ) अनिभिन्; अहु भिनाशयाण्. बहुत गंला. Very damp. कप० ४, ६५ः

**आइउसिणा.** त्रिं ( अन्युप्ल ) धारुः गरभः; धारुः उन्. बहुत गर्म. Very hot. मु० च० २, ४१६;

**आइकंडूहय.** न० ( अतिकण्डूयित ) नभवेऽ अतिशय खंडेणवुः-वलोरवुः. नखों से बहुत ज्यादह खुजाना. Scratching too much with nails. “आइकंडूहयं सेयं” सू० १, ३, ३, १६;

**आइकरक्षुड़.** त्रिं ( अतिकरक्ष ) अत्यन्त कठिन्-कर्शी; धारुः भः॒॒यदुः. बहुत खरदरा. Very hard; extremely rough. विश० १०४५;

**आइकाय.** पुं० ( अतिकाय ) दक्षिण् दिशामां रेणुनार॒ भण्ट॒रग् ज्ञानिना व्यंतरदेवताना॑। ई॒. दक्षिणा दिशा में रहने वाले महोरगराजानि के व्यंतरदेव का इन्द्र. Lord of the Vyantara gods of the Mahoraga class inhabiting the southern regions. नाया० २; ५; भग० ३, ८; १०, ५; ठा० २, ३; पञ्च० २; ( २ ) त्रिं भंड॒रा॑ शरीर वाप्ति॑. वडे शरीर वाला. of a bulky body: corpulent. नाया० ६;

**आइकिलिङ्ग.** त्रिं ( अतिकिलिष्ट ) अत्यंत सं- दिक्ष॑-इदेश युक्त. बहुत क्लेश वाला; अत्यन्त झिङ्ग. Greatly troubled or agitated. क० प० ४, ७६;

**आइकंत.** त्रिं ( अतिक्रान्त ) उलंधन करेणुः. उलंघा हुआ. Transgressed. नामा० १: पञ्च० २: ( २ ) ने वधत भुक्तर॒ क्रेक लेण्य नेने उलंधीने करेणुः तप अथवा पञ्चाखाण्. निश्चिन समय का उलंधन करके किया हुआ तप अथवा प्रन्यास्यान. ( पञ्चाखाण् ) austerity or vow practised after the time fixed for it has elapsed. “गोदादृतवोकम्म पडिवज्जइ तं अशन्त्वा॒ण काले एवं पञ्चाखाणं आइकंतं होई नायर्वात” ठा० १०; भग० ७, २; प्रव० १८७; —चारि॒. त्रिं (—चारिन् ) भर्यादानुः उलंधन करी विचरनार-वर्तनार. मर्यादा को उलंघ कर चलने वाला. ( one ) who violates prescribed rules of conduct; a transgressor. “ कालाइकंतचारिणो जडावि॒” प्रव० ७८८;

**आइकंत.** त्रिं ( अतिकान्त ) अतिभोग॒; अनि सुंदर॒. बहुत मुन्दरः परम मनोहर. Very charming. परह० १, ४;

✓ **आइकम.** धा० १. ( अति+कम् ) अतिक्षम॒॑ कठवुः उलंधन करवुः उलंघना. To transgress; to violate.

**आइकमइ.** भग० १, ६; ५, २; ६; पि० नि० १६४; ओव० ३८;

**आइकमंति.** कप० ६, ६३;

**आइकमेज्जा.** वि० वेय० ५, ४१;

**आइकमम्.** सं० क० ० गच्छा० ५;

**आइकमित्त.** सं० क० ० दस० ५, २, ११;

**आइकममाण्.** भग० १, ६;

अइक्कमंत. व० कृ० पि० नि० १८४; प्रव० ५४६;

**अइक्कम.** पुं० ( अतिक्रम ) लीघेल नत-पच्च-भाषु अथवा प्रतिज्ञा भांगनाने संक्षेप-धर्मा कर्ता, के अनुमोदन करने ते. लिये हुए व्रत की प्रतिज्ञा का भंग करना या उसका अनुमोदन करना। A thought or an inclination to violate a vow or a self-imposed oath; approval of such thought or deed. “आहा कम्मारिमंतण; पांडिमुणामाणे अइक्कमो होइ” पि० नि० १७६; वेय० ५, ६; पंचा० १, ३२; गा० ३, ४; दम० ५, २, २५; [ २ ] उल्लंघन करने; अतिक्रमण करना. violation; transgression. आव० ४, ६;

**अइक्कमणिज्ज.** त्रि० ( अतिक्रमणीय ) उल्लंघन कर्या योग्य. उल्लंघन करने योग्य. Fit to be transgressed. सूय० २, ७, ८१; अइग्रा॒. त्रि० ( अतिगत ) एँक्षार भरी श्री नेमांज उत्पन्न थेरेव; अनिश्च-वारंवार उपनेत्र. एक बार भर के फिर उर्मा में उत्पन्न हुआ; बारंबार उत्पन्न हुआ. Reborn in the same species; born frequently. उत्त० १०, ५;

**अइगंतूण.** सं० कृ० अ० ( अतिगम्य ) उल्लंघीने. उल्लंघकर. Having transgressed. विशे० ६०४;

✓**अइगच्छ.** धा० I. ( अति+गम् ) उल्लंघन करने. उल्लंघनाः To transgress. अइगच्छ. दसा० ५, २७;

अइगच्छमाण. व० कृ० नाया० १;

**अइगमण.** न० ( अतिगमन ) ज्या आवश्यने. भांग. आने जाने कैं मार्ग. Way in or way out. नाया० २;

**अइगुण.** पुं० ( अतिगुण ) अतिशय-प्रभाव वाणा युग्म. अतिशय-प्रभाव वाला युग्म. Highly powerful quality. उत्त० ३१, २०;

**अइचिन्त.** त्रि० ( अतिचिन्त ) अत्यन्त चिन्ता-युक्त. अतिशय चिंतायुक्त. Full of excessive anxiety. नाया० १;

✓**अइच्छ.** धा० I. ( \* अति-गच्छ+गम् ) पामयुः प्राप्त करने. प्राप्तकरना; पाना. To obtain. ( २ ) अतिक्रमण करने. अतिक्रमण करना. to pass over. अइच्छइ. ओघ० नि० ४१८;

अइच्छत. व. कृ. उत्त० २६, ५;

\***अइच्छुञ्च-य.** त्रि० ( अतिक्रान्त ) अति-क्रमण किया हुआ; अन्यत्र गमन करेव. अतिक्रमण किया हुआ; अन्यत्र गया हुआ. Transgressed; gone elsewhere. पि० नि० २८८; उत्त० ३३, २४; क० प० १, ३५; ( २ ) अतिक्रमण करेव; उल्लंघन करेव. अतिक्रमण किया हुआ; उल्लंघन किया हुआ. transgressed; violated. “जेमि तु विउला सिक्खा मूलियंते अइच्छुञ्चया” उत्त० ७, २१;

**अइजाओ.** पुं० ( अनिजात-अतिक्रान्तो जाते जाति जनक वा अतिजातः) आप कर्ता अधिक पराकृति पुत्र; ज्ञाति, के पिता कर्ता वधारे संपत्ति अने धार्ति भेणवनार पुत्र. जाति, अथवा पिता की अपेक्षा अधिक संपत्ति आर कीर्ति प्राप्त करने वाला पुत्र. A person who is more renowned than his father or any other person of his own community. गा० ४, १; ( २ ) भिन्नतीय; भिन्नभिन्नतीय. विजातीय; भिन्नजाति वाला. of a different caste or class.. “जे भिन्न वस्थं अइजाएणं गहै गहंतं वा साइजड” निर्मा० १, ५७;

**आहजागरण.** न० ( आतिजागरण ) धृष्टं जगनुं ते; धृष्टो उज्जगये। क्रवेत्। बहुत जगना.

Excessive vigil. नाया० १६;

**आहजायमाण.** व० क० त्रि० ( \* अतियात् ) आपत्तुं आता हुआ. Coming. दसा० १०, ३;

**आहुभद्रंत.** त्रि० ( अतीष्ठभद्रान्त-अत्यन्तमिष्ठो-भद्राऽस्तःपरिणामो यस्य तत् ) अत्यन्त धृष्ट अने कल्याणु करी लेनुं परिणुभ से अेवुं. अत्यन्त इष्ट और कल्याणकारी परिणाम वाला. Productive of very desirable and wholesome results. दसा० १०, १;

**आहण.** न० ( अजिन ) चामड़ी; चर्म. चमड़ा. Leather; skin. सू० ५० २०;

**आहणिक्षत.** त्रि० ( प्रतिनिक्षत ) अल्पान्त ८८. चरायमान न थाय तेवुं. अत्यन्त रक्ष. Very firm; highly constant. पंचा० १४, ३७;

**आहणिक्षमकुरुत्ता.** न० ( अतिरिक्षमधक्षमभुरत्ता ) ने वयनमां अत्यन्त रिन्गधता अने मधुरता धी गोणी माइक रेड छे एवा लीर्धकरता वयननो अतिशय; लीर्धकरनी वर्णनी १६ भे। अतिशय. तार्किकर की वार्षी का १६वा अतिशय, कि जिसमें वार्षी में अत्यन्त माझुरत्ते होता है। Extraordinary loveliness and sweetness of the speech of Tirthankaras; the 19th superhuman virtue of Tirthankaras' speech. समा० २५;

✓ **आहुदृष्ट.** धा० I. ( अतिक्षुद्र ) अेकदम तेऽनुं; तोडीनापत्तुं. एक दम तोड़ देना. To break off.

आहुदृष्टि. सू० १, १, २, २२;

**आहतेया.** स्त्री० ( \* असितेजा-अतितेजस् ) अगुर्दशी; यौद्धशी रात्रिनुं नाम. चतुर्दशी की रात्रि का नाम. The night of the

fourteenth day of the bright half of a month. जं०प० ७, १५२;

**आहथा.** स्त्री० ( अदित्सा ) भिक्षा न आपवानी धृष्टा. भिक्षा न देने की इच्छा. Unwillingness to give alms. विशेश ३५४;

**आहथावणा.** स्त्री० ( अतिस्थापना ) उद्धधन करवायेत्य कर्मस्थिति; अव्याधाकाल उपरांतनी कर्मस्थिति. उक्षणन करने योग्य कर्मस्थिति; अवाधाकाल के बाहर की कर्मस्थिति. State of Karma after its fructification. “होइ अवाहा अहथावणाओ” क० प० ३, १;

**आहथिय.** त्रि० ( अतिस्थित ) उद्धधन करी रहेत्. उत्तांघकर टहरा हुआ. Gone beyond; transcended. दसा० ६, २२;

**आहथर्णी.** स्त्री० ( अतिस्तनी ) भेटा स्तन वर्णी स्त्री. बड़े स्तन वाली स्त्री. A woman with big breasts. त्रि० त्रि० ४१८;

**आहुदंपत्त.** न० ( ऐदमर्थ ) तात्पर्य; भावार्थ गम्भीत तत्त्व. सारांश; तात्पर्य. Gist; purport. पंचा० १४, १०;

**आहुदीदृष्ट.** त्रि० ( अतिदीर्घ ) धृष्टं लांशुं. बहुत लंबा. Precessively long. विशेश ५१६; — कालरुण. त्रि० ( -कालकृ ) धृष्टं लांभा काली ज्ञानानार. बहुत लंबे काल को जानने वाला. one whose knowledge extends over a very long period of time. विशेश ५१६;

**आहुक्षख.** न० ( अतिदुःख ) धृष्टं दुःख; अत्यन्त असाता. बहुत दुःख; अत्यंत असाता. Excessive pain or misery. सू० १, ५, १, २१;

**आहुस्तह.** त्रि० ( अतिदुःखभ ) अत्यन्त मुश्केली-थी ग्राम थाय तेवुं. अस्तंत कैठिनाई से प्राप्त होने योग्य. Very rare; very difficult

to obtain. गच्छा० ६९;

**अशुद्धसह.** त्रिं ( अतिदुःसह ) अत्यन्त हुःसह; धृषीभुश्केलीथी सहन थाय तेवुं. अत्यन्त हुःसह; बर्डा कठिनाई से सहन करने योग्य. Extremely unbearable. उत्त० १६, ७३;

**अशुद्धूर.** त्रिं ( अतिदूर ) अनिदूर-धणे॒ छेटे॑; वेगयु॑. बहुत दूर. Very far. उत्त० १, ३४; ओव० २७; ३२; उवा० ७, २०८;

**अशुद्धसमा. ल्ली०** (\*अतिदुष्प्रमा) हु॒प्यम-हु॒प्यम नामे अवस्थिती कालनो छडो अने उत्सर्पिणी नो परेलो आरै. हुःषम-हुःषम नामक अवसर्पिणी काल का पहिला आरा. The first division ( Arā ) of Utsarpinī and the sixth division ( Arā ) of Avasarpinī named Duṣsaina Duṣsaina कालो अशुद्धसमार्था” प्रब० १०७१;

**अशुद्धाडिय.** त्रिं ( अतिप्राडित ) भमावेलुं. रुग्या हुआ; छला हुआ. Misled; deceived. परह० १, ३;

**अशुद्धुत्त.** त्रिं ( अतिधूत-अतीव प्रभूत धूतमष्ट-प्रकारं कर्म यस्य सः ) भारेकभी॑; व्युत्त कभी॑. बहुकर्मी; बडा धूर्त; आठ प्रकार के कर्मों में तक्षीन. One excessively absorbed in the eight sorts of Karma; a rogue. सूय० २, २, ५६;

**अशुनीच.** त्रिं ( अतीनीच ) अनिनीयुं स्थथ; उँडु भेष्य वगेरै. बहुत नीचा स्थान; गहरा भोयरा वगैरह. A very low place; an underground cellar or cavity. उत्त० १, ३४;

**अशुद्धुकंबलसिला.** ल्ली० ( अतिपारहुकम्बल-शिला ) भेष्यते॑ उपर्नी॑ दक्षिणुहिला॑ तरडनी॑ अखिषेक शिला. मेरु पर्वत के ऊपर

की दक्षिण दिशा की अभिषेक शिला. Name of a stone, situated in the southern direction of the mountain Meru on which the birth ceremony of a Tirthankara is performed.” दो अशुद्धुकंबलसिलाओ” ठा० २, १; जं० ८० २;

**अशुपडागा.** ल्ली० ( अतिपताका ) पताका॑ उपर॑ पताका॑; धग्न उपर॑ धग्न. धजा पर धजा; अतिपताका. A flag above a flag. नामा० १; ओव०

**अशुपरिणाम. पुं०** ( अतिपरिणाम-अति ब्याप्त्या परिणामोऽर्थ परिणामनं यस्य सोऽतिपरिणामः) शाखामां अनावेद अपवाहकरां पणु वधारे अपवाहनो आश्रय करनार; उत्सवमतिवागो. शास्त्रोक्त अपवाद से भी अधिक अपवाद का आश्रय करने वाला; उत्सवमति वाला. One who stretches the meaning of the scriptures in the matter of exceptions allowed therein. विशेष० १२६२;

**अशुपास.** पुं० ( अतिपार्श्व ) भरतक्षेत्रना॑ कुंथुनाथ-स्वामीना॑ सम्भालीन॑ इरवत् क्षेत्रना॑ तीर्थकरनुं नाम. भरतक्षेत्र के तीर्थंकर कुंथुनाथस्वामी का समकालीन इरवतक्षेत्र का तीर्थंकर. Name of the Tirthankara of Iravata Ksetra, being a contemporary of Kunthunātha of Bharata Ksetra. सम० ८४;

**अशुपासंत.** त्रिं ( अतिपरश्यत ) असाधारण्य दृष्टिये ज्ञनार. असाधारण दृष्टि से देखने वाला. One who sees with an extraordinary sight. सूय० १, ३, ४, १६;

**अशुपमाण.** त्रिं ( अतिप्रमाण ) प्रभाण॑(भाप) थी वधारे. प्रमाण (भाप) से अधिक. Exceed-

ing proper measure. पि० नि० ६४७;

**अहिष्पसंग.** पुं० ( अतिप्रसङ्ग ) अतिपरिचय  
क्तवे। ते. अति परिचय करना. Too much  
familiarity or acquaintance.  
पंचा० १०, २१; ( २ ) अनिष्यामि; लक्ष्यने  
भुक्तीलक्ष्यथी भूद्वारलक्ष्यनुं ज्वन् ते. अतिव्याप्ति  
लक्षण का दोष; लक्ष्य को छोड़ कर लक्ष्यान्तर  
में भी जाने वाला. the logical defect  
of a definition being too wide  
पंचा० ६, ६;

**अहिष्वल.** पुं० ( अतिवल ) आवती व्याख्यासी-  
ना पांचमा वासुदेवनुं नाम. आगामी चोर्वासी के  
पांचवे वासुदेव का नाम. Name of the  
fifth Vāsudeva of the next cycle.  
सम० २ ( २ ) भरतचक्रवर्तीनो पौत्र; भद्रायशानो  
पुत्र. भरतचक्रवर्ती का पौत्र; महायशा का पुत्र.  
grandson of Bharata Chakra  
varti and son of Mahāyasā.  
ठा० ८, १; ( ३ ) अनिष्यतवान्; धृषी  
शक्तिवायुं. अत्यन्तबलवान्; अर्मिनशक्ति-  
शाली. very powerful; strong.  
ओव० ६६;

**अहिष्मद्य.** त्रि० ( अतिभद्रक ) ज्वन् दर्शनधृषुं  
साइं हेथ ते. जिसका दर्शन बहुत अच्छा हो  
वह. One whose sight is very  
auspicious. नाया० १६;

**अहिभार.** पुं० ( अतिभार ) हृद उपरांतनो भार.  
मर्यादा से अधिक भार. Excessive  
burden. “अहिभारो न आरोवेयव्वो” उवा०  
१, ४५; प्रव० २७५; पंचा० १, १०; ( २ )  
पहेला अशुभतनो योथा. अतियार. पहिले  
अशुभत का चौथा अतिचार. The  
fourth Atichāra of the first  
Anuvrata. उवा० १, ४५;—रोवण.  
न० ( -रोपण ) अनिभार भरवे। ते;

आवक्तना पहेला वर्तनो योथा. अतियार.  
अतिभार लादना; श्रावक के पहिले व्रतका  
चौथा अतिचार. overloading; the  
first Atichāra of the first vow  
of a Jaina layman. प्रव० २७५;

**अहभूमि.** ली० ( अतिभूमि ) जे ज्या उपर  
साधुओंने ज्वा भाए गृहस्थनी भनाए ते  
ज्या. जिस स्थान में साधुओं को जाने के  
लिये गृहस्थ की मनाई हो वह स्थान. The  
place where Sādhus are forbidd-  
en to go by the laity. दस० ५,  
१, २८;

**अहभोयण.** न० ( अतिभोजन ) धाणुं भोजन  
क्तवुं ते; धाणुं खावुं ते. बहुत भोजन करना;  
बहुत खाना. Eating too much; glu-  
ttony. नाया० १६;

**अहमंच.** पुं० ( अतिमञ्च ) भाँचा उपरनो भाँचो.  
अतिमञ्च; पलंग पर पलंग. A cot upon  
another cot. “मंचाइमंचकालियं” ओव.

**अहमट्टिया.** ली० ( अतिमृत्तिका ) भाडीनी  
गार; कादव. काचड. Mud. जावा० ३;

**अहमत्त.** त्रि० ( अतिमात्र ) भाना-परिभाणु  
उपरांतनुं. मात्रा-परिमाण से अधिक. Be-  
yond proper measure. “ नाहमत्त  
तु भुजेज्ञा ” उत्त० १६, ८; आया० २, १५,  
१७८;

**अहमाण.** पुं० ( अतिमान ) अत्यन्त अभिमान;  
सुभूभ्यक्तवर्तीनी भाइड धाणुं अलभान  
क्तवुं ते. बहुत अभिमान; सुभूमचक्रवर्ती के  
समान बहुत अभिमान करना. Inordinate  
pride; e. g. like that of Chakra  
varti Subhūma. सूय० १, ८, १८;

**अहमाय.** त्रि० ( अतिमात्र-सांग्रामतिकान्तो-  
उत्तिमात्रः ) प्रभाणु उपरनुं; हृद उपरांतनुं.

मर्यादा से अधिक; अतिमात्र. Beyond proper limits. “पर्णायं भत्तपाणं च अइमायं पाणभोयणं” उत्त० १६, ८; प्रव० ५६५; सम० ६;

**अइमाया.** ऋ० ( अतिमात्रा-अत्यधिक मात्रा इति ) अधिक प्रभाष्. अधिक प्रमाण. Excessive measure. “ नो अइमायाए पाणभोयणं आहारिता भवई से निगंथे ” उत्त० १६, ८; प्रव० ५६५;

**अइसुच्छिय.** त्रि० ( अतिमूर्च्छित ) विषयादि कुभां अतिआसक्त; सांसारिकार्थमां अनिलीन थेक. विषयादि में अधिक आसक्त; सांसारिककार्यों में अतिलीन. Too much engrossed in temporal affairs; given too much to worldly pursuits. परह० १, ४;

**अइसुत्त.** पु० ( अतिसुक्त ) अंतगःसूत्रना छह वर्गना १५मा अध्ययननु नाम. अंतगड सूत्र के छठे वर्ग के १५वें अध्ययन का नाम. Title of the fifteenth chapter of the sixth section ( Varga ) of the Antagadā Sūtra. अंत० ६, १५; ( २ ) पोलासपुरना विज्ञ राजनना पुत्र, के ने नहानी उभरमां छेकराओनी साथे रमनां ज्ञातभस्वाभीने ज्ञेष्ठ पोताने थेर तेरीलावी आहारादि० हेतावी साथे साथे सभवसरणु सुखी गये; त्यां भडावीरनो खेध सांक्षण्य वैराज्य पाभी दीक्षा लीधी. अग्रियार अंगनो अभ्यास करी धणु वरसनी प्रवन्ध्या पाणी गुणुरथं थुतप करी आभर विपुल पर्वत उपर ४२८८ पद भाभ्या. पोलासपुर के विजयनरपति का पुल, जिसने बचपन में लड़का के साथ खेलते खेलते गौतमस्वामी को देखा और “अपने घर लेजाकर आहारादि समर्पण किया और साथसाथ समवसरण तक गया.

वहां महावीर के उपदेश से विरक्त हो दीक्षा ग्रहण की; एकादश अंगों का अभ्यास कर चिरकाल की प्रबज्या पालन की और गुणरयण नामक तपकर अन्त में विपुल पर्वत पर परमपद प्राप्त किया. Son of king Vijaya of Polāsapura. He(Aimutta)while yet a boy listened to Mahāvīra's Sermons. He was converted and entered Nirvāṇa at Vipula Mountain after studying the Aṅgas and performing penance. अंत० ६, १५; ( ३ ) लगवत्तीमां स्थविर साधुओंने नेनामाटे सिद्धिविषयक प्रश्न पूछये तेपथु आने आ “अधिभुत” त्यां कुभार समणु तरीके आवेदेक छे एटला भाटे के, कुभारअवस्थामां धणी नहानी उभरमां दीक्षा लीधी. एटली नहानी उभर के, नेहें एकदा वहेता पाणी आडी भाटीनी पाण बांधी, पोतानी पातरी तेमां तरावी, नवानी २भत करवामां साधुपाणुनो झ्याल न राख्यो. आ ज्ञेष्ठने स्थविरसाधुओंने तेनामाटे आरांडा थां, भडावीरस्वाभीने पृष्ठी ज्ञेष्ठु के, ‘अधिभुतकुभारसमणु’ डेटवे भवे सिद्ध थशे ? भडावीरस्वाभीये उत्तर आये। के, आभवमांडीज सिद्ध थशे, भाटे तमे तेनी छीलना न करो. ( ३ ) भगवतीसूत्र में स्थविर साधुओं ने जिसका सिद्धि के सम्बन्ध में पूछा है वह भी यही “अइसुत्त” है. वहां कुभार समण नाम से उल्लेख किया गया है. इसने एकाएक छोटी अवस्था में दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय इसका इतना बचपन था कि, एकवर बहते जल में मृतिका का बन्ध बांध दिया और अपनी पात्री की नौका बना तैराने लगा; उस खेल में इतना लौन होगया कि, निजसाधुत्व को भुला दिया; यह देख कर ही स्थविर साधुओं को आशंका हुई और

उन्होंने महावीरस्वामी से पूछा कि, 'अशुत्त' कितनेक जन्म ग्रहण कर सिद्ध होगा ? तब महावीर ने उत्तर दिया कि, इसी भव में ही सिद्ध होगा इसकी अवहेलना न करो. ( ३ ) The "Kumāra Samāna" about whose future Siddhahood a question is asked by Sthavira monks to Mahāvīra, is identical with this same Aimutta. He is here i. e. in the Bhagavati Sūtra styled Kumāra because he was initiated into the order at such an early age that once, forgetting his monkhood, he dammed with a little mud wall some flowing water and converting his alms-bowl into a toy boat began to play. The Sthavira monks thrown into doubt at this, questioned Mahāvīra as to his future Siddhahood. Mahāvīra told them not to mock at him, assuring them that he would become a Siddha immediately after the end of that very life.

भग० ४, ४; ( ४ ) भाध्वीलता. माधवी लता. a creeper known as Mādhavī. कप० ३, ३७; ( ५ ) निन्दुक्तुं आ॒. तिन्दुक का वृक्ष. a Tinduk-tree. ओव० जं० प० ( ६ ) ताड़नुं आ॒. ताड़ वृक्ष. a Tāl-tree. ओव० जं० प०

अशुत्तग. पुं० ( अतिशुक्त ) भाध्वी वेल. Mādhavī creeper. जीवा० ३, ४; पञ्च० १; ( २ ) पूर्वुरीते भुक्त थयेलो; अनिष्टुटे थयेलो. पृष्ठन्त्या मुक्त. per-

fectly liberated. पञ्च० १;—चंद्र. पुं० ( -चन्द्र ) संपूर्णुचंद्रमा; राहुथी भुक्त थयेलो चंद्रमा. पूर्णचन्द्र; राहु से मुक्त चन्द्र. full moon; the moon freed from the grasp of Rāhu ( eclipse ). पञ्च० १; ( २ ) लुहारनी धमण्. लुहार की धोकनी. bellows. पञ्च० १;

अशुत्तया. ली० ( अतिशुक्तिका ) भाध्वी-वेल; वासंती. माधवी वेल; वासंती The Mādhavī creeper. पञ्च० १;

अशुत्तलया. ली० ( अतिशुक्तिका ) भाध्वी-भेगरानी वेल. मोगरे की वेल; माधवीलता. A kind of creeper; Mādhavī creeper. ओव० राय० १३७;— मंडव. न. ( -मण्डप ) भेगरानी वेलमें भाँडवे. मोगरे की वेल का मण्डप. a bower of Mādhavī creeper. राय० १३७;

अशोह. त्रि० ( अतिशोह ) अतिशय भोढ़ युक्त. अत्यन्त मोह से युक्त. Highly infatuated or charmed. नाग्रा० १;

अश्यंचिय. सं० कृ० अ० ( अत्यञ्च्य ) अतिष्ठभण् करने; उद्घीते. अतिक्रमण करके; उलांघकर. Having transgressed; going beyond. ठा० ४, १;

अद्याण. न० ( अतिथान ) नगरमां प्रवेश करवे। ते. नगर में प्रवेश करना. Entering a town. ठा० ३, ४;— इड्डि. ली० ( -इद्धि ) राजा नगरमां प्रवेश करे ते वध्यते व्याख-हाट पंक्ति वगेरे शशुगार-वामां आये ते. राजा के नगर में प्रवेश करते समय बाजार-हाट वगैरह का शृंगार. decoration of the shops, bazars etc. at the time of a king's entry into a town. ठा० ३, ४;— कहा०

जी० ( -कथा ) राज्ये नगरभां प्रवेश क्षेत्रो हेय तेनी कथा कुहेनी-वर्णुन करवु ते. राजा के नगर प्रवेश की कथा. narration of a king's entry into a town. ठा० ४, २;—गिह० न० ( -गृह ) नगरभां प्रवेश करतां दरवाजे पासे जे धर हेय ते. नगर में प्रवेश करते समय दरवाजे के पास ओ चर हो वह घर. a house situated near the entrance of a town. ठा० २;

अहयाय. त्रि० ( अतियात्र ) रवाना थध गयेत्र. रवानह हुआ; प्रस्थित. Departed. “ अहयामो याराहिवो ” उत्ता० २०, ५६;

अहयायरक्षक. त्रि० ( अत्यन्तररुच-अतीवाद-उत्तमः पैरैः पापकर्मभिः रुक्ष यस्य सोऽस्यास्मरणः) पापकर्मस्थि आत्माने संसारभां रभिवनार॒. पापकर्म से आत्मा को संसार में भटकने वाला. One who causes the soul to wander in the world by wicked Karmas ( sins ). “ अहयायरक्षके दाहिणगामिणि नेरहए ” सू० ३, २, ५६;

अहयार. पुं० ( अतिचार ) जुओ ‘ अहशार ’ शब्द. देखो. “ अहशार ” शब्द. Vide “ अहशार ”.. पञ्च० १०; दस० ५, १, ६; ( २ ) जे दोप्थी व्रत भलीन थाय, के भांगे तेवो। दोप. वह दोष, जिससे व्रत मलिन अथवा नष्ट हो. a defect in the observance of vow which makes it violated. पञ्च० १; उत्ता० २६, ३६; प्रब० २; पंचा० १, ६०; ( ३ ) अधाक्षम अश्री साधुओ आधाक्षमी अप्तार पानभां लीझा तांथी भांडी उपाश्रये अती ते आधार भेदांभां झाडे त्यां झुम्ही अतियार, पर्छी अत्युचार. अतिक्षम लथा व्यतिक्षम पछी अने अत्युचार पहेलानीजे

दोषनी स्थिति ते; अपराध, के दोषनु त्रीजुं पर्यायुं. अपराध अथवा दोष का तीसरा भेद; अर्थात् दोष के चार भेद हैं-अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, और अनाचार इन में से तीसरा भेद. the third stage of the violation of a vow. The four stages are Atikrama, Vyatkrama, Atichāra and Anāchāra. “ पर्यमेयाहै वहकम्मगहिए तहएवरो-गिलिए ” पिं० त्रि० १८२; ( ४ ) श्रावक वतना “ जंवाहूद्धे ” धृत्याहि ६६ अतियारभानो गमे ते ऐ५. श्रावक के ब्रतों के “ जंवाहूद्धे ” आदि ६६ अतिचारों में का क्योई भी एक अतिचार. one of the 99 acts of transgressing a layman's vow. आव० १, ४;—चरण. न० ( -चरण ) अतियार-दोष. वाणु चारिन. दृष्टि चारित्र. faulty or sinful conduct. भत्ता० २७;

अहर. त्रि० (\* अतिर-अतिरोहित) अ०-नृष्टि, तिरोहित-दोऽतिक्षुं-धृपावेलु; प्रगट. ग्रकट; नहीं छुपाया हुआ. Not concealed; manifest. पिं० त्रि० ५६०;

अहर. पुं० (\*अतर-सागर) समुद्र. समुद्र. The sea. सू०. च० १, ३६६;

अहरस्त. पुं० ( अतिरात्र ) अधिकतिथि; हिन्दि. शुद्धि; अेकवर्षभां ७ दिवस वधे छे तेभानो। गमे ते ऐ५. अधिकतिथि; दिनवृद्धि; वर्ष में जो छः दिन बढ़ते हैं. उनमें से कोई भी एक, दिन. One of the six intercalary days in a calendar. “ छ अहरस्त; परणात्म तंजहा-चउत्तरे-पञ्चे अट्टमे-पञ्चे ” ठा० ६, १; सू० ८० १२;

अहरस्तकंबला. जी० ( अतिरक्षकम्बला ) भेदना। शिखर उपरनी अेक शिखा, के ज्यां तीर्थकरनो। कृ-मालिषे५ थाय छे. मेह पर्वत के

शिखर के ऊपरका एक शिला, कि, जिस पर तीर्थकर का जन्माभिषेक होता है। A stone on the hilltop where the birthplace of the Tirthankara is celebrated. निर० २, ३;

✓ अद्वयाच. धा० १. ( अतिरच्-णि० )  
भिष्टानुं करोवनुः; आसन गौडवायनुः. विछोना करना; आसन लगावाना. To get a bed or seat arranged.

“अद्वयाचेह”. नाया० २;

“अद्वयाचेहत्ता.” सं० कृ० नाया० २;

अद्वया. धा० ( अचिरा ) १५। भा० तीर्थकर अध्या० ५। भा० अद्वयनी शान्तिनाथनी भाना। १६वे तीर्थकर अथवा ५. के चक्रवर्ती शान्तिनाथ की माना का नाम. The mother of Śāntinātha the 16th Tirthankara or the 5th Chakravarti. सम० प्रव० ३२३;

अद्वया. अ० ( अचिरात् ) तत्काल; अद्विद्म. तत्काल—एकदम; तुरंत. At once; immediately. विश० १३११; पंचा० १८, ५०;

अद्वित्ति. त्रि० ( अतिरित्ति ) भिन्न; जुहु. भिज; जुदा. Separate. पि० नि० भा० ४; नाया० ८; परह० २, ५; ( २ ) अधिक; पृथिवै. ज्यादह. much; more. उवा० १, ५. २; विश० ४६; ३४०; —सेज्जासांगिय. त्रि० ( -शश्यामनिक ) प्रभाषु उपरांत आसन-पथरी राघनार ( साधु ). प्रमाण से अधिक बिछोना रखने वाला साधु. one ( e. g. a Sādhu ) who keeps a larger seat or bed than that allowed by rules. दसा० १, ७;

अद्वृत. पुं० ( अतिरूप ) भूतहेतवानी अकृत. भूत देवता की एक जाति. A class of infernal gods. पञ्च० १०;

अद्वेक. पुं० ( अतिरेक ) वधारै; विशेषता. विशेष; अधिकता. Excess; peculiarity. निर्सी० १, ४७; —बंधण. न० ( -बन्धन ) अधिक बंधन. ज्यादह बन्धन. strict bondage. निर्सी० १, ४७;

अद्वेग. पुं० ( अतिरेक ) जुझो “अद्वेक” शब्द. देखो ‘अद्वेक’ शब्द. Vide ‘अद्वेक’. भग० ३, ३; ६, ३३; ओव० १६; ४०; ओष० नि० ६७०; प्रव० २८३; कण्ठ० ३, ३४; जीवा० ३, ३; निर्सी० १४, ५; नाया० १; —पडिग्राह. पुं० न० ( -पतद्वग्रह ) प्रभाषु उपरांत पात्र. प्रमाण—नियम से अधिक पात्र. a receptacle or vessel exceeding proper number. वव० ८, १४; —प्रमाण. न० ( -प्रमाण ) अधिक प्रभाषु. अधिक प्रमाण. excess of measure. निर्सी० ५, ७;

अद्वेगयर. त्रि० ( अतिरेकतर ) अतिशय वधारै. बहुत ज्यादह. Excessive. प्रव० २०७;

अद्वेगया. छी० ( अतिरेक-ता ) अधिकता. अधिकता. Excess; state of being in excess. पंचा० १, २४;

अद्वेय. पुं० ( अतिरेक ) विशेषता; वधारै. अधिकता; विशेषता. Excess; particularity. नाया० १;

अद्वलाभ. पुं० ( अतिलाभ ) अतिलाभ; धृष्णै. लाभ. बहुत लाभ; ज्यादह लाभ. Immense gain. “ अपिच्छया अद्वलाभेवि संते ” दस० ६, ३, ५;

अद्वलोलुअ. त्रि० ( अतिलोलुप ) अत्यन्त लेलुपी; रसकंपट. अत्यन्त लोलुपी; लंपट. Very covetous; of an extremely sensual nature. उत्त० ११, ५;

**आइच.** अ० ( अतीव ) व्युः; वधारे; अति-  
बहुत; ज्यादह. Excessively. नाया० १५;

**आइचइत्ता.** सं० कू० अ० (अतिक्रम्य) छेष्ठाने;  
तथने. त्यागकर. Leaving off; having  
left off. भग० ७, १; (२) उद्धंधीने; अति-  
क्रम्युः करीने. उलांघ कर; अतिक्रमण करके.  
having transgressed; having  
gone beyond. सूय० ३, २, ६५;  
नाया० ६;

**आइचर्हय.** सं० कू० अ० (अतिवर्त्य) उद्धंधीने.  
उलांघ कर. Having crossed or  
transgressed. क० प० ३, ४;

**आइचद्व.** धा० १. (अतिखृत) उद्धंधयुः. उलांघ-  
ना. To transgress.

**आइचद्वेज्ञा.** वि० आया० १, ४, ६, १६८;  
**आइचद्वणा.** न० ( अतिवर्त्य ) उद्धंधन करयुः.  
उलांघना. Transgression. आया० १,  
५, ६, १६६;

**आइचट्ठि.** ली० ( अतिवृष्टि ) अतिश्चित्ति; हृष्टी  
वधारे परसाद. अतिवृष्टि; ज्यादह बरसात.  
Excessive rain. सम० ३४;

**आइचत्ता.धा० १.(अतिखृत)** अतिक्रम्युः कर-  
युः; उद्धंधयुः. उलांघना. To transgress;  
to go beyond.

**आइचत्ता.** “कंतारं आइचत्ता” उत० २७, २;

**आइचत्तिय.** त्रि० ( अतिपातिक ) निर्दैष; देष्य  
रहित. निर्दोष; दोष रहित. Sinless; fault-  
less. “आइचत्तियं अयाउद्धि” आया० १,  
६, १, १७; .

**आइचयंत.** व० कू० त्रि०(अतिक्रम्य)अतिक्रम्युः  
करते. उलांघता हुआ. Transgressing.  
नाया० १;

**आइचाअ.** धा० १. (अतिखृत) नाश करते;  
वधुः करते; हुःभु उपज्ञवयुः. नाश करना; वध

करना; हुःख देना; धात करना. To destroy;  
to kill; to inflict pain.

**आइचाइज्ञ.** वि० आया० १, २, ४, ८५,

**आइचाएज्ञा.** वि० दस० ४;

**आइचायादेज्ञा.** शि० वि० दस० ४;

**आइचाइत्ता.** सं० कू० भग० ५, ६;

**आइचाइ.** त्रि० ( अतिपातिन् ) हिसा करनार;  
धानकी. हिसा करने वाला; धातकी. One  
who kills or injures. सूय० १, ५,  
१, ५;

**आइचाइत्ती.** त्रि० ( अतिपातिनित् ) अतिपात-  
हिसा करनार; नाश करनार. हिसा करने वाला;  
नाश करने वाला. One who kills or  
injures or inflicts pain. ठा० ३, १;

**आइचाय.** पु० ( अतिपात ) हिसा; नाश. हिसा.  
Destruction; killing; injury.  
भग० ३, १; उवा० १, ८५;

**आइचासा.** क्ला० ( अतिवर्षा ) न्येत्रने। वरसाद;  
धूधभाव वृष्टि. बड़े ज्ञार की वर्षा; मुसलधार  
वर्षा. Heavy rain. भग० ३, ७;

**आइचिङ्गि.** न० ( अतिविकृष्ट ) त्रय, चार, ते  
तेथी वधारे उपवास लेगा। करवाते; आकृद्द  
तप. एक साथ तीन, चार, या अधिक उपवास  
करना; कठोरतप. Fasting for three,  
four or more days continuously;  
severe penance. उत० ३६, २५१;

**आइचिज्ञ.** त्रि० (अतिविद्य) आगमना। सहभावने  
नाशनार. आगम के सद्भाव को जानने वाला.  
One knowing the essence of  
the Sūtras.“तम्हा आइचिज्ञो यो पदिसं-  
जकिजासि” आया० १, ४, ३, १३६;

**आइचुट्ठि.** ली० ( अतिवृष्टि ) अतिश्चित्ति; हृष्टी  
वधारे परसाद. हद से ज्यादह वर्षा. Exce-  
ssive rain. प्रव० ४२०;

**अहवेग.** पुं० ( अतिवेग ) उतावणी शति; धृष्टि  
अ३५. रशीग्रन्ति; बहुतजल्दी. Great  
speed. नाया० १६; कप्प० ३, ४६;

**अहवेलं.** अ० ( अतिवेलम् ) वेणा-काल  
उद्धंधीने. समय को उलाघ कर. Trans-  
gressing the proper time. सूय०  
१, १४, १५;

**अहवेला.** क्षी० ( अतिवेला ) साधुना आचारनी  
भर्ती। साधु के आचार की मर्यादा. Restrictions  
imposed upon a Sādhu in point of conduct. “नाहवेलं  
विहेजा पाकदिही विहर्वा” उत्त० २, २२;

**अहसंकिलेस.** पुं० ( अतिसंक्लेश ) वित्तनी  
अत्यंत भलीनता; भंडिलिष्ट-क्षुद्र भनेभाव.  
वित की अत्यन्त मालिनता; जुद्रभाव. Utter  
debasement of mind. पंचा० १५, ६;

**अहसंघट्ट.** पुं० ( अतिसङ्घट्ट ) अत्यंत-संघट्टये-  
शुभेनुं संभद्दन. अत्यन्त जांचों का संभद्दन.  
Excessive mutual collision of  
living beings. प्रब० ६०२;

**अहसंपओग.** पुं० ( अतिसम्पयोग ) ऐक्ड्र०४्यनी  
साथे भीज ४४्यनो अतिशय योग करवो। ते.  
एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य का अत्यन्त संयोग  
करना. Uniting too much; ( e. g.  
one substance with another ). सूय० नि० २, २, १६२;

**अहसय.** पुं० ( अतिशय ) अतिशय; धृष्टं;  
अधिक. ज्यादह; बहुत. Excess. सु०  
च० १०, २२६; सम० १०, नंदी० ५४; विश०  
३२१६; ( २ ) प्रभाव. प्रभाव. power;  
prowess. सु० च० १०, २२६; नंदी०  
५४; विश० ३२१६; प्रब० ६०५;—णाणि.  
पुं० ( -शानिन् ) अवधि आहि प्रत्यक्ष रात  
कुप्ता. अवधिज्ञानादि प्रत्यक्षज्ञान सहित.

possessed of direct visual know-  
ledge, such as Avadhijnāna etc.  
वय० १;

**अहसाइ.** त्रि० ( अतिशायिन् ) देवत भन: पर्यव-  
अने अवधिज्ञानवाणा। चैद्युर्वा अने आभै-  
षधि आहि लिंग्य युक्त; प्रभावक पु३५. केवल  
मनःपर्यवशान और अवधिज्ञान वाला; चौदह-  
पूर्वा और आमर्षांषधि आहि लिंग्य सहित;  
प्रभावकुरुष. One possessed of  
Kevala, Manah-paryāya and  
Avadhi-jñāna or knowledge and  
also of spiritual attainments  
such as Āmarṣauśadhi etc. पंचा०  
५, २०;

**अहसीय.** त्रि० ( अतिशीत ) अत्यन्त हंडु-  
बहुत ठंडा. Extremely cold. ठा० ५,  
१; कप्प० ४, ६४;

**अहसुकुम.** त्रि० ( अतिसूक्ष्म ) अत्यंत-भारीक.  
बहुत गरीक. Excessively minute.  
पंचा० १८, ३३;

**अहसेस.** पुं० ( अतिशेष ) अतिशय असाधारण  
प्रभाव; परम अद्भुत प्रभाव; तीर्थकर अने  
तेभनी वाणीनो अद्भुत प्रभाव. असाधारण  
प्रभाव; अद्भुत प्रभाव. Wonderful pow-  
er-e. g. supernatural power of  
a Tirthankara's words. ओढ० २७;  
ठा० ३, ४; बब० ६, ७;—अजमर्यण. न०  
(-अध्ययन) अतिशय वाणा अध्ययन; उथान  
समुत्थान वगेरे अध्ययन. अतिशय वाला-  
उत्थान समुत्थान वगैरह का अध्ययन. Adhy-  
ayanas or scriptural studies such as Utthāna, Samutthāna etc. of  
supernatural power. विश० ५५२;

**अहसेसि.** त्रि० ( अतिशेषिन् ) अतिशयी भुक्त;  
प्रभावशाली. अतिशय से युक्त; प्रभावशाली.

Possessed of supernatural powers. आघ० निं० भा० ३०;

आहादि. पुं० ( अतिथि-न विद्यन्ते सततप्र-  
त्यया विशेषकाकाराऽनुष्ठानंतया तिथयो दिन-  
विभागा वस्य सोऽस्तिथिः)अभ्यागत;अतिथि..  
मेहमान. A guest. भग० ११, ६; (२) जेनी  
आववानी तिथि-दिवस भुक्तर नथी ऐवा साधु  
-भुनि. जिसके आने की तिथि नियत न हो ऐसा  
साधु-भुनि. an ascetic whose day  
of arrival is not certain. भग० ११,  
६; —पूजा. ली० ( -पूजा ) अतिथिनी  
सेवा-याकृती; परेण्यागत; आहारादिभाँ  
संकार. अतिथि की सेवा; मेहमानदारी.  
hospitality to guests. “आहाहिपूर्यं  
करेह करेहता तथो पच्छा अप्यणा आहारमा-  
हारेह” भग० ११, ६;

आहाहील. धा० I. ( अति+हील ) धृषी  
शीलध्या करेवी; निन्दा करेवी. बहुत निन्दा  
करना. To censure greatly.

आहाहीलिजा. वि० दस० ५, १, ६६;

आह॒. धा० I. ( अति+ह॒ ) अतिक्ष-  
मिक्षांधन करुन्. उलांधना. To transgress.  
(२) प्रवेश करेवे. प्रवेश करना. to enter.

आह॒ति-ह॒. पंचा० १८, १३;

आह॒त. व० ह० कप्प० ७, २०७;

आह॒. ली० ( \* अजी-जाजा ) अङ्करी. बकरी.  
A she-goat. “आह-कुम्ही” नाया० १;  
आह॒य. त्रिं० ( अतीत ) पसार थेक्ष; उक्षंधी  
गयेक. उलांधा हुआ. Transgressed;  
past; gone beyond. ओष० निं० २८२;  
दस० ७, ८; नाया० १; आया० १,  
२, ३, १७; १, ४, १, १२८; पञ्च० १५;  
उत्त० २६, २१; २८, १७; प्रब० २७;  
( २ )<sup>०</sup> कंक॑ कारखुसर पद्येष्यादि पर्व-  
आं करवानुं तप॑ के पृथ्यभाष्य पर्व वित्या।

पछी करुन् ते; दश प्रकारना पृथ्यभाष्यभानुं  
भीजुं पृथ्यभाष्य. किसी कारण से पर्युषणादि  
पर्व में करने का तप या पञ्चक्षणा पर्व व्यतीत  
होने पर करना; दश प्रकार के पञ्चक्षणा में  
से इसरा पञ्चक्षणा. the 2nd of the  
ten kinds of Pachchakhāṇas;  
viz. practising an austerity or  
observing a vow after the time  
scripturally fixed for it has  
elapsed ( due to unavoidable  
causes ). प्रब० १८७;—काल. पुं०  
( -काल ) गयेवे काण; भूतकाण. गुजरा  
हुआ काल; अतीत समय. past time.  
सम० १०;—पञ्चक्षणा. न० ( -प्रत्याख्या-  
न ) भूतकाणभां करवा येऽपि पृथ्यभाष्य;  
पृथ्यभाष्यना दश प्रकारभाने एक प्रकार.  
भूतकाल में करने गोग्य प्रत्याख्यान; प्रत्या-  
ख्यान के दस भेदों में से एक. a vow of  
time past; one of the ten  
varieties of vows known as  
Pachchakhāṇas. प्रब० १८७;

आह॒व. अ० ( अतीव ) जुओ “ आह॒ ”  
शब्द. बहुत विशेष; ज्यादह. Very much;  
extremely. नाया० १; द० भग० १,  
१; परह० १, १; जं० प० ५, ११६;

आउग्ग-य. पुं० न० ( अयुत ) ८४ लाख  
अडिअंग. प्रभाषे काल विजाग. ( ८४ लाख  
अयुतांगने एक अयुत थाय ) ८४ लाल  
. अयुतांग प्रमाण काल. A period of  
time known as Ayuta, consist-  
ing of 84 lacs of Ayutāṅgas  
( one Ayuta is equal to 84 lacs  
of Ayutāṅgas ). अणुओ० ११५; ड०  
२, ४; भग० ५, १; २५, ५;—आंग. पुं० न०  
( -आह॒ ) ८४ लाख अर्थनिपूर प्रभाषे अल

विभाग. ८४ लाख अर्थनिपूर प्रमाण काल.  
 measurement of time equal to  
 eighty-four lacs of Arthani-  
 pūras ( a smaller measure of  
 time ). अणुजो० ११५; ठा० २, ४;  
 भग० ५, ९; २५, ५;

**आउजम.** त्रिं ( अयोध्य ) परसैन्यधी जेमा  
प्रवेश करी न शकाय तेवुं, जिसमें शत्रु की सेना  
प्रवेश न कर सके. Impenetrable to a  
hostile army. पञ्च ३;

**अशुज्जमा.** ली० ( अयोध्या ) गंधिलावती  
 विजयनी भुज्य २०८६ राजधानी। गंधिलावती विजय  
 की मुख्य राजधानी। Capital town of  
 Vijaya or continent named  
 Gandhilavati. ठा० २, ३; ( २ ) विनि-  
 ताप्रसनामक अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरा,  
 जिसका दूसरा नाम विनीता भी है। city  
 of Ayodhya also called Vinita.  
 सु० च० १५, २६;

**आउरण.** त्रिं० (\* अगुण-जन) विशेष आदि ६१—  
कानी पूर्वे आ शब्द ज्ञेयाय छे तेनो अर्थ  
अंक कम-ओछा थाय छे. जीस आदि दहाई के  
पीछे इसे जोडने से उक्त संख्या का अर्थ एक कम  
होजाता है. उदाहरणार्थ यदि विशेषति ( बास )  
के पीछे हसे लगाया जाय तो उसका अर्थ उक्तीस  
होता है। “Less by one” prefixed  
to multiples of ten. नाया० ३; जं०  
प० १, ६;—**असीति.** ज्ञ० ( —अशीति )  
ओगणुअसी; ७८नी संभ्या. उज्जासी;  
७६ की संख्या. seventy-nine. जं०  
प० १, ६;—**ठिं.** ज्ञ० ( —षष्ठि ) ओगणु  
साठनी संभ्या; ५८. उनसठ; ५६. fifty-  
nine; ५९. कप्प० ५, १३५;—**स्तरि.** ज्ञ०  
( —ससति ) ओगणुभीतेर; १६; उनहत्तर;  
६६. sixty-nine; 69. क० गं० ६, २१;

—तीस. त्रि० ( -त्रिंशत् ) ओगण्डुनीस;  
 २६नी संभ्या. उनतीस की संख्या; २६.  
 twenty-nine; 29. उत्त० ३६, २४३;  
 नाया० ३;—परण. त्रि० ( -पञ्चाशत् )  
 ओगण्डुपचास; ४८ नी संभ्या. उनचास  
 की संख्या. forty-nine. पञ्च० २; भग०  
 २, १;—पञ्चास. त्रि० ( -पञ्चाशत् )  
 ४८; ओगण्डुपचास. उनचास; ४६. forty-  
 nine; 49. प्रव० ११११;—चरण. त्रि०  
 ( -पञ्चाशत् ) ओगण्डुपचास; ४८. उन-  
 चास की संख्या. forty-nine. विशे०  
 ३५४५;—वीस. त्रि० ( -विंशति ) ओग-  
 ण्डुस; १६. उच्चीस की संख्या. nineteen.  
 “ सागरा अउणवीसं तु उक्कोसेण ठिर्हभवे ”  
 उत्त० ३६, २३३;—सत्तरि. आ० ( -सप्त-  
 ति ) ओगण्डुतेर; १६ नी संभ्या. उनहत्तर.  
 sixty-nine. कप्य० ५, १३६;

**અદ્વારણ.** નો ( અપમાન ) અપમાન; અના-  
દર. અપમાન; તિરસ્કાર. Disrespect.  
“અદ્વારણ પરિવહજએ” સયું ૧, ૧, ૪, ૪;

अउल. त्रिं ( अतुल ) जेनी तुलना थर्ड शटे  
 नहि तेवुं जिसकी तुलना न हो सके.  
 Matchless. दस० ७, ४३; ६, ३, १५;  
 पञ्च० २३; उत्त० ३६, ६५;

अजव्व. त्रिं ( अपूर्व ) पूर्वे न जेअलुं.  
पहिले न देखा हुआ. Unseen before;  
unprecedented. भस० १६७;

अथो. अ० ( अतः ) आङ्गिथि. यहाँ से.  
Hence; from here. प्रव० ८४;  
( २ ) एटला माटे; ओ करण्युथि. इसलिये.  
therefore: hence. प्रव० ३१;

અશ્રોજક. ત્રિ. ( અયોધ્ય ) યુદ્ધ યોગ્ય નફિ.

गुद्द के अयोमय. One unfit for fighting. भग० ७, ६;

अश्वोपरं. अ० ( अतः परम् ) एव पधी. इसके बाद. After this or that; next to this or that. क० गं० ४, ७५;

अश्वोमय. त्रि० ( अयोमय ) लेदादतु. लोहेका: लोहमय. Made of iron. " अश्वोमण्णं संडासपृणं गहाय "सूय० २, २, ८१; विवा० ४; जीवा० ३, १;

अंक. पु० ( अङ्क ) एक जाति का सुफेद मरणि. A kind of white gem. उत्त० ३४, ६; ( २ ) एक जाति का रत्न; अंकरत्न; सचित् पृथ्वीनुं एक परिषुभि. एक जाति का रत्न; अंकरत्न; सचित् पृथ्वी का एक परिणाम. a jewel; a precious stone. उत्त० ३६, ७५; कप्य० २, २६; नाया० १; राय० २८; ६४; पञ्च० १; जीवा० ३, ४; ( ३ ) भैषजी॑; गोद. गोद; उत्संग. a lap निर्सा० ७, २४; राय० १३०; २८८; नाया० १; ८; १६; पिं० नि० ४१०; जीवा० ३, ४; ( ४ ) चिन्ह॒; लांछन; निशाजी. a sign or mark. श्रोव० १०; सू० प० २०; ( ५ ) एकठी नव सुधीना आंकडा. एक से नौ तक के अङ्क. numerals from one to nine. पञ्च० २; ( ६ ) आंकडानी लिपि; १८ लिपिभानी एक. अंकलिपि—अठारह प्रकार की लिपियों में से एक लिपि. a figure-script; one of the eighteen scripts. पञ्च० १; —कंडू. पु० ( -कारण्ड ) रत्नप्रभा। पृथ्वीना भरकृदेना अंकरत्नभय से। जेजननेना जड़ा। यैदमो भाग। रत्नप्रभा पृथ्वी के खर काड का अंकरत्नभय सौ योजन चौड़ा चौदहवां भाग. the fourteenth division of the Khar-kānda of Rat-naprabhā world, consisting of

white jewels and with a breadth of hundred Yojanas.

जीवा० ३, १; ठा० १०, १; —करेलुग. पु० ( -करेलुक ) पाणीभानी एक जलनी वनस्पति. जल में का एक प्रकार की वनस्पति. a kind of aquatic plant. आया० २, १, ८, ४७; —द्विष्ट. ली० ( -स्थिति ) आंकडा तथा रेखाने विचित्ररीते स्थापवाते; ६४ कलाभानी ४३भी कला. अंक तथा रेखा की विचित्र स्थापना करनी; ६४ कलाओं में से ४३वीं कला. a striking arrangement of numerical figures and geometrical lines; forty-third of the sixty four arts. श्रोव० ४०;

—धर. पु० ( -धर ) अन्द. चन्द्रमा. the moon. जीवा० ३; —धाई. ली० ( -धात्री ) ऐआभां—जोड़भां भेसाई सुवाई बालकने रभाउनार धावभाता; पांच प्रकारनी धावभाताभानी एक. गोदी में बिठाया सुला कर बालक को खिलाने वाला धाय; पांच प्रकार की धाय में से एक प्रकार की धाय. a wet nurse who fondles a child in her lap; one of the five sorts of nurses. नाया० १; १६; आया० २, १५, १७६; विवा० २; भग० ११, ११;

—मुहू. न० ( -मुख ) पद्मासननो अग्रभाग.

पद्मासन का अग्रभाग. the fore part of Padmāsana ( a kind of posture ).

सू० प० ५; —लिंगि. ली० ( -लिंगि ) अंक लिपि; वर्णुभाला; अठार लिपिभानी एक. अठारह प्रकार की लिपियों में से एक लिपि; वर्णमाला. figure script; one of the eighteen scripts. सम० १८; —वाणिय. पु० ( -वाणिज् ) अंकरत्नना व्यापारी. अंकरत्न का व्यापारी. a dealer

in Añkaratna jewels. राय०  
—हर. पुं० ( -हर ) चंद्रमा. चन्द्र. the moon. जीवा० ३;

अंकण. न० ( अङ्कन ) तपावेल सणीयाथी वः ७-  
२३। वगेरेने आंकवा-शिखागाना पग वगेरेने  
आंकारे विन्दु करतुं ते. चेंचुए लगाना; तपे  
हुए लोहे के सरिये से बछडा वगैरह को  
दागना-चिन्हविशेष करना. Branding of  
animals with red hot iron bars.  
नाया० १७; कप्य० ३, ३६;

अंकवडंसय. पुं० ( अङ्कवटंसक ) उश्चान  
धन्दना भुप्यविभानन्तु नाम. ईशानइन्द्र के  
मुख्य विमान का नाम. Name of the  
principal heavenly abode of  
Isāna-Indra. भग० ४, १;

अंकामय. त्रि० ( अङ्कमय ) अंक- रत्नमय  
पदार्थ. अंक-रत्नमय पदार्थ. (A substance)  
inlaid with white gems. “अंकामया  
पदार्था पदार्थाहा” ओष० जं० प० ७, १६६;

अंकावहै. सी० ( अङ्कावती ) महाविदेहनी  
सीतोदा नदीने जम्बु कांडे आवेली २८५  
विज्यनी राजधानी. महाविदेह की सीतोदा  
नदी के दक्षिण की ओर रम्यविजय की  
राजधानी. The capital of Ramya-  
Vijiya situated on the right  
bank of Sitodā river of Mahā-  
Videha. ठा० २, ३; ( २ )  
पञ्चममहाविदेहना इक्षिष्ठांवानी पहेली  
विज्यनी सरहद उपरने वभारा पर्वत.  
पश्चिम महाविदेह के दक्षिणखंड की पहिली  
विजय की सीमा परका वखारा पर्वत.  
the Vakhārā mountain on the  
boundary of the first Vijaya  
in the southern division of  
western MahāVideha. जं० ४०

अंकिय. त्रि० ( अङ्कित ) अंकितथयेल; विन्दु  
सहित. चिन्ह सहित. Bearing a mark.  
ओष० १०; पञ्च० २;

अंकुर. पुं० ( अङ्कुर ) पांडानो भ्रथम नीकगेल  
इषुगेल; पांडानी शङ्खातनी लालटीसी. पत्तों  
की कोंपल. A sprout of a leaf. पञ्च०  
१७; ३६; राय० ६२; १५६; दसा० ५, १६;  
भग० ७, ६;

अंकुस. न० ( अङ्कुश ) हाथीना भाथाभाँ  
भारवातुं हथियार; लेढानो एकपासथी  
वाणेल आंकडो. हाथी को मारने का लोहे का  
अंकुश. A hook for driving elephants. “अंकुसेण जहा नागो धम्मे संपद्धि-  
वाहओ” उत्त० २२, ४८; दस० २, १०;  
जं० प० ५, ११६; जीवा० ३, ३; परह० १,  
४; ठा० ४, २; राय० ६३; नाया० १७;  
( २ ) अंकुशने आंकारे हाथ पगनी रेखा.  
अंकुश के आकार की हाथ पाँव की रेखा.  
the curved lines on the palm  
and the sole of the foot re-  
sembling a hook. उत्त० ६, ६०; ( ३ )  
पृथ्वी विष्व छेदवातुं सन्यासिन्तुं एक उपकरण.  
इसके पत्ते छेदने का सन्यासियों का एक  
शब्द. an instrument used by a  
Samnyāsi to cut the foliage of  
trees. नाया० ५; ( ४ ) भाणा लटकाववानो  
यंदस्याभानो. अंकुशाकार आंकडो. चंदवा-  
छत वगैरह में माला लटकाने का अंकुश के  
समान देढा आँकडा. a hook fastened  
to a ceiling cloth for hanging  
garlands. जीवा० ३, ४; ( ५ ) महाशुकृद्व  
लोकना एक विभानन्तु नाम, डे लेभां रहेनार  
देवतानी ११ सागरोपमनी रिथति-आयुध  
थे. महाशुक देवलोक के एक विमान का नाम,  
जहाँ के रहने काँसे देव की १६ सागरोपम

की आयु है. a celestial mansion of the heavenly world Mahā-Sukra where the gods live 16 Sāgaropamas of years. सम० १६; ( ६ ) वन्दनानो छड़ा देष्पः रजेद्वरजुने अंकुशनी पेते ऐ द्वाथमां राखी युर्वादिक्ते वन्दना कुरवथी लागतो एक देष्पः. वन्दना का छठा दोष; रजोहरण को अंकुश के समान दोनों हाथों में रखकर गुरु आदि को वन्दना करने से लगने वाला एक दोष×. the sixth fault of Vandana ( obeisance ) committed by holding the Rajoharanya like a hook while saluting or bowing to elders ३. प्रव० १५०;

**अंकुसथ.** पुं० ( अङ्कुशक ) जुओ 'अंकुश' शब्द का तीसरा अर्थ. देखो 'अंकुश' शब्द का तीसरा अर्थ. Vide 'अंकुश' ३. ओव० ३६; भग० २, १; .

**अंकुसा.** ब्रौ० ( अङ्कुशा ) चाहम। श्रीअनंतनाथ-तीर्थदर्ती शासन देवीनुं नम. १४ वं तीर्थकर- श्रीअनन्तनाथ की शासनदर्ती का नाम. Name of the tutelary goddess of the 14th Tirthankara, Shri Anantanātha. प्रव० ३७८;

**अंकेश्वर.** न० ( अङ्केश्वर ) धेऽनो भारवनो चाखुक. घोड़े को मारने का चाबुक. A. whip to strike a horse. भग० १, १; .

\* न०ट—आ देष्प परत्वे जुदा जुदा मत छे, एक छंडे, के सुनेत्र युर्वादिक्ती पछेड़ी वगेरे ऐच्छी जगाड़ी ऐक्षेत्री वन्दना करे ते अंकुश देष्प. भीज १५१ छें, ६. थीने अंकुश लागतां शिर उच्चु नीचुं करे तेम वन्दना करे ते अंकुश देष्प. श्रीने मत उपरं जखायो ते वाज्ञा छे.

× नोट—इस दोष के सम्बन्ध में भिज भिज मत है कि, सोये हुए गुरु आदि को उन के बखादि खैच कर जंगाना और फिर बैठा कर उन्हें वन्दना करना यह अंकुश दोष है। दूसरा कहता है कि, हाथी को अंकुश लगाने से जिस प्रकार हाथी सिर ऊचा नीचा करता है उसी प्रकार वन्दना के समय करना तीसरा मख ऊपर दिया गया है और वही उचित भी है।

॥ Note—According to some, salutation after rudely awaking them etc.

—पहार. पुं० (-प्रहार) याअभानो भार-धा. चाबुक का मार का धाव. a lash of a whip. ज० प०४;

**अंकेसाइरी.** ब्रौ० ( अङ्केशायिनी ) ऐणाभां सुवावाणी पुत्री नेवी. गोद में सोनेवाली पुत्री के समान. Sleeping in a lap ( like a daughter). सूय० १, ४, १, २८;

**अंकोल.** पुं० ( अङ्कोल-अङ्कथते लक्ष्यते कीज्ञाकारकएटकैरिति ) अङ्कोलनुं जाइ; ऐ जाइ. दिनना दरेक प्रन्तमां उग्रे छे, येना भीजनुं तेक्नीको छे, ऐ ज.३ विशाणु होय छे, तेना पांटां आंगण ऐ आंगण पहुणां अने कुरणीना जेवां लांगां अने रेखावाणां होयछे. अंकोल का वृक्षः यह वृक्ष हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रान्त में पैदा होता है, इसके बीज का तेल निकलता है, यह ग्राह विशाल होता है, इस के पते एक दो अंगुल चौड़े होते हैं और करणी के पत्तों के समान लंबे एवं रेखा वाले होते हैं. A species of large trees bearing oil seeds, found throughout India. भग० ३२, २; ४; पञ्च० १;

**अंग.** न० ( आङ्ग ) अंगदक्षयन् शुभाशुभ इत अतावनार निमित्तशास्त्रः २६ पाप सूत्रमांजुं एक. अङ्गफरकेन के शुभाशुभ फल को कहने वाला निमित्तशास्त्रः The science that foretells events from the throbbing of a limb;

one of the 29 Sūtras known as Pāpa Sūtras ( because they come in the way of salvation ).  
सम० २६; ठा० ८, १; सूर्य० २, ३, २६;  
अंग. न० ( अङ्ग ) शरीरना॑ अवयव; भस्तुक् वगेरे शरीरनां आठ अंग शरीर के अवयव; भस्तुक् आदि शरीर के आठ अंग. Any of the limbs of the body; the eight parts of the body e. g. head etc.  
“ बाहू २ रू४ पुष्टी २ सिर ६ उत्र ७ ढयरंगा ८ ” क० गं० १, ३४; अग्नुजो० १२७; उत्त० २, ३; ५, २३; वर्ष० १०, २१; २२; २३; २४; भग० १, ७; ७, ५; ११, ११; नाया० १; २; विवा० १; १; पञ्च० २३; ( २ ) मुख्यअवयव; प्रधान अंग—मुख्यअवयव. chief part. नाया० १; १६; ( ३ ) षु० देशविशेष; ज्ञेने हाल अंगों के लिए. देश विशेष; ज्ञेने आजकल विहार कहते हैं. name of the country of Bihar. पञ्च० १; भग० १५, १; नाया० ८; निर० १, १; ( ४ ) अंगसूत्र; आचारांग अदि ११ अंग. अंगसूत्र; आचाराज्ञादि ११ अङ्ग. the eleven Sūtras of the Jaina canon, Āchārāṅga etc.  
“ अंगेण बाहिरेण्व, सो सुत्तरहासि नायम्बो ” उत्त० २८, २१; अग्नुजो० ३; ४२; १४६; पञ्च० १५; नाया० १; भग० २, १; ४, १; ७, १०; ( ५ ) अ० वाक्यादंकरभां ‘ किमंग ’ ऐ इपे आवेष्टे. वाक्यालंकार में भी “ किमंग ” ऐसा आता है. emphatic particle—“ what to speak of.” ? “ कै तं महाफलं खलु तहा॒ रूपाण्यं अरिहंताण्यं भगवंताण्यं नामगोयस्स-

विस्सवण्यापृ॒ किमंग पुणा अभिगमणवंदणा॑ नमंसणपडिपुष्ट्व्यणज्ञवासणयाए॑ ” राय० ( १ ) कारण. cause. विशेष० ६३०; १५८६;—अहिव. पुं० (—अधिव) अंगदेशने॑ राज. अंगदेश का राजा. a king of the country of Aṅga ( Bihar ). सु० च० ३, ११३;—चूलिया. छी० (—चूलिका) आचारादिअंगनी चूलिका—आचारांग आदिमां न कहें अर्थनो॑ ज्ञेमां संग्रह करवामां आयो छे ते; कालिकस्त्रविशेष. आचारादिअंगों का चूलिका—आचारादि अंगों में न कहे हुए अर्थ का जिसमें संग्रह किया गया है वह; कालिकस्त्र विशेष. the Chūlikās of Āchārāṅga etc. which contain supplementary matter not given in the body of the Aṅgas ( also known as Kālika Sūtras ). ठा० १०, १; नंदी० ४२; वर० १०, २७;—छल्लहिय. त्रि० ( \*-च्छल्ल ) छेदयेकु अंग. छेदा हुआ अह. wounded limb. “ वेयगच्छहियं अंगच्छहियं पक्षाकोडियं करेह इमं गणयश्चादियं करेह ” सूर्य० २, २, ६३;—जरावय. न० (—जनपद) अंगदेश. विहार. Bihar. नाया० १५; —पञ्चंगसंठाण. न० (—प्रत्यक्षसंस्थान) अंग-भस्तुकादि, प्रत्यंग-नयनादि अंगों संहाय. अङ्ग प्रत्यक्ष का संस्थान. disposing in order the limbs and their parts दस० ८, ५८;—पडियारिया. छी० (—प्रति-चारिका) शरीरनी सेवा। करनारी दासी; अंदरनु काम करनारी दासी. शरीर की सेवा करने वाली दासी; घर के भीतर का काम करने वाली नौकरनी. a personal female atten-

It is extremely meritorious to repeat the name of the ideal saints or of the blessed Arhantas; what to speak of paying a visit to, praising, bowing or serving them” ?

dant; household female servant.  
नाया० १; १४; भग० ११, ११;—पविष्टु  
त्रि० (—पविष्टु) अंगशास्त्रान्तरीतशुतविलाग;  
आचारांग आहि खार अंग. अंगशास्त्रों के  
अन्तर्गत श्रुतविभाग; आचारांगादि बारह अंग.  
12 Āngas such as Āchārāṅga  
etc. ठा० २, १; नंदी० ४३; क० गं० १,  
६;—पक्षुरणा. ली० (—स्फुरणा—स्फुरणम्)  
अंगतुं इत्कुं. अंगों का फरकना. throbbing  
of limbs. प्रव० १४२०;—फास. पुं०  
(—स्पर्श) शरीरने स्पर्श. शारीरिक स्पर्श.  
bodily touch. नाया० १६;—बाहिर.  
त्रि० (—बाह्य) श्रुतनो एक विलाग;  
उत्तराध्ययन वरेरे अंग झड़ारनां सत्रो.  
श्रुत का एक विभाग; अंगों के अतिरिक्त  
उत्तराध्ययनादि. Sūtras outside the  
Āngas; a division of Jain canon. ठा० २, १; नंदी० ४३;—भंजण.  
न० (—भम्जन) आणस भरडवी; शरीरना  
अवयवेने भे. आलस्य से शरीर मरोडना;  
शरीर के अवयव मरोडना. twisting and  
stretching of limbs through  
sloth. परह० २, ५;—भेद. पुं० (—भेद )  
अंगना भेद. अंग का भेद. the different  
sorts of limbs. विश० ११६;—मंदिर.  
न० (—मन्दिर) चंपानगरीनी झड़ारनुं एक  
उद्धान. चंपानगरी के बाहिर का उद्धान.  
a garden situated outside the  
Champā city. “अंगमंदिरांसि चेह्यांसि  
मङ्गरायस्स सरीरं विष्पजज्ञामि” भग० १५, १;  
—मगह. पुं० (—मगध) अंग अने भगध  
ऐ ऐं पासे पासे ना देश. अंग और मगध  
नामक (पास पास के) दोनों देश. two  
adjacent countries named Āṅga and Magadha. वेय० १, ४६;—मह. पुं०

(—महै) अंगतुं भर्तु इरनार भाष्युस. शरीर  
की मालिश करने वाला मनुष्य. a man  
who rubs the body with oil etc.  
पु० च० ४, ७८;—महिया. ली० (—मर्दिका)  
भर्तु इरनार दासी. मालिश करने वाली  
दासी. a maid servant who rubs  
the body with oil etc. भग० ११,  
११;—राग. पुं० (—राग) अंग विपर भस-  
णवाना—देपवान. डेसर, चंदन वरेरे सुगंधी  
पदार्थ. अंग ऊपर लगाने का सुगन्धित उबटना.  
fragrant substances like saffron,  
sandal etc. used to perfume the  
body. राय० ५४; नाया० १६;—राय. पुं०  
(—राज) अंगदेशनो राज. अंगदेश का  
राजा. a king of the country of  
Āṅga. नाया० १६;—लोग. पुं० (—लोक)  
देशविशेष. name of a  
country. ज० प० ३, ५२;—चंस. पुं०  
(—चंश) अंगदेशना राजनो. वंश. अंगदेश का  
राजकीय वंश. lineage of the king  
of the country of Āṅga. सम०  
७६;—विगार. पुं० (—विकार) अंग  
स्तुरेणु। इत्याक्ष्यतुं कथन. अंगफरकने के  
फलाफल का कथन. divining the re-  
sults of the throbbings of the  
parts of the body. “अंगविगारं  
सरस्स विजयं जो विज्ञार्ह न जीवृत्स  
भिस्त्” उत० १५, ७;—विज्ञा. ली०  
(—विचा) अंगइत्वाना. शुभाशुभ इत्य  
निष्पानी विद्या. अंगफरकने का शुभाशुभ  
फल जानने की विद्या. the science of  
divining the results good or  
bad from the throbbing of  
limbs. “अंगविज्ञं च जे पञ्जति, नहु ते  
समणा युच्चति” उत० ८, १३; (२) निभि-

पादि इक्षुःइन् अनावनार एक शास्त्र-एक पैठन्नो। निमित्तादि कलाकल बताने वाला शास्त्र.

a science interpreting omens.

उत्त० ८, १३ः—संचाल. पुं० ( सञ्चाल )

शरीरना अवयवोनुं सहज थेहुङ्क यादवनुं ते.

शरीर के अवयवों की थोड़ी री हलचल. slight movement of the limbs of the body. “ सुहमेहि अंग संचालेहि ” आव० ५, १;

अंगण. पुं० न० ( अङ्गण ) आंगायुः; इग्नियुः;

याक; धर आगगनो भुव्रा भाग. आंगन;

चौक. A courtyard. गय० ३३; १३०;

आव० १७; ज० प० २, ३१; जीवा० ३, ४;

उत्त० ७, १; पञ्च० ११;

अंगणा. ली० ( अङ्गना ) अंग उपर अनुराग

उपरवनार भाटे अंगना; ली. अंगों पर

अनुराग उत्पन्न कराने वाली होने से अंगना;

ली. A woman; a beautiful woman. तदु० २८; पञ्च० ११४;

अंगमंग. न० ( अङ्गङ्ग ) अंगुपांग; अवयवना

अवयव. अङ्गोपाङ्ग; छोटे २ अवयव. Parts

of a limb. “ रायलक्षणविराह्यंग-

मंगा ” नाया० ६; १८; भग० ७, ६; ज०

प० २, ३४;

अंगय. पुं० न० ( अङ्गद ) वाहुआभरणुः;

बालुअन्ध. भुजा का गहना; बाजूबंद. A

bracelet worn on the upper arm. पञ्च० २; ओव० २२; नाया० १;

जीवा० ३, ४; पग्ह० १, ४; ( २ ) हैवनानुं

एक आवरण. देवता का एक आभूषण.

an ornament of a deity. राय०

१८६;

अंगाणगपविष्ट. त्रिं० ( अङ्गानङ्गप्रविष्ट )

अंगप्रविष्ट—आचारांग वज्रे सूत्र अने,

अनंगप्रविष्ट—आवस्यक वज्रे सूत्र. अङ्ग

प्रविष्ट-आचाराङ्गादिसूत्र और अनङ्गप्रविष्ट—  
आवश्यक वज्रह सूत्र. Sūtrās like  
Āchārāṅga included in Āṅgas and those like Āvāsyaka not included in Āṅgas. विश० ५२७;

अंगार. पुं० ( अङ्गार ) अभि; अनो डेक्से.

अङ्गार; जलता हुआ कोयला. A burning

charcoal. पिं० निं० ११४; प्रब० २६७;

( २ ) स्वादिष्टअन्त अने तेना दातारनी

प्रशंसा करनां आदार करवायी साधुने लागते।

एक आदारनो दोप; दीपाल दोप. स्वादिष्ट अन्त

आंग अन्दाता का प्रशंसा करत २ आहार

करने से साधु को लगने वाला दोष; इङ्गाल

दोष. a sin incurred by a Sādhu while eating, by praising the

deliciousness of the food and the giver of it. गच्छा० ७;—कड्डिदर्णी.

ली० ( -कर्षिणी ) अभि इन्ववा—उथलाव-

वानो लोटानो सणीओ. अग्नि

करने का लोहे का सरिया-खौचा. a poker.

भग० १६, १;—दाह. पुं० ( -दाह ) ल्यां

लांडा आणी डेक्सा पाउवाभां आवे छे ते

रथान. वह स्थान, जहां लकड़ी जलाकर कोयले

बनाये जाते हैं. a place where wood is converted into coal by combustion. आया० २, २, १;—पतावणा.

ली० ( -प्रतापना ) टाठ उडाउने अग्निपासे

१८८ शर्वीर तपवनुं ते; ताप्ती; धुषी. ठंड

मिटाने के लिये अग्नि के पास जाकर शरीर

तपाना. to warm the body at the fire-side. पग्ह० ३, ५;

अंगारक. पुं० ( अङ्गारक ) भंगणनाभनो

प्रह; ८८ अङ्गभनो एक प्रह. मंगल नामक प्रह;

८८ प्रहों में का एक प्रह. The planet

Mars. परह० १, ५; ओव० २६; पञ्च० २;

**अंगारमहाग.** पुं० ( अङ्गारमर्दक ) अंगारमहृष्ट ऐ नामथी प्रसिद्धिपाभेला । इद्वेवनामे ऐक अभव्य आर्यांशु । अङ्गारमर्दक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त एक रुद्रेव नामक अभव्य आर्यांशु । A preceptor unworthy of salvation named Rudradeva who became famous by his name of Aṅgāra-Mardaka. पंचा० ६, १२;

**अंगारिय.** त्रिं० ( अङ्गारित-अङ्गारो रोग-विशेषः स जातोऽस्येति ) अंगाररोग वाणी शेरडी, के ने रोगथी शेरडीनी कातणीनो रंग वृद्धार्थ न्यु छे । अंगाररोग वाला गजा-साठा, जिस रोग से उसके छिलके का रंग बदल जाता है । A sugarcane with a disease which alters its colour. आया० २, १, ६, ४८;

**अंगाल.** पुं० ( अङ्गार ) अंगारो; कौप्यसो। अंगार; कोयला । A burning charcoal; a coal. पंचा० १, २२;

**अंगिरस.** त्रिं० ( आङ्गिरस ) अंगिरस-ज्ञातम ज्ञानी ऐक शाखा तेमां उपनेक पुरुष ते-आंधिरस । गोतमगोत्र की एक शाखा में उत्पन्न पुरुष । One born in a branch belonging to the line of Gautama. ग्रा० ७, १;

**अंगुष्ठ.** पुं० ( अङ्गुष्ठ ) अंगुडो। अंगूठा । The thumb; the great toe. नाया० ८; सम० ११; आंघ० निं० ३६०; भग० ३, २; प्रव० ३५८; — पसिण. पुं० न० (—प्रभ) अंगु-डामांदेवतानु आहुवान कुरीअंगुष्ठाथी० नवाप्य हेवानीविदा । अंगुष्ठे में देवता का आव्हान कर के अंगुष्ठे से ही उत्तर देने की विद्या; एक प्रकार की हाज़रत । a branch of learning

dealing with answering by means of the thumb after invoking a deity in it. (२) ते विद्वानु प्रतिपादन करनार प्रश्नाव्याप्ति करणुनु नवमुं अध्ययन, के ने हाल विच्छेद थर्थ गमेल छे । उक्तविद्या का प्रतिपादन करने वाला प्रश्नव्याकरण का नवाँ अध्याय, जिसका कि, अब विच्छेद हो गया है । the ninth chapter of Praśnāvyākaraṇa which explains the above but which is now extinct. ग्रा० १०, १;

**अंगुष्ठ्य.** पुं० ( अङ्गुष्ठक ) अंगुडो। अंगूठा । the thumb; the great toe. नाया० १४;

**अंगुल.** न० ( अङ्गुल ) आंगण; आंगुल व्रभाणे भरपविशेष-वेतनो व्याभेला लाग । अंगुली; अंगुल; बैत का बारहवाँ हस्सा । A finger; a measure of length equal to the twelfth part of a span. भग० १, ५; ३, १; ६, ५; ७; ११, १; २१, १; २४, १२; ३६, १; जं० प० ३, ५७; पञ्च० १२; सू० प० १६; उत्त० २६, १२; ओष्ठ० निं० २७; प्रव० ७५; —पुहुत्त. न० (—पृथक्त्व) जुओ ॥ “अंगुलपुहुत्त” शब्द. देखो ‘अंगुलपुहुत्त’ शब्द. vide “अंगुलपुहुत्त”. भग० २१, ६; २४, १; —पुहुत्त. न० (—पृथक्त्व) ऐ आंगणीथी ६ आंगणसुधी । दो अंगुल से नौ अंगुल तक । a measure of length, from two to nine Āṅgula measures ( finger-breadth ). भग० २२, १; —पोहत्तिय. त्रिं० ( \*—पृथक्त्वक-अङ्गुलपृथक्त्वं शरीरा-वगाहनामानमेषामस्तमित्यङ्गुलपृथक्त्वकाः ) नेनी भेथी भांडी नव अंगुलसुधीनी शरीर अवगाठना-डीचार्थ छे ते । जिसके शरीर की

जंचाई २ से ६ अंगुल तक की है वह. one whose height is from 2 to 9 Angula measures ( finger-breadth). पञ्च० १;—भाग. पुं० (—भाग) अंगुलनो (असंख्यातमें) भाग. अंगुल का असंख्यातवाँ भाग.an (infinite simal)division of the measure called Angula i.e., a finger's breadth. क०प० १, ६;—वगाह. पुं० (—अवगाह) अंगुणी अवगाहना—क्षेत्रस्पर्शना. अंगुल की अवगाहना; क्षेत्रस्पर्शना. occupation of space equal to a finger's breadth, क० प० १, २०;

**अंगुलि.** ली० (अङ्गुलि) आंगणी. (हाथपगनी) अंगुली. A finger or a toe. निसी० ३, ४६; ओव० १०; पञ्च० २; नाया० १; द० दस० ४; आया० १, १, २, १६; उवा० २, ६४;—कोस. पुं० (—कोश) आंगणीमां खेडेवानी। लेढानी, लाकडानी, ते चामडानी। अंगुली में पहरने का लोहे, लकड़ी, अथवा चमड़े का अंगुलताना. a thimble. राय०—फोडण. न० (—स्फोटन) आंगणीना। टचाका वगाडवा ते. चुटकी बजाना. a snap of the thumb and the finger. तंड० २५;—भमुहा. ली० (—भू) काउसगगमां आंगणीना। वेढा गणवाथी के कुंडिक संकेत जग्जाववा-ब्रह्मुठि हुलाववाथी लागतो एक दैष; काउसगगनो एक दैष. कायोत्सर्ग का एक दोष; अंगुली के पेर गिनने से या कुछ इशारा करने से अथवा भौं चलाने से कायोत्सर्ग में लगने वाला दोष. a fault in Kāusagga ( a kind of trance-condition ) consisting in counting the finger joints or moving the eyebrows

to signify something. “ अंगुलि भमुहाओ विय चालतो सह य कुण्ठ उस्सगं ” प्रव० २६२;

**अंगुलिजग.** न० ( अङ्गुलीयक ) आंगणीना। आलरधो; वेद, वीटी वगेरे. अंगुलियों का गहना; अंगूठी वगैरह. A ring. जीवा० ३, ३; नाया० १; ओव० ३१; कप्प० ४, ६२;

**अंगुलिया.** ली० (अङ्गुलिका) आंगणी. अंगुली. A finger; a toe. भग० द, ३; जीवा० ३, ३; निसी० १, २; पिं० नि० २८७;

**अंगुलिंग.** पुं० (अङ्गोपाह) नामकर्मनी एक प्रकृति. नामकर्म की एक प्रकृति. A species of Nāma-Karma.( i.e., body-making Karma.) प्रव० १२७५;

**अंगोदंग.** न० ( अङ्गोपाह ) भरतकादि अंभ अने अंगुलि आदि उपांग. मस्तकादि अंग और अंगुल आदि उपाह. Parts of a body and their sub-divisions. “ नहकेसमंसुअंगुलिओड्हा खलु अंगोदंगाणि ” उत० टी० ३; पञ्च० २३; विवा० १; क० ग० १, ३४; ४८; क० प० ४, ७४;—णाम. न० (—नामदू) जेना। उद्यथी शरीररूपे लीघेल पुद्दोना अंग उपांग रूपे परिषुभे ते नामकर्मनी एक प्रकृति; अंगोपांगनामकर्म. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से शारीरिक पुद्दल अंगोपाह रूप से परिणत होते हैं; अंगोपाह नाम कर्म. a variety of Nāma-Karma ( i.e., body-making Karma ) by the maturing of which are produced the limbs of the body and their sub-divisions. क० ग० १, ४८;

✓ अंच. धा० I. ( अन्त्र ) संडेखतुः; संडोन्यनुः; भेणु करवुः. इकट्ठा करना. To fold up; together up. ( २ ) पूजनुः; पूजा करना; पूजना. to worship. ( ३ ) गति करवी. जाना. to go.

● अंचति. पंचा० १६, २६;  
अंचेह. “ वामं जाणुं अंचेह ” राय० १६;  
ओव० १२; जीवा० ३, ४; जं० प० ३,  
५३; भग० ६, २२;

अंचेहता. सं० कृ० भग० ६, ३३;

अंचि. पु० ( अन्विच ) गति करवी ते; जरुं ते. गति करना; जाना. The act of going. भग० १५, १;

अंचि. पु० ( आठिच ) अवृतुं ते. आना. The act of coming. भग० १५, १;

अंचिअ. न० ( अन्वित ) एकप्रकारतुं नाटक; देवताना उ२ नाटकमांतुं २५ मुं नाटक. एक प्रकार का नाटक; देवताओं के ३२ नाटकों में से २५ वाँ नाटक. A kind of a drama; the 25th of the thirty two dramas of gods. जीवा० ३, ४; राय० ६४; ( २ ) त्रि० पूज्य; राजभान्य. पूज्य; राजमान्य. worthy of worship or reverence. भग० १५, १; ( ३ ) न० एकवार जरुं ते. एक बार जाना. the act of going once. भग० १५, १;

अंचियंचिय. न० ( अन्वितान्वित ) गमना-गमन; आंहिथी त्यां अने त्यांथी आंहि जरुं आवृतुं ते; गति आगति; गमगम. आना जाना; गमनांगमन. Walking to and fro. भग० १५, १;

अंचियरिभिय. न० ( अन्वितरिभित ) एक प्रकारतुं नाटक; देवताना उ२ नाटकमांतुं २७ मुं नाटक. एक प्रकार का नाटक; देवताओं के ३२ नाटकों में से २७ वाँ नाटक. A kind of

drama; the 27th of the thirty-two dramas of gods. जीवा० ३, ४; राय० ६४;

✓ अंचु. धा० I. ( \*अन्त्र-आ+कृषु ) आकृष्यु करवुः; घेयनु. आकर्षित करना, खेचना. To attract; to pull; to draw. अंचुति. विशे० ७६४;  
अंचुवेह. शिं० नाया० १; भग० ११, ११;  
अंचुवेहता. शिं० सं० कृ० नाया० १; भग० ११, ११;

अंजण. न० ( अञ्जन ) कल्पणी; आंजणु. काजल; अञ्जन. Collyrium for the eye. भग० १५, १; पिं० निं० भा० ४४; उत्त० ३४, ४; उवा० २, १०७; नाया० ६; प्रव० ८५७; ( २ ) सैवीराजन; सुरभेः; धातुविशेष; सचित्कटिनपृथ्वीने। एक प्रकार सौवीराजन; सुरमा; धातुविशेष; सचित्कटिन पृथ्वी का एक भेद. sulphuret of antimony etc. used as collyrium for the eye. राय० ६०; १२३; उत्त० ३६, ७५; आया० २, १, ६, ३३; पञ्च० १; विशे० २१२; निसी० ४, ४८; सू० प० २०; ( ३ ) रसांजन; रसवती; दारू-हल्दीना अष्टमांश उडाणामां युक्तीरीनु भूत्र भेणी अनावेल आंजवानी शणी. रसांजन; रसवती; दारू-हल्दी के अष्टमांश काढ़े में बकरी का मूत्र मिलाकर उस से संस्कारित आंजने की सलाई. a pencil of collyrium for the eye made of a certain medicinal plant. दस० ३, ६; ( ४ ) तपावेल दोषानी शणीथी आंधभां दुःख उत्पन्न करवु ते. गर्म की हुई सोहे की सलाई से आंख में दुःख उत्पन्न करना. act of causing pain in the eye by means of a red hot iron rod. सम० ११; ( ५ ) आंध आंजवी; आंधभां कल्पणी वगेरे आंजनु ते. आंख में काजल

वर्गेरह लगाना. to apply collyrium to the eyes. “ वस्त्रं जणपतिमंथं ” सूय० १, ६, १२; ( ५ ) रत्ननी ऐक ज्ञात. रत्न की एक जाति. a variety of jewel. राय० २६; कप्प० २, २६; नाया० १; पञ्च० १७; ( ७ ) रत्नभासा पृथ्वीना खरकुड़नो दशभो भाग. डे ने ऐक हुमर जेवननो जोड़े छे. रत्नभासा पृथ्वी के ऊपर कारण का दशवाँ भाग, जो एक हजार योजन चौड़ा है. the tenth part of the Kharakānda of Ratnaprabhā world, which is 1000 Yojanas in width. जीव्य० ३, १; या० १०, १; ( ८ ) रम्यविन्यनी पश्चिमसरहद उपरनो वधारा पर्वत. रम्यविजय की पर्वथम सीमा का वखारा पर्वत. the Vakhārā mountain on the western boundary of Ramyavijaya. ठा० २, ५; जं० ४० ५, ११५; ( ६ ) आहमा देवलेक्षनु ऐ नाभनु ऐक विभान, डे ज्यां देवतानी १८ सागरनी स्थिति छे. आठवें देवलोक का इस नाम का एक विमान, जहां के देवों की १८ सागर की आयु है. a heavenly mansion of the eighth Devaloka ( abode of gods) where the gods live for 18 Sāgaras ( a vast measure of time ). सम० १८; ( १० ) रुचकवर पर्वतनु सातभुं दृष्ट. रुचकवर पर्वत का सातवाँ कूट. seventh summit of Ruchakavara mountain. ठा० ८, १; ( ११ ) ऐ नाभनो ऐक वेदांधर देवता. इस नाम का बेलधर देव. a Velandhara god of that name. भग० ३, ७; ( १२ ) द्विप-कुमारना धन्दना नीज लेक्षपत्तनु नाम. द्वीपकुमार के इन्द्र के तीसरे लोकपाल का नाम. name of the third Lokapāla of

the Indra of Dvīpakumāra. भग० ३, ६; ( १३ ) उदधिकुमारना धन्द-प्रभंजनना चौथा लेक्षपत्तनु नाम. उदधि कुमार के इन्द्र-प्रभंजन के चौथे लोकपाल का नाम. name of the fourth Lokapāla of the Indra ( Prabhājana ) of Uddhī-kumāra. ठा० ४, १; ( १४ ) वनस्पतिविशेष. वनस्पति विशेष. a species of vegetation. ओव० ( १५ ) वायुकुमारज्ञतिना धन्दनु नाम. वायुकुमारज्ञति के इन्द्र का नाम. the name of the Indra ( lord ) of the class of gods known as Vāyukumāra. भग० ३, ८;—धातृ. पु० ( -धातु ) धातुविशेष; सुरभे. धातु विशेष; सुरमा. Sulphuret of antimony etc. used as collyrium. नंदी० ३१;—रिष्ट. पु० ( -रिष्ट ) वायुकुमारनो ऐथा धन्द. वायुकुमार का चौथा इन्द्र. the fourth Indra of Vāyukumār. भग० ३, ८;—समुग. पु० ( -समुद्रक ) अंजननो डायलो. अंजन का डिब्बा. a box for keeping collyrium. जीवा० ३, ४;—सलागा. ली० ( -शलाका ) आंजन्यानी शणी. आँजने का सलाह. a stick for applying collyrium to the eye. “ तिलगकरणिमंजणसलागं ” सूय० १, ४, २, १०;

**अंजणर्ह.** ली० ( अञ्जनकी ) ऐ नाभनी ऐक लता।—वेत. इस नाम की एक वेत. A kind of a creeper. पञ्च० १०;

**अंजणकोसिया.** ली० ( अञ्जनकोशिका ) वनस्पति विशेष. वनस्पति विशेष. A species of vegetation. पञ्च० १५, राय० ६३; जीवा० ३, ४;

**अंजणग.** पु० ( अञ्जनक ) अञ्जन रत्नभूय पर्वतविशेष; नंदीश्वर द्वीपमां आवेद अंजन-नगिरि पर्वत. नंदीश्वर-द्वीप का अंजनगिरि-पर्वत; रत्नमयपर्वतविशेष. A mountain named Añjanagiri situated in Nandisvara island. ज० प० २, २३; ठ० ४, १; प्रव० १४८७;

**अंजणगिरि.** पु० ( अञ्जनगिरि ) काण्डा रंगनो पर्वतविशेष; अंजनगिरि पर्वत. काले रंग का पर्वतविशेष; अंजनगिरि. A mountain of black colour named Añjanagiri. नाया० ८; १६; प्रव० १४८७; ( २ ) भेदना भद्रसाल वननु चोयु ५८. मेरु के भद्रसाल वन का चौथा कूट. fourth summit of Meru ( a mountain ) situated in Bhadrasāla forest. ठ० ८, १; ( ३ ) ते ५८नो अधिपति हेता. उक्त कूट का अधिपति देव. the presiding deity of that summit. ज० प० ४;

**अंजणओग.** पु० ( अञ्जनयोग ) सत्तावीशभी ३०। सत्तावीसवी. कला. The twenty-seventh art. ओव० ४०;

**अंजणपव्यय.** पु० ( अञ्जनपर्वत ) नंदीश्वर-द्वीपनो एक पर्वत, के ले ८४ हजार जेजन नो उच्चो, एकहजार जेजननो उडा, अने दशहजार जेजननो लाघो पहुणो। छे. नंदीश्वर-द्वीप का एक पर्वत, जो ८४ हजार योजन ऊंचा, एक हजार योजन ऊँडा और दश हजार योजन लंबा चौड़ा है. A mountain of the island Nandisvara which is eighty-four thousand Yojanas high, one thousand Yojanas under-ground and ten thousand Yojanas in length, and width. जीवा० ३, ४; • • •

**अंजणपुलक.** न० (\*अञ्जनपुलक.) रत्ननी.

एक जात. रत्न की एक जाति. A kind of jewel. कप्य० २, २६;

**अंजणपुलग.** पु० (\* अञ्जनपुलक) रत्न विशेष. रत्नविशेष. A kind of precious stone. नाया० १;

**अंजणपुलाश्र.** पु० (\* अञ्जनपुलाक) अंजनपुलाकड़ि; भरकड़ितो ११भ० विलाश. अञ्जनपुलाक काशड; खरकाएड का ११ वाँ. हिस्सा. The eleventh division of the Kharakānda. जीवा० ३, १;

**अंजणः** ली० ( अञ्जना ) जंभूवृक्षना नैदत्य. भुज्यानी एक वात्तीनु नाम. जंभूवृक्ष के नैमूल्य कोण की एक वात्ती का नाम. The name of a well in the south-west of Jambū Vṛikṣa. (a sacred tree ). जीवा० ३, ४; ( २ ) चोथी द्वरकनु नाम. चौथे नरक का नाम; name of the fourth hell. जीवा० ३, १; ठ० ७, १; प्रव० १०८५;

**अंजणिया.** ली० ( अञ्जनिका ) अंजन राखने की डिब्बी. A box for keeping collyrium. सूय० १, ४; २, ५;

**अंजलि.** पु० स्त्री० ( अञ्जलि ) खाखो; करसंपुट; जेडेल्स ऐ.हाथ. जोडे हुए दो हाथ; करसंपुट. The cavity formed by hollowing the palms of two folded hands. नाया० १; ५; १६; भग० २, १; ७, ६; १५, १; जीवा० ३, ४; ओव० ११; २०; राय० २८; दस०६; २५, १७; सम० १२; अगुजो० ३६; ओव० ७६७; वव० १, ३७; कप्य० १, ५; ( २ ) ऐ.हाथ जेडी भस्तडे. तथाड़ा ते; दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर लगाना. touching the head. with folded hands. दस० ६, ३, १३;

जं० प० ३, ४२; ५, ११२; ११५;—उड़. पु० (-पुट) ऐ हथने संपुट. दोनों हाथों का संपुट. cavity formed by folding two hands. नाया० १;—कम्भ. न० (-कम्भन्) ऐ हाथ लेडा ते. दोनों हाथों का जोड़ना. the act of folding two hands. भग० १५, १;—पगह. पु० (-पगह) ऐ हाथ लेडी नमस्कार करवा ते. दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना. bowing with hands folded. भग० ६, ३३; १४, ३; सम० १२;

अंजु. त्रि० ( अंजु ) सरल; न मायप्रयंथ रेति. सरल; मायप्रयंच रहित. Straight-forward. “अंजुधमं जहातच्चं जिणाणं तं सुशेह मे” सूय० १, ६, १; आया० १, ४, ३, १३४; ( २ ) संयभी; संबधारी. संयमी. self-controlled. आया० १, ६, १, ७; सूय० १, १, २, २१; ( ३ ) निःप॒ चाक्षेषो. निराप; शुद्ध. innocent. सूय० २, १, ८६;

अंजुया. स्त्री० ( अंजुका ) सतरभा तीर्थकर्ता मुख्य साखीनुं नाम. मत्रहवें तार्थकर की मुख्य साध्या का नाम. The name of the chief female ascetic disciple of the 17th Tirthankara. सम०

अंजू. स्त्री० ( अंजू ) शकेन्द्री येथी अग्रभ-  
लिंगीनुं न.भ. शकेन्द्र की चाँथी पटरानी का नाम. The name of the fourth principal queen of Śakrēndra. भग० १०, ५; ( २ ) धनदेव-सार्थवाहनी पुत्री. इनेनुं वर्जुन ‘विप्रक्षत्र’ ना दधमा अध्ययनभां छे. धनदेव-श्रेष्ठी की पुत्री का नाम, जिसका वर्णन विप्रक्षत्र के दशवें अध्याय में है. name of the daughter of Dhanadeva,

a merchant mentioned in the tenth chapter of Vipāka Sūtra. विवा० १; टा० १०; नाया० ४० ६;

अंड. पु० ( अण्ड ) ई॒; ई॒.क्षु॑-क्षी॒ वोरे-  
ना ई॒. अंडा. An egg. उत्त० ३३, ६;  
राय० ४६; ६३; सूय० २, ३, २२; ठा० १०,  
१; आया० १, ७, ६, २२२; ( २ ) विपाक-  
सूत्रनुं अंडनाभनुं ग्रीजनुं अध्ययन. विपाक-  
सूत्र का अगडनामक तीसरा अध्याय. the third chapter of Vipāka Sūtra named Aṅḍa. विवा० ३; ( ३ ) भे॒रना  
ई॒ना ई॒त्तात्त्वाणु ज्ञातासूत्रतुं त्रीज्ञुं  
अध्ययन. ज्ञातासूत्र का मोर के अंडे के दृष्टान्त वाला तीसरा अध्याय. the third chapter of Jñātā Sūtra where the illustration of a peacock's egg is given. नाया० ३; सम० १६; ( ४ )  
उत्तर भरतभानो अ॒क देश. उत्तर भरतक्षेत्र का एक देश. a country of northern Bharata. जं० प०—उड़. न० (-पुट) ई॒नुं कृ॒ट्टुं. अंडे के बाहर का छिलका. egg-shell. दसा० ६, १६;—कड़. त्रि० (-कृन) ई॒.भांथी थपेद; ई॒.अ॒ ई॒रेत. अंडे में से उत्पन्न; अंडाद्वारा किया हुआ. produced from an egg. “माहणा समणा एगे आह अंडेकडे जगे” सूय० १,  
१, ३, ८;—सुहुम. न० (-सूचम) अ॒ण्णा  
ई॒; भापी, कृ॒ठी, गरेणी, क्रांक्षिंडा वोरेना  
ई॒. ममसी चाँथी आदि छोटे २ जंतुओं के अंडे. an egg of a small insect.  
“अंडसुहुमं च अहम्” दस० ८, १५;  
कप्य० ६, ४४;

अंडश्च. पु० न० ( अण्डक ) ई॒. अंडा. An egg. भग० ३, ६; प्रव० ८२१;  
अंडक. पु० न० ( अण्डक ) ई॒. अंडा. An egg. परह० १, २; .

**अंडगा.** पु० न० ( अरडक ) ई॒. अरडा. An egg. ओव० १६; भग० ३, १;  
**अंडय.** त्रि० ( अण्डज ) ई॒.भांथी उत्पन्न थयेद् आण्ही-पक्षी सर्प वंगरे. अण्डज प्राणी. ( Creatures ) born of eggs; oviparous creatures. नाया० १; ३; दस० ४; सूय० १, ७, १; आया० १, १, ६, ८८; भग० ७, ५; ठा० ३, १; ७, १; जावा० ३, २; प्रब० १२५०; ( २ ) डैशीटाभांथी उत्पन्न थतो तांतथें. कोसा ( कोया ) का तार. silk thread of the cocoon. अण्गुजो० ३७;—गाहि० पु० ( -ग्राहिन ) ई॒.भांथी उत्पन्न थयेद् प्राणिने पकड़नार. पक्षियों को पकड़ने वाला. one who catches birds. नाया० २;—वाणिय. पु० न० ( -वाणिज्य ) ई॒.नो० व्याप०. अंडे का व्यापार. trade in eggs. विवा० ३;—वाणियअ० त्रि० ( -वाणिज्यक ) ई॒.नो० व्यापारी. अंडे का व्यापारी. a dealer in eggs. विवा० ३;  
**अंडयमेस्त.** त्रि० ( अण्डकमात्र ) ई॒.लेव॑. अंडे के बराबर. Of the size of an egg. पंचा० १६, २१;  
**अंडु.** न० ( अन्दू ) ई॒.क्ला॒; हृ॒.थ॒.दी॑ लोहे अथवा लकड़ी की हथकड़ी. An iron or wooden hand-cuff. ओव० ३८;  
**अंत.** न० ( आन्त्र ) आंतर॒। आँत. The entrails; the bowels. “ दो अंता पंच बामा परण्यता तंजहा थूलंते तण्यंते य ” तंडु० सूय० २, १, ४६;—गय. त्रि० ( -गत ) अंत-रूपां रहेदु०. आँतों में रहा हुआ. existing in the bowels. सूय० २, १, ४६;  
**अंत.** त्रि० ( आन्त-आन्ते भोजनान्तेऽवशिष्टम-न्तम् ) भातां भातां वधेदु०. खाते २ बचा हुआ. Remnants of food taken. “ अंताहोरं पताहोरं ” भग० ६, २२;

नाया० ५; १६;—आइ० त्रि० ( -अदिश-अन्ते भवमान्तं जघन्यं बह्नचणकादि तदसुं भोक्तुं शीखमस्येत्यान्तादी ) तुव॒ आहार लेनार; अंतःह॒.री॑ ( भुनि ). तुच्छ आहार लेने वाला; अंताहारी ( भुनि ). ( an ascetic ) eating inferior kind of food. पंचा० १८, २३;—आहार. पु० ( -आहार ) भातां भाकी रहेलो ( शेष ) ह॑.य ते आहार. खाते २ भाकी बचा हुआ आहार. remnants of food taken. ठा० ५, १; ( २ ) ह॒.दु॑ ध॒.न्य॑; थथा॒ व॒.व॒ व॒.व॒. इलका अनाना; चणा आदिक. inferior kind of corn. e.g. gram etc. ओव० ४०;  
**अंत.** अ० ( अन्तर् ) अन्द॒र; भांडि॑. अन्दर; भीतर. In; inside. भग० १४, ६; ( २ ) भ॒.ध॑; व॒.स्य॑. मध्य; बीच में. in the middle. भग० ३, ४;—मुहूर्त. न० ( -मुहूर्त ) भु॒.र्तथी॑ अन्दरेना समय; भु॒.र्तथी॑ ओंठी॑ काल. मुहूर्त के अन्दर-भीतर का काल; मुहूर्त से कम समय. a space of time shorter than a Muhūrta ( a measure of time ). उत्त० ३३, ३१; ३४, ६०;  
**अंत.** त्रि० ( अन्त्य ) अन्तिम; छेद्यु॑. आखिरी; अन्तिम. Last. विश० द॒;  
**अंत.** पु० ( अन्त ) प॒.त॑; छेद॑. पर्यन्त; सिरा. Final limit. भग० १, १; ६; २, १; ३, ३; ५; नाया० १; क० गं० २, ६; १३; ( २ ) लेद॑; प्रक्तर. भेद; प्रकार. sort; variety. “ चाउरंत ” चत्वारोऽन्ता गतिभेदा यत्र स संगारश्चाउरंतः ” सूय० २, ५, २३; ( ३ ) र॒.ग॒.ष॑. प्रगद्वेष. passion and hatred. “ दोह॑वि अंतेहि अहिस्समायेहि ” आया० १, ३, ३, ११६; सूय० २, १, ४६; ( ४ ) भू॒.भिक्षाग; प्रदेश. भू॒.मिभाग; प्रान्त. a land; a region. “ एगंतमंतं अवकर्मति ” भग० २, १; ३, ३;

( ५ ) सभीप; पासे. नजदीक. near. नाया० न; ( ६ ) निर्णय; चुकावे. निर्णय; फैसला. decision. “ तिथिहे अंते पञ्चसे संजहा-ओगंते देवंते समयंते ” ठा० ३, ४; ( ७ ) विनाश; लेख. भंग; विनाश. destruction. नाया० १६; सम० १; ( ८ ) रोग. बीमारी. disease. विशे० ३४५४; —आहार. पुं० (—आहार) आतां आडी रहेवा ( शेष ) हेष ते आहार. खाते २ बाकी बचा हुआ आहार. remnants of food taken. ठा० ५, १; —कड. त्रि० (—कृत ) नेहे संसारने अंत कर्ते हेष ते. संसार का अंतकरने वाला. one who has attained final liberation. आया० २, १५, १; सूर्य० १, १२, १५; भग० ३, १; —कर्मम. न० (—कर्मद ) लुगधारी डोऱ; वस्त्रनी डिनारी. वस्त्र का कोर. the border of a garment. जीवा० ३, ४; राय० १८६; —कर. त्रि० (—कर) संसारने अंतकरनार. संसार का अंत करने वाला. one who is to attain final liberation. भग० १, ४; ४, ४; —काल. पुं० (—काल) भरणुकाण; प्रलयकाण. मृत्युसमय; प्रलयकाल. the time of death or dissolution. परह० १, ३; —किरिया. बी० (—क्रिया) संसार या कर्मने अंत उत्तरानी हिया-अतुष्टान. संसार अथवा कर्म के नाश करने की क्रिया. process of securing final liberation. पञ्च० २०; ठा० ४, १; सम० ६; ( २ ) सकलकर्मक्षयरूप भेद्य. सकल कर्मों का क्षयरूप मोक्ष. salvation resulting from destruction of all Karmas i. e. actions. भग० १, ८, ३; पंचा० १६, १६; —कुल. न० (—कुल) उलटु कुल; हीनकुल; नीचकुल. a low family. कण्ठ० २, १६; दसा०

१०, १०; —क्षरिया. बी० (—क्रिया) अठारविप्रभानी नवमी लिपि. अठारह लिपियों में की नवीं लिपि. the ninth of the eighteen scripts. पञ्च० १; ( २ ) ६३ भी कणी. ६३ वीं कला. sixty-third art. ओब० राय० ४०; —गमण. न० (—गमन) छेते घर्तुं ते. अन्त तक जाना. act of going to the end. नाया० १; —चरञ्च-य. पुं० (—चरक) गृहस्थे लोजन कुर्मा पठी अवशेष रखु हेष तेनी गवेषणा। करनार अलिग्रहधारी साधु. गृहस्थ के भोजन करने के पश्चात बचे हुए भोजन की जाँच-पढ़ताल ( गवेषणा ) करने वाला अभिग्रहधारी साधु. an ascetic who has made up his mind to beg food after satisfying himself that the householder has finished his meal. ठा० ५, १; परह० २, १; —चारि. पुं० (—चारिन्) अंत आहार-तुष्टि आहार लेवाने अलिग्रह धरनार साधु. तुच्छ आहार लेने का अभिग्रह धारण करने वाला साधु. a Sādhu who has vowed to take inferior kind of food. ठा० ४, ४; १०; —जीवि. पुं० (—जीविन्) गृहस्थे आतां शेष रहेव आहार बोरी तेना उपर शुवन यत्वानार साधु. गृहस्थ का अवशिष्ट आहार लेकर अपना उदर पालन करने वाला साधु. a Sādhu who lives on remnants of food taken by householders. ठा० ५, १; —दुग. न० (—द्विक) सयोगीकैवली तथा अयोगी डैवली ये अंतना ऐ गुणवाणा। सयोगी केवली और अयोगी केवली ये अंत के दो गुणस्थान. the last two Guṇasthānas ( stages of spiritual progress ) viz. those of Sayogi-Kevali

( i.e. a would-be omniscient with vibratory activity of the soul not quite gone ) and Ayogī Kevalī ( i.e. one free from all such vibratory activity of the soul ). क० य० ४, ५; —पाल. पुं० (—पाल) देशनी सीमा के सरहदें रक्षण करनार पुरुष. देश की सरहद—सीमा की रक्षा करने वाला. one who guards the boundaries of a country. ज० प०

अंतर्ग. पुं० ( अन्तक ) काम्भिको छेड़ो. धनुष का आखिरी सिरा. The end of a bow. पिं० नि० ६७; उत्त० ३२, १६; अंतकिरिया. स्त्री० ( अन्तक्रिया ) पञ्चवयुना पीसभा पद्मुं नाम, के जेमां अंतक्रियानो अधिकार छे. पञ्चवणा के बीचवें पद का नाम, जिसमें अन्तक्रिया का अधिकार है. The twentieth chapter of Pannavaṇā Sūtra treating of 'Antakriyā.' पञ्च० १; भग० १, २;

अंतग. पुं० ( अन्तक ) छेड़ो; अंत. आर्खिर; अन्त. End. “तस्संतर्गं गच्छइ वीवराणो” उत्त० ३२, १६; ( २ ) त्रि० विनाशकारक; अंत करने वाला. ( one ) who destroys or ends. सूय० १, ६, ७; ( ३ ) दुष्परित्यज; भुश्केविथी छेड़ी शकाय तेवुं. कठिनाई से छूट सकने वाला. difficult to be avoided or given up. “ विद्वाण् अंतर्गं सोयं शिरवेक्षो परित्यज ” सूय० १, ६, ७;

अंतगड. त्रि० ( अन्तकृत ) जेष्ठे संसारनो अने ज्ञ-भरणहुनो। अंत क्यो। ऐवा तिर्थ-करादि. संसार का और जन्ममरण का अंत करने वाले तीर्थकरादि. One ( a Tirthāṅkara etc. ) who has freed himself from birth and death.

कृप० ५, १२३; नाया० ५; अयुजो० १२७; —दसा. स्त्री० ( -दसा ) संसारनो। अंत करनार भुमुक्षु भहात्मामोर्मी दशा-अवस्थानु जेमां वर्णुन करवामां आव्यु छे ऐतुं “ अंत-गडदशा ” नामनुं आहमुं अंगसूत्र; जेमां आठ वर्गमां ६० अध्ययननो। सभावेश करवामां आ०यो। छे. संसार का अंत करने वाले मुमुक्षु महात्माओं की दशा का जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा “ अंतगडदशा ” नाम का आठबाँ अंगसूत्र, जिसके आठवर्गों में ६० अध्ययन हैं. the eighth Āṅga Sūtra named Antagada Daśā, dealing with the ten conditions or states of persons desirous of emancipating themselves from the cycle of worldly existence; eighth Āṅga Sūtra named Antagada Daśā in which is given the description of the state of Sādhus who have attained to final liberation. It contains ninety nine chapters. ठा० १०, १; सम० १; ८; नंदी० ४४; ५२; अंत० ३, १; अयुजो० ४२; —भूमि. स्त्री० ( -भूमि ) संसारनो। अंतकरनार निर्वाण्युगामि भहापुरेनी भूमि-निर्वाण्युसभ्य. निर्वाणभूमि-संसार का अंतकरने वाले महापुरुषों का निर्वाणसमय. the time of final liberation of saints. ज० प० २, ३१; नाया० ८; कृप० ७, २२६; अंतगय. न० ( अन्तगत ) आनुगामिक अवधि शाननो। ऐक भेद. आनुगामिक अवधिशान का एक भेद. A variety of Ānugāmika Avadhi-jñāna, i. e. visual knowledge which accompanies the soul. “ से किं तं अंतगयं, अंतगयं

तिविहं परणातं तंजहा-पुरश्चो अंतगयं, मगग्रो  
अंतगयं, पासश्चो अंतगयं ” नंदी०

**अंतद्वाण.** न० ( अन्तर्धान ) जै॒थ॒ थ॒र्म॑ ज॒तुं;  
अ॒दृश्य॑ थ॒तुं. अदृश्य होना; गुप्त हो जाना.  
Act of disappearing. पि० नि०  
५००;

**अंतद्वाणिया.** स्त्री० ( अन्तर्धानिका ) अ॒दृश्य॑  
थ॒वानी॑ विद्या. अदृश्य होने का विद्या. The  
art of making oneself invisible.  
सूय० २, २, ३०;

**अंतद्वाणी.** स्त्री० ( अन्तर्धानिका ) जु॒यो।  
उप॒देश॑ श॒प॒द. देखो ऊपर का शब्द. Vide  
”अंतद्वाणिया.” सूय० २, २, ३०;

**अंतमिल्ल.** त्रि० ( अन्तिम ) अंतनुं; छेष्टनुं.  
आखिरी; किनारे का. Last; final. “ तम्हा  
दोरण्हंपि अंतमिल्लाण्हं ” क० प० १, ३८;  
अंतमुहु. न० ( अन्तमुहूर्त ) अन्तमुहूर्तनुं  
दुँडुं नाम. अन्तमुहूर्त का छोटा नाम. An  
abbreviation of Antarmuhūrta ( a measure of time ). क० गं०  
१, १६; ५, ५६;

**अंतमुहूर्त.** न० ( अन्तमुहूर्त ) मुहूर्त-ऐ धडी-  
नी अंदरने। ५७। दो घड़ी के बीच का काल,  
जिसे अंतमुहूर्त कहते हैं. A period of  
time falling short of a Muhūrta ( a measure of time ). क० गं० ५,  
६२; प्रव० १०१४;

**अंतर.** पु० ( अन्तराय ) विधि. विघ्न. An  
obstacle. “ अंतरमकार वा निहारे संक-  
मरणं वा ” ओघ० नि० भा० २६७;

**अंतर.** त्रि० ( आन्तर ) अंदरनुं; आंतरिक;  
अंतःउरु संभूषि. भीतर का; अंतःकरण  
सम्बन्धी. Internal. सु० च० १, १; उत्त०  
२७, ११;

**अंतर.** न० ( अन्तर ) आंतर॑; व्यवधान; ऐ  
वस्तुनुं देश आश्री परस्पर छेदुं. स्थान अथवा

क्षेत्र की अपेक्षा से दो वस्तुओं के बीच का  
अंतर-व्यवधान. Interval of space.  
ज० प० ३, ६६; राय० २६३; भग०  
२, १०; २५, ४; ७; ( २ ) ऐ वस्तुवर्त्येनुं  
अथवा एकवस्तुनी ऐ परिस्थिति वर्त्येनुं काणा।  
आश्री आंतर॑-छेदुं, जेम ऋषलहेव अने  
भण्डीरस्वाभीनुं अंतर. समय की अपेक्षा  
से दो वस्तुओं के बीच का अंतर—जैसे ऋषभदेव  
और महावीरस्वामी के बीच का अंतर. interval  
of time. नंदी० ५६; अणुज०  
८०; उत्त० ३६, १४; पि० नि० २७१; क०  
प० १, २१; ( ३ ) अंतराल; भै॒ध॑; प॒न्येना।  
लाग. बीच का हिस्सा; मध्यभाग. intervening  
portion. उत्त० ७, ४; पञ्च०  
२; राय० ३२; भग० २, १; २, ६; ८, ७;  
१०, ३; १५, १; १८, ७; २०, ६; नाया० १;  
१८; ( ४ ) भेद; विशेषता; गुण्याश्रीतदृष्टवत्.  
भेद; गुणसम्बन्धी भेद. difference. भम०  
२, ३; ( ५ ) वर्भत; अवसर. अवसर; समय.  
time. आया० १, २, १, ६५; परह० १, ३;  
नाया० ६; ( ६ ) भर्म; अभ॑. छिद्र; भर्म.  
fault. नाया० ८; ( ७ ) विधि; आउभिल.  
विघ्न. obstacle. भग० ८, २; ओघ० नि०  
भा० २६७; नाया० १; २; ( ८ ) विना; वग॒र.  
विना; सिवाय. without. भग० ५, ७; ८,  
३; १५, १;—**आद्वा.** स्त्री० ( -आद्वा ) आं-  
तराने। ५७। बीच में का समय. intervening  
time. आया० १, ८, ८, ८, ६;  
—**आण्या.** पु० ( -आत्मन् ) शरीर अंतर्गत  
अ॒त्मा. शरीरान्तर्गत आत्मा. embodied  
soul. भग० २, २;—**उग्रग.** पु० न०  
( -उदक ) पाणीनी अन्दर रहेल दीप. जल के  
अंदर का द्वीप. an island. ज० प० ३, ६६;  
—**कंद.** पु० ( -कन्द ) पाणीमां उत्पन्न  
थती ऐक जलनी वनस्पृति. जल में उत्पन्न  
होने वाली एक जाति की वनस्पति. an aqua-

tic plant. पञ्च० १;—करण. न० (—करण) व्याप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण अने अनिवृत्तिकरण एवं त्रयमांनुगमेते अंडे; सम्यक्त्वना करणरूप अध्यवसायविशेष. यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों में से कोई एक; सम्यक्त्व का कारणरूप अध्यवसायविशेष. any one of the three conditions of spiritual thought, activity known as Yathāpravṛittikaraṇa, Apūrvakaraṇa and Anivṛittikaraṇa, these conditions being the cause of right knowledge ( Samyaktva ). क० प० २, ४; —गिह. न० (—गृह) ऐ धरनी वर्जनेनुं अंतर. दो घरों के बीच का अंतर. distance between two houses. वेय० ३, १६; —जाय. न० (—जात) भाषाना ऐ पुद्गले। अंतरादे समश्रेष्ठमां रडीनेज भाषापरिणु. भने प. मे छे ते भाषापरिणुपुद्गल. भाषारूप परिणत वे पुद्गल जो अंतराल में समश्रेष्ठी में रहकर भाषारूप से परिणमते हैं. the molecules of speech coming out at measured intervals giving rise to speech. आया० नि० टी० २, ४, १, २१३;—णई. स्त्री० (—नदी) भग्नानीनी अपेक्षाएँ नानी नदी; ऐनो. १२५ ज्ञेननो। प४ छे एवी भार अंतर नदीएँ सीता अने सीतोदाने उभयकाठे छे. महानदी की अपेक्षा से छोटी नदी, जिसका पाट १२५ योजन का है, ऐसी ज्वारह नदियां सीता और सीतोदा नदियों के छोनों किनारों पर हैं. any of the twelve small rivers, viz. on each bank of the two great rivers Sitā and Sitodā. “ जब्मंदूपुरस्थिमेण सीयाए महानदीए उभयकूले क्षं अंतरूण्डैश्चो परणा-शास्त्रो तंजहा—गाहावर्द ददवर्द पंकवर्द्द तत्त्-

जला मत्तजला उम्मतजला । जब्मंदूपुरस्थिमेण सीयाए महानदीए उभयकूले क्षं अंतरूण्डैश्चो परणात्ता तंजहा—सीरोदा सीह-सोया अंतोवंहिणी उम्ममालिणी केन-मालिणी गंभीरमालिणी”ठा० ६, १; ज० १०५, १२०;—तुङ्ग. व्रि० (—तुङ्ग) अनुभाग अंधना अंडे क्षानथी भाजा रथानवच्येना आंतरा नेट्वुं. अनुभागबंध के एक स्थान से दूसरे स्थान बीच के अन्तर के समान. equal to the interval existing between one stage of Anubhāga Bandha ( intensity of Karmie bondage ) and the next stage. क० प० १, ३२;—पडिविविय. व्रि० (—प्रतिविवित) अंदर पुष्टायावाणुं. भीतर प्रतिच्छाया वाला. reflecting within. सु० च० २, १०५;—पङ्गी. स्त्री० (—पङ्गी) भूतक्षेत्र-भूम्यनगरथी अढीगाउ उपरनु गाम्बुं. मूलक्षेत्र-मूल्यनगर से अदाई कोस की दूरी पर का ग्राम. a suburb about five miles distant from a city. प्रब० ६२८;—भासिङ्ग. पु० (—भाषावत) गुर्वादिक ऐक्षता हेय तेनी वर्ज्ये ऐली उठनार शिष्य. गुरुजनों के बीच में बोल उठने वाला शिष्य. a disciple interrupting a preceptor in his speech. उत्त० २७, ११; अंतरंजिया. स्त्री० ( अन्तरञ्जिका ) ऐ नाभनी अंडे नगरी, डे० न्यां त्रैराशिक निन्हवनी उत्पत्ति थ०। इस नामकी एक नगरी, जहां त्रैराशिक निन्हव की उत्पत्ति हुई. Name of a city where arose the Trairāsika Ninhava ( a heretic ). विश० २४५१; अंतरगय. व्रि० ( अन्तर्गत ) अंतर्लाख पामेवुं; अंदर आवीणयेलुं. अंतःप्रविष्ट; भीतर गया हुआ; अंतर्भावप्राप्त. Involved; included; remaining inside. परण० २, ३;

**अंतरदीवि.** पुं० (अन्तर्दीप) युक्षिभवंत अने शिखरी पर्वती लवण्यसमुद्र तरड़े नीडेल-डाढ़ा उपरना। द्वीप; ५६ अंतरदीप. चुल हिमवंत और शिखरीपर्वत के लवण्यसमुद्र की ओर निकले हुए हिस्से पर के द्वीप; ५६ अंतर्दीप. A group of the fifty-six islands on that part of Chulla-Himavanta and Šikhari mount, which projects into the Lavaṇya ocean. भग० ६, ३; १०, १; जीवा० १; प्रव० ६१;

**अंतरदीविग.** पुं० स्त्री० ( अन्तर्दीपिग ) ० अंतर दीपमां रहेनार; युक्षिभवंत अने शिखरी पर्वती लवण्यसमुद्रमां पड़ती डाढ़ाभानां द्वीपा उपर रहेनार भनुध्य; ५६ अंतरदीपिना भनुध्य. अंतर्दीपों में रहने वाला; चुल हिमवंत और शिखरीपर्वत के लवण्यसमुद्र में आये हुए हिस्से के द्वीपों में रहने वाला मनुष्य. A person residing in any of the islands named Antara-Dvīpas, fifty-six in number. पञ्च० १; उत्त० ३६, १६४;

**अंतरदीविया.** स्त्री० ( अन्तरदीपिका ) ७४५न अंतरदीपमां उत्पन्न थथेदी स्त्री. छुप्पन अंतर्दीपों में उत्पन्न हुई स्त्री. A woman born in any of the fifty-six Antara-Dvīpas. ग्र० ३, १;

**अंतरद्धा.** स्त्री० (\*अन्तर्दीनम्) अंतर्धान थकुं; भ्रंश-नाश थयो। ते. अन्तर्दीन होना; नाश होना. Disappearance; vanishing; destruction. “सह अंतरद्धं च” पंचा० १, २०; उवा० १, ५०;

**अंतरभाव.** पुं० ( अन्तरभाव ) परभार्थ. परमार्थ. Benevolence; charity. पंचा० १८, २४;

**अंतरभूय.** त्रिं० ( अन्तर्भूत ) अंतर्भूत थथेद;

भीजाभां भणी गथेद. दूसरे में मिलाहुआ; जो दूसरे में अन्तर्भूत हो गया हो वह. Amalgamated; included. विशे० १६; अंतरा. अ० ( अन्तरा ) भृथे; वन्ये; अंदर. मध्य में; अन्दर. Inside; between. भग० ३, ६; १५, १; सूय० १, २, १, ३१; १, ८, १५; वेय० १, १२; ओघ० निं० ११२; दस० ८, ४७; कप्य० २, ३०; पञ्च० १६; नव्या० १५;—आवण. न० (-आपण) अन्दरनुं हाट. भीतर का बाजार. a market or a shop inside a place. नाया० ११; विवा० १;—दोमासिय. त्रिं० (-द्विमासिक) ऐ भासनी अंदरनुं. दो मास के अंदर का. of less than two months' duration. निसी० २०, १७;—शह. पुं० (-पथ) ज्यांज्युं छे अने ज्यांधी ज्युं छे ते ऐ वन्ये. नो भार्ग. जहां जाना है और जहां से जाना है उन दोनों के बीच का मार्ग. the path that lies between the place of starting and that of destination. भग० ३, १;—मंथा. पुं० (-मन्थ) डेवल-समुद्रधातुक्षियामां अंथानाकारनो समय; ५० स० नो पांचमे समय. केवल समुद्रधातुक्षिया में मंथनाकार का समय; केवल समुद्रधातु का पाँचवाँ समय. the fifth unit of time in Kevala-samudghātā. “अंतराम्ये-वद्माणो ” भग० ८, ६;—वास. पुं० (-वास) भुसाइरीभां वन्ये वन्ये भज्जला० ६२ भज्जल भेलधु० ५२वे। ते. यात्रा में बीच बीच मंजिल दर मंजिल ठहरते जाना. halting at intervals in a journey. राय० २१३;

**अंतराइय.** न० ( अन्तरायिक ) दान आदिभां विध्न नाभनार. अंतराय कर्म. दानादि में विज्ञ डालने वाला अन्तराय कर्म. (Obstructive) destiny which debars

inclination to charity etc. भग० ६,  
३; द, द; ११, १; २६, १; ठा० २, ४; ४,  
१; पञ्च० २२; ( २ ) अन्तरायकर्मजनकपाप.  
अन्तरायकर्मजनक पाप. sin producing  
obstructive destiny. पिं० नि० ३८७;  
भग० द, ६;—कर्म. न० ( कर्मन् )  
अन्तराय कर्म. देखो “अन्तराइय” शब्द.  
vide “अंतराइय.” भग. द, ६;

अंतराय. न० ( अन्तराय ) कर्मनो आदेभो  
भेद; दान, लाभ, लोग, उपभोग अने वीर्य—  
सामर्थ्यभाँ अंतराय-विधि नाभनार कर्म. कर्म  
का आठों भेद; दान, लाभ, भोग, उपभोग  
और वीर्य में विश्व डालने वाला कर्म. The  
eighth variety of Karma ( destiny ) which obstructs charity,  
profit, comfort, happiness and  
power. ओव० २०; भग० ६, ३; उत्त० ३३,  
३; दसा० ६, १५; क० गं० २, २०; ६, ३६;  
( २ ) विधि; नाभनार; अड्यथु. विन्न; अङ्गचन.  
an obstacle. क० गं० १, ५४; सम०  
३०; पिं० नि० ३७०; पञ्च० २३;—प्रभाव.  
यु० ( —प्रभाव ) अंतरायकर्मनो प्रभाव-  
सामर्थ्य. अन्तरायकर्म का सामर्थ्य. the  
power of obstructive destiny.  
प्रव० १२७४;

अंतराल. न० ( अन्तराल ) वर्त्येनो लाग.  
बीच का हिस्सा; मध्यभाग. Intermediate  
space; middle. भग० १४, १;  
नाया० १२; प्रव० १४६७;

अंतरावि. अ० ( अन्तरापि ) वर्त्येपथु; वथगाणे  
पथु. बीच में भी. Even in the middle;  
even in the midst. कप्प० ६, ६३;

अंतरिअ-य. त्रि० ( अन्तरित ) आन्तरे-छेटे  
खेलु. दूरी पर रहा हुआ. Situated at a  
distance. पिं० नि० १३४; ओष्ठ० नि०  
६१०; प्रद० १६८; मध्या० ८३; कप्प० ४, ८३;

अंतरिक्ष. न० ( अन्तरि(री)इ-अन्त: स्वर्ग  
पृथिव्योर्भवे ईचयते, अन्तः अक्षाणि वा यस्य)  
आकाशमां थता। प्रहवेद आदितुं शुभाशुभ इक्ष  
न्युष्यनार निभित्तशास्त्र। आकाश में होने  
वाले प्रहवेद आदि का शुभाशुभ फल जताने  
वाला निभित्तशास्त्र। A science interpreting  
the good or bad effects of heavenly phenomena in the  
planetary system etc. प्रव० १४२२;

अंतरिक्षिया. त्रि० ( अन्तरीया ) वेस्त्रायिप  
गण्युथी निक्षेप त्रीषु शाखा। वेस्त्रायिप  
गण्य से निकली हुई तीसरी शाखा। Name  
of the third branch of the Gāṇa ( order of monks ) called Vesa-  
vādiya, कप्प० द;

अंतरिया. त्रि० ( अन्तरिका-अन्तरालीति )  
आंतरुं; व्यवधान; छेदु. दूरी; व्यवधान; अन्तर-  
Distance; interval. स० प० १०;  
( २ ) ( अन्तस्य विच्छेदस्य कारणमन्तरिका ).  
विवक्षितवस्तुनी समाप्ति; विवक्षितवस्तु की  
समाप्ति. Conclusion of any particular thing: “आशंतरियाऽ वद्माणस्स”  
ज० प० २;

अंतरुच्छुय. न० ( अन्तरिक्षुक ) शेरडीनी  
वयली गाँ० सांठे-गाले की विचली गाठ. Joint  
of a sugarcane. आया० २, ७, २, १६०;

अंतरेण. अ० ( अन्तरेण ) विना; वग्र.  
विना; सिवाय. Without. उत्त० १, २५;

अंतलिक्षम्. न० ( अन्तरीइ-अंतर्वच्ये ईच्छा-  
दर्शनं यस्य तद्वारीचम् ) आकाश। आकाश.  
The sky. “अंतलिक्षस्ति यं दूसा गुरुमाल-  
स्तरियच्य य” दस० ५, ५३; ओव० ३१; ज०  
प० ३, ४५; नाया० १; द; आया० ३, १,  
६, ३७; सूय० १, ५, २, १७; उत्त० १२,  
२५; ओष्ठ० नि० २८; भग० २०, २; ( २ ) त्रि०  
( अन्तरीइमाक्षमां तद्वारीचम् ) आकाश-

शमां थतां उल्कापात्, गंधर्वनगर, अहवेध  
वगेरे. आकाश में होने वाला उल्कापात्,  
ग्रहवेध वगैरह. heavenly phenomena e. g. the fall of a meteor etc. ठा० ८, १; (३) आकाशमां  
थतां अहवेधादिना इवाइत् भतावनार  
निभितशाख; आकाशविद्या. आकाश में  
होने वाले ग्रहवेधादि का फलाफल बताने  
वाला निमित्तशाख; आकाशविद्या. the science which interprets the omens of heavenly phenomena; astrology. सूय० २, २, २६; उत्त० १५,  
७; सम० २८;—उदय. न० (—उदक)  
वरसाइनुं पाणी. वर्षा का पानी. rain-water. उवा० १, ४१;—जाय. त्रि० (—जात)  
भीनथी उच्चे रहेनार पदार्थ. पृथ्वी से ऊंचा  
रहने वाला पदार्थ. things existing in the sky. उवा० १, ४१; निमी० १२, ६;  
१६, २८;—पदिवरण. त्रि० (—प्रतिपञ्च)  
आकाशमां रहेनार. आकाश में रहने वाला.  
celestial; heavenly. उवा० २, ११३;

**अन्तवं.** त्रि० (अन्तवत्) अंत-छेकावाणुं. अन्त वाला;  
आखिर वाला. Having an end. सूय०  
१, १, ४, ६;

**अन्तसो.** अ० ( अन्तशस् ) छेवट; अंते. अन्त  
में. At the end; at last; finally.  
सूय० १, २, १, ६;

**अन्तालित्तय.** त्रि० ( अन्तलिस ) भाँडि लिपेद्धुं.  
भाँतर लिपा हुआ. Smeared from  
within. वेय० १, १६;

**अंति.** त्रि० ( अन्तिन्-अन्तो जात्यादिग्रन्थ-  
पर्यन्तोऽस्यास्तीत्यन्ता ) ज्ञात्य हीनी अपेक्षा ये  
उत्तमेतम्. जातिवगैरह का अपेक्षा से  
उत्तमोत्तम. Highest in point of caste  
etc. ठा० १०, १;

**अंति.** त्रि० ( अन्त्य ) छेद्धु; अन्तमां उत्पन्न

थथेल. अन्त में उत्पन्न हुआ. Last. विरो०  
४२२;

**अंतिश्च-**य. न० ( अन्तिक ) पासे; सभीप;  
नाम० पास; नज़दीक. Near; in the  
vicinity. “ अरण्येति अंतिष्ठ वासोदा ”  
आया० १, १, १, ४; नाया० ३; ५; ६;  
१०; १२; १६; भगा० १, ७; ६; २, १; ५;  
५, ४; ७, ६; १५, १; १८, १०; दस० ८,  
४६; ओप्र० १२; ३६; राय० ३६; ठा० ३,  
१; उत्त० १, ४; ७, १२; ब्रव० ७, १७;  
कप्प० २, २६; ४, ५६;

**अंतिम.** त्रि० ( अन्तिम ) छेद्धुं; छेवट्टुं;  
अरभ. चरम; आखिर का; अन्त का. Last;  
final. विं० निं० १५६; भग० १, ६;  
क० गं० ४, २६; ग्रव० ४३२; ठा० १, १;  
—ऊसास. पुं० (—उच्छूवास ) छेद्धो भास.  
आखिरी थास. last breath; final  
breath. ग्रव० १३६७;—राई. औ०  
(-रात्रि) रात्रिनो। छेडो-छेद्धो भाग. पिछली  
रात. the last part of the night.  
भग० १५, १; १६, ६;—लोभ. पुं० (-लोभ)  
यारयोऽकीभानी छेद्धी संज्वलनी योऽकीनो।  
लोभ; जेनी वधारेभां ववारे भंदर इवसनी  
स्थिति हेय ते लोभ. चारचौकड़ी में की  
अन्तिम संज्वलन की चौकड़ी का लोभ, जिसका  
ज्यादह से ज्यादह १५ दिन की स्थिति हो वह  
लोभ. the last variety of the four-  
fold greed known as “ संज्वलन ”  
having a maximum duration of  
fifteen days. क०प० ७, ४१;—सरीरित्य.  
पुं० (—शरीरिक ) अरभशरीरी. शूष;  
छेद्धुं शरीर धारणु उत्तराः; अर्थात् जेने तेज  
भवमां भोक्ष अंतु छे ते. चरमशरीरी जीव;  
अर्थात् आखिरी शरीर जाला जीव. one who  
is embodied for the last time,  
i.e. one who is to obtain salva-

tion in the very life. भग० १, ४;  
५, ४; ठा० १, १;

अंतिमङ्ग. त्रि० ( अन्तिम ) छेवटनुं. आखिरी.  
Last, final. “तम्हा कालो स्थ अंतिमङ्गाणं”  
क० प० १, ११;

अंते. अ० ( अन्तर ) भाँड़ि; अंदर. भीतर.  
In; inside. निसी० १७, २०;

अंतेहर. न० ( अन्तः पुर ) अंतःपुर; जनान-  
भानुं; राणीवास. अन्तःपुर; जनानखाना.

A harem. ओब० ३३; जं० प० ३, ७०;  
जीवा० ६, ४; राय० २०; ३६; १३०; २२२;  
२४२; ओघ० निं० भा० १८; २६; नाया० १;  
८; १४; भग० ६, ३३; १३, ६; १५, १;  
सु० च० २, ३६३; विवा० १; निर० १, १;  
कल्प० ४, द८; ५, १०६;—परियाल. पुं०  
( -परिकार ) अंतःपुरने। परिवार; दास दासी  
बोरे. अन्तःपुर के दासदासी बगैरह.  
male and female servants etc.  
of a harem. निर० १, १;

अंतेउरिया. ली० ( अन्तःपुरिका ) अंतःपुरमां  
रहेनारी ली; राजनी राणी. अन्तःपुर में  
रहने वाली ली; राजा की राणी. A woman  
living in a harem; a queen.  
नाया० १६;

अंतेपुरिय. त्रि० ( अन्तःपुरिक ) अंतःपुर संभं-  
धी. अंतःपुरसम्बन्धी. Relating to a  
harem. विवा० ४;

अंतेवासि. पुं० ( अन्तेवासिक ) शिष्य; चेले;  
पासेरहेनार-हजुरी-शिष्य. शिष्य; चेला;  
समीप रहने वाला. A disciple who  
always lives near his preceptor.  
जं० प० १, ३; सू० प० १; नाया० १; ६;  
१६; ओब० १४; भग० १, ६; २, १; ३,  
१; ५, ६; ७, १०; सम० १०००; उवा० १, ७६;  
७६; दसा० ४, ६९; वव० ०१०, १५;  
कल्प० ७, २१४; ( २ ) आदा। डिवनार;

सभीपवर्ती. आशानुयायी; समीपवर्ती. one  
who obeys. “तथ्य ये सावधानीए  
णवरीए पश्चिमस्स रशणो अंतेवासी जिवस-  
तुणामं राया होत्था” राय० २११;

अंतो. अ० ( अन्तर ) अंदर; भाँड़िलि डै२;  
भध्ये. अंदर; भीतर; मध्यमें. In the inter-  
rior; inside. “अंतोपाडिगगहांसि” आया०  
२, ६, १, १५२; “एवामेब मायी मायं कहु  
अंतो अंतोपियाहु” ठा० ८, १; ओब० ३३;  
पझ० १; २; पिं० निं० २३२; ठा० २, ४;  
वव० ६, ७; ६, १०; निसी० ८, १२; ६,  
२०; दसा० २, ८; ६, ६, १; ५, १; वेय०  
१, ७; २, १; ४, २८; भग० २, १; ८,  
८, १५, १; नाया० १; २; ३; ८; १६;  
सूंय० २, २, ६६; उत० ३२, १७;  
—कोडीकोडि. त्रि० ( कौटिकौटि ) डै३।  
डै३ ( करें ने करें गुणा करियेते ) सागरो-  
पमनी अंदरनुं. कोडाकोड सागरोपम के भीतर  
का. falling short of less than—one  
crore into one crore of Sigaro-  
pama१ ( a period of countless  
years ). क० प० ) ५, ५;—खरिया. ली०  
( -वेश्या ) गामनी अंदर रहेनार वेश्या-  
नायिक। गाँव के भीतर रहने वाली वेश्या. a  
prostitute living inside a town  
or village. “दोऽंष्टिपि रायगिहे णायरे अंतो-  
खरियाए उववज्जिहति ” भग० १५, १;  
—गय. दि० ( -गत ) अंतर्भूत; तेनी  
अंदर आविधेत. अन्तर्गत; भीतर-अंदर  
आया हुआ. included in. नाया० ६;  
—जल. न० ( -जल ) पाणीनी अंदर. पानी  
के भीतर. in the water; under  
water. नाया० ६;—णदंत. त्रि० ( -ण-  
दंत ) गण। भी उच्चार करते। गले से  
बोलता हुआ. uttering from the  
throat. दसा० ६, ३;—दुह. पुं० न०

(-वृष्ट) अंदर रही पीड़ा करनार शब्द. अंतरंग में पीढ़ा करने वाला शब्द. a pain rankling in the heart like a thorn. ठा० ४, ४; —धुम्म. पु० (-धूम) धरनी अंदर धुंधवाते धुमड़े. घर के भीतर भरा हुआ हुआ. dense smoke filled in a house. दसा० ६, ४; —सुहृत्त. न० (-सुहृत्त) सुहृत्त—ए धड़ीनी अंदरनो सभय. सुहृत्त—दो वडी के भीतर का समय. duration of time less than forty-eight minutes. भग० २, ५; ५, ८; ६, ३; १८, ८; २४, ६; जीवा० १; पक्ष० ४; क० प० १, ११; ३८; जं० प० २, ३१; अगुजो० १४१; —सुहृतिआ. त्रिं० (-मौहृतिक) जेनुं कृष्णपरिभाषु अंत-भृहृत्त-भृहृत्तनी अन्दरनु छे ते. अन्तर्मुहृत्त कालप्रमाण. lasting for a duration of time shorter than forty-eight minutes.“तत्थथं जे से आभोगनिवृत्तिए सेणं असंख्यजसमइए अंतोसुहृत्तिए” भग० २, १; —लित्तय. त्रिं० (-लिप्तक) अन्दर लिपेदुः. भीतर से लिगा हुआ. plastered with cow-dung etc. in the inside. वेय० १, १६; —चट्ट. त्रिं० (-चट्ट) अंदरना भागभाँ गोण; अंतरगोण. भीतरी भाग में गोल. round in the inside. “तेणं गारगा अंतोचट्टा बाहि चउरंसा” सूय० २, २, ३६; —वाहिणी. स्त्री० (-वाहिनी) द्रुभृविन्यनी पथिभसरहुद उपरनी भड़ावि-देहुनी वार अन्तर्नदीभाँनी एक. कुमुद विजय की पथिभसीमा पर की महाविदेह की बारह अंतर्नदियों में से एक नदी. one of the twelve subterranean rivers of Mahāvideha continent flowing on the western boundary of Kumudavijaya country. “कुमुद-

विजय अरजा रायहायी अंतोचाहिणी यहै” जं० प० ४, १०२; ठा० २, २; —सङ्ख. त्रिं० (-शब्द-अन्तर्मध्ये शब्दं यस्य) अंदरनु शब्द; भड़ार न देखातो ज्ञभम् जेने छे ते. जिसके भीतर शब्द हो वह. one having internal sorrow. ठा० ४, ४; ( २ ) जेषु अपराध की आलोचना नथी की ते; जेना भनभां अपराधरूप शब्द छे ते. जिसने अपराध करके आलोचना नहीं की वह; जिस-के मन में अपराधरूपी कांदा चुभता है. one who has bitings of conscience for faults. भग० ३, ५; —सङ्खमरण. न० (-शब्दमरण) अंतोशब्दमरण-भाया नियाण्डु वगेरे शब्द राखीने भरनु ते. माया आदि शब्द सहित मरना. death without expiation for deceit, desire for future sense-enjoyments etc. which rankle-in the heart. भग० २, १; सम० १७; निसी० ११, ४१; —हियय. न० (-हृदय) अन्तःकरण; भन. अन्तःकरण; मन. mind; heart. उत्त० २३, ४५; अंतोअंत. पु० ( अन्तोपान्त ) अंतभै॒॑ सहित. अन्त मध्य सहित. The middle as well as the end taken to-gether. तुमं चेव शं संतियं वरथं अंतोअंतेण पडिलोहिस्तामि” आया० २, ५, १, १४६; अंतोमजभावसाणिय. न० ( अन्तमध्यावसानिक ) अलिनयना. चार प्रकारभाँनो. छेल्लो। प्रकार. आभेनय के चार भेदों में से अन्तिम भेद. The last of the four kinds of dramatic gesticulation. राय० ६६; अंदुय. पु० ( अन्तुक-अन्यते बध्यतेऽनेनेति ) हाथीना पग वांधवानी सांकण. हाथी का पैर बाँधने की साँकल. A chain for tying the foot of an elephant. सूय० २, ३, ६३;

**अंगू.** शी० ( अंगू ) भग वांधवानी सांकण;  
घेड़ी, पांव बांधने की सांकण; बेढ़ी.

fetters. सूय० १, ५, १, २१;

**अंदोलन.** पुं० ( आन्दोलक ) हिंडोगे; हिंथेड़ा. झूला. A swing. जीवा० २, ४;

**अंदोलिय.** त्रि० ( आन्दोलित ) आन्दोलन  
आपेक्षु. हीच्यकनेक्षु. झुलाया हुआ; हिलाया

हुआ. Swung. ओव० २८;

**अंदोलण.** न० ( आन्दोलन ) हिंडोगाभाट.  
खाट का झूला. A swinging cot.  
सूय० १, ११;

**अंग्र.** पुं० ( अंग्र ) अंग्रेश; जगन्नाथनी तीये  
आवेल अंग्रेश; नेनी अंग्रेशभां गशुना

करेली छे. अंग्रेश; जगन्नाथ के दाचिणभाग  
का एक देश; जिसकी गणना म्लेन्जुदेशों में  
की गई है. Name of a country  
situated to the south of Jagannātha. पञ्ज० १; परह०  
१५६८; ( २ ) त्रि० अंग्रेशवासी भनुष्य.  
अंग्रेशवासी भनुष्य. an inhabitant of  
the Andhra-country. पञ्ज० १; परह०  
१, १; प्रव० १५६८;

**अंग्र.** त्रि० ( अंग्र ) अंग्रेश; नेत्रहीन. अंग्रा.

Blind. आया० १, १, २, १६; ठा० ७, १;

अगुजो० १२८; सूय० १, १, २, १६; १,  
१२, ८; पंचा० ११, ११; ( २ ) शान रहित;

अशानी ( लाक्षण्युक्त ). ज्ञानरहित; अज्ञानी.  
( लाक्षणिक ) Illiterate, ignorant.

भग० ७, ६;—पुरिस. पुं० ( -पुरुष )  
जन्मांध, जन्मभी अंग्रेश। जन्मान्ध; जन्मसे

अंग्रा. One who is born blind.  
विवा० १;—रूप. पुं० न० ( -रूप ) खन्या-  
कार; जेनुं शरीर अवयवशत्य-देलसारूप

छे ते. अवयवशून्य शहीर बाला. One  
having a body devoid of limbs.

विवा० १, १; .

**अंधग.** त्रि० ( अंधक ) अंधगे; अंध. अंधा.  
Blind. विशे० ११५६;

**अंधकार.** पुं० ( अंधकार ) अंधार॑; अंधकार.

**अंधेरा.** Darknes०. ओव० २१; भग० ६,  
५, ७, ८; परह० १, ३; सम० ३४; ठा०  
२, ४;

**अंधग.** पुं० (\*अंधक-अंग्रिप) धृक्ष; अ३. फाड़.  
A tree. भग० १८, ४;—सारिह॒. पुं०  
( -वन्हि-अंग्रिपा वृक्षास्तेषां वन्हयस्तदावय-  
त्वेनेस्त्यंग्रिपवन्हयः ) खाद॒ अभि॑; अ३ना॑  
लाक्षाने आशी-उत्पन थेल अभि॑. इहाँ  
की लकड़ी के द्वारा उत्पन अग्नि. fire pro-  
duced by friction of trees. भग०  
१८, ४;

**अंधगवाहिह॒.** पुं० ( अंधकवन्हि-अंधका॑  
अप्रकाशकाः सूक्ष्मनामकर्मोदयाये वन्हयस्ते  
अंधकवन्हयः ) सूक्ष्मअभि॑; सूक्ष्म ते-  
०८२५४. सूक्ष्मअग्नि॑; सूक्ष्म तेजःकाय॑.  
Latent fire; a body in which  
fire is latent. “ हंता ? गोवमा ?  
जावहृया चरा अंधगवाहिह॒ जीवा तावहृया  
परा अंधगवाहिह॒ जीवा सेवं भंते ? भंतेति ”  
भग० १८, ४;

**अंधगवाहिह॒.** पुं० ( अंधकवृत्ति॑ ) सभुद्वि-  
ज्यराजनुं अपर नाम. समुद्रविजय राजा  
का दूसरा नाम. Another name of  
king Samudravijaya. “ चारवती-  
ए गयरीए अंधगवाहिह॒ राजा परिवसह॒ ”

अंत० १, १; दस० २, ८; उत्त० २२, ४४;

**अंधगार.** पुं० ( अंधकार ) अंधार॑. अंधेरा.  
Darkness. सू० प० १३;

**अंधतत.** न० ( अंधतत ) अंधपतु॑. अंधपत.

Blindness. आया० १, २, ३, ७८;

**अंधततण.** न० ( अंधतत ) अंधपतु॑. अंधापत.


Blindness. प्रव० १३८८;

**अंधततम.** न० ( अंधततमस् ) अंधकार॑; अंधार॑.

अंधेरा, अंधकार. Darkness. “ असुरिये नाम महाभित्तावं अंधतमं दुष्पतरं महतं ”  
सूय० १, ५, १, ११;

अंधयार. पुं० ( अंधकार ) अंधाः. अंधेरा;  
अंधकार. Darkness. ओव० ३०; अशुजो० १३०; उत्त० २८, १२; सु० च० २, ५६;  
पञ्च० २; भग० ५, ६; नाया० १; विशेष०

लेथी अङ्गार अने अङ्गारने भाँडनेथी अंदर  
आने तेम अंधकारसेव अने तापसेवनी  
न्यूनाधिकता थाय छे. जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं  
पहता वह प्रदेश; सूर्य जब भरताइरवतक्षेत्र  
में रहता है तब मेरु की पूर्व और पश्चिम  
दिशा की ओर अंधकारक्षेत्र होता है और जब  
सूर्य महाविदेहक्षेत्र में रहता है तब भरत-



७७३; कण्ठ० ३, ३२; ६०; पंचा० १३, ११;  
अ० प० ३, ४४; ७, १३५;—खेत्त. न०  
( -क्षेत्र ) जयां सूर्यनो ग्रकाश न पठे ते  
प्रदेश; सूर्य जयां रे भरताइरवतक्षेत्रमां हेय  
त्यारे भेदनी पूर्व पश्चिमे अंधकारसेव लेय  
अने भाष्टिदेहमां सूर्य हेय त्यारे भरताइरवत  
तरें अंधकार क्षेत्र हेय; सूर्य अंदरने भाँड-

इरवतक्षेत्र अंधकार क्षेत्र बन जाता है.  
सूर्य अंदर के मंडल से बाहर और बाहर के  
मंडल से अंदर आता है तब अंधकारक्षेत्र  
और तापसेव की न्यूनाधिकता होती है. the  
region where the sun does not shine. when the sun shines over  
the Bharata Iravatā Ksetra

the region to the east and west of Meru remains in darkness, and when the sun shines over the Mahāvideha Kṣetra the region of Bharata Iравата Kṣetra remains in the dark. The lighted part and the dark part of the earth increase and diminish according as the sun changes his position from the inner to the outer circle and from outer to the inner circle. ज० प० ७, १३५;—पञ्चक्ष. पुं० ( -पञ्च ) कृष्णपक्षः अंधःरीति॑. कृष्णपक्षः the dark half of a month. सू० प० १३;

अंधार. पुं० ( अन्धकार ) अंधारः. अंधेरा.

Darkness. ओषध० निं० २७०;

अंधारिय. श्रिं० ( अन्धकारित ) अंधकारभय कृरेत्. अंधकारमय किया हुआ. Darkened. सु० च० २, ५८८;

अंधारूप. श्रिं० ( अन्धरूप ) अवयव शैन्य-आकृतिः लोकसारूपः. अवयव रहित आकृति. Without limbs; shapeless. “ तए गं सा मियादेवी तथारूपं हुंडं अंधारूपं पासइ ” विवा० १, १;

अंधिय. पुं० छी० ( अनिक ) अ॒र॒धिय वाणौ शृ॒ङ्. चार हन्दियों वाला जीव. A living being having four sense-organs. पञ्च० १; जीवा० १; भग० १५, १; उत्त० ३६, १४५;

अंधिल. श्रिं० ( अन्ध ) जन्मभाँधः; जन्मभर्थी अंधिलौ. जन्मान्ध; जन्म से अंधा. Born blind. श्रिं० निं० ५७२;

अंधिलग. श्रिं० ( अन्धक ) जन्मभर्थी अंधगुणं. जन्म से अंधा. Born blind. परह० १, १५; २, ४;

अंब. पुं० ( अन्ड ) अ॒र॒भाँधाभी नारडीने हुंडे अने जाये उठाने ते अंबः; पंदर परभःधाभी भ.ने. एक. जो परमाधारी नारकी को मारे और ऊचा उछाले वह; पंद्रह परमाधारी में से एक. One of the 15 Paramādhāmīs (tormentors) who torture beings in hell and toss them aloft. भग० ३, ७; सम० १५;

अंब. पुं० ( आम ) आंधानुं अ॒डः अंधेरा. आम वृक्षः आम. A mango tree. राय० ४; पञ्च० १; आया० २, ४, २, १३८; ठा० ४, १; श्रीघ० निं० ७७०; निसी० १५, ५; ( २ ) केरी; आंधानुं इल. आमफल; आम. a mango. श्रिं० निं० १६६; अशुजो० ६४; भग० ८, ३; १६, ६; २२, २; दस० ७, ३३; आया० २, ७, २, १६०; ( ३ ) केरीना। गोट-लानुं धैराण्. आमों की गुठलियों के धोवन का पानी. a drink prepared by washing the mango stones. भग० १५, १;—आराम. पुं० ( -आराम ) अःभ वन; आंधानुं वन. आमवन; आमों का वन. a grove of mango trees. निर० ३, २;—कूरणग. पुं० ( -कूरणक ) आंधाना। इल-नो। गोटले; केरीना। गोटले.. आम की गुठली. a mango stone. भग० १५, १;—खुज्जा. न० ( -खुड्ज ) आंधाना। इलनी पेड़े वड़े कारे स्थिति करनी ते; अःसननो। एक प्रकार. आमफल की भाँति बकाकार स्थिति करना; आसन का एक प्रकार. a bodily posture with a curve like that of a mango. ग्रव० ५६३; पंचा० १८, १७;—खुज्जय. पुं० ( -खुड्जक ) आंधाना। आउनी पेड़े वांडे। वणी गयेक-दुखड़े। आम के फाल के समान जो टेढ़ा होया हो—खुड्जा. one who is bent like a mango tree; a hump-back. भगव० ३, ८;

दसा० ७, १०; वेय० ५, ३१;—\*चोयग.  
ली० (—स्वचू) आभानी छाल. आम के फाल  
की छाल. the bark of a mango  
tree. भग० १५, १; निसी० १५, ७;  
—डाल. न० (—डालक) डेरीतुं नातुं  
भट्टुं. आम का छोटा टुकड़ा. a small  
slice of a mango. आया० २, ७, १६१;  
निसी० १५, ७;—पेसिया. ली० (—पेशिका)  
आंभाना इलनी-डेरीनी चीर. आम की फाँक.  
a slice of a mango. दसा० १०, ५;  
—पेसी. ली० (—पेशी) आंभानी-डेरीनी  
चीर-कातणी. केरी की फाँक. & slice of  
a mango. निसी० १५, ७;—फल. न०  
(—फल) डेरी. आम का फल. a mango.  
वद० ६, ३३;—भिस. पुं० (—भिस) आंभानी  
कट्टेड. आम के फाल का टुकड़ा. a piece  
of a mango tree. निसी० १५, ७;  
—भित्तय. न० (—भिसक) डेरीनी अधी० इउ-  
इउभीउ; अउधीयुं. आधा आमफल. a half  
of a mango. आया० २, ७, २, १६०;  
—सालग. पुं० न० (—शालक) आंभानी  
जाडी छाल. आमवृक्ष की मोटी छाल. thick  
bark of a mango tree. निसी० १५, ७;  
अंब० न० (आम्ल) छाल. वज्रेथी संस्कारेत  
पदार्थ. छाल डालकर बनाया हुआ पदार्थ.  
An article prepared with butter-milk; etc. जं० पं० ३;  
अंब० त्रि० (आम्ल) खादुं. खट्टा. Sour. निसी०  
१५, ७;—कंजिया. ली० (—काजिका)  
भाडी कंजु. खट्टी छाल. sour gruel.  
निसी० १७, ३०;

अंबग. न० (आम्लक) डेरी. आभ्रद्वल. आम.  
A mango. उत्त० ७, ११; अग्नुत्त० ३, १;  
—ठिया. ली० (—आस्थिका) डेरीनी ग्रेटली.  
आम की गुठली. A mango stone.  
अग्नुत्त० ३, १;

अंबहू. पुं० (अम्बड) भाताना पक्षनी अपेक्षाए  
आर्य जलि भाताना पक्षे आर्य. माता के  
पक्ष से आर्यजाति. Arya from the  
mother's side. या० ६, १; पक्ष० १;  
(२) भाद्राणपुरुष अने वैश्वलीथी उत्पन्न  
थयेल ऐक अवान्तर जाति. ब्राह्मणपुरुष और  
वैश्यली से उत्पन्न एक अवान्तर-दूसरी जाति.  
a mixed sub-caste sprung from a Brāhmaṇa father and a Vaiśya  
mother. सूय० टी० १, ६, २;  
अंबड० पुं० (अम्बड) अंबडनामे ऐक भाद्राण  
सन्न्यासी. अंबडनाम का एक ब्राह्मण सन्न्यासी.  
A Brāhmaṇa ascetic named Ambada, ओब० ३८; (२) जम्बूद्वीपना  
भरतपुराम थनार २२भा तीर्थेकरना पूर्वभवतुं  
नाम. जम्बूद्वीप के भरतखण्ड में होने वाले २२वें  
तीर्थकर के पूर्वभव का नाम.name of the  
22nd Tirthankara in Bharata  
Khaṇḍa of Jambū Dvīpa in his  
last previous birth. सम०.—जीव.  
पुं० (—जीव) अंबडनामना तापसनो श्रु, दे  
ने आवती चौवीसीमां भावीसमा 'देवजिन'  
नामे तीर्थेकर थशे. अंबड नामक तापस का  
जीव, जो आगमी चौबीसी में २२ वाँ 'देव-  
जिन' नाम का तीर्थकर होगा. the soul  
of an ascetic named Ambada  
who will be the 22nd Tirthankara  
by name Devajina in the  
coming Chovisi (cycle) प्रब० ४७४;  
अंबचण० न० (आम्लसब) खट्टाश. खट्टाई.  
Sourness. विशे० ३४६७;  
अंबधाई०. ली० (अम्बधानी) धावभाता;  
भालके धवरावनारी भाता. धायमाता; बालक  
को दूध पिलाने वाली माता. A foster  
mother; a wet nurse. नाया० १;  
अंबपङ्कवपस्थिभस्ति० न० (आम्लपङ्कवपस्थिभस्ति)

नेभां आंभाना पक्षवनी रथना विशेष ५२वा-  
भां आवे ऐवुं एक नाट्य; अत्रीस प्रकारना  
नाटकमानुं एक. जिसमें आम के पत्तों की  
रचना विशेष रूप से की जाय ऐसा एक नाट्य;  
बर्तास प्रकार के नाटकों में से एक प्रकार का  
नाटक. One of the thirty-two  
dramas characterised by the  
decoration of the leaves of the  
mango-tree. राय० ६४;

**अंबय.** पु० ( आम्बक ) डेरी; आंभानुं ५३.  
आम. A mango. उत्त० ३४, १२; सु०  
च० ११, १०; ( २ ) ऐ नामनुं एक भाष्यस.  
इस नाम का एक पुरुष. name of a man.  
अणुजो० १३१;

**अंबर.** न० ( आम्बर ) आकाश. आकाश. The  
sky. भग० २०, २; कप्य० ३, ४६; ( २ )  
वस्त्र. कपड़ा; वस्त्र. a cloth. परह०  
१, १; पञ्च० २; ( ३ ) उमरानुं आ॒.  
गूलर का वृक्ष. a kind of tree  
bearing fig-like fruit. भग० २२, ३;  
—तल. न० ( -तल ) आकाशानुं तंयु-सपाई.  
आकाशतल. the vault of the sky.  
नाया० १; ६; भग० ३, २; कप्य० ३, ३६;

**अंबरस.** न० ( \* अम्बरस-अम्बर ) आकाश.  
आस्मन. The sky. भग० २०, २;

**अंबरिस.** पु० न० ( अम्बरीष ) लुहारनी  
डेइनो लाई-लड़ी. लुहार की भट्ठा. A furnace  
in a blacksmith's shop.  
जावा० ३; ( २ ) पंद्र नाति ऐडी भीउ नातना  
परमाधार्मी, डे ऐ नारडीना शरीरना कटका-  
घंड झंड झंडी लाक्खभां पक्षवयानुं काम करे छे.  
पंद्रह प्रकार के परमाधार्मियों में से दूसरे  
प्रकार का परमाधार्मी, जो नारकियों के शरीर  
के ढुकड़े कर भट्ठी भें पकाने का काम  
करता है. the second of the  
fifteen kinds of Paramādhāmīs.

( torturers ) who cut into pieces  
the beings living in hell and  
roast them in the furnace.  
भग० ३, ७;

**अंबरिसि.** पु० ( अम्बरीषि ) जुओ। “अंबरिसि”  
शब्दनो व्याख्या अर्थ. देखो “अंबरिसि” शब्द  
का दूसरा अर्थ. vide “ अंबरिसि.” २.  
सम० १५;

**अंबरीस.** पु० न० ( अम्बरीष ) जुओ। “अंबरिसि”  
शब्द. देखो “अंबरिसि” शब्द. vide “ अंब-  
रिसि.” जावा० ३;

**अंबलसाग.** पु० ( अम्लशाक ) एक जातीकी वनस्पति. A kind  
of vegetation. भग० २१, ७;

**अंबसालवण.** न० ( आम्लशालवन ) आमल-  
कृत्यानगरीना ईशान खुणुभां आवेलुं आंभानुं  
वन. आमलकल्पा नामक नगरी के ईशान कोन.  
का आम का वन. A grove of mango-  
trees situated to the north-east  
of the city named Āmalakalpā.  
“ आमलकप्याए ण्यरीए बहिया उत्तरपुर-  
त्थिये दिसीभाए अंबसालवणे णामं चेहए  
होत्था, पोराणे जाव पडिस्वे ” राय० ४;  
निर० ३, २;

**अंबा.** ल्ला० ( अम्बा ) भाता; जननी. मा;  
माता; जननी. A mother. हे अंब. सं०  
प्र० ए० नाया० १४; ( २ ) नेमनाथना  
शासननी अधिकारी देवी. नेमनाथ तीर्थ-  
कर के शासन की अधिकारी देवी. the  
presiding goddess of Nemi-  
nātha's cult. प्रव० ३७८;

**अंबाडग.** पु० ( आम्रातक ) अंभाडानुं झंड;  
अंभुणीवाणी धृत्यानी एक जात. बहुत  
बीज वाले वृक्ष की एक जाति. A kind  
of tree the fruit of which is  
full of seeds. भग० २२, ३; पञ्च० २;

अणुत० ३, १; अणुजो० ६४; १५४; ( २ ) न० अंभाडानुं इणि. उक्त वृक्ष का फल. fruit of Ambādā tree. आया० २, १, ८, ४२; ( ३ ) अंभाडाना कृष्णनुं धोवथ् -पाणी. उक्त वृक्ष के फल का धोवन-पानी. water in which Ambādā fruit has been washed. भग० १५, १; —पेसिया. स्त्री० (-पेशिका) अंभाडानी पेशी-कृती. वहुर्बाजकवृक्ष का टुकड़ा. a thin cutting of a tree named Ambādā. दसा० १०, ५;

अंबालिया. स्त्री० ( आम्लिका ) आंभणी. इमली. A tamarind tree. भग० १८, ६; अंबावल्ली. स्त्री० ( आम्लवल्ली ) भट्टारभ वाणी ऐक वेद-क्षता. ग्रहे रग वाली एक बेल-लता. A creeper having acid juice. पञ्च० १; अंबिया. स्त्री० ( अम्बिका ) अंभिका-पांचभा. वासुदेवनी भाता. पाँचवें वासुदेव ( मुद्रशन ) की माता का नाम. Name of the mother of the fifth Vāsudeva. मम० अंबिल. न० ( \*अचाम्ल ) आंभणी; तपने ऐक प्रकार. आंबिल; तप का एक प्रकार. A mode or species of austerity, Āyambila. प्रव० २०६;

अंबिल. न० ( \*अम्बिल-अम्ला ) ऐक जलनी दरी वनस्पति. एक प्रकार की हरी वनस्पति ( अमर्माखट्टी, पञ्जाबी ). A kind of green vegetable. पञ्च० १;

अंबिल. पुं० ( अम्ल ) भट्टा॒ रस; भट्टाश. खट्टा॒ रस; खट्टाई. Acid juice; acidity. मम० २२; ( २ ) त्रिं० भट्टाश वाणी; आंडु. खट्टा॒ खट्टाई वाला. acid; having sour juice. भग० २, १, ११, ११; २०, ५; दस० ५, १, ६७; जीवा० ३, १; पञ्च० १; आया० ३, ५, ६, १८; २, १, ७, ४३; ठां० १,

१; उत्त० ३६, १८; नाया० १; पिं० निं० भा० ८३; जं० प० २, ३८; अणुजो० ३१; —उदग. न० (-उदक) कृष्ण जेवुं अत्यन्त आंडु पाणी. कांजी के समान अत्यन्त खट्टा पानी. water resembling gruel, very acid in taste. पञ्च० १; —खाम. न० ( -नामन् ) नामकमनी ६७ प्रकृति-भानी ऐक, जेना. उद्यथी छवने खटास वाणी शरीर भगे-जेम आंभणीना. छवने भग्नु छे. नामकर्म की ६३ प्रकृतियों में से एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव को खटास वाला शरीर प्राप्त हो—जैसे इमली का जीव. one of the 93 varieties of Nāma-Karma as a result of which the soul has to bear acidity in the body; e. g. the life in a tamarind tree. क० गं० १, ४१; —रस. पुं० (-रस) भट्टा॒ रस. खट्टा॒ रस. Acid juice; acidity. भग० ८, १;

अंबिलिया. लौ० ( आम्लिका ) आंभणीनुं आ॒. इमली का वृक्ष. A tamarind tree. जं० प० ३;

अंबु. न० ( अम्बु ) पाणी; जल. पानी. Water. ओव० ३८; —त्थंभ. पुं० (-स्तम्भ) पाणी रोकनानी ऐक कृगा; १४ कृणमानी १३ भी कृगा. पानी को रोकने की एक कला; ६४ कृताओं में से १३ वीं कला. the art of stopping a flow of water; the thirteenth Kalā or art. ओव० ४०; —भक्षिषः त्रिं० (-भस्त्रिन्) पाणी उपर शृणता॒. पानी के आधार से अथवा पानी के ही द्वारा जीने वाला.. living on water. भग० ११, ६; निर० ३, ३; —वासि॒. त्रिं० (-वसिन्) पाणीभां रहेवा वाणी. पानी में रहने वाला. residing

in water; aquatic. भग० ११, ६;  
निर० ३, ३;  
**अंस.** पु० ( अंश ) भाग; हिस्से। भाग; हिस्सा.  
Part; share. उत्त० २२, १३;  
**अंस.** पु० ( अंस ) २५८; भाध; घन्यो। कंधा.  
Shoulder. ठा० ४, ३; पञ्च० ३६; क०  
ग० २, २६;—उवसत्त. त्रि० ( -उपसङ्क )  
भंभ। उपर रहेक. कंधे पर रहा हुआ. resting  
on a shoulder. कप्प० ३, ३६;  
—गच्छ-य. त्रि० ( -गत ) घंभ। उपर रहेक.  
कंधे पर रहा हुआ. resting on a shoul-  
der. विवा० १, ३; नाया० १८;  
**अंसय.** पु० ( अंशक ) कल्पेत् भाग-हिस्से।  
कलिष्ठ भाग-हिस्सा. A fixed part.  
वेय० १, ६;  
**अंसि.** क्ली० ( अस्ति ) भुज्यो। कोना. A cor-  
ner. ठा० ८, १;  
**अंसि.** व० उ० ए० ( अस्ति ) हुं छुं मै हूं.  
I am. “दिसाओ आगओ अहमसि जाव”  
आया० १, १, १, ४;  
**अंसिया.** क्ली० ( \* आशिका-अशेषु ) अर्श;  
युद्धप्रदेशमां भसाने रोग. अर्श; वारांर;  
गुणप्रदेश में होने वाला मसे की बामारी का  
नाम. Piles. भग० १६, ३;  
**अंसिया.** क्ली० ( \* अशिका-अंश ) न्दानो  
भाग; हिस्से। छोटा भाग; छोटा हिस्सा.  
A small part. वेय० २, १८;  
**अंसु.** न० ( अशु ) आंसु; नेत्रजल. आँसु;  
आँखों का पानी; नेत्रजल. Tears. उत्त०  
२०, २८; नाया० १, ५; जं० प० २, ३३;  
भग० ६, ३३; परह० १, १;—धारा. क्ली०  
( -धारा ) आंसुनी धारा. आंसुओं की  
धारा. flow of tears. नाया० १;  
**अंसुय.** पु० ( अंशुक ) चीन देशमां अगाउना।  
वभतमां भनतु कीडानी लाग्नुं हीर० चीनाई  
हीर० प्राचीन काल में चीनदेश में कई

की लार से बनने वाला रेशम; चिनाई रेशम.  
China silk. आया० २, ४, १, १४५;  
अणुजो० ३७; ( २ ) वस्त्रविशेष; सुंवाणा  
वस्त्रनी। ऐक जल; चीनना सृत्रनी भनावत्तु  
वस्त्र. वस्त्रविशेष; कोमलवस्त्र का एक जाति;  
चीन के सूत से बना हुआ वस्त्र. a kind of  
soft cloth made of China silk.  
जावा० ३, ३; ४; आया० २, ५, १, १४५;  
नाया० १; सू० प० २०; निसी० ७, ११;  
**अंसोत्थ.** पु० ( अथवा ) पिप्पणी आ॒  
पीपल का वृक्ष. The holy fig-tree; ficus  
religiosa. भग० २२, ३;  
**अकंटय.** त्रि० ( अकण्टक ) कांटारहित; कांटा  
विनानु. कांटा रहित; विना काटि का. Thorn-  
less. जावा० ३; ( २ ) प्रतिस्पर्धी विनानु.  
प्रतिस्पर्धी से रहित. unrivalled; having  
no rival. “ ओहयकंटयं मलियकंटयं  
अकंटयं ” नाया० १; भग० ११, ६;  
**अकंड.** न० ( अकाण्ड ) अनवसर; वधु  
पगरनु; अकृपा। अनवसर; अकाल; वे समयका.  
Inopportune; out of season. सु०  
च० १३, ३१;

**अकंडूअय.** पु० ( अकण्डूयक-न कण्डूयत  
इत्यकण्डूयकः ) शरीरमां यथा आवे तोपथु  
भ० वापे नहि ते; अभिग्रहविशेषधारी साधु.  
शरीर में खुजली चलने पर भी न खुजाने  
वाला; अभिग्रहविशेषधारी साधु. One who  
has a vow not to scratch his  
body even though troubled by  
itching sensation; an ascetic  
who has taken this vow. ठा०  
५, ३; ओव० १६; परह० २, १;  
**अकंडूयग.** पु० ( अकण्डूयक ) जुझ्यो।  
“अकंडूअय” शब्द. देखो शब्द “अकंडूअय.”  
vide “अकंडूअय.” ठा० ५, १;  
**अकंत.** त्रि० ( अकान्त ) कान्ति विनानु, तेज०

वगरनुः; सौन्दर्य रदित. कान्तिहीन; तेजहीन; सौन्दर्यरहित. Devoid of lustre; devoid of beauty. ठा० ८, १; नाया० ७; भग० १, ५; ६, २; ७, ६; ६, ३३; पञ्च० २८; जं० प० २, ३६; ( २ ) अशुभ-भनुं; अप्रिय. अप्रिय. unpleasant; obnoxious. भग० १, ७;—स्वर. पुं० (—स्वर) अप्रिय स्वर; कठोर स्वर. अप्रिय स्वर; कठोर स्वर. harsh voice. भग० १, ७; जं० प० २, ३६;

**अकंततर.** त्रि० ( अकान्ततर ) अतिअप्रिय; धृष्टुं अशुभनुं. बहुत अप्रिय. Extreme-  
ly unpleasant. भग० १६, २; .

**अकंप.** त्रि० ( अकम्प ) कंप-क्षास रदित. कम्प  
रहित; ज्ञोभ रहित. Firm; fixed; free  
from destruction. जं० प० २, ३१; ३, ५२;

**अकंपिय.** पुं० ( अकम्पित ) भद्रवीरस्वामी-  
ना आठामा शशुधर. महावीरस्वामी के आठवें  
गणधर का नाम. The eighth Gana-  
dhara of Mahāvīra Svāmī. सम० ११; ७८; विशेष० १८८५;

**अकंक्षस.** त्रि० ( अकर्कश ) कंकश नदि; भृदृ;  
डामण. सृदु; कोमल. Soft; not harsh.  
“अगणवज्जमकंक्षस” दस० ७, ३; भग० ७, ६;

**अकज्जा.** न० ( अकार्य ) न करवा योग्य कार्य; अधिति काम. न करने योग्य कार्य; न करने  
लायक काम. An improper action.  
नाया० २; १६; पि० निं० १८५; भग० ७, ६;  
जं० प० २, ३६;—पदिवद्ध० त्रि० (—प्रतिबद्ध)  
अकार्य करवाभां तत्पर. न करने लायक काम  
को करने में तत्पर. Intent on doing  
an improper action. नाया० १८;

**अकज्जमाण.** त्रि० ( अकियमाण ) कृथा वगरनुं;  
न करानुं. जो न किया जाता हो. Not being  
done. भग० १, १७;—कड़. त्रि० (—कृत-  
क्रियमाण वर्तमानकाले कृतं तर्तज्जेष्ठादक्रिय-

माणकृतम् ) वर्तमानकाणि अने भूतकाणि  
क्षियथी अनेक नहि. वर्तमानकाल और भूतकाल  
की किया से नहीं बना हुआ. not resulting  
from what is being done in  
the present nor from what has  
been done in the past. “अकिन्तं  
दुक्ष्वं अफुसं दुक्ष्वं अकज्जमाणकडं दुक्ष्वं”  
भग० १, १०;

**अकदृ.** सं० कृ० अ० ( अकृत्वा ) कृथा वगर;  
न करने. विना किये. Without having  
done; without doing. ठा० ३, ३;  
भग० १, १०;

**अकट्ट.** त्रि० ( अकाष ) कृप रहित; ईधथा  
पिनानुं. काष रहित; विना लकड़ी का. With-  
out fuel. “जंसि जलतो अयणी अकट्टो”  
सूर्य० १, ५, २, ११;

**अकड.** त्रि० ( अकृत ) नहि करेलुं. नहीं किया  
हुआ. Unperformed; not done.  
“कंडं कडिति भासिज्जा, अकडं नो कडिति  
य” उत० १, ११; “ अकडं करिस्सामिति  
मरणमाणे” आया० १, १, २, ६६; भग० १, ६;

**अकढिणा.** त्रि० ( अकठिन ) कैमणि; कंडेणु  
नहि. कोमल; कठिनता रहित. Soft; easy;  
not hard. जावा० ३, ४;

**अकरण.** पुं० ( अकर्ण ) लवण्यसमुद्रमां सात सो  
नेज्जन उपर आवेलो ऐंक अंतरद्वीप० १७ मो  
अंतरद्वीप०. लवण्यसमुद्र में सात सौ योजन की  
दूरी पर का एक अंतरद्वीप० १७वें अंतरद्वीप का  
नाम. An island situated in the  
Lavaṇa ocean at a distance of  
700 Yojanas from the shore. गा०  
४, २; ( २ ) ते अंतरद्वीपमां रहेनार भनुष्य.  
उक्त अंतरद्वीप में रहने वाला मनुष्य. a person  
residing in that island. ठा० ४, २;  
पञ्च० १;

**अकरणांश्चिभ्रंश.** त्रि० ( अकर्णांश्चिभ्रंश ) अभ्यं

कानवाणे; ऐसे कान छेदाव्य। नथी ते. अखेड  
कान वाला; जिसने कान नहीं छिदये हैं वह।  
Having unperforated ears; having ears not perforated. निर्वी० १४, ६;  
**अकृति.** त्रि० ( अकृति-न कृति न संख्याता  
इत्यकृति ) संभ्याभां-गणुत्रीभां न आवे  
तेष्टाः; असंभ्य वा अनंतः असंख्यः अगणितः;  
अनन्तः. Innumerable; infinite.  
ठा० १, ३;—**संचित्य.** पुं० ( -सञ्चित )  
ऐक समये असंभ्याता—अनंता उत्पन्न थता  
श्व. एक समय में असंख्यात—अनन्त उत्पन्न  
होने वाले जीव. innumerable lives  
coming into existence simultaneously. ठा० १, ३; भग० २०, १;  
**अकृप्य.** पुं० ( अकृत्य ) कृप्ये नहि तेवुं;  
भ्ये नहि तेवुं; अयोऽयः साधुने अखण्डः  
करवा योऽय नहि. अयोग्यः साधु के न प्रहण  
करने योग्य. Unacceptable; improper  
for a Sādhu. “वयज्ञकं कायज्ञकं  
अकृपो गिहिभायणं” दस० ५, ८; सम०  
१८; पिं० निं० १८६; आव० ४, ८; पैचा०  
१२, १४; प्रव० २७; द२०;  
**अकृप्यदिय.** पुं० ( अकृप्यस्थित ) अयेदकृदि  
दश प्रकारना कृप्य-भर्यादा रहितः पव्येना २२  
तीर्थकरना साधु. अचेतकादि दश प्रकार के कल्प-  
रहितः बीच के २२ तीर्थकरों के साधु. Having  
no restrictions of ten kinds as  
regards nakedness etc; disciples  
of the 22 intermediate Tirthan-  
karas. वेय० ४, १४;  
**अकृप्यिय.** त्रि० ( अकृत्यिक ) अयोऽयः  
अकृपनीक—अनेष्टुप्य. अयोग्यः अकृपनीकः  
अनेष्टणीय. Improper; not prescrib-  
ed; unacceptable. “अकृप्यियं ण  
दृष्टिज्ञा पदिग्नाहेज्ज कृप्यियं” दस० ६, ४८;  
५, १, ४१; ४९; ४८;

अकम्म, न०(अकर्मन्) कर्मनो अभावः आश्रव  
निरोधः कर्मों का अभाव; आश्रव का निरोध.  
Absence of Karma ( action );  
checking of Āśrava. भग० ३, ३; १७,  
२; ( २ ) त्रि० कर्म रहितः कर्म रहित. free  
from actions. “आतिथणं भंते! अकम्मस्त  
गृहे परणायाह हन्ता आत्थि” भग० ७, १;  
आया० १, ५, ६, १६६; प्रव० ११३२;  
सू० १, १, २, १५;

**अकम्मओ.** अ० ( अकर्मतस् ) कर्मविना.  
कर्मविना. Without Karma ( ac-  
tion). “शो अकम्मओ विभक्तिभावं परिण-  
मह” भग० १२, ४;

**अकम्मस.** पुं० ( अकर्माश-न विद्यते कर्माशो-  
यस्य सः ) कर्मरह रहित. कर्मरज रहित.  
Free from even the slightest  
Karma. “अप्यतिङ्गं अकम्मसे एयमहं  
मिगे चुएः” सू० १, १, २, १२;  
ठा० ५, ३; ( २ ) धातीकर्म रहित स्नातक  
विशेषः, देवणी. धातीकर्म रहित स्नातक  
विशेष; केवली. a Snātaka abstaining  
from actions which destroy the  
spiritual qualities of the soul;  
a Kevalī. भग० २५, ६;

**अकम्मकारि.** त्रि० ( अकर्मकारिन् ) अयोऽय  
कर्म करनार. अयोग्य कार्य करने वाला.  
A doer of an improper action.  
परह० १, २;

**अकम्मभूमि.** पुं० ( अकार्मभौम ) असि, मसी अने  
कसी ( तलवार, कलम अने ऐती ) ऐ त्र॑  
प्रकारना कर्मव्यापार विना कृपवृक्ष उपर  
आधार राखी लुवन निर्वाह करनार; जुगलिया.  
असि, मसी और कृषि ( तलवार, कलम और  
खेती ) रूप कर्मव्यापार के विना कल्पवृक्षों के  
आधार से जीवन निर्वाह करने वाला; जुगलिया.

One of those who depend for their livelihood entirely on Kalpavriksha ( wish-fulfilling tree ) without doing any business e. g. of fighting, writing or agriculture; one of the Jugaliyās. उत्त० ३६, १९;

**अकम्मभूमग.** पुं० ( अकर्मभूमक-कर्म-कृषिवाणिज्यादि मोक्षानुष्ठानं वा तद्रिकला भूमिर्येषां तेऽकर्मभूमास्त एवाकर्मभूमकाः ) अकर्मभूमिना गर्भजननुष्य; जुगलिया. अकर्मभूमि (जिस समय पृथ्वी पर बिना कृषि, बाणिज्यादि कर्म किये भी मनुष्य जीवन निर्वाह कर सकता है) के गर्भज मनुष्य; जुगलिया. One of the Jugaliyās born in a land devoid of any action such as agriculture etc. पञ्च० १;

**अकम्मभूमग.** पुं० ( अकर्मभूमक ) जुग्यो। “अकम्मभूमग” श०८८. देखो “अकम्मभूमग” शब्द. vide “अकम्मभूमग”. सम० १४; **अकम्मभूमि,** लो० ( अकर्मभूमि ) लोगभूमि; कृषिआदि कर्म रद्दित कृपतृक्ष वाली भूमि; जुगलियाना ३० क्षेत्र. भोगभूमि; कृषि आदि कर्मरहित कल्पवृक्ष वाली भूमि; जुगलियाओं के ३० क्षेत्र. ( ऐसे ३० स्थान हैं जहाँ जुगलिया उत्पन्न होते हैं ) Any of the 30 regions of inaction for the Jugaliyās; the land of enjoyment. “कह विदेश भंते? अकम्मभूमीओ परणताओ गोयमा ! तीसं अकम्मभूमीओ प० तं० पंच हेमवयाहं पंच हेरश्ववयाहं पंच हरिवासाहं पंच रमगवासाहं पंच देवकुराहं पंच उत्तरकुराहं” भग० २०, ८; २५, ६; ७; प्रव० ३६;

**अकम्मभूमिय.** पुं० लो० ( अकर्मभूमिज ) तीसं अकर्मभूमि-भोगभूमिना भनुष्य; जुग-

लिया. तीस अकर्मभूमि-भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्य; जुगलिया. Men belonging to the thirty lands of inaction; the Jugaliyās. ठा० ३, १;

**अकम्मया** लो० ( अकर्मता ) कर्मनो अभाव; कर्मनो उच्छेद. कर्म का अभाव; कर्म का उच्छेद. Absence of Karma; eradication of Karma. उत्त० २१, ७१;

**अकम्मवीरिय.** न० ( अकर्मवीर्य ) पंडित वीर्य; पंडितभावसहित सामर्थ्य. परिदृष्ट वीर्य; पंडितभावसहित सामर्थ्य. Power coupled with wisdom. सू० १, ८, ६;

**अकम्मा.** अ० ( अकस्मात् ) अेकदम; अचानक. अचानक; एकदम. Accidentally; suddenly. सु० च० ४, २६२;—दंड. पुं० ( -दण्ड ) धार्या वगर अकर्मभात्-आविष्टिं अेकने हण्टां भीज्ञु हण्टाईज्ञ ते; योयुं क्षियास्थानक. एक को दण्ड देते समय बिना निश्चय के अकस्मात् दूसरे को दण्ड दे देना; चौथा क्रियास्थानक. striking a wrong person quite accidentally; the fourth Kriyāsthānaka. ठा० ५, २; सम० १३; प्रव० ८३०;—दंडवत्तिय. पुं० न० ( -दण्डप्रत्ययिक-अकस्मादण्डः प्रत्ययः कारणं यस्य ) योयुं क्षियास्थानक; अेकने भारतानुं धारी भारतां अकर्मभात् भीजने भारी नाभ्यनुं ते. चौथा क्रियास्थानक; एक को मारने का निश्चय कर अकस्मात् दूसरे को मारजाना. the fourth Kriyāsthānaka originating from killing or striking a wrong person quite accidentally. सू० २, २, १७;—भय. न० ( -भय ) भाव निभित विना कृपना भावथी उत्पन्न थर्तु भय; सात भयभानुं अ॒. बाय कारेण के बिना कल्पनामात्र से

उत्पन्न होने वाला भय; सात प्रकार के भयों में से एक प्रकार का भय. imaginary fear; one of the seven kinds of fear. ठा० ७, १; समा० ७; भगा० ७, १; प्रब० १२३४;

**प्रक्य.** त्रि० ( अकृत ) न करेतु. बिना किया हुआ. Unperformed. परह० २, १; ( २ ) साधुने उद्देशीने न भनावेतु. साधु के उद्देश्य से न बनाया हुआ. not specially prepared for ascetics. “अक्यमकारियमसंकायियमणाहुयं ” भगा० ७, १; क० प० २, ५०; पंचा० १२, ४१; —आगम. पुं०(—आगम) अकृताभ्याथभन; न करेता पाप वरेना इग्नी प्राप्ति; न्यायशास्त्रप्रसिद्ध ऐक हृषि. बिना किये हुए पाप आदि के फल की प्राप्ति; न्यायशास्त्र का माना हुआ एक प्रसिद्ध दोष. experiencing the fruits of sins etc. without committing them; A well-known fallacy in Nyāya or logic. विशेष० १५; १७; —करण. न०(—करण) न करवायेत्य कामनुं करवुं ते. न करने योग्य काम को करना. performance of an improper action. भत्ता० ७६; —प्रायद्वित्त. त्रि० ( —प्रायश्चित्त ) नेत्रे प्रायश्चित्त नथी कीदूं ते. जिसने प्रायश्चित्त न किया हो वह. one who has not atoned for his sins. निर्ती० १०, १४; —पुरुय. त्रि०(—पुरुय) पुरुथथी रहित होय ते; नेत्रे पुरुय कर्तुं नथी ते; अकृतपुरुय. जो पुरुय से रहित हो वह; जिसने पुरुय नहीं किया हो वह; अकृतपुरुय. one who has not earned religious merit by holy actions. “अक्यपुरणजग्मणो-रहाविव चित्तिज्ञमणी ” नाया० २; १; १२; १६; निर० १, १; —स्त्रक्षण. त्रि०(—करण)

भराब लक्षण् वाणु; अपलक्षण्. बुरे लक्षण वाला; कुलक्षणा. a man possessed of ominous signs or marks. राय० २७६; —संभोग. पुं० (—सम्भोग) न करेत ( धर्म अधर्मने ) सम्भोग-प्राप्ति. न किया हुआ ( धर्माधर्म का ) सम्भोग-प्राप्ति. experiencing the results of action not done. विशेष० ३२३१; —सुय. पुं० ( —कृत ) अगीतार्थ; शास्त्रवेता नहि. अगीतार्थ; शास्त्रज्ञान रहित. one not acquainted with the Śāstras or scriptures. वब० ४, ६;

**अक्यरण्णुया.** त्रि० ( अकृतज्ञ-कृतमुपकारं पर सम्बन्धिनं न जानातीत्यकृतज्ञः) कृत० ८८; करेताने नहि जाणुनार. कृतम्; किये हुए उपकार को भूलजाने वाला. Ungrateful. नाया० ६; ठा० ४, ४;

**अक्यरण्णुया.** त्रि० ( अकृतज्ञता ) कृत० ८८; करेता उपकारने नहि जाणुनु ते. कृतमता; किये हुए उपकार को भूल जाना. Ingratitude. “ चउर्हि ठार्येहि संते गुणे गासेज्जा तंज्हा—कोहेणं पटिणिवेसेणं अक्यरण्णुयाए मिच्छत्ताहिणिवेसेणं ” ठा० ४, ४;

**अक्यतथ.** त्रि० ( अकृतार्थ ) अकृतार्थ-कृतार्थ नहि; निष्कल. अकृतार्थ; निष्कल. Unsuccessful; unhappy. राय० २७६; नाया० १२;

**अकरंदुय.** त्रि० ( अकरण्डक-अविद्यमानं मांस-लतयाऽनुपलब्धमायं करण्डकं पृष्ठवंशा-स्थिकं यस्य देहस्याऽसावकरण्डकः ) नेत्रा धांसानां हाउकां मांसथी लर्दा होवाथी अहार देखातां नथी तेतुं ( शरीर ). जिस शरीर के रीढ़ ( पृष्ठवंश ) की हड्डी मांस से भरी हुई होने से बाहिर नहीं दिखाई देती हो. A body of which the spinal cord is not visible owing to excess of flesh.

‘अकरंहुयकणगस्थगयिमलसुजाययिरुवद्य-  
देहधारी’ ओव० १०;

**अकरण.** न० ( अकरण ) न करनु; न आचरनु.  
नहीं करना; आचरण में नहीं लाना. Omitting  
to do. ओव० ३५; भग० ६, १; वब० १, ३७;

**अकरणओ.** अ० (अकरणतस्) न करना आश्रीने.  
नहीं करने के सम्बन्ध में. On account of  
omitting to do. भग० १, १;

**अकरणया.** ली० ( अकरणता ) न आचरनु;  
न सेवनु. आचरण नहीं करना; सेवन नहीं  
करना. Omitting to do. “ अकरणयाए  
अबभुठित्पृष्ठ ” ठा० ३, १; “ सज्जमायस्त अक-  
रणयाए उभश्चो कालं ” आव० ४, ६; भग०  
८, ६; १५, १; वेय० ४, २५;

**अकरणि.** ली० ( अकरणि ) आङ्गेश वयनथी  
काम करनानी ना पाउती ते. चिक्षाकर काम करने  
से इनकार करना. Emphatic prohibi-  
tion of an action. परह० १, १;

**अकरणिज्ज.** त्रि० ( अकरणीय ) नहि करना।  
योग्य कर्त्त्व; अकर्त्त्व. न करने योग्य;  
अकर्त्त्व. Improper not fit to be  
done. “ मिच्छ्रति वा वितहति वा असच्छति  
वा अकरणिज्जति वा एगद्वा ” आया० १, १,  
७, ६१; २, १, ३, १५;

**अकरित.** व० कृ० त्रि० ( अकुर्वत् ) न करतो; न  
आचरतो. न करता हुआ; आचरण न करता  
हुआ. Not doing. “ भयंता अकरिता य  
बंधमोक्खपद्यिण्णो ” उत्त० ६, १०; पंचा०  
५, ४६;

✓ **अकरिसु-कृ०धा०भ० उ० ए०** (अकार्वम्) मे-  
क्यु. मैंने किया. I did. ठा० ३, १;

✓ **अकरिस्सं-कृ०धा०भ०उ०ए०** (अकार्वम्) मे-  
क्यु. मैंने किया. I did. आया० १, १, १,  
५०;

**अकरेमाण.** व० कृ० त्रि० ( अकुर्वत् ) न करतो; न  
आचरतो. न करता हुआ; न आचरता हुआ.

Not performing. नाया० ६; भग०  
१५, १; अणुजा० २७;

**अकलंक.** त्रि० ( अकलङ्क ) क्लंक-देष्ट रहित.  
कलंक-दोषहीन. Stainless; faultless.  
पंचा० ६, २०,

**अकलुण.** त्रि० (अकलण-नास्ति कलणा यस्य यच्च  
वा ) निर्दृष्ट; द्यावग्रन्थने. दयाहीन; निर्दृष्टी.  
Merciless; cruel. नाया० ६; परह० १, ३;

**अकलुस.** त्रि० ( अकलुष ) क्लेधादि क्लुषभाव  
रहित; देष्ट रहित. क्लेधादि कलुषभाव रहित;  
द्वेष रहित. Not turbid; pure; clear;  
free from anger hatred etc.

अंत० ७;

**अकलेवर.** पु० ( अकलेवर ) शरीर रहित;  
सिद्धभगवान्. शरीर रहित; सिद्धभगवान्. One  
having no physical body; a Si-  
ddha. उत्त० १०, ३५;

**अकसाइ.** पु० ( अकशायिन्-कशाया न विद्यन्ते  
यस्यासावकशायी ) क्लेधादि क्लाय रहित; अक-  
प्यायी. अकशायी; क्लेधादि विकार रहित. Free  
from passion. “ अकसाई विग्रगेही  
य सहस्रेसु अमुच्छिए क्लाई ” आया० १,  
६, ४, १५; भग० ६, ४; ६, ३१; जीवा० १;  
प्रब० १२६२;

**अकसाइय.** पु० ( अकशायिक ) क्लाय रहित.  
शुष्पु; अक्लायी. कशायरहित जीव; अकशायी.  
A soul free from Kaśāya i. e.  
passions such as anger etc. भग०  
८, ३;

**अकसाय.** त्रि० ( अकशाय ) क्लायनो सर्वथा  
उपशम-क्षय करनार. कशाय का सर्वथा उपशम  
-क्षय करने वाला. Entirely free from  
passions, anger, hatred etc. “ अक-  
साय अहक्षयं छुउभृथस्स जिणास्स वा ”  
उत्त० २८, ३३; जं०प० २, ३८; —मोहणिज्ज.

न० (-मोहनीय) हास्यादि नोकाशयरूप भेदनीय कर्मनीय प्रकृति. हास्यादि नोकाशयरूप मोहनीय कर्म की प्रकृति. the Karmic nature of Mohaniya Karma (deceiving Karma) in the shape of Nokashaya (nine minor faults) such as laughter etc. उत्त० ३६, १०;

**अक्षया.** त्रिं० ( अक्षयादिन ) जुओः ‘अक्षया’ शब्द देखो ‘अक्षया’ शब्द. Vide ‘अक्षया.’ भग० १८, १; २५, ६; २६, १; ३०, १; ४०, १;

**अक्षयिण.** त्रिं० ( अक्षयिण ) अपूर्णः; अधूरः. अपूर्णः; अधूरा. Incomplete; falling short of perfection. अणुजो० ६०; पंचा० ६, ४२; ( २ ) त्रिं० अपरिपूर्ण-अदृत्स्वरूप-अन्तर्गत-अन्तर्गत-परमाणुसभूत्या भाँडीने यावत् अनंतं परमाणुसभूत्या थे येदै परमाणु अेक परमाणु आणेहो होय ते अदृत्स्वरूप; अनी रीते कृमशः ऐ त्रय चार परमाणुओः आणि कृतां छेवट द्विप्रदेशिक २५४ परमाणु अदृत्स्वरूप क्षेत्राय छे. अपरिपूर्ण-अकृत्स्वरूप-जिससे बहुत बडा दूसरा स्कंध है वह: द्विप्रदेशिक ( दो प्रदेश वाला ) परमाणु-स्कंध से लेकर एक कम अनंत परमाणु तक के स्कंध तक अकृत्स्वरूप हा कहलाते हैं. any integral part which falls short of perfection by one to innumerable atoms in relation to the whole. विशेष० ८६७;—पवस्तय. पुं० ( -प्रवर्तक-अकृत्स्वरूप-परिपूर्ण संयमं प्रवर्तय-यन्ति विद्युधसि ये ते तथा ) अेक देशी निवृत्ति पाभेत. एक देश से निवृत्ति पाया हुआ. one partially following the practice of self-control. “अक्षयिणपवस्तयायं दिरयाविरयाण पृस रात्रु जुतो संसारपरयण-

करयो दद्वरथा कूवदिहंतो” पंचा० ६, ४२; अक्षयिणा. ली० ( अकृत्स्वरूप ) आरोपणानो-प्रायश्चित्तनेहो योथा प्रकार, नेमां वधारे तप समार्थ शके ते प्रायश्चित्त. प्रायश्चित्त का चौथा प्रकार, जिसमें अधिकतप का सम्बोध होतके वह. The fourth variety of expiation; expiation with a larger scope for severe austerity. सम० २८; ठा० ५, २;

**अकाहय.** पुं० ( अकायिक-नास्ति कायो येषां ते अकायास्ति एवाकायिकाः ) कायारहित शुद्धि. सिद्धभगवान्. A emancipated soul; a Siddha. भग० ८, २; जीवा० ६; पञ्च० ३;

**अकाम.** पुं० ( अकाम ) धृष्टानो अभावः; धृष्टा नहिं; अनिष्टा. इच्छा का अभाव; अनिष्टा. Absence of desire; desirelessness. “ तं च होउज अकामेण विमरण पडिच्छियं ” दस० ५, १, ८०; ( २ ) नमां सर्वधृष्टानी निवृत्ति थाय छे ते; भेदा. जहाँ समस्त इच्छाओं का निवृत्ति होता है वह स्थान-मोक्ष. a state characterised by the extinction of all desires. i. e., final bliss. “ संथवं जहेज अकामकामे ” उत्त० १५, १; ( ३ ) त्रिं० विष्णु-कामना सहित. विषय-कामना: रहित. free from passions. भग० ७, ७६, २६३; ११, ११;—काम. त्रिं० ( -काम-त विद्यते कामस्व-कामोऽभिज्ञातो यस्य सोऽकामकामः ) विष्णवांछना रहित; विष्णवांछना वगरनो. विषयभोग की इच्छा रहित. free from sexual desire. “ संथवं जहेज अकाम-कामे ” उत्त० १५, १;—किञ्च. त्रिं० ( -कृप-कमनं काम इच्छा, न कामोऽकामस्वेन-

कृत्यं कर्तव्यं यस्यासावकामकृत्यः ।) धृष्टिा विना क्राम करना। बिना इच्छा के काम करने वाला. acting without any desire ( of gain etc. ). सूय० २, ६, १७; —छुहा. ल्ला० (—तृष्णा ) निर्जरानी धृष्टिा विना प्रतंत्रपथे भुभ वेद्धी। निर्जरा की इच्छा विना पराधीनता से भूख सहन करना. involuntary endurance of hunger without any desire to put a stop to the fructification of Karma. भग० १, १;—णिगरण. त्रि० (—निकरण) ल्लमां अनिर्जा—धृष्टिनो अभाव निकरण—कारण छे अनुं. जिसमें इच्छा का अभाव कारण हो वह. having its origin in absence of desire. “एष्य अंधा मूढा तमप्पविटा तमपदलमोहजाल पलिछुका अकामनिगरणं वेयणं वेयंताति” भग० ७, ७;—णिज्जरा. ल्ला० (—निर्जरा ) निर्जरानी धृष्टिविना पराधीनपथे भुभतरस वगेरे सहन करना। ते. निर्जरा की इच्छा विना पराधीनता से तुषा तुषा आर्द का सहन करना. the act of enduring hunger, thirst etc. from compulsion without any desire to put a stop to the fructification of Karma. भग० ८, ६; ठा० ४, ४;—तरहा. ल्ली० (—तृष्णा ) निर्जरानी धृष्टिा विना प्रतंत्रपथ तृष्णा वेद्धी। बिना निर्जरा की इच्छा के पराधीनता से तुषा सहन करना. involuntary endurance of thirst, without any desire to purge away the fruits of Karma. भग० १, १;—निज्जरा. ल्ला० (—निर्जरा ) जुआ० “अकामणिज्जरा” शब्द. देखो “अकाम-णिज्जरा” शब्द. vide “अकामणिज्जरा.”

कृत्यवास ) निर्जरानी धृष्टिा विना डेढना द्याणी अस्त्र्य पाणी ते. बिना निर्जरा की इच्छा के किसीके दबाव से ब्रह्मचर्य का पालन करना. compulsory celibacy, without any desire to purge away the fruits of Karma. भग० १, १;—मरण. न० (—मरण-अकामेन अनीपितत्वेन त्रियतेऽस्मित्यकाम-मरणम् ) वालभरण; वालभावे-अतानपथे विष्य आहिनी आसक्तिभां थंतुं भरण. बाल मरण; बालभाव-अज्ञानभाव ( विषय आदि की आमांक ) मेरण. Lit. involuntary death i. e., death after leading an unvirtuous life. “बालाणं च अकामं तु, मरणं असद्य भवे ” उत्त० ५, ३; अकामश्च-य. त्रि० (अकामक) जुआ० “अकामक” शब्द. देखो “अकामक” शब्द. Vide “अकामक”. नाया० १६; १६;

**अकामक.** त्रि० (अकामक) क्रमना-धृष्टिा रहिन; विषय वासना रहिन. कामना रहित; इच्छा राहित; विषयवासना रहित. Free from desire. “अकामकं परिकम्मं को ते वारिउ-मरिहति” सूय० १, ३, २, ७; नाया० १;(२) अन-भिक्षपृथीय; धृष्टिवा योग्य नहि. अनभिलषणाय; नहीं चाहने योग्य. undesirable. परह० १, १;

**अकाममरण.** व० कृ० त्रि० (अकाममान-न काम-यते असावकाममानः) धृष्टिा न करते. इच्छा नहीं करता हुआ. Not desiring. नाया० १६;

**अकामिय.** त्रि० (अकामिक) निरबिलापी; धृष्टिा वगरनो. निरभिलापी; बिना इच्छा का. Free from desires. “तहेव संतातता परितंता अकामिया” विवा० १, १;

**अकामिय. त्रि०** (अकाम्य) न धृष्टिवा योग्य; अनिष्ट. न चाहने लायक; अनिष्ट. Undesirable; evil. राय० २६२;

**अकामिया.** क्षी० ( \* अकामिता-अकामता )  
अनिच्छा; धृष्टानो अभाव. अनिच्छा;  
इच्छा का अभाव. Absence of desire.  
“अकामियाए चिरांति दुखं” परह० १, ३;  
**अकाय.** पुं० ( अकाय ) अत्यारहित शूष्प; सिद्ध  
भगवान्. शरीररहित जीव; सिद्धभगवान्.  
Liberated soul; a Siddha. ठा० २, ३;  
**अकारश्र.** त्रि० ( अकारक ) अपृथ. अपथ्य.  
Unwholesome ओघ० नि० २०३;  
नाया० १३; ( २ ) न करना-अकर्ता; किया  
शून्य. नहीं करने वाला; अकर्ता-किया शून्य.  
not doing; devoid of action.  
“एवं अकारश्रो अप्पा एवं ते उ पग्निभया”  
सूय० १, १, १३; परह० १, २;  
**अकारग.** पुं० ( अकारक ) युग्मे। “अकारश्र”  
शब्द. देखो “अकारश्र” शब्द. Vide  
‘अकारश्र.’ परह० १, २;  
**अकारि.** त्रि० ( अकारिक ) नहि करना-वालों;  
नहि करना-वाला. A do-nothing; a lazy fellow. “अकारिणो त्थ  
बजमंति मुर्क्षद् कारणो जणो” उत्त० ६, ३०;  
**अकारिय.** त्रि० ( अकारित ) न करने-हुं. नहीं  
कराया हुआ. Not caused to be done.  
भग० ७, १; परह० २, १;  
**अकाल.** पुं० ( अकाल ) अनवसर; उपभृत.  
अनवसर; असमय; बुरा वर्षत. Improper  
time; unfavourable time. नाया०  
८; १५; १६; आया० १, २, १, ६२; दसा० १,  
१३; आव० ४, ७; ( २ ) दुष्काल; दुष्काल.  
दुष्काल; अकाल. famine. “अका-  
ले वरिसह” ठा० ७, १; ( ३ ) गोयरी आहिनो  
निषिद्धकाल; क्वेगा. गोचरी ( भिज्ञा ) के लिये  
निषिद्ध काल; कुसमय. prohibited time  
for begging food etc. “अकाले  
चरसि भिज्ञु काळं न पठिलोहरि” दस० ५,  
२, ५; —चारि. पुं० ( -चारिक ) क्वेगा—

उपभृते गोयरी आहि करना-वाला. कुसमय में  
गोचरी ( भिज्ञा ) आदि करने वाला. one who  
begs food etc. at the prohibited  
time. दस० ५, २, ५; —दोहल. पुं०  
( -दोहद ) क्वेगा-ये उत्पन्न थतो दोहल-गर्भिणी  
स्त्रीने थती धृष्टा. कुसमय में गर्भिणी ली को  
उत्पन्न होने वाली इच्छा-दोहला. the longing  
of a pregnant woman at an  
improper time. नाया० १; —पडियोहि.  
त्रि० ( -प्रतिबोधिन ) क्वेगा-ये-रात्रे जग-  
ना-र-इना-र. कुसमय में-रात्रि में जगने वाला-  
फिरने वाला. a person who keeps  
late hours.. “मिलकल्पणि अण्णारियाणि  
दुस्सण्णपाणि दुप्पण्णवणिजाणि अकाळ  
पठिलोहिणि” आया० २, ३, १, ११५; —पढणा.  
न० ( -पठन ) अकाले भजनु-वांचनु ते. अ-  
समय में पढ़ना-बांचना. studying at a  
prohibited time. पंचा० १५, २८;  
—परिभोइ. त्रि० ( -परिभोजिन ) रात्रि  
भोजन करना-वाला; रात्रेभाना-र. रात्रिभोजन  
करने वाला. taking one's food at  
night. आया० २, ३, १, ११५; —परि-  
हीण. न० ( -परिहीन-कालविलम्बो न  
विद्यते यत्र ) धृष्टु जरूरी-शीघ्र; तत्काल;  
वग्र विद्यन्ते. तत्काल; बिना विलंब; बहुत  
जलदी; शीघ्र. instantly; immediately.  
“अकालपरिहीणं चेव सुरियाभस्स अंतियं  
पाउच्चमवह” नाया० १६; —मेह. पुं०  
( -मेघ ) अकाले वरसाद; भावु. अकाल  
में-असमय में वर्षा. rain out of season.  
नाया० १; —वासि. पुं० ( -वर्धिन ) भाव-  
ठाने वरसाद; उपभृते वरसना-र. कुसमय की  
वर्षा; असमय में वर्षा. rain out of sea-  
son. ठा० ४, ४; ( २ ) वग्र जरूरीआते  
दैनांदि देना-र ( लाक्षणिक ). बिना आवश्यकता।  
के दान देने वाला. a person giving

aims without any need on the part of the recipient ( fig. ). ठा० ४, ४;—सज्जायकारद्वा० पु० (—स्वाध्यायकारक) क्षेपते स्वाध्याय करनार; अकाले भग्नार; असमाधिनुं १५ मुं स्थानक सेवनार. कुसमय में स्वाध्याय करने वाला; अकाल में पढ़ने वाला; असमाधि के १५ वे स्त्रीनक का पालन करने वाला. one who studies scriptures at an improper time; one who exposes himself to the 15th source or cause of lack of concentration. सम० २०;—समय. पु० (—समय) विपरीत समय. विपरीत समय. adverse time. नाया० १;

अकालिय. त्रिं ( अकालिक ) वृभत पहुँचन्या पहुँचान्तु; अकाले प्राप्त थयेद. समय से पहिते का; असमय में प्राप्त. Premature; untimely. “ रूबेसु जो गिद्धिमुवेह तिष्वं अकालियं पावह से विशासं ” उत्त० ३२, २४;

✓ अकार्षी. कृ० धा० भू० प्र० ए० ( अकार्षीत् ) तेषु कुर्युः उसने किया. He did. सम० ३; सू० १, ५, २, २३; नाया० ८; दसा० ६, ६;

अकाहल. त्रिं ( अकाहल-कुस्तितं इलतीति काहलं न काहलं विद्यते यस्यासौ ) स्पष्ट अक्षर भाषी. स्पष्ट अक्षर कहने वाला; स्पष्टाक्षर भाषी. Speaking distinctly. परह० २, २;

अकिञ्चण. त्रिं ( अकिञ्चन ) किञ्चन-प्रतिभूतं क्राकृ धनकनकादि रहित; निष्परिग्रही. प्रतिबंधकारक-धनकनकादि रहित; निष्परिग्रही. Not possessed of worldly effects; poor. दस० ६, ६६; द८४; उत्त० २, १४; नाया० १०; परह० २, ५; ओव० १०; १७; प्रव० ६४७;

अकिञ्चणण. त्री० ( अकिञ्चनता ) निष्परिग्रहि पत्तु. निष्परिग्रहण. Freedom from possession of worldly effects.

‘ चउन्निहा अकिञ्चणणा परश्णता तंजहा-मण-

आकिञ्चणणा वहशकिञ्चणणा कायचकिञ्चणणा उवकरणाकिञ्चणणा ” ठा० ४, ३;

अकिञ्चन० (अकृत्य) साधुने न करना ये। अ. साधु के न करने योग्य. A thing not fit to be done by an ascetic. पंचा० १५, २; भग० १, १०;—ठाण. न० (—स्थान) आरिन-ना भूक्त गुणादि लागे तेनुं अकृत्यनुं स्थान. चारित्र के मूलगुणादि को भंग करने वाला अकृत्य का स्थान. cause of an improper action violating the chief principles of right conduct. भग० ८, ६; १०, २; वर्व० १, ३७;

अकिञ्ज. त्रिं ( अक्रेय ) भरीद्वाने ये। अ. नहि. न खरीदने योग्य. Unfit to be purchased. “ सुक्षीयं वा सुविक्षीयं अकिञ्जं किञ्जमेव वा ” दस० ७, ४७;

अकिट्ट. त्रिं (अकृष्ट) नहि ऐडेलुं; न ऐटेलुं. बिना जोता हुआ, बिना खोदा हुआ. Untilled; not dug. भग० ३, २;

अकित्तण. न० (अकीर्तन) अपीर्तन-गुणाभ वभाशु न कर्त्तव्यं ते. कीर्तन नहीं करना; गुण प्राप्त का वर्णन न करना. Not praising the merits. उत्त० ३२, १५;

अकित्ति. त्री० ( अकीर्ति ) अपकीर्ति; अपयश. अपकीर्ति; बुराई; अपयश; निदा. Infamy; disrepute. गच्छा० ५५;—कर. त्रिं (—कर) अपकीर्ति करवावाणे. अपकीर्ति करने वाला; बुराई करने वाला. disgraceful; defaming. भग० ६, ३२;—कारथ. त्रिं (—कारक) अपकीर्ति करवावाणे. अपकीर्ति-बुराई करने वाला. disgraceful; defaming. भग० १५, १;—जणाअ. त्रिं (—जनक) अपकीर्ति करना. अपकीर्ति करने वाला. disgraceful; bringing on disgrace; causing ill fame. गच्छा० ५५;

अकिस्तिम. त्रिं ( अकृत्रिम ) असली; भूत;

स्वाभाविक; कुदरती; भनुष्पनी इति नहि अनेदुः असली; मूल; स्वाभाविक; कुदरती; आकृतिक; मनुष्यादि की कृति से नहीं बना हुआ. Natural; not artificial. जं. प० १, १२; विशो ० ४७५;

अकियाण्. सं० क० अ० (अकृत्वा) न करने; कर्त्ता वगर. बिना किये. Without doing; without having done. ओव० १४२; अकिरिय. पुं० ( अक्रिय ) कृषिकी, अधिकृतिकी आदि सावध छिया रहित. शरीरादि की सावद्य क्रिया-पापक्रिया रहित. Free from sinful actions connected with the body or with the use of weapons etc. भग० ११, १; २५, ७; अणुजो ० १५१; ( २ ) ल्ल० अवादि पदार्थो नो अस्तीकार; नास्तिकपाणु. जीवादि पदार्थो का अस्तित्व न मानना; नास्तिकपना. atheism; denying the existence of the soul etc. “किरियं च रोयए धीरे; अकिरियं परिवज्जणं” उत्त० १८, ३३; ( ३ ) त्रि० अवादिना अस्तित्वनु उत्थापन करनार; नास्तिक. जीवादि के अस्तित्व का खंडन करने वाला; नास्तिक. an atheist; one who denies the existence of the soul.

“ अकिरिय राहु मुहु दुद्दरिल ” नंदो ० ६; सम० १; —आद्य. पुं० (—आत्मन्) आत्माने अकृथ-छियाविनानो भाननार सांभ्य दर्शन वगेरे. आत्मा को अक्रिय-क्रियारहित मानने वाला. a school of philosophy holding that the soul is not a doer; e.g. the Sāṅkhya System.

“ जं केह लोगमि उ अकिरियाद्या, अन्नेण पुढा शुद्धादिसंति ” सूय० १, १०, १६; —बाह. पुं० (—बादिन्) अवादि पदार्थना अस्तित्वनो अप्रकाप करनार; अकृयावादी; नास्तिक; ३३३ पार्षदीभान्ता। ८४भा लोदना अकि-

यावादी. जीवादि पदार्थो के अस्तित्वका अपलाप करने वाला; अकियावादी; नास्तिक; ३६३ पार्ख-डियों में से ८४ वें प्रकार का अकियावादी. an atheist; one belonging to the 84th of the 363 kinds of heretics. शो किरियमाहंसु अकिरियवाद्” सूय० १, १२, ४; भग० ३०, १; ठा० ४, ४; दसा० ६, ३; प्रव० १२०२;

अकिरिया.ल्ल० (अक्रिय) दुष्ट छिया; भिष्यात्व आदि युक्त अनुष्ठान. दुष्ट क्रिया; भिष्यात्व आदि सहित अनुष्ठान. Heretical action; irreligious action; wicked action.

“अकिरिया तिविहा परणसा तंजहा” ठा० ३, ३; भग० २, ५; ७, २; ८, ६; ३५, १; ४१, १; ओव० ४, ८; सम० १; सूय० २, १, १७;

अकीय. त्रि० (अकीत) साधुना उद्देश्यं नहि भर्तिव. साधु के लिये न खरीदा हुआ. Not purchased with the object of giving to an ascetic. भग० ७, १; अकीरमाण. त्रि० ( अकुर्वाण ) न करतो. बहीं करता हुआ. Not doing भग० १५, १; अकील. त्रि० (अकीक) भीका विनानु. कीले बिना का. Without a nail; having no nail. पंचा० ७, १०;

अकुओभय. त्रि० ( अकुतोभय—न विद्यते कुतः कस्माद् भयं यस्य) अनें क्रोधी भय न थी ते. जिसको किसीका भी भय न हो वह. Quite fearless. “ आयाए अभिसमेका अकुओ भयं” आया० १, १, ३, १२४;

अकुक्कुञ्ज. त्रि० ( अकुक्ज-कुसितं कृति . आकन्दतीति कुक्जो न कुक्जोऽकुक्जः) दुः४-ना उद्गार विनानो; हायवेय-आकृन्दन रहित. दुःख के उद्गार-हायविलाप-आकन्दन रहित. Unlamenting; free from groans. “अकुक्कुञ्जी तरथं हियासपृजा” उत्त० २१, १८;

**अकुकुय-अ.त्रि० ( अकुकुय )** मुखविकार रहित. सुखविकार रहित. Free from distortion of the face. आया० १, ६, ४, १४;  
 (२) अशिष्ट-भाँड़ चेष्टा विनानो। अशिष्ट-असभ्य-भाँड़चेष्टा रहित. free from vulgar gestures. “ अकुकुओ णिसाएज्जा शय वित्तासए परं” उत्त० २, २०;

**अकुटिल.त्रि० ( अकुटिल )** वांड वगरनुं, आंटी धूंटी वगरनुं; सीधुं; लुच्याध वगरनुं; भायारहित; सरद. कुटिलता रहित; सरल; माया रहित; साधा; निकपट. Straight; even; straightforward. ओव० २१; भग० ६, ३३; जंवा० ३, ३;

**अकुतृहल.त्रि० ( अकुतृहल )** डुपूख-आश्र्य वगरनो; धृद्धन्यादि विद्याना यमत्कार ज्ञेया के अतावदानी धृष्टा विनानो। कुतृहल रहित; आश्र्य रहित; इन्द्रजालादि विद्या के चमत्कार बताने अथवा देखने की इच्छा से रहित. Devoid of curiosity; free from a desire to see jugglery oneself or to show it to others. “ नियावित्ति अस्वते अमाई अकुतृहले ” उत्त० ३४, २७; ११, १०;

**अकुत्थ.त्रि०(अकुत्थ)** शीलरूप सुगंध रहित. शीलरूप सुगंध रहित. Devoid of the sweet smell of good or right conduct. पंचा० १४, ३४;

**अकुमार.पुं०(अकुमार)** कुमार-इंवारो। नहि ते. जो कुंवारा नहीं वह; विवाहित पुरुष. A married person. सम० ३०;

**अकुमारभूआ-य.त्रि० ( अकुमारभूत )** गृह-स्थानीयी; परेषुलो। विवाहित; जो कुंवारा न हो; यहस्थानीया। A householder. “ अकुमारभूए जे कई कुमारभूएतिहवए ” सम० ३०; ( २ ) आलश्वस्यारी नहि ते.

जो बालब्रह्मचारी न हो. one not a celibate from birth. सम० ३०;

**अकुव्वमाण.व०कृ०त्रि०(अकुव्वमाण)** न करते. नहीं करता हुआ. Not doing. “ धर्मियं तु पुणाह अकुव्वमाणो ” उत्त० १३, २१;

**अकुसल.न० ( अकुसल )** अशुल; साधु; भराप; अमंगल. अशुभ; अमंगल. Inauspicious; bad. ओव० १६; परह० १, २; (२) त्रि० अशुषु; वक्तान्यावक्तान्यनी समज विनानो। अजाण; वक्तव्यावक्तव्यमूढ. ignorant; indiscreet. प्रव० ६०३; —कर्मोदय. पुं० (—कर्मोदय) अशुल कर्मनो उद्य. अशुभ कर्मो का उदय. rise or maturity of bad Karma. पंचा० १, ३५; —जोग. पुं० (—योग) अशुभयोग भन, वयन अने कायानो व्यापार. अशुभयोग-मन, वचन और काया का व्यापार. evil activities of mind, tongue and body. प्रव० ६०३;

—निवृत्ति.स्त्री० (—निवृत्ति) अशुभयोग-पापना व्यापारथी निवृत्ति. पाप के व्यापार से निवृत्ति. freedom from or abstinence from sinful operations (of mind, speech and body). प्रव० ६०३;

—मण. न० (—मनस्) आर्तध्यानादि युक्त भन. आर्तध्यानादि सहित मन. a troubled mind. भग० २५, ७; —वई.स्त्री० (—वाच) अमंगल वयन; अशुल वयन. अमंगल वचन; अशुभ वचन. improper speech; inauspicious words. भग० २५, ७;

**अकुसील.त्रि०(अकुसील)** शुद्धाचारी; सुशील. शुद्धाचारी; सुशील; अच्छे. चाल चलन वाला. Of unblemished conduct; “ अकुसीले सया भिक्षु ” सूत्य० १, ६, २८; .

**अकुहय. त्रि० ( अकुहय )** धृद्धन्यादि डुपूख रहित. इन्द्रजालादि कुतृहल रहित. Free from curiosity concerning jug-

glory etc. “ अलोकुए अकुहए अमाई ”  
दस० ६,३, १०;

**अकूर.**त्रि० (अकूर) कूरता रहित. कूरता रहित.  
Free from cruelty. प्रव० १३७०;

**अकेवल.** त्रि० ( अकेवल-न विद्यते केवल-  
मस्मिन्नित्यकेवलम् ) अशुद्ध. अशुद्ध. Im-  
pure. “ एस ठाणे अणारिए अकेवले  
अप्पडिपुळे ” सूय० ३,२,५७;

**अकेवलि.** पुं० ( अकेवलिन् ) डेवलज्ञानी नहि;  
सर्वज्ञ नहि. केवलज्ञान रहित; असर्वज्ञ. Not  
possessed of perfect knowledge; not omniscient. भग० १५, १;

**अकोउहङ्गा.**त्रि० (अकुनूहल ) नाटकादि कुतूहल  
रहित. नाटकादि कुतूहल रहित. Free  
from curiosity concerning dra-  
mas etc. “ अकोउहङ्गे य सया स मुज्जो ”  
दस० ६, ३, १०;

**अकोप्प.** त्रि० (अकोप्प) देखा योग्य नहि;  
अदृष्ट्युधीय. कोप करने के अयोग्य; अदृष्ट्याया. Unblamable; faultless. “ अकोप्प  
जंघजुयला ” जीवा० ३,३; परण० १,२;

**अकोविय.**त्रि० (अकोपित) दृष्ट्यु रहित. दृष्टण-  
रहित. Faultless. “ आरियं उवसंपज्जे, सब्ब  
धम्ममकोवियं ” सूय० १,८, १३;

**अकोविय.**पुं० (अकोविद) अपेक्षित; शब्द ऐध  
रहित. पांडित्यरहित; शास्त्रज्ञान रहित. Illiterate;  
ignorant of the scriptures. दस० ६,२,२३; “ मूढे णेयाणुगामिए दोवि एए  
अकोविया ” सूय० १, १, २, १८;

**अकोसायंत.** व० कृ० त्रि० (अकोशायमान)  
भालेदुः; विकासभेदुः; प्रभुक्षित. विकास पाया  
हुआ; प्रफुक्षित. Full-blown. ओव० १०;  
जीवा० ३, ३;

**अकोसिया.**लां० (\*अकोशिका) ऐ नामनी ऐक  
भिक्षाध-सुभूषी. एक प्रकार की मिर्चाई. A kind  
of sweet-meat. जीवा० ३, ३;

**अकोहण.** त्रि० (अकोधन) देख वगरानुःगुस्सा  
रहित. कोध रहित; गुस्सा रहित. Free from  
anger. “ अकोहणे सज्जणे तवस्सी ” सूय०  
१, १०, १२;

**अकंत.**त्रि० ( अकान्त ) अप्रिय; कांति रहित,  
अप्रिय; कांति रहित. Devoid of lustre;  
unpleasant. सूय० १, १, ४, ६; नाया० ८;

**अकंत.**त्रि० ( आकान्त ) परित; दृष्ट्येष्व;  
पराभव पामेष्व. पीडित; दबाया हुआ; पराजित.  
Afflicted; overpowered. “ सब्बे  
अकंतदुख्या य ” सूय० १, १, ४, ६; पिं० निं०  
भा० ३७; (२) पुं० परन्ते पृथ्वी साथे संधर्घण्य  
थतां नीक्षते वायु, देखे अन्तिया वायु कुहेवाय  
थे. पाँव का पृथिवी के साथ संधर्घणा होने से  
उत्पन्न होने वाला अचित ( जीव रहित ) वायु.  
the inanimate wind produced  
by the contact of the foot with  
the ground. ठा० ५, ३;

**अकंद.** पुं० ( आकन्द ) २३नु-रैनु तेदृःभनी  
भूम पात्री ते. राना; दुःख से चिह्नाना. Cry-  
ing. सु० च० ८, ७६; प्रव० ४४०;

**अकतूवरी.** लां० (अकतूवरी) ऐक जाती  
गुण्ठननरपति. एक प्रकार की गुच्छ वनस्पति  
A kind of vegetable growth.  
पञ्च० १;

**अकबौदिया.** ली० (अकबौन्दिका) ऐक जाती  
वेल. एक जाति की वेल. A kind of creep-  
er. पञ्च० १;

✓**अक्रम.** धा० I. (आक्रम) आक्रमण करनु;  
पराभव करने। आक्रमण करना; पराभव करना.  
. To assault; to defeat. ( २ ) परगने  
जगीन साथे भस्त्रानु. पैरों से जगीन पर  
मसलना. to trample down.

**अक्कमेज्जा.** वि०-भग० १४, ३;  
**अक्कमित्ता.** सं० कृ० भग० १४, ३;  
**अक्कमिडं.** हे० कृ० सु० च० १, २८७;

**अक्षिणी.** त्रि० ( अक्षिणी ) अभाधित; कठेशं रहित; स्वस्थ. बाधा रहित; क्लेश रहित; तंदुरुस्त. Sound; healthy. भग० ३, २; जं० प० २, २६;

**अक्षिकय.** त्रि० ( अक्षिय ) छिया रहित; निष्ठिय. किया रहित; निष्क्रिय. Inactive; free from action. विशे० ३२;

**अक्षुष्ट.** त्रि० ( आक्षुष्ट ) कठोर वचनथी—आङ्काश वचनथी ऐलावेल. कर्कश-कठोर वचन से बुलवाया हुआ. Called out with harsh words. असहं बोसहुचतदेहे अक्षुष्टे व हए व लूसिए वा ” दस्ठ० १०, १, १३;

**अक्षेत्रज.** त्रि० ( अक्षेत्र ) भरीद्वा योग्य नहि ते. न खरीदने योग्य. Unworthy of being purchased. विशे० २६६४;

**अक्षेय.** त्रि० ( अक्षेय ) भरीदीन शक्य तेवुं; अभूत्य. अमूल्य; जो खरीदा न जासके. Invaluable; priceless. प्रब० १२४४;

✓ **अक्षोस.** धा० I. ( आक्षुष्ट ) आङ्काश वचन कठेवां; हपडो आपवें; धमडी आपवी. कठोर वचन कहना; उलहना देना; धमकी देना. To scold; to upbraid.

**अक्षोसह.** ठा० ५, १; सु० च० १५, १५१;

**अक्षोसंति.** अत० ६, ३; नाया० १६;

**अक्षोसेत्तर.** वि० उत्त० २, २४;

**अक्षोस.** धु० ( आक्षोस ) आङ्काश वचन; कठोर-निष्ठुर वचन; तिरस्कार भरेत वचन. कठोर वचन; तिरस्कारयुक्त वचन. Harsh words. उत्त० १, ३८; १५, ३; प्रब० ६६४; भग० ८, ८; —**परिसह.** धु० ( -परिषह ) आङ्काश-तिरस्कार भरेत वचनने। परिषह; साधुना २२ परिषहभानो १२ भे। परिषह. कठोर अथवा तिरस्कार भरे वचनों को सहन करना; साधु के २२ परीषहों में से १२वाँ।

परीषह. the 12th of the 22 Parisa has of Sādhus viz. the bearing of harsh words. उत्त० ३, १;

**अक्षोस.** न० ( \* अकोस ) साधुने योभासुं रहेवाने अयोग्य क्षेत्र, के लेनी अेक ऐ के त्रण याजुओ नही, पहाड़ के हिंसक पशुहेय तेवुं क्षेत्र. साधु के चौमासा न करने योग्य स्थान, जिसके कि, एक दो या ढीनों ओर नरी, पहाड़ या हिंसक पशु हों. A place improper for a Sādhu to live in during the monsoon. वब० १०;

**अक्षोसरणा.** ली० ( \*आकोशना-अकोशना ) युओ “ अकोस ” शभ०. देखो ‘ अक्षोस ’ शब्द. Vide “ अक्षोस. ” नाया० १६;

**अक्षोह.** त्रि० ( अकोह ) युओ “ अकोहण ” शभ०. देखो ‘ अकोहण ’ शब्द. Vide “ अकोहण. ” भग० १, ३;

**अक्षोहण.** त्रि० ( अकोधन ) युओ “ अकोहण ” शभ०. देखो ‘ अकोहण ’ शब्द. Vide “ अकोहण. ” उत्त० ११, ५;

**अक्षल.** पुं० ( अख ) गाड़ीनी धरी. गाड़ी का धुरा. An axle of a car. उत्त० ५, १४; सूय० ३, ७, ३०; २, १, ५६; भग० ७, ६; ओघ० नि० ८, ५४६; ओख० ४०; अणुजो० १०; ( २ ) २भवाना खुसा. खेलने का पासा. a die to play with. सूय० २, २, २३; पिं० नि० भा० ७; विशे० ५८२; ( ३ ) उद्राक्षनो सणुडो. रुद्राक्ष का मनका. a bead of Rudrākṣa ( a kind of tree ). अणुज० ३, १; ( ४ ) यार हाथ भरिभित अेक ७२५; धनुष्य. चर हाथ प्रमाण धनुष्य. the length of a bow. भग०

६, ७; सम० ६६; अणुजो० १३३;  
 ( ५ ) जृव; आत्मा. जीव; आत्मा. a soul.  
 “जीवो अक्षलो अथवावणभोयणगुणाणि-  
 शोएण” विश० ८६; ( १ ) ईद्रिय. इन्द्रिय. a  
 sense; an organ. विश० ६१; १५६७;  
 निसी० ७, १४;—उचंग. न० ( -उपाङ्ग-  
 अस्त्रस्य धुर उपाङ्गेऽभ्यजनम् ) गणी  
 धरीने तेल वंगे रे योपदामां आवेषे ते.  
 गाढ़ी के धुरे में जो तैल आदि त्रुपदा जाता  
 है वह.. oil etc. used for lubricat-  
 ing the axle of a cart. गच्छा०  
 ५८;—चम्म. न० ( -चम्मन् ) पाणी काठवाने  
 के श. पानी निकालने की चरस. a large  
 leather bucket for drawing  
 water. “ अक्षवचम्मं उड्डांडदेसे ” नाया०  
 ६; ८;—चाडग. पुं० ( -पाटक ) योरस  
 चासन; भान्डे. चौकी. a square stool.  
 “ तेसियं बहुमज्जदेसभाए॒ पत्तेयं २ वइरा-  
 मया अक्षवाडगा परण्यत्ता ” जीवा० ३,  
 ४;—सुत्तमाला. ली० ( -सूत्रमाला ) अद्र-  
 क्षनी भाला. रुद्राक्ष की माला. a rosary  
 having Rudrākṣa beads. “ अक्ष-  
 सूत्तमाला विव गणिज्जमारेहि॑ ” अणु-  
 जो० ३;—सोय. न० ( -स्त्रोतस् ) गडीना  
 पैडानी धरीतुं खांड-छिद्. गाढ़ी के धुरे  
 का तिरछा छेद. a slanting hole in  
 the axle of the wheel of a  
 cart. भग० ७, ६; जं० प० २, ३६;  
 अक्षयइय. त्रि० ( अक्षतिक ) अक्षन्; अविनाशी।  
 अविनाशी; नाश न होने वाला. Undecay-  
 ing; indestructible. “ अक्षयबी-  
 द्युण् अपाण्यं कम्मधयेण्यं मुहरि॑ ” परह०  
 १, ३;

अक्षयओदय त्रि० ( अक्षयोदक-अप्त्यं शाश्व-  
 तमविनाशशुदृकं ज्ञां यस्य) अभुद् पाणीनाणुं;  
 सदृय पाणीर्था भरेतुं. अखट पानी वाला;

सदा पानी से भरा रहने वाला. Ever filled  
 with water. “ जहा से सयंभूरमणे  
 उदही अक्षयओदय॑ ” उत्त० ११, ३०;  
 अक्षयओषसम. पुं० ( अक्षयोपशम ) क्षयोपश-  
 मनो अभाव; कुर्मना उद्दितभागनो क्षय अने  
 अनुदितभागनो। उपशम ते क्षयोपशम, तेने  
 अभाव. क्षयोपशम का अभाव; कर्म के  
 उद्दितभाग के क्षय और अनुदितभाग के.  
 उपशम को क्षयोपशम कहते हैं उसका अभाव.  
 Absence of Kṣayopashama i. e.  
 destruction of that portion of  
 Kavina which is ripe for fruit  
 and subsidence of that which  
 is not yet ripe. विश० १०४;

अक्षयण. न० ( आत्मान ) क्षेत्रिः; आप्यान.  
 क्षेत्रवृ. कथा कहना. Narration. विं०. नि०.  
 भा० ५०४;

अक्षम. त्रि० ( अक्षम ) असमर्थ; अनुभित;  
 अपेत्य. असमर्थ; अयोग्य. Powerless;  
 improper. या० ३, ३; ५, १;

अक्षमा. ली० ( अक्षमा ) क्षमानो अभाव;  
 सहनशीलता नहि. क्षमा अथवा सहनशीलता  
 का अभाव. Absence of forgiveness;  
 want of patience. भग० १२, ५;  
 सम० ५२;

अक्षय. पुं० ( अक्षत ) अभंड-अणीशुद्य योभा.  
 पूर्ण ( सातुन ) चांवल. Unbroken grains  
 of rice. प्रव० १३४४; पंचा० ४, १०;  
 ( २ ) त्रि० परिपूर्ण॑; अभंड. परिपूर्ण; अखंड.  
 whole. सम० १;

अक्षय. त्रि० ( अक्षय ) अविनाशी; अक्षय; नाश-  
 व्यारनु. नाश रहित; अविनाशी; अक्षय. Unde-  
 caying; imperishable. नाया० १; ७;  
 सम० १; ७; भग० १, १; ६, ३३; १८, १०;  
 ओव० १; राय० २३; जीवा० ३, ४; सु० च०  
 ३, १८४; पंचा० ४, ४७; कला० २, २५; अत्र०

६, ११;—आयारचरित. वि० (-आचार-  
चरित) अपेंड आया२—यत्रिवाणु. असंड  
आचार—चरित्र वाला. of unbroken,  
uninterrupted right conduct.  
आद०४, ८;—रिहि. पु० (-निधि) अक्षय  
भंडार; अभुट भंडार. अखूट भंडार; अक्षय भं-  
डार. inexhaustible treasure. “अ-  
क्षयशिंहं च अगुवद्देस्सामि” विवा० १, ७; ना-  
या० २;—णीधि. ली० (-नीधि—निष्ययति  
निवीयते वेति) अभुट मुटी. अक्षय पूंजी.  
inexhaustible wealth. नाया० २;  
—तर्द्या. ली० (-तृतीया) अभाग्री०;  
वैशाख सुदि३. अक्षयतीया; वैशाख सुदि ३.  
the third day of the bright-half  
of the month of Vaisākha. स०  
प० १२;—सुख. न० (-सुख) शाश्वत सुखनुं  
स्थान; भोक्ष. शाश्वत सुख का स्थान; मोक्ष.  
final emancipation; permanent  
bliss. भत्ता० ६६;

अक्षर. न० ( अक्षर ) स्वरव्यंजनम्५ अक्षर  
भाला. स्वर व्यंजनस्य वर्णमाला. Letters  
of the alphabet consisting of  
vowels and consonants. क० प० ४,  
६; क० गं० १, ६; राय० १७०; पञ्च० ३६;  
ओव० १६; ४३; विशे० ६७; ४६१; अगुजो०  
१३; १४६; ( २ ) संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर  
अने क्षमित्राक्षर एव अक्षरशुतना। त्रियु भेद-  
भानो एवै४. संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लिंगिध-  
अक्षर में से कोई भी एक; अक्षरशुत का एक भेद.  
one of the three kinds of Akṣara  
Śrutas. “से किं तं अक्षरमुयं २ तिविहं  
पद्मसंतजहा- सज्जवर्षं वंजयवर्षं लद्धिक्षरं”  
नंदी० ( ३ ) अथवा; अविनश्वर. अविचल;  
अविनाशी. constant; indestruc-  
tible. विशे० ४५७;—अगुस्तार. पु०  
( -अनुसार ) श्रुत अथवे अनुसरवुं ते. श्रुत-

शास्त्र का अनुसरण. acting according  
to scriptural texts. विशे० १४४;  
—उष्टुलंभ. पु० (-उपकाम) श्रुतशाननो  
उपयोग. श्रुतशान का उपयोग. use of  
scriptural knowledge. विशे० ४६६;  
—गुण. पु० ( -गुण ) अनंतागमा, पर्याप्य,  
उच्चार वगैरह अक्षरना गुण. अनंतागम, पर्याप्य,  
उच्चार वगैरह अक्षर के गुण. any of the  
properties of letters such as Aṇa-  
ntāgama, Paryāya, Uchchāra  
etc. सूय० १, १, १, ६;—पुढ़िया. ली० (-पृ-  
ष्ठिका) अद्वार लिपिमानी८भी लिपि. अठारह  
लिपियों में से द्विं लिपि का नाम. the 9th  
of the 18 scripts. पञ्च० १;—पृष्ठभव.  
वि० (-प्रभव) अक्षरना उच्चारथी९ उपेन्द्र थृ०;  
अक्षरैच्यार०८८५४. अक्षर के उच्चारण से उत्पन्न  
होने वाला. produced by the sound  
of letters. विशे० १६७;—लंभ. पु०  
( -लाभ ) शम्भनी ज्ञाति, अर्थ वगैरेनुं ज्ञान.  
शब्द की ज्ञाति, अर्थ वगैरह का ज्ञान. know-  
ledge of gender, meaning etc.  
of words. “अक्षरलंभो सरणी य होज्ज  
पुरिसाइवरण्णविगणणाणं” विशे० ६०; ११५;  
१४३; १४४;—लाभ. पु० (-लाभ ) ज्ञाये।  
“अक्षरलंभ” शम्भ. देखो “अक्षरलंभ”  
शब्द. vide “अक्षरलंभ”. विशे० १२५;  
—संखद्व. पु० (-सम्बद्ध) ने शम्भमां अक्षर-  
वर्णु व्यक्ता-२४४ है४ ते. जिस शब्द में  
अक्षर स्पष्ट हो वह. a word in which  
the letters are clear or distinct.  
ठा० २, ३;—सरणिण्यात्य. पु० (-सरिपात)  
अक्षरोने। संयोग; अक्षरोनुं ज्ञेपाशु. अक्षरों  
का संयोग. combination of letters.  
“अजिण्याणं जिण्यसंकासाणं सम्बखरस-  
रिण्यवाण्याणं” ठा० ३, ४;—सम. न० ( -सम )  
हस्त, दीर्घ, लुन वगैरै ने अक्षर ने वे। हेऽप-

तेवे ऐलवे। ते; गेपस्वरविशेषः. अक्षरों का शुद्ध उच्चारण; गेय ( गाने का ) स्वर विशेष. phonetic pronunciation of a letter. अगुजो० १२८; ठा० ६, १; —समास. पुं० ( -समास ) अकारादि अक्षरोंनो २२२५२ भेलाप॒-ज्वेडाख्॑. अकारादि बर्णों का प्रस्पर संयोग. combination of two or three or more letters. क० गं० १, ७; —सुय. पुं० ( -श्रुत ) श्रुतशानो एक भेद. a variety of Śrutajñāna ( ' scriptural knowledge ). नंदी० ३७;

**अक्षरशब्द**. पुं० ( अक्षरक ) दास; शुलाभ. दास; गुलाम. A servant; a slave. गोदाकालए य भयराडक्षरए पुते य धूय सुरहाए॒”पि० नि० २६७;

**अक्षरस्वलिंग**—य.त्रि० ( अस्वलिंग ) अस्वलिंग; २५४; चाइध्यु; अस्वलिंग; स्पष्ट. Without a break; clear; fluent. पंचा० ४, २७; अगुजो० १३; चरित्त. त्रि० ( -चारित्र ) नेनुं चारित्र अस्वलिंग छे ते. अस्वलिंग चारित्र वाला. of unbroken or unwavering right conduct. गच्छा० ४१;

**अक्षरवाच्च**—य. पुं० ( अक्षराद ) न्यायदर्शनना प्रथेता। अक्षपाद नामना आचार्य; गौतम मुनि. न्यायदर्शन का रचयिता अक्षपाद नामक आचार्य; गौतम मुनि. The name of the founder of the Nyāya philosophy i.e. the preceptor named Akṣapāda. विशे० १५०८;

**अक्षरविद्य**. त्रि० ( अक्षरित ) क्षय क्रेत्र नहि; अपावेद नहि. नष्ट नहीं किया हुआ. Not destroyed. विशे० ५२६;

✓ **अक्षरा**. धां० १. ( आ-ख्या ) क्षेत्रुं; कथन क्षेत्रुं;

निरूपणुं क्षेत्रुं. कहना; कथन करना; निरूपण करना. To narrate; to tell; to relate. **अक्षात्त**. हे० क० भग० २, १; दस० ८, २०; अक्षाइय. न० ( आख्यातिक ) सा॒ध॑ क्षिया॒ध॑. ( यथाऽकरोत् करोतीत्यादि ). साध्य क्रियापद. An inflected verb. परह० २, २; अक्षाइया. ली० ( आख्यायिका ) वार्ता॑; क्षिप्त कथा॑-दंतकथा॑. कहानी॑; दंतकथा॑. A legend; a fable. पञ्च० ११; सम० ६; आया० २, ११, १७०; ( य ) —ठाण. न० ( -स्थान ) कथा॑, वार्ता॑-क्षेत्रानुस्थान. कथा॑, कहानी॑ कहने की जगह. a place where tales or stories are narrated. आया० २, ११, १७०; ( य ) —णिस्सिय. न० ( -निश्चित ) दंतकथा॑ आश्रित लुडाई॑; भृपा॑-लुडो॑ नवभो॑ भेद. दंतकथा॑ पर अक्लमित झृठः भृठ का नवाँ भेद. falsehood based upon a legend; ninth variety of falsehood. निसो० १२, ३२; ठा० १०, १; प्रव० ८६६;

**अक्षाडग**. पुं० ( \*अक्षाटक-अक्षवाद ) अभाडो॑-भेदो॑ने कुरुती क्षेत्रानी॑ ज्यथा॑; प्रेदो॑ने भेसवानो॑ ओट्लो॑; भज्जलसनुं स्थान. पहलवानो॑ की कुर्शी करने की जगह; अखाडा॑; दर्शको॑ के बैठने का चबूतरा॑; मजलिस का स्थान. A gymnasium, a verandah for spectators; a place where a festival is held. “ तेसिणं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं बहुमउक्षदेसभाए॒ पस्तेयं वहरामए॒ अक्षाडगो॒ ” राय० ६७; भग० ०६, ५; ३, ३; ठा० ३, ३;

**अक्षाय**. त्रि० ( आख्यात ) क्षेत्रुं; परूपेत्रुं; प्रकाशेत्रुं. कहा हुआ; प्रकाशित; प्रस्तुति. Told; related; revealed. “ संति मेय दुवे ठाणा अक्षाया मारण्ति य ” उत्त० २, २; “ सुयं मे आडसं तेणं भगवया पूर्वमक्षायं ” ठा०

१, १; उत्त० ८, १३; २४, २; आया० १, १, १, १; दस० ६, ४, १; भग० २, १; ६, १; १३, ४; विवा० १; दसा० १, २; सम० १; ओव० ३५;—आचार. त्रि० (—आचार) अाभ्यात आचार वाये। आख्यात आचार वाला। ( one ) of unbroken right conduct. वब० ३, २;—पद्यज्ञा. ली० (—प्रज्ञा—आख्यातेन धर्मदर्शनेन प्रज्ञा) धर्मदेशन। सांखणी ऐध पाभीने दीक्षा लेवी देते; प्रवल्यानो ऐक भेद धर्मोपदेश के श्रवण से बोध प्राप्त कर दाक्षा लेना; प्रवज्ञा का एक भेद. renouncing worldly life as a result of religious teaching; one of the modes of entering religious order. ठा० ३, २; ४, ४;

अक्षयायग. पुं० ( आख्यायक ) शुभाशुभ इति कहेनार; निभित प्रकाशक्. शुभाशुभ फल कहने वाला; निष्प्रित जारी। One who foretells the good or bad consequences of omens. जीवा० ३, ३;

अक्षयायार. पुं० ( \*आख्यातारः—आख्यात् ) कहेनार; कथन कहेनार. कहने वाला। A teller. “ पुढो पावाउया सब्बे अक्षयायारो सयं सयं ” सूय० १, १, ३, १३;

अक्षिख. न० ( अक्षि—अशुत्ते विषयानिति ) नेत्र; चक्षु; आंभ. नेत्र; आंख. An eye. “ अक्षिलहिं य णासाहिं य जिडभाहिं ओट्ठेहिं य ” विवा० १, २; नाया० १;—अन्तर. न० (—अन्तर) आंभनुं छिद्. आंख का छेद. the pupil of the eye. “ अक्षिं तरेसु दुवे ” विवा० १, १;—राग. पुं० (—राग) आंभनुं अंजन सोयरा आहि. आंखो का अंजन. collyrium for the eye. “ आसूणि गक्षिखरागं च गिद्धुवधाय कमगं ” सूय० १, ६, १५;—वेयणा. ली०

(—वेदना) आंभनी भीडा—वेदना; आंभने रोग. आंखों का रोग; आंख की वेदना—पीड़ा. pain in the eye; an eye-disease. विवा० १, ४;

अक्षिखस्त. त्रि० ( आक्षिस ) आकृष्ण उरेख; घेयेल. आकर्षित; स्वीचा हुआ. Attracted. पि० नि० ३१३; नाया० १६; ( २ ) ललया-वेल; लालय आपेल. लालच में फँसा हुआ; जिसे लालच दिया गया हो वह. enticed. नाया० २; ( ३ ) भुड़ी दीधेल; झेड़ी दीधेल; तछ दीधेल. छोड़ दिया गया; फैका हुआ. abandoned; thrown away. पंचा० १२, ४१;

✓ अक्षिखव. धा० I. ( आ+क्षिप् ) आक्षेप उरेख; आकृष्ण उरेलुं. आक्षेप करना; आकर्षण करना. To attract. ( २ ) स्वीकारवुं. स्वाकार करना. to accept.

अक्षिखवह. “ अक्षिखवह मणं विसमत्थसत्थ-सुहमत्थकहयेण ” सु० च० २, ३८०;

अक्षिखवण. न० ( आक्षेपण ) चित्तनी व्यती-आकुलता कर्त्ता। आकुलता; चित्त की व्यग्रता. Distraction of the mind. परह० १, ३;

अक्षीण. त्रि० ( अक्षीण ) क्षय न पामेदुं; पुरु न थेदेलुं. अधूरा; ज्य को न पहुंचा हुआ. Not completely consumed; un-exhausted. “ अक्षीणदब्बसारा ” पगह० १, ३; ठा० ४, १;—भंभ. त्रि० ( \*—कम्भ ) नेणे कुदेशने। क्षय नथी उर्यो ते. जिसने कुलेश का ज्य न किया हो वह. one who has not put an end to troubles. दस० ६, १, ११;—पड़ि-भोइ. पुं० ( —परिभोगिन—अक्षीणमस्ती-णायुष्कमप्रासुकं परिभुज्जत इत्येवं शीक्षा अक्षीण परिभोगिनः ) संयत आहार लेनार. संयत आहार करने वाला. one whose

food contains matter with life in it. “ आजीविगसमयस्स यं अयम्हृ पश्चासे अक्षरीणपद्मिभोह्यो सञ्चसता ” भग० ८, ५;—महारणिय. पुं० (—महान-सिक—महानसमजपाकस्थानं तदाश्रितत्वा-द्वाऽचमपि महानसमुच्यते; ततश्चारीणं पुर-वशतसहस्रेभ्योऽपि दीयमानं स्वयमभुकं सत् तथाविधत्तविधिविशेषादनुटितं, तच्च तन्महा-नसं भिक्षासवधं भोजनमस्तीणमहानसं तद-स्ति येषां ते तथा ) ऐ लभिधना भ्रमावर्थी हुनरै। भाषुसोने ज्ञाते तो पथु पोते न आय त्यां सुधी अनु झुटे नहि तेवी लभिध वाणे। भाषुस-साधु। जिस लब्धि के प्रसाद से जब तक स्वयं कुछ न खाय तब तक हजारों मनुष्यों को जिमाने पर भी भोजन न खुटे ऐसी लब्धि वाला मनुष्य-साधु। a person whose store of food is not exhausted, even though he feeds thousands of men, until he himself has not taken it, by virtue of a particular Labdhi or spiritual acquisition. प्रव० १५१८; ओव० १६;

अक्षरीणमहाणसी. छां० ( अक्षीणमहानसी ) ऐनाथी थेडा अनभां हुनरै। भाषुसोने ज्ञाती शक्तय तेवी लभिधि। योडे से अज में हजारों मनुष्यों को भोजन करा सकने वाली लब्धि। A spiritual attainment by which thousands of men can be given food from a small quantity of it. प्रव० १५०६;

अक्षरीरमदुसग्नियं. पुं० ( अक्षीरमधुस-पिंक ) दूध, धी आदि वर्जनार्थ-अभिग्रह धारी साधु। दूध, धी आदि का त्यागी साधु। An ascetic abstaining from milk, ghee etc. परह० २, १;

अक्षरुञ्जआशारचारेत्त. पुं० ( अक्षता-कारचारित्र—अक्षताकारमतिचौरप्रतिहतं स्वरूपं चरित्रं येषां ते तथा. ) अतियार रहित चारित्र पाणनार; अभित चारित्र पाणनार। अतिचार रहित चारित्र पालने वाला; अखंडित चारित्र पालने वाला। One who observes unbroken right conduct. वव० ३, १;

\*अक्षरुडिअ. त्रिं० ( स्वलित ) टेस लागेल; आभडेल। ढुकराया हुआ। Obstructed; stumbled. सु० च० ४, २२६;

अक्षरुह. पुं० ( अड्डद ) गंभीर-उदार-दयालु श्रवक; श्रावकना। अंडवीस गुणुभानो। पहेदो। गुण। उदार-गंभीर-दयालु-श्रावक; श्रावक के इकास गुणों में से पहिला गुण। A kind and generous Sravaka; the first of the 21 qualities of a Sravaka or Jaina layman. पंचा० ७, ४; प्रव० १३७०;

अक्षरुपुरी. छी० ( अड्डपुरी ) ऐ नामनी अंड नगरी, दे ज्यां सर्वनी अत्रभिधीतरीड उत्पन्न थवानी सूर्यप्रभ गृहस्थनी सूरप्रभा अःहि पुत्रीओ। रहेती हुती। एक नगरी का नाम, जहां कि, सूर्यप्रभ गृहस्थ की सूरप्रभा आदि कन्याएं रहतीं थीं और जो सूर्य की पटरानी होनेवाली थीं। The name of a othcity where Suryaprabha and other daughters of Suryaprabha were living destined to become the crowned queens of the Sun god. नाया० ४.

अक्षरुमिअ. त्रिं० ( अड्डमित) क्षेत्र न पामेल। ज्ञोभ रहित। Undistracted; unagitated. “ अतथे अणुविग्गे अक्षरुमिए ” उवा० २, ६६; नाया० ६;

.अक्षरेत्त. न० ( अहेत्र ) खार बीन; पाँके

अथेऽय दूषि. ऊसर भूमि. Salt, unfertile land. ठा० ४, ४;—वासि. विं० (—वर्षिन्) उभर जमीनमां वरसनार. ऊसर भूमि में बरसने वाला. ( rain ) pouring on barren land. ग्रा० ४, ४; ( २ ) पात्रा पात्रनी परीक्षा विना दान हेनार. पात्राऽपात्र की परीक्षा के विना दान देने वाला. ( one ) who gives alms without discrimination. ठा० ४, ४;

**अक्षेत्र.** पुं० ( आचेप ) पूर्वपक्ष; आशंका करी पुछनु ते; प्रश्न. पूर्वपक्ष; शंका करके प्रश्न पूछना. Stating one's doubts and objections as to the soundness of a reasoned principle. “तस्यक्षेत्रवप्तोक्षेत्रं च अक्षयतो तदिं दिशो” उत्त० २५, १३; भग० १, २; विश० १४४४; २८०५; ( २ ) भीजना दाथमांथी ५४५नुं ५४६ उत्तरं ५२८नुं ते; गाँण्येचारीने १६ भे. दूसरे के हाथ में से द्रव्य चुराना; गैण्येचारी का १६ वाँ भेद. the 19th variety of minor theft viz snatching away anything from the hands of another person. परह० १, ३;

**अक्षेत्रणी.** स्त्री० (आचेपणी—आसिन्पते मोहा-तत्त्वं प्रत्याकृष्टते श्रोताऽनयेत्याचेपणी) नेथी श्रोतानुं तत्त्व प्रत्ये आकृष्टु थाय तेवी धर्मकथा; चार धर्मकथामांनी एक. धर्मकथा, जिससे श्रोताओं का तत्त्व का और आर्कषण हो; चार प्रकार की धर्मकथाओं में से एक. Religious preaching which begets love for eternal truth in the hearers; one of the four varieties of religious preaching. “अक्षेत्रवर्णीकहा चउष्विहा पन्नता संजहा-आवार-क्षेवणी ववहारक्षेवणी पण्णतिक्षेवणी विहिवायक्षेवणी” ठा० ४, २; ओव० २१;

**अक्षेवि.** विं० ( आचेपिन् ) वर्तीकरणु आहि-थी पारंकु ५४५ हरनार. वशीकरणादि से दूसरे का द्रव्य हरण करने वाला. One who takes away the wealth of another by means of fascination or enchantment. परह० १, २;

✓ **अक्षोड़.** धा० I. ( आख्सुट् ) वस्त्रादिके अधर जाखी थेाङ्कु आटकनुं-भेवनु. वस्त्रादि को अधर रखकर थोडासा झटकना-संखेरना. To flap clothes etc; to whisk. अक्षोड़जा. वि० दस० ४;

**अक्षोड़.** पुं० ( अक्षोट ) अभरोटनु भाड. अखरोट का भाड. A walnut tree. ( २ ) न० तेनुं ५३. अखरोट. the fruit of a walnut tree. पञ्च० १७; प्रव० ६६;

**अक्षोभ.** विं० ( अक्षोभ ) क्षेत्र रहित; निश्चल; अउग. ज्ञोभ रहित; निश्चल. Un-agitated; firm. “अक्षोभे सागरो व्यथिमिए” परह० २, ५; एत्युस्तरगो अक्षोभो होई जिया चियएणो” पंचा० ४, २८; जं० प० ३, ४२; नंदी० ११; ( २ ) अंतगड सूत्रना पहेला वर्गना आडमा अध्ययननुं नाभ. अंतगड सूत्र के पहले वर्ग के आठवें अध्याय का नाम. the 8th chapter of the first section of Antagada. अंत० १, ८; ( ३ ) अंधकवृष्णि राजनी धारणी राणीना पुत्र, के नेमनाथ प्रलु पासे दीक्षा लध गुणवत्त्वं तप करी सेण वर्षी वर्षीनी प्रन-नया पाणी एक भासने संथारै। करी शनुं४५ उभर सिद्ध थया। अंधकवृष्णि राजा की धारणी रानी का पुत्र, जिसने नेमनाथ प्रभु से दीक्षा ली थी और गुणवत्त्वं तप करके तथा सोलह वर्ष तक दीक्षित अवस्था में रहकर अंत में एक मास का निरशन किया और शत्रुजय ऊपर मोक्ष प्राप्त किया। the son of Dhārāṇī the queen of Andhaka

Vriṣṇi, who took Dikṣā from Neminātha, observed Guṇarayaṇa penance, practised Pravrajyā (asceticism) for 16 years, gave up food and drink for one month, and obtained salvation on Satruñjaya. अत० २, १;

**अक्षोवंजण.** न० ( अक्षोपाजन-अक्षस्य उपाजनमषोपाजनम् ) गाढ़ानी धरीने तेव आदि पदार्थ योपउया ते. गाढ़ी के धुरे को जो तैल आदि लगाया जाता है वह. Oil etc. used for lubricating the axle of a cart. भग० ७, १;

**अक्षोह.** त्रिं ( अक्षोभ ) जुआ। “ अक्षोभ ” शब्द. देखो “ अक्षलोभ ” शब्द. Vide “ अक्षोभ ”. नाया० ६;

**अखंड.** त्रिं ( अखरण ) अभंड-परिपूर्ण; भांगेलुं-तुटेलुं नहि. साकुत; अखंड; परिपूर्ण. Entire; unbroken. प्रव० ८४६; पंचा० ४, ३४; नंदी० स्थ० ४०; नाया० ७;—चारित्त. न० ( -चारित्र ) अभंड-निर्दैष चारित्र. निर्दोष चारित्र. faultless right conduct; unwavering right conduct. प्रव० ८४६; —दंत. त्रिं ( -दम्स ) जेना दांतनी भत्तीसी अभंड होय ते; परिपूर्ण दांत वायो। अखंड दांतों की बत्तीसी बाला; परिपूर्ण दांतों बाला. ( one ) who has not lost any tooth. जीवा० ३; ओव०—**महावश्च.** त्रिं ( -महावत ) अ-भंडित महावत वृणो। अखंडित महावत बाला. ( one ) of unwavering ascetic vows. भत्त० २५; —विरहभाष. पुं० ( -विरतिभाष ) परिपूर्ण विरतिपृष्ठुं; सर्व विरतिपृष्ठुं. पृष्ठ विरतिपृष्ठ; सर्व विर-तिपृष्ठ. complete asceticism

or renunciation. पंचा० १, ३३; अखंडिय. त्रिं ( अखंडित ) जुआ। “ अखंड ” शब्द. Vide “ अखंड ”. प्रव० ५८८;

\***अखंपण.** त्रिं ( अमख ) साक० २५२. साफ. Clear; clean. सु० च० २, ५६८;

**अखज्ज.** न० ( अखाय ) अभाय; खानाने अयोग्य पदार्थ. अभद्य; न खाने योग्य. A substance unfit for eating. नाया० १६;

**अखागंपुं०** ( आख्याक ) ऐ नाभनो ऐ॒ अनार्य देश. एक अनार्य देश का नाम. Name of an Anārya country. प्रव० १५६७;

**अखिल.** त्रिं ( अखिल ) आभुं; संपूर्णु; समस्त; भवुं. समस्त; सम्पूर्ण. Whole; entire. “ अखिले अगिद्वे अगिएयचारी ” स्य० १, ७, २८;

**अखेम.** त्रिं ( अखेम ) उपद्रव सहित. उपद्रव सहित. Not free from annoyance. ठा० ४, २; दसा० ७, १२;—रुद्ध. पुं० ( -रुप ) उपद्रव सहित देखाय-आकार. उपद्रव सहित दृश्य-आकार. ( a form or appearance ) with marks of trouble upon it. ठा० ४, २;

**अखेयरण.** त्रिं ( अखेदज्ज ) जीजना हुः अने न जाणना॒-अनजिज. दूसरे के दुःख को न जानने बाला-अनभिज. Ignorant of or unsympathetic towards the sufferings of others. आया० १, २, ३, ५०;

**अग्रह.** ली० ( अगति ) अप्रशस्त गति; नरक अदि गति. कुण्ठति; नरक गति. Perdition; damnation. “ कुण्ठिहा येरइह्या पश्चात्ता तंजहा-गहसमावजगा॑ चेव अग्रहसमावजगा॑ चेव जाव वेमाणिया ” ठा० २, २;

—समावरण. पुं० (—समाप्त) नरकादि गतिने पाभेद. नरकादि कुर्गति को प्राप्त.

gone to perdition. ठा० २, २; अगंठलः. त्रि० (अग्रन्थमत्) गांठ वग्रन्तु. बिना

गांठ का; गांठ रहित. Without a knot; devoid of knots. भग० १६, ४;

अगंतूलः. सं० क० अ० ( अगत्वा ) गया विना;

न ज्ञेने. बिना गये; न जाकर. Without having gone; without going.

पञ्च० ३६;

अगंथ. पुं० ( अग्रन्थ-न विद्यते ग्रन्थो वाह्याभ्यन्तरोऽस्तेव्यग्रन्थः ) निर्ग्रन्थ; साधु. निर्ग्रन्थ; परिग्रह रहित साधु. A Sādhu; an ascetic.“पावं कम्मं अकुब्बमाणे एस महं अगंथ विद्याहिषु” आया० १, ८, ३, २०७; जं० ५० २, ३१;

अगंथ. त्रि० (अग्रन्थ) गंध रहित; गंधविनान्तु. गंध रहित; बिना बास का. Devoid of smell. भग० २, १०; ११, १; २०, २०;

अगंधण. पुं० ( अग्रन्धन ) सर्पनी ऐक जात, डे जे आगमां भगवान्जु पसंद करे परें पाखु चुसे नहि. सर्प का एक जाति, जो अग्नि में जलना पसंद करे पर ज़हर को पीछा न चूसे. A species of serpents which would never suck back poison even if fire is applied to them.

“नेच्छ्रुति वंतयं भोत्तुं कुले जाया अगंधणे” दस० ३, ६; उत्त० २३, ४२;

\*अगडः. पुं० ( कूप ) दूषे. कूप; कूआः. A well. आया० २, १, २, २१; भग० ५, ७; द; ६; पञ्च० २; नाया० द; १६; ठा० २, ४; आव० ३८; पिं० निं० भा० १७; ओघ० निं० ६६; किंश० ७६४; अगुजो० १३४; —तडः. पुं० (—तट) दूषनो आँड़े. कूप का तट. A border of a well. नाया० द; १६; —ददुर. पुं० (—दर्दुर) दूषनो देउड़े. कूप-

मङ्क; कूप का मेंडक. a frog in a well. नाया० द; १६; —मह. पुं० (—मह) दूषनो भेष्यथः दूषनिभिते भेषेत्सव. कूप का महोत्सव. a festival in connection with a well. आया० ३, १, २, १२;

अगडः. त्रि० (\*अगत-अशात) न ज्ञेनेत्. वे मालूम; न जाना हुआ. Not known; unknown. वव० ६, १४; —सुय. त्रि० (—श्रुत) आचारांग, निशीथ आदि सूत्रों नहीं ज्ञेते ते. आचारांग, निशीथ आदि सूत्रों का जिसने अभ्यास न किया हो वह. one who has not studied Sūtras(e.g. Āchārāṅga, Nisītha etc.). वव० ६, १४;

अगडदत्त. पुं० ( अगडदत्त ). शंभुपुराना सुंदर राजनी सुलसा राणीनो पुत्र, डे जेने पौतानी खी भद्रनभंजरीनुं दृश्यरित ज्ञेई पैराय उत्पन्न थये हुतो तेनी विस्तृत कथा उत्त० ४ अ० नी शीकामां छे. शंखपुर के सुंदर राजा का सुलसा राणा का पुत्र, जिसको अपनी पत्नी का दृश्यरित देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था. इसकी विस्तृत कथा उत्त० ४ अ० का टीका में है. The name of a son of Sulasā queen of Sundara, the king of Śaṅkhapura, who became an ascetic on knowing the bad character of his wife Madanamāñjari.(for details of this vide Uttarādh. ch. com. 4th). उत्त० ८ी० ४;

अगढिय. त्रि० (अग्रथित) प्रतिभन्ध वग्रनो; आहारादिभां अगृह्य-अनासक्त. प्रतिबन्ध रहित; आहारादि में लोलुपता रहित. Without restrictions; free from restrictions; free from craving for delicious food etc. “ अण्णा-ए अगढिए अदीये अविमणे ” परह० २, १;

**अगस्त.** व० क० श्रि० (-अगस्तयत्) न गथुका-  
रते. न शिनता हुआ. Not minding;  
not caring for. भल० ११५;  
**अगणि.** पुं० ( अग्नि ) अभिन; आग;  
अग्नि. Fire. “ इंगासं अगणि अदिच्च  
अस्त्रायं वा सजोहयं ” दस० ८, ८; १०,  
१, २; पञ्च० २; षिं० निं० २५६; आया० २,  
१०, १६६; विशेष० ५४८;—काय-आ. पुं०  
(-काय) अभिनना ल्लव; तेउडाय. अग्नि के  
जीव; तेजस्त्राय के जीव. creatures with  
bodies of the element of fire.  
“अगणिकष्टणं भंते, अहुणो ज्ञातिष्ठ समाये  
महाकम्भतराए चेव ” भग० १, ८; ५, ६; ६,  
३; ७, १०; ८, ६; १४, ५; १५, १;  
१६, १; १८, ६; १६, ५; नाया० १४; १६;  
आया० १, ७, ३, २१०; दसा० ७, १;  
—ज्फामिय. श्रि० (-ध्मात्) अभिनथी  
द्वारेक-ध्वेक. अग्नि से भुलसा हुआ-जला  
हुआ. scorched by fire. भग० १५, १;  
—उभूसिय. श्रि० (\*-जोचित्) अभिनथी  
सेवाअंख. अग्नि से गर्म किया हुआ. heated  
with fire. भग० १५, १;—उभूसिय.  
श्रि० (\*-झोचित्) अभिनथी ध्वेक-रूपांतर.  
पाभेक. अग्नि से जला हुआ-रूपानंतर पाया हुआ.  
transformed on account of being heated with fire. भग० १५, १;  
—णिकिल्लत. श्रि० (-निल्लिप्त) अभिननी  
अं६२ नाभेकुं. अग्नि में डाला हुआ. thrown  
into fire. “अगणिगणिकिल्लतं अफा-  
सुयं अरोसविज्ञं द्वाभे संते यो पदिगाहेज्जा”  
आया० २, १, ६, ३६;—परिखामिय. श्रि०  
(-परिखामित्) अभिनूपे परिखाम पभा-  
डेक. अभिनूप में परिखामित. transformed  
into fire. भग० ५, २; १५, १;  
—सेविय. श्रि० (-सेवित्) अभिनथी  
सेवाअंख. अर्नद्वारा उष्ण किया हुआ.

heated with fire. भग० ५, २;  
**अगणिय.** सं० क० श्र० ( अगणित्वा ) न गथु-  
कारीने; अनश्वना करीने. न शिनकर; अवग-  
णना करके. Having disregarded;  
having despised. भल० १३८;  
**अगरोमाण.** व० क० श्रि० ( अगरोमाण ) नहि  
गथुकारते. बेपर्वाह. Not minding.  
नाया० ६;  
**अगत्तिथ.** पुं० ( अगस्तित ) ऐ नामनो ८८ ग्रह-  
भानो ४५ मे। अह. दद प्रहों में से ४५ वें प्रह  
का नाम. Name of the 45th of the  
88, planets. ठा० २, ३; सू० १० १० २०;  
**अगत्तिथ्य.** पुं० ( अगस्तिक ) अगत्तिथानुं झाड़;  
ऐ झाडने धोलां तथा रातां पूलों आवे छे,  
ऐना पातरां आंबवीनां पातरां ऐवां होए छे.  
अगस्त का झाड़; इस झाड़ के सफेद और लाल  
फूल होते हैं तथा इमर्ला के समान पते होते  
हैं. A kind of tree with white  
and red flowers and leaves like  
those of a temarind tree. अणुत्त०  
३, १;  
**अगम.** न० ( अगम ) आकाश. आकाश. Sky;  
ether. भग० २०, २;  
**अगमिय.** न० ( अगमिक ) नेना पाठ-आथा-  
वगेरे परस्पर सरभा. नथी अंवुं श्रुत; आ-  
यारांगादि कालिक श्रुत. वह श्रुत ( शास्त्र ),  
जिसके पाठ, गाथा वगैरह परस्पर समान न  
हों; आचारांगादि कालिक श्रुत. A scripture  
in which the Gāthās etc. are  
not harmonious in form; e. g.  
Āchāraṅga etc. “ अगमियं का-  
लियसुयं ” नंदी० ४३; विशेष० ५४८;  
**अगमम.** श्रि० ( अगमम ) भवाने थेाम नहि ते.  
न जाने योग्य; पहुंच से बाहिर. Unfit for  
restorting to. परहं० १, २; ( २ ) ली०  
रतिकृष्णा करता थेाम नहि ते; भा अहेन वगेरे.

रतिक्रांति के अयोग्य; मा, वहिन आदि. those with whom sexual connection is prohibited; e. g. a mother, a sister etc. परह० १, २; —गामि. पुं० (-गामिन्) भा, अपेक्षित वग्रे साथे व्यक्तियार संवनार. मा, वर्हन वर्गरह के साथ व्यभिचार करने वाला. an incestuous person. पगह० २, १;

अग्रय. त्रि० ( अगत ) नदि गम्भीर. नहीं गया हुआ. Not gone. भग० ८, ७; ११, १०; अगर. पुं० (आकर) भाष॒-नेभांधी संनां॒, रू. पु॒ वग्रे खनि॒ पदार्थ नीको ते. खान. A mine; e. g. of gold, silver etc. अणुजो० १३१; ( २ ) भौदाना अगर. निमक की क्यारी. a salt pan. अणुजो० १३३; अगर. पुं० ( अगर ) अगर अंक जनना धृ॒ सुंधी॒ पदार्थ. अगर धृ॒. A kind of incenso. अणुजो० १३३;

अगरला. व्या० (अगरला) ने वाजीनी अंदर अक्षर, अर्थ वग्रे स्पष्ट लेय ते नायी. स्पष्ट अक्षर और अर्थ वाला वारा. Distinct and perspicuous speech. “अगरला अग्रमणाए॒ सब्बक्वरस्सिणवायाए॒” (‘अगरलाए॒ति’ सुविभक्ताज्ञतया). ओव० ३४;

अगरहिय. त्रि० (अगरहित) नेंगे भापनी गहरा- निदा नथी क्रेत ते. जिसने पाप की निदा न की हो. ( One ) who has not expressed censure for sins. परह० १.२;

अगरिह. त्रि० (अगर्ह) अनिन्द्य; निहाने योग्य नदि ते. निदा के अयोग्य; अनिद्य. Unworthy of censure or blame. “तहावि से अगरिहे अचेले जे समाहिष” आया० १, ८, ८, १४;

अगरु. न० ( अगर ) अगरव्येहन; अंक जनना सुंधी॒ पदार्थ. अगर; एक जाति का मूगान्धित

पदार्थ. Aloë wood; a kind of fragrant sandal wood. “ कुठं तगर अगुरुं मंपिष्टुं सम्मुसिरेण ” सूश० १, ४, २, ८; जांवा० ३, ६;—गंधिय. त्रि० (-गन्धित) अगर व्यन्दननो धृ॒प आपेक्ष. अगर व्यन्दन से धृ॒प दिया हुआ. perfumed with the incense of sandal wood etc. तगडु०—तुड. पुं०(-पुट) अगरनो पुंड. अगर का पुड़ा. a packet of aloë wood. “अग्रपुडाणं वा लवंगपुडाणं वा वासपुडाणं-वा” जै० प०—चर. पुं० (-वर) धृ॒ख्यागर॒; दणो॑ अगर॒. छाणागर; काला अगर. black aloë wood. नाया० १७;

अगरुलहु. त्रि० (अगुरुलवु) जुओ। “अगुरुलहु” शम्ह. डेक्को ‘अगुरुलहु’ शब्द. Vide “अगुरुलहु”. क० गं० १, २५;

अगरुआ. पुं० (अगरक) अगर; धृ॒ख्यागर. अगर; एक जाति का मूगान्धित लकड़ा. Black aloë wood. ओव० ३८;

अगविष्ट. त्रि० (अगवेषित) आदारात्तिनी गवेष॒ इा॒ तपास नदि क्रेत. विना खोजा हुआ आदा-राद. Not sought or searched (e. g. food etc.). “अगविष्टस्त उ गहणं न होइ न य अगविष्टस्त पारभोगो” प॒ नि॒० ७८;

अगवेषिय. सं० क० गं० अ० (अगवेषित्वा) गवेष्या विना; शोध तपास क्यां वगर. विना खोज. Without having searched. निर्मा० २, ४८; ४, १६; ६, ७; १५, ३४;

अग्रहण. त्रि० (अग्रहण) ने पुद्रगत वर्गया आदारिकादि शरीरस्ते अद्युनथर्षिके ते. जिस पुद्रगत वर्गया का आदारिकादि शरीरस्ते से ग्रहण न होसके वह. Material molecules which are nonassimilable into the physical body. क० गं० ५, ७५;—अंतरिय. त्रि० (-अन्तरित) अद्युन थै॒ के तेवी वर्गया ने

आंतरे २५६. ग्रहण न हो सके ऐसी वर्गणा के अंतर पर रहा हुआ. separated by an interval of non-assimilable material molecules. क० गं० ५, ७५;

**अगाहिय.** त्रि० ( अगृहीत ) नदि अथवा देवतः अस्तीकारेत्. अस्तीकृत; बिना ग्रहण किया हुआ. Unaccepted. पिं० नि० ७८; प्रब० ६२७;

**आगाढ़ि.** त्रि० ( \*आगाढ़ ) तत्त्वनिधि; ज्ञेयं शास्त्रं। अनगाड़ि ये ते. तत्त्वज्ञ; जिसने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया हो वह. One who has profoundly studied the scriptures. सू० १, १३, १३; ( २ ) त्रि० ताव घोरेन्ती सामृतण् वेदना. ज्वर वगैरह का साधारण कृ. an ordinary physical malady such as fever etc. वेष्य० २, १८;—**एगण.** त्रि० ( -प्रज्ञ ) तत्त्वमां निधि पापंशी गंती प्रजा-सभजं ये ते. जिसकी प्रजा-घुदि तत्त्वनिष्ठ हो. ( one ) who has understood the eternal reality.

“आगाढपणे सुविभावित्यन्णा, अन्नं जणं पत्तसा परिहवेज्ञा” सू० १, १३, १३;

**आगामिय.** त्रि० ( आगामिक ) आगत आवश्यकां. भविष्य में होने वाला; आने वाला. Arriving; pending in future. नाया० १५;

**आगामिया.** त्र्या० ( आग्रामिका ) नेती। अंदर डैर्छि गाम नथी तेवी अटी. ऐसा जंगल, जिसमें कोई गांव न हो. A forest region in which there is no village.

ओव० ३६; भग० १५, १;

**आगार.** पुं० ( आगार ) धरः भक्तान्. घर. A house. “ समरेसु य आगरेसु संधीसु य महापणे ” उत्त० १, २६; भग० ८, ६; नाया० १; कप्य० १, १; ( २ ) गृहस्थाश्रम; गृहसास. गृहस्थाश्रम. the life of a married person. भग० ३२, १; ( ३ )

छुट्टाट; भेक्षा. छुट्टाट; बन्धन रहित. absence of severity. भग० १५, १; ( ४ ) छुट्टाटवागो धर्म; आवृक धर्म. आवकों का धर्म. the religion of a Jain layman. ओव० २७;—दाह. पुं० ( -दाह ) धरभां आग लागनी; धर सगगन्तु. घर जलना; घर में आग लगना. catching of fire by a house. ओव० २७; आया० २, ३, ८०;—वंधण. न० ( -बन्धन ) पुत्र, कुत्र, धन, धान्यादि गृहसंधन. ब्रां, पुत्र, धन, धान्य आदि का बन्धन. a worldly tie which binds a man to a son, wife, wealth etc. “ पूर्वं समुद्दिप भिक्षू, वोसिजागारबंधणं ” सृ० १, ३, ३, ७;—वास. पुं० ( -वास ) गृहसास; गृहस्थाश्रम. गृहस्थाश्रम. worldly life of a married man. “ आगारवासमउक्तं वासेत्ता ” भग० १५, १; उत्त० २, २६; निर० ३, ४; कप्य० ७, २२७;

**आगारस्थ.** पुं० ( आगारस्थ-आगारं गृहं, तत्त्व तिष्ठन्तीति आगारस्थः ) गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी. गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी. A householder; a married man leading a worldly life. पिं० नि० ३१४;

**आगारव.** त्रि० ( आगोरव ) अद्वि घोरेना अभिभानशी रहित. आद्वि वगैरह के अभिभान से रहित. Free from the pride of spiritual attainments. पराह० २, ५;

**आगारविज्ञ.** त्रि० ( आगर्विष्ट ) गर्व-मद रहित. निरहंकारी. Free from the intoxication of pride. क० गं० १, ४६;

**आगारि.** पुं० ( आगरिन् ) गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी. गृहस्थ. A married man leading a worldly life; a householder. • “ आगारिणो वि समरणा भवंतु, सेवंति उत्सेवि-

**तहप्पगारं** ” सूय० २, ६, ६; उत्त० २, १६;  
२३; दस० ६, ८८; कप्य० ६, २;—कर्मम्.

न० ( -कर्मन् ) गृहस्थं कर्म—आचरण; सावद्य क्रिया. actions of a householder.

“शिक्षकम् से सेवह गारिकम्मं या पारए होइ चिमोयसाए ” सूय० १, ११, ११;

**अगाह.** त्रि० ( अगाध ) अगाध—थाग वगरनुं; गंभीर. अथाह. Fathomless; deep.

दस० ७, ३६; ठा० ४, ४;

**अगिजभ.** त्रि० ( अग्राह ) हाथथी लभ्य शक्तय नहि तेवुं. हाथ से न प्रहण करने योग्य. Incapable of being held in the hand. “ तओ अगिजभा परणस्ता, तंजहा समए पल्से परमाणु ” ठा० ३, २; पिं० निं० ५४५;

**अगिणि.** पुं० ( अग्निनि ) अग्निदेवता. अग्नि देवता. Fire; fire god. उत्त० ३६, १०६;—जभा-मिथ. त्रि० ( -ध्मापित ) अग्निथी धमाघेलुं. अग्नि से धोंका हुआ. heated with fire by means of bellows. भग० २, २;

**अगिएहमारा.** व० क० त्रि० ( अगृहत् ) अङ्गुष्ठ न करोति; प्रहण न करता हुआ. ( One ) not taking. पिं० निं० १११;

**अगिद्ध.** त्रि० ( अगृद् ) आसक्त नहि-अनासक्त; लोलुप्ती नहि. अनासक्त; खानपानादि में लोलुप्ता न रखने वाला. Not addicted to; not enticed by; not greedy of food. “ अगिद्धं सहकासेसु आरंभेतु अगिद्धितप् ” सूय० १, ६, ३५; १, १, ४, ४; दस० १०, १, १६; भग० १४, ७; नाया० १७;

**अगिला.** ल्ला० ( अग्लानि ) गळानि-भेदनो अभाव; उत्साह; होश. गळानि-खेद का अभाव; उत्साह; जोश. Absence of depression; enthusiasm. “ कुरुजा भिक्षु,

गिलावस्त्वं आगिलाए समाहित् ” सूय० १,  
३, ३, २०; “ आगिलाए संगिरहह आगिलाए उवगिरहह आगिलाए भजेणं पालेणं विल-येणं वेयावडियं करेह ” भग० ६, ४; “ आगि-लाए संगिरहमाणे आगिलाए उवगिरहमाणे ” भग० २, ६; “ कायब्दमगिलायजो ” ( अग्लान्यैवकार्यम् ). उत्त० २६, १०; वव० २, ७; ठा० ५, १; पंचा० १५, २६; ओव० ३४;

**अगिलाण.** त्रि० ( अग्लानि ) गळानि रहित; उत्साही; थाइविनाने. गळानि रहित—उत्साही; जोशीता. Buoyant in spirits; ill-thusiastic. नाया० १; २;

**अगिह.** त्रि० ( अगृह ) धरनो थाग क्लनार ( मुनि ). घर का थाग करने वाला ( मुनि ). Houseless; ( an ascetic ) who has abandoned his house. कप्य० ६, ३०;

**अगिहभूय.** त्रि० ( अगृहीभूत ) गृहस्थ-अभी नहि थपेल. जो गृहस्थाश्रमी न हुआ हो. One who has not become a householder. वव० २, ११;

**अगीय.** पुं० ( अगीत ) शास्त्रनो अज्ञ; अगीतार्थ. शास्त्र का अज्ञान. One ignorant of scriptures. पंचा० ११, ६; अगीयत्थ. पुं० ( अगीतार्थ ) शास्त्रनो अज्ञ. शास्त्र को न जाननेवाला. One ignorant of scriptures. जीवा० १; गच्छा० ४६;

**अगुण.** पुं० ( अगुण ) अगुण—अविनय, प्रभाद आदि अवगुण. अविनय, प्रमाद आदि दोष. A vice like immodesty, fatuity etc. दस० ५, २, ४१; ६, ३, ११; सु० च० १, ४; ( २ ) त्रि० गुण रहित; गुण वगरनो. गुण रहत. destitute of virtue. दस० ५, ३, ४१; ६, ३, ११;

सु० च० १, ४;—लेहि. त्रिं (—प्रेषिद्-  
अगुरुतीमेवते तद्वादवद्य चः) अवगुण जेवा  
वाणो; देवपद्मी. दोष-अवगुण देखने वाला.  
fault finding; captious. भग० २, १;  
दस० २, २, ४;

**अगुरुतीस.** त्रिं (एकोनसिंहत्) ओऽगुण-  
नीशः २६. उनतीसः २६. Twenty-nine;  
२९. क० प० २, २५;

**अगुरुत.** त्रिं (अगुरु) मन, वचन अने कायाएं  
कुशी पापथी गुम-रक्षित थयेदा। नहि. गुमि  
रहित. गुप्ति रहित; जो मन, वचन और काया  
के पाप से रहित न हो. Not free from  
sin arising from mind, speech  
and action. उत्त० ३४, २१; आया० १, १,  
२, १४; पंचा० १६, १६;—इन्द्रिय. त्रिं  
(—इन्द्रिय) जेषु इदियो। गोपवी नथी ते.  
इन्द्रियाधीन; जिसने इन्द्रियों का दमन न  
किया हो. one who has not subdued-  
ed the senses. नाया० ४;

**अगुरुति.** छी० (अगुसि) गुभिनो अभाव;  
मन, वचन अने कायाने पापथी व्यावसाने।  
अभाव. गुप्ति का अभाव; मन, वचन और  
काया को पाप से न बचाना. Not fortify-  
ing the senses against mental  
and physical sins. “तओ अगुरुतिओ  
परम्परासाओ, संजहा-मणाअगुस्ति वयअगुस्ति  
कायअगुस्ति” ठा० ३, १; दस० ६, ५६;  
पिं० निं० ६३; परह० १, ८;

**अगुरु.** शु० (अगुरु) अगर चंदन. अगर.  
Aloe wood; a kind of sandal  
wood. जं० प० २, २६;—घर. शु०  
(—घर) धृष्टुभर. कृष्णागर. black aloe  
wood. नाया० १;

**अगुरुआ.** न० (अगुरुक) अगुरुलधु नाम  
कर्म; नामकर्मी. एक प्रकृति. अगुरुलधु  
नामकर्म; नामकर्म की एक प्रकृति. The

Nāmakarma called. Agurulaghu;a variety of Nāmakarma.  
क० गं० २, ६;

**अगुरुलधुग.** न० (अगुरुलधु) जुम्हे  
“अगुरुआ”शब्द० ६. देखो ‘अगुरुआ’ शब्द. Vide  
“अगुरुआ”. क० प० ४, १०;

**अगुरुलधु.** त्रिं (अगुरुलधु) उत्तरधु नहि ते;  
ने भारे नहि अने हल्कुं पथु नहि ते. जो  
भारी और हलका न हो. Any thing  
neither very heavy nor very  
light. विश० ६६; ४६१; पत्ता० १३; ठा०  
१, १; जं० प० २, २६; क० गं० १, ४७;  
—चउ. न० (—चतुष्क) अगुरुलधुनाम,  
उपधातनाम, पराधातनाम अने उच्च्वास  
नाम ये नामकर्मनी यार प्रकृति. अगुरु-  
लधुनाम, उपधातनाम, पराधातनाम और  
उच्च्वास नाम ये नामकर्म की ४ प्रकृतियाँ.  
the group of the four varieties  
of Nāmakarma viz. Agurulaghu-  
nāma; Upaghātanāma, Parā-  
ghātanāma and Uchchhvāsa-  
nāma. क० गं० १, २६;—चउष्क. न०  
(—चतुष्क) अगुरुलधु १, उपधात २, पराधात ३  
अने श्वासोच्च्वास ४, ये नामकर्मनी यार  
प्रकृतियों ना समुदाय. नामकर्म को अगुरुलधु १,  
उपधात २, पराधात ३ और श्वासोच्च्वासरूप ४  
इन चार प्रकृतियों का समुदाय. the group  
of the four species of Nāma-ka-  
rma, viz. १, Agurulaghu, २,  
Upaghāta, ३, Parāghāta and  
४, Svāsochchhvāsa. क० गं० १,  
४७;—णाम. न० (—नामक) नामकर्मनो  
एक लेद, डे जेना। उद्यथी छव अर्ति भारे  
नहि तेम अति हल्कुं नहि तेमुं थरीर पामे  
ते नामकर्मनी अगुरुलधु नामे प्रकृति.  
नामकर्म की जिस प्रकृति के उदय से जीव

बहुत भारी या बहुत हल्के शरीर वाला नहीं होता उस प्रकृति का नाम a variety of Nāmakarma by the rise of which the soul acquires a body neither very light nor very heavy. सम० २८; —परिणामम् पुं० (-परिणाम) अगुरुलघुरुषे परिषुटि विशेष; अगुरुलघुरुषे पर्याय. ऐसा पर्याय जो अगुरुलघु हो. modification in the form of Agurulaghu. “ अगुरुलहृपरिणामेण भंते ! कतिविहे परणते ? गोयमा ! पुगागरे परणते ” पञ्च० १३; ठा० १०, १; सम० २२;

**अगुरुलहृय.त्रि०**(अगुरुलवुक) नैभां गुरुता-आरेपाण्यं नथी तेम लधुना-हस्तापाण्यं नथी तेवा द्रव्यं, गुणं अने पर्यायः; धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश, इति अने चउद्दिसिया पुहुगत-भाषा, मन अने कर्मयोगद्रव्य-भाव लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, संज्ञा, मनो नेत्र, वस्त्रनेत्र, साकारापयोग अने अनाकारापयोग अं सर्वं अगुरुलघु गतिवादा. वे द्रव्य, गुण अथवा पर्याय जिनमें गुरुत्व-भारापन और लघुत्व-हलकापन नहीं है. पर्मास्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश, काल, जीव और चउफासिया पुद्दल अर्थात् भाषा, मन और कर्मयोग द्रव्य-भाव लेश्या दृष्टि दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, संज्ञा, मनोयोग वचनयोग, साकार, अनाकार उपयोग ये सब अगुरुलघु हैं. A substance, quality etc. not being very heavy or very light; e. g. medium of motion and rest, space, time, life, mind, knowledge etc. भग० १, ६; २, १; १०; प्रब० १२७७; —**गुण.** पुं० ( -गुण ) ज्ञानादिगुण, डे ऐ गुरु पण् नथी अने लधु पण् नथी भाटे अगुरुलघु. ज्ञानादिगुण, जो कि, गुरु भी नहीं है और लघु भी नहीं है. a quality e. g.

knowledge etc. which is neither heavy nor light. भग० ११, १०; अगोज्भ. त्रि० ( अग्राह ) ग्रहण उत्तरा योग्य नहि. ग्रहण करने के अयोग्य. Unacceptable. भग० २०, ५;

**अगेहि. खां०**(अगृद्धि) अनासक्ति; लोभुपतानो अभाव. अनासक्ति; खानपानादि का लोलुपता का अभाव. Absence of greediness for delicious food etc. भग० १, ८;

**अगोविय. त्रि०**(अगोपित) नहि. छुपावेक्ष; प्रगट; भुद्धु. प्रकट; जाहिर. Manifest; unconcealed. “सब्बधम्ममगोवियं” सू० १, ८, १३;

**अगग. न०** ( अग्र ) अथ भाग; आगदो भाग.

आगे का हिस्सा. The forepart. नाया० १८; दस्मा० ६, १; अगुजो० १२८; सू० ८० प० १; पि० नि० ३४७; ओव० नि० ७०; ( २ ) टंच; अण्डी; उपला भाग. अनां; नोक. top; edge. “ कुसमेणां तु भुजपु ” उत्त० ६, ४८; ७, २३; ( ३ ) छेड़नो भाग; प्रांतभाग; किनारी; वस्त्रनो छेड़ा. अंतिम भाग; किनार; वस्त्र का पक्षा. end; border of a garment. राय० ८१; ( ४ ) भवेपग्राही-अधानिकर्म. भवो-पग्राही-अधानिकर्म. a karma which does not destroy the qualities of the soul. “ अग्माच मूलं च विगिंच धर्ते ” आया० १, २, २, १८३: ( ५ ) परिभाषु; वज्जन. वज्जन; माप. weight; measure. नंदी० १४; ( ६ ) प्रधान-रत्नादि. प्रधान-रत्नादि. jewels etc. any thing prominent. नाया० १; १६; सू० २, ३, ४;

**अगग. त्रि०**( अग्र्य-अग्रे भवमग्र्यम् ) अग्रेसर; प्रधान; शिरोभणि. अगुआ; मुखिया. Chief; leading. “ अग्नं वशिष्युहि आहियं ”. सू० १, १, २, ३; ज्ञा० प० २, ३३; —**अग्नीश.** न० ( -अनीक ) भौरस्यानुं सैन्य.

मोरचे की सेना. the van of an army.  
 “ जेणेव भरहस्स रखणो अगारीशं तेणे-  
 व उवागच्छंति ” ज०प०नंदा०४६;—उज्जाण.  
 न० (—उद्यान) नगरन्ति भद्रतुं श्रेष्ठ विद्वान्.  
 नगर के बाहर का श्रेष्ठ बार्गाचा. the best  
 garden outside a town: “हथिसी-  
 सयस्स यायरस्स बहिया अगुज्जाणे सन्थस-  
 रिणवेसं करेति ” नाया० ८; ६; १५; १६;  
 —दय. न० (—उदक) लभणु भभुदनी वर्च्या  
 वर्च्य सां; लमर्जनजन उडु पाखी छे तना  
 उपर ने ऐ गाउनी पाखीनी शिखा वध धट  
 थाय छे ते. लवण समुद्र के बीचों बीच  
 सोलह हजार योजन ऊँडा पाना है उसपर जो  
 दो कोऱ के पानी की शिखा न्यूनावक होता  
 है वह. the waves, in the centre  
 of Lavaṇa ocean ( 16000 yoja-  
 nus in depth ) rising and  
 falling to a height of 4 miles.  
 “ लवणस्स णं समुद्रस्स सठिणागसा हस्सीओ  
 अगोदयं आरेति ” जीवा० ३, ४; सम० ६०:  
 —केस. पुं० (—केश) वादाभ्र; केशनो अथ-  
 भाग. केश—बाल का अग्र भाग. the fore-  
 part of the hair; the tip of a  
 hair. नाया० ४; भग० ६, ३३;—जीह. न०  
 (\*जिह्व-जिह्वाप्रम्) लुक्कनो; अथभाग; जि-  
 ह्वाभ्र. जींस के आंग का भाग; जिह्वाभ्र. the  
 tip of the tongue. “ अवदालियव-  
 यणविवरनिष्ठालियगजीहे ” उवा० २, ६५;  
 —तावस. पुं० (—तापस) धनिष्ठा नक्षत्रतुं  
 गोत्र. धनिष्ठा नक्षत्र का गोत्र. Gotra or  
 family origin of the Dhanisthā  
 constellation. “ धणिष्ठालक्ष्यते किं गोत्ते  
 परणते ? अगतावसगोत्ते परणते ”. स०  
 प० १०;—द्वार. न० (—द्वार) आगलुं आरायुं.  
 आगे का दरवाजा. the outer door;  
 front door. ओँच० नि० २६२; प्रब० ६३६;

—दारणिज्जामग. पुं० (—द्वारनिर्यामक)  
 आगदा दरवाजा पांस उभा रहेनारनिर्यामक  
 साधु. अगले दरवाजे के पास खड़ा रहने वाला  
 निर्यामक साधु. a Niryāmaka Sādhu  
 who stands at the outer door.  
 ओघ० नि० २६२; प्रब० ६३६;—एपस. पुं०  
 (—प्रदेश) आगदो प्रदेश-भाग. अगला हिस्सा.  
 front part; anterior portion.  
 प्रब० १३२;—पिंड. पुं० (—पिण्ड) नि-  
 क्षा आपवाभाटे अथवा कण्ठा. द्रुतरं ने ना-  
 भवा भाटे पोडेश्वा ढाढी शंखेश्वा ज्ञाशङ्केश्वा।  
 भाग. मिक्का देने के लिये अथवा कोइँ या कुन्तों  
 को मिक्काने के लिये पर्हिने से निकाला हुआ  
 भोजन का हिस्सा. a portion of food  
 which is set apart for mendicants or crows and dogs, “ से  
 मिक्कू बार जाव पविहे समाणे से जं पुण  
 जाणेजा, अगपिंड उकिखप्पमाणं पेहाए,  
 अगपिंड एकिखप्पमाणं पेहाए अगपिंड  
 हीरमाणं पेहाए अगपिंड परिभाहजमाणं  
 पेहाए ” आया० २, १, ८, २६;—बीय.  
 पुं० (—बीज-अग्रं बीजं येषां ते तथा) अथभाग  
 नंतो भीज छे नेवा वनस्पति; अथभाग रे-  
 पाथी उडे छेने; नृपांड तिथि, तात्र, प्रियग  
 वर्गेरे. जिमका अग्रभाग जर्मन में लगाने से  
 जो उत्पन्न होती हो वह वनस्पति: जैमे-तिल,  
 पापल आदि. a kind of vegetation  
 which can be made to grow by  
 planting the top part which  
 serves as a seed. आया० २, १, ६,  
 ४७; दस० ४; ठा० ४, १; सूय० २, ३, १०;  
 —महिसिन्ना. ल्ली० (—महिरीत्व) पट्टरायु-  
 पायुं; अथमहिरीपायुं. पट्टरानी पद. the  
 position of a crowned queen.  
 नाया० ध० ३; ४;—महिसी. ल्ली० (—महिरी)  
 पट्टरायुं-भृष्यंरायुं; धृष्टायुं; मुख्यरायी:

इन्द्राणी. a crowned queen; wife of Indra. कृपा० २, १३; भगा० ३, १; १०, ६; नाया० १३; अंत० २, १; ठा० ३, १; अं० १०१, १४; राय० ६४; उत्त० १६, १; नाया० ध० ४;—रस. पुं० (—रस) मुख्य-रस; शृंगार रस; शृंगार रस. the sentiment of love; the chief sentiment. “संपिण्डिया अग्नरसप्तमूद्या” उत्त० १४, ३।—सिर. न० (—शिरस) शिर-भाथाने आगले भाग. मस्तक के आगे का हिस्सा. the fore part of the head. “ घण्ननिचियसुबद्धस्वरूपस्तु इय कुडागारायिभायिरुवमपिदियगासिरा ” तंड०—सिहर. न० (—शिखर) वनस्पतिनी टें-च-उपरदी. भाग. वनस्पति का टँकना-ऊपर का हिस्सा. the top part of vegetation. “ सोहियवरंकुरग्नसिहरा ” ओव० राय०—सोरण्डा. पुं० (—शुण्डा) हाथीनी सुंडने आगले भाग. हाथी की सुंड के आगे का हिस्सा. the fore part of the trunk of an elephant. उवा० २, १०१;—हृथ. पुं० (\*—हस्त-हस्ताग्रम्) हाथने आगले भाग. हाथ के आगे का हिस्सा. the fore part of a hand or an arm. राय० ३२; ओव० २२; कृपा० २, १४;

अग्निको अ० (अग्रतस) आगल. आगे. In front of; before. पंचा० २, २४; अग्निकोकाडँ. सं० कृ० अ०. (अग्रतःकृत्वा) आगल करने. आगे करके. Having placed in front; having placed at the head. प्रव० ६५६;

अग्निदत्त. पुं० (अग्रदत्त) ईरवत क्षेत्रना चालु चौवीसीना तेवीसभा तीर्थकरनु नाम. इरवत क्षेत्र के बत्तमान चौबीसी के २३ वें तीर्थकर का नाम. Name of the 23rd Tirthankara of Iravata Kshetra in

the current Chovisi. प्रव० २००; अग्नय. न० (अग्रक) अग्र भाग. अग्र भाग. Front part; anterior portion. प्रव० १४०५; अग्नल. न० (अर्गल) ८६ भा. भग्नाभग्ननु नाम. ८६ वें महाग्रह का नाम. The 86th great planet so named. सू० प० २०; (२) भोगग—भारत्याने आई मुक्तवानु लाङ्कां. दरवाजे की चटकनी-आडी. A bolt of a door; a latch. “ अग्नवं फलिहं दारं कवाढं वा विसंजप् ” दस० ४, २, ६;—पासग. पुं० (—पासाद) जुओ श० ८६ “ अग्नल पासग ” देखो शब्द “ अग्नलपासग ”. vide “ अग्नलपासग ”. जवा० ३, ४;—अग्नला. ली० (—अग्नला) भोगग; भारत्यु लाङ्कवाने आगणीयो. दरवाजा बंद करने का आडा. (२) सांडग; नंग्गर. सांकल. a bolt of a door; a latch. “ अग्नला अग्नलपासगा य वहरमर्हतो ” राय० उत्त० ६, २०; दस० ४, २, ६; ७, २७; आया० २, ४, २, १३८; अग्नहण. न० (अग्रहण) अस्तीकार; न अद्यु करनु ते. अस्तीकार. Non-acceptance. क० प० १, १६;—वग्नणा. लो० (—वग्नणा) वर्गणा विशेष; औदारिक शरीरादि-रूपे अहं न यक्ष शके अने। पुहगलसभृष्ट-वर्गणा विशेष; औदारिक शरीरादि के रूप से प्रहण न हो सकने वाला पुहल सभृष्ट. a particular kind of molecules; a collection of molecules which are not capable of forming a physical body etc. क० प० १, १६;

**अग्नहृषणा.** ली० ( अग्नहृषणा ) औदारिकादि  
शरीरके अण्णु न थर्थ शडे तेवा पुहगतनी  
वर्गथा-समूह. जो औदारिकादि शरीररूप से  
प्रहरण न हो सके ऐसे पुहलों की वर्गथा-समूह.  
A collection of atoms which  
cannot be incorporated into the  
Audārika ( physical ) body etc.  
क० १० ५, ७७;

**अग्नहृषिय.** पुं० न० ( अग्राहिक ) अधरणी;  
सीभन्तोत्सव. सीमतं; सीमन्तोत्सव. Festival  
for the first pregnancy. मु०  
च० १, ३०६;

**अग्नहृष्य.** त्रि० ( अग्नहृष्ट ) अण्णु न करेल.  
प्रहरण न किया हुआ. Not taken; not  
accepted. विश० २६४;

**अग्नार्णीय.** न० ( अग्रायणीय-अग्रं परिमाणं  
तस्यायनं गमनं परिच्छेदः, तस्मै हितमग्रा-  
यणीयम्) सर्वे द्रव्य, गुण अने पर्यायमुं परिमाणु  
अतिपादन करनार १४ पूर्वमानों थीजें पूर्व.  
सम्पूर्ण द्रव्य, गुण और पर्याय का परिमाण प्रति-  
पादन करने वाला १४ पूर्वों में से दसरा पूर्व.  
The 2nd of the 14 Pūrvas which  
describes Dravya, Guṇa and Pa-  
ryāya. “बीहृष्यं अग्नार्णीयं तथ सञ्चद्वयायां  
पञ्जवायां य सञ्चजीवायां य अग्नं परिमाणं  
बन्निजज्ञहत्ति” नंदी० ४६; प्रव० ७१८; ज०  
प० ३, ४६;

**अग्नि.** पुं० (अग्नि) अग्नि. अग्नि; आग. Fire.  
भग० ६, ७; नाया० १; २; च; निर० ३, ३;  
अग्नुजो० १३१; भत्त० ४२; पंचा० १८,  
१०; उत्त० २, ७; ज० प० ५, ११४; (२)  
कृतिकानक्षत्रनो अधिंक्षता। अग्निदेवता. कृतिका  
नक्षत्रका अधिष्ठातुदेव. the god fire;  
the presiding deity of Kṛittikā  
constellation. “दो अग्नीओ” गा० २, ३;  
४, २; सू० प० १०; (३) भवनपति देवतानी

अग्नेक ज्ञात; अग्निकुमार देवता. a kind of  
Bhavanapati gods; god known  
as Agnikumāra. ओव० २३; उत्त० ३६,  
२०४; सम० ७६; —काश. पुं० (-काय)  
लुओं ‘अगणिकाय’ शब्द. देखो “अगणि-  
काय” शब्द. vide “अगणिकाय.” दसा०  
६, ४; —ज्ञाला. ली० (-ज्ञाला)  
अग्निनी ज्ञाला-ज्ञल. अग्नि की ज्ञाला.  
flames. नाया० च; —थंभणिया. ली०  
(-स्तम्भनिका) अग्नि स्तंभन करनारी  
विद्या. अग्नि का स्तंभन-रुक्वाट करने वाली  
विद्या. the art of stopping the  
spread of fire. सू० २, २, ८१;  
—दहण. न० (-दहन) अग्निदाह; भृतक्षेत्रो  
अग्निसंस्कार. अग्निदाह; मृतक का अग्नि-  
संस्कार. the ceremony of crema-  
ting a dead body. परह० १, १;  
—प्रयोग. पुं० (-प्रयोग) अग्निनो प्रयोग;  
अग्नि संग्राववेता. ते. अग्नि का प्रयोग;  
आग सुलगाना. lighting up fire;  
kindling of fire. विवा० ६; राय० २८२;  
ज० प० ३, ४८; —मेह. पुं० (-मेघ)  
अग्निनी ऐडे शरीरमां दाढ उत्पन्न करनार  
वरसाद. अग्नि के समान शरीर में दाढ  
उत्पन्न करने वाली वर्षा. rain burning  
the body like fire. भग० ७, ६;  
—विदहृष्ट. त्रि० (-विद्धृष्ट) अग्निथि  
थेतुं. आग से जला हुआ. burnt with  
fire. प्रव० ८५७; —सामरण. त्रि०  
(-सामान्य) जेमां अग्निनो भाग-हिस्से  
छे तेतुं. अग्नि के भाग-हिस्से वाला.  
( that ) in which Agni or  
fire claims a share; shared  
in common with Agni or fire.  
नाया० १; भग० ६, ३३; —साहिय. त्रि०

(—साध्यक ) जुग्मे श॒४६ “अग्निसामरणा” देखो शब्द “अग्निसामरणा.” vide “अग्निसामरणा.” “हिरण्ये य सुवरण्ये य जाव सावद्वजे अग्निसाहिषु चोरसाहिषु राय-साहिषु मच्छुसाहिषु” भग०६, ३३; नाया०१; —सिंहा. ल्ला० (-शिखा) अग्निनी ज्वाणा। अग्नि की ज्वाला. flames. टा० ४, २; —सेवण. न० (-सेवन) अग्नितुं सेवन क्रवुं; तापशु उरी तप्तुं ते. अग्नि का सेवन करना-तापना. warning oneself at the fire. प्रव० ४४०; ---हुय. पु० (\*-हुत-हुतानिः) ऐशु अग्निमां देवम द्विधेऽन्ये अवे। तापस; तापसनी अ५ नान. जिसने अग्नि में होम किया हो वह; एक प्रकार का तपस्वी. an ascetic who has thrown an oblation into fire. निर० ३, २; ---होत्त. न० (-होत्र) आत्मॄध्यभ्रमाभ्यु भंत्रोच्चारपूर्णक धी, नृवद्गेरे अग्निमां देवमय इं तेद्रव्य अग्निदेवत इं अने देवनदिष्ट्ये धर्म ध्यानस्त्रै अग्निमां कर्मस्त्रै धृत्यु देवमया तं वारतनिक लाव अग्निदेवत. वैदिक-धर्म के अनुसार मंत्रोच्चारपूर्वक धी, जव वग्गरह जो द्रव्य अग्नि में होमे जाते हैं वे अग्निहोत्र कहलाते हैं और जनधर्मानुसार धर्मध्यान रूप आग्नि म कर्मस्त्री इंधन को होमना वास्तविक भाव अग्निहोत्र है. an oblation to fire in which, according to Brāhmaṇa's religion, ghee, barley etc. are sacrificed with some Mantras or incantations, while according to Jaina standpoint fuels in the form of Karma are sacrificed in the fire of religious meditation. “अग्निहोत्रमुहा वेया” उत्त० २५, १६; विश० १६४०; निर० ३, ३; —होत्तवाइ. पु०

(—होत्रवादिन्) ५३४—भाल अग्निहोत्रथीज्ञ स्वर्गप्राप्ति भाननार वादी. अग्निहोत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति मानने वाला. a believer in the doctrine of the attainment of heaven by only oblation of material substances to fire. “जे अग्निहोत्रवाइ जलसोयं जे य इष्वान्ति” सू० ८० १०१, ७; —होम. पु० (-होम) अग्निभां देवमनु-हवन क्रवुं ते. अग्नि में हवन करना. pouring an oblation into fire. नाया० १४; १६; ज० प० २, ११४; अग्निश्र. पु० ( अग्निक ) अग्निहेवताये अपेक्ष तेथी “अग्निक” ऐनु नाम आपेक्ष डाई पु३५. अग्निदेवता की कृपा से उत्पन्न पुरुष का नाम. A person given as a gift by fire-god and hence so named. विचा० १; अणुजो० १३१; अग्निउत्त. पु० ( अग्निपुत्र ) भरतक्षेत्रना० २३ भा पार्थनाथस्त्रामिना समकालीन धृत्यनदेवतना तीर्थकर. भरतक्षेत्र के २३ वें तार्थकर पार्थनाथस्त्रामी के समकालीन इरवत क्षेत्र के तीर्थकर. Tirthankara of Irvata Kṣetra and a contemporary of Pārśvanātha, the 23rd Tirthankara of Bharata Kṣetra. “जियरागमगिसेण खण्डरायमगिउत्तं च” सम० १७; अग्निकुमार. पु० ( अग्निकुमार ) अग्निक्तमार नामे भवनपति देवतानी पांचभी जनि. अग्निकुमार नामक भवनपति देवता की पांचवीं जाति. The fifth class of Bhavana-pati gods named Agnikumāra. टा० ३, २; पञ्च० १; भग० ३, ७; (२) ल्ला० ऐ जनती देवी. इस जाति की देवी; a female deity of the above class of gods. भग० ३, ७;

**अग्निगच्छ.** पुं० ( आग्नेय ) उत्तर तरक्षनी ऐ  
कृष्णुराज्ञनी वर्च्ये आग्नेयाभ विभानभां  
पसता ८ भी जलना लोकान्तिक देवता. उत्तर  
की ओर की दो कृष्णराजियों के बीच के  
आग्नेयाभ विमान में रहने वाले ८ वाँ जाति  
के लोकान्तिक देव. The 8th class of  
Lokāntika gods in the Agneyā-  
bha heavenly abode between  
the two Krisṇarājīs in the  
north. ठा० ६, १; भग० ६, ४; नाया० ८;  
प्रव० १४६२; ( २ ) पुं० ईशिकगोत्रनी ऐक  
शाखा. कौशिकगोत्र की एक शाखा. ८  
branch of Kausīka Gotra. ठा० ७,  
१; ( ३ ) ते शाखामानो पुर०. उक्त शाखा  
का पुरुष. a person belonging to  
that branch. ठा० ७, १;

**अग्निगच्छाभ.** न० ( आग्नेयाभ ) उत्तर तरक्षनी  
ऐ कृष्णुराज्ञवर्च्यनु पाच्यमा देवलोकानु ऐक  
विभान. उत्तर दिशा की दो कृष्णराजियों के  
बीच का पांचवें देवलोक का एक विमान. A  
heavenly abode of the fifth  
Devaloka between the 2 north-  
ern Krisṇarājīs. ठा० ५, ३;

**अग्निगदत्त.** पुं० ( अग्निगदत्त ) आर्य भद्रभादुना  
शिष्यनु नाम. आर्य भद्रबाहु के शिष्य का  
नाम. Name of a disciple of Ārya  
Bhadrabāhu. कप्प० ८;

**अग्निगदास.** पुं० ( अग्निगदास ) अग्नि देवताना  
संबंधधी ईर्ष्या भाषुसनु आपवाभां आवेद्यु  
नाम. अग्नि देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य  
का रखा हुआ नाम. A personal name  
( Lit. servant of fire-god ).  
अग्नुजो० १३१;

**अग्निदिग्गण.** पुं० ( अग्निदिग्गण ) अग्नि देवताना  
संबंधधी ईर्ष्या भाषुसनु आपवाभां आवेद्यु  
नाम. अग्नि देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य  
का रखा हुआ नाम. A personal name  
( Lit. the fire-god ). अग्नुजो० १३१;

का रखा हुआ नाम. A personal name  
( Lit. given by fire ). अग्नुजो०  
१३१;

**अग्निदेव.** पुं० ( अग्निदेव ) अग्नि देवताना  
संबंधधी ईर्ष्या भाषुसनु आपवाभां आवेद्यु  
नाम. अग्नि देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य  
का रखा हुआ नाम. A personal name  
( Lit. the fire-god ). अग्नुजो० १३१;

**अग्निधर्म.** पुं० ( अग्निधर्म ) अग्निदेवताना  
संबंधधी ईर्ष्या भाषुसनु आपवाभां आवेद्यु  
नाम. अग्निदेवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य  
का रखा हुआ नाम. A person so  
named after the fire-god. अग्नुजो०  
१३१;

**अग्निप्रभा.** लो० ( अग्निप्रभा ) १२ भा  
तीर्थकर्त्ता प्रवर्जन्या पालभीनु नाम; प्रवर्जन्या  
भद्रेस्वर्माने पालभीमां ऐहा छता तेनु  
नाम. १२ वें तीर्थकर दान्तामहोत्सव में जिस  
पालकी पर बैठ थे उस पालकी का नाम.  
The name of a palanquin of  
the 12th Tirthankara in which  
he sat at the time of the cele-  
bration of his Pravrajya. सम०

**अग्निभूम्.** पुं० ( अग्निभूमि ) श्रीमहावीरस्वा-  
भीना भीन गण्डपर्वनु नाम. श्रीमहावीर  
स्वामी के दूसरे गणधर का नाम. The  
name of the 2nd Gaṇadhara of  
Mahāvīrasvāmī. विशेष० १८१६; सम०  
११; भग० ३, १; नंदा० स्थ० २०; ( २ ) भ-  
द्रावीर स्वामीना आगवा दशमा भवनु ( भंडि-  
रभनिवेशभा उत्पन्न थयेद आग्नुनु ) नाम.  
महावीरस्वामी के दशवें भव ( मन्दिर सञ्चिवेश  
में उत्पन्न हुए ब्राह्मण ) का नाम. name of  
a Brāhmaṇa born in the village  
of Mandira at the time of the

## 10th birth of Mahāvīrasvāmī.

काम्प० इ;

**आगिम.** त्रिं (अग्रिम) आगदुः; आगणनुः;  
पहेलानुः. आगे का; पहिला. Foremost;  
first; anterior. सु० च० १, ५; प्रव०  
दृ० ८८; जं० प० २, १६; अण्णजो० ४६;

अग्निमारणव. पुं० ( अग्निमानव ) दक्षिण॑ तरेक्ता  
 अग्निकुभार देवतानों ४८६. दक्षिण दिशा  
 के अग्निकुमार देवता का इन्द्र. The Indra  
 of the Agnikumāra gods of  
 the south. ठा० २, ३; सम० ३२; पञ्च०  
 २; भग० ३, ८;

**अग्निमिता.** ऊ० ( अग्निमित्रा ) गोशाला  
 शिष्य पोलासपुरवारी शकदाल इंभारनी  
 औनु नाम. गोशाला के शिष्य पोलासपुर  
 निवासी शकदाल कुम्हार की स्त्री का नाम.  
 Name of the wife of Śakadāla,  
 a potter and a disciple of Gosālā  
 residing in Polāsapura. उत्तरा० ७,  
 ३०४:

**अग्निग्रीय.** पुं० ( अग्निज ) भरभक्त व्याधि; ज्वरम्।  
 आधेलुं सर्व भरभक्तृप्य थर्थ ज्वर अने भुज  
 भटे नहि तेवै। एक रोग। भस्मकव्याधि;  
 एक रोग का नाम, जिसके होने से सदा भूख  
 बनी रहती है और खाया हुआ भस्म हो जाता  
 है। A kind of disease by which all  
 food taken is burnt away and  
 the hunger is never removed.  
**विवा० १, १;** (२) वत्सगोत्रनं एक व्याधि-  
 तर-पेटगोत्र। वत्सगोत्र का एक अवान्तर  
 गोत्र. a subdivision of Vatsagotra.  
**ठा० ७, १;**—**रोगि.** श्री० (—रोगिन) भरभक्त  
 व्याधिवाणी। ज्वेलुं खाय तेलुं तत्काल  
 भरभक्तृप्य थर्थ ज्वर एवा रोगवाणी। भस्मक  
 व्याधि वाता. (one) suffering from  
 a disease by which all the

food, that one takes is burnt away without appeasing hunger. विशेष २०४८;

अग्निरक्षय. पुं० ( अग्निरक्षित ) ए नामतुं  
एक भाष्य. इस नाम का एक मनुष्य.  
Name of a person. ଅଗ୍ନୁଜୋ ୧୧;

अगिल्ल. त्रि० ( आग्रीम ) आगले; पहेलाने।  
पहिला; अगला. Foremost; first;  
anterior. “अगिल्लगमयसिरसो” निसी०  
१, ४९;

अग्निग्रहयः पुं० (अम्बि) ८८ अहमांना पप्त भा  
भद्राअहनुं नाम. वद् प्रहो में से ४५  
वें महाग्रह का नाम. Name of the  
55th great planets. ठा० २, ३; सू०  
प० २०;

अग्निवेस. पुं० ( अग्निवेसमन् ) पक्षना चैषाम्भा  
द्विसंतुं-चैदाशनुं नाम. परखवाहे के चौदहवें  
दिन-चौदस का नाम. The name of the  
fourteenth day of a fortnight.  
सू० प० १०; ज० प० ७, १५२; कप्य०  
६, १२३; ( २ ) द्विसंता २२ भा. मुहुर्तनुं  
नाम. दिन के २२ वें मुहूर्त का नाम. name  
of the 22nd Muhūrta of a day.  
सू० प० १०; ( ३ ) कृतिका नक्षत्रनुं गोत्रः  
कृतिका नक्षत्र का गोत्र. the Gotra or  
family origin of the Krittikā  
constellation. सू० प० १०;

**अग्निवेसायण.** पु० (अग्निवेशयायन) दिवसना।  
 २३ भा. मुहूर्तनुं नाभ. दिन के २३ वें मुहूर्त का  
 नाम. Name of the 23rd Muhūrta  
 of a day. सम० ३०; (२) गोशाणीना।  
 ५ भा. दिशायर साधु. गोशाला के ५. वें दिशा-  
 चर साधु. Gosālā's 5th missionary  
 disciple. भग० १५, १; (३) सुधर्मास्त्वा-  
 भीतुं गोप. सुधर्मास्त्वामी का गोत्र. Gotra

or family origin of Sudharma-svāmī. नंदी० स्थ० २३; ( ४ ) ते गोत्रभां उत्पन्न थनार पुरुष. सुधर्मास्वामी के गोत्र में उत्पन्न होने वाला पुरुष. a person born in the above Gotra. नंदी० स्थ० २३; अग्निसम्म. पुं० ( अग्निशर्मन् ) ऐ नामनो डेहि भालाण्. एक ब्राह्मण का नाम. A Brāhmaṇa of that name. अणुजो० १३१;

अग्निसीह. पुं० ( अग्निशिल्प ) दक्षिण् दिशाना अग्निकुभार देवताने। ईन्द्र. दक्षिण दिशा के अग्निकुमार देवों का इन्द्र. Lord of the Agnikumāra gods of the south. भग० ३, ८; पञ्च० २; सम० ३२; ठा० २, ८;

अग्निसीह. पुं०(अग्निर्सिंह) यातु अवसर्पिणीना सातभा भवदेव अने नासुदेवना पितानुं नाम. वर्तमान अवसर्पिणी के सातवें बलदेव और वासुदेव के पिता का नाम. Name of the father of the seventh Vāsudeva and Baladeva of the present Avasarpinī. सम.

अग्निसेण. पुं०( अग्निषेण ) यातु अवसर्पिणी-भां जंप्यौपना। ईरितक्षेत्रभां थयेवा। त्रीज्ञ तथा ऐकविसभा तिर्थेकरनुं नाम. वर्तमान अवसर्पिणी में जंबूद्वीप के इरवतक्षेत्र में उत्पन्न हुए तीसरे तथा २१वें तीर्थकर का नाम. Names of the third and the twentyfirst Tirthankara of the Iravata region of Jambū-dvipa in the present Avasarpinī. “ चंद्राशेण सुचंद्रं अग्निसेण च नंदितेण च ” सम० ६६; प्रब० २६८; ( २ ) ऐ नामनो ऐक भाष्यक. इस नाम का एक मनुष्य. a man of that name. अणुजो० १३१; अग्नेश. स्त्री० ( आग्नेशी ) अग्निकाण्डु; दक्षिण्

अने पूर्व दिशानी वर्ष्येनो भुषेण-विदिशा. अग्निकोन; दक्षिण और पूर्वदिशा का मध्यभाग-विदिशा. The south-east quarter. आघ० निंभा० २७६; भग० १०, १; १३, ४; ( ह )—दिसा. ली० (-दिशा) अग्नि भुषेण; पूर्व दक्षिण् वर्ष्येनी विदिशा. अग्निकोन; पूर्व और दक्षिण के बीच की विदिशा. the south-east quarter. भग० १६, ८;

अगेजम. त्रि० ( अग्राह ) अग्राह; अहणु न थाय तेवुं. ग्राह न हो ऐसा; अग्राह. Unacceptable. आव० अग्नेशीय. न० ( अग्रणीय ) श्वेत पूर्वभानो भीने पूर्व. चौदह पूर्वों में से दूसरा पूर्व. The second of the fourteen Pūrvas. सम० १४;

अग्नेय. त्रि० ( आग्नेय ) वत्सगोत्रनी शाखा अने ते शाखानो भाष्यक. वत्सगोत्र की शाखा और उस शाखा का मनुष्य. A variety of Vatsa Gotra and a man of that Gotra. ठा० ७, १;

अग्नेसर. त्रि० ( अग्नेसर ) अग्नेसर-आगेवान; प्रभुभ. अगुआ; प्रमुख; नेता. A leader. सु० च० २, ६१;

✓ अग्नध. धा० I. ( अर्ह ) योग्य थवुं; लायक अनुनुं. योग्य होना; लायक बनना. To deserve; to be fit for.

अग्नध. उत्त० ६, ४४;

अग्नेह. नाया० ८;

अग्नध. पुं० ( अर्ध ) पूजनी सामग्री. पूजन की सामग्री. Materials for worship. नाया० १६; विशेष० १४८०; ( २ ) भृष्ट कुर्व्यादि जलयर शृङ्. मच्छ कच्छ आदि जलचर जीव. aquatic animals like fish, tortoise etc. जीवा० ३, ४; ( ३ ) पुं०

किमत; भूम्य; द्रव्य. कीमत; मूल्य. price; value. संथा० ४६; विशेष० १४८०;

✓ अग्न्या. था० I. ( आग्न्या ) सुंधुरुं; गंधे लेवी. सूंघना. To smell.

अग्न्याहृ. पञ्च० १५; नाया० १;

अग्न्याडग. पुं० ( आग्न्यातक ) एनामनी एक जननी वनस्पति; अधारु. एक जाति की वनस्पति. A plant growing in marshy places. पञ्च० १;

✓ अग्न्याय. था० I. ( आ+ग्न्या ) सुंधुरुं; गंधे लेवी. सूंघना. To smell.

अग्न्यायहृ. आया० २, १५, १७६;

अग्न्यायति. नाया० १७;

अग्न्याय. सं० कृ० “ सुरभिग्न्याणि वा अग्न्याय से तत्थ आसायवाढियाए सुच्छिष्ठे ” आया० २, १, ८, ४४;

अग्न्यायमाण. व० कृ० नाया० १;

अग्न्याय. त्रिं० ( आग्न्यात ) सुंधेवुं; गंधे लिघेवुं. सूंघा हुआ. Smelt. विशेष० २३८४;

अग्न्याहृ. त्रिं० ( अग्न्यातिन् ) आत्माना। ज्ञानादि गुणों वा धात न करने वाला. (One) that does not obstruct the qualities of the soul such as knowledge etc. क० प० २, ४४; क० गं० ५, १४; —कर्म. न० (—कर्मन्) आत्मगुणनी स्वप्तः धात न करे तेवा वेदनीय आदि कुर्म. आत्मगुण की स्वयं धात न करे ऐसा वेदनीय आदि कर्म. Karma such as Vedaniya etc. which do not of themselves destroy the qualities of the soul. क० प० ५, ५३;

अचंकमण. ज० ( अचंकमण ) चंडभूष-याक-पानी गतिनो अलाप; न चालनुं ते. गति का अभाव; न चलना. Motionlessness. नाया० १;

अचंकारियभट्टा. ली० ( अचंकारियभट्टा ) धन्यशेषनी पुत्री, जे तेनी आज्ञा उक्षवे तेनी साथे परख्याववामां आपी हुती, पतिने संक-ज्ञमां राखती. एकदा राजना दृष्टाख्यी खीनी आज्ञा न पायी तेथी ते भानिनी खी रिसाई आगी, चोरोमे लुटी; रंगाराने त्यां वेची; धारुं कष्ट वेधा पछी तेना पतिअे तेने छोडावी, त्यारथी तेखीअे डोध, भान वगेरे देखाने दूर कर्या. मुनिपति नामना साधुना दाँगेल शरीरनी दृवामाटे लक्षपाक तेल व्हेंरवा एक साधु तेने धेर आव्या. तेभने व्हेंराववामाटे लावता दासीना हाथे लक्षपाकना एक पैठी एक अभ त्रणु सीसा पूटी गथा तो पाखु जेने डोध न थेयो. चोरीवार पौते सीसो लध्य आवी साधुने व्हेंरावयो. एनो विस्तार मुनिपति अ-रित्रिमां छे. धन्यसेठ की पुत्रा, जिसका विवाह उसकी आज्ञा उठाने वाले के साथ हुआ था, यह सदा अपने पति को दबाव में रखता था, एक बार राजा के दबाव डालने से खी का आज्ञा का पालन नहीं हुआ. अतः वह मानिनी खी, गुस्सा होकर भाग निकली, रास्ते में चोरों ने उसे लूटा और रंगेरे के यहाँ बेचा, इस प्रकार जब बहुत कष्ट उठाया तब उसे उसके पति ने छुड़ाया और तबसे फिर उसने क्रोध मान आदि करना छोड़ दिया. मुनिपति नामक साधु के जले हुए शरीर की दवा के लिये लक्षपाक नामक तेल लेने के लिये एक साधु इसके घर आया उस समय लक्षपाक तेल की तीन शीशियां दासी के हाथ से फूट गई तो भी उसे क्रोध न हुआ, चौथी बार वह स्वयं शीशी लेकर आई और साधु को तेल दिया. इस का विस्तृत वर्णन मुनिपतिचरित्र में है. The daughter of Dhanyasetha, She was married to a person who was willing to obey her commands. She used to keep

her husband in check. Once as her husband could not obey her order because of his having had to obey some command of the king, that proud woman got exasperated and went away. She was robbed by thieves and was sold to a dyer. Her husband procured liberty for her after she had suffered much. Thenceforth she gave up all vices like anger, pride etc. Once an ascetic came to her house to beg for Laksapaka oil ( oil which is produced by mixing a lac of things ) for medicinal purposes for a sage named Munipati who was suffering from scalds on his body. At that time her maid-servant chanced to break three bottles of Laksapaka oil one after another as she brought them, yet she did not become angry. At the fourth time she herself brought a bottle and gave it to the sage. This is related in detail in the biography of Munipati. गच्छा० २;

**अचंचल.** त्रिं० ( अचम्चल ) जेणे ईदियो वश करी हेय ते; अचल नहि ते. जिसने इन्द्रियों को वश किया हो वह. One who has subdued his senses. जं० प० ३, ५७; प्रव० ५५०;

**अचंड.** त्रिं० ( अचण्ड ) निष्कारणु छोध रहित. बिना कारण के कोध से रहित. Devoid of

unreasonable anger. “मा अचंडा-लियं कासी” उत्त० १, १०; **अचक्षिय.** त्रिं० ( अचक्षित ) परिष्ठु आदिथी अक्षित थाय नहि तेवैः त्रासन पामे तेवैः जो परीषह ( दुःख ) से चक्षित न हो वह. One who is not daunted by sufferings. समुद्दामीरसमा दुरासया, अचक्षिया केण्ह दुप्पहंसया” उत्त० ११, ३। **अचक्षुष्.** न० ( अचक्षुष् ) आंभ सिवायनी भीज थार ईदियो अने भन. नेत्र के सिवाय दूसरी चार इन्द्रियां और मन. Mind and four senses other than the eye. क० गं० १, १०; ३, १७; पञ्च० २३; ( २ ) त्रिं० असु-आंभ वगरने. चक्षु रहित. destitute of eyes. क० गं० ४, १५; क० प० ४, ३४;—**दंसण.** न० ( -दर्शन ) आंभ सिवाय भीज ईदियोथी सामान्य जान-भैय थाय ते. आंख के सिवाय दूसरी इन्द्रियों से जो सामान्य जान हो वह. ordinary knowledge obtained through senses other than the eyes. जीवा० १; भग० २, १०; दृ० २; २५, ४;—**दंसणावरण.** न० ( -दर्शनावरण ) दर्शनावर-ऐयु इमनी अक प्रृति, के जेना उद्यथी ल्य अचक्षुदर्शन ( आंभ सिवाय भीज ईदियोथी सामान्य जान थाय ते) न पामे. दर्शनावरणीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव अचक्षु-दर्शन ( आंख के सिवाय दूसरी इन्द्रियों से जो सामान्य जान हो ) नहीं प्राप्त कर सके. A variety of Darśanāvaraṇīya Karma under the influence of which an individual cannot have knowledge derived through senses other than the eyes. उत्त० ३३, ६; सम० १७;—**दंसणि.** त्रिं० ( -दर्शनिन् ) अक्षुदर्शन वगरने। ७२; अ५

ईद्रियथी त्रिषु ईद्रियवाणे। ७३. अच्छुदर्शन-  
रहित एक इन्द्रिय से तीन इन्द्रियों वाला जीव.  
a living being having one or  
more of three senses other  
than the fifth viz. the eyes.  
भग० ६, ६; १३, १; ठ० ४, ४;—फास. पुं०  
( -स्पर्श ) अन्धकार; अंधाः. अँधेरा; अंध-  
कार. darkness. “पुरओ पवाए पिछओ  
हस्तिथ भयं दुहओ अचक्षुफासो मज्जेसरा  
शिवयंति” नाया० १४;—विसय. पुं०  
( -विषय ) दृष्टिगोचर नहि ते; आंभ्यथी न  
देखाय ते. जो दृष्टिगोचर न हो वह. invisible;  
imperceptible. “अचक्षुविसयो  
जस्थ पाया दुप्पद्दिलोहया” दस० ५, १, २०;  
अचक्षुस. त्रिं० ( अचाक्षुष ) आंभ्यथी न  
देखाय तेवुं; जेनुं चाक्षुप्रत्यक्ष न थाय तेवुं.  
जो नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष न हो सके अर्थात् अचा-  
क्षुष. Invisible; imperceptible.  
परह० १, १; दस० ६, २८;  
अचयंत. व०क० त्रिं० ( अशक्तुवत् ) अशक्ता  
थतो; असमर्थ थतो. असमर्थ होता हुआ. Be-  
coming powerless or incapable.  
“चोहया भिक्षु चरियाए अचयंता जवित्तए”  
सूर्य० १, ३, २, २०; उत्त० २५, १३;  
अचर. पुं० ( अचर ) पृथ्वी आदि स्थावर ७४.  
पृथ्वी आदि स्थावर जीव. Lives devoid  
of the power of motion e. g.  
earth etc. उत्त० ३२, २७;  
अचरम. त्रिं० ( अचरम ) जुम्हे। “अचरिम”  
श०६. देखो ‘अचरिम’ शब्द. Vide “अच-  
रिम”. विश० ४११; राय० ७४;  
अचरिम. त्रिं० ( अचरम ) संसार भूध्यवतीं;  
संसारने छेडे आनेका नहि. संसार की चरमा-  
वस्था को नहीं पहुंचा; संसारमध्यवत्ता;  
अनेक बार जन्मभरणर्थमयुक्त. Plunged  
into the world; far from final.

liberation. भग० ३, १; ६, ६; ८,  
६; १३, १; १४, ४; १८, १; २६, ११;  
३३, ११; जीवा० १०; पञ्च० १८;—समय.  
पुं० ( -समय ) चरम-छेत्वा सभ्यथी  
पहेलानो सभ्य; छेत्वा सभ्य नहि ते.  
अंतिम समय से पहिले का समय. duration  
preceding the final period. नंदी०  
अचरिमय. त्रिं० ( अचरम-क ) जुम्हे।  
“अचरिम” श०६. देखो ‘अचरिम’ शब्द.  
Vide “अचरिम”. भग० ३४, १;  
अचल. त्रिं० ( अचल ) चलायमान नहि; स्थिर;  
निश्चल. जो चलायमान न हो; स्थिर; निश्चल.  
Motionless; steady. “आणिहे अचले  
अबहिज्ञेसे परिव्यप्” आया० १, ६, १६५;  
“अचले जह मंदेर गिरिवरे” पराह० २, ५;  
ओव० १०; नाया० १; ८; सम० १; ( २ )६३  
दशारमांना छहा दशार्ह. दस दशार्हों में से छठा  
दशार्ह. the sixth of the ten Dasā-  
rhas. अंत० १; ( ३ ) महिनाथना पूर्व भवनो  
( महाभलना भवनो ) एक भित्र, के नेष्टे तेम्हनी  
साथे दीक्षा लीधी हती. महिनाथ का पूर्वभव का  
( महाबल के भव का ) एक मित्र, जिसने महाबल के  
साथ दीक्षा ली थी. A friend of Malli-  
nātha in his ( i. e. Mallināth's )  
previous birth. He took Dikṣā  
from the latter ( whose name  
was then Mahābala ). नाया० ८;  
( ४ ) चालुवच्यसपिण्ठीना पहेला खलहेवनुं नाम.  
वर्तमान अवसारिंशी के प्रथम बलदेव. name  
of the first Baladeva of the cur-  
rent Avasarpini. सम० ( ५ ) अंतगड-  
सूत्रना भीज्ञवर्गना पांचमां अध्ययननुं नाम;  
अंधकृष्णिराजनी धारणी राणीना प्रतु, के नेष्टे  
नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा लाई गुणुरथणु तप  
करी सोण वरसनी प्रब्रज्ञा पाणी एक भासनो.  
संथारेकरी शत्रंज्य उपर सिद्ध थया. अंत० के

दूसरे वर्ग के पांचवें ऋच्याव का नाम, जिसमें अंधकवृष्णि राजा की धारणी राणी का पुत्र जो नेमिनाथ प्रभु से दीक्षा लेकर, गुणरथण तप करके सोलह वर्ष की प्रव्रज्या पाल कर और एक मास का संथारा ( अनशन ) कर शत्रुञ्जय पर सिद्ध हुआ। Name of the 5th chapter of the 2nd section of the Antagada Sūtra. where the son of Dhāraṇī, the queen of king Andhakavṛiṣṇi, is mentioned. He was initiated by Lord Neminātha, and he practised the Guṇarayaṇa austerity, observed asceticism for 16 years and after a month's entire fasting attained final beatitude on mount Śatruñjaya. अन० २, ५;

**अचलपुर.** न० ( अचलपुर ) अब्लीपुरी पासे आवेदा आलीर देखभाँनु ऐक नगर, डे नेमां रेवतीनक्षत्र आचार्यना शिष्योंमें दीक्षा लीधी। ब्रह्मद्वारा प के पास वाले आभार देश का एक नगर; जिसमें रेवतीनक्षत्र आचार्य के शिष्योंने दीक्षा ली थी। A city in the Ābhīra country near Brahmadvīpa where the disciples of an Achārya named Revatinakṣatra took Dikṣā. नंदी० स्थ० ३२;

**अचलमाया.** पु० (\* अचलआता-अचलआतृ) भद्रपीरस्वाभीना। नवभा गणुधर। महावीर स्वामी का नवाँ गणधर। The ninth Gaṇadhara of Mahāvīra Svāmī. नंदी० स्थ० २०; सम० ११; ७२;

**अचलमाण.** व० क० त्रि० ( अचलत् ) न चलतुं। न चलता। हुआ। Motionless; not moving. कृप० ६, ४५;

**अचला.** ली० ( अचला ) शङ्केनी सातभी अथमहिषी। शकेन्द्र की सातवीं अग्रमहिषी। The seventh of the favourite queens of Śakrendra. नाया० २; अचलिय. न० ( अचलित् ) वस्त्र तथा शरीर हाले नहि अवी रीते पडिलेहणु करवुं ते; पडिलेहणुनो ऐक शुण। वस्त्र तथा शरीर न हाले, इस प्रकार पडिलेहण करना; पडिलेहण का एक शुण। Carefully passing the eyes over a thing without giving motion to the body or the clothes. ठा० ६,१; ( २ ) अचल; चलाय-भान न थयेत। अचल; स्थिर. steady. नाया० ८; पंचा० १४, १४; भग० १, १०;—कर्म. न० (-कर्मन्) अचलित कर्म; उद्यम। आवेदा नहि अवेतुं कर्म। जिस कर्म का उदय न हुआ हो वह। Karmas which have not matured. भग० १, १;

**अचबचव.** त्रि० ( अचबचव ) यवयव अवेदा शब्द-यवान रहित। 'बचबच' इस प्रकार के शब्द से रहित। Unaccompanied with sound produced by chewing. “ असुरसुरं अचबचवं आहारमाहारेऽ ” भग० ७, १; पण्ड० २, १;

**अचबल.** त्रि० ( अचबल ) अचपत; नंदता रहित; स्थिर स्वभाववालो; मन, वचन अने काया वृद्ध धैर्य राखनार। नपलता रहित; स्थिर स्वभाव वाला; मन, वचन और काया से धैर्य रखने वाला। Not restless; steady. “ अतुरियमचबलमसंभत्ते मुह पोतिं पडिलेहैर् ” भग० २, ५; ७, १०; नाया० १; राय० ३३; दस० ८, २६; उत्त० ३४, २७; कृप० १, ५; सम० १० २३६;

**अचाहय.** त्रि० (\* अशक्त ) अशक्त; असमर्थ। अशक्त; सामर्थ्य रहित। Powerless; incapable. तमचाहयं तरणम-

पतजातं उक्ताई अवतागमं हरेज्ञा ” सूय० १,  
१४, २;

**अचाय.** पुं० ( अत्याग ) न तज्जुः; त्यग न  
कर्ये. न छोडना. Not giving up or  
abandoning. “ सञ्चिताणमचायचाय  
मजिए ” प्रब० ४४१;

**अचायंत.** व० क० त्रिं० ( \*अशक्तनुवत् ) सहन  
करनाने अशक्त; असमर्थ. सहन करने को  
अशक्त. Incapable of enduring;  
powerless. “ अव्वाबाध अचायंतो नेच्छर्ह  
अपचेतपु एण् ” सूय० १, ३, १, ७;

**अचित्र.** पुं० ( अचित् ) नाटकनो येक प्रकार.  
नाटक का एक भेद. A kind of a  
drama. ठा० ४, ४;

**अचित.** त्रिं० ( अचिन्त्य ) अकृत; अतिर्युः;  
जेनुं चितन न करी शक्यत तेनु. जिसका  
चितन न किया जासके; अचिन्त्य. Un-  
imaginable; inconceivable. विशे०  
६७; १०७८;

**अचितण.** न० ( अचितन ) चितननो अभाव;  
चितन न करनु ते. चितन का अभाव. Not  
to think about or imagine. “ अचिं-  
तणं चेव अकित्तणं व ” उत्त० ३२, १५;

**अचिकरण.** न० ( अचिकरण ) चिक्षासनो अ-  
भाव. चिकनाहट का अभाव. Absence of  
greasiness. भग० १६, ४; ( २ )  
चिक्षास रहित; चिक्षास वगरनु. चिकनाहट  
रहित. devoid of greasiness. भग०  
१६, ४;

**अचिट्ठ.** त्रिं० ( अचेष्ट ) नेष्टा रहित; हाले चाले  
नहि तेनु; निर्झव. चेष्टा रहित; निर्झव;  
निर्जीव. Motionless; inanimate.  
विशे० ११४४;

**अचिट्ठिसा.** सं० क० अ० ( अस्थित्वा ) उभा  
न रहीने. खडे न होकर. Not standing;  
without standing. ठा० ३, २;

**अचित्त.** पुं० ( अचित् ) अचेत; निर्झव;  
शुष्क वगरनी वस्तु; वस्त्र, सुखुं लाकुं, सोना  
इपुं विगेरे. अचेत; निर्जीव; जड़; सोना रूपा  
आदि. An inanimate thing e. g.  
cloth, dry wood, gold etc.  
भग० २, ५; ६, ७; ७, ७; १०; ८, ६; ११,  
७; १८, ७; नाया० १; १६; पिं० नि०  
भा० ८; दग्ग० ५, १, ८१; ६, १४; पञ्च०  
६; ठा० ३, १; विशे० ८६६; सूय० १, १, २,  
१; २, ३, २; उत्त० २५, २४; ओद० १७;  
निसी० १, १०; वब० ७, १७; जं० प० २,  
३१; ४६; आया० १, ८, ७, २१; अगुजो०  
४६; १२१;—**आहार.** पुं० ( -आहार )  
प्रासुक आहार; अचेत आहार. प्रासुक आहार;  
अचेत ( दोपरहित ) आहार. acceptable  
pure food. भग० १३, ५;—**पद्धिय.**  
त्रिं० ( -प्रतिर्थित ) अचितने आश्री रहेक.  
अचित्त-निर्जीव के आश्रय स्थित-ठहरा हुआ.  
being in touch with inanimate  
objects. निसी० २, ६;

**अचित्तस्कम्म.** त्रिं० ( अचित्तकर्मन् ) चित्रकाम  
रहित; चित्राभाष् रहित. बिना चित्र का. Having  
no paintings on. वेय० १, २०;  
**अचित्तत्त.** न० ( अचित्तत्व ) अचित्तपथ्य.  
अनितपन; निर्जीवपन. Lifelessness;  
state of being lifeless. प्रब० ३७;  
**अचित्तमंत.** त्रिं० ( अचित्तवत् ) चेतन रहित.  
चेतन्य रहित. Inanimate. “ चित्तमंतम-  
चितं वा गेव सर्वं अदिक्षं गिरेहेज्ञा ” दस०  
४; सूय० १, १, १, २;

\* **अचियत्त.** त्रिं० ( अग्निय ) अनिष्ट; अभिय.  
अनिष्ट; अप्रिय. Unpalatable; un-  
pleasant. पिं० नि० ५७०; ५८०; ( २ )  
शु३ उपर पूज्यभाव नहि शभनार. गुरु में  
पूज्यभाव न रखने वाला. having no  
reverence for a preceptor. दस०

५, १, १७; ७, ४३; उत्त० १७, ११;  
ओघ० नि० २३६; ( ३ ) छी० अप्रीति;  
प्रेमने अभाव. अप्रीति; प्रेम का अभाव.  
want of love. ओघ० नि० भा० २६१; दस०

५, १, १७;—अंतेउरपरधरप्पवेस. पुं०  
( —अस्तःपुरपरगृहप्रवेश-अचियसोऽनभिम-  
तोऽन्तःपुरप्रवेशवत् परगृहप्रवेशो येषां  
ते तथा ) अन्तःपुरनी॑ भाइक॑ शीजनना॑  
धरमां प्रवेश करनानु॑ अनिष्ट गणनार॑  
आव॒क. अन्तःपुर के समान दूसरे के घर मे॑  
प्रवेश करने को अनिष्ट समझने वाला आव॒क.  
a Jaina layman who shuns  
another's house as if it were a  
harem. “ ऊसिय कलिहा अवंगुयादुवार  
अचियसंतेउरपरधरप्पवेसा ” सू० २, २,  
७६;

अचिरं. अ० ( अचिरम् ) ज८८८; तरत८; अ८५  
६८. शीघ्र; तुरंत. At once; immediately.  
सू० प० २०; जीवा० ३, ३;

अचिरकाल. पुं० ( अचिरकाल ) तल्काल.  
तल्काल. Immediately, present  
time. प्रव० ७१६;

अचिरबृत्त. त्रि० ( अचिरबृत्त ) तरतनुं;  
थेडा वर्षननुं भनेनुं. तुरंत का; थोड़े समय  
का बना हुआ. Fresh; of recent  
occurrence. भग० १२, ६;

अचिरा. अ० ( अचिरात् ) तल्काल; ६८-  
७०८. तुरंत. Immediately; present-  
ly. क० प० ७, ३३;

अचिरोग्गय. पुं० ( अचिरोद्भूत ) तरत उंगेलो॑।  
सूर्य; आख सूर्य. तुरंत का उगा हुआ सूर्य. The  
early morning sun. भग० १४, ६;

अच्युतकप्प. पुं० ( अच्युतकल्प ) आरभो॑  
देवलोक॑. बारहवाँ देवलोक. The twelfth  
Devaloka ( • abode of gods ).  
भग० २, १;

अचेयकड. त्रि० ( अचेतःकृत ) अचेत  
वस्तुथी अनेकुं. निर्जीव वस्तु से बना हुआ.  
Made up of inanimate things.  
भग० १६, २;

अचेयण. त्रि० ( अचेतन ) चेतन रहिन;  
निर्झ॒व. चेतन्य रहित; निर्जीव. Inani-  
mate; lifeless. “ हृथं वावि अचे-  
यणो ” आया० १, ८, ७, १५; पगह० १, २; पि०  
नि० भा० १२; विशा० ६१;

अचेल. त्रि० ( अचेल ) वस्त्र वगरने. वस्त्र  
रहित. Devoid of clothes. ( २ ) अ८५-  
८८५. अल्प वस्त्रधारा. using a  
very small number of clothes.  
“ जे अचेले परिवुसिप् संचिकबूँ ” आया० १,  
६, २, १८३; पंचा० १७, ११; ( ३ ) अचेल  
—पञ्चनो॑ परिप५. अचेल वस्त्र का परापरह.  
enduring discomfort caused by  
absence of garments. भग० ८, ८;  
—परिसह. पुं० ( परापरह ) वस्त्रनी॑ तंशी॑  
५४ सू८८८ उर्दुं ते; २२ परिप५भानो॑ छो॑  
वस्त्रनो॑ परिप५. वस्त्र का न्यूनता-कमी का कष्ट  
सहन करना; २२ मे से छठा वस्त्रपरापरह.  
enduring discomfort caused by  
scantiness of clothes; the sixth of the twenty-two Parīshahas.  
सम० २२; भग० ८, ८;

अचेलअ. त्रि० ( अचेलक-न विद्यन्ते चेलानि  
वासांसि यस्यामावचेलकः कुमितं वा चेलं  
यस्यामावचेलकः ) वस्त्र रहित. वस्त्र रहित.  
. Devoid of clothes. ज० प० २, ३१;  
( २ ) उमित-थेडा डिमतना॑ वस्त्रवाणो॑.  
कुल्तित-अल्पमूल्य के वस्त्र वाला. wearing  
garments of little or no value.  
निर्सा० ११, ३६; उत्त० २, १२;  
अचेलग. पुं० ( अचेलक-न विद्यन्ते चेलानि

विद्यन्ते वा अप्रशस्तानि मानोपेतकवर्णानि  
चेजानि वज्ञाणि यस्मिन् सः ) वस्त्र न  
राखनानो अर्थात् सदेश अने मानोपेत  
अदृपत्रम् राखनानो धर्म-आचार; पहेला  
अने छेष्ठा तीर्थकरना साधुओंनो आचार.  
बल्क न रखने का अर्थात् सफेद और मानोपेत  
अल्प बल्क रखने का आचार; पहिले और  
अन्तिम तीर्थकर के साधुओं का आचार. The  
religious practice of wearing scanty and white clothes; practice  
among the Sādhus of the first and the last Tīrthaṅkaras.  
ठा० ६, १; उत्त० २३, १३;—धर्म. पुं०  
(-धर्म) पहेला अने छेष्ठा तीर्थकरना साधु-  
ओंनो आचार. पहिले और अंतिम तीर्थकर के  
साधुओं का आचार. the religious practice  
of the Sādhus of the first and the last Tīrthaṅkaras. ठा०  
६, १;

अचेलिया. स्त्रा० ( अचेलिका ) वस्त्ररहित स्त्री.  
वस्त्ररहित स्त्री. A naked woman.  
वेय० ५, १६;

अचोइश्च. त्रि० ( अचोइति ) अप्रेरित; नने  
प्रेरणा उत्तराभां न आयी होय ते. अप्रेरित;  
जिसे प्रेरणा न की गई हो. Uninspired;  
unimpelled. “वित्तो अचोइष् निच्च,  
सिष्पं हवहु सुचोइप्” उत्त० १, ४४;

अचोक्त्वा. त्रि० ( अचोक्त ) अशुद्ध; अपवित्र.  
अशुद्ध; अपवित्र. Impure. जीवा० ३, ३;  
नाया० ६;

अचोरिय. न० ( अचौर्य ) चोरानो अलाव. चोरी  
का अभाव. Act of abstaining from  
stealing. “अचोरियं करेतं” परह० १, २;  
अच. धा० ॥।. ( अतिश्च ) तज्जुं; त्याग  
करवे. त्याग करना. To abandon; to  
relinquish.

अचोहि. सूय० १, २, ३, ७;

✓ अच. धा० ॥।. ( अर्च ) अर्थात्; पूज्युं; पूजा  
करवी; सत्कार करवे. पूजना; पूजा करना;  
सत्कार करना. To worship; to pay  
respects.

अच्चेह. जीवा० ३, ४; आया० १, २, १,  
६५; नाया० १६; निर० ५, १;

अच्चेति. जं० प० ३, ३३;

अच्चेम. उत्त० १२, ३४;

अच्चिमो. उत्त० १२, ३४;

अच्चेऽक्षण. सं० कृ० सु० च० २, ७०;

अच्चिज्जह. क० वा० सु० च० २, ३८२;

अच. त्रि० ( अर्च्य ) अर्चनीय; पूज्यतीय. अर्च-  
नीय; पूजने योग्य. Worthy of wor-  
ship. ठा० २, १; ( २ ) ए नामने लक्ष-  
काण विभाग; प्राणुनो सातभो अने मुहूर्तनो  
७७ भे भाग. इस नाम का लक्ष-कालविभाग;  
प्राण का सातवाँ और मुहूर्त का ७७ वाँ भाग.  
a division of time so named,  
equal to  $\frac{1}{7}$  of Prāṇa or  $\frac{1}{77}$  of a  
Muhūrta. कप्प० ५, १२३;

अचंग. न० ( अत्यङ्ग ) अनिश्चय भोगना अंग-  
भद्रमांसादि. अतिशय भोग का अंग-मध्य  
मांसादि. Stimulating and delicious  
food and drink e. g. flesh, wine  
etc. पंचा० १, २१;

अचंत. त्रि० ( अत्यन्त ) अनिश्चय; धूषं.  
अतिशय; बहुत ज्यादह. Excessive.  
( २ ) अंत-आरंभ-शङ्कातने उद्धिक्षी गयेद;  
नेनी शङ्कात नथी ते; अनादि. अनादि.  
having no beginning; existing  
from eternity. निर० १, १; ३, २;  
उत्त० ३२, १; भग० १८, १; विशे०  
४६; ७२; पंचा० १४, ४४;—काल. त्रि०  
( -काल ) धूषे. दांधे पर्यात. बहुत लंबा

समय; अति दीर्घकाल. a very long period of time. “ अचंत कालस्स समू-  
खयस्स सञ्चस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्षो ”

उत्त० ३२, १;—परम. त्रिं० ( -परम )  
धृष्णु उत्कृष्ट. अति उत्कृष्ट. excellent.  
“ अचंतपरमो आसी, अउलो रुवविहृ-  
ओ ” उत्त० २०, ५;—मासिण. त्रिं० ( -मसृण )

अत्यन्त डेभगी. बहुत कोमल. very soft or delicate. प्रद० १४६६;—विशुद्ध. त्रिं०  
(-विशुद्ध) अति विशुद्ध; धृष्णु निर्मण; सर्व-  
था निर्दैपू. अत्यन्त विशुद्ध; बहुत निर्मल. Ex-  
tremely pure; unsullied. “ अचंतवि-  
सुद्ददीरायकुलवंसप्यसूय ” ठा०६;—सुहि.  
त्रिं० ( -सुखिन् ) अत्यन्त-धृष्णु सुभी. बहुत  
सुखी. extremely happy. “ तो होइ  
अचंतसुही कथथो ” उत्त० ३२, ११०;

अच्चतिय. त्रिं० ( अत्यन्तिक ) अत्यन्त;  
धृष्णु. बहुत; ज्यादह. Excessive; very  
much. “ शेगंतश्चतिय उदपं वयंति ते  
दोवि गुणोदयामि ” सूय० २, ६, २४;

अच्चतियिल. त्रिं० ( अत्यन्त ) अतिशय आडु.  
बहुत खट्टा. Extremely sour. दस० ५,  
१, ७८;

अच्चक्षर. न० ( अत्यक्षर ) हेऽथ तेथी अधिक  
अक्षर ऐक्षतुं ते; शाननो एक अतियार.  
होवे उससे अधिक अक्षर बोलना; ज्ञान का एक  
अतिचार. Speaking or pronouncing  
more words than are actually contained (e. g. in a text);  
a fault connected with  
knowledge. अव० ४, ७; अणुजो १३;

अच्चण. न० ( अच्चन ) अर्चा; पूजा; पुक्ष  
आदिथी सूक्तारूप रूपों ते. पूजन; पुज आदि  
से सत्कार करना. Worship. परह० १, ३;  
अच्चणा. ली० ( अर्चना ) सुभृत चंदन आ-  
दित्तु विलेपन करने ते. चंदन आदि का लेप

करना. Applying unctious preparations of sandalwood etc. उत्त०  
३६, १८;

अच्चणिआ. ली० ( अर्चनिका ) अर्चन-वि-  
लेपन आदि करने ते. अर्चन-विलेपन आदि  
करना. Act of worshipping with  
flowers, sandal etc. भग० ४, १;

अच्चणिज्ज. त्रिं० ( अर्चनीय ) अर्चन-पूजन  
करना योग्य; चंदन आदिथी अर्चवा योग्य.  
अर्चन-पूजन करने योग्य; चंदन आदि से  
अर्चने योग्य. Worthy of worship.  
नाया० २; ७; १५; १७; १८; १६; १८; भग०  
१०, ५; ६; राय० १६०; जं० प० ७,  
१७९;

अच्चतथ्य. अ० ( अत्यर्थम् ) अतिशय; धृष्णु. अ-  
तिशय; बहुत ज्यादह. Excessive; very  
much. “ अंगारपलित्तकप्यअच्चतथ्य सीय  
वेयणा ” परह० १, ३; विश० १८६६; सूय०  
२, ६, ४२;

अच्चतथ्तत. न० ( अत्यर्थत्व ) सत्य युक्त वाणी-  
ना ३५ अतिशयमानो आठमो अतिशय;  
२५२४ युक्त वचन ऐक्षतुं ते. सत्य के ३५  
अतिशयों में का आठवाँ अतिशय; गंभीर  
वचन बोलना. The eighth of the 35  
Atisayas of truth; power of  
uttering words bearing profound meaning. राय०

अच्चतभुय. त्रिं० ( अत्यदभुत ) अति विलक्षण;  
अति आश्वर्यंकारक. अति विलक्षण; बहुत  
आश्वर्यकारक. Extremely wonderful;  
preternatural. सु० च० ३, १७१;  
६, ११५;

अच्चय. पुं० ( अत्यय ) विधि; विनाश. विनाश;  
विनाश. An obstacle; destruction.  
वेय० ३, ४; उत्त० १०, १;

अच्चसण. पुं० ( अत्यशन ) पक्षने आरभे

द्वितीय; भारतीय नाम. पक्ष का बारहवाँ दिन; द्वादशी. The twelfth day of every fortnight. सू० प० १०; जं०प०७, १५२;

**अच्चा॑.** स्त्री० ( अच्चा॑—अच्छ्यतेऽसावाहारालङ्घा॑-रादिभिरित्यर्चा॑ ) शरीर; हेतु. शरीर. The body. “एगधाए॒ पुणे॒ एगे॒ भयंतरो॒ भवंति॒” सू० २, २, ६; आया० १, १, ६, ५३; ( २ ) केवलना॒ अध्यवसायनी॒ ज्वाणा॒। क्रोध की ज्वाला. flames of wrath. आया० १, ८, ६, २२१; १, ६, १, ११; ( ३ ) लेश्या॑. लेश्या. Leśyā i. e. thought-tint or mattoct-tint. “दुःखभाओ॒ तहश्चाओ॒ जे॒ धम्मटु॒ वियागरे॒” सू० १, १५, १८; ( ४ ) तेज़. तेज़. lustre. आया० १, ४, ३, १३४;

**अच्चाइशण.** त्रिं० ( अत्याकीर्ण ) भीचो॑ भीच भरेत्. लबालब भरा हुआ; ढूँस कर भरा हुआ. Overfilled; filled to excess. “अच्चाइशण वित्तो॑ ऐो॑ परस्स शिक्खमण्पेवसापु॑” आया० २, ३, १, १२२;

**अच्चासण्या॑.** स्त्री० ( अत्यासनता॑ ) आसन नभावनु; अङ्क नज्याये॑ धज्ञा॑ वर्खन सुधी॑ ऐसी॑ रहेनु. आसन जमाना; एक स्थान पर बहुत देर तक बैठे रहना. Act of sitting for a long time at the same place. ठा० ६, १;

**अच्चासण्ण.** त्रिं० ( अत्यासन्न ) अति नश्चुकुल; छेकु पासेनु. बहुत नज़दीक; बिल्कुल पास. Very near; close to; just beside. “णच्चासण्णे॑ खाईदूरे॑ सुस्सूम-माणे॑” भग० १, १; ओव० २२; २७;

**अच्चासाश्रा॑.** धा० I. ( अति+आश्राद्+शि० ) उपसर्ग॑ करेत्. उपसर्ग करना. To torment. ( २ ) ध्वंस करेत्; ध्वंस करना. to destroy ( ३ ) अशातना॑ करेत्. अशातना॑-अविनय करना. to

disturb; to trouble; to destroy.

**अच्चासाए॒.** निर्सा० १०, ४;

**अच्चासाहृत्तए॑.** भग० ३, २;

**अच्चासाप्रमाण॑.** व० कृ० ठा० १०;

**अच्चासायंत.** व० कृ० निर्सा० १०, ४;

**अच्चासाइय॑.** त्रिं० ( अत्याशातित॑ ) उपसर्ग॑ करेत्; अशातना॑ करेत्. उपसर्ग किया हुआ; कष्ट दिया हुआ. Tormented; disturbed; troubled. “से॒ य अच्चासाहृत्त॒ समाणे॒ परिकुविए॒” ठा० १०; भग० ३, २;

**अच्चासायण्या॑.** स्त्री० ( अत्याशातमता॑ ) शुभ्रे॑। “अच्चासायणा॑” देखो ‘अच्चासायणा॑’ शब्द. Vide “अच्चासायणा॑”. क० गं० १, ५४;

**अच्चासायणा॑.** स्त्री० ( अत्याशातना॑ ) हीकृ-ना॑ करेती॑ ते॑; हुकुं पाइनु॑ ते॑. अवहंलना करना. Humiliation; contemptuous conduct. निर्सा० १०, ४; भग० ३, २; ठा० १०;

**अच्चिच्च.** स्त्री० ( अच्चिच्च॑ ) किरण. किरण. A ray; a beam of light. पञ्ज० २; ( २ ) रत्नादिना॑ तेजनी॑ ज्वाणा॑। रत्नादि के तेज की ज्वाला. flaming lustre or brilliance of jewels etc. “अच्चिच्च॑ तेष्यं॑ लेसाए॑ दस दिसाए॑ उज्जोष-माणे॑” भग० २, ५; पञ्ज० १; ओव० २२; ( ३ ) शरीरभांधी॑ नीकिणी॑ क्वानितनी॑ ज्वाणा॑। शरीर में से निकलती हुईं कान्ति की ज्वाला. halo of light emanating from the body. ठा० ८, १; ( ४ ) अनिनी॑ छुटी॑ पडी॑ गयेती॑-तूटेती॑ ज्वाणा॑-ज्वल. अग्नि की झटी हुई ज्वाला. a broken streak of fire. उत्त० ३६, १०६; जीवा० ३, १; ठा० ५, ३; राय० ४३; नाया० १६; ( ५ ) दीवानी॑ पिंपा॑. दीपक की शिखा. flame of a lamp. दस० ४; ८, ८; ( ६ ) कृष्ण॑

रःउनी वस्ये आवेदुं एक लोकान्तिक देवता-  
नुं विभान्. कृष्णराजी के बीच में आया हुआ  
लोकान्तिक देवता का एक विमान. a heavenly  
abode of the Lokāntika  
gods in the midst of Kṛiṣṇarājī. सम०८; प्रव० १४६०; भग० ६, ५; (१)  
सूर्य. सूर्य. the sun. नाया० १;—सह-  
स्रसमालणिङ्ग. त्रि० (—सहस्रमालनीय-  
अर्चिषां किरणानां सहस्रमालनीयं परंवार-  
णीम्) एमांथी आसपास आश्र्यं उपग्रहे  
एवीं हररो किरणोनीं भागा छुट्टी होय  
तेवी वस्तु. जिसके आसपास से आश्र्यं जनक  
किरणों की माला निकलती हो ऐसी वस्तु.  
a thing from which thousands  
of wonderful series of rays  
emanate. नाया० १;—सहस्रसमाला.  
खां० (—सहस्रमाला) हररो किरणोनीं  
भागा०—५२; हजारो किरणों की माला. a  
series of thousands of rays of  
light. भग० १०, ५;—सहस्रसमालि-  
णिय. त्रि० (—सहस्रमालिनिक) एमांथी  
हररो किरणोनीं हररो छुट्टे तेवी वस्तु. जिसमें  
से सहस्रों किरण निकलती हैं ऐसी वस्तु. a  
thing from which thousands of  
rays emanate. भग० १०, ५;

**अच्चिप्पभा.** ली० ( अच्चिप्रभा ) एक  
देवीनुं नाम, एक देवी का नाम. Name  
of a goddess. नाया० ध० ८;

**अच्चिमालि.** त्रि० ( अच्चिमालिन् ) किरणोनीं  
भागाथी धीर्यायेदो. किरणों की माला संधेरा  
हुआ. Surrounded by a series  
of rays. जीवा० ४; ( २ ) पुं० सूर्य. सूर्य.  
the sun. सूर्य० १, ६, १३; उत्त० ६, २७; जं०  
प० ७, २७; सम० प० २१४; ( ३ ) न० कृष्णराजी-  
नी वस्ये आवेदुं लोकान्तिक देवता-  
नुं विभान्.

का विमान. a heavenly abode of  
Lokāntika gods situated in  
the midst of Kṛiṣṇarājī. सम०  
८; भग० ६, ५;

**अच्चिमाली.** ली० ( +अच्चिमाली—मालिनी )  
सूर्य अने यद्रनी त्रीतु अत्रभिषितुं नाम.  
सूर्य और चंद्र की तीसरी पश्चात्यां का  
नाम. The name of the third  
chief queen of the sun and the  
moon. सू० प० १८; भग० १०, ५; जीवा०  
४, १; ठा० ४, १; नाया० ध० ७; ( २ )  
अर्जिन्युष्णाना रतिकर पर्वतनी पश्चिमे वृपा-  
वेदी शङ्केवेन्द्रनी पृष्ठराष्ट्रीनी राजधानी.  
अर्जिन कोने के रतिकर पर्वत की पश्चिम दिशा  
में आई. हुई शङ्केवेन्द्र की पश्चात्यां की  
राजधानी. the capital of the queen  
of the lord of first Devaloka  
situated to the west of the  
Ratikara Mountain of the  
south east. ठा० ४, २;

**अच्चिच्य.** त्रि० ( अर्चित ) अर्येव; पूज्येव.  
अर्चित; पूजित. Adored; worshipped.  
ओध० न० भा० ३०७; भग० १३, ८; नाया० १;  
✓ **अच्चीकर.** ना० धा० II. ( अर्चीकृ ) पूज्य-  
अर्या० ५२१. अर्चा करना; पूजा करना. To  
worship.

अच्चीकरेह निर्सा० ४, २;

**अच्चुक्कड.** त्रि० ( अत्युत्कट ) अति उथ; अति  
उभत. अति उथ; बहुत ज्यादह उभत—उत्कट.  
• Furious; highly excited; intoxic-  
ated with power. ओध० नि० ६२२;

**अच्चुद्धि॒य.** त्रि० ( अत्युत्थित ) अत्यन्त अकार्य-  
धृष्टुं अधृष्टित कार्ये क्रवाने तैयार थयेव.  
अत्यन्त बुरा कार्य करने को तैयार. Intent  
on doing a most improper act.

“ अच्चुष्टियाए घडदासिए वा, अगारिणं चा  
समयाल्लुसिइठे ” सूय० १, १४, ८;

**अच्चुरण्य.** त्रि० ( अच्चुन्नत ) अति उच्चुं. बहुत  
उच्चत. Very high; lofty or  
exalted. कप्प० ३, ३६;

**अच्चुराह.** त्रि० ( अत्युष्णा ) अतिशय गरभ-उत्तुं;  
अति उष्णु श्वभाववाणुं. अतिशय उष्णः;  
बहुत गर्म स्वभाव वाला. Very hot; of  
a very haughty temperament.  
ठा० ५, ३;

**अच्चुत.** पुं० ( अच्युत ) भारभो देवलोक;  
भारभुं श्वर्ग. बारहवाँ देवलोक; बारहवाँ श्वर्ग.  
The twelfth celestial abode.  
सम० २२; ठा० २, ३; ( २ ) अगियाभा  
तथा भारभा देवलोकना। ईश्वर्तुं नाभ. ग्यारहवें  
तथा बारहवें देवलोक के इन्द्र का नाम.  
name of the Indra of the  
eleventh and twelfth Devalokas.  
ठा० २, ३;—कप्प. पुं० ( -कर्त्त ) भारभो  
देवलोक. बारहवाँ देवलोक. the twelfth  
region of gods. भग० २४, १२;

**अच्चुदय.** न० ( अत्युदक ) भोटा। वरसाद;  
भडाश्चित्. अर्तिशय शृष्टि; मूसलधार वर्षा.  
Heavy rain. “सभए वा सत्त्वां अच्चुदये  
सुक्ष्वतरुं या वा शेष” ओव० ( २ ) धृष्टुं  
पाणी. बहुत जल. excessive rain.  
जीवा० ३;

**अच्चुय.** पुं० ( अच्युत ) भारभो देवलोक. बार-  
हवाँ देवलोक. The twelfth region  
of gods. भग० ३, १; १०; १७, ६; १८,  
७; अग्निजो० १०३; १३४; निर० २, ५;  
विशेष० ४३६; सम० १५०; भस० १७०; जं० प०  
२, ३२; ( २ ) ११ भा अने १२ भा देवलोकना।  
ईश्वर्तुं नाभ. ग्यारहवें तथा बारहवें देवलोक के  
इन्द्र का नाम. name of the Indra  
of the eleventh and twelfth

Devalokas. पञ्च० २; सम० ३२; नाया०  
८; ( ३ ) भारभा अच्युत देवलोकवासी देवता.  
बारहवें अच्युत देवलोक में रहने वाले देवता.  
gods residing in the twelfth De-  
valoka named Achyuta. उत्त० ३६,  
२०६; पञ्च० १; ( ४ ) अविनाशी. अविनाशी.  
eternal; imperishable. भग० १,  
२;—कप्प. पुं० ( -कर्त्त ) भारभो देवलोक.  
बारहवाँ देवलोक. the twelfth region  
of gods. भग० १७, ६;

**अच्चुयबर्डिसग.** पुं० ( अच्युतावत्सक ) भारभा  
देवलोकनुं एक विमान, देवलोक ने भारभो रहेनार देवता-  
नी स्थिति भावीस सागरोपमनी छे. एक देवता  
अग्यारभे अग्यारभे भद्रीने श्वासेश्वास ले छे,  
अने भावीस भावीस हुन्नर वर्षे लुभ लागे छे.  
बारहवें देवलोक का विमान, जहांके निवासी  
देवों की आयु भावीस सागरोपम की है और वे  
ग्यारहवें २ महीने श्वास लेते हैं और २२  
हजार वर्षों के बाद उन्हें कुधा लगती है. An  
abode in the twelfth Devaloka.  
The duration of life of the gods  
living there is 22 Sāgaropamas  
(a measure of time). These gods  
breathe every 11th month  
and feel hungry after the lapse  
of every 22 thousand years.  
सम० २२;

**अच्चुया.** ली० ( अच्युता ) श्रीपद्मप्रभु  
तथा श्रीकुन्तुनाथस्वामी शासनदेवी. श्री  
पद्मप्रभु तथा श्रीकुन्तुनाथस्वामी की शासन  
देवी. The presiding goddess of  
the cult of Śrī Padma Prabhu  
and Śrī Kunthunātha Svāmī.  
प्रव० ३७७; ३७८;

**अच्चुसिंग.** त्रि० ( अत्युष्णा ) धृष्टुं गरभ-उत्तुं.  
बहुत गर्म. Very hot. “ अच्चुसिंग ”

सुप्येण वा जावकुमारि वा ” आया० २, १, ७;  
३६; निसी० १७, २७; २८;

✓ अच्छु. धा० I. ( आस् ) ऐसनुः आसन  
लगाउनु. बैठना; आसन लगाना. To sit;  
to take a seat.

अच्छुइ. उत्त० ३१, ३; सु० च० ७, १६२;

अच्छुंति. पंचा० १७, ४;

अच्छुते. पिं० नि० १६८;

अच्छुहि. नाया० ५; भग० ६, ३३;

अच्छुउ. विशे० १३४८;

अच्छुमाश. व० क० ४० ओघ० नि० ७७१;

नाया० १;

अच्छुउं. हे० क० भन्त० ८४;

अच्छु. त्र० ( अच्छु ) स्फटिकना ऐनु स्वच्छ;  
निर्मल; चोद्यानु. स्फटिक के समान स्वच्छ;  
निर्मल. Pure; pure as crystal.  
भग० २, ८; १५, १; १६, ७; जं०  
प० ४, ७४; जीवा० ३, १; ४; पञ्च० २;  
सम० प० २११; ओघ० नि० ५५४; नाया०  
४; १२; ( २ ) पु० भेद पर्वत. मेर पर्वत. the  
mountain Meru. “ ता अच्छुसिणं  
पव्ययंसि ” सू० प० ५; ( ३ ) ऐ नामनो  
ऐक आर्य देश. एक आर्य देश का नाम.  
name of an Arya country.  
भग० १५, १; प्रव० ६०४; ( ४ ) स्फटिक.  
स्फटिक. crystal. पञ्च० १; —उद्ग. न०  
( -उदक ) स्वच्छ पाणी; निर्मल जल. स्वच्छ  
पानी; निर्मल जल. pure water; clear  
water. राय०

अच्छु. पु० ( अच्छु ) रीछ. रीछ. Bear.  
आया० २, १, ५, २७; भग० ३, ५; ७, ६;  
जीवा० ३, ३; पञ्च० १; नाया० १;  
—भज्ज. पु० ( -भज्ज ) रीछ. रीछ. a bear.  
परह० १, १;

अच्छु. न० ( अच्छु ) आंभ. आंख. An eye.  
ओद० २१;

अच्छुंद. वि० ( अच्छुम्द ) पराधीन; पर-  
तंत्र. पराधीन: परतंत्र. Dependent.

“ अच्छुंदा जेण सुजांति ण से चाहति  
बुच्छई ” दस० २, ३;

अच्छुण. न० ( आसन ) ऐट्ट; आसन. बैठक;  
आसन. A seat. उत्त० २६, ७; जीवा०  
३, ४; —धर. न० ( -गृह ) ऐट्टनु  
स्थान. बैठक का स्थान. the place for  
sitting; a seat. नाया० ३;

अच्छुण. पु० ( अच्छण ) अहिंसा. आहिंसा.  
Abstaining from injury. दस० ८,  
३; —जोय. पु० ( -योग ) अहिंसाभय  
प्रश्रुति. आहिंसा की प्रवृत्ति. act or con-  
duct involving no injury. “ तेसि  
अच्छुणजोएण शिष्यं होयव्यवं सथा ”  
दस० ८, ३;

अच्छुणश्र. न० ( आसनक ) स्वाध्याय भूमि;  
स्वाध्याय स्थून. स्वाध्यायभूमि; स्वाध्याय  
का स्थान. Seat occupied at the  
time of studying Sāstras. “ उच्चारे  
पासवणे लाउय निल्लेवणे य अच्छुणए ”  
ओघ० नि० भा० ११६;

अच्छुणिउर. न० ( अच्छनिकुर ) ८४ लाभ.  
अक्षनिकुरांगनो ऐक अक्षनिकुर थाय; ८४  
लाभ अक्षनिकुरांग प्रमाणु काणविभाग.  
८४ लाख अक्षनिकुरांग प्रमाण काल विभाग.  
A period of time measured by  
eighty-four laes of Akṣanikurā-  
ngas ( a division of time so  
named ). ठा० २, ४;

अच्छुणिउरंग. न० ( अच्छनिकुराङ ) ८४ लाभ  
नलिननो ऐक अक्षनिकुरांग थाय; ८४  
लाभ नलिन प्रमाणु ऐक काणविभाग.  
८४ लाख नलिन प्रमाण काल विभाग; अक्ष  
निकुरांग नामक एक कालविभाग. A  
period of time measured by

eighty-four lacs of Nalinus ( a division of time so named ).

ठा० २, ४;

**अच्छ्रुतग.** त्रि० ( अच्छ्रुत्रक ) ज्ञुमो “अच्छ्रुत्य” शब्द. देवो “अच्छ्रुत्य” शब्द. Vide “अच्छ्रुत्य”. नाया० १५;

**अच्छ्रुत्य.** त्रि० ( अच्छ्रुत्रक ) छत्र पगरनु. छत्र रहित. Having no umbrella. “अदंतवणे अच्छ्रुत्य अणुवाणहप्” ठा० ६; भग० १, ६;

**अच्छ्रुदिय.** त्रि० ( आच्छ्रुदित ) ढौड़ेनु. ढका हुआ. Covered. पगह० २, ४;

**अच्छ्रुरकारक.** त्रि० ( आश्र्वयकारक ) आश्र्वय उपज्ञवे ऐनु; विस्मयधारी. विस्मयकारी; आश्र्वयकारक. Wonderful; astonishing. पगह० २, २;

**अच्छ्रुरस.** त्रि० ( अच्छ्रुरस ) अनि निर्भणि; ऐटनु निर्भणि के नभां पासनी वस्तुनु प्रनिर्भणि पै। आत्मनिर्भलः इनना निर्भल कि, जिममे समापवर्ती वस्तु का प्रातिविव पड़ मके. Very clean; transparently clear. गया० १८६; जै० ५० ५, १२२;

**अच्छ्रुरसातंडुल.** न० ( अच्छ्रुरसतंडुल - अच्छ्रु रसो येषु ते अच्छ्रुरसाः ते च ते तंडुलाश्च, पर्वपदस्य दार्घ्यच्चं प्राकृतत्वात्). स्वेत-सेषेत हित्य चाभा. सफेद चांवल. Excellent white rice. “ अच्छ्रुहि सेणुहि रथणामण्हि अच्छ्रुरसातंडुलेहि अदृष्ट-मंगले आलिहइ ” राया०

**अच्छ्रुरा.** ल्ला० ( अप्सरा-अप्सरम् ) हेवांगताः अप्सरा. अप्सरा; देवाङ्गना. A heavenly damsel; a celestial nymph. नाया० ५; भग० ३, २; मु० च० ३, ६२; जावा० ३, ३; ४; जै० ५० २, २१; पच० २; ३४; निर० ५, १; ( २ ) सौधर्मेन्द्रनी खीज.

पृ॒राणी. सौधर्मेन्द्र की दूसरी पट्टराणी. second of the principal queens of Saudharmendra. ठा० ४, २; नाया० च० ६; ( ३ ) शङ्केन्द्रनी छठी अप्रभ-दिपी. शकेन्द्र की छठी अप्रमहिषी. sixth of the principal queens of Śakrendra. भग० १०, ५; —गण. पुं० (—गण) अप्सरानी सभूत. अप्सराओं का समुदाय. a multitude of heavenly damsels. निर० ५, १;

\***अच्छ्रुरा.** ल्ली० ( पुटिका ) चपटी वगाडी ते; आंगणी अने अंगुष्ठा लंगा उरी वगाडी ते. चुटकी बजाना. Producing a sharp sound by snapping the thumb against a finger. सू॒य० २, २, ४४; पच० ३६:—गिवाय. पुं० (—निपात ) आं-घनो पण्डारे भारिए उपटी वगाडीमे नेटले काण। चुटकी बजाने मे या आंख का पलक मारने मे जितना समय लगता है उतना समय. time measured by a twinkling of an eye or snapping of fingers. जीवा० ३, १; भग० ६, ५; ओव० ४२;

**अच्छ्रुरिय.** त्रि० ( अवस्तुत ) आश्रुदित; ढौड़ेनु; ओढ़ेड़ेनु. ढका हुआ. Covered. राया० ६२;

**अच्छ्रुवि.** पुं० ( अच्छ्रुवि-छवि: काययोगः स नास्ति यस्य स तथा ) कायाना योगने रैक्नार स्नानः क्षैदामा गुण्डाणुवाणा साधु. काया के योग को रोकने वाला स्नानक; चौदहवें गुण-स्नानवर्ती साधु. An ascetic who stops the activities of body; a Sādhu in the fourteenth Guṇasthāna. ठा० ५, ३; भग० २५, ६;

**अच्छ्रुविकर.** पुं० ( अक्षपिकर-न चपि:—स्वपर-योरायासो यः सः तत्करणशीलो न भवति सोऽक्षपिकरः ) प्रशस्ति विनयनो ऐक प्रकार;

योताने अने परने हुःभ न उपने तेवी रीते  
मनने योज्युं ते. प्रशस्त विनय का एक भेद;  
अपने को और दूसरे को हुःख न हो, इसप्रकार  
मन का योजना करना. Guiding the  
mind in a way which would  
cause no harm; a sort of noble  
behaviour. भग० २५, ७;

**अच्छा.** ल्ला० ( अच्छा ) वद्यु देशभानी ऐक  
नगरी. वरुण देश की एक नगरा. A city  
of the country called Varuṇa.

पञ्च० १; प्रव० ६०४;

**अच्छि.** न० ( अच्छि ) नेत्र; चश्मा; आँख.  
An eye. उत्त० २०, १६; ओव० १०;  
जीवा० ३, १; ३; दस० ८, २०; अगुज्ञा०  
१३०; पञ्च० १; ३; आया० १, १, २, १६;  
ओघ० निं० ७३६; ओघ० निं० भा० २६६;  
निर० ३, ४; निर्सा० ६, ६१; ६२; राय० १६४;  
विवा० २; दसा० ७, १; भग० ३, ७; १४,  
१; नाया० १; वेय० ६, ८;—अन्तर. पुं०  
न० (—अन्तर) ऐ आंभनी वर्ण्यनो  
भाग. दो आँखों के बाच का भाग. the  
part intervening the two eyes.  
विवा० १;—कणुग, पुं० (—कणक) आंभ-  
भां पुं० २०४-५७. आँख में पड़ा हुआ रज-  
कण. a particle of dust etc. in  
the eye. पंचा० १८, १०;—ठयण. न०  
(—स्थगन) आंभनु दृढ़नु. आँख का ढकना.  
closing the eye; covering the  
eye. पंचा० २, २५;—गिमीलिय. न०  
(—निमीलित) आंभ भियवी ते. आँख माच-  
ना. shutting of the eye; winking  
of the eye. जीवा० ३;—गिमी-  
लियमेत्त. न० (—निमीलितमाल) आंभ  
भियने उधाड़नी ऐट्लो काग—वभत. आँख  
माच कर फिर खोलने में जिन्ना समय लगता  
है उनना काल. time measured by

the twinkling of the eye. “अच्छि  
गिमीलियमेत्तं ग्रथिथ सुहे दुश्खमेव अगुबद्धं”  
जीवा० ३;—पत्त. न० (—पत्र) आंभनी  
पांपणु. आँख की बच्ची; पलक. an eye-  
lid. भग० १४, ८; जीवा० ३, ३; निर्सा० ३,  
५५; ६०; राय० १६४;—पद्ध. न० (—पर्वन्)  
आंभनी सांख्या; ऐ आंभ वर्ण्यनो अंतराल.  
दो आँखों के बाच का स्थान. the space  
intervening the two eyes. पञ्च०  
११;—मल. पुं० (—मल) आंभनी भेल;  
पीया. आँख का भेल. mucus or gum of  
the eye. निर्मा० ३, ६६; प्रव० ४३६;  
—रोडय. पुं० (—रोडक) चार धृतिय-  
वालों ऐक शृङ्खला वाला एक जीव.  
a creature having four organs  
of sense. पञ्च० १;—विचित्त. न०  
(—विचित्र-विचित्रे अच्छिणी यस्य सः) विचित्र  
आंभवालो. चतुर्शत्रिय शृङ्खलिशृङ्खला. विचित्र  
आँखों वाला चतुर्संन्दिय जावविशेष. a four  
sensed being having curious  
eyes. उत्त० ३६, १४७;—वेयणा. ल्ला०  
(—वेदना) आंभनी वेदना-हुभ; १६ रोग-  
भानी। १२ भै. रोग. आँख दीं वेदना; सोलह  
रोगों में से वारहवाँ रोग. pain in the eye;  
12th out of the sixteen diseases.  
नाया० १३; उत्त० २०, १६;—वेहग. पुं०  
(—वेधक) चार धृतियवालो ऐक शृङ्खला वाला एक जीव. a creature having  
four organs of sense. “डोल  
मिगारीयविराली अच्छिवेहग” उत्त० ३६,  
१४८; पञ्च० १;—सूल. पुं० (—शूल)  
आंभनु शूल; १६ रोगभानी ऐक शैल.  
आँख का शूल; १६ रोगों में से एक रोग.  
eye-sore; a kind of disease of  
the eye; one of the sixteen  
diseases. जीवा० ३, ३;

**अच्छिक्षण.** न० ( आच्छेद ) छेदवाने अरात्रय; छेदी न शक्य तेवुं. छेदने के लिये अशक्य; जो छेदा न जा सके वह. Incapable of being cut or pierced. ठा० ३, ३; पिं० निं० ३६६;

**अच्छिक्षण.** त्रि० ( आच्छेद ) व्यापकादि पासेथी धीननी लई ने आहाराहि साधुने आपावाथी लागते एक होप; उद्गमनना १६ होपमाने १४ में होप. बच्चों से छानकर साधु को आहार आदि देने से लगने वाला एक दोष; उद्गमन के १६ दोषों में से १४ वाँ दोष. A sin incurred by snatching food from others and giving it to the Sādhus; fourteenth of the sixteen faults of Udgamana.

आया० १, ८, २, २०२; ठा० ६, १; पञ्च० २; निसी० १४, ४; १६, ४; पिं० निं० ६३;

**अच्छिक्षण.** त्रि० (अच्छिक्षण) छेद्यु-क्षेद्यु नहि ते; जुदु पाडेयु नहि ते. छेदा हुआ न हो वह. Uncut; unseparated ठा० १०;

**अच्छिक्षण.** त्रि० (आच्छिक्षण) अविभित्ति; निरंतर. अविच्छिन्न; निरंतर. Ceaseless; constant. पिं० निं० २३२;—च्छेदणाय. न० (—च्छेदनयिक) अधिभृत्येद् नयनी अपेक्षा अभ्येत्येवा स्त्रैः गोशालाना भतना स्त्रैनी परिपाटी. अच्छिक्षणच्छेद नय की अपेक्षा से रचित सूत्र; गोशाला के भत की परिपाटी. Sūtras composed from the stand point of Achchikṣhṇa-chchhedā; a method of the Sūtras of Gosālā's tenets. सम० २२;—च्छेदणाय. पुं० (—च्छेदनय) परस्पर अविभृतस्त्रैनो छेदविभाग ध्यानार नयविशेष; जेम “ धम्मो-मंगलमुक्तिं ” ये गाथा अर्थदृष्टिये भीजु गाथा साथे संकलित छतां पाठनी दृष्टियेज तेने अक्षग अक्षग भाननार

ऐक न॒. परस्पर अविक्षम सूत्रों का विभाग चाहने वाला नयविशेष; जैसे कि, ‘धम्मो मंगलमुक्तिं’ यह गाथा अर्थ दृष्टि से दूसरी गाथा के साथ संकलित होने पर भी पाठ की दृष्टि से उसे पृथक् मानने वाला नय. the standpoint denying the interpretation of scriptural texts. सम० २२; अच्छित्ति. ब्री० (अच्छित्ति) अव्यवच्छेद; विच्छेदना अखात. अव्यवच्छेद; विच्छेद का अभाव. Absence of break; continuity. प्रव० ७८६;

**अच्छिक्षिकारि.** त्रि० (अच्छिक्षिकारि) नाश न करनार; छेद न करनार. नाश न करने वाला; छेद न करने वाला. One who does not cut; one who does not destroy. विशे० १४५८;

**अच्छिद्द.** त्रि० (अच्छिद्द) छिद्र वगरनुं; निश्चिद्द; धाढु-छिद्र निनान्. छिद्र रहित. Without holes. भग० १५, १; जीवा० ३, ३; श्रोव० १०; ( २ ) गोशालाना ६६शायर साधुमाना योथा दिशायर साधु. गोशाला के छ: दिशाचर साधुओं में से चौथा दिशाचर साधु. the fourth of the six Disāchara Sādhus of Gosālā. भग० १५, १;—कुच्छि. पुं० (—कुच्छि) छिद्र वगरनी भासथी भरेली पुष्ट अवृत्ति दुःख. छिद्ररहित मांस से भरी हुई कुक्कि. an arm-pit without a hollow i. e. full of flesh. “ अतियाकुच्छि अच्छिकुच्छि अलंबकुच्छि ” नाया० १;—पत्त. त्रि० (—पत्र-अच्छिद्वाणि पत्राणि यस्य सः) जेना पांडां डैर्इ रोगादिथी थतां छिद्राणां न होय ते. जिसके पत्ते किसी रोगादि के कारण छिद्र वाले न हों वह. with leaves without holes caused by some disease etc. “ अच्छिहपता अविरलपता अवाईणपता ” नाया० १;

**आचिन्त्य** न० ( आस्तिक ) क्राई अेक वक्षनु इल; रंगवाभां उपयोगि क्राई अउं इल. किसी एक वृक्ष का फल; रंगने में उपयोगी वृक्षविशेष का फल. A fruit of a tree used for dying purposes. आया० २, १, ८, ४८;

**आच्छिल.** पुं० ( आस्तिक ) चार धृतियाने। अेक ज्ञव. चार इन्द्रियों वाला एक जीव. A creature having four organs of sense. उत्त० ३६, १४६;

**आच्छी.** स्त्री० ( आच्छी-आच्छदेशोऽवा स्त्री ) अच्छ देशमां उत्पन्न थथेली स्त्री. अच्छदेश में उत्पन्न हुई स्त्री. A woman born in a country called Achchha. पञ्च० ११;

✓ **आच्छीकरना०** धा० II.(आच्छीकृ) स्व० ७  
कृत्युं; साई कृत्युं. स्वच्छ करना; साफ करना. To cleanse; to purify.

आच्छीकरेह. निसी० ४, ३;

**आच्छुता.** स्त्री० ( = अस्पृष्टा ) २० भा. तीर्थकरनी शासन देवीनु नाम. २० वें तीर्थकर की शासन देवी का नाम. Name of the tutelary goddess of the 20th Tirthankara. प्रव० ३७८;

**आच्छुय.** त्रि० ( आस्तुत ) आच्छादित करेत्युं; दौड़ेत्युं. ढक्क हुआ. Covered. नाया० ८;

**आच्छेज्ज.** त्रि० ( आच्छेष ) छेदी न रक्षय अेत्युं. छेदा न जा सके ऐसा. Incapable of being cut. भग० २०, ५; या० ३, २;

**आच्छेज्ज.** वा० ( आच्छेष-आच्छिद्यते पुश्चादेः सकाशाच्छस्त्वादुद्युनार्थं तदाच्छेष्यम् ) क्राईना द्वायभांथी लघि साधुने आपत्युं ते; आहारनो अेक दोप. किसीके हाथ में से छीन कर साधु को देना; आहार का एक दोष. Giving (food etc.) to a Sādhu after snatching it away from the hands of

another; a fault connected with food. पंचा० १३, ६; पराह० २, ५; दसा० २, ७; भग० ६, ३३;

**आच्छेर.** पुं० ( आश्वर्य ) आश्वर्य कारक बनाव. A wonder; a wonderful event. प्रव० ८६६; जावा० ३, ३;—**पेच्छुणिज्ज.** न० ( -प्रेषणीय ) आश्वर्यज्ञनकृ दृश्य; तैतुक उपजने अेवी वस्तु. आश्वर्यज्ञनक दृश्य. a wonderful spectacle; a thing that would excite curiosity. जावा० २;

**आच्छेरग.** पुं० न० ( आश्वर्य ) आश्वर्यकारी ज्ञनाव; दश अच्छेराभांतु गमे ते अेक. आश्वर्यकारी बनाव; दस आश्वर्यकारी बनावीं में से एक. A wonderful event; one of the ten wonderful events. ठा० १०; ( २ ) आश्वर्य पाभवुं ते; अच्यंभो-अच्यरज पाभवुं ते. आश्वर्य करना. astonishment. “ आच्छेरगमधुदण ” उत्त० ६, ५१; जं० प० २, २१;

**आच्छेरय.** पुं० न० ( आश्वर्य ) जुओ। “ आच्छेर ” शब्द. देखो “ आच्छेर ” शब्द. Vide ‘ आच्छेर ’. नाया० ८; १७; प्रव० ३३; कप्य० २, २२; अच्छेरयभूय. त्रि० ( आश्वर्यभूत ) नवाई० जेत्युं. अचंभे जैसा. Wonderful; astonishing. पंचा० ६, ३०;

**आच्छोड.** न० ( आच्छोटन ) धोधीनी भाईकु लुगडाने शिला साथे ज्वरथा पछाड़त्युं-कीकियुं ते. धोधी के समान बड़ों को शिला पर जोर जोर से पछाड़ना. Dashing a cloth against a slab of stone for washing etc. पिं० निं० भा० ३४;

**आज.** पुं० ( आज ) भक्ते. बक्ता. A he-goat. जावा० ३, ३; विवा० ४;

**आजह.** स्त्री० ( आवति ) अविरति; अत्रतीपायुं.

अविरति; अब्रतीपन. Absence of freedom from attachment to worldly objects; non-asceticism. क० गं० ३, १८; ४, २३;

अजजर. त्रि० (अजर्जर) जरा-धउपणु रहित; धउपणु वगरनु. वृद्धावस्था से रहत. Free from old age; free from senility. जावा० ३;

अजडिल. त्रि० ( अजटिल ) जटा वगरनु. जटा रहत. Devoid of matted hair. भग० १६, ४;

अजय. त्रि० ( अयत-न विद्यते यतं यतिर्यतना यस्य सोऽयतः ) यत्ना-ज्येष्ठा॒ रहित. यत्नाचार रहत. Without efforts at self-control; without minute observation. दस० ४, १; ८; पि० नि० ३५३; ( २ ) गुहस्थ नेवा साधु; सायद्ध क्षियाथी निष्टत न थयेद साधु. गृहस्थ के समान साधु; जो सावध किया से निवृत्त न हुआ हो. a Sādhu who acts like a layman, who has not abstained from sinful activity. गच्छा० १; ( ३ ) त्रि० अविरत सम्यग्-दृष्टि; चौथे गुणस्थान वाला. आविरत सम्यग्-दृष्टि; चौथे गुणस्थान वाला. a person in the fourth stage of spiritual evolution, having faith, but not observing rules of conduct. क० गं० २, १५; क० प० ५, २७; ( ४ ) न० यत्नाने. अभाव. यत्नाचार का अभाव. absence of minute observation. “ अजयं चरमाणो य पाण्डूयाङ्कं हिंसर्ह ” दस० ४, १; —गुण. पु० ( —गुण ) अविरति सम्यग्-दृष्टि शुशुवाणु; चौथुं शुशु द्वाणु. आविरति सम्यग्-दृष्टि गुणस्थान. the fourth Guṇasthāna marked with non-cessation from

worldly attachment. क० गं० ३, २१; —जुआ. त्रि० (—युत ) अविरति सम्यग्-दृष्टि शुशुद्वाणु. सहित. आविरति सम्यग्-दृष्टि गुणस्थान सहित. associated with the Guṇasthāna called Avirati Samyagdṛiṣṭi. क० गं० ४, ६;

अजयणा. ली० ( अयतना ) यत्ना-ज्येष्ठानो अभाव. यत्नाचार का अभाव. Absence of minute observation. “ अजयणाए पकुञ्चति पाहुणगाणं अवच्छला ” गच्छा० १२०; पंचा० १५, १८;

अजयिता. सं० छ० अ० ( अजित्वा ) न छतीने. न जीतकर. Without conquering. ठा० ३, २;

अजर. त्रि० ( अजर-नास्ति जरा यस्य ) जरा रहित; धउपणु वगरनो. वृद्धावस्था रहत. Without old age. ( २ ) पु० सिद्ध-भगवान्. सिद्धभगवान्. one who has attained to salvation; a Siddha. आवो.

अजराउय. त्रि० ( अजरायुज ) जरायुज-गर्भा-शयमांथी जरा साधे जन्मतो प्राणिवर्ग, तेथी भिन्न अजरायुज. जरायुज नहीं सो; जिसका जन्म कोंख से न हुआ हो. Not born from the womb; not viviparous. प्रव० १४८२;

अजरामर. न० ( अजरामर-न विद्यते जरामरै यत्र तदजरामरम् ) जर्यां जरा भरणु नथी अनुं स्थान. जरा मरण रहत स्थान. A place where there is neither decay nor death. तरण० २६; ( २ ) जरा-धउपणु भरणु रहित. जरामरण रहत. undecaying and immortal. “ आहो-यराओ पहितप्पमाणे अहेसु मुढे अजरामरेव ” सूर्य० १, १०, १८; ( ३ ) पु० जरा भरणु

रहित; अभर; सिद्धलग्नान्. जरामरण  
रहित; अमर; सिद्ध भगवान्. ( one ) free

from old age and death; immortal;  
a Siddha. गच्छा० ४७;

अजस. न० ( अयशस् ) अप्यश; अपकीर्ति;  
निन्दा. अपयश; अपकार्ति; बुराई; निन्दा.

Disgrace; dishonour. भग० ६,  
३३; ४१, १; क० गं० १, २७; २, ७;

—कारण. त्रि० ( -कारक ) अपकीर्ति करना.  
बुराई करने वाला; अपकार्ति करने वाला.

bringing on disgrace; defaming.  
भग० ६, ३३; —किञ्चिणाम. न० ( -कीर्त्तिना-  
मन् ) नामकर्मनी एक प्रकृति, डे जेना।

उद्यथा इव अपकीर्ति पामे. नामकर्म की  
एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव का अपकीर्ति

होती है. a variety of Nāmakarma  
by whose rise a living being is  
subjected to infamy. क० गं०  
१, ६७; —जणग. त्रि० ( -जनक ) अप्यश  
करना. अपयश करने वाला. causing  
infamy; libellous; defamatory.

गच्छा० ५५; —बहुल. त्रि० ( -बहुल ) जेना।  
धर्षां काम अप्यश भरेदां होय ते. जिसके

अविक कार्य अपयश से भरे हों. abounding  
in dishonourable deeds; infamous; notorious.

“ शिर्याडिबहुले  
साईबहुले अजसबहुले ” सूय० २, २, ३५;

अजसोकिति. त्री० ( अयशःकीर्ति ) नाम  
कुर्मनी एक प्रकृति, डे जेना। उद्यथा इव अप्यश  
पामे. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय

से जीव अपयश प्राप्त करता है. A variety  
of Nāmakarma by whose rise

a living being suffers infamy.  
पञ्च० २३; सम० २५;

अजसस्त. अ० ( अजस्तम् ) निरंतर; हमेशां.

निरंतर; सदा. Always; incessantly.

“ आमरण्तमजस्सं संज्ञमपरिपालणं विहिता ”

पंचा० ७, ४६;

अजह. त्रि० ( अजघन्य ) थेामां थेाडे। नहि ते;  
भृथम अथवा उत्कृष्ट. जघन्य न हो वह; मध्यम  
अथवा उत्कृष्ट. Other than the very  
lowest; mediate or the highest.

भग० ८, १०; ११, ११; क० प० १, ६२;

अजहएणमणुक्तोस. त्रि० ( \* अजघन्यमनुकर्प  
—अजघन्योत्कर्प ) जधन्य नहि अने उत्कृष्ट  
नहि ते; भृथम. मध्यम. Intermediate;  
between two extremes. भग०

८, १०; ११, ११; १८, ४; २५, ६; नाया० १६;

अजहएणुक्तोस. त्रि० ( अजघन्योत्कर्प ) जधन्य  
डे उत्कृष्ट नहि ते; भृथम. मध्यम. Inter-  
mediate; between the two extre-

mes. भग० ८, १०; पञ्च० ५:—परसिय.

पु० ( -प्रदेशिक ) जधन्य नहि अने उत्कृष्ट  
नहि डिन्तु भृथम प्रदेशनु अनेक-निष्पन्न.  
मध्यम प्रदेश का बना हुआ. belonging  
to or having its birth in the  
intermediate region. ठा० १, १;

अजहत्थ. न० ( अयथार्थ ) अप्यथार्थ नाम;  
युणुटीन नाम. गुणहीन नाम; अयथार्थ नाम.  
Name devoid of real qualities;  
name inconsistent with its  
meaning. विशेष० ८४७; ठा० १, १;

अजहन्त्र. त्रि० ( अजघन्य ) जधन्य नहि; भृथम  
अथवा उत्कृष्ट. जघन्य नहीं; मध्यम अथवा  
उत्कृष्ट. Not lowest; not minimum;  
medium or highest. क० गं० ५,  
४६; ४७; —मणुक्तोस. त्रि० ( -अनुकर्प )

जधन्य अने उत्कृष्ट नहि; भृथम. जघन्य और  
उत्कृष्ट नहीं; मध्यम. neither highest  
nor lowest; medium. प्रव० ११५८;

अजा. त्री० ( अजा ) अंकरी. बकरी. A she-  
goat. जं० प० ३, २४;

**अजाहय.** त्रि० ( अयाचित् ) नहि अनेकुं; अदत्तादान-जप्या विना लीघेकुं. विना मांग हुआ; विना याचना किये लिया हुआ. Unsolicted. “ मुसावायं बहिं च उगाहं च अजाहयं ” सूर्य० १, ६, १०; उत्त० २, २८; नाया० ५;

**अजाहया.** सं० कृ० श्र० ( अयाचित्वा ) न भागीने; भाग्या विना. न मांगकर; मांगे विना. Without soliciting; without making a demand. “ कवाहं नो पणो-खिज्जा उगाहंसि अजाहया ” दस० ५, १, १८; ६, १४;

**अजाणेत्.** व० कृ० त्रि० ( \*अजानत्-अजानान् ) कृ॒प॑ कृ॒पने न जाणुते; अल्पन; अगीतार्थी. कल्पाकल्प को नहीं जानता हुआ; अल्पस. Ignorant; not knowing. “ अजाणता मुसं वदे ” सूर्य० १, १, ३, ८;

**अजाणग.** त्रि० ( \*अज्ञानक-अज्ञा ) अनु; अ-जाणु; अज्ञानी. अज्ञ; अजान; अज्ञानी. Ignorant. “ अजाणगा जन्नवाई विज्ञमाहयसंपया ” उत्त० २४, १७;

**अजाणमाण.** व० कृ० त्रि० ( अजानान् ) न जाणुते. न जानता हुआ. Not knowing; ignorant of. क० प० ५, २४;

**अजाणय.** त्रि० ( \*अज्ञानक-अज्ञा ) लुओ। ‘ अजाणग ’ शब्द. देखो ‘ अजाणग ’ शब्द. Vide ‘ अजाणग.’ “ एवं विष्पदिवन्नेग अपवाह उ अजाणया ” सूर्य० १, ३, १, ११;

**अजाणिय.** सं० कृ० श्र० ( अज्ञात्वा ) जप्या विना. विना जाने. Without knowing; having no knowledge. निसी० २, ४८; ४, १४; ६, ७; १५, ३५;

**अजाणिया.** ली० ( \*अज्ञानिका-अज्ञा ) अ-जाणु रत्री; सभज वगरनी. अजान ली; समझ रहित ली. An ignorant woman. नंदी० स्थ० ४५;

**अजारण.** ली० ( अज्ञा ) जप्या विना देखी-थी के डाइना क्षेवाथी करेली पापनी निश्चिति. विना जाने देखा देखी या किसीके कहने से की हुई पाप की निवृत्ति. Unconscious abstention from sin. “ तिक्ष्णा वाचती पण्णता तं-जारण् अजारण् वितिगिर्जा ” या० ३, ४;

**अजाय.** त्रि० ( अजात ) नहि अनेकुं; नहि उत्पन्न थयेकुं. विना बना हुआ; अनुच्छ. Not born or produced. विसेष० ४१८; ( २ ) अगीतार्थ; शास्त्रना अग्नायु. अगीतार्थ; शास्त्र का अनजान. Ignorant of scriptures. प्रव० ७८७;—**आहार.** त्रि० ( -अहार-अजातो न मिलितः शुद्ध आहारो यस्यासौ, निराहारो वेति ) निर्देष० आहार नः भग्नार्थी आहार विना वदारी देनार ( सापु ). निर्देष आहार के न मिलने पर आहार के विना चलालेने वाला ( सापु ). ( an ascetic ) who can do without food when he does not get faultless food. गच्छा० ५७;—**कल्प.** पु० ( -कल्प ) अगीतार्थो. कृ॒प-अ-आर. अगीतार्थ का आचार. the conduct or practice of a person ignorant of scriptures.. प्रव० ७८७;

**अजाया.** त्रि० ( अजाता ) साधुओ नाखी देवानी चीज यतनासहित परडवरी ते. साधु के तजते योग्य वस्तुको गत्ताचारपूर्वक त्यागना. Careful disposal of waste things by a Sādhu. ओषध० नि० ६०७;

**अजिङ्ग.** पु० ( अजीव ) अशृव; ऊन नहि ते. अजीव. Non-soul; ( any thing ) inanimate. प्रव० ४४१; क० गं० १, १५;

**अजिञ्चा.** ली० ( अजिता ) भीज तीर्थकर अनितनाथनी शास्त्रहेतीनुं नाम. दूसरे तीर्थकर अजितनाथ की शासनदेवी का नाम-

Name of the tutelary goddess of Ajitanātha, the 2nd Tirthāṅkara. प्रव० ३७७;

**अजितादिअ-य.** त्रि० ( अजितोन्द्रिय-न जितानि शोभ्रावीरीन्द्रियाणि येन स तथा ) धृतिये नेने वश नहीं ते; धृतिये न उत्तनार. इन्द्रियों को न जीतने वाला; जिसके वश इन्द्रियों नहीं हैं वह. One who has not subdued his senses. उत्त० ३४, २२;

**अजितण.** न० ( अजित ) भृग-हुरणु आदितुं चामडु. हिरण्य आदि का चमड़ा. Skin of a deer etc. आया० १, १, ६, २३; उत्त० ६, २१; सूय० २, २, ६; ( २ ) यर्म-चामडु धारणु करवु ते. चर्म धारणा करना. the act of putting on a skin. “चिराजियं नगिशियं जडी संघाडिमुंडिणं” उत्त० ६, २१; ( ३ ) पुं० जिन-तीर्थकर नहि ते; वीतराग नहि ते. जो जिन-तीर्थकर न हो वह; जो वीतराग न हो वह. one who is not a Tirthāṅkara i. e. one who has not conquered passions. आव० १६; भग० १५, १;—**आहार.** त्रि० ( -आहारक ) जिननाभकर्म अने आहारकशरी-२ ए ऐ प्रकृति शिवायनुं. जिननामकर्म और आहारकशरीर इन दो प्रकृतिओं के सिवाय का. with the exception of the two Karma Prakृtis viz Jinanāma Karma and Āhārakaśarīra. क० गं० ३, २३;—**मणुआउ.** त्रि० ( -मनुजायुष ) जिननाम तथा मनुष्यनुं आयुष्य ए ऐ प्रकृति शिवायनुं. जिननाम और मनुष्य इन दो प्रकृतियों के सिवाय का. with the exception of the two Karma Prakृtis viz Jinanāma and Manuṣyāyuṣya. क० गं० ३, ७;

**अजितण.** न० ( अजीर्ण ) अप्येऽ; खाराक-

पाचन न थाय ते. भोजन का न पचना; अजीर्ण. Indigestion. पिं० नि० ८४;

**अजित.** पुं० ( अजित ) अजित नामे भीजा तीर्थ-कर. अजित नाम के दूसरे तीर्थकर. Name of the 2nd Tirthāṅkara. सम० २३; २४; **अजिय-अ.** त्रि० ( अजिय ) द्वैधथी जिताय नहि तेवो; द्वैधथी पराजय खामे नहि तेवो. जो किसीसे पराजित न हो सके वह. Invincible. भग० ६, ३३; नाया० १; ( २ ) भरतक्षेत्रनी चालु चोवीसीना. भीजा तीर्थकरनुं नाम. भरतक्षेत्र की वर्तमान चौबीसी के दूसरे तीर्थकर का नाम. name of the second Tirthāṅkara, of the present cycle of twentyfour of Bharata Kṣetra. भग० २०, ८; आगुजो० ११६; ( ३ ) नवमा सुविधिनाथ तीर्थकरना. पक्षत्वनुं नाम. नवें सुविधिनाथ तीर्थकर के यज्ञ का नाम. name of the Yakṣa, of the ninth Tirthāṅkara, Suvidhinātha. प्रव० ३७५;—**जिरिद.** पुं० ( -जिनेन्द्र ) चालु अव-सर्पिणी। भरतक्षेत्रना भीजा तीर्थकर. वर्तमान अवसर्पिणी के भरतक्षेत्र के दूसरे तीर्थकर का नाम. second Tirthāṅkara of Bharat Kṣetra in the present Avasarpinī. विशे० ५६६;

**अजियसेण.** पुं० ( अजियसेण ) नंभूदीपना धरवतक्षेत्रमां चालु अवसर्पिणीमां थयेल नवमा तीर्थकरनुं नाम. जंबूदीप के इरवतक्षेत्र के वर्तमान अवसर्पिणी के नवें तीर्थकर का नाम. Name of the ninth Tirthāṅkara, of the present Avasarpinī in the Iravata Kṣetra of Jambūdvīpa. सम० प० २४०; ( २ ) अंतगढ सूत्रना नीजा वर्गेना नीजा अध्ययननुं नाम. अंतगढ

सूत्र के तीसरे वर्ग के तीसरे अध्याय का नाम। name of the third chapter of the third part of Antagada Sūtra. अंत० ३, ३ः ( ३ ) भद्रपुर निवासी नाग गाथापनिनी पत्नी सुलसाना पुत्र, ३ जे नेमनाथ प्रभु पासे दीक्षा लभ् २० परसनी प्रवृत्त्या पाणी शत्रुंजय उपर ऐक भासनो संथारे। करी निर्वाणु पद पाभ्या। भद्रपुर निवासी नाग गाथापति की पत्नी सुलसा का पुत्र, जिसने नेमनाथ प्रभु से दीक्षा लेकर २० वर्षों तक प्रत्रजया पालन की और शत्रुंजय ऊपर एक मास का संथारा कर, निर्वाण पद प्राप्त किया। the son of Sulasā the wife of Nāga Gāthāpati, resident of Bhaddalapura, who having taken orders as a disciple of Nemīnātha, practised asceticism for twenty years, observed absolute fasting for a month on Śatruñjaya and attained salvation. अंत० ३, ३ः

**अजिया-आ.** ल्ला० ( अजिना ) चाथा तीर्थकृ श्रीअभिनन्दनस्व.भीनी भुष्य साध्वी। चौथे तीर्थकर श्रीअभिनन्दनस्वामी की मुख्य साध्वी। The principal nun of the fourth Tirthaṅkara, Abhinandana Svāmī. प्रब० ३०६; सम० प० २३४;

**अजीर.** न० ( अजीर्ण ) अपेचा; अल्पांशु। अजीर्ण। Indigestion. नाया० १३; पिं० नि० भा० २५;

**अजीरण.** न० ( अजीर्ण ) जुओ 'अजिरण' शब्द। देखो 'अजिरण' शब्द। Vide 'अजिरण'.

जीवा० ३,३; भग० ३, ७; जं० प० २२, २४;

**अजीरण.** न० ( अजीर्ण ) अपेचा; अल्पांशु। अजीर्ण। Indigestion. प्रब० द७२;

**अजीव.** पुं० ( अजीव-न जीवा अजीवा: ) ७४;

येतन रहित पदार्थ; निर्णय पदार्थ। चैतन्य रहित पदार्थ; जड़। An inanimate object. "रूविणो य अरूपी य अजीवा तुविहा भवे अरूपी दसहा तुत्ता रूविणो वि चउभिहा" उत्त० ३६,४; नाया० ५; ओव० ३४; दस० ४, १२; अणुजो० ८; १२८; पन्न० १; भग० १,६; २, ५; १०; ५, ६; ७, ७; राय० २२४; जं० प० २, ३१;—**अभिगम.** पुं० (—अभिगम) गुण प्रत्यय अवधि आदि सानन्धी अल्प-पुहगवादिनो ऐध थवो ते। गुण प्रत्यय अवधि आदि ज्ञान से पुद्लादि का बोध होना। realisation of the knowledge, of things devoid of life, through Guṇapratyaya, Avadhi and other varieties of knowledge. जीवा० १;—**आणवणिया.** ल्ली० (—आज्ञा-पनिका) अल्प परत्वे आज्ञा-आदेश क्रवत्ता-था लागत कर्म अंध; आणुवणिया क्षियानो ऐक भेद। अजीव सम्बन्धी आज्ञा करने से जो कर्मबंध हो वह। आणवणिया किया का एक भेद। Karma incurred by giving orders with reference to things devoid of life; a variety of Āṇavapniyā Kriyā. ठा० २, १;—**आण-वणिया.** ल्ला० (—आनायनी) अल्परूप परत्व भंगाभवाथी लागती क्षिया; आनायनी क्षियानो ऐक भेद। अजीवरूप वस्तु भंगने से जो कर्मबंध हो वह। आनायनी किया का एक भेद। Kriyā or Karma incurred by asking for things devoid of life; a variety of Āṇayani Kriyā. ठा० २, १;—**आरंभिया.** ल्ली० (—आरं-भिका) अवरहित क्लेवर निभिते आरंभ क्रवत्ता लागती क्षिया—कर्म अंधाय ते; आरंभिया क्षियानो। ऐक भेद। जीवरहित क्लेवर के निमित्त आरंभ करने से जो कर्मबंध हो वह;

आरंभिया किया का एक भेद. a variety of Ārambhīyā Kriyā i.e. sin incurred by acts done with reference to dead bodies; a kind of Ārambhīyā Kriyā. ठा० २, १;—करण. न० ( -करण ) अशुद्ध करण-शुद्धना प्रयोग ( व्यापार ) था निर्णय वस्तुने लेप, रूप वर्गेरे संरक्षार करवा ते. जीव के प्रयोग से निर्जीव वस्तु का लेपादि संस्कार करना. act of smearing, shaping etc.; lifeless things, done by animate things. विश० ३३४२;—किरिया. छा० ( -क्रिया ) अशुद्धनो व्यापार; अशुद्ध पुहगलसम्भदनु धर्या-पथिक धंधे के सांपर्याधिक अधर्यपे परिणयमनुते; धरियाचिद्या अने सांपर्याधिक ऐ ऐ किरियाभाई गमे ते अंक. अर्जीव का व्यापार; अर्जीवपुद्लसमूह का ईर्यापथिक धंध या सांपर्याधिक धंधलपसे परिणमना; ईर्यात्वाहया और सांपर्याधिकी इन दोनों कियाओं में भी कोई भी एक. movements of inanimate objects resulting in groups called Iriyāpathikabandha or Sāmparāyikabandha. “दो किरियाओ परश्चत्ता, तंजहा जीवकिरिआ चेव अर्जीवकिरिया चेव” ठा० २, १;—णिस्सिय. त्रि० ( -निःश्रित ) अशुद्धने आश्री रहेत. अर्जीव के आश्रय मे रहा हुआ. in touch with a thing devoid of life. ठा० ५;—णिस्सिय. त्रि० ( निःसृत ) अशुद्धधर्या नीक्षेत्र. अर्जीव से निकला हुआ. produced from a thing devoid of life. ठा० ७;—दब्ब. न० ( -द्रव्य ) अशुद्ध द्रव्य-पदार्थ; धर्मास्तिकाय आदि पांच द्रव्य. अर्जीव द्रव्य; धर्मास्तिकाय आदि पांच द्रव्य. inanimate matter classified into five divisions viz

Dharmāstikāya etc. भग० ११, १०; १८, ४; २४, २;—दिङ्डिया. छा० ( -दृष्टिका ) अशुद्ध-विनाशि आदि नेवाई लागती किया; दिङ्डिया किया नो अंक भेद. अर्जीव-चित्र आदि देखने से जो कर्मबंध हो वह; दिङ्डिया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by seeing inanimate objects such as painting etc.; a variety of Ditthiyā Kriyā. ठा० २, १;—देस. पु० ( -देश ) अशुद्धनो अंक विभाग; अशुद्धरूप आपी वस्तुनो अंक कड़ा. अर्जीव का एक विभाग; अर्जीवरूप सम्मूर्ख वस्तु का एक टुकड़ा. a part of inanimate matter. उत्त० ३६, २; भग० २, १०, १; १६, ८;—पच्चक्षालासकिरिया. छा० ( अप्रस्तार्यानकिया ) भहिरा वर्गेरे अशुद्धनु प्रत्या ज्यान नहि करवाई लागती किया; अपच्च-दृष्टागु कियाना. अंक भेद. मादग आदि अर्जीव वस्तुओं का प्रन्याख्यान न करने मे जो कर्मबंध हो वह; अपच्चक्षालास किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by not taking vows to abstain from drinking wine etc.; a variety of Apachchakkhaṇa Kriyā. ठा० २, १;—पञ्जव. पु० ( -पर्यव ) अशुद्धना पर्याय; अशुद्धना विशेष धर्म; अशुद्धना गुण. अर्जीव का पर्याय; अर्जीव का विशेष धर्म; अर्जीव का विशेष गुण. specific properties of inanimate matter. • अर्जीवपञ्जवाण भंते ! कहविहा परश्चत्ता ? गोयमा ! दुविहा पननत्ता, तंजहा रूविअर्जीव पञ्जवा अरूविअर्जीवपञ्जवा य ” पञ्च० ५; भग० २५, ४;—परगणवणा. छा० ( -प्रश्नपना ) अशुद्धनु निरूपयु-अतिपाहन करनु; स्वरूप-प्रकार भनावया ने. अर्जीव का निरूपण

करना—स्वरूप बताना, defining and explaining the nature and varieties of inanimate matter. “से किं तं अजीवपरणवशा ? अजीवपरणवशा दुष्टिहा परणस्ता, तंजहा स्विअजीवपरणवशा अरु विअजीवपरणवशा य” पन्न० १; —पद. न० (—पद) पत्रवणु सत्रना पांचमा प६नु नाम. पञ्चवणासूत्र के पांचवें पद का नाम. name of the fifth part of Pannavaṇā Sūtra. भग० २५, ४;—परिणाम. पुं० (—परिणाम) अंधन, गति वगेरे अल्पना. परिणाम, बंधन, गति आदि अजीव का परिणाम. transformations of inanimate matter resulting in molecular bondage, motion etc. “दसविंहे अजीवपरिणामे परणस्ते तंजहा बंधणपरिणामे गहयपरिणामे ठाणपरिणामे भेदवन्नरसपरिणामे गंधपरिणामे फासपरिणामे अगुरुलहुयसहपरिणामे” ठा० १०; भग० १४, ४;—पाउसिया. स्त्री० (—प्राद्वेषिकी) अल्पपदार्थ-पथरा वगेरे उपर देखु ५ उत्तरार्थी लागती किया—कर्मभन्ध. अजीव पदार्थ के साथ द्वेष करने से जो कर्मबंध हो वह. Kriyā or Karma incurred by despising things devoid of life. भग० ३, ३; ठा० २, १;—पादुच्चिया. स्त्री० ( प्रातीतिकी-अजीव प्रतीत्य यो रागद्वेषोऽवस्तज्जो यो वन्धः सा, अजीवप्रातीतिकी ) अल्प भत्ये रागद्वेष ५ उत्तरार्थी लागतो कर्मभन्ध; पादुच्चिया कियानो एक भेद. अजीव से रागद्वेष करने से जो कर्मबंध हो वह; पादुच्चिया किया का एक भेद. Karma incurred by showing fondness for or hatred towards things devoid of life; a variety of Pāduchchiyā Kriyā. ठा० २, १;—पुट्ठिया.

स्त्री० (\*पृष्ठिका-स्पृष्ठिका) अल्पने रागद्वेषे अपर्शी उत्तरार्थी लागती किया—कर्मभन्ध; पुट्ठिया कियानो एक भेद. अजीव को रागद्वेष रूप भावों से स्पर्श करने से जो कर्मबंध हो वह; पुट्ठिया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by touching things devoid of life with feelings of love or hatred; a variety of Putṭhiyā Kriyā. ठा० २, १;—पप्पस. पुं० (—प्रदेश) अल्पवद्वयनो व्रेष्ट; अल्प द्रव्यनो ग्रीष्माभाँ झींखो। लाग-स्कंधनी साथे लागेल परभाणु. अजीव द्रव्य का प्रदेश; अजीव द्रव्य का छोटे से छोटा हिस्सा. the minutest part of a thing devoid of life; atoms forming a quarter molecule. भग० १०, १; १६, ८;—भाव. पुं० (—भाव) अल्पवना पर्याय. अजीव का पर्याय. various forms of things devoid of life. विशेष० ३३४४;—भावकरण. न० (—भावकरण) स्वाभाविकरीते विस्त्रसा लावे वाढण। विगेनेनुं रूपान्तर थाय छे ते. स्वाभाविक रीति से मेघ आदि का जो रूपान्तर होता है वह. changes that are naturally produced in matter such as clouds etc. विशेष० ३३४२;—मिस्सिया. स्त्री० (—मिक्षिता) सत्यभूषा लापानो एक भेद; ज्यां धणु भाणुसो मरी गयेल छे थेणा छवता होय त्यां एक भोले कु “अहो आ वधा मरी गयेल छे ” आभाँ कुर्दि साचु अने कुर्दि भोलु अने वणी ते अल्प आश्रित भाटे अल्पभित्रित सत्यभूषा. सत्यमृषा भाषा का एक भेद; जहां बहुत मनुष्य मरगये हों और थोड़े जीवित हों वहां ऐसा कहे कि “सब मर गये”इसमें सत्य और भूठ दोनों मिले हैं और फिर यह कथन

अर्जीवश्चाप्रित होने के कारण अर्जीव मिथित सत्यमृषा कहाता है. speech referring to lifeless things, which is partly true and partly false; a variety of Satyamṛisā, a kind of speech. पञ्च० ११;—रासि. पुं० (—राशि) अल्पवनो समूह. अर्जीव का समूह. a collection of things devoid of life. “ अर्जीवरासी दुविहा परयता तंजहा रूपिणीवरासी अस्विष्टारासी ” सम० २;—विजय. पुं० न० (—विचय) अनंत पर्यायवाणि धर्मास्तिकाय आदि अल्प द्रव्यनु वित्तन करें ते. अनंत पर्याय वाले धर्मास्तिकाय आदि अर्जीव द्रव्य का चित्तवन करना. the act of thinking about things devoid of life e. g. Dharmāstikāya etc. which assume various forms. सम० ४;—विभक्ति. ऋ० (—विभक्ति) अल्पवनी विभक्ति—अल्पनु पृथक्करण-विवेचन-विभागदर्शन. अर्जीव का पृथक्करण-विभाग. analysis of the nature of things devoid of life. “ एसा अर्जीवविभक्ती समासेण वियाहिया ” उत्त० ३६, ४७;—वैद्यारणिया. ऋ० (—\*वैदारणिका-वैक्रय-शिका-वैचारणिका-वैतारणिका-अर्जीवं विद्वार-यति, असमानभागेषु विक्रीणाति, द्वैभाषिके, विचारयति, पुरुषादिविभ्रतारणाद्युदया भण्णति, यत् सा ) अल्पवने विद्वारवाथी डे अल्प वस्तु निभिते डेधने छेतरवाथी लागती किया-कर्मध-ध; विद्वारणियाकियानो एड भेद. अर्जीव का विद्वारण करने या अर्जीववस्तु के निभित से किसी को ठगने से जो कर्मबंध हो वह; विद्वारणिया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by deceiving somebody in

connection with things devoid of life or by tearing them; a variety of Vidāraṇiyā Kriyā. ऋ० २, १;—सामंतोवणिवाइया. ऋ० (—सामन्तोपनिषदिकी) पैतानी वस्तुना वभाषु थतां सांख्यी भनमां भलकावाथी-राणु थवाथी लागती किया—कर्मध-ध; सामंतो-वणिवाइया कियानो एड भेद. अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से जो कर्म बंधन हो वह; सामंतोवणिवाइया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by being elated at the praise of one's own thing; a variety of Sāmantovaṇivāiyā Kriyā. ऋ० २, १;—साहतिथिया. ऋ० (—स्वाहतिका) अल्प-भृङ विग्रे लई पैताने हाथे अल्प-वने भारतां लागती किया—कर्मध-ध; साह-तिथिया कियानो एड भेद. अर्जीव-खड़ वडौरह लेकर अपने हाथ से अर्जीव को मारने से जो कर्मबंध हो वह; साहतिथा किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by striking things devoid of life with things devoid of life such as a sword etc.; a variety of Sāhatthiyā Kriyā. ऋ० २, १;

अर्जीवकाय. पुं० ( अर्जीवकाय ) अवरहित काय-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा-स्तिकाय अने पुहगलास्तिकाय. जीवरहित काय-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्ति-काय और पुहलास्तिकाय. Matter devoid of life e.g. Dharmāstikāya, Adharmāstikāya, Ākāśastikāya and Pudgalāstikāya. प्रब० ८४६; भग० ७, १०;—असंजम. पुं० (—असंयम) अल्पकाय-वस्त्र, पात्रादिक वाप-रां थयेद अवनी हिंसा. अर्जीवकाय-वस्त्र,

पात्रादि का उपयोग करने में जो हिंसा हुई हो वह. destruction of life caused while using things devoid of life such as garments, vessels etc. ठा० ७;—असमारंभ. पुं० (—असमारम्भ) अशुद्धकाय-वस्त्र, पात्रादि लेतां भुक्तां डैर्छ शुद्धने परिनाप-दुःख न उपनवन् ते. अर्जावकाय-वस्त्र पात्रादि उठाते रखते किसी जीव को दुःख न देना. abstaining from causing harm to living beings in the act of taking or laying down lifeless things such as garments etc. ठा० ७;—आरंभ. पुं० (—आरम्भ) अशुद्धकाय-वस्त्र, पात्रादि लेतां भुक्तां शुद्धने दुःख उपनवन् ते; आरंभिया क्षियामो एक बंद. अर्जावकाय वस्त्र, पात्र आदि उठाते रखते समय जीव को दुःख देना; आरंभिया किया का एक भेद. causing pain to a living being in taking or laying down things devoid of life such as garments etc. ठा० ७;—संज्ञम. पुं० (—संघम) पुरतक, वस्त्र, पात्र आदि लेतां भुक्तां यना राखनी ते; डैर्छ शुद्धने दुःख न उपनवन् ते. पुस्तक, वस्त्र, पात्र आदि उठाते रखते समय यत्नाचार रखना; किसी जीव को दुःख न पहुंचाना. not causing pain to any living being in taking and placing down books, garments etc. ठा० ७;

अर्जीवत्त. पुं० ( अर्जीवत्त ) अशुद्धपाण्य. अर्जीवपन. Lifelessness. भग० ७, १०; अर्जुगलिय. त्रिं० ( अयुगलित ) एक पंक्ति-एक हारमां न रहेल; सभश्रेष्ठिये न रहेल. एक पंक्ति में न रहा हुआ; तितर वितर; अव्यवस्थित. Not in a line; not in the same stage. ओव०

अर्जुजिभत्ता. सं० कृ० अ० ( अयुदध्वा ) धुद्ध कर्या विना; न लडीने; लडाई श्रीधा वगर. विना युद्ध किये. Without resorting to fighting. ठा० ३, २;

अर्जुत. त्रिं० ( अयुक्त ) अनुचित; अयोग्य. अर्तुचत्त; अयोग्य. Improper. विशेष० १६; प्रव० १६१२; ( २ ) योग्यतानो अभाव. योग्यता का अभाव. impropriety. विशेष० १३२;—रूब. त्रिं० (—रूप) असंगत-अनुचित वेष वाला. having improper dress. ठा० ४, ३;

अर्जूरणया. स्त्री० ( \* अर्जार्णता-अर्जरणता ) शरीरने शुरु भनावनार शैक-शुरेणु न उड-वी ते. शरीर को जारी करने वाला शोक आदि का न करना. Abstaining from grief which causes emaciation of the body. “ बहूणं पाण्याणं जाव सत्ताणं अदुक्षलण्याए असोयण्याए अर्जरणयाए ” भग० ७, ६;

अजोग. त्रिं० (अयोग्य) अयोग्य; योग्य नहि ते. अयोग्य. Unworthy; improper. प्रव० ५७; सूत्र० २, ६, ३०;—रूब. त्रिं० (—रूप) अयोग्य; अधिति; अनुचित. अयोग्य; अनुचित. improper; unworthy. “ अजोगरूबं इह संजयार्यं पावन्तु पाण्याणं य संक्फाउं ” सूत्र० २, ६, ३०;

अजोग. पुं० ( अयोग ) योगनी अपलता रहित शैलेशी अवस्था; योगमन, वयन अने कायाना। व्यापारने। अभाव. मन, वचन, और कायरूप योग का अभाव. A state called Saileśī; absence of activities of mind, speech and body. भग० २६, १;

अजोगत्त. न० ( अयोगत्त ) अनेगिपाण्य;

ब्रेग रहित पाणि योग रहित पना. Absence of activities of mind, speech and body. श्रोतृ ४३;

**अजोग्या.** ली० ( अयोगता ) योगमें अभाव; योगनिरोध; अयोगिपाणि. योग का अभाव अयोगीपन. Vide "अजोग्यता". सम० ५;

**अजोगि.** पु० (अयोगिन्) योग रहित-भन, वन्यन अने कायाना योग विनानो; यैदमा युणुहाणुवाणा। श्रवत्था सिद्ध भगवान्, मन, वचन और काय के देग से रहित; चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव तथा सिद्ध भगवान्. Free from activities of mind, speech and body; a soul in the fourteenth Guṇasthāna; a soul who has obtained salvation. प्रव० ७३५; १३३३; ठा० २, १; ४, ४; भग० ६, ३; ८; ६, ३१; १८, १; २५, ६; २६, १; क० ग० २, २; ८, ५०;—केवली.

पु० (—केवलिन्-अयोगी चाइसौं केवली च तथा) यैदमा युणुहाणुवाणा। श्रेष्ठेशी अवस्थाने पामेल डेवली लगवान्. चौदहवें गुणस्थान की अवस्था को प्राप्त केवली भगवान्. a Kevalī in the fourteenth Guṇasthāna, who is free from all activities of mind, speech and body. सम० १४;—केवलिगुणद्वाणा. न० (—केवलिगुणस्थान—न योगी अयोगी अयोगी चासौं केवली च अयोगिकेवली तस्य गुण स्थानम्) यैदमा युणुहाणुनु नाम. चौदहवें गुणस्थान का नाम. 14th Guṇasthāna so named because the Kevalis are free from physical activity here. क० ग० २, २;—भवस्थ. पु० (—भवस्थ) श्रेष्ठेशी अवस्थाने पहेंचेल डेवली लगवान्; यैदमा युणुस्थानकृत्ती डेवली. चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली. Kevali God who has attained

to the fourteenth Guṇasthāna where the activities cease. भग० ८, ८;—भवस्थकेवलि. पु० (—भवस्थकेवलि) श्रेष्ठेशी अवस्थाने पहेंचेल डेवली. श्रेष्ठेशी अवस्था को प्राप्त केवली. vide " अजोगिकेवलि ". भग० ८, ८;

**अजोग्य.** त्रिं० (अयोग्य) अनुचित; अधृति. अनुचित; अघटित. Improper; unworthy. पंचा० ५, २०;

**अजोग्यणि.** पु० (अयोगिक-नास्ति योनिरूपसि स्थानं यस्य स तथा) सिद्धभगवान्; मुक्तात्मा. सिद्धभगवान्; मुक्तात्मा. The liberated soul. ठा० २, १;

**अजोसयंत्.** व० कृ० त्रिं० (अजोषयत्) न सेवतो; न पाणतो. सेवन न करता हुआ; पालन न करता हुआ. Not observing; not resorting to. "समाहिमाधातमजोसयंता सम्यादभेदं फलसं वर्यन्ति" सू० १, १३, २; आया० १, ६, ३, १८;

**अजोसिय.** त्रिं० (अजुष) न सेवेदुः; न पाणेदुः; सेवन न किया हुआ; न पालन किया हुआ. Not observed; not practised. "जे विरणवणा अजोसिया" सू० १, २, ३, २;

✓**अज्ज.** धा० I. (अर्ज) उपार्जन करनु; भेणवनु; भेणु करनु; संचय करने. To earn; to obtain; to hoard.

अज्जै. भन्न० ६७;

अज्जह. क० ग० १, ५५;

अज्जाणिता. सं० क० "एगंत दुक्खं भवमज्जाणिता वेदति दुक्खी तमयंतदुक्खं" सू० १, ५, २, ३५;

**अज्ज.** अ० (अद्य) आज; आजे; अज्जित; आजरैज. आज. To-day. भग० ३, २; ६, ३३; ११, ११; १५, १; नाया० १; द;

१६; परह० १, २; नंदी० स्थ० ३३; आया० १, ३, २, १११; उत्त० २, ३१; १०, ३१; पिं० नि० १६१; विवा० ५; विशे० २३८५; निसी० ६, १२; भत्त० ४;—पणभिह. अ० (—प्रभृति) आनन्दी भाँडीने. आज से शुरू करके. from to-day; hence forth.  
“ यो खलु भंते ! कपपह अज्जप्पभिह  
अग्नातिथ्या वा ” कप्प० ५, १३२; उवा० १, ५८; जं० प० २, २१;

**अर्जजः. त्रि०** (आर्य-आरात् सर्वहेयधमेभ्यो यातः  
प्राप्तो गुणैरित्यार्यः) श्रेष्ठ; उत्तम; पवित्र; शिष्ट;  
पवित्र आचार विचारवान्. उत्तम; श्रेष्ठ; पवित्र  
आचार विचार वाला. Pure; civilised;  
noble; refined; cultured.  
प्रब० १४५; भग० २, ५; ३, १; ५, ४; ८; ८,  
७; नाया० १; १६; दस० ६, ५४; नंदी० स्थ०  
२६; पिं० नि० २०६; अग्नुत्त० १, १; वव०  
१, २३; ( २ ) पुं० भानो आप॒; नानो॑.  
माता का पिता-नाना. maternal grandfather.  
नंदी० ( ३ ) आपनो आप॒; दादो॑.  
पितामह; दादा; बाबा. paternal grandfather.  
नाया० ८; ( ४ ) गोत्र  
प्रवर्तक ऋषिविशेष; जेना गोनमां शांडिल्य-  
ना शिष्य जीतधरसूरि थथा. गोत्र प्रवर्तक  
ऋषिविशेष; जिसके गोत्र में शांडिल्य का  
शिष्य जीतधरसूरि हुआ. a sage, the  
patriarch of a Gotra in which  
Jitadharasūri, the disciple of  
Śāndilya, was born. नंदी० ( ५ )  
पुं० वैभारपर्वतीनीनीयेनो एक॑ द्रु॒. वैभार-  
पर्वत के नीचे का एक जलाशय. a pond  
under the mountain Vaibhāra.  
भग० २, ५;—उत्त. पुं० ( -ुत्र ) धर्मी  
मा आपनो पुत्र. धर्मिक माता पिता का  
पुत्र. & son of pious and holy  
parents. ठा० ८;—ओभासि. त्रि०  
(—अवभासिन्) आर्य नहि छतां आर्यनी

पेटे भासतो; आर्याभास. आर्य न होते हुए  
आर्य के समान प्रतिभासित होने वाला;  
आर्यभास. Arya in appearance  
though not in reality. “ अ-  
ज्जज्ञानोभासी ” ठा० ४, २;—जाह. त्रि०  
(—जासि) जलिये करी आर्य; आर्य जलियां  
उत्पन्न थयेत; आर्य जाति में उत्पन्न. an  
Arya by birth. “ अज्जजाई ” ठा० ४, २;  
—दिट्ठि. त्रि० (—दृष्टि) जेनी दृष्टि आर्य-  
पवित्र होय ते. जिसकी दृष्टि पवित्र हो  
वह. pure-sighted; noble-sighted.  
“ अज्जजट्ठि ” ठा० ४, २; —पणण. त्रि०  
(—प्रज्ञ) जेनी प्रज्ञा-समज्ञ आर्य-उत्तम  
होय ते. उत्तम प्रज्ञा-समझ वाला. endowed  
with great wisdom. “ अज्जपश्चे  
चउभंगो ” ठा० ४, २;—पय. पुं० (—पद) शुद्ध  
धर्म दर्शावनार ८८-वाक्य; आर्य-आप॒ वचन.  
शुद्ध धर्म प्रकट करने वाला वाक्य. words of  
an Arya pointing out true re-  
ligion etc.; authoritative speech.  
“ पवेयए अज्जपयं महामुख्ये ” दस० १०, १, २०;  
—पराक्रम. त्रि० (—पराक्रम) जेनो पराक्रम-  
भुद्धादुरी भयो. उत्तम होय ते; आंतरिक दुश्म-  
नने हंशवना पराक्रम दर्शावनार. उत्तम परा-  
क्रम वाला; आंतरिक शक्तिओं पर जय प्राप्त करने  
में पराक्रम प्रकट करने वाला. of renowned  
valour; heroic in subduing  
internal enemies. e.g. passions.  
“ अज्जपरक्रमे ” ठा० ४, २;—परियाश्र.  
त्रि० (—पर्याय) जेनो। पर्याय-प्रभनन्दी-दीक्षा  
आर्य होय ते. उत्तम दीक्षा वाला. practising  
high and noble asceticism.  
“ अज्जपरियाए ” ठा० ४, २;—परिवाल.  
त्रि० (—परिवार) जेनो। परिवार आर्य छे  
ते. इत्तम् परिवार वाला. having  
high and noble attendants

“ अज्जपरिवाले ” ठा० ४, २;—भासि. त्रि० (—भाषिन्) आर्थभाषा भेदनार. आर्थभाषा बोलने वाला. one who speaks a refined language. “ अज्ज-भासी ” ठा० ४, २;—मण. त्रि० (—मनस्) जेनुं मन आर्थ-पवित्र होय ते. आर्थ-पवित्र मन वाला. pure-minded; noble-minded. “ अज्जमणे ” ठा० ४, २;—रूच. त्रि० (—रूप) जेनो वेष आर्थ हो ते; रूप-देखावमां आर्थ. आर्थ वेष वाला. refined in appearance. “ अज्जरूचे ” ठा० ४, २;—बवहार. त्रि० (—व्यवहार) जेनो व्यवहार आर्थ-उत्तम-पवित्र होय ते. आर्थ-पवित्र व्यवहार वाला. noble and refined in dealing. “ अज्जबवहारे ” ठा० ४, २;—वित्ति. त्रि० (—वृत्ति) जेनी वृत्ति आल्पिका आर्थ-पवित्र होय ते. आर्थ-पवित्र आजीविका वाला. following a noble and holy avocation. “ अज्जवित्ती ” ठा० ४, २;—संकल्प. पुं० (—सङ्कल्प) जेनो संकल्प-विचार आर्थ-पवित्र होय ते. आर्थ-पवित्र विचार-संकल्प वाला. one whose thoughts are pure and holy. “ अज्ज-संकल्पे ” ठा० ४, २;—सीलायार. त्रि० (—शीलाचार) आर्थने छाले तेबे. उत्तम आचार विचार जेनो होय ते. आर्थपुरुषों को शोभा देने योग्य जिसका उत्तम आचार विचार हो बह. of noble and refined conduct. “ अज्जसीलायारे ” ठा० ४, २;—सेवि. त्रि० (—सेविन्) आर्थनी सेवा करनार. आर्थ की सेवा करने वाला. one who serves a pure and noble person. “ अज्जसेवी ” ठा० ४, २;

अज्जन्म-य. पुं० ( आइरैक ) पितामह; दादा; बाबा. A

आपनो आप. पितामह; दादा; बाबा. A

paternal grand-father. “ अज्जए पज्जए वावि बप्पुचुहु पिडत्ति य ” दस० ७, १८; “ अज्जयपज्जयपिडपज्जयागण ” भग० ६, ३३; नाया० १; ६; अंत० ६, ३; अज्जआसाढ. पुं० ( आर्यांशाढ ) श्रीवीरनिर्वाणु पक्षी २१४ वर्षे, जे अव्यक्तादृष्टिभूत बाल्यु ते अव्यक्तवाहीना गुरु. स्वेतांभिका नगरीमां हृदयशक्तना रोगथी कालधर्म आभी सौधर्म हेवलोडे गया, पक्षी पोताना शिष्योने अल्पाववा पोताना भृतक शरीरमां प्रवेश करी, सज्जवन थध, शिष्यने अल्पावी, आर्यांश भनापी याल्या गया, ते उपरथी शिष्योने आशंका थध के आपाणुमांथी पणु डोधना शरीरमां देनतानो प्रवेश न होय तेनी आनी शु? भाटे डोधने बंदनाज न इरवी. आभ अव्यक्तवाही पंथ थेडो वभत बाल्यो. आ भतना भूत्तिभूत आर्यांशाढ हुता. श्रीवीरनिर्वाण के २१४ वर्ष पाँचे जिसने अव्यक्त दृष्टिभूत चलाया था, उसके गुरु का नाम; ये श्वेतांशिका नगरी में हृदयशक्त के रोग से मरकर सौधर्म देवलोक में गये, पाँछे अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिये अपने भृतकशरीर में प्रवेश कर सजीव हुए और शिष्य को पढ़ाकर तथा उसे आचार्य बनाकर पाँछे चले गये, उसपर से शिष्यों को आशंका हुई कि, अपने में से किसीके भी शरीर में देवता का प्रवेश न हुआ हो, इसका क्या विश्वास? इसलिये किसीको बंदना ही न करने का उन्होंने निश्चय किया. यह अव्यक्त पंथ थोड़े समय तक चला, इस मत के मूलनिर्मित्त आर्यांशाढ ही थे. The originator and founder of the tenet known as Avyakta-Dṛiṣṭi, in the 214th year after Śrī-Viranirvāṇa. He died in the city named Svetāmbikā, of heart-disease and went to

Saudharma heaven; whence in order to teach his disciples he entered into his own dead body, instructed his disciples and then passed away. Upon this the disciples suspected the possibility of presence of a god in the body of some one of them; and consequently they did not bow to any one. Thus this faith was in vogue for a time. The chief expounder of this faith was Ārya-Āśāṅha. उत्त० टा० ३;

**अज्जहसिवालिय.** पुं० ( आर्यविषयिति ) भा० ४२८ गोत्री आर्यशान्तिश्रेणिना शाखा शिष्य. माठरस गोत्रा आर्यशान्तिश्रेणि के चौथे शिष्य. Fourth disciple of Ārya-Sāntisreni of Māṭharasa Gotra. कप्प० द;

**अज्जहसिवालिया.** स्त्री० ( आर्यविषयिति ) आर्यनिपातितथी नीडगेल एक शाखा. आर्यत्रृष्णिपालित से निकला हुई एक शाखा. A branch originating from Ārya-Risipalita. “थेरेहितो अज्जहसिवालिपुहितो हृथण्णं अज्जहसिवालिया साहा णिगमाया” कप्प० द;

**अज्जकरह.** पुं० ( आर्यकृष्ण ) दिग्म्बर भतना स्थापक शिवभूति के गुरु. The Guru of Śivabhūti, the founder of the Digambara faith. विश० २५५.१;

**अज्जकप्प.** त्रि० ( आर्याकल्प ) ऐ आर्य-साधीनेज ८६पे साधुने नहि ते. आर्या-साधी को कल्पने वाली ( साधु का न कल्पने वाली ) वस्तु. Suited to or prescribed for

a nun as distinguished from a monk. गच्छा० ६१;

**अज्जकालग.** पुं० ( आर्यकालक ) स्वातिसूरिना शिष्य; श्यामार्थ ( भीजुं नाम ) नामना आर्य. स्वातिसूरि के शिष्य; श्यामार्थ ( दूसरा नाम ) नाम के आर्य. The disciple of Svātisūri; a preceptor also named Śyāmārya. कप्प० द;

**अज्जकुबेर.** पुं० ( आर्यकुबेर ) आर्यशान्तिसेनना शिष्य. आर्यशान्तिसेन के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Sāntisena. कप्प० द;

**अज्जकुबेरी.** स्त्री० ( आर्यकुबेरी ) आर्यकुबेरथी नीडगेली शाखा. आर्यकुबेर से निकली हुई शाखा. An offshoot derived from or having as its head Ārya-Kubera. कप्प० द;

**अज्जग.** पुं० ( आर्यक ) जुओ. “अज्जअ-य” शब्द. देखो “अज्जअ-य” शब्द. Vide “अज्जअ-य”. निर० १, १; नाया० ६; जं० ५० ५, १२३;

**अज्जगंग.** पुं० ( आर्यगङ्ग ) द्विक्षिया नामे निहन्त मतना प्रवर्तक निहन्वाचार्य; एकदा आर्यगंग नही उत्तरता दता त्यारे पगे पाणीनी हुक्क अने भाष्ये ताप लाओ. ते उपरथी तेषु नियार क्यों के सिद्धांतमां एक समये ऐ छियाने अनुभव न थाय एम कहुं छे ते प्रत्यक्ष विश्व छे. आ उपरथी तेषु खेताने जुहो भत स्थाप्तो. द्विक्षिया नामक निहन्व मत के प्रवर्तक निहन्वाचार्य; एक वार आर्यगंग नदी पार कर रहे थे, उस समय पैरों को पानी की ठंडक और सिरपर धूप लगा, तब उन्होंने विचार किया कि, सिद्धांत में लिखा है कि एक समय में दो कियाओं का अनुभव जहाँ होता, परंतु यह कथन तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है. बस, इसपर से उन्होंने अपना पृथक्

मत स्थापित किया. Name of the expounder of the agnostic faith called Dvikriyā, (dual actions). While crossing a river he felt the cold of the water on the feet and the heat of the sun on the head. Upon this he thought two simultaneous operations to be possible though the Scriptures laid down the contrary, and he established his new tenets accordingly.

विशेष २४२५;

**अज्जघोस.** पुं० ( आर्यघोष ) पार्श्वनाथस्वामीना भीज गणधर. पार्श्वनाथस्वामी के दूसरे गणधर. The second Gapadhara of Pārśvanātha Svāmī. घा० द, १; कप्प० ६, १५६; द;

**अज्जचंद.** पुं० ( आर्यचन्द्र ) एं नामना एंड मुनि. एक मुनि का नाम. Name of an ascetic. कप्प० ५, १३४;

**अज्जचंदणा.** छाँ० ( आर्यचन्दना ) महावीरस्वामीनी प्रथम साधी; ३६००० साधीमां भुज्य साधी. महावीरस्वामी की प्रथम साधी; ३६००० साधियों में मुख्य साधी. The first female ascetic of Mahāvīra Svāmī; the chief of the 36000 female ascetics. भग० ६, ३३; अन्त० द, १;

**अज्जजंबू.** पुं० ( आर्यजंबू ) सुधर्मा स्वामीना शिष्य.. सुधर्मास्वामी के शिष्य. The disciple of Sudharmā Svāmī. “अज्जसुहम्मं अंतेवासी अज्जजंबू जाव पञ्चुवासति” नाया० १; कप्प० द; नाया० ४०

**अज्जजिक्षणी.** छाँ० ( आर्ययक्षणी ) नेमनाथस्वामीनी प्रथम शिष्या-साधी. नेमनाथ

स्वामी की प्रथम शिष्या-साधी. The first female disciple of Nemanātha Svāmī. कप्प० ६, १६२;

**अज्जजयंत.** पुं० ( आर्यजयन्त ) आर्यवज्रसेनना भीज शिष्य. आर्यवज्रसेन के तीसरे शिष्य. The third disciple of Arya-Vajrasena. कप्प० द;

**अज्जजयंती.** छी० ( आर्यजयन्ती ) आर्य-२८ नामना स्थनिरथी नीकजेल ऐंड शाखा. आर्यरथ नाम के स्थविर से निकली हुई एक शाखा. A branch originating from an old sage named Arya-Ratha. “थेरेहितो णं अज्जरहेहितो णं इत्थणं अज्जजयंती साहा शिगमया” कप्प० द;

**अज्जजसभद.** पुं० ( आर्यशोभद ) आर्य-शय्यम्भना शिष्य. आर्यशय्यम्भव के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Sayyambhava. कप्प० द;

**अज्जजीयधर.** पुं० ( आर्यजीयधर ) ईशिंड जेवना शाण्डिल्यसूरिना शिष्य; अतधर नामना सूरि. कौशिंक गोत्र के शाण्डिल्यसूरि के शिष्य; जीतधर नामक मूरि. Jitadhara, the disciple of Śāṇḍilyasūri, of Kausika Gotra. “वंदे कोसियगुच्छं संडिङ्गं अज्जजीयधरं” नंद०

**अज्जजेहिल.** पुं० ( आर्यजेहिल ) आर्य-नागना शिष्य. आर्यनाग के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Nāga. कप्प० द;

**अज्जण.** न० ( अर्जन ) भेगु करनु; एंडु करनु ते. इकट्ठा करना. Earning; hoarding; accumulating. विशेष २०६३;

**अज्जणंदिल.** पुं० (-आर्यनन्दिल) आर्यभंगुना शिष्य अने आर्यनागदस्तिना गुड़. आर्यमंगु के शिष्य और आर्यनागहम्ना के गुरु. The

disciple of Ārya-Māngu and the preceptor of Ārya-Nāgahasti.  
“नाणम्भि दंसणम्भि य तवविणययिच्चकालमुजुत्तं अञ्जणीदलखमणं सिरसा वंडे य संतमणं ” नंदा०

अञ्जणकर्ता. पु० ( आर्यनक्षत्र ) आर्य-भद्रना शिष्य. आर्यभद्र के शिष्य. Name of the disciple of Ārya-Bhadra. कप्प० ८;

अञ्जणाइत. पु० ( आर्यनगिल ) आर्य-वज्रसेनता प्रथम शिष्य. आर्यवज्रसेन के प्रथम शिष्य. Name of the first disciple of Ārya-Vajrasena. कप्प० ८;

अञ्जणाइता. ल्ल० ( आर्यनगिल ) आर्यनगिल नामना स्थनिरथी नीडेल शाखा. आर्यनगिल नामक स्थविर से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from the sage named Ārya-Nāgila. “ थेराओ अञ्जणाइलाओ अञ्जणाइला साहा णिगया ” कप्प० ८;

अञ्जणाइती. ल्ल० ( आर्यनगिली ) आर्य-वज्रसेनथी नीडेली शाखा. आर्यवज्रसेन से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Ārya-Vajrasena. “ थेरेहितो अञ्जवहरसेणिपुहितो इत्थरणं अञ्जणाइली साहा णिगया ” कप्प० ८;

अञ्जणिता. सं० कृ० अ० ( अर्जयिता ) उपार्जन करके; प्राप्त करके. Having earned.“ एगंतदुक्लं भवमज्जणिता ” सूय० १, २, २, ३५;

अञ्जता. ल्ल० ( आर्यता ) आर्यपुण्; श्रेष्ठता; साधुशृति. आर्यत्व; श्रेष्ठता; साधुशृति.

Nobility; piety. भग० १४, ६; १६, २; अञ्जतावस. पु०(आर्यतापस) आर्यवज्रसेनना चोथा अंतेवासी-शिष्य. आर्यवज्रसेन के

चौथे समीप रहने वाले प्यारे शिष्य. The fourth pet disciple of Ārya-Vajrasena. कप्प० ८;

अञ्जतावसी. ल्ल० ( आर्यतापसी ) आर्य-तापसथी नीडेल शाखा. आर्यतापस से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Ārya-Tāpasa. “ थेराओ अञ्जतावसाओ अञ्जतावसी साहा णिगया ” कप्प० ८;

अञ्जता. त्रि० ( अद्यसत्क ) आधुनिक; आजकलनी. आधुनिक. Modern; belonging to the present time. “ जे हमे अञ्जताए समणा निगंथा विहरंति ” कप्प० ६, ६;

अञ्जथूतभद्र. पु० ( आर्यस्थूलभद्र ) आर्यसंभूतविजयना शिष्य अने भहागिरि तथा सुहस्तिना शुङ. आर्यसंभूतविजय के शिष्य और महागिरि तथा सुहस्ती के गुरु. The disciple of Ārya-Sambhūtavijaya, and the preceptor of Mahāgiri and Suhasti. कप्प० ८;

अञ्जदिगण. पु०(आर्यदत्त)पार्श्वनाथना पहेला गणधर. पाश्वनाथ के पहिले गणधर. The first Gaṇadharma of Pārśvanātha. सम० ( २ ) काश्यपगोनी इन्द्रदत्तना शिष्य. काश्यप गोत्री इन्द्रदत्त के शिष्य. the disciple of Indradatta, of Kāshyapa-Gotra. प्रव० ३०८; कप्प० ८;

अञ्जदय. पु० ( आर्याद्वंक ) भहापीरस्वाभीना शिष्य आर्याद्रकुमार. महावीरस्वामी के शिष्य आर्याद्रकुमार. Ārdrakumāra, the disciple of Mahāvīra Svāmī. सूय० नि० २, ६, १६०;

अञ्जधणगिरि. पु० ( आर्यधनगिरि ) आर्यद्युभितना शिष्य. आर्यफल्गमित्र के शिष्य. Name

of a disciple of Ārya-Falgu-mitra. कप्प० द;

**अर्जजधर्मम्.** पुं० ( आर्यधर्म ) आर्य-भगुना शिष्य अने लक्ष्मणा गुरु. आर्य-मंगु के शिष्य और भद्रगुप्त के गुरु. The disciple of Ārya-Māngu, and the preceptor of Bhadragupta. “ वंदामि अर्जजधर्मं ततो वंदेय भद्रगुते य ” नंदा० कप्प० द;

**अर्जजधर्मम्.** पुं० (आर्यधर्मस्त्र) आर्यहस्तिना शिष्य. आर्यहस्ती के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Hastī. कप्प० द;

**अर्जजनाग.** पुं० (आर्यनाग) आर्यरक्षना शिष्य. आर्यरक्ष के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Rakṣa. कप्प० द;

**अर्जजनागहस्तिथि.** पुं० (आर्यनागहस्तिन्) आर्यनन्दिलक्ष्मणुना शिष्य. आर्यनन्दिलक्ष्मण के शिष्य. The disciple of Ārya-Nandilakṣmaṇa. नंदी० स्थ० ३०;

**अर्जजपउम.** पुं० (आर्यपउ) आर्यवज्जना भीन शिष्य. आर्यवज्ज के दूसरे शिष्य. The second disciple of Ārya-Vajra. कप्प० द;

**अर्जजपउमा. ची०** (आर्यपद्मा) आर्यपद्मथी नीडुयेल शाखा. आर्यपद्म से निकली हुई शाखा. A branch originating from Ārya-Padma. “ धेरेहितो अर्जजपउ-मेस्त्रितो इत्थयं अर्जजपउमा साहा यिग्याया ” कप्प० द;

**अर्जजपूसगिरि.** पुं० (आर्यपुष्पगिरि) आर्य-रथना शिष्य. आर्यरथ के शिष्य. A disciple of Ārya-Ratha. कप्प० द;

**अर्जजपोमिल.** पुं० (आर्यपोमिल) आर्य-वज्जसेनना भीन शिष्य. आर्यवज्जसेन के दूसरे शिष्य. The second disciple of Ārya-Vajrasena. कप्प० द;

**अर्जजपोमिला.** ची० (आर्यपोमिला) आर्यपोमिलथी नीडुयेली शाखा. आर्यपोमिल से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Ārya-Pomila. “ धेराओ अर्जजपोमिलाओ अर्जजपोमिला साहा यिग्याया ” कप्प० द;

**अर्जजप्प्रभव.** पुं० (आर्यप्रभव) काश्यप गोत्र के आर्यजंबुस्वामी के शिष्य. The disciple of Ārya Jambū Svāmī, of the Kāshyapa Gotra. कप्प० द;

**अर्जजफगगुमित्त.** पुं० (आर्यफल्गुमित्र) आर्यपुष्पगिरिना शिष्य अने आर्यनगिरिना गुरु. आर्यपुष्पगिरि के शिष्य और आर्यनगिरि के गुरु. The disciple of Ārya-Pusyagiri, and the preceptor of Ārya-Dhanagiri. कप्प० द;

**अर्जजमह.** पुं० (आर्यमह) आर्यशिवभूति-ना शिष्य. आर्यशिवभूति के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Siva-bhūti. कप्प० द;

**अर्जजमहबाहु.** पुं० (आर्यभद्रबाहु) आर्य-यशोभद्रना शिष्य. आर्ययशोभद्र के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Yasobhadra. कप्प० द;

**अर्जजम.** पुं० (आर्यमन्) अर्यमा; पूर्वाफल्गुणी नक्षत्रने देवता. अर्यमा; पूर्वाफल्गुणी नक्षत्र का देवता. Aryamā; the god of Pūrvā-fālguni. ज०प० ७, १५७; १७१; ठा० २, ३; ( २ ) उत्तराशाल्युणी नक्षत्रने स्वाभी-देवता.

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी—देव. the presiding deity of the Uttarāfālgunī constellation. सू. प० १०; अणुजो. १३१;

**अज्जमंगु.** पुं० ( आर्यमङ्गु ) आर्यसमुद्रना शिष्य. आर्यसमुद्र के शिष्य. The disciple of Arya-Samudra. नंदी० स्थ० २८;

**अज्जमण्णग.** पुं० ( आर्यमण्णक ) शिष्यभवस्त्रिना शिष्य अने पुत्र. शाय्यम्भवसुरि के शिष्य और पुत्र. The disciple and son of Sayyambhavasūri. छहिं. मासेहिं अहिंश्च अज्जमण्णमिण्यं तु अज्जमण्णगेण्यं ” कप्प० ८;

**अज्जमहागिरि.** पुं० ( आर्यमहागिरि ) आर्यस्थूलभद्रना शिष्य, के ने जिनकृपीभाइक उच्च विद्वारी हुता. ऐमण्डु आर्यसुहस्तीथि आहारपाणी जुहुं करी जुहो गच्छ चलाव्ये; त्यारथीगच्छनी भिन्नता थध. आर्यस्थूलभद्र के शिष्य, जो जिन कल्पी के समान उप्र विहारी थे. इन्होंने आर्यसुहस्ती से आहारपाणी पृथक् कर पृथक् गच्छ चलाया था, तभी से गच्छ की भिन्नता हुई. The disciple of Arya-Sthūlabhadra; he after the manner of a Jinakalpi, used to walk very far. He founded a separate sect, severing his connection with Arya-Suhasti, which made the beginning of sectarian difference. कप्प० ८;

**अज्जय.** पुं० ( आर्जक ) ए नाभनी लीली वनस्पति; तुलसीनुं जाठ. इस नाम की हरी बनस्पति; तुलसी का भाङ. The holy basil; ocytum sanctum. पञ्च० १;

**अज्जरक्ष.** पुं० ( आर्यरक्ष ) आर्यनक्षत्रना

शिष्य. आर्यनक्षत्र के शिष्य. The disciple of Arya-Nakṣatra. ” थेरस्स यं अज्जयक्षतस्स कासवगुरुस्स अज्जरक्षे थेरे अंतेवासी कासवगोते ” कप्प० ८;

**अज्जरक्षिक्षय.** पुं० ( आर्यरक्षित ) तोसलिपुत्र आर्यना शिष्य, के नेष्टे वज्रस्वामी पासे नव पूर्वं करतां कंधक अधिक अक्ष्यास कर्ते। हुतो. तोसलिपुत्र आचार्य के शिष्य, जिन्होंने वज्रस्वामी के पास से नौ पूर्वों से भी कुछ अधिक अक्ष्यास किया था. The disciple of the preceptor Tosaliputra, who had studied more than nine Pūrvas under Vajra-Svāmī. “ वंदामि अज्जरक्षितं खमये रक्षित्यन्वरितं सव्वगे ” नंदी० १;

**अज्जरह.** पुं० ( आर्यरथ ) आर्यवज्र-स्वामीना त्रीणि शिष्य. आर्यवज्रस्वामी के तीसरे शिष्य. The third disciple of Arya-Vajra Svāmī. कप्प० ८;

**अज्जरोहण.** पुं० ( आर्यरोहण ) आर्यसुहस्तिना शिष्य. आर्यसुहस्ती के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Suhasti. कप्प० ८;

**अज्जल.** पुं० ( अजल ) देशविशेष; पाण्डुनी तंगीवाणो। देश. देशविशेष; पानी की जहाँ कमी है वह देश. Name of a country; a country where there is dearth of water. ( २ ) त्रि० ए देशमां रहेनार मनुष्य. उक्त देश में रहने वाला मनुष्य. people residing in the above country. पञ्च० १;

**अज्जब.** न० ( आर्जब-क्षजोः-रागदेषवस्त्रवर्जि-तस्य सामायिकवतः कर्म भावो वा आर्जबम्) सरक्षता; भावा क्षेपने अभाव. सरक्षता; माया कपट का अभाव. Straightfor-

wardness; frankness; absence of fraud. प्रव० २६१; उत्त० २६, २; सम० १०; ठा० ४, १; परह० २, १; नाया० १; १०; जं० प० २, ३१; भग० २५, ७; सु० च० २, ४६; ओव० १६; २०; राय० २१५; (२) दृश्य श्रभणुधर्मानो त्रीने धर्म. श्रमण के दस धर्मों में से तीसरा धर्म. the third of the ten essential virtues of an ascetic. ठा० २, १; (३) ३१ योग संप्रदानानो १० भे। योग संप्रदा० ३१ योग संप्रदानों से १० वाँ योग संप्रदा० the tenth of the thirty-one Yoga-saṅgrahas. सम० ३१; (४) संवर. संवर. checking the inflow of Karma. ठा० ५, १:—द्वारा० न० (-स्थान) संवरनु स्थान; साधु, शोभन, आर्जव आदि संवरना. पांच भेद. संवर का स्थान; साधु, शोभन, आर्जव आदि संवर के पांच भेद. the five varieties of straightforwardness e. g. softness etc. which check the inflow of Karma. "पंच अज्जवट्टाणा परणाता, तंजहा-साहुअज्जवं साहुमहवं साहु-ज्ञाधवं साहुखंती साहुमोक्ती" ठा० ५, १; —प्पहाण. त्रि० (-प्रधान) सरक्ता मुख्य छे जेभा० ऐनुं. सरलता जिसमें मुख्य है ऐसा. that in which honesty is prominent. ओव०—भाव. न० (-भाव) सरक्त गृहि॒; कृपटनो अभाव; सरक्त स्वभाव. सरल गृहि॒; कपट का अभाव; सरल स्वभाव. straightforwardness; frankness. "मायमज्जवभावेण ज्ञोभं संतोसओ जियै" दस० ८, ३६;

अज्जवाहर. पु० ( आर्यवज्र ) आर्यसिंहगिरिना शिष्य. आर्यसिंहगिरि के शिष्य. The disciple of Arya-Simhagiri. कप्प० ८;

अज्जवाहरसेण. पु० ( आर्यवज्रसेन ) आर्यवज्रना शिष्य. आर्यवज्र के शिष्य. The disciple of Arya-Vajra. कप्प० ८; अज्जवाहरी. ली० ( आर्यवज्री ) आर्यवज्री नीकलेख शाखा. आर्यवज्र से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Arya-Vajra. "थेरेहिंतो णं अज्जवाहरहिंतो णं गोयमसगोत्तेहिंतो इत्यग्णं अज्जवाहरी साहा शिगमाया" कप्प० ८; अज्जवया. ली० (\*आर्जवता-आर्जव) सरक्तता; भावा, कृपट तथा दंभनो त्याग; दृश्य श्रभणानो त्रीने धर्म. सरलता; माया, कपट तथा दंभ का त्याग; श्रमण के दस धर्मों में से तीसरा धर्म. Straightforwardness; absence of deceit and hypocrisy; the third of the ten essential virtues of a saint. "अज्जवया ए णं भेते ! जीवे किं जगयह ? अज्जवया ए णं काउज्जुययं भासुज्जुययं भावुज्जुययं" उत्त० २६, ४२;

अज्जवि. अ० ( आवापि ) आजू मुखी॒; आजू पर्यंत. आज तक; आज पर्यंत. Up to this day. सु० च० १, १;

अज्जविएहु. पु० ( आर्यविष्णु ) आर्यविष्णुना शिष्य. आर्यविष्णु के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Jehila. कप्प० ८;

अज्जविय. न० ( आर्जव ) भावा-कृपितानो त्याग कृपेवो ते; सरक्तता. माया-कृपिताना का त्याग करना; सरलता. Straightforwardness; honesty. सूर्य० २, १, ५७; आया० १, ६, ५, १६४; सु० च० १, १;

अज्जवुद्ध. पु० ( आर्यवृद्ध ) आर्यसेन-लिङ् अने आर्यबद्ध ए ऐना शिष्य. आर्यसम्प्रतिक और आर्यभद्र. इन दोनों के शिष्य. Name of a disciple of Arya-

Sampalika and Ārya-Bhadra.

कप्प० द;

अर्जजवेदय. न० ( आर्यवेटक ) श्रीगुप्ततथी नीकोंश वारणगुप्तनुं ७८८ कुल. श्रीगुप्त से निकला हुआ चारणगण का छठा कुल. The sixth family of the Chārapāṇa-gaṇa, originating from Śrigupta.

कप्प० द;

अर्जसंघपालक. पुं० ( आर्यसंघपालक ) आर्यवृद्धना शिष्य. आर्यवृद्ध के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Vṛiddha. कप्प० द;

अर्जसंडिल. पुं० ( आर्यशारिदल्य ) आर्यधर्मना शिष्य. आर्यधर्म के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Dharma. कप्प० द;

अर्जसंतिसेणिअ. पुं० ( आर्यशान्तिसेनक ) आर्यदिनना शिष्य. आर्यदिन के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Dinna. कप्प० द;

अर्जसंपत्तिय. पुं० ( आर्यसम्पत्तिक ) आर्य-कालकना शिष्य. आर्यकालक के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Kālaka. कप्प० द;

अर्जसंभूयविजय. पुं० ( आर्यसम्भूतविजय ) आर्ययशोभना शिष्य. आर्ययशोभन के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Yasobhadra. कप्प० द;

अर्जसमिय. पुं० ( आर्यसमित ) आर्य-वज्रस्वामीना भाभा अने आर्यसिंहगिरिना शिष्य. आर्यवज्रस्वामी के मामा और आर्यसिंहगिरि के शिष्य. The maternal uncle of Ārya-Vajra-Svāmī and the disciple of Simhagiri. कप्प० द;

अर्जसमुद्र. पुं० ( आर्यसमुद्र ) शारिष्ठय स्वामीना शिष्य उद्धि आर्य, ऐतुं ऋधा-

पथ क्षीण थवार्थी अपराह्न भरणु थयुं ६५. शांडिल्यस्वामी के शिष्य उदधिआचार्य, जिनका जंघाबल क्षीण होने से अपराकम मरण हुआ था. The disciple of Śāṇḍilya Svāmī,named Udadhi-Achārya, who died without doing notable deeds on account of a disease enfeebling the thighs. आया० नि० १, ८, ३, २६६; नंदा० स्थ० २७;

अर्जसाम. पुं० ( आर्यस्याम ) ऐतुं खीलुं नाम कालकाचार्य ६५ ते श्यामाचार्य. श्यामाचार्य, जिनका दूसरा नाम कालकाचार्य था. Śyāmāchārya, whose other name was Kālakāchārya. कप्प० द;

अर्जसिंह. पुं० ( आर्यसिंह ) आर्यधर्मना. शिष्य. आर्यधर्म के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Dharma. कप्प० द;

अर्जसिंजंभव. पुं० ( आर्यशर्यमभव ) आर्यप्रबन्धना शिष्य. आर्यप्रबन्ध के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Prabhava. कप्प० द;

अर्जसिवभूइ. पुं० ( आर्यशिवभूति ) आर्यधनगिरिना शिष्य. आर्यधनगिरि के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Dhanagiri. कप्प० द;

अर्जसिहगिरि. पुं० ( आर्यसिहगिरि ) आर्य-हिनना शिष्य. आर्यदिन के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Dinna. कप्प० द;

अर्जसुप्र. अ० ( अद्यतः ) आजकल; आज-डे का. आजकल; आज या कल. Now-a-days; today or tomorrow. सूय० १, २, ३, ६;

**अज्जसुहाति.** पुं० ( आर्यसुहस्तिन् ) आर्य-  
स्थूलभद्रना स्थविर शिष्य. आर्यस्थूल-  
भद्र के स्थविर शिष्य. The old disciple  
of Arya-Sthūlabhadra. कप्प० ८;  
**अज्जसुहम्.** पुं० ( आर्यसुहमन् ) भद्रावीरस्वा-  
मिना पांचमाशुषुधर, के जेने। ७८न्म कुलाग  
सन्निवेशमां धमिक्ष आलशुनी र्ही भद्रिवा-  
थी थयो हुतो, ५० वरसनी उभ्मरे भद्रावीर  
स्वामिं पासे प्रवर्ज्या लीथा, त्रीस वरस भद्रावी-  
रस्वामीनी सेवा करी. वीरनिर्वाणु पठी १२  
वर्षे ६२ वरसनी उभ्मरे डेवलग्रान उपन्युं;  
आठ वरस डेवल प्रवर्ज्या पाणी, एक सो  
वरसनुं आयुष्य भोगयी पेताना। शिष्य  
जन्म्यने पाटे ऐसाही निर्वाणु पह पाम्या।  
महावीरस्वामी के पांचवें गणधर, जिनका जन्म  
कुलाग सन्निवेश में धर्मस्त्र ब्राह्मण की छी  
भद्रिला से हुआ था, इन्होने ५० वर्ष की  
अवस्था में महावीरस्वामी से दीक्षा ली और  
तीस वर्ष तक महावीरस्वामी की सेवा की,  
फिर वीरनिर्वाण के १२ वर्ष बाद ६२ वर्ष की  
अवस्था में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, आठ  
वर्ष तक केवल प्रवर्ज्या पालन कर १०० वर्ष  
की अवस्था में अपने शिष्य जम्बू को अपने  
पाटपर बिठला कर निर्वाण प्राप्त किया। The  
fifth Gaṇadhara of Mahāvīra.  
He was born of Bhaddilā, the  
wife of a Brāhmaṇa, named  
Dhamilla, in the village of  
Kullāga. He took orders as a  
disciple of Mahāvīra, at the age  
of 50 years, and served Mahā-  
vīra Svāmī for 30 years. He  
attained full knowledge at the  
age of 92 years, 12 years  
after Mahāvīra Nirvāṇa. He  
observed asceticism the

for 8 years and secured absolu-  
tion at the age of hundred  
years after installing his disci-  
ple Jambū as successor. कप्प० ८;  
नाया० ध० सम० १००; विवा० १;

**अज्जसेशिय.** पुं० ( आर्यश्रेणिक ) आर्यशान्ति-  
श्रेणिकना धीन शिष्य. आर्यशान्तिश्रेणिक  
के दूसरे शिष्य। The second disciple  
of Arya-Sāntisrēṇikā. कप्प० ८;  
**अज्जसेशिया.** ली० ( आर्यश्रेणिक ) आर्यश्रेणि-  
क्षी नीडेकी शाखा। आर्यश्रेणिक से निकली  
हुई शाखा। A branch deriving its  
origin from Arya-Srēṇikā. “ऐरे-  
हिंतो यं अज्जसेशियहिंतो हृथयं अज्ज-  
सेशिया साहा यिगमया” कप्प० ८;

**अज्जहति.** पुं० ( आर्यहस्तिन् ) आर्य-  
संधपालकना शिष्य। आर्यसंधपालक के शिष्य。  
Name of a disciple of Arya-  
Saṅghapālaka. कप्प० ८;

**अज्ञा.** ली० ( आर्य ) शान्तदेवी; अंधा; दुर्गा.  
शान्तदेवी; अम्बा; दुर्गा। The goddess  
Durgā. नाया० ८; अणुजो० २०; ( २ )  
आर्य; साध्वी; भद्रासती। आर्या; साध्वी;  
महासती। a chaste woman; a  
female ascetic; a nun. प्रब-  
३४१; गच्छा० ६६; नाया० १६; भग० ६,  
३३; अंत० ८, १; संथा० ५६; ओघ० नि-  
६७१; निर० ३, ४; नाया० ध० १०; ( ३ )  
आर्या छंद-गाथा भनाववा अने पिछानवानी  
कुण्डा; ६४ कुण्डामानी २१ भी कुण्डा। आर्या  
छंद बनाने और पहिचानने की कला; ६४  
कलाओं में से २१ वी कला। the art of  
composing poetry in the me-  
tre called Aryā. ओव० ४०; ( ४ )  
आर्या नामे भाना छंद; प्राकृतमां जेने आथा  
क्षेवामां आपे छे ते। आर्या नामक मात्रा  
छंद; प्राकृत में जिसे गाथा कहते हैं वह छंद।

metre Āryā which is called Gāthā in Prākṛita. जं० प० २; ( ५ ) पेंद्रभा तीर्थकर्णी प्रथम साधीनु नाम. १५ में तीर्थकर को पहिली साध्वी का नाम. name of the first female ascetic follower of the 15th Tirthankara. प्रव० ३१०;—अणुचर. पुं० (—अनुचर) आरम्भनी पाठ्य चालनार ( साधु ). आर्यों के पीछे चलने वाला ( साधु ). an ascetic who walks behind a nun. “ अञ्जाणुचरो माहू, लहड़ अकिञ्चि खु अचिरेण ” गच्छा० ६३;—कप्प. पुं० (—कल्प-आर्याणामेव साध्वीनामेव कल्पत हृत्य-र्योकल्पः ) आर्याणे लापेत आदार. आर्या द्वारा लाया हुआ आहार. food brought by a female ascetic. गच्छा० ६१;—लङ्घ. त्रिं० (—लङ्घ ) आरम्भे मेंग-वेत्त. आर्यों का प्राप्त किया हुआ. obtained or acquired by a nun. गच्छा० ६०;—संसर्गी. ऋ० ( \*—संसर्गी—संसर्ग ) साधीनी। परियथ; साधीनी। सहवास—संसर्ग. साध्वी का परिचय; साध्वी का सहवास. contact with a female ascetic. “ अञ्जासंसर्गश्रिगिविससरिसी ” गच्छा० ६३;—सरिस. त्रिं० (—सरिश ) आरम्भा वेत्तु. आर्यों के समान. like or resembling a nun. “ अञ्जासरिसा हु बंधये उवमा ” गच्छा० ७०;

अञ्जावय. पुं० ( अध्यापक ) भिष्यनार; उपाध्याय. पढ़ाने वाला; उपाध्याय. A teacher; a preceptor. प्रव० ७६४; अञ्जावेयत्व. त्रिं० ( आज्ञाप्रयितत्व ) हुक्म करने; द्याय. हुक्म ते. आज्ञा करना; दबाव डालना. Act of ordering or commanding. “ न हस्तवा न अजा-

वेयवा न परिधितवा ” आया० १, ५, १, १२६; ( २ ) आज्ञा करना योग्य. आज्ञा करने योग्य. fit to be ordered. सूर्य० २, १, ४८;

अञ्जिश्च. त्रिं० ( अर्जित ) भेत्तेवेत्तु; अेकदृष्टु करेत्तु. प्राप्त किया हुआ. Earned; accumulated. “ धर्माजित्य च बबहार, हुदे-हायरियं सत्या ” उत्त० १, ४२; १८, १६; जं० प० ३, ६७; विशेष० २०५२; २०६४;

अञ्जिश्चाया-या. ऋ० ( आर्थिका ) दादी; भाई वा पनी भाना. दादी; नानी; मा या पिता की माता. Grand-mother; father's or mother's mother. दस० ७, १५; राय० २४६; ( २ ) आया-आरम्भ; साधी; महासती. आर्या; साध्वी; महासती. a female ascetic; a Jaina nun. गच्छा० १११; नाया० ४; ८; १६; भग० १, १; जं० प० २, ३१; नाया० ८०—संपदा. ऋ० (—संपद्) अरम्भ-साधीस्त्रप संपदा. साध्वीरूप संपदा. the life of a nun regarded as wealth. कप्प० ७, २१४;—साहस्री. ऋ० (—सहस्री) ६७२ आरम्भये. हजार आर्याये. a thousand nuns. कप्प० ७, २१४; नाया० ५; ८;

अञ्जुण. पुं० ( अर्जुन ) अहुभीजवाणु अेक ज्ञत-नु दृक्ष; कडायातुं अऽ; आ आडनी छाल सेफ्टे हॉप छे, तेमांधी हुध नीक्को छे, अे अऽना पांडां अण्हीदार, लांधां अने गोण हेय छे. बहुबीजक वृक्षविशेष; इस झाड़ की छाल सफेद होती है, उसमें से दूब निकलता है और उसके पसे अनीदार, लंबे और गोल होते हैं. A kind of tree with white bark and pointed long and oval leaves; terminalia alata 'glabra. ऋ० व० १; परह० १, ४; नाया० ६; राय० ६; भग० २१, ६;

२२, ६; ( २ ) तृष्ण-भृतिशेष. एक विशेष जाति की धांस. a kind of grass.  
“ अज्जुण्यगुद्धं व तस्स जाणुदं ” उत्ता० २, ६४;  
पञ्च० १; भग० २१, ६; जीवा० ३, ४; ( ३ ) सफेद रंग. सफेद रंग. white colour. पञ्च० ३; ( ४ ) सफेद सुवर्ष्ण-सेतु. सफेद सोना. whitish gold. पञ्च० २; ( ५ ) गौतमपुत्र अर्जुन, के जेने। शरीरभान् गोशाला-मेरे छट्टीवार परावर्तं परिहार कर्या छे अभ ने कहेतो इतो। गौतम का पुत्र अर्जुन, जिसके शरीर में गोशाला ने छठी बार परावर्तं परिहार (प्रवेश) किया है, ऐसा वह कहता था। Arjuna, the son of Gautama in whose body Gosālā had entered for the sixth time ( as he said ). “ अज्जुण्यस्स गोयमपुत्रस्स सरीरं विष्पज्जहामि ” भग० १५, १; ( ७ ) पाँडु राजनों नीजे पुत्र; अर्जुन. Arjuna, the third son of king Pāṇḍu. नाया० १६; सु० च० १५, ८८; विवा० ८;  
—सुखएण. न० (-सुवर्ण) सफेद-थेतकं-थन-सेतु. सफेद सोना. whitish gold.  
ओव० —सुखश्चगमय. त्रि० (-सुवर्णकमय)  
सफेद सुवर्ष्णभय. सफेद सुवर्णमय. full of whitish gold. उत्त० ३६, ५६;

अज्जुण्यम्. पु० ( अर्जुनक ) राज्यगृहनिवासी एक भाली, के जे भुद्गरपाणि नामना यक्षनी भद्रधी छ पुरुष अने एक स्त्री अभ उ भाषुसोना भुन करतो हुतो, एक प्रसंगे भग्नावीरस्वाभीनो। समागम थतां ते खेधपान्धे। दीक्षा लर्ज छना पारथा करवानी प्रतिशा लीधी अने समताभावनुं सेवन करी छ भहिनाभां सर्वे कर्म अपावी सिद्धपद तेषु भेण्यव्युं। राजगृह निवासी एक माली, जो कि, मुद्ररपाणि नामक यस्त्र की सहायता से उ मनुष्यो (ज्ञ: पुरुष और एक स्त्री) का छून करता था। एक समय

महावीरस्वामी का समागम होने पर उसे बोध हुआ, और दीक्षा लेकर छठ का पारणा करने की प्रतिशा ली और समताभाव का सेवन कर छः मास में समस्त कर्मों का क्षय कर सिद्धपद प्राप्त किया। A gardener of Rājagṛīha, who used to murder seven men ( six males and one female ) every day with the aid of a Yakṣa, named Mudgarapāhi. Once he met Mahāvīra Svāmī, from whom he obtained knowledge. From that very moment he became a true penitent, took orders, observed fasts for every two days out of three, secured equanimity, practised severe austerities, and thus having destroyed all his Karmas in six months attained to salvation. अंत० ६, ३;

अज्जेव. अ० ( अर्द्धव ) आज्जे; आज्जेज. आज; आजही। Even to-day. “ अज्जेव धम्मं पितॄजज्यामो, जहि पवक्ता न पुश्यन्भवामो ” उत्त० १४, २८; भग० २, १; कप्य० ६, २४;

अज्जो. पु० ( हे आर्य ) संभेद्धन; आभंत्रण। सम्बोधन; आमंत्रण। A form of addressing a revered person “ अज्जोति समये भगवं महावीरे गोयमाहसमये गिग्नाये आमंतित्ता ” ठा० ३, २; “ अज्जो ! सामाह्यं जायामो ” भग० १, ६; “ एत्यर्थं अज्जो कर्यह वासुदेवे ” ( अज्जोति आमंत्रणवचनम् ) ठा० ६;

अज्जोग. त्रि० ( अयोग्य ) अतुचित; अज्जेग। अनुचित; अयोग्य. Unworthy; improper. पंचा० १३, २८;

आजमहिंश. न० (\*आध्यात्मस्थित-आध्यवसित)

अध्यत्मसाय; परिणाम. अध्यवसाय; परिणाम.

Mental state; thoughts. विवा० १;

दसा० १०, ३;

आजमहत्त. न० ( आध्यात्म ) मन; चित्. मन;

चित्. Mind; conscience. सूय० १, २,

२, १२;

आजमहत्थ. त्रि० ( आध्यात्मस्थ-आध्यात्ममं मनस्त-

स्मिन् तिष्ठतीर्यध्यात्मस्थम् ) मनमां उत्पन्न

थथेक सुख, दुःख, भिद्यात्व वगैरह. Born in the

mind e. g. conceptions of happiness, misery etc. “ आजमहत्थे उं शियथस्स बंधो, संसारहेउं च वयंति बंधं ”

( आध्यात्मशब्देनेहात्मस्था मिथ्यात्वादय

दृष्ट्यन्ते ) उत्त० १४, १६; प्रव० ६०३;

आजमहत्थ. न० ( \* आध्यात्मस्थ आध्यात्म-आधि

आत्मनि वस्तत इत्यध्यात्मम् ) अतःकरण; चित्. अन्तःकरण; चित्. Conscience; mind. पञ्च० ११; सूय० १, ४, २, २२;

( २ ) आत्मभ्यान; आत्मजावना. आत्म-

ध्यान; आत्म भावना. contemplation of the soul. सूय० १, ५, १६; ओव०

४; ( ३ ) (आत्मानमधिकृत्य यद्वर्तते तदध्या-

त्मम् ) सुख दुःख आहिंश आंतरिक भाव. सुख दुःखादि आन्तरिक भाव. internal emotions e. g. of happiness, misery etc. “ जे आजमहत्थं जाणाह से बहिया जाणाह जे बहिया जाणाह से आजमहत्थं जाणाह ” आया०

१, १, ७, २६; “ आजमहत्थं सञ्चओ सञ्च दिस्स पाण्ये पियायए ” उत्त० ६, ७; ओघ०

निं० ७४५; पि० नि० ६७१; —जमाण-

जुत्त. त्रि० ( -ध्यानयुक्त-आध्यात्मना शुभ

मनसा ध्यानं यत्तेन युक्तो यः स तथा )

प्रशस्त ध्यानयुक्त. प्रशस्त ध्यानसहित.

engaged in deep religious

meditation. परह० २, ५;—वृद्ध.

पुं० ( -वृद्ध ) कृपाय के आर्तध्यानादि

निभितथी लागतो कुर्मभै; आठमुं क्षिया

स्थानक. कषाय अथवा आर्तध्यानादिनिभित

से लगने वाला एक कर्मबन्ध; आठवाँ किया

स्थानक. Karmic bondage incurred by anger etc; the eighth Kriya

Sthānaka. परह० २, ५;—दोस. पुं०

( -दोष ) अंदरना दोष-कृपाय; दोष, मान,

भाया अने दोष. अन्तरङ्ग दोष-कषाय; कोष,

मान, माया और लोभ. inward evil

passions such as anger, pride, deceit and greed. “ कोहं च मायं

च तहेव मायं, लोभं चउत्थं आजमहत्थदोसा ”

सूय० १, ६, २६;—वसिञ्च. पुं०( -शृणिक )

अध्यात्म-आत्माने आश्री उत्पन्न थथेक

हृपादि कृपाय अथवा आर्तध्यानादिनिभिते

लागती क्षिया-कुर्मभै; क्षियानां तेर स्थानक-

मानुं आठमुं रथानक. आध्यात्म-आत्मा को

आश्रयकर उत्पन्न कोधादि कषाय अथवा आर्त-

ध्यानादि के निभित से जो कर्मबन्ध हो वह;

किया के तेरह स्थानकों में से आठवाँ

स्थानक. Karma incurred by thinking

of pain, anger etc. which have the soul for their substratum; the eighth of the 13

ways of incurring sin. सूय० २,

२, १६;—वयण. न० ( -वचन-आत्मान-

मधिकृत्य प्रवर्त्तते यत् तदध्यात्मवचनम् )

अध्यात्म पवयन; पवयना सोण प्रकारभाने।

सातभे प्रकार. आध्यात्म वचन; वचन के सोलह

भेदों में से ७ वाँ भेद. philosophy

dealing with the soul; the seventh of the sixteen kinds of

speech. आया० २, ४, १, १६२;

—विशुद्ध. त्रि० ( -विशुद्ध ) शुद्ध अंतः-

क्षेत्रवाणे। शुद्ध अन्तःकरण वाला. of clear conscience; of pure heart.  
“ तम्हा अजमत्थविसुद्दे सुविमुक्ते ” सूय० १, ४, २, २२;—विसोहिजुत्त. त्रि० ( -विशोधियुक्त ) विशुद्ध-पवित्र भाववाणे; आंतरिक शुद्धिवाणे।.. विशुद्ध-पवित्र भाव वाला; आन्तरिक शुद्धि वाला. pure at heart; clear in conscience. “ जा जगमाणस्स भवे, विराहणा सुत्तविहि-समग्रस्स । सा होइ यिजरफला अजमत्थ विसोहिजुत्तस्स ” ओष०—सुइ. छी० (-श्रुति) चित्तनिरोधना उपाये। यतावनार शास्त्र; अध्यात्मशास्त्र. चित्तनिरोध के उपाय बतलाने वाला शास्त्र; अध्यात्मशास्त्र. Sāstra dealing with the means of restraining the mind; a spiritual Sāstra. परह० २, १;

**आजमतिथ्य.** त्रि० (ःअध्यात्मस्थित-आध्यात्मिक) आत्मसंबंधी; आंतरिक; आत्माभित. आत्मसम्बन्धी; आन्तरिक; आत्माभित. Relating to the mind; internal. अंत० ३, ८; ( २ ) आत्मिक भाव; अध्यवसाय विशेष; संकल्प; मानसिक तरंग. आत्मिक भाव; अध्यवसाय विशेष; संकल्प; मानसिक तरंग. Thought activity. भग० २, १; ३, १; २; ६, ३३; १५, १; नाया० १; ५; ८; १२; १३; १४; ११; आया० २, १३, १४२; जीवा० ३, ४; सूय० २, २, १६; राय० २४; कप्प० ४, ८६; ( ३ ) अध्यात्म-मानसिक शैक्ष; आर्त्थ्यानवोरे क्षेत्राथी लागती क्षिया-कर्मभन्ध; क्षियाना तेर स्थानकभाँतुं आडुं मूँ स्थानक. अध्यात्म-मानसिक शोक; आर्त्थ्यान वगैरह करने से जो कर्मबन्ध हो वह; क्रिया के तेरह स्थानकों में से आठवाँ स्थानक. Karma incurred by sorrow etc.; the eighth of the 13 sources of Kriyā. शम० १३;

**आजमतिथ्या.** छी० ( \*अध्यात्मस्थिता-आध्या-त्मिकी) कंध पछु कारण विना भनमां भगतरा क्यों करवी ते; आडुं क्षियास्थानक. अकारण चित्त में जलना; द वाँ कियास्थानक. The 8th source of incurring Karma viz. worry without any ground. प्रव० ८३४;

**आजमत्थ.** न० ( अध्यात्म ) जुओ। “ अजमत्थ ” शम०. देखो शब्द ‘ अजमत्थ ’. Vide “ अजमत्थ ”. परह० २, ३; सूय० १, ८, १६; विश० ६६०;—जोग. पु० ( -योग ) अध्यात्मयोग; धर्मयोग. अध्यात्म योग; धर्मयोग. spirituality; religious meditation. सूय० १, १६, १; —रथ. त्रि० ( -रथ ) प्रशस्तरथ्यानभन; आत्मध्यानमां तत्पर थथेल. प्रशस्त ध्यान में मग्न; आत्मध्यान में तत्पर. engaged in or absorbed in spiritual meditation. दस० १०, १, १५; —संबुद्ध. त्रि० ( -संबृत ) अध्यात्मशास्त्र-ना उपयोगमां भन लगाउवाणे। अध्यात्म शास्त्र के उपयोग में मन लगाने वाला. one absorbed in thinking upon putting into practice spiritual matters learnt from scriptures. “ वहगुते अजमत्थसंबुद्धे ” आया० १, ८, ४, १५६; **आजमयण.** न० ( अध्ययन ) शास्त्रनुं प्रेक्षयु; सूत्रनो ऐटा विभाग. शास्त्र का प्रकरण; सूत्र का अवान्तर विभाग. A chapter of a scripture. क० गं० १, ६०; कप्प० ४, १४६; अणुजो० ६; २८; शोष० नि० भा० १०६; नाया० १६; विवा० १; ( २ ) भजुतुं; अध्यास ५२वो ते. पढना; अध्यास करना. study. वब० १०, २०; पिं० नि० ६६०; दस० ४; ( ३ ) ( अधीयते शायन्ते एसिरित्यध्ययनानि नामानि ) नाम;

अर्थवाचक शब्द। संज्ञा; अर्थवाचक शब्द. ए  
word expressing a sense. “ता कहं  
देवतायां अज्ञातयां आहितातिवएज्जा” स०  
प० १; नाया० १; दसा० १०, ११; निर० १, २;  
नाया० ध० २; भग० ८, ७; विशे० ६६०; अणु-  
जो० १४६; -छुककवग्न. पुं० (-चटक-  
वर्ग) ७ अध्ययनना समुदायरूप आवश्यक  
सूत्र. छः अध्ययनों का समुदायरूप आवश्यक-  
सूत्र. *Avaśyaka Sūtra* formed of  
six chapters. अणुजो० २८;

✓ अजभयाव. धा० I. ( अविं+इण्ठ+ग्य० )  
अथुवतुः अभ्यास करावते। पढ़ाना; अभ्यास  
कराना To teach

अञ्जनाविंति, विशेष ३१६४:

आजभवसारण. न० ( अध्यवसान ) अंतःक्रेषु-  
 नी वृत्ति; भनना परिणाम; संकल्प. अन्तः-  
 करण की वृत्ति; मन का परिणामसंकल्प.  
**Thought-activity.** सूय० २, २, ८०;  
 अग्नुजो० २७; भग० ६, ३१; ११, ११; २४,  
 १; १३; ३१, १; नाया० १; द; उत्त०  
 १६, ७; ओव० ४१; विशेष० १६६; २०४१;  
 पन्न० ३४; क० ८० १, ४१; ( २ )  
 देश्या-परिणामनी कंधक २५४पछे प्रनृति.  
 लेश्या-परिणाम की कुछ स्पष्टरीति से प्रवृत्ति.  
**thought-activity.** अंत० ३, द;—आ-  
 वरणिज्ज. न० (-आवरणीय) अध्यवसान-  
 भावचारित्रने अटकावनार एक कर्मप्रकृति;  
 आरित्रभोहनीयनी प्रकृतिविशेष. भावचारित्र  
 को रोकने वाली एक कर्मप्रकृति; चारित्र  
 मोहनीय की प्रकृतिविशेष. impure  
**thought-activity** obstructing inward right conduct. भग० ६, ३१;  
 —शिवत्तिय. त्रि० (-निर्वृति) अध्य-  
 वसायथी उत्पन्न थथेत्. अध्यवसाय से उत्पन्न  
 resulting from thought-activity.

“ अजमवसायायिवस्तिष्ठं करणोवापृष्ठं ”  
 भग० २५, ८;  
 अजमवसाय. पुं० (अध्यवसाय) मना सङ्क्रम  
 परिणाम; संकल्प; बन्धेतुभूत आत्मानी  
 परिणितिविशेष. मन का सूक्ष्म परिणाम;  
 संकल्प; बंधेतुभूत आत्मा की परिणति  
 विशेष. Thought-activity causing  
 bondage to the soul. शु० च० १५,  
 ६७; क० ग० ५, ५५; नंदी० १२;  
 अजमवसित्र-य. न० (अध्यवसित) अभ्य-  
 वसाय; मनोभावविशेष. अध्यवसाय; मनोभाव  
 विशेष. Thought-activity e. g. love,  
 hatred etc. अणुजो० २७; पंचा० ५,  
 १६;

**आजमहिय.** न० (आत्महित) आत्महित-  
अद्वृत्; स्वधित. आत्महित; स्वहित. One's  
own welfare; one's own good;  
spiritual welfare. परह० २, १;

**अजभाइयव्व.** त्रिं० ( अध्येतव्य ) भाषुवुं;  
अ॒ध्ययन् करुं. पढ़ना; अध्ययन करना.  
**Study.** ( २ ) अ॒ध्ययन करने-भाषुवाने  
योग्य. अध्ययन करने-पढ़ने के योग्य.  
**worthy of study.** दस० ६. ४. ३:

आजमारोह. पुं० ( अध्यारोह-उपर्युपर्यधा-  
रोहन्तीति अध्यारोहाः ) भीज आ॒ उप॒र  
उगती कामवृक्ष नामनी लीली वनस्पति. दूसरे  
भाङ पर उगने वाली कामवृक्ष नाम की एक  
हरी वनस्पति. A kind of green  
vegetation called Kāmavṛikṣa  
growing on another tree. सूत्र०

✓ अज्ञाव. धा० II. ( अधि+इ+णि० )  
 ज्ञानविदुं; अध्ययन करावन्. पढ़ाना; अध्ययन  
 कराना. To teach; to cause to  
 study.

अजमावेह. शन्त्वा० ६४

**अञ्जभावणा.** श्री० (\*अध्यापना-अध्यापन). भशुपत्रुं ते. पढ़ाना. Act of teaching. क० ग० १, ६०;

**अञ्जभावय.** पुं० ( अध्यापक ) उपाध्याय. उपाध्याय. A religious preceptor, who studies and teaches Sāstras. “अञ्जभावयाणं पदिकूलभासी” उत्त० १२, १६; सु० च० १, ३५७;

**अञ्जभावसित्ता.** स० क० अ० ( अध्युद्य ) भां रहीने. भीतर रह कर; अन्दर रहकर. Having resided in. “ पंच तिथगरा कुमार-बासमञ्जभावसित्ता ” ठा० ५, ३;

**अञ्जभासणा.** श्री० (\*अध्यासना-अध्यासन) सहन कृत्वुं ते; परिसह भमवे। ते. सहन करना; परिषह सहना. Endurance of discomforts. उत्त० टी० २;

**अञ्जभाहार.** पुं० ( अध्याहार ) आकांक्षित पदनुं अनुसंधान कृत्वुं ते; भूत्तमां न हेखातुं पद भीज्ञ स्त्रमांथी लेवुं ते. आकांक्षित पद का अनुसंधान करना; सूत्र में जो पद न हो उसे दूसरे सूत्र में से लेना. Supplying a portion from another text for completing the meaning of a certain text. आया० टी० १, १, ४, ३७;

**अञ्जभीण.** न० ( अशीण-अर्थभ्योऽनवरतं दीयमानमपि वर्दत एव नतु चीयत इत्य-शीणम् ) शास्त्रानुं अध्ययन; प्रकरण; अध्याय. A chapter of a scriptural text. विशेष० ६६१; अग्निशो० १५४; ( २ ) क्षण्य न पर्मेल. अक्षय. undecayed. सम० ३०;—भंभ. श्री० ( -भञ्जक ) क्लेश-क्लहुथी निवृत्त नहि थयेल. क्लेश-कलह से अनिवृत्त. not free from troubles and quarrels. सम० ३०;

**अञ्जभुववरण.** श्री० ( अध्युपष्ट-अधिकमस्यर्थं सुपपञ्चस्ताचिच्छस्तदात्मकः ) विषयभोगमां तन्मय अनेदेव; विषयासक्त. विषयभोग में तन्मय; विषयासक्त. Grossly addicted to sensual pleasures. स्य० १, २, ३, ४; १, ३, २, २२;

**अञ्जभुसित्रा.** श्री० ( अध्युषित ) आश्रित; आश्रये आवेद. आश्रित; आश्रय में आया हुआ. Depending on; seeking shelter of. पिं० निं० ४५०;

**अञ्जभुसिर.** श्री० ( अशुषिर ) ६२-२५३। वगरत्वुं; छिद्र वगरत्वुं. दरार रहित; छिद्र रहित. Free from cracks or holes. ओषध० निं० ७०७; उत्त० २४, १७; ( २ ) तृषु-भुथी दंकायेवुं नहि. तृण से न ढका हुआ. not covered with grass. प्रव० ७१६;

**अञ्जभेया.** श्री० (\*अध्येता-अध्येतृ) पाठ करनार; भाषनार. पाठ करने वाला; पढ़ने वाला. A student; a reciter; a reader. विशेष० १४४४;

**अञ्जभेसणा.** श्री० ( अध्येषणा ) सरकार पूर्वक आज्ञा. सत्कार पूर्वक आज्ञा. Respectful direction. सम०

**अञ्जफोयर.** पुं० ( अध्यवपूर ) स.धुनेमाटे आंधरभां उभेरो। करी आहार पाणी आदि आपवा ते; आहारनो। एक टेप. सातु के लिये आधन में और बढ़ती कर आहार पानी आदि देना; आहार का एक दोष. A fault connected with food, water etc. to an ascetic which is prepared after specially adding water to that already boiling, when a Sādhu comes. देस० ५, १, ५५; पिं० निं० ६३; प्रव० ५७८;

**अजमोक्तरद्यु. पुं० ( अध्यवप्त्रक )** गृहस्थ पेतानेभाटे रसोइ करते। होय तेमां साधुने आपवानी अभर सांबणी वधारे कुरी अथवा आंधरशुभां उभेरो। कुरी तैयार करेल आहार साधुने आपवाथी लागतो। अळु होय; सोण उद्गमनभानी सोणभेदा होय। यहस्य अपने लिये रसोइ बनाता हो उस समय साधु के आने का समाचार सुनकर जो अधिक रसोइ बनाई हो, अथवा अधान में और मिलाकर जो आहार तैयार किया हो, वह आहार साधु को देने से जो दोष लगे वह; सोलह उद्गमनों में से सोलहवाँ दोष। A kind of sin which a man incurs by cooking more than what is required for himself when he hears of the arrival of a Sādhu or an ascetic; the last of the sixteen sins called Udgamanas. “ अजमोक्तरओ तिविहो जावस्ति सघरमीसपासंदे मूलभिम य पुष्पकप ओयरहू तिरह अट्टाए ” विं० निं० २४८; ओव० ४०;

**अजमोक्तवज्ज्ञ. धा० I. ( अधि+उप+पद )** तन्मय थं०; प्राप्यवरतुनी। साथे अध्यवसायनी ऐकता करवा। तन्मय-तङ्गान होना; प्राप्यवस्तु के साथ अध्यवसाय की एकता करना। To be completely absorbed in; to concentrate the whole thought-activity upon the object to be obtained.

**अजमोक्तवज्ज्ञ. नाया० १७; निसी० १२, ३५;**  
**अजमोक्तवज्ज्ञाता. विधि० आया० २, १५, १७६;**  
**अजमोक्तवज्ज्ञह. आ० नाया० ८;**  
**अजमोक्तवज्जिहिति. भवि० ओव० ४०;**  
**अजमोक्तवज्ज्ञमाया. व० कृ० निसी० १७, ७;**

**अजमोक्तवज्ज्ञणा. छी० ( अध्युपपत्ता )** विष्य आसक्ति। विषयासङ्ग। Attachment to sensual pleasures.

“ तिविहा अजमोक्तवज्ज्ञणा जाशू अजाणू वितिगिरज्ञा ” ठा० १, ४;

**अजमोक्तवरण. त्रि० ( अध्युपपत्त )** विष्यभां आसक्ता; गृद्ध; मुर्छित; नेतुं शूवन विष्याधीन होय ते। विषयासङ्ग; मूर्छित; विषयाधीन जीवन वाला। Addicted to sensual pleasures. नाया० २; ५; ८; १४; १७; भगा० १३, ६; सूय० १, २, ३, ४; दसा० ६, १; ओष्ठ० निं० ६००; जं० प० २, २२;

**अजमोक्तवदण. त्रि० ( अध्युपपत्त )** जुओ। उपदेश शब्द। देखो ऊपर का शब्द। Vide “ अजमोक्तवदण ”। आया० १, १, ७, ६१;

**अजमोक्तवदाय. पुं० ( अध्युपपत्त )** कंधपशु अहशु करवामां चितनी ऐकाग्रता। कुछ भी प्रहण करने में चित्त की एकाप्रता का होना। Concentration of the mind upon the attainment of a thing. “ परस्स अजमोक्तवदायोभजणयाह ” पराह० २, ५;

**अभंभ. त्रि० ( अफळम )** लोभ रहित; माया। रहित। लोभ रहित; माया रहित. Without greed. आया० १, ५, ३, १५३;

**अभंभा. छी० ( अफळमा )** भापानो अभाव। कपट का अभाव। Absence of deceit. ( २ ) क्षत्तो अभाव। भगडे का अभाव। absence of quarrel. “ न से समे होइ अभंभपते ” सूय० १, १३, ६;

**अष्टु. त्रि० ( आर्त-आर्तिः शारीरमानसी पीडा, तत्र भव आर्तः )** शारीरिक या मानसिक पीडाथी पीडातो; पीडित थेल; दुःखी। शारीरिक या मानसिक पीडा से पीडित। Afflicted in mind or body. “ अष्टु

खोपु परिजुयये तुस्संबोहे अविजायण् ॥  
आया० १, १, २, १४; १, २, ६, ६४;  
नाया० १; १६; निसी० ८, ३; ओव० ३४;  
आव० ४, ७; क० गं० १, ३०; ( २ ) न०  
दिलगीर थवुं; इ८न क८वुं; युरथा क८वी;  
आर्तध्यान क८वुं ते. दुःखी होना; रुदन कर-  
ना; आर्तन्यान करना. to give way to  
sorrow; to moan; to bewail.  
उत्त० ३०, ३३; ३४, ३१; परह० १, २;  
नाया० १; ८; १३; १६; भग० ३, २;—घस.  
पुं० ( -वश ) आर्तध्यानने वश थवुं ते.  
आर्तध्यान के वश होना. to be swayed  
by thoughts of pain. नाया० १;  
—स्सर. पुं० ( -स्वर ) आर्तनाद; दुःखने  
शण०; दुःखने अवाज. आर्तनाद; दुःख भरा  
शब्द. lamentation. ( २ ) त्रि० नेनो स्वर-  
अवाज दुःखी भीजि होय ते. दुःख से  
धीरित स्वर वाला. having a tone  
expressive of pain. “ अद्वृस्सरे ते  
कलुण रस्ते ” स्य० १, ८, १, २४;

अद्वृजभाण. न० ( आर्तध्यान ) आर्तध्यान;  
चिंता; धृष्टिना विगेग के अनिष्टना संयोगधी  
ये८ पामने। ते. आर्तध्यान; चिंता; इत्वियोग  
व अनिष्टसंयोग से दुःखी होना. Feeling of  
affliction; anxiety; to be dejected  
at the separation of a beloved thing or at meeting with  
unfavourable circumstances.  
क८प० ४, ६२; राय० २६४; नाया० १; सम०  
४; ठा० ४, १;—उवगय. त्रि० ( -उपगत )  
आर्तध्यान क८नार; आर्ति-शैक्षि निभ८न. आर्त-  
ध्यान करने वाला; सोकमन. engrossed in  
painful thoughts. “ अद्वृजाणोवगए  
भूमिगयदिहिए जिम्याह ” सूय० २, २,  
१६; निसी० ८, ११; जं० प० ३, ५६०;  
अद्वृहास. पुं० ( अद्वृहास ) उया॒ श्वरथी॑ दूसवुं

ते; घड्घड दूसवुं ते. उच्चस्वर से हंसना.  
Loud laughter. नाया० ८; प्रव० १४२२;  
अद्वृण. पुं० ( अटन ) अद्वृनु नामने उज्जेषी  
वासी एक भद्र, के ने सोपारक नगरता राज  
पासेथी धजी वार इनाम लैध आवतो. पछु  
पाछगाथी तेनी जरा अवस्थाभाँ एक जुवान  
तेनो हैरै जायो, तेथी ते पराजय पायो  
अने आभरे दुःखी थतां विस्कत थध हैक्षा  
कीधी. “ जरोवणीयस्म हु नविथ ताण्यं ” उत्त०  
४, १; नी टीकाभाँ विस्तारथी आ दृष्टान्त  
धृपणुभाँ डैर्ध नाण॒-शरण॑ नथी ए विषय  
उपर आपाभाँ आव्युं छे. उज्जायिनी में  
रहने वाला अद्वृण नामक एक मळ, जो कि,  
सोपारक नगर के राजा के पास से बहुतसी बार  
इनाम लाना था. परन्तु पीछे से उसकी जराव-  
स्था में एक प्रानिसंघी खदा हुआ, जिसने उसे  
पराजित किया, इसेस उसने दुःखी होकर दीक्षा  
ली “ जरोवणीयस्म हु नविथ ताण्यं ” उत्त० ४, १;  
की टीका में विस्तार से यह दृष्टान्त वृद्धावस्था में  
कोई शरणा नहीं है, इस सम्बन्ध में दिया गया है.  
An athlete named Attana, residing in Ujjain. He often  
received presents from the king of a city named Sopar-  
aka. But in his old age there  
arose a rival and he was  
defeated; so being disgusted  
he entered religious order.  
“ जरोवणीयस्म हु नविथ ताण्यं ” उत्त० ४, १;  
अद्वृण. न० ( अटन ) उनु-याक्षतुं ते; गति क८वी॑  
ते. चलना; गति करना. Going; moving.  
ओव० ३१; ( २ ) क्सरत क८वी॑; शारीरिक  
श्रम लेवे। ते. क्सरत करना; शारीरिक श्रम  
करना. to take physical exercise.  
ओव०—साला. छी० ( -शाला ) क्सरत  
शाला; क्सरत क८वानी ज३पा. व्यायाम शाला;

कसरत करने की जगह. gymnasium. “जे-  
येव अहृण्यासाका तेयेव उवागच्छृङ्” नाया०  
१; भग० ११, ११; ओव० ३१; कप्प० ८, १०१;  
**अहृतर.** न० ( आर्तितर ) अतिशय-भृंजु  
आर्तिध्यान; मिश्र॒ आर्तिध्यान करनु ते.  
अतिशय आर्तिध्यान करना. Intense  
Artaadhyāna ( lamentation ).  
“पृजिज्जमाण्यहृतरं रसंति” सूय० १, ५, १, २५;  
**अहृत्स.** पुं० ( अटरूष- औटैरूष्यति) अरूसानुं  
अड़; शुच्यथनस्थिनी ऐक नत. अहृत्स का  
शृङ्ख; गुच्छ बनस्थिति की एक जाति. A kind of tree. पञ्च० १;

**अहृद्वास.** पुं० ( अहृहास ) खड़भड़ इर्देने  
हसनु ते. जोर से हँसना. Loud laughter.  
परह० १, ३;

**अहृत्लग.** पुं० न० ( अहृत्लक ) ग१६ उपर रहे-  
वानुं स्थान; अटारी; अरूप्या. गढ़ ऊपर  
रहने का स्थान; भरोखा; अटारा. A  
turret. जीवा० ३, २; परह० १, १; भग०  
५, ७; ( २ ) ग१६ तथा डिक्षाना ड्राई उपर  
बाधेक शब्द राजनानुं भक्ति. गढ़ या  
किले पर घनवाया हुआ शब्द रखने का स्थान.  
a turret on a fortress for storing weapons. “ पागारं कारयित्ता ण  
गोपुरहृत्लगाणि य ” उत्त० ३, १८;

**अहृत्लय.** पुं० ( अहृत्लक ) जुँग्मै। १७-८ “ अहृ-  
लग ”. देखो “ अहृत्लग ” शब्द. Vide “ अहृ-  
लग ”. राय० २०१; निर्सा० ८, ३; पञ्च० २;  
नाया० १६; अगुजो० १३४; सम० प० २१०;  
**अहृय.** त्रि० ( आर्तित ) पीडित; दुःखी. पांडित;  
दुःखी. Afflicted. ओव० ३४;

**अदृ.** पुं० ( अर्थ ) अर्थ; आचारांगादि स्त्रोनो  
अर्थ-भाव; सारांश. अर्थ; आचाराङ्गादि स्त्रों  
का अर्थ-भाव. Meaning; sense; purport. निर्सा० ५, २८; १४, ६; उत्त० १, ८; ३,  
१०; राय० २३५; नाया० १; ५; दस० ०,

१२; भग० १५, १; ओव० ११; कप्प० १,  
७; क० गं० १, ४१; २, ६१; ( २ ) अयोजन;  
उद्देश्य. प्रयोजन; उद्देश्य. aim; object;  
motive. नाया० १; ६; १८; १६; भग०  
१, ६; २, १; ५; ४, ४; १५, १; १८, ७; दस०  
१०, १, ८; उत्त० ४, ४; पिं० निं० भा० ३; पिं०  
निं० १०३; राय० ३६; वेय० ३, २६; ( ३ )  
पदार्थ; प्रस्तु-तत्त्व. पदार्थ-तत्त्व. a thing;  
an object. पंचा० ६, १; राय० २५;  
अगुजो० २७; ( ४ ) कार्य-काम. कार्य; कृत्य.  
action; act; work. ठा० ५, २; पञ्च०  
३६; ( ५ ) चालु विषय-प्रसंग. प्रसंग-प्र-  
स्तुत विषय. current subject matter. अगुजो० १३४; ( ६ ) परमार्थ; मोक्ष.  
परमार्थ; मोक्ष. final emancipation;  
salvation. दस० ८, ८३; उत्त० १, ८;  
( १७ ) धारणा. धारणा. ideal. भग०  
८, १;—कर पुं० ( -कर-अर्थात् हिताहित-  
प्राप्तिप्राप्तिरादीन् राजादीनां दिग्याद्रादौ  
तथोपदेशद्वारा करोतीत्यर्थकरः ) प्रधान; भंत्री.  
प्रधान; दीवान; मंत्री; a minister; a  
counsellor. ठा० ४, ३; ( २ ) निमित्त  
प्रकाशक; निभित्तिए। निमित्तज्ञानी. an interpreter of signs and omens.  
ठा० ४, ३;—किरिया. क्री० ( -क्रिया )  
इर्देने इर्दे प्रयोजन उद्योग आरंभादि क्रिया  
करनी ते; क्रियाना तेरे स्थानकमानुं पहेलुं  
स्थानक. किसी न किसी प्रयोजन के पदने पर  
आरंभादि क्रिया करना; क्रिया के १३ स्थानकों  
में से पहिला स्थानक. the first of the  
13 Kriyā Sthānakas ( sources of incurring Karma); viz doing  
an action involving killing etc. on some ground or for some  
reasons or other. प्रव० ८४५;  
—जाय. त्रि० ( -जात ) धनार्थी; धननी

०३३३ीयात्मागो। धनार्थी; धन की ज़रूरत वाला.  
needy. “ अट्टजायं भिक्खुं गित्यामाणं  
लो कप्पह ” वृ. २, १८; ( २ ) संख्यभी  
यक्षायभान थेक्ष. संयम से चलित. one  
who has swerved from  
asceticism. “ अट्टजायं यिगमंथे यिगमंथे  
गिरहमाये वा याइकमह ” ठा० ५, २;  
—जुत्त. त्रि० ( -युक्त ) हेयोपादेयरूप  
अर्थ युक्त; अर्थ—भोक्षणादुपयुक्त. हेयोपादेय  
रूप अर्थ युक्त; मोक्षोपयुक्त. containing  
discussion on things that should  
be abandoned or practiced i. e.  
on matters showing the way  
to salvation. “ अट्टजुत्तायि सिक्खेज्जा  
यिरहृषिं उ बज्जए ” उत० १, ८; —दंसि.  
त्रि० ( -दर्शिन् ) अर्थवेता; शास्त्रिना अर्थने  
ज्ञानुनार अर्थवेता; शास्त्रों के अर्थ को  
जानने वाला. one knowing the  
sense of scriptures. समाजवेज्जा  
पठिपुज्जभासी, निसाभिया सामिय अट्टदंसा”  
सूय० १, १८; २४; —दुर्ग. त्रि० ( -दुर्ग )  
परिण्यमे गहन; दुर्गम्. गूढ; गहन परायाम  
वाला. inaccessible; abstruse. “ पवे-  
दहस्से दुहमहुगं ” सूय० १, ५, १, २; १, १०,  
१०; —पय. न० ( -पद ) सूक्ष्म भुद्धिशी  
विचारवा योग्य ५८-१३५. सूक्ष्म बुद्धि से  
विचारने योग्य पद—वाक्य. a sentence  
requiring close thinking to be  
understood. “ समाहियं अट्टपयोवसुदं ”  
सूय० १, १, २६; क० प० २, ४६; ( २ )  
अर्थ—अयुक्तादि दुर्क्षय, पद—आनुपूर्वी आदि,  
अयुक्तरूप अष्टि पदार्थनी आनुपूर्वी—परि-  
पारी. अयणुकादि स्कंध, पद—आनुपूर्वी आदि,  
अयणुकस्कंध आदि पदार्थ की परिपारी. pro-  
gressive order of substances e.  
g. atom, molecule etc. “ से किं तं


योगमववहारायं अयोवयिहिया दद्वाखुपुब्वी  
पञ्चविहा प० तं० अट्टपयपर्वया” अणुजो०  
नंदी० २६; —सहया. लो० ( -शतिका )  
सैकड़े अर्थ जेमाथी उड़ अपी वाखी. ऐसी  
बाणी जिसके सैकड़ों अर्थ हो सके. speech  
capable of hundreds of meanings. “ अपुणरुताहिं अट्टसहयाहिं वग्गहिं  
अणवरयं अभिणदंता ” जं० प०

अदृढ़. त्रि० ( अहन् ) आठ; आठनी संभ्या.  
आठ; आठ की संभ्या. Eight. उत० २६,  
११; पञ्च० १; ४; सम० ८; ठा० १, १; पिं०  
नि० ६८; नाया० १; २; ५; ६; जं० प० ३, ५२;  
दस० ६, ७; ८, १३; सु० च० २, २४४; स०  
प० १; भग० १, १; ५; ३, ७; ४, ४; ८;  
६, ७; ८, २; १८, ८; २४, ११; ३१, १;  
वृ. ८, १५; राय० ४७; ओव० १०; १२;  
—अट्टमिआ. लो० ( -अष्टमिका ) आठ  
अद्वायिया०; ४ दिवस अने २८८ दातनी ऐक  
भिक्षुपुष्टिभा-भिक्षिअष्ट तपविशेष, डे जेमां  
पहेले अष्ट दिवसे अथवा पहेले अष्टके ऐक  
ऐक दान अन्नपाणी लेवाय, पछी भीन  
अष्टके प्रत्येक दिवसे ऐबे दान अन्नपाणी लेवाय  
ऐम दैक अष्टकमां ऐक ऐक दान वधारतां  
आहमे अष्टके आठ आठ दान अन्नपाणी  
लेवाय. आठ अठवाँ—६४ दिन और २८८  
दान का एक भिक्षुपुष्टिभा-अभिष्ठ  
तपविशेष, अष्टक के प्रत्येक दिन एक एक दान  
अन्नजल लिया जाय, दूसरे अष्टक के प्रत्येक  
दिन दो दो दान अन्नजल लिया जाय, इस  
प्रकार प्रत्येक अष्टक में एक एक दान अन्नजल  
. बढ़ाने से आठवें अष्टक में आठ आठ दान अन्न  
जल लिया जाय. a kind of penance,  
practised by an ascetic, lasting  
for eight weeks or 64 days with  
288 Dātas ( a particular way  
of giving food and water ) of


food and water. On every day of the first week one Dāta of food and water is to be taken, on every day of the second week two Dātas of food and water are to be taken. Thus on every succeeding week one additional Dāta of food and water is to be taken.” अट्टमियाणं भिक्षुपदिमा चउसटीए राहंदिएहि दोहिं य अट्टासीएहि भिक्खालासएहि” सम० १४; अंत० ८, ५; आव० १५; वब० ६, ३८;—आहिय. त्रि० (-आहिक) आह दिवस संअंपती. आठ दिन सम्बन्धी. relating to or pertaining to eight days. पंचा० ८, ४८;—उत्तर. त्रि० (-उत्तर) आडे करी अधिक; आह ५५२. आठ से अधिक. exceeding by eight; exceeding eight. “अट्टुतरं सयसहस्रं पीड्हायाणं दलयंति” आव० भग० २६, १८; “परहावागरणेसु अट्टुतरं पसिणासयं अट्टुतरं अपसिणासयं” सम० प० १६०;—उत्तरसय. न० (-उत्तरशत) १०८; अके थो आहे. एक गो आठ. one hundred and eight. प्रव० ४७७;—उचास. पुं० (-उप-बास) आह उपवास. आठ उपवास. eight fasts. पंचा० १६, १०;—उसेसह. त्रि० (-उत्तेष्ठ) जेनी आहे जेननी उचाई देखे ते. आठ योजन की ऊंचाई वाला. eight Yojana's in height. “चक्रटु पहड्हाणा अट्टुसेहा य” गा० ६;—करिण-आ-य. त्रि० (-कर्णिक) आह भुथावाणु. अठपहलु. having eight corners; octagonal. ज० प० २, ४४; ठा० ८, १;—कर्म. न० (-कर्मन्) आहे कर्म; १ लुंगाना-परणीय, २ जुं दर्शनापरणीय, ३ जुं वेदनीय, ४ थुं मेहनीय, ५ भुं आयुष्य, ६ इं न भ, ७ भुं

जेत्र अने ८ भुं अंतराय ऐ आहे कर्म. आठ कर्म; १ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेद-नाय, ४ मोहनीय, ५ आयुष्य, ६ नाम, ७ गोत्र और न अन्तराय. the eight varieties of Karmas viz ( 1 ) Jñānāvaraṇīya, ( 2 ) Darśanāvaraṇīya, ( 3 ) Vedanīya, ( 4 ) Mohanīya, ( 5 ) Āyuṣya, ( 6 ) Nāma, ( 7 ) Gotra, ( 8 ) Antarāya. नाया० ५; ६;—कर्मपणाडि. लां० (-कर्मप्रहृति) आहे कर्मनी प्रहृति. आठ कर्मों की प्रहृति. the varieties of the eight classes of Karma. नाया० ५; ६;—गट. लां० (-गति) आहे गति; १ नरक गति, २ तिर्यक्ति, ३ निर्यक्ति, ४ नरी, ५ नारी, ६ देव, ७ देवी अने, ८ सिद्धजनि. आठ गति; १ नरकगति, २ तिर्यक्ति, ३ तिर्यक्ति लां, ४ नर, ५ नारी, ६ देव, ७ देवी और न सिद्धगति. the eight varieties of Gatis or conditions of existence; viz ( 1 ) Narak Gati, ( 2-3 ) lower creatures (male & female) (4-5) human beings (male & female) (6) Deva (7) Devi (8) Siddha. भग० २५, ३;—गुण. पुं० (-गुण) गीतना आहे गुण; आहे गुणे करी युक्त गीत. आठ गुणों सहित गति; गति के आठ गुण. the eight qualities or merits of a song; a song having the eight qualities “पुण्यं रत्तं च अलंकियं, वटं तदेव अविपुटं, महूरं समं सुलभियं अट्टुगुणा हौंति गेयस्त्” जीवा० ६; राय० १३१;—गुणोववेय. न० (-गुणोपपेत) आहे गुणयुक्त गीत. आठ गुणसहित गीत. (a song) perfect in its eight merits; जीवा० ३;—चक्रवालपद्माण. त्रि० (-चक्रवालप्रतिष्ठान) आहे यडे-पैडने

नदावर्ती.




स्वास्तिक.




श्रीवर्त्तम्.


मरुत्यु जुगल.




संजूल.



इपण.



भूदासनं.





अधिकारे रहेदुः, आठ चाकों—पैरों के आधार पर उहरा हुआ. resting on eight wheels.“एगमेगेयं महायिही अद्वचकवा-  
जपहृष्टाणे ” जीवा० ३;—दृष्टि. न०  
(—स्थान) दृष्टिंशं सूत्रनुं आदेदुं स्थान.  
स्थानाङ्गं सूत्र का आठवाँ स्थान. the eighth Sthāna of Sthānāṅga Sūtra.  
“ एवं जहा अद्वहृष्टाणे ” घा० १०;—णाय-  
कुमार. पुं० (—ज्ञातकुमार) ज्ञातवंशना  
आठ कुमार. ज्ञात वंश के आठ कुमार. eight  
princes of the Jñāta dynasty.  
नाया० ८;—तोस. पुं० (—त्रिशत) ३८;  
आउत्रीस. अइतीस. thirty-eight. नाया०  
ध० सम० २४; भग० ४१, १; जं० प० १, ११;  
—दिसाकुमारिया. ली० (—दिसाकुमा-  
रिका) आठ दिशाकुमारी. आठ दिशाकुमा-  
रियाँ. eight Disākumārīs. नाया०  
८;—पद्मिय. त्रि० (—प्रदेशिक) आठ  
प्रदेशनों अनेदो. आठ प्रदेशों का बना हुआ.  
made up of eight particles. ठा०  
“पृथग्यं अद्वपणसिए रूपयोगे” घा० १०; भग०  
१२, ४;—पडला. त्रि० (—पटल) आठ  
पडवाण्युं. आठ पुडत वाला. consisting  
of eight layers or folds. भग० ६,  
३३;—पिदठणिद्विया. ली० (—पिण्डनि-  
ष्टिता) आठ वार पिसनाथी उत्पन्न थेयेल  
भद्रिष्विशेष. आठ वार पीसने से बनने वाली  
मदिरा. a kind of wine produced  
by pounding a substance eight  
times. पञ्च० १७; जीवा० ३;—फास.  
पुं० (—स्पर्श) शीत, छिखु वरे आठ स्पर्श.  
शीत, उष्ण वैपरह आठ प्रकार के स्पर्श. eight  
varieties of touch, e. g. cold,  
hot etc. विशेष० ६४६;—भव. पुं० (—भव)  
आठ भव. आठ भव. eight births.  
भग० २४, १७;—भाइआ-या. ली० (—भा-

गिका) भाइना आईभा भाग ज्ञेत्रदुं रसभाप-  
वानुं भाप; यत्रीश पद्म भ्रमाणे रसभान विशेष.  
मारणा के आठवें भाग जितना रस नापने का माप;  
बत्तीस पल के अनुसार रस का मान—प्रमाण. a measure of capacity for liquids  
equal to the eighth part of a  
Māṇi. अग्नुज० १३२: १५३;—भागपलि-  
ओद्यम. न० (—भागपल्योपमं-पल्योपमभाग)  
पल्योपमनो आईमे भाग. पल्योपम का आठवाँ  
भाग. period of time equal in  
extent to the eighth of the Paly-  
opama period. भग० २४, १२;—मझ.  
पुं० (मद) आठ मद; जनि, दुख, अद, रुपा  
तप, श्रुत, लाभ अने ऐस्वर्य—भेदोंधारे आठ  
वस्तुपरत्वे मद-अद-कार करवे। ते. आठ मद;  
जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐस्वर्य  
इन बातों का अहंकार करना. eight kinds  
of pride due to ( 1 ) caste, ( 2 )  
family, ( 3 ) physical strength,  
( 4 ) beauty, ( 5 ) penance,  
( 6 ) learning, ( 7 ) gain, ( 8 )  
power & wealth. आऊ० २६;—  
मंगल. न० (—मङ्गल) आठ मंगल. आठ  
मंगल. eight auspicious things.  
तस्मयं असोगवरपायवस्स उवरि बहवं अटठ  
मङ्गलगा परणत्ता तंजहा १ सोवत्थिय  
२ सिरिवत्था ३ यंदियावत्त ४ वद्भमा-  
णग ५ भद्रासण ६ कलास ७ मच्छ  
८ दद्पण” ओव० जं० प० ३, ५३;—  
मयमहण. त्रि० (—मदमथन) आठ मदनो  
नाश करनार; आठ मदने भथनार. आठों मदों  
का नाश करने वाला. destroyer of the  
eight varieties of pride. पण्ह०  
२, ५;—महापाडिहारे. न० (—महाप्रा-  
तिहार्य) तीर्थंकर भंहाराजनो देवताएं तर-  
क्षी आठ प्रकारे अनावातो प्रक्षाव; अशोक

वृक्ष, दिव्यपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल—भूमेडाना लाग्नुं तेज, देवदुर्दुभि अने ४४ उपर ४४ ऐ आठ प्रातिहार्य. तीर्थकरों का देवताओं द्वारा प्रकट किये जाने वाला आठ प्रकार का प्रभाव; अशोकवृक्ष, दिव्यपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, देवदुर्दुभि और छत्र ये आठ प्रातिहार्य. the glory of Tirthankaras testified by gods, in eight ways; e. g. showering celestial flowers etc. नंदी०—सुक्ति. पु० (—मूर्ति) शिव; भद्रदेव. शिव; शङ्कर; महादेव. the god having eight forms i. e. Siva, Mahadeva. ठा० १;—रस. पु० (—रस) शूगार आदि आठ रस; शूगार, वीर, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, भीमत्स अने अहसुत ऐ आठ रस. आठ प्रकार के रस; शूगार, वीर, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, भीमत्स और अद्भुत ये आठ रस. eight kinds of poetic sentiments viz. ( १ ) Śringāra, ( २ ) Vira, ( ३ ) Karuṇā, ( ४ ) Hāsyā, ( ५ ) Raudra, ( ६ ) Bhayānaka, ( ७ ) Bibhatsa, ( ८ ) Adbhuta. राय० १३१; —रससंपउत्त. त्रि० (—रससम्पुर्ण) आठे रसथी भरपूर; आठ रसयुक्त. आठ प्रकार के रसों से युक्त. replete with the eight poetic sentiments. जीवा० ३;—वज्र. त्रि० (—पञ्चाशत्) अट्टावन; ५८. अठावन; ५८. fifty-eight; ५८. क० गं० १, ३२;—चीस. त्रि० (—विंशति) आठ अने वीश; २८. अठाईस; २८. twenty-eight; २८. क० गं० १, ३; क० प० २, २४; ७, ११;—सहि. ली० (—षष्ठि) १८; अडसद. ६८; अडसठ. sixty-eight. भग० २४, १; २१;—समय. त्रि० (—समय)

नेनी चित्ति आठ समयनी होय ते. जिसकी स्थिति आठ समय की हो. lasting for eight Samayas ( i. e. units of time ). क० प० १, ४०;—सय. न० (—शत) ऐक से अने आठ; १०८. एक सौ आठ. one hundred and eight. निर० ३, ४; ठा० १०; उत० ०३६, ६२; —सयसिद्ध. पु० (—शतसिद्ध—अष्टशतसिद्ध:) ऋषभ-देवस्वामी साथे उत्कृष्टी अवगाहनावाणी तेमना १०८ साधुओं ऐक७८ वर्षते सिद्ध थया ते अछेदं; दश अछेरामांतुं ऐक अछेदं. ऋषभदेवस्वामी के उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ साधुओं के एक समय में मोक्ष प्राप्त होने की आश्रय जनक घटना; दस अछेरों ( आश्रय जनक घटनाओं ) में से एक अछेरा. Rishabhadeva and his Sādhus, 108 in number, who attained to salvation simultaneously. This is one of the ten wonderful events. ठा० १०;—सहस्र. न० (—सहस्र) ऐक हजार अने आठ. एक हजार आठ. one thousand & eight. “वहार-मयवरथयिउणजोह्यश्रद्धसहस्रवरकंचण” ओव०—सामइय. त्रि० (—सामयिक) आठ समयमां निःपन थाय ते; तेवल समुद्धात वगेरे, डे ने आठ समयमां पूर्ण थाय छे. आठ समयों में निष्पत्ति होने वाला; केवलसमुद्धात वगैरह, जो आठ समयों में पूर्ण हो जाते हैं. ( Kevalasamudghāta, etc. ) that can be finished in eight Samayas. “केवलसमुद्धात अद्वासमइय पणणते” ओव०—सीइ. ली० (—सरीगित) अठावसी; ८८. दद; अव्यासी. eighty-eight; ८८. प्रव० ३६६;—सोबणिष्य. त्रि० (—सौबणिष्य) आठ सौनाम्हेर प्रभाः-

धुः ऐनु वज्जन आड सोनामहेर लेटलु होय  
ते. सोने की आठ मोहरों जितने बजन वाला.  
Eight gold Mohars in weight.  
“ऐगमेगस्स गं रणयो चाउरंतचक्कविष्टस  
अट्टसोविष्णए काकिशीरयणे” ठा० द; जं०  
प० ३, ४४;—हस्ति. त्रि० ( -सप्तति ) ७८;  
अट्टतेर. अठहत्तर. seventy-eight.  
“अट्टहत्तरिए सुवरण्णकुमारदीवकुमारावासस-  
यसहस्राण्ण” सम० ७५; पञ्च० ३;

**अद्वंग.** न० ( अष्टाङ्ग ) नवमा पूर्वीनी त्रिए  
आचारवस्तुभांथी नीडेल सुभद्रुःभना  
शुभाशुभ-निमित्तसूच्यक अष्टांग-निमित्तशा-  
स्त्र; भौम, उत्पात, स्वैन, आंतरिक्ष, आंग  
( अंग इडेक ते ), स्वर, लक्षण अने व्यंजन  
ये आठ अंगायुं निमित्तशास्त्र. नवे पूर्व की  
तीसरी आचारवस्तु में से निकला हुआ सुख  
दुःख का शुभाशुभ फल बतलाने वाला निमि-  
त्तशास्त्र; भौम, उत्पात, स्वैन, आन्तरीक्ष, अंग  
फरकना, स्वर, लक्षण और व्यंजन, इन आठ  
अङ्गों वाला निमित्तशास्त्र. The science  
of interpreting signs and omens classified as inquiring  
happiness and misery into  
eight subdivisions such as  
Bhauma, etc. It is derived from  
the third Āchāravastu of the  
ninth Pūrva. नाया० १; भग० ११, ११;  
१५, १; सूय० १, १२, ६;—आउवेअ.  
पुं० ( -आयुर्वेद ) आठ अंगसहित आयुर्वेद.  
आठ अङ्गों सहित आयुर्वेद ( वैद्यकज्ञान ).  
Āyurveda or medical science  
consisting of eight parts. विवा०  
७;—रिमित्त. न० ( -निमित्त ) जुओ  
“अद्वंग” शब्द. देखो “ अद्वंग ” शब्द-  
vide “ अद्वंग ”. सूय० १, १२, ६;  
**अद्वगमित्त.** न० ( अद्वकमात्र ) आठ पर्यंत.

आठ तक. Up to eight. क० प० १, १२;  
अद्वम. त्रि० ( अष्टम ) आठमुं. आठवाँ.  
Eighth. भग० २, १; द; १; नाया०  
द; ६; १६; दस० द, १५; सम० द; ठा०  
६, १; क० ग० १, २; दसा० ७, ११;  
नाया० ध० द; ( २ ) अट्टम-त्रयु  
उपवास; ७ टंक-व्यत उल्लंधी आठमे टंके  
आठार देवे। ते; त्रयु उपवास भेगा करवा। ते.  
तीन उपवास साथ २ करना; भोजन के ७  
समयों को उलांघ कर आठवें समय भोजन  
करना. Three continuous fasts;  
continuous omission of seven  
meals. नाया० द; भग० २, १; ३, १;  
६, ३१; २०, ६;—भत्त. न० ( -भक्त )  
अट्टम; त्रयु उपवास भेगा करवा। ते.  
तीन उपवास लगातार करना; अद्वम.  
three continuous fasts. “तत्यं  
से भरे राया अद्वमभक्तसि पोसहस्रालाभो  
पद्धिशिक्खमह” जं० प० ३, २२; भग०  
१, १; ७, ६; ओव० १६; नाया० १; द; १३;  
१६; जीवा० ३, ४; विवा० १; पञ्च० २८;  
—भत्तिय. त्रि० ( -भक्तिक ) अट्टम तप  
करनार; अद्वम अट्टमना पारणा करनार.  
लगातार तीन उपवास करने वाला; अद्वम करने  
वाला. observing three continuous  
fasts. कप्प० ६, २३; भग० १६, ४;  
अद्वमश्र. त्रि० ( अष्टम-क ) जुओ। “अद्वम”  
शब्द. देखो “अद्वम” शब्द. Vide “अद्वम.”  
विशेष० १४८७;

**अद्वमी.** स्त्री० ( अष्टमी ) अष्टमी; आडम.  
. अष्टमी. The eighth day of every  
half of a lunar month. दसा० ६,  
२; विवा० ५; जं० प० ७, १५३; जीवा० ३, ४;  
पंचा० १, १७; राय० २२५;—पोसहित्य. त्रि०  
( -पौष्टिक ) आठमेरो पोसे। ( पोष्ट )  
करनार. अष्टमी का पोष्ट—उपवास करने वाला.

observing Pausadha, on the eighth day of every half of a lunar month. आया० २, १, २, १०; —माई. त्रि० (—आदि) आहं आदि पर्वता. दिवस. अष्टमी आदि पर्व. (a sacred day) such as the eighth day of a fortnight etc. “अट्टमिमाईसु दिवसेसु”

प्रव० ६६७;

अट्टय. न० (अष्टक) आहनो० ७४थे०. आठ का समूह.

A group of eighth. क० गं० ६, ११;

अट्टया. त्री० ( अर्थता ) अपेक्षा. अपेक्षा.

Desire; expectation. “अंगट्टयाए०”

सम०

अट्टविह. त्रि० ( अष्टविष ) आह प्रकारनु. आठ प्रकार का. Of eight kinds. “ अट्टविह कम्मतमपदलपडिच्छगणे ” उन० ३०, २६;

भग० १,६;—बंधय. त्रि० (—बन्धक) आह प्रकारनां कर्म आधानार; आह कर्मनी प्रकृतिनो०

४५४ कर्मनार. आठ कर्मों का या आठ कर्मों की

प्रकृतियों को बांधने वाला. incurring

bondage arising from all the

eight sorts of Karma. भग० ६, ६;

अट्टसेण. पुं० ( अष्टसेन ) वत्स जात्री शाखा

अने तेभाँ जन्मेदी पुरुष. वत्स गोत्र की

शाखा और उसमें उत्पन्न पुरुष. A branch

of Vatsa-Gotra; a person born

in that branch. ठा० ७, १;

अट्टसेण. पुं० ( अर्थसेन ) अर्थसेन नामनो०

पुरुष. पुरुषविशेष का नाम. Name

of a man. ठा० ७, १;

अट्टहा. त्रि० ( अष्टवा ) आह प्रकारे. आठ

प्रकार से. Of eight kinds; in eight

ways. भग० १२, ४; पंचा० ६, २;

अट्टा. त्री० ( अष्टा ) भूः; लेय कर्वने के द्वेष

भुषिभां लेवा ते. लोच करने के लिये केरों को

मुष्टि में पकड़ना. Holding hair by the

fist of the hand to pluck them out. “चउहिं अट्टाहिं लोयं करेह” जं० प०

अट्टाण. न० ( अस्थान ) अस्थान; अयुक्त-

अनुचित स्थान; अवृत्ति स्थान. अनुचित स्थान; खराब जगह. An improper place.

“ अट्टाणमेयं कुसक्का वयंति, दगेण जे सिद्धिमुदाहरंति ” सू० १, ७, १५;

२, ६, ३३; पि० नि० भा० २४;—हृवणा.

त्री० (—स्थापना ) अस्थान—युनाना अवयव-

मां-उपविश राखनाे अनुचित स्थानमां

पडिदेहुणु करेल उपविश राखनी ते; प्रमाद

पडिदेहुणुनो ऐक भेद. गुरु के अवग्रह में

-उपविश रखने के अयोग्य स्थान में पडिलेहण की

हुई उपविश रखना; प्रमादपडिलेहण का एक

भेद. keeping the materials and

garments inspected minutely, in improper place; a variety of

Pranāda, Padilehaṇā. ठा० ७;

अट्टाण. न० (आस्थान) ऐक; सभा. बैठक; सभा.

An assembly; a meetingplace.

ठा० ५, १;—मंडव. न० (—मरणप) ऐक;

गृह; ऐकनुं स्थान. बैठक का स्थान; बैठकगृह—

a drawing room; a seat. ठा० ५, १;

अट्टाणउड. त्रि० ( अष्टानवति ) ६८; अट्टाणु,

अठानवे; ६८. Ninety-eight. जं०

प० ७, १४६; सम० ६८;

अट्टाणवृ. त्री० ( अष्टानवति ) अट्टाणुनी

संज्ञा. ६८, अठानवे. Ninety-eight.

प्रव० ३५०;

अट्टाणिआ. त्रि० ( अस्थानिक ) स्थान—आधार-

नदि ते; अनाधार; अपात्र. आधार रहित;

अपात्र; स्थान बिना. That which

would not give support to; incapable of retaining; “ अट्टाणिए०

होइ बहुगुणां, जेणाणसंकाह मुसं वप्त्ता ”

सू० १, १३, ३;

**आद्वादंड.** पुं० ( -प्रार्थदगड़-अर्थेन स्वपरोप-कारजहेण प्रयोजनेन दण्डो हिंसा अर्थ-दण्डः ) पेताना सुभन्ने भाटे के पारका सुभन्ने भाटे शृथनी हिंसा करी ते; प्रथम क्रिया स्थानक. अपने या दूसरे के सुख के लिये जीव की हिंसा करना; प्रथम क्रियास्थानक. Destruction of living beings for one's own or another's happiness; the first Kriyāsthāna. ठा० २, १; ४, २; सम० २; १३; चत्विंश्च-य. पुं० न० ( -प्रत्ययिक ) उत्समादाना तेर क्रियास्थानकमानुं प्रथम क्रियास्थानक; पेताने अर्थे के स्वजनादिना अर्थ दिसादि पाप कर्तुं ते. दण्डमादान के तेरह क्रियास्थानकों में से प्रथम क्रियास्थानक; अपने या स्वजनादि के लिये हिंसांद पाप करना. destruction of or injury to living beings for one's own or another's benefit; the first of the thirteen Kriyāsthāna's of Dandasmādāna. “ पढमे दंडममादाये अद्वादंड-समादाये अद्वादंडवस्तिष्ठति आहिज्जह ” सूय० २, २, ५;

**आद्वादय.** न० ( अष्टापद ) बुग्दु; बुग्गार. जुआ. Gambling. निर्मा० १३, ८; अद्वादंडधि. त्रि० ( अर्थवन्धिन ) विना प्रयोजने अधिक अंथ न देनार ( साधु ). बंकाम अधिक बंध न देने वाला ( साधु ). ( An ascetic ) who does not incur Karmic bondage without absolute necessity. कल्प० ६, ५४;

**आद्वार.** त्रि० ( अष्टादशन ) आई+६८; अद्वार. अठारह. Eighteen. पञ्च० ४;

**आद्वारस.** त्रि० ( अष्टादशन ) अद्वार; १८ नी संभ्या. अठारह की संख्या. Eighteen. “ पढमे छमासे अथि अद्वारस सञ्च परिगमां तह, राहभत्तं च बोसिरिसो॥

सुहृत्ता राहू” सू० प० १; नाया० १; ५; १८; नंदी० ४५; ठा० ३, १; ओव० ४१; पञ्च० २; ४; भग० ५, १; ८; ७, १०; ८, ८; ११, ११; २४, २१; २३; जं० प० १, १६; सम० १८; —कोडाकोडि. छी० ( -कोटिकोटि ) अद्वार होडाहोड ( करेइ गुणित करेइ ). अठारह कोडाकोडि. १८ Kodākoda, i. e. १८ x crore x eroro. क० प० १, ६४; —द्वाण. न० ( -स्थान ) संथमभां अरति-ऐचे-नी पामेल लालुओं रंथमभां भनने स्थिर करवा भाटे उच्च अने हृष्टाय उत्पत्त करवाने विचारवाना पिचारस्थीय १८स्थान; पैराज्य भावनाना १८ पिचारस्थान. संयम में वैचर्णी उत्पन्न होने पर संयम में भन स्थिर करने के लिये, उच्च और ढड भाव उत्पन्न करने के लिये, साथु के विचारने योग्य १८ स्थान; वैराग्यभावना के १८ विचारस्थान. the eighteen points of high meditation by which a Sādhu steadies himself when he feels-disturbed in the practice of self-restraint; the eighteen points of renunciation. “ समयेण भगवया महावीरेण अद्वारसद्वाणा पञ्चना, तंजहा-वयछक्कं कायछक्कं, अकप्पो गिहि भायरणं । पलियकनिसिज्जा य, सियायणं सोभवज्जरणं ” सम० १८; —देशी-भासा. छां० ( -देशीभाषा ) १८ देशनी भाषा. अठारह देशों की भाषा. language of eighteen countries. नाया० ६; —पायद्वाण. न० ( -पापस्थान ) प्राणानि-पात आदि अठारह पापस्थान. प्राणानि-पात आदि अठारह पापस्थान. eighteen sources of sins e. g. destroying life ( Prāṇātīpāta ) etc. “ सञ्च पायाइवायं, अक्षियमंदतं च मेहुणं सञ्चं सञ्चं परिगमां तह, राहभत्तं च बोसिरिसो॥

सबंध कोहं माणं, मायं सोभं च रग दोमे  
य। कल्पहं अभक्त्वाणं, पेसुञ्चं परपरिवायं ॥  
मायामोसं मिछ्छादंसणसङ्गं तहेव बोसिरिमो।  
अंतिमज्जासासमिं य, देहंपि जिणाइपच्च-  
क्ष्वं” प्रव० ५४;—मुहूर्ता. न० (—मुहूर्तं )  
अद्वार मुहूर्तं; ३; धृ. अठारह सुहूर्तं;  
३६ घड़ियों. eighteen Muhūrtas of  
time equal to 36 Ghadis. भग०  
५, १; जं० प० ७, १३४;—वंजण. न०  
(—व्यञ्जन) बोजननी अद्वारमी ज्ञन; जेभां  
अद्वारमुं व्यञ्जन-शाक छे अनुं बोजन. भोजन का  
१८ वां जाति; जिसमें १८ वां व्यञ्जन-शाक होता  
है. food containing vegetables;  
the eighteenth variety of food.  
“सूअरोदरणो जवरणं, तिशिण य मंसाइ गोरसो  
जूमो। भक्त्वा गुललावशिणा, मूलफला  
हारियगंडांगो ॥ होइ रसालू य तहा, पाणं  
पाणिय पाणगं चेव। अद्वारसमो सागो  
गिस्वहयो लोइओ विंडो ॥” चं० प० २०;  
—सीलंगसहस्र. न० (—शालाङ्गसहस्र )  
अद्वार द्वारा शीलना भेद प्रदार. शाल के  
अठारह हजार भेद. eighteen thousand  
varieties of the qualities  
of right conduct. पंचा० १४, २३;  
—सेणि. ली० (—श्रेणि ) प्रश्नना १८  
वर्ग; अद्वार वर्ष; नव नारू अने नव  
कारु भली १८ वर्ष. नौ नारू और नौ कारु  
मिलकर १८ वर्ष; जैसे कुम्हार सुनार आदि  
१८ प्रकार के कारांग. eighteen classes  
of artisans & craftsmen,  
e. g. goldsmiths etc. “ कुम्भार  
पट्टखा, मुवण्णकारा य सूचकारा य। गंधवा  
कासवगा, मालाकारा य कजकरा॥ तंबोलिआ  
य एए, मवप्पयारा य णारुआ भणिया।  
अहणं णवप्पयारे, कारुअवरणे पवस्त्वामि॥  
चम्परजतपीलगांचिक्क्यांचिपय कंसकारा य।

सीबगाहुआरभिज्ञा, धोवणा वरणाइ अट्टवस ॥  
“ तप्पणं ताओ अहारसेणिप्पसेणिओ  
भरहेण रका एवंबुत्ता समायीओ हहाओ ”  
जं० प० ३; नाया० ८;

**अद्वारसम.** त्रि० ( अष्टादशतम ) १८ भुं;  
अद्वारभुं. अठारहवाँ. Eighteenth. नाया०  
१८; भग० २०, ५; ( २ ) आठ उपवास लेगा।  
क्षेत्रा ते; १७ टंक-वधत उक्षंधीने १८ भे  
टैके आहार लेवे। ते. लगातार आठ उपवास  
करना; भोजन के १७ टंकों ( वर्षतों ) में भोजन  
न कर १८ वें टंक में भोजन करना. eight  
continuous fasts; continuous  
omission of seventeen meals.  
वव० ६, ४१; ४२; भग० २, १;  
नाया० १; ८;

**अद्वारसय.** न० ( अष्टादशशत ) ऐक से अने  
अद्वार. एक सौ अठारह. One hundred  
and eighteen; 118. क० गं०  
३, २२;


**अद्वारसविध.** त्रि० ( अष्टादशविध ) अद्वार  
प्रकारं. अठारह तरह का. Of eighteen  
kinds or sorts. आव० ४, ७;

**अद्वालोभि.** त्रि० ( अर्थालोभिन-अर्थे द्रव्ये  
आ समन्तांशोभो विद्यते यस्य सः ) ५४नो  
लोभी-लालचु. द्रव्य का लोभी; लालची.  
Avaricious; covetous of money.  
“ संजोगट्टी अद्वालोभी ” आया० १, २,  
१, ६२;

**अद्वावरण.** ली० ( अष्टपञ्चाशत ) अद्वावन;  
५८ नी संभ्या. ५८ की संख्या. Fifty-  
eight. “ पठमदोष्पञ्चमासु तिसु पुढवीसु  
अद्वावरणं गिरवावाससहस्रा ” सम० ५८;  
क० गं० २, ८; जं० प० ४, ८;

**अदृशवय.** पुं० न० ( अष्टापद ) घृत झीड़ा; जुगार.  
जुआ. Gambling.“अदृशवयं ण सिस्कि-  
ज्जा ” सूय० १, ६, १७; नाया० १; ( २ )

००० ऐन करति पणसा । निञ्जीयाहार सज्जासोइसी ॥  
पुठवीकायारंभे । रवनिल्पुया ते मुणि वंदे ॥



त्रिलोक विजयनाथ

चोपट; शतरंजनी २भत. चौपड; सतरंज का खेल. the game of chess; a kind of gambling play. सूय० १, ६, १७; दस० ३, ४; नाया० १; (३) शतरंज २भवानी कृ॥। ७२ कृग्रामानी १३ भी कृ॥। सतरंज खेलने की कला; ७२ कलाओं में से १३ वीं कला. the art of playing the game of chess; thirteenth of the seventy-two arts. ओव० ४०; (४) जुगारनु चोपट; शतरंज वर्गेरना पट. जुआ का तस्त्वा; चौपड व सतरंज का पट. a gambling board; a chess-board etc. जं० प० २, २०; (५) नेना उपर ऋषभदेवस्वामी निर्वाणु पद पास्या ते पर्वत; अष्टापद नामे पर्वत. जिस पर्वत पर से ऋषभदेवस्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, उस पर्वत का नाम—अष्टापद. a mountain called Astāpada where Rishabhadeva Svāmī obtained liberation. पंचा० १६, १७; प्रब० ३६४; (६) अष्टापद नामनो द्वीप. अष्टापद नाम का द्वीप. an island called Astāpada. जीवा० ३, ३;—सिहर. न० (—शिखर) अष्टापद पर्वतनु शिखर. अष्टापद पर्वत का शिखर. a summit of mount Astāpada. काष्ठ० ७, २२७;—सेल. पुं० (—शैल) अष्टापद नामनो पर्वत. अष्टापद नाम का पर्वत. the mountain named Astāpada. काष्ठ० ७, २२७;

**अद्वावय.** न० ( अर्थपद ) अर्थशास्त्र; धन धान्यादि उपार्थन करवानु शास्त्र. अर्थशास्त्र; सम्पत्तिशास्त्र. Economics; political economy. सूय० १, ६, १७;

**अद्वावीस.** त्रिं० ( अष्टाविंश ) वीस अने आठ; अष्टावीश. अद्वावीस. Twenty-eight. “ तिएण्यकोसे अद्वावीसं धण् ”

सय” जं० प० २, २६; ७, १५६; भग० ३, १; ६, ३; १०, ५; २०, ५; २४, १; ३१, २८; ३२, २; ४१, ३; सु० च० १, ३६६; ओव० २६; पञ्च० २; ४; नाया० ८;

**अद्वावीसइ.** त्रिं० ( अष्टाविंशति ) अष्टावीश; २८नी संभ्या. अद्वावीस का संख्या. Twenty-eight. विशे० ११६; पञ्च० १;

**अद्वावीसइम.** त्रिं० ( अष्टाविंशतितम ) अष्टावीसम्. अद्वावीसवाँ. Twenty-eighth.

(२) न० १३ उपवास भेगा करवा ते; २७ टंक उद्धवीने २८ मे टंडे आहार लेवा ते. १३ उपवास करना; २७ टंक उलांघकर २८ वें टंक मे आहार लेना. thirteen consecutive fasts; omission of twenty-seven continuous meals. नाया० १; भग० २, १;

**अद्वावीसी.** त्रिं० ( अष्टाशीति ) ८८; अष्टावीसी. अग्न्यासी. Eighty-eight. नाया० ८; भग० १०, ५; २४, १; १२; सम० ८८; वब० ६, ३८; जं० प० १, १२;

**अद्वाह.** न० ( अष्टाह ) आठ दिवसनो समुदाय. आठ दिनों का समूह. A period of eight days. नाया० ८;

**अद्वाहिष्य-**य. त्रिं० ( अष्टाहिक ) निरंतर-लगेवाग आठ दिवसनु. एक साथ आठ दिनों का. Of continuous eight days. जं० प० नाया० ८;—महिमा. ली० (—महिमन) आठ दिवसनो भंडात्सव; अद्वाहिष्य भंडात्सव. आठ दिनों का महोत्सव. a festival of eight days. नाया० ८;

**अटि.** त्रिं० ( अर्थिन् ) प्रयोजनवागे. प्रयोजन वाला; मतलबी. Having a purpose; intending. पञ्च० २८; आया० १, ६, ४, १६२;

**अटि.** न० ( अस्थिन् ) हात्कुँ; हात. हड्डी. A bone. “ अटीए अटीमिजाए ” आया०

१, १, ६, ५२; भगा० १, ७; २, १; ५;  
३, ४; ५, २; पिं० निं० भा० ५०; नाया० १;  
२; सूर्य० २, १, १५; ओवो० ३१; राय० २२४;  
भत० १४२; कप्प० ४, ५१;—कच्छुभ.  
पुं० ( —कच्छु ) अहु—धेणु। हाइकांवाये।  
कायथे। बहुतसा हड्डियों वाला कबुवा। a  
tortoise having many bones. तंडु०—  
काढिण। त्रि० (\*-कठिन—कठिनास्थिक-  
कठिनानि अस्थिकानि पत्र तत्त्वा) कड़यु  
हाइवाये। कठिन—मजबूत हाड वाला। having  
hard, strong bones. “ अद्विय-  
करिणे सिरणहारुवंधणे ” तंडु०—चम्म-  
सिरत्ता। ली० (—चर्मशिरावत्ता—अस्थीनि  
च चर्म च शिराश्च स्नायवो विद्यन्ते यस्य स  
तथा तज्जायस्तत्ता ) शरीरमां मात्र हाइकाँ,  
यामडी अने स्नायुनु अस्तित्व; मांस अने  
लेहि विना हाइ, यामडी अने स्नायुनु रहेनुं.  
शरीर में केवल हड्डी, चर्म और स्नायुओं का  
अस्तित्व होना; मांस और रक्त के सिवाय हड्डी,  
चर्म और स्नायु का रहना. condition of being a mere skeleton  
containing nothing but bones, skin and sinews; total  
emaciation. “ अद्विचम्मसिरत्ताए परणा-  
यंक्षिणो चेव गं मंससोशियत्ताए ध्यां  
अणगारं ” अणुत्त० २;—चम्मावण्ड। त्रि०  
(—चर्मावन्ड ) अत्यंत इशु-दुर्खल; नेना  
शरीरमां मांस सुकार्मज्वाथी यामडी हाइकाने  
वगाडी २ही हेय ते. अत्यन्त कृश; दुर्खल;  
जिसके शरीर का मांस सूख गया हो और अस्थि-  
पंजर शेष हो. very lean; with skin  
touching the bones; totally emaciated.“ अद्विचम्मावण्डे किडिकिडि-  
भूए किसे धमयिसंतए याबि होत्था ” भगा०  
२, १;—जुद्ध। न० (—युद्ध) हाइकाथी— हाइ-  
काना हथियारथी और धीनने प्रहार करना ते.

हड्डी से—हड्डियों के शम्बों से एक दूसरे पर प्रहार  
करना. fighting with weapons  
made of bones. नाया० १;—ज्ञाम.  
न० (-ध्याम) अणुं-डाउं पडेखुं हाइकुं. जली  
हुई काली पट्टी हुई हड्डी. a bone burnt  
black. भगा० ५, २;—थंभ. पुं० (-स्तम्भ)  
हाइकानी थांबदी, डे नेनी उपभा अपच्यभा-  
उपरजीपना भानने आपनामां आवी छे.  
हड्डियों का स्तंभ, जिसकी उपमा अपच्यक्खाणा-  
वरणीय के मान को दी गई है. a pillar of  
bones to which the variety of  
pride called Apachchakhañpā-  
vraṇiya is compared. “ चत्तारि  
थंभा पक्षात्ता, तंजहा सेलथंभे अद्विथंभे दारुथंभे  
तिशिसलायाथंभे ” ठा० ४, २;—दाम। न०  
(-दामन्) हाइकानी भागा। हड्डियों की माला.  
a garland of bones. तंडु०—धम-  
णिसंताणसंतय। त्रि० (—धमनिसन्ता-  
नसन्तत ) हाइकाँ अने नसोथी व्याप्त; नसा-  
न्ना थी व्याप्त; शरीरे हुर्खल. हड्डियों और  
नमों से भरा हुआ; नसों के जाल से व्याप्त;  
दुर्बल शरीर वाला. very lean; reduced  
to bones and veins. “ अद्विधमणिसं-  
ताणसंतयं सब्बाओ समंता परिसंतं च ”  
तंडु०—भंजण। न० (-भञ्जन) शरीर-  
दंड; करेइनुं हाइकुं. राड़ की हड्डी. the  
spinal cord. पगह० १;—मिजा। ली०  
( -मजा ) हाइकाने। भावो; नेमाथी रैत-  
वीर्य उत्पन्न थाय छे ते. हड्डियों का गूदा; जिस-  
में से वीर्य उत्पन्न होता है वह. marrow of  
the bones of which the vital-  
fluid is formed. (२) हाइकानी चरणी;  
हाइकानुं तत्त्व-सार। हड्डियों का गूदा; हड्डियों  
का सार. marrow of the bones.  
सूर्य० २, २, ६; २, ०७, ३; ठा० ४, २;  
आया० १, १, ६, ५३; भगा० १, ७; ३, ४;

—मिजापेमाणुरागरत्त. वि० (—मजाप्रे-  
मानुरागरक्त-अस्थिमज्जा: प्रेमाणुरागेण सा-  
र्वशप्रवचनप्रीतिरूपकुसम्भादिरागेण रक्ता इव  
रक्ता येषां ते तथा ) जेनी हुडेहाडी  
भिन्नभां प्रवयन धर्मनो रंग लागेलो हेय ते;  
जेनुं अंतः करण दृढ अद्वायी भावित थेषेदुं हेय  
ते. जिसकी हड्डी हड्डी में-रग रग में धर्म का रंग  
भरा हो; जिसका अन्तः करण दृढ श्रद्धा से युक्त  
हो. imbued with religious feeling  
to the marrow. “अभिगाहियेद्व आद्विभिं-  
जापेमाणुरागरत्त ” सूय० २, ७, ६६; भग०  
२, ५; नाया० १;—रासि. पुं० (—राशि )  
हुडक्कनो द्योदो. हड्डियों का ढेर. a heap  
of bones. नाया० ६; आया० २, १, १, १;  
—सुहा. क्षी० ( \*—सुखा—सुख ) हुडक्कने  
सुखकारी—यंपी; शरीर या शरीरना. अवयव  
यंपावा—दृश्यावा ते. शरीर के अवयवों को  
दबाना. Shampooing etc. pleasing  
to the bones. विवा० ६; नाया० १;  
कप्प० ४, ६१;

**अदित्या.** न० (अस्थिक) गोटवी; इलना हणीया  
वगेरे. गुण्ठी. The stone of a fruit.  
दसा० ६, ४; दस० ५, १, ८४;

**अदित्यगाम.** पुं० (अस्थिकप्राम ) वेगवती  
नदीने कांडे आवेदुं वर्द्धमानपुर नामनुं गाम,  
जेनुं प्रथम नाम वर्द्धमान हुतुं पछु एक वण-  
जारानो व्यणद नदीभां थाकतां तेना धण्युं ए  
तेनी सारवारने भाटे वर्द्धमानपुरना भद्राजन-  
ने अमुक २५म आपी ते थाल्यो गये.  
भद्राजने वरापर संलाण न लीधी तेथी  
दुःभी थेथो पछु भरण सभये सारी देख्या. आ-  
प्याथी ते भरी शक्तपाणि नामे यक्ष थये. गाम  
अने भद्राजन उपर डोपायमान थवाथी  
भद्रामारी रोग भृक्त्यो. तेमां एटला भाणुसो  
भर्या॒ के हुडक्कना, छगलाना छगला थया. त्यारथी  
तेनुं ‘अदित्यगाम’ नाम पड्युं. आपरे गाम

बहार शक्तपाणि यक्षतुं भंदिर स्थापवाथी  
शांति थृ. ने भंदिरभां भद्रामीरस्वामी  
एक रात रक्षा हुता अने शक्तपाणि यक्षे भद्रा-  
मीर स्वामीने परिष्ठु आयो हुतो. वेगवती  
नदी के किनारे बसा हुआ वर्द्धमानपुर ग्राम;  
जिसका पहिला नाम वर्द्धमान था. परन्तु  
एक बनजारे का बैल नदी में थक जाने से जब  
वह बिल्कुल आगे न बढ़ सका, तब बनजारे ने  
उसकी सार संभाल के लिये वर्द्धमानपुर के  
महाजन को कुछ रकम दी और वह वहाँ से  
चला गया. परन्तु महाजन ने उसकी देख रेख  
न की, इससे वह बहुत दुःखी हुआ. अन्त  
में मरते समय शुभ लेश्यारूप परिणाम होने  
से वह मरकर शूलपाणी नामक यक्ष हुआ,  
और उस ग्राम व महाजन पर कुपित होकर, उसने  
महामारी फैलाई; उससे इतने आदमी मरे कि,  
ग्राम में हड्डियों के ढेर हो गये. तबसे उसका  
नाम “आद्विश्वगाम” पड़ गया. आगेर जब गँव  
बाहिर शूलपाणी यक्ष का मंदिर बनवाया गया  
तब महामारी शांत हुई. इसी मन्दिर में  
महावीरस्वामी एक रात भर रहे थे और शूल-  
पाणी ने उन्हें कष्ट दिया था. (Lit. a] heap  
of bones). A city on the Vega-  
vati river, once called Var-  
dhamaṇapura but afterwards  
styled Aṭṭhiagāma, on account  
of the following incident. A  
bullock of an itinerant mer-  
chant crossing the river, got  
fatigued. The merchant leav-  
ing some money with the  
Mahājanas of the city for its  
treatment, passed on. The Mah-  
ājanas neglected the bullock  
and it died and was reborn  
as a Yakṣa named Śūlapāṇi.

Enraged at the citizens he spread plague in the city which carried off thousands whose bones formed a great heap; thenceforward this city came to be called *Atthiagāma*. At last a temple was built in the name of Śūlapāṇi, outside the city, and the plague subsided in the town. In this temple Mahāvīra Svāmī put up for a night. Śūlapāṇi gave him much trouble कप्प० ५, १२१;

**अदित्यकप्प.** त्रिं ( अस्थितात्मन् ) नेनो आत्मा अस्थिर छे अवेदा. अस्थिर आत्मा वाला. Of unsteady soul. दस० २, ६;

**आदेशग.** न० ( अस्थिक ) हाइङुः हाइ. हड्डी. A bone. परह० १, ३; ( २ ) वर्धमानपुर नगर; अदृश्यता भ. वर्द्धमानपुर; अद्वित्यागाम. a city named Vardhamānapura. भग० १५, १;

**अदित्य.** न० ( अस्थिक ) जुओ “ अद्विग ” शा० ६. देखो “ अद्विग ” शब्द. Vide ‘ अद्विग ’. भग० ६, ३;—कददुदित्य. त्रिं ( —काष्ठो-स्थित-अस्थिकान्येव काष्ठानि काटिन्य-साधर्म्यात् तेभ्यो यदुस्थितं ततथा ) किन हाइनु अनेक शरीर; भज० १५ हाइनु. मज़बूत हड्डियों से बना हुआ शरीर. having strong bones; a body made up of hard bones. भग० १, ३;

**अदित्य.** न० ( आर्थिक-अर्थ्यत इत्यर्थो मोक्षः स प्रयोजनमस्येत्यार्थिकम्) मेक्ष साधक. मोक्ष की साधना करने वाला. ( One ) endeavouring after final bliss. “ पसङ्गा खाभहस्तृति, विउलं अद्विव सुयं ” उत्त० १, ४६; ( २ ) त्रिं हृष्णि करनार.

इच्छा करने वाला. wishing. सूय० १, २, ३, १५;

**अदित्य.** त्रिं ( अर्थित ) हृष्णेनुः इच्छत. Wished; desired; longed for. उत्त० १, ४६;

**अदित्य.** त्रिं ( अस्थित ) स्थिर न रहेक. स्थिर न रहा हुआ. Unsteady; not firm. परह० १, ३; भग० २५, २;

**अद्वित्यश्र.** त्रिं ( अस्थितक ) अनियमित; अनवस्थित, अनियमित. Irregular; unsteady. प्रव० ६६३;

**अदित्यकप्प.** पुं ( अस्थितकल्प ) अनवस्थित क०५,—आचार भर्याद; वस्त्रेना भावीस तीर्थ-करेना स.धुयेनो आचार, के नें येक सरभा शास्त्रीय नियमनी भर्यादाथी भावनामां नयी आव्या अर्थात् ते साधुओं भिन्नाथी वधारे पणु रहेनु होय तो रहें; पडिकमणु अतिचार न लाग्या होय तो न पणु करे, राजपिंड पणु हो, वस्त्र रंगीन भगे तो ते पणु वापरे, एकने उद्देशी आहार कर्यो होय ते भीन लध शडे वगरे आचार योक सरभो नहि भाटे तेओनो अनवस्थित क०५. अनवस्थित आचार; बीच के बावास तीर्थकरों के साधुओं का आचार, जो शास्त्रीय नियमों से मर्यादित नहीं था अर्थात् एक मास से अधिक कहीं रहना हो तो वे साधु रहते थे, अतिचार न लगा हो तो पडिकमणा भी नहीं करते थे, राजपिंड भी ले लेते थे आंर मिलने पर रंगीन वस्त्र भी पहिनते थे. सारांश यह कि, समान और नियमित आचरण नहीं था इस लिये वह अनवस्थित कल्प कहलाता था. Unsettled rules of conduct; the conduct of the Sādhus of the intermediate २२ Tirthankaras. This conduct was not bound down by hard and fast rules of Sāstras, e. g. they

could stay at the same place for more than a month, they did not perform Padikamaṇa if they had not incurred any faults, they could accept food from a king, they could put on coloured garments if they got them and they could accept the food meant for other Sādhus. This kind of conduct ( Āchāra ) is called Anavasthitakalpa. भग० २५, ६; ७;

**अद्विग्याम.** पुं० ( अस्थिकग्राम ) वर्धमानपुर शहेरनुं अपरनाम, डे ज्यां शूलपाणि यक्षनुं २थान हुं. वर्धमानपुर का दूसरा नाम, जिस शहर में शूलपाणि यक्ष का स्थान था. Another name of the city of Vardhamānapura, where there was an abode of the Yakṣa called Śūlapāṇi. कप्प० ५, १२१;  
**अद्विल्लङ्घ.** पुं० ( अस्थिक ) कुपारीया; कुपासनुं ५०८. बिनोला. Cotton-seed. पिं० नि० ६०३;

**अठायमाण.** व० कृ० त्रिं० ( अतिष्ठत् ) न उभे० रहेतो. न खड़ा होता हुआ. Not remaining in a standing posture. पंचा० १६, १३;

**अडू. धा० I.** ( अट् ) भमनुं; इवनुं. ब्रमण करना; घूमना. To wander.

**अडूइ.** भग० २, ५; पिं० नि० २१७;

**अडंति.** परह० १, १;

**अडंत.** व० कृ० पिं० नि० १६४;

**अडमाण.** व० कृ० नाया० १४; १६; १६; भग०

२, ५; ७, १०; १५, १; विवा० १;

**अडित्तए.** ह० कृ० भग० २, ५;

**अडेत्ता.** सं० कृ० भग० ३, १;

**अड. पुं० ( अट् )** रोभराधनी पांखवाणी। पा-रैवा यक्षा वगेरे. कबूतर के पंख समान पंख वाला पक्षी विशेष. गौरैया वगैरह. A bird, such as dove, sparrow etc. जीवा० १;

**अड. त्रिं० ( अष्ट )** आठनी संभ्या; ८. आठ; द. Eight; ८. क० गं० ३, २०; ४, २५;—तीस. त्रिं० ( -विशत् ) आठवीश; ३८. अडतीस; ३८. thirty-eight; 38. क०गं० २, २७;—नउइ. छी० ( -नवति ) अटाणुं; ६८. अठानवे; ६८. ninety-eight; 98. प्रव० ३६६;—वग्न. त्रिं० ( -पञ्चाशत् ) अटावन; ५८. अठावन; ५८. fifty-eight; 58. क० गं० १, २; २, ६; प्रव० ३७२;—वीस. त्रिं० ( -विशति ) अटावीश; २८. अद्वैतीस; २८. twenty-eight; 28. क० गं० १, ३१;—सहि. छी० ( -चष्टि ) अउसड; ६८ नी संभ्या. अइसठ; ६८ की संख्या. sixty-eight. “विमलस्स णं अरहश्चो अडसट्टी समणसाह-स्त्रीओ” सम० ६८;

**अडई. छी० ( अटवा )** अटवी; जंगल. जंगल; वन. A forest; a jungle. सु० च० द; १३६;

**अडजभ.** त्रिं० ( अदाङ्ग ) अभिन्थी व्याणी श-क्राय नदि तेवुं. जो आमिन से न जल सके. In-capable of being burnt. ठा० ३, ३; भग० २०, ५; पंचा० १४, ३४;

\***अडड.** न० ( अटट ) ८४ लाख अउडांग प्रभाणु कालविशेष. ८४ लाख अडडांग प्रमाण काल.

A period of time measuring eighty-four laces of Adadāngas.

“ चउरासीइं अडडांगसयसहस्राइं से एओ अडडे” अगुजो० ११६; भग० ५, १; ६, ७; २५, ५; ठा० २, ४; जीवा० ३, ४; ज० प० २,

१८;—अंगा. न० (-अङ्ग) ८४ लाख त्रुटित

प्रभाषु काणविशेष. ८४ लाख त्रुटित प्रमाण काल. a period of time measuring eighty-four lacs of Trutihas. भग० ५, १; २५, ५; ठा० ३, ४; अणुजो० ११६;

**अद्दण.** न० ( अटन ) अटन करनुः; रघुनुः; इरुनुः. भटकना; फिरना. Wandering. ठा० ६;

**अद्दपलाण.** न० ( जाटदेश स्वगामरुयाते८न्यत्र च थिलिरितिप्रसिद्धे वाहनभेदे ) वाहन विशेष. एक तरह की सवारी. A kind of vehicle. जावा० ३;

**अद्दयाल.** त्रि० ( अष्टचत्वारिंशत् ) ४८; अडतालीस. अडतालीस. Forty-eight. क० गं० २, १५; ६, २७; प्रब० १७; ३७२; भग० ३, ७; पञ्च० २; जं० प०—सय. न० (—शत) अडतालीस अधिक से; ऐक से अने अडतालीस. एक सौ अडतालीस; १४८. one hundred and forty-eight; 148. क० गं० २, २५;

\***अद्दयाल.** पुं० ( प्रशंसायाम् ) प्रशंसा; द्वार्ता; वभाषु. प्रशंसा; तारीफ़; कीर्ति. Fame; praise. पञ्च० २; जं० प० १, ११;

**अद्दयालीस.** त्रि० ( अष्टचत्वारिंशत् ) अडतालीस; ४८ नी संभ्या. अडतालीस की संख्या. Forty-eight. “धमस्स यं अरहणो अडयालीसं गणा” सम० ४८; भग० ५, ८; ६, ७; १४, १२; १८; अणुजो० ११६; जं० प० २, १६;

**अद्दयि.** त्री० ( अटवी ) नंगक; अटवी. जंगल; वन. A forest. ठा० ५, २;—जस्ता. त्री० (—यात्रा ) अटवी-नंगकनी मुसाइरी. बनयात्रा; जंगल की मुसाइरी. travel in a forest. निसी० १६, ११;—संसिय. त्रि० (—संक्षिप्त ) अंगारी आशीने रहेका.

बनवासी; जंगल में रहने वाला. residing in a forest. विवा० ३;

**अद्दवी.** त्री० ( अटवी ) नंगक; अटवी. जंगल; वन. A forest. नाया० १५; १८; १६; भग० १५, १; ओव० ३६; जं० प० १, १०; परह० १, १; सु० च०७, २३६; विशे० १२११; राय० २६२;—जस्मण. न० ( —जन्मन् ) अटवी-नंगकमां जन्म थाय ते; नंगकप्रस्तुतिनुः दुःख. वन में जन्म होना; जंगल में प्रसूति होने का दुःख. birth in a forest; pain of child-birth in a forest. परह० १, १;—वास. पुं० (—वास ) नंगकमां वसतु ते; अटवीनिवास. बनवास. जंगल में वसना. residence in a forest. “ उम्बिग-अप्यया असरणा अद्वीवासं उर्वेति ” परह० १, ३;

**अडिल्ल.पुं०**(=अटिल-चर्मचर्टी) यामडानी पांझ-पागे० अंक पक्षी; यमगीदह. चमडे के पंखों वाला एक पक्षी; चमगीदह. A kind of a bird having wings of leather. पञ्च० १;

**अद्दोविय.** त्रि० ( आदोपित ) भरेल. भराहुआ. Full. परह० १, ३;

\***अद्दुवियदु.** त्रि० ( इतस्ततः ) आभ तेम; आयुं पाषुङ्ग; क्षम विनानु. इधर उधर; आगे पीछे; क्रम रहत. Confused; disorder-ed; at sixes and sevens. प्रब० ७५४;

**अद्दृ.** त्रि० (आद्य) धन धान्यादि थी परिपूर्णः; सभृद्धिवान्. धनधान्यादि से युक्त; समृद्धि-वान. Rich; wealthy. गाया० १; ३; ५; ७; १३; १४; १५; १६; भग० २, १; ५; २, १; ६, ३३; १५, १; २५, ७; राय० २८६;—इज्जा. त्री० (—इज्जा-आद्यः) क्रियमाये-ज्या आद्येज्या ) धनाद्य पुंजे करेक सकार; सूखविशेष. धनाद्य पुरुष के द्वारा किया हुआ

**सालार;** सुखविरोध. respect shown by a rich man. ठा० १०;

**अर्द्ध.** न० (अर्द्ध) अर्ध; अर्डमुँ; अर्डघो भाग. आधा; आया हिस्सा. A half; half. नंदा० स्थ० ३३;—**अपकंति.** ली० (—अपकान्ति-अर्द्धस्यासमग्ररूपस्य एकदेशस्य वा एकादिपदात्मकस्यापक्रमणामवस्थापनं शेषस्य तु द्वयादिपदसंघातरूपस्य एकदेशस्यार्द्धव गमनं यस्यां रचनायां सा) अऽतुभ्राण्ये ज्वन्य, भैष्यम अने उत्कृष्ट तपस्याना परिमाणमां वध घट कर्वी ते; ज्वन्य, १ भैष्यम २ अने उत्कृष्ट ३ उपवासमांथी अेक देश अेट्टे प्रथम ज्वन्य पहनो त्याग कर्वी ते; दाखलातरीड ग्रीष्म अऽतुभां ज्वन्य, १ भैष्यम २ अने उत्कृष्ट ३ उपवास कर्वा, त्यार पछी शिशिर अऽतुभां ज्वन्य, २ भैष्यम ३ उत्कृष्ट ४ उपवास कर्वा, वर्षा अऽतुभां पशु अभ समज्वुः ऋतु के अनुसार ज्वन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तपस्या के परिमाण में न्यूनाधिकता करना; ज्वन्य, मध्यम और उत्कृष्ट उपवास में से एक देश अर्थात् प्रथम ज्वन्य पद का त्याग करना. उदाहरणार्थ-ग्रीष्म ऋतु में ज्वन्य, १ मध्यम २ और उत्कृष्ट ३ उपवास करना, शिशिर ऋतु में ज्वन्य, २ मध्यम ३ और उत्कृष्ट ४ उपवास करना, वर्षा ऋतु में भी इसी क्रम से समझना आहिये. progressive and regressive regulation of the three kinds of penance vizlowest, middle, and highest according to season; e. g. if two fasts are middle in summer, they become lowest in winter. विशेष० १२७२;—उरुग. पुं० (—उरुक-अर्द्ध-सुरुकाद्विभजतीत्यदोरुकः) डेढ अने साथी उपर वीटवानुं साखीनुं अेक उपगरण, डे वे भक्ती यदी जेवुं, अवग्रहान्तक पहनी

उपर डेढ वीटी लाई साथी उपर इश्थी अंधाय छे. साधी के पहिनने का एक वस्त्र, जो कमर और घुटनों के ऊपर के भाग पर लपेटा जाकर अवग्रहानन्तक पट के ऊपर कच्चों से बांधा जाता है. a garment worn by female ascetics round the waist and the thigh. प्रब० ५३७;—**क्षेत्र.** न० (—चेत्र) अेक अल्लोरात्र परिमित क्षेत्र पर्यंत चंद्रनी साथे लेग जेडनार नक्षत्र; उत्तराभाद्रपद, उत्तराद्वालगुनी, उत्तराषाढा, रोहिणी, पुनर्वसु अने विशाखा अे छ नक्षत्र. एक अहोरात्र तक चंद्र के साथ सम्बन्ध रखने वाला नक्षत्रसमूह; उत्तराभाद्रपद, उत्तराकालगुनी, उत्तराषाढा, रोहिणी, पुनर्वसु और विशाखा ये छः नक्षत्र. a constellation remaining in conjunction with the moon for a day and a night. These constellations are, Uttarābhādرا pada, Uttarāphālgunī, Uttarāśadhā, Rohipī, Punarvasu and Viśākhā. स० प० १०;—**भरत.** पुं० (—भरत) भरतक्षेत्रने अर्ध भाग. भरत क्षेत्र का आधा भाग. one half of Bharata Kṣetra. कष्प० १, २;—**रत्त.** पुं० (—रात्र) भैष्य रात; अर्ध रात. मध्य रात्रि; आधी रात. dead of night, midnight. ओघ० निं० ६६२;

**अर्द्धदग्धा.** त्रिं० (आर्द्धक) संपत्तिथी भैष्य. सम्पत्ति से भरा हुआ. Wealthy; full of wealth; replete with wealth. पंचा० १२, १४;

**अद्वाईज्ञ.** त्रिं० (अर्द्धतीय-अर्द्ध तीयं यत्र सत) अटी; ऐ अने अर्द्ध. अद्वै. Two and a half. पञ्च० १, १८; राय० १०४; जीका० ३, १; अणुजो० १३४; भग० २, ८; ६, ३१५;

१४, ६; २४, २०; विशा० १; निसी० २०,  
३६; दसां० ५, २३; विशे० ६६३; ओष्ठ० नि०  
७२३; प्रव० ४०६; आव० ४, ८; जं० प०  
१, १४;—दीक्ष. पुं० (-दीप) अढी दीप;  
जन्यूदीप, धातकीभंडीप अने पुष्करदीपों  
अर्द्धभाग-अर्द्धपुष्करदीप। ऐम ए अने  
अर्द्ध-अढी दीप; पिस्ताणीस लाख जेजनना  
विस्तारभां छे, ऐमांज मनुष्यनी वसति छे,  
ऐट्टले ते मनुष्यक्षेत्र कहेवाय छे. अढाई दीप;  
जंवूदीप, धातकीखंड दीप और आधा पुष्कर  
दीप इन अढाई दीपों का विस्तार ४५ लाख  
योजन है, इसी ज्ञेत्र मे मनुष्य रहते हैं,  
अतः इन अढाई दीपों को मनुष्यज्ञेत्र भी कहते हैं.  
two continents and a half;  
viz Jambū-Dvīpa, Dhātakī-  
Dvīpa and half of the Puṣkara  
Dvīpa, their extent is forty-  
five lacs of Yojanas. Human  
beings live only in these and  
therefore they are called  
Manusyakṣetra. मग० ६, ३३;

**अणा.** धा० I. ( अण ) प्राण धारणु करया;  
गति करवी. प्राण धारण करना; गति करना.  
To breathe; to move.

**अणह.** विशे० ३४४१;

**अण.** त्रि० ( अनन्त ) अनंतानुअन्धिः उंडुं  
नाभ. अनन्तानुबन्धी का छोटा नाम. An  
abbreviation of Anantānuban-  
dhī. क० गं० १, १७; २, ५; १४; ५, ५७;  
—एगतीस त्रि० (-एकत्रिशत्) अनंतानु-  
बन्धी आदि ३१ प्रकृति. अनन्तानुबन्धी आदि  
३१ प्रकृतिया. thirty-one Prakṛitīs ( Karmic natures ) such as Anantānubandhi etc. क० गं० ३,  
६; —चउबीस. न्त्रि० (-चतुर्विंशति )  
अनंतानुबन्धी आदि चौबीस प्रकृति. अनन्तानु-

बन्धी आदि २४ प्रकृतिया. twenty-four Prakṛitīs ( Karmic natures ) such as Anantānubandhi etc. क० गं० ३, ८; १६;—चुबीस. त्रि० (-चतुर्विंशति ) अनंतानुबन्धी आदि छीस प्रकृति. अनन्तानुबन्धी आदि २६ प्रकृतिया. twenty-six Prakṛitīs ( Karmic natures ) such as Anantānubandhi etc. क० गं० १, ५;

**अणा.** न० ( अण-अणाति गच्छति तासु तासु  
योनिषु जीवोऽनेनेति अणम् ) पाप. पाप.  
Sin. परह० १, १; ( २ ) छाधादि चार  
४५५. कोधादि चार कषाय. four passions  
viz anger etc. “ अणदस नपुंसि-  
त्थिबेयज्ञं च पुरिसवेयं च ” विशे०  
१२८४;

**अणा** न० ( अण ) क२७८; भ३७. कर्ज  
ऋण. Debt. नाया० १८; विशे० १११;  
परह० १, २;—अक्ष. चां० (- चार्त ) २०८ने  
२२७१२; क२८४थी भीडातो. राजा का ऋणा;  
ऋणपाउति. a debtor of a govern-  
ment; a debtor ठा० ३, ४;—कर. पुं०  
(-कर ) भ३७-पाप करनार; चौवीसभै गौषु  
प्राणुतिपान. ऋण-पाप करने वाला; चौवीसवा  
गाँण हिंसा. a sinner; a borrower;  
the twenty-fourth subordinate  
variety of Himsā. परह० १, १;  
—धारण. पुं० (-धारक-अण्यं व्यवहार  
देयं द्रव्यं तथो धारयति स:) क२०८१२; देषुद्वार.  
ऋणी; देनदार. a debtor. विशा० ३;  
नाया० १७; १८;—बल. पुं० (-बल )  
दीध्रिद पेशा पाणि लेवा-वसुल करवानु जेमि  
पण-सता छे ते. दिये हुए कर्ज को बसल  
करने का सता वाला. ( one ) able to  
recover the money lent. परह०  
१, २:- भंजग. पुं० (-भञ्जक ) देषु

न आपे ते; क्रूर लागे-न आपे ते;  
देवाणीये। कर्ज़ न चुकाने वाला; दिवालिया.  
a bankrupt; an insolvent. पञ्च १; ३;

**अण्णइ.** अ० ( अनति ) अत्यंत नष्ट; अति-  
कमधुने अभाव. आधिक्य रहित; अत्यन्त  
रहित. अतिक्रमण का अभाव. Absence  
of excess. तंडु—वर. त्रिं (—वर—न  
विद्यते अतिवरं यस्मात्तदनिवरम्) प्रधान;  
सर्वोत्तम; श्रेष्ठमां श्रेष्ठ. मुख्य; सर्वप्रेष्ठ;  
सर्वोत्तम. pre-eminent; of highest  
excellence. श्रोव०—वित्तंविद्यत्त.  
म० (—विद्यमित्तत्व) सत्यवचनना उप  
अतिशब्दमानो २८ मे। अतिशय; विद्यमे  
नष्ट पश्य अभ्यं विद्यमे विद्यमुं ते. सत्यवचन  
के १५ अतिशयों में से २८ वाँ अतिशय;  
रुकते हुए न बोलकर धाराप्रवाह से बोलना.  
the twenty-eighth of the  
thirty five Atisayas of truthful  
speech; speaking fluently  
without a break. राय०—संघाण.  
न० (—सन्धान) अव्ययन; न छेतरवुं ते.  
कषट न करना; वंचन न करना. absence of  
deceit. “मियगायाहसंधायां सासयदुदीय  
जयया य” पंचा० ७, ६;

**अण्णइकमणिज्ञ.** त्रिं. ( अनतिक्रमणीय )  
नेभां व्यभियार, अतिव्याप्ति आदि हेतु  
आवे तेवे। जवाय. ऐसा उत्तर जिसमें  
व्यभिचार, अतिव्याप्ति आदि दोष न हों.  
A reply free from logical  
fallacy. “अण्णइकमणिज्ञाहं वागरथाह”  
भग० १५, १;

**अण्णइवस्तिय.** सं० कृ० अ० ( अनतिपत्त्य )  
न उक्खंधाने; अतिपात-दिसा न करीने. न  
उल्लौँधक; विना हिसा किये. Without  
having killed; without having

transgressed; “अण्णइवस्तियं सम्बेदि  
पायायां” आया० १, ६, ५, १६४;  
**अण्णइवाएमाणा.** व० कृ० त्रिं (अनतिपातयत्)  
नष्ट भारतो; हुःभ नष्ट आपतो; प्राणुति-  
पात नष्ट करतो. न मारते हुए; हुःख न देते  
हुए. Giving no pain; not kill-  
ing. “अण्णवक्खमाणा अण्णइवाएमाणा”  
आया० १, ०, ३, २०७; १, ६, ३,  
१८७;

**अर्णंग.** न० ( अनङ्ग ) विपृथसेवनना मुख्य  
अंग शिवायना अंग-स्तन, कुक्षि, मुख, छाती  
वगेरे. विषयसेवन के मुख्य अंग के सिवाय  
अन्य अंग-स्तन, कुक्षि, मुख, छाती आदि.  
Parts of a body other than  
the sexual organ e. g. breasts,  
arm-pit, face, chest etc. पंचा० १,  
११; ( २ ) यनावटी लिंग आदि. कृत्रिम  
लिंग आदि. an artificial sexual  
organ. टा० ३, २; ( ३ ) विपृथ  
सेवन के हस्ताक्षर आदिनी छृष्टि. विषय  
सेवन की या हस्तक्रिया आदि की इच्छा.  
desire for sexual intercourse,  
masturbation etc. प्रव० १०७६;  
( ४ ) वार अंगसूत्री आद्य-किन्न. वारह  
अंगसूत्रों से बाह्य-भिज. not included in the twelve Anga-  
Sūtras. विशे० ८४;—कीडा. छी०  
(—कीडा) अनेदे अंगे कीडा-कामचेष्टा  
करवी ते; हस्ताक्षर, कुर्यमर्दनादि हुयेष्टा  
करवी ते; श्रावक्तना चोथा अथुतनो  
त्रिले अतिचार. अनंगकीडा करना; हस्त  
मैथुन करना; कुचमर्दन आदि कुक्त्य; श्रावक  
के चाँथे अणुव्रत का तीसरा अतिचार.  
third Atichāra of the fourth  
Anuvrata of Śrāvakas; amorous  
dalliance. प्रव० २७८; १५१६;

उवा० १, ४८; पंचा० १, १६,—एडिसे-  
विणी. छी० (—प्रतिसेविणी )—अनेके अंगे  
विषयसेवन करनारी; परपुरुष साथे व्यभिचार  
सेवनारी. नियमित अंगों के सिवाय दूसरे अंगों  
से विषयसेवन करने वाली; परपुरुष के साथ  
व्यभिचार करने वाली। a woman of  
licentious character. ठा० ५, २;—  
प्यविद्वद्. न० (—प्रविष्ट) अंग अहारनां स्त्रोः;  
उववाई वजेरे स्त्रोः. अंगवाई सूत्र—उववाई  
वगैरह सूत्र. Sūtras not included  
in the Aṅgasūtras; e.g. Uvavāi  
etc. नंदी०

आणंगसेणा. छी० ( अनन्तसेना ) इष्टवासुदेवना  
पर्याप्तमां द्वारकानी मुख्य गणिका—वेश्या.  
कृष्णवासुदेव के समय की द्वारिका में रहने  
वाली मुख्य वेश्या. The principal  
prostitute of Dvārikā in the  
time of Kṛiṣṇavāsudeva. अंत०  
१, १; नाया० ५; निर० ५, १;

अणंत. त्रि० ( अनन्त ) अंत-छेड़ा वगरनुं;  
निःसीम; अभ्यांप्यातने पशु उद्धंधी ग्रेल;  
अनंत; निरवधि. अन्त रहित; सीमा रहित;  
असंख्यात से भी बहुत अधिक; अनन्त.  
Unlimited; infinite.“ अणंते शिहृप  
ज्ञोए सासए य विश्वसति” सूय० १, १, ४, ६;  
ओव० १०; २०; ४०; नाया० १; १५; भग०  
१, १; ४; २, १; १०; ३, १; ५, ४; ६; ७,  
७; १४, ४; १६, ६; २४, १६; उत्त० ४, ५;  
१०, ६; २८, ८; सम० १; १६; २५; स० १०  
२०; राय० २३; नंदी० स्थ० ३४; पिं० निं०  
भा० २८; ४४; ठा० १, १; अणुजो० ४८;  
विशे० ५३४; (२) न० डेवणिशान. केवल  
ज्ञान. perfect knowledge. नाया० ८;  
(३) न० आकाश. आकाश. the sky. भग०  
२०, २; (४) दुं०/ भरतक्षेत्रना. यालु  
अवसर्पिणीना १४ भा. तिर्थक्त्र अनंतनाथ.

भरतक्षेत्र की वर्तमान अवसर्पिणी के १४ वें  
तीर्थकर अनन्तनाथ. Anantanātha the  
14th Tīrthaṅkara of the present  
Avasarpiṇī of the Bharata  
Kṣetra. अणुजो० ११६; सम० ५४; भग०  
२०, ८; (५) त्रि० अत्यंत; प्रेक्षत्. बहुत  
ज्यादह. too much; abundant. ग्रा०  
४, १; (६) पुं० अनन्तकाय; कंदमूलादि.  
अनन्त काय; कन्दमूलादि. roots etc.  
( containing many lives ). पञ्च०  
११;—उत्सर्पिणी. छी० (—उत्सर्पणी )  
अनंती उत्सर्पिणी; कालविभागविशेष.  
अनंती उत्सर्पिणी; कालविभागविशेष.  
Utsarpīṇī ( an ascending cycle  
of time ) going on eternally.  
क० गं० २, ८६;—कर. त्रि० (—कर )  
संसारनो अंत करने अशक्त; संसारनो  
अनंत न करनार. संसार का अन्त करने में  
अशक्त. powerless to attain final  
bliss. “ तेषात्तिसंजोगमतिप्यहाय,  
कायोवगायांतकरा भवति ” सूय० २, ६,  
१०;—काय. पुं० (—काय ) अनंतकाय;  
कंदमूलादि. अनन्तकाय; कन्दमूलादि.  
vegetables growing under-  
ground, and containing infinite  
lives. प्रव० २१५; पञ्च० ११;—काय-  
मिस्स. त्रि० (—कायमिश ) अनंतकाय-कंद  
मूलादि साथे भेणसंभेल थयेल. अनन्त  
काय-कंदमूलादि के साथ मिला हुआ. mixed  
up with vegetables containing  
infinite lives. निसी० १०, ५;—काल.  
पुं० (—काल ) अनंतकाय; छेड़ा वगरनो  
काय. अनन्त काल. eternity. परह० १,  
२;—गुण. पुं० (—गुण ) अनंतगुण-  
वधारे; अनंतगुण. अनन्त गुण. infinitely  
multiplied. उत्त० २४, १०; भग० ६, ३;

७, ७; द, २; १२, ४; १७, १२; २०, १०; २५, ४; क० प० १, २६; क० गं० ४, ४२; ज० प० २, २७;—गुणिय. त्रि० (—गुणित) अनंत गुण—वधारे; अनंतगाण्डि; अनंते गुणेत. अनंत से गुणा किया हुआ; अनंत गुणित. infinitely multiplied. क० प० १, ३१; प्रव० १४४६;—घाइ. पु० (—घातिन्-अनन्तविवरयतया अनन्ते ज्ञानदर्शने हन्तुं विनाशयितुं शीकं येषां से अनन्तधातिनः) आत्माना भूणि गुणुनी धात करनार कर्मप्रकृति; धाति कर्मनी प्रकृति. आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाली कर्मप्रकृति. a variety of Karma destructive of the spiritual qualities of the soul. “पस्त्थजोगपदिक्षे य यं अणगारे अणंत-बाहपूजज्ञवे च वेह” उत्त० २६, ७;—चक्रबू. पु० (—चक्रू) अनंत-अंतविनानुं यक्षु-ज्ञाने छे नेतुं ते; डेवणीजानी. अनन्तज्ञान वाला; केवलज्ञानी. one having perfect knowledge; omniscient. “तरिउं समुइं च महाभवोर्वं अभयंकरे वीरे अणंत-चक्रू” सूय० १, ६, २५;—जीव. त्रि० (—जीव) अनंतकायिक्षयवाणी वनस्पति; कृद्भूत वर्गे रे साधारण वनस्पति. अनन्तकायिक जीव वाली वनस्पति; कंदमूल वैग्रह साधारण वनस्पति. vegetation with infinite lives in it, e. g. radish, carrot etc. “जस्स मूलस्स भग्गास्स, समो भंगो य दीसह। अणंतजीवे उ से मूले, जेयावयणे तहाविहा॥ जस्समूलस्स कट्टाओ, छुर्ली बहवतरी भवे। अणंत जीवा उ सा छुर्ली, जायावयणा तहाविहा॥” पञ्च० १; भग० ७, १;—जीविअ-य. पु० (—जीविक) अनंत श्वर्व लेभां छेते; अनन्त कायिक वनस्पतिविशेष. जिसमें अनन्त जीव हों; अनन्तकाय वाली वनस्पति. vege-

tation with infinite lives in it, e. g. roots etc. भग० द, ३; ठा० ३, १;—णाण. न० (—ज्ञान-अनन्तं स्वपरपर्यायापेक्षया वस्तु ज्ञायते येन तदगत्तज्ञानम्) डेवणीज्ञान. केवलज्ञान. omniscience; perfect knowledge. दस० ६, १, ११;—णाणउवगाम. पु० (—ज्ञानोपगत) डेवणीज्ञान प्राप्त करेल; डेवणीज्ञानी. केवल ज्ञान युक्तः केवलज्ञानी. having perfect knowledge; omniscient. दस० १, १, ११;—णाणदंसि. पु० (—ज्ञानदर्शिन्-अनंतं ज्ञानं दर्शनं च यस्यासावनन्तज्ञान-दर्शी) डेवणीज्ञान अने डेवणीदर्शनवाणी; डेवणी. केवलज्ञान और केवलदर्शन वाला; केवली. having perfect omniscience and perfect right belief. “अणंत-णाणदंसी से, धर्म देसि तवं सुतं” सूय० १, ६, २४;—णाणि. पु० (—ज्ञानिन्) अनंतज्ञानी; डेवणीज्ञानी. अनन्तज्ञानी; केवलज्ञानी. one having perfect knowledge; omniscient. “अणंतज्ञाणी य अणंतदंसी” सूय० १, ६, ३; भग० ६, ७; दसा० ६, १८;—दंसि. पु० (—दर्शिन्) डेवणीदर्शनी; डेवणी तथा सिद्ध भगवान्. केवलदर्शन वाला; केवली तथा सिद्ध भगवान्. Kevali and Siddha gods; one possessed of perfect right belief. सूय० १, ६, ३;—एपसिअ. पु० (—प्रदेशिक) अनंत प्रदेशिक स्कंध; अनंतं परभाष्य लेगा। थवादी अनेकी एक वस्तु. अनन्त प्रदेशिक स्कंध; अनन्त परमाणुओं के एकत्रित होने से बनी हुई एक वस्तु. a thing made up of innumerable atoms. भग० २, १; ५, ७; द, २; १८, १४, १०; १८, ६; द, २५, ४; अणुजो० ११२; ठा० १,

१;—पार. सी० (—पार-अनन्तः पारः पर्य-  
न्तो यस्य कालस्य सोऽनन्तपारः ) अपार.  
अपार. infinite; endless; bound-  
less. “केण अर्णंतं पारं संसारं हिंडह जीवे”  
आउ० “ से पश्या अक्षयसागरे वा, महो-  
दहि वा वि अर्णंतपमे” सूय० १, ६, ८;  
—भाग. पुं० (—भाग) अनंतमेभाग-अंश.  
अनन्तवां हिस्सा. infinitesimal part.  
भग० १, १; १८, ३; २५, ६; अणुजो०  
१४५; उत्त० ३३, २४; विशेष० १४०; क०  
प० १, १०;—भागहीण. त्रि० (—भाग-  
हीण) अनंतमेभागे अधृत-हीण. अनन्तवें भाग  
से कम-न्यून. infinitely less; infini-  
tesimally less. भग० २५, ६;—भाग-  
मध्यभृहिय. त्रि० (—भागाभ्यधिक) अनंत-  
मेभागे अधिक. अनन्तवें भाग से अधिक. infinite-  
limally more. भग० २५, ६;—  
मिस्सिया. सी० (—मिश्रिता) प्रत्येक वन-  
स्पति पासे पेल अनंतकाय-कंदमूल आदि  
ज्ञेधने एम कडवुं के “आ बहुं अनंतकायिक  
छे” ते सत्यभृषा भाषानो एक लै। प्रत्येक  
वनस्पति के पास में पढे हुए अनन्तकाय-  
कंदमूलादि को देख कर यह कहना कि,  
“ये सब अनन्तकाय हैं” यह सत्यमृषा  
भाषा का एक भेद. a kind of speech  
partly true and partly false; e. g.  
seeing a mixture of Ananta-  
kāya (roots full of infinite lives)  
and Pratyeka vegetable, to  
call the whole an Ananta-  
kāya without mentioning the  
Pratyeka-kāya vegetable. पञ्च०  
११;—मीसिय. न० (—मिश्रक) जुओ  
“अर्णंतमिसिया” १४८६. देखो “अर्णंत-  
मिसिया” शब्द. vid०, “अर्णंतमिसिया.”  
ठा० १०;—मोह० त्रि० (—मोह) अनंत-

अंत विनानो भेद-दर्शनभेदनीय ज्ञेने छेते;  
मिथ्याती-अतानी. अंतरहित मोह-दर्शनमो-  
हनीय वाला; मिथ्यात्वी; अज्ञानी. infinite-  
ly deluded in the matter of  
right belief. “ दीवप्पण्डे व अर्णंत  
मोहे, भेषाउयं दट्टुमदट्टुमेव ” उत्त० ४,  
५;—वग्ग. पुं० (—वर्ग) अनंतने अनंत  
युथा करना ते; अनंतानो वर्ग. अनन्त को  
अनन्त से गुणा करना; अनन्त का वर्ग. multi-  
plying the infinite and making  
it infinite-fold. ओव०—वग्गभृहिय.  
त्रि० (—वर्गभृत) अनंतने वर्गे करी भाग  
पाइेक-०हेयथु करेत. अनन्त का वर्ग करके  
फिर उसका विभाग किया हुआ. divided  
into infinities. “ सोऽर्णंतवग्ग-  
भृहिय, सम्बागासेण भीएज्जा ” ओव०  
—वसियाखुप्पेहा. सी० (—वसितानुप्रेष्ठा-  
अनन्ता अर्थन्तप्रभृता वृत्तिर्वर्तनं यस्यासा-  
वनन्तवृत्तिः, तस्य भावस्थानुप्रेष्ठा अनन्तवृ-  
त्तिताऽनुप्रेष्ठा ) शुद्धध्याननी एक भावना;  
अनंतकाणथा लव भूमणु थाय छे तेनाथी  
निवर्तवानु चित्तवन करवुं ते. शुक्लध्यान की  
एक भावना; अनंतकाल से होने वाले संसार  
भ्रमण से छूटने का चित्तवन. deep medita-  
tion on emancipation from transmigration; a variety  
of pure concentration of the  
soul on itself ओव० २०; भग०  
२५, ७; ठा० ४, १;—संसारित. त्रि०  
(-संसारिन) ज्ञेने संसारमां अनंता लव  
२५४७ छे ते. ऐसा जीव जिसे संसार में अनंत  
भवों तक भ्रमण करना है. involved in  
the cycle of endless births and  
deaths. भग० ३, १;—संसारिय. पुं०  
(-संसारिक) ज्ञेने संसारमां अनंत लव  
करवा छे एवा ७४३. ऐसा जीव जिसे संसार

में अनन्त भव भारण करना है, a being involved in the cycle of endless births and deaths. राय० ७६; ठा० २, २;—समय. पुं० (-समय) अनंता समय. अनंत समय. a period of time ranging from one to infinite Samayas. ठा० १, १; पञ्च० १;—समयसिद्ध. पुं० (-समयसिद्ध) ज्ञेने सिद्ध थे अनन्त समय था। हेतु ते. जिसे सिद्ध हुए अनन्त समय—असंख्य काल व्यर्तात हुआ हो वह. A Siddha who attained or is said to have attained liberation infinite time ago. “एगा एक्समय सिद्धाणं वगणा एगा आणिक्समयसिद्धाणं वगणा एगा पढमसमयसिद्धाणं वगणा एवं जाव अणंतसमयसिद्धाणं वगणा” ठा० १, १; पन्न० १;—हिय. न० (-हित) भेद्ध. मोक्ष. salvation; final emancipation; absolution; eternal beatitude. दस० ६, २, १६;—हियकामुय. त्रि० (-हितकामुक) भेद्धाभिदापी; भेद्धनी धृष्टधावणी; सुभुद्धु. मोक्ष का अभिलाषी; मोक्ष का इच्छा वाला; सुमुक्तु. aspiring to final emancipation. “कि पुण्यं जे सुशमगाही अणंतहियकामुप” दस० ६, २, १६;

**अणंतम्-य.** पुं० ( अनन्तक ) रजेहरथ. शातु का रजोहरण-उपकरण. A kind of brush kept by a Sādhu to remove dust, insects etc. ओष० नि० २८८; ( २ ) जंबूदीपना धरवत क्षेत्रना शातु अवसर्पिणीना चैदमा तीर्थक२. जंबूदीप के इरपतक्षेत्र सम्बंधी वर्तमान अवसर्पणी के १४ वें तीर्थकर. the fourteenth Tirthankara of the

present Avasarpī of the Iravata region of Jambūdvipa. सम० प० २४०; ( ३ ) अनन्तकाम. अनन्त काम. Anantakāya. पंचा० १, ११; भुष्पति; भुष्पविका. मुंहपति. mouth-cloth or mouth-screen. “मुहयंतय-देहा” प्रव० ६३; ( ५ ) त्रि० अन्त रहित. अनंत रहित. endless; eternal. प्रव० १३२१; .

**अणंतक्खुत्तो.** अ० ( अनन्तकृत्वस ) अनीती वार; अनंता प्रभत; अनंतीवेग। अनन्त वार. Repeated for endless times; infinite times. “असति अदुवा अणंतक्खुत्तो” भग० १२, ६; २, ३; ६, ५; ११, १; १२, ७; १४, ६; ११, १; १२, १; जं० प० ७, १७६;

**अणंतग.** न० ( अनन्तक ) आभरजुविशेषः भुजमां पहेरवानुं ऐक धरेहुं. आभरण विशेष; बाँहों में पर्हनने का आभूषण. An armlet; a bracelet. राय० १८६; ( २ ) शाश्वत; अविनाशी. शाश्वत; अविनाशी. eternal. “चित्त अणंतगं सोयं, निरवेक्ष्मो परिव्यप्” सूर्य० १, ६, ७; ( ३ ) गखुनीरूप संभ्याविशेषः जुतानंत, परितानंत अने अनंतानंत ए त्रयु अथवा ऐकुना जघन्य, भैष्यम्. अने उत्कृष्ट ऐभ त्रयु त्रयु भेद हेवाधी नव भेदमानो गमे ते ऐक. गिन्तारूप संख्या विशेष; युक्त अनंत, परीतानंत और अनन्तानंत के उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम की अपेक्षा से नौ भेद होते हैं उनमें से एक. ( Math. ) infinite; infinity-it is of three kinds viz Juttānanta, Parittānanta and Anantānanta each divideds into minimum, medium and maximum. “से किंतं

अणंतपु ? अणंतपु तिविहे पश्यासे, तंजहा परिचाण्तपु जुत्ताण्तपु अणंताण्तपु” अणु-जो० (४) उन्नुं वस्त्रः कामण वगेरे. कम्मल वगैरह ऊनी वस्त्र. woollen clothes such as blankets etc. शोघ० नि० १६;

अणंतग. त्रि० ( आनन्दक ) गणुवानो एक भेद. संख्या का एक भेद. Mode of numerical calculation. “ पंचविहे अणंतगे पश्यासे ” ठा० ५, ३;

अणंतजिण. पु० ( अनन्तजिण ) यातु अवसर्पिणीना भरतक्षेत्रना॑ १४ भा॒ तीर्थक॒२. वर्तमान अवसर्पिणी काल के भरतक्षेत्र के १४ वें तीर्थकर. The fourteenth Tirthankara of the Bharata Kṣetra of the present Avasarpīṇī. प्रव० २६४;

अणंतथ. पु० ( अनन्तार्थ ) धृवतक्षेत्रना॑ आवती योर्थीसीना॑ वीरामा॒ तीर्थकरनुं नाम॒ इवतक्षेत्र के आगमी चौर्वासी के २० वें तीर्थकर का नाम. Name of the 20th Tirthankara of Irvata Kṣetra in the coming Chovīśī. प्रव० १०४;

अणंतर. न० ( अनन्तर ) अन्तरविना॑; अन्तर रहित. अन्तर बिना॑; अन्तर हीन. Without intervening space; spaceless. नाया० १; द; १५; १६; भग० २, १; ५, १; ४; ११, द; १३, १; १५, १; १६, ३; २३, १; ३४, ४; (२) पछी; बाद. पश्चात्; बाद. afterwards; then. पश्च० २; दसा० १०, ३; राय० ६६; कप्प० १, २; क० प० २, ५; (३) नृष्टै॒. नजदीक; पासः adjoining; close to. पिं० नि० २७६; (४) विच्छेद ग्रेवे भारभा॑ दृष्टिवाद अंगना॑ वीज विभाग-स्थानो वाच्यमे॑ भेद. विच्छेद. हुए बारहवे॑ दृष्टिवाद अङ्ग के दूसरे विभागसूत्र का

पांचवाँ भेद. the 5th division of the 2nd Vibhāga Sūtra of the 12th Āṅga viz. Dṛiṣṭivāda, which is no longer extant. नंदी० ५६; —आगम. न० (-आगम) तीर्थकरे गणुधरने संबण्डवेद आगम; आगमनो एक भेद. तीर्थकरों ने गणधरों को सुनाया हुआ आगम; आगम-शास्त्र का एक प्रकार. a mode or variety of scriptures; a division of scriptures. भग० ५,४; स्य० नि० टी० १,१, १, २८; —आहार. पु० (-आहार) शुवे॑ उत्पन्न थया पछी पहुले समये लीधिलो आहार. उत्पन्न होने के बाद पहिले समय में जीव ने लिया हुआ आहार. the first food taken after birth by a living being. भग० १३, ३;—आहारग. पु० (-आहारक) शुवना॑ प्रदेशनी॑ छेक पासे रहेला॑-आंतरा॑ रहित. रहेला॑ पुद्धगतनो आहार करनार नारङ्गी॑ वगेरे शुवे॑. जीव के प्रदेश के बिलकुल पास वाले पुद्धल का आहार करने वाले नारङ्गी॑ वगैरह जीव. hellish beings eating matter in immediate contact with living beings. भग० २६, ६; ३३, ६; ठा० १०; (२) उत्पन्न थया पछी पहुले समये आहार लेनार. उत्पन्न होने के बाद पहिले समय में आहार लेने वाला. one taking food in the first moment after birth. पञ्च० ३४; ठा० १०;—उवशिष्ठा. लां० (-उपनिधा॑-उपनिधानमुपनिधा॑, अनन्तरे॑-गोपनिधाऽनन्तरोपनिधा॑-मार्गणा॑) अनन्तर-मंडेना॑ योगस्थान सथे तेना॑ पछीना॑ योग-स्थाननी॑ भार्गेण्या॑ करवी॑ ते. मिले हुए योग-स्थान के साथ उसके पांचे के योगस्थान की मार्गणा॑ करना. investigation of an immediately succeeding Yoga.

sthāna. परह० २, ५;—उवचरणग.  
पुं० (-उपपञ्चक-न विद्यतेऽन्तरं समयादि  
व्यवधानसुपञ्चे उपपाते येषां तं अनन्तरो-  
पपञ्चाकाः) प्रथम सभयमां उत्पन्न थयेत्  
श्च; एने उपर्युक्ते एक सभय थयो छे ते.  
प्रथम समय मे उत्पन्न जाव; जिसे जन्म लियं  
एक ही समय हुआ हो. a being  
after whose birth more than  
one Samaya or instant has  
not passed. भग० १३, १०;  
१४, १; २६, २; २६, १; ठा० १०;  
—ओगाढ़. त्रि० (-अवगाढ़) प्रकृत सभय-  
मां आकाश प्रदेशने अवगाढ़ी रहेत्. प्रकृत  
समय मे आकाश प्रदेश को अवगाहन  
कर ठहरा हुआ. localised in  
space in the time present.  
भग० १३.१; ३३, १;—ओगाढ़ग. पुं०  
(-अवगाढ़क) प्रकृत सभयमां आकाश प्रदेशने  
अवगाढ़ी रहेत् श्च. प्रकृत समय मे आकाश  
प्रदेश को अवगाहनकर ठहरा हुआ जाव.  
a living being localised in space  
in the time present. ठा० २, २; भग०  
२६, ४;—खेत्तोगाढ़. त्रि० (-खेत्रावगाढ़)  
प्रकृत वस्तुना छेक परसेना आकाश प्रदेशने  
अवगाढ़ी रहेत्. प्रकृत वस्तु के विलक्षण नजदीक  
के आकाश प्रदेश को रोके हुए. localised  
in space immediately next to  
the thing present. “ऐ अण्ठंतरखेत्तो-  
गाढ़ पोगाखे अन्तमायाए आहोरेति” भग०  
६, १०;—गांठेय. त्रि० (-ग्रन्थित )  
अंतर। विना एक गांठनी साथे भीश, भीशनी  
साथे त्रील एव श्वेत. विना अन्तर के  
पास पास लगा हुई गांठों से गुंथा हुआ.  
knotted without intervals; closely interwoven. भग० ५,  
३;—सिद्धग. त्रि० (-निर्गत ) अंतर।

विना—युगपत्—योक्ता सभये नीडेल. युगपत्-  
एकसाथ निकले हुए. started simulta-  
neously. भग० १४, १;—पच्छाकड़.  
त्रि० (-पश्चात्कृत-अनन्तरः अव्यवधानेन यः  
पश्चात्कृतः सः) वर्तमाननी ज्ञेतैनो आगते।  
सभय; वर्तमानथी पहेलानो सभय. वर्तमान  
से मिला हुआ पहिला समय. the im-  
mediate past. स०प० ८;—पञ्जसग.  
पुं० (-पर्यासक-न विद्यते पर्यासत्त्वेऽन्तरं  
येषां तेऽनन्तरा, ते च ते पर्यासकाश्चेत्यनन्तरं  
पर्यासकाः) पहेला सभयनो पर्यास;  
पर्याप्त थयानो प्रथम सभय. पहिले  
समय के पर्यास जीव; पर्यास होने का पहिला  
समय. the first Samaya of becoming  
Paryāpta or fully developed  
in senses etc. ठा० १०; भग०  
२६, ८; ३३, ८;—पुरुषकड़. त्रि०  
(-पुरुषकृत) वर्तमाननी ज्ञेतैनो पाँछले।  
सभय; बाजे सभय. वर्तमान समय से लगा  
हुआ दूररा समय ( आगे का समय ). the  
immediate future. “अण्ठंतरपुरुषकृते  
कालसमयंसि ” स० प० ८;—वृंध. पुं०  
( वन्ध ) अंतर। विनानो वृंध. अन्तर रहित  
बंध. uninterrupted bondage. भग० २०, ७;—सिद्ध. पुं० (-सिद्ध) प्रकृत  
सभयमां सिद्ध श्वेत होय ते; प्रथम सभयना  
सिद्ध. प्रकृत रामय में जो सिद्ध हुआ हो; प्रथम  
समय का सिद्ध. the Siddha of the  
immediate past. ठा० २, १; भग० २४,  
४; नदी० २०; पश० १;  
अण्ठंतरहित्य-य. त्रि० (-अनन्तरहित ) स-  
चित; श्वय सहित; सचित्त; सजाव. Living;  
containing life. जे भिक्षु माडगामस्त  
मेहूणवडियाए अण्ठंतरहियाए शुद्धवीए शिसी-  
यावेजा” निर्ण० ७, १६; १३, १; १४, ३२;  
१६, २६; दसा० २, १५; १६; सम० २१;

**अणंतविजय.** पुं० ( अनन्तविजय ) भरतक्षेत्रभां आवती योवीसीभां थनार २४ भा॒ तीर्थकृ. भरतक्षेत्र की आगमी चौवीसी में होने वाले २४ वे तीर्थकर. The would-be twenty-fourth Tirthankara in the coming Chovisi in Bharata Kshetra. सम० प० २४१; (२) जंबूद्विपना धरियत क्षेत्रभां आवती उत्सर्पिणीभां थनार २० भा॒ तीर्थकृ. जंबूद्वीप के इरवतक्षेत्र में आगमी उत्सर्पणी में होने वाले बीसवें तीर्थकर. the would-be twentieth Tirthankara in the coming Utsarpini in the Iravata Kshetra of Jambudvipa. प्रब० २६८; सम० प० २४३; २४३;

**अणंतवीर्य-वी-रिय.** पुं० ( अनन्तवीर्य ) भरत क्षेत्रना आवती योवीशीना त्रेवीशभा॒ तीर्थकृरुं नाभ. भरतक्षेत्र की आगमी चौवीसी के २३ वे तीर्थकर का नाम. Name of the 23rd Tirthankara of Bharata Kshetra in the coming Chovisi. प्रब० २६७;

**अणंतसेण.** पुं० ( अनन्तसेन ) गर्वि अवसर्पिणीना॑ ४ था॒ कुलगर. गत अवसर्पणी के चाँथे कुलगर. The fourth Kulagara of the past Avasarpini. सम० प० २२६; (२) भद्रलपुर निवारी नाग गाथापनिनी भार्या॑ सुलसानो पुत्र; भरीरीते॑ वभुदेव अने॑ देवकीनो॑ पुत्र, डे॑ नेशे॑ २० वर्ष॑ दीक्षा पाणी, १४ पूर्वनो॑ अक्ष्यास कुर्या॑ अने॑ शत्रुंजय॑ उपर सिद्धथया॑. भद्रलपुर निवारी नाग गाथापति की भार्या॑ सुलसा॑ का पुत्र; वास्तव में वसुदेव देवकी का पुत्र, जिसने॑ २० वर्षों तक दाढ़ा पाली और॑ १४ पूर्व का अभ्यासकर शत्रुंजय से मोहृं को गया. the son of Sulasā the wife of Nāga Gāthāpati, a

resident of Bhaddalapura; as a matter of fact the son of Vasudeva and Devakī. He observed asceticism for twenty years, studied the fourteen Pūrvas and obtained salvation on the Satruñjaya. अन्त० ३, २; (३) अंतगडना॑ त्रीणि वर्गना॑ वीज अध्ययननुं नाभ. अन्तगड के तीसरे वर्ग के दूसरे अध्याय का नाम. the second chapter of the third section of the Antagadā Sūtra. अन्त० ३, २;

**अणंतसो.** अ० ( अनन्तशस् ) अनन्त वार. अनन्त-अनेक वार. Endless times; times without number. सूत० १, १, १, २७; १, २, १, ६; भत० ७६;

**अणंतहा.** अ० ( अनन्तधा ) अनन्त प्रकार. अनन्त प्रकार. In infinite ways. भग० १२, ४;

**अणंताणंत.** त्रि० ( अनन्तानन्त ) अनंत गुण्या॑ अनंत; अनंतानंत. अनन्तानन्त; अनन्त से गुणा॑ अनन्त. Infinite multiplied by infinite. भग० १४, २;

**अणंताणुबंधि.** पुं० ( अनन्तानुबन्धिन् ) अनंत काण्ठसुधी॑ आत्माने॑ संसारसाथे॑ अनु-अंध संसारं करावनार कपायनी चार योऽडी-भांनी प्रथम॑ योऽडी. अनन्त कान तक आत्मा को संसार में भटकाने वाले कपाय की चार चौकड़ियों में से पहिली चौकड़ी. The first of the fourfold division of Kaśayas, eternally binding the soul to worldly existence. विशेष० १२८७; भग० ६, ३१; उत्त० २६, १; सम० १६; पञ्च० १४;—कोहृ. पुं० ( -क्रोध ) अनंतखवर्पर्यन् २५४वनार होध. डे॑ ने॑ उत्पन्न धया॑ पक्षी पर्वतनी॑ छाटनी॑

पेडे भरण्य सुधी पथु भुंसाय नहि अने सम-  
क्षितने अटकवे ते देखि. अनन्त भव पर्यंत  
संसार में भटकाने वाला कोध, जो उत्पन्न  
होने के बाद मरण तक न छूटे और जिसके  
कारण सम्यक्त्व उत्पन्न न हो सके. anger  
which causes one to wander in  
worldly existence for eternity,  
the influence of which can  
neither be obliterated nor  
effaced like a cleft in a moun-  
tain, and which precludes the  
possibility of Samyaktva ( true  
religion ). ठा० ४, १;

**अरण्यंतिय.** त्रि० ( अनन्तिक ) पासे नहि; नश्च  
नहि ते. असमाप; दूर. Not near; not  
in the vicinity. भग० ५, ४; ( २ ) त्रि०  
अंत वगरनुः; छेद वगरनुः; अनंत. अंत रहित;  
छोर रहित; अनन्त. endless; eternal.  
“ नरस्स लुद्धस्स न तोहि किंचि, इच्छा हु  
आगाससमा अरण्यंतिया ” उत्त० ६, ४८;

**अरण्यंदमाण.** वा० कृ० त्रि० ( अनन्दत ) सुखन  
भोगवतो। सुख का उपयोग न करता हुआ.  
Not enjoying happiness. तंडु०  
**अरण्यंध.** त्रि० ( अनन्ध ) आंधेवा। नहि ते;  
देखते। जो अनन्ध न हो वह. Not blind;  
seeing. पंचा० ११, ११;

**अरण्यंविल.** त्रि० ( अनमल ) स्वादे देव थथेद  
नहि; जेमां रस यस्ति न थयो। हेय-भाङु  
न पडि गयुं हेय ते. जिसका स्वाद न  
बिगड़ा हो. That which has not  
become sour, or lost its taste  
through decomposition. आया० २,  
१, ७, ४१; निसी० १७, ३०;

**अरण्यंसुधाई.** पुं० ( अनशुपातिन् ) भाँगने।  
परिश्रम-थाँड लाघ्यो हेय तो। पथु आंसु न  
भेरनार; धोडा वगेरे. थक जाने पर भी आँसू,

न बहाने वाला; धोडा बगैरह. ( One )  
not shedding tears though  
fatigued by journey; e. g. a  
horse etc. “ जे अर्चंडपाडि अर्दंडपाडि  
अर्यंसुवाई ” जं० प०

**अरण्यकभिरण.** त्रि० ( \*अनासाभिज्ञ ) नाथ्या  
वगरनो; नाथेद नहि. बिना नथा हुआ. With  
the nose unbored or unperfor-  
ated. “ प्रशिलंचिलुएहि अरण्यकभिरणेहि  
गोयेहि तसपाणविवजिएहि वितोहि वित्ति  
कप्पेमाणा विहरंति ” भग० ८, ५;  
**अरण्यकमित्ता.** सं० कृ० श्र० ( अनाक्रम्य )  
आँडभणु द्यर्या विना; आँडभणु न डरीने.  
बिना आक्रमण किये. Without attack-  
ing; without having attacked.  
भग० १४, ३;

**अरण्यकख.** पुं० ( अमल ) म्लेच्छ देशविरोध.  
म्लेच्छ देश. Name of a country of  
heathens. पञ्च० १; परह० १, १; ( २ )  
त्रि० म्लेच्छ देशमां रहेनार भनुष्य. म्लेच्छ देश  
में रहने वाला मनुष्य. people living in  
Mlechchha Desa. पञ्च० १; परह० १, १;  
४४ **अरण्यकख.** पुं० ( ईर्षायां रोषे च ) धर्ज्या-अटे-  
भाई. ईर्षा. Jealousy. ( २ ) रोप. कोध.  
anger. सु० च० ५, ३७; ६, ५६;

**अरण्यकखर.** न० ( अनक्षर ) अनक्षर श्रुत.  
अनक्षर ( अक्षर रहित ) श्रुत. Illiterate.  
विशेष० ५०१; —सुय. न० ( -श्रुत ) लुओ।  
उपदेशम्. देखो ऊपर का शब्द. vide  
above. नंदी० ३८;

**अरण्यखेआ.** त्रि० ( अनाख्येय ) कथन करवा  
योग्य नहि. कथन करने के अयोग्य. Not  
worth describing. विशेष० २६४७;

**अरण्यग.** न० ( अरण्यक ) झँडु; करें; देणु.  
कर्ज़. Debt. सूय० १, ३, २, ८;  
**अरण्यगाढ.** न० ( अनागाढ ) प्रथम कारणु नहि.

प्रबल कारण नहीं. A cause or reason which is not cogent or urgent.

गच्छा० ११६;

**अणगार.** पुं० ( अनगार-अनागार-न विद्यते आगारादिकं द्रव्यजातं यस्यासौ ) त्यागी; गृहवग्रना-साधु-महात्मा. त्यागी; साधु. A houseless monk; an ascetic who has abandoned all possessions. ओव० १७; पञ्च० १५; ३६; विवा० १; निसी० २०, ११; उत्त० १, १८; २, १४; आया० १, १, २, १५; १, ६, २, १८३; ठा० २, १; दस० ४, १८; सू० १० १; जं० १० २, ३३; नंदी० ६; पिं० निं० २६३; भग० १, १; ६; २, ५; ७, १०; नाया० १; ५; १४; १६; १८;—धर्मम्. पुं० (-धर्म) मुनेधर्म; साधुनो धर्म; सर्व विरति चारित्ररूप यतिधर्म; खंति, मुति आदि दश प्रकारनो यतिधर्म. मुनियों का धर्म; सर्व विरति चारित्ररूप यतिधर्म. duties of an ascetic, ten in number e. g. Khanti etc. “ अणगारधर्मो ताव इह सत्तु सज्जवओ सन्वयाएः मुडे भविता ” भग० १६, ६;—मग्न. पुं० (-मार्ग) उत्तराध्ययन सूत्रना० ३५ भा० अध्ययनननु० नाम; लेभां अणुगार-साधुनो भागी दर्शावयामां आयो छे ते; ( उत्तराध्ययननु० ) ३५भु० अध्ययन. उत्तराध्ययन सूत्र के ३५ वें अध्याय का नाम; जिसमें अनगार-साधु के मार्ग का निरूपण है. name of the thirty-fifth chapter of Uttarādhyayana Sūtra, expounding the duties of a Sādhu. उत्त० ३५, २१;—महेसि. पुं० (-महर्षि) साधुना० युणु युक्त महर्षि-महात्मा. साधुत्व के गुणों से युक्त महर्षि-महात्मा. a great sage having the qualities of a Sādhu or an ascetic. सम०—वाइ.

पुं० (-वादिन) साधुना० युशुरहित हेवा छतां पैताने साधु तरीके आणभावनार; वेष भात्र धूरनार शाक्यादि. साधुत्व के गुणों से रहित साधु; केवल वेषमात्र रखने वाला साधु. & hypocritical saint; an ascetic in name and dress. “ अणगारवाह्यो पुढविहिंसगा निगुणा अगारिसमा ” आया० निं० १, १, २, १००;—विणय. न० (-विनय) अणुगार-साधुनो विनय-चारित्रधर्म. अनगार-साधु का विनय-चारित्रधर्म. right belief, right conduct etc. on the part of an ascetic. नाया० ५;—सहस्र. न० (-सहस्र) हजार अणुगार-साधुओ. हजार साधु. a thousand houseless saints. कप्प० ७, २२७;—सामाइय. त्रि० (-सामायिक) सर्व विरति रूप सामायिक; साधुनो धर्म-आयार. साधुओं का एक प्रकार का आचार; सर्व विरतिरूप सामायिक. the conduct of an ascetic e. g. self-contemplation. ओव०—सीह. पुं० (-सिंह) भुनिभां सिंह सभान. मुनियों में सिंह के समान. lit. a lion of a Sādhu; the most advanced among the Sādhus. “ एवं थुशिताण स रायसीहो, अणगारसीहं परमाह भसिण् ” उत्त० २०, ५८;—सुत्र. न० (-श्रुत) सूत्रगां-गनु० २१भु० अणुगारश्रुतनाभनु० अध्ययन. सूत्र-कृताङ्क का २१ वाँ अध्ययन. name of the 21st chapter of Sūtra-Kritāṅga. सम० २३;

**अणगार.** पुं० ( अनाकार ) अणुगार-दर्शननो-उपयोग; लेभां आडार २५४ प्रतीत न थाय ते उपयोग. दर्शन का उपयोग; जिसमें आकार स्पष्ट न जान पड़े वह उपयोग. Vision without definite perception or form. क० प० १, ६६;—

**प्पाउगमा.** छी० ( -प्रायोग्या ) वंध आश्री अनाकार उपयोगने योग्य प्रकृति. बन्ध का आंत्रियकर अनाकार उपयोग के योग्य प्रकृति. Karmic nature of the above kind, in relation to bondage. क० प० १, ६६;

**अण्णगारिय.** त्रि० ( अनगारिक-अनगारः साधुस्तस्येदम् ) साधु संवर्धी अनुदान वर्गेरे. साधु सम्बन्धी अनुग्रान-कर्मकारण वयोरह. Religious practice etc. concerning or relating to a Sādhu. ओव० २७; उत्त० १०, २६; जं० प० २, ३०;

**अण्णगारिया.** छी० ( अनगारिता ) साधुपाल॒; साधुवृत्ति; साधुने भाव. साधुपना; साधुवृत्ति. Asceticism. “अण्णगारियं पब्बएज्जा” भग० २, १; ६, ३१; ११, ११; १५, १; नाया० १; विवा० १; पञ्च० २०;

**अण्णगलाइअ.** त्रि० ( अनगलानिक- न गलानि- रगलानिः, न अगलानिरनगलानिस्तत्र भवोऽनगलानिकः ) ज्यारे आदार विना ज्यानि थाय त्यारे आदार लेनुं ते. जब आहार विना शरीर में गलान-अशार्क-निर्बलता हो तब आहार लेना. Taking food only when there is discomfort or debility arising from not taking it. परह० २, १;

**अण्णग्ध.** त्रि० ( अनर्ध ) अभूत्य; अहु किम्भती. अमूल्य; बहुत कामती. Invaluable; precious. संत्वा० ४६; जं० प० ३, ५४;

**अण्णर्षंतिय.** पुं० ( अनत्यन्तिक ) भद्रभांग- नारने भुडीने भाडी न ज्युं, किंतु छेवट सुधी. भद्र आपती ते. सहायता मांगने वाले को छोडकर न भागना, किन्तु अन्त तक सहायता देना. Helping a man to the last without deserting him at any time. विशे० १०२८;

**अण्णचाविय.** न० (\*अनस्ति) पडिलेहृषु कृतां पोताने तथा वस्त्रने हलावपां-नचावपां नहि ते; पडिलेहृषुने ऐक शुश. पडिलेहण ( प्रतिलेखन ) करते समय शरीर को तथा वस्त्रों को न हिलाना-न नचाना; पडिलेहण ( प्रतिलेखन ) का एक गुण. Examining garments without moving them or one's own body; a kind of merit in Padilehaṇa. “वरथे अप्पायाम्नि य चउविहं अण्णचावियं” ठा० ६, १; उत्त० २६, २४;

**अण्णचासादण्णा.** छी० ( अनत्याशातना ) जुञ्चा ‘अण्णचासायणा’ शब्द. देखो “अण्णचा-सायणा” शब्द. Vide “अण्णचासायणा.”

भग० २७, ७;

**अण्णचासादण्णा.** छी० ( अनत्याशातना ) जुञ्चा ‘अण्णचासायणा’ शब्द. देखो “अण्णचा-सायणा” शब्द. Vide “अण्णचासायणा.”

भग० २४, ७;

**अण्णचासायणा.** छी० ( अनत्याशातना-अतीव सम्यक्त्वादिक्षाभं शातयति विनाशयतीत्यत्य-शातना न तथा अनत्याशातना ) यु३ आदिनी आशातना न कर्वी ते. गुरु आदि की आशातना न करना. Not showing disrespect or irreverence towards a preceptor etc. उत्त० २६, ४; ओव० २०;—सोल. पुं० ( -शीक ) अनि आशातना न करने वाला. one not given to show disrespect towards a preceptor etc. उत्त० २६, ४;

**अण्णजज.** त्रि० ( अन्याय ) अन्याय युक्त; न्याययुक्तानहि ते. अन्याय सहित. Unjust. परह० १, १;

**आणुजा.** त्रि० (अनार्थ-आराधातं सर्वहेयर्थम्-  
भ्य इत्यार्थं न आर्थमनार्थम्) अनार्थ;  
भ्लेष्ठ; कूर. अनार्थ; म्लेच्छ; कूर. A barbarian; a cruel man. सु० च० १२,  
६६; परह० १, ४; (२) न० पाप कर्म;  
अनार्थ अनुष्ठान. गाप कर्म; बुरा काम. an evil deed. परह० १, २;—धर्म. त्रि०  
(-धर्म-अनार्थाणामिव धर्मः स्वभावो येषां  
ते तथा) अनार्थस्वभावाणो. अनार्थ  
स्वभाव वाला. of evil disposition  
(२) धर्मने नामे अनार्थ कर्म करने वाला. one who does evil actions in the name of religion. सू० १, ७,  
६;—भाव. पु० (—भाव) कैधादि हुण्यु-  
वाणो भाण्युस. कोधादि दुर्गुण वाला मतुष्य.  
a man full of vices such as anger etc. ठा० ४, २;

**आणुजक्षवसाय.** पु० (अनध्यवसाय) निवि-  
कृत्य ज्ञान; विशेषप्रद्वित सामान्य योध.  
निविकल्प ज्ञान; भेदाभेदरहित सामान्य ज्ञान.  
General knowledge without perception of accurate distinctions. विशे० ६२;

**आणुजभोववणा.** त्रि० (अनध्युपपञ्च)  
भूर्भु-आसक्तिर्थी रहित. विषयासक्षि-  
मूर्च्छा से रहित. Free from infatuation or attachment to worldly objects. परह० २, १; भग०  
१४, ७;

**आणुट.** त्रि० (अनन्प) नाश प्रभेद. नष्ट;  
जिसका नाश हो गया हो वह. Destroyed.

“आणुटाकिसी पब्लिक” उत० १८, ४६;

**आणुट.** त्रि० (अनर्थ) अर्थरहित; निरर्थक;  
निष्कल; निष्प्रयोजन. अर्थ-प्रयोजन रहित.

Meaningless; useless. प्रव० ८२७;  
भग० २, ५; १५, १; राय० २२५; निसी०  
१, २०; १८, १; पिं० निं० १०३; दस० ४;  
(२) हानी; तुक्षसानी. हानि; तुक्षसान.  
loss. नाया० १४; परह० १, २;  
—कारण. त्रि० (—कारक) अनर्थकारी;  
पुरुषार्थी धात करना. अनर्थ करने वाला;  
पुरुषार्थ का नाश करने वाला. harmful;  
pernicious. परह० १, २;—किरिया.  
ज्ञा० (—क्रिया) वग्रप्रयोजने आरंभादि क्रिया  
करनी ते. निर्थक आरम्भादि क्रिया करना. doing actions involving killing etc.  
without any necessity. प्रव० ८२५;

**आणुटग.** पु० (अनर्थक) २८ भे॒ गौ॒षु परि-  
शु॒. अट्टावीसराँ गौण परिप्रह. The twenty-eighth Gaupा Parigraha or worldly possession.  
परह० २, १;

**आणुटमिय.** त्रि० (अनस्तमित) नही॒ न्याथ-  
भेदो॑ (भूर्भु). बिना अस्त हुआ (स्त्री). Not yet set; e.g. the sun. वेय० ५, ६;—  
संकल्प. त्रि० (—सङ्कल्प) विस आथभ्या॑  
पहेला भेदे भावानो संकृत्ये छे ते. दिन  
अस्त होने के पहिले जिसका भोजन करने का  
निमय हो वह. having a vow to take  
food before sun-set. वेय० ५, ६;

**आणुटादंड.** पु० (अनर्थदण्ड) अर्थ-स्वार्थ विना॑  
आत्माने हडवो ते; निष्कारण-निष्प्रयोजन  
पाप करना ते; भीजुं क्रियास्थानक. बिना प्रयो-  
जन पाप करना; दूसरा क्रियास्थानक. Pur-  
poseless sin. ठा० २, १; ५, २; सम०  
२; १३;—वासिअ. न० (—प्रस्त्ययिक) वग्र-  
प्रयोजने भाव कृति के व्यसनथी ज्ञवहिसादि  
पापस्थानक से वर्तुं ते; भीजुं क्रियास्थानक. बिना  
प्रयोजन केवल क्रांडा या व्यसन से जीवहिसादि  
पाप कृत्य करना; दूसरा क्रियास्थानक. ठा०

second Kriyāsthānaka viz. incurring sin without any purpose, out of mere humour. “ अहावरे दोषे दंडसमादाये अण्डाबंधवतिएति आहिजाह ” सूय० ३, २, ८;—वेरमण. न० (—विरमण) अनर्थ दुर्थी निवर्ततुं ते; श्रावकनुं आठभुं त्रत. अनर्थ दंड से निवृत्त होना; श्रावक का आठवाँ त्रत. the eighth vow of a Jaina; abstention from purposeless sin. उवा० १, ५२;

**अणदटाबंधिय.** त्रि० ( अनर्थबन्धिक-अर्थेन प्रयोजनेन विना पखमध्ये वारद्वयं ग्रयं वा लक्ष्यनिकाया: कम्बाना बन्धनं यः करोति सो इनर्थबन्धिकः ) विना प्रयोजने पखनाडीयाभां ऐ त्रय वार पात्र वर्गेरेन अंध आपनार ( साधु साध्नी ). वे काम दो तीन बार पखवाडे में पात्रों को बान्ध देने वाला ( साधु साध्वा ). ( One, e. g. an ascetic, male or female ) who unnecessarily fastens together vessels etc. twice or thrice in a fortnight. कप्प० ६, ५३;

**अणडण.** न० ( अनटन ) अटन-भ्रमण न करुं ते. न भटकना. Not wandering or moving from place to place. पंचा० १३, ३४;

**अणद्व.** त्रि० ( अनद्व-न विघ्ने अद्व येषामित्य-नद्वम् ) ज्ञेनुं अर्धन थाय ऐयुं; कटका न थध शेके ऐयुं. जिसका आधा हिस्सा न हो सके. Incapable of being divided into halves; impartible. भग० ५., ७; २०, ५; २५, ४;

**अणद्वि.** त्रि० ( अनद्वि ) ऋद्विथी रहित. ऋद्वि से रहित. Deyoid of prosperity. भग० ८, १; ( २ ) ख्री० ऋद्विनो अलाव.

ऋद्वि का अभाव. absence of prosperity. भग० ८, १;

**अणगुणएविय.** सं० कृ० अ० ( अननुशास्य ) र० १८२; अनुरा सिवाय. विना आज्ञा के; विना अनुमति के. Without permission. आया० २, १, ५, २८;

**अणगुतावित्ता.** सं० कृ० अ० ( अननुशास्य ). तपाया. विना. विना तपाये. Without heating; without having heated सूय० २, ४, १०;

**अणगुञ्जाय.** त्रि० ( अननुशास्त ) आगा नहि आपेक. जिसे आज्ञा न दी हो वह. Not ordered. प्रव० १२६; ६११; सु०च० ७, ११;

**अणगुपालण.** न० ( अननुपालन ) पालन न करुं न पालना. Act of not observing or maintaining. प्रव० २८६;

**अणगुपालण्या.** ख्री० (\*अननुपालनता-अनुपालन) पालन न करुं ते; पाण्युं-वर्तवुं नहि ते. पालन नहीं करना; वर्तन नहीं करना. Non-observance. “ पोसहोववासस्म सम्ममण्युपालण्या ” उवा० १, ५५;

**अणगुचाइ.** त्रि० ( अननुपालन ) सिद्धांतने अनुसरतुं नहि; सिद्धांतथी विद्ध. सिद्धान्त के प्रतिकूल. Not conforming to scriptural texts. प्रव० १२२;

**अणगुचाय.** पुं० ( अननुपात ) न आववुं ते. नहीं आना. Not coming. पंचा० ७, ११;

**अणगुसय.** पुं० ( अननुशय ) गर्वनो अलाव. गर्व का अभाव. Absence of pride. ( २ ) पश्चातापनो अलाव. पश्चाताप का अभाव. absence of repentance. अणुजो० १३०;

**अणगुसासणा.** ख्री० (\*अननुशासना-अननुशासन) शिक्षानो अलाव. शिक्षा का अभाव. Absence of admonition; absence of instruction. नाया० १३;

अण्णरण. त्रिं (अनन्य) भोक्ष भार्गथी भिन्न नहि ते; शानादि. मोक्ष मार्ग से अभिज्ञ. Knowledge etc. falling with the path leading to salvation. “ अण्णरणं चरमाये से ये छुरणे ये छुरणावए ” आया० १, ३, २, ११४; विश० २४; १५६;—आराम. त्रिं (—आराम—मोक्षमार्गादन्यत् न रमत हति ) भोक्ष भार्ग सिवाय थीजे नहि रमनार. मुक्ति मार्ग के प्रतिरक्ष आनंद न मानने वाला. (one) who finds delight in nothing except the path that leads to final bliss. आया० १, २, ६, १०१;—चेट्ठ. त्रिं (—चेष्ट) अन्य-धीलु चेष्टा-प्रवृत्तिवग्नरने. अन्य प्रवृत्तिर्हीन. ( one ) having a single activity or business. पंचा० ४, १६;—दंसि. दिं (—दर्शिन्) यथार्थाभ्य पदार्थ व्येनार; अन्यथा व्येनार नहि ते. पदार्थ को यथार्थ रीति से ( अन्यथा राति से नहीं ) देखने वाला—जानने वाला. looking at a thing from the right point of view. आया० १, २, ६, १०१;—नेय. त्रिं (—नेय) अन्यथी-भीमथी न देश्यते तेवै; स्वयंखुद्. स्वयंयुद्; दुसरे का अनुमरण न करने वाला. self-enlightened. “ खेतारो अज्ञेसि अण्णरणनेया, बुद्धा हु ते अंतकडा हवंति ” ( नच स्वयंबुद्धवादन्येन नायन्ते तत्त्वावशेषं कार्यन्त इत्यनन्यनेया:) सूय० १, १२, १६;—परम. पुं० (—परम-न विद्यते अन्यःपरमःप्रथानो यस्मादित्यनन्यपरमः) संयम; चारित्र. संयम; चारित्र; character; self-restraint. “ अण्णरणपरमं गार्णी, शो पमाए क्याह वि ” आया० १, ३, ३, ११६;—मण. त्रिं (—मनस्-न विद्यते अन्यद् धर्म-ध्यान लक्षणान्मनो यस्य सोऽनन्यमनाः ) ऐक्याग्रीयतयांगे। ऐक्यम् चित्त वाला.

with concentrated mind. ओब० अण्णरणत्त. न० ( अनन्यत्व ) अनन्यपशुः; तन्मयता. अनन्यपना; तन्मयता. Identity. विश० ६४७;

अण्णरहय. पुं० (ःअनाश्रव) आश्रवनिरोधः; नवां कर्मने आपतां अटकावतां ते. आश्रव का निरोध; नवां कर्मों का आश्रव रोकना. Stoppage of the influx of Karma. भग० २, ५; परह० १, १;—कर. त्रिं (—कर) आश्रवनिरोध करनार; नवां कर्मने आपतां अटकावनार. आश्रव का निरोध करने वाला; नये कर्मों का आश्रव रोकने वाला. stopping the influx of Karma. भग० २५, ७;

अण्णरहयस्त. न० ( अनंहस्कत्व-न विद्यते अहः पापं यास्मिन् तत् अनंहस्कं तस्य भावोऽवृ-हस्कत्वम् ) पापरदितपशुः; आश्रवनो अ-भाव. पाप रहितपना; आश्रव का अभाव. Absence of sin; freedom from sin. उच० २६, २६;

अण्णतिक्रमणिड्ज. त्रिं ( अनतिक्रमणीय ) अनिक्रमणु करवा योग्य नहि; उत्तेवता योग्य नहि. न उत्तांघने योग्य. Improper to be transgressed. ओव० ३८; भग० २, ५;—चयण. त्रिं (—वचन-अनतिक्रमणीय वचनं येषां ते) व्यना वयन उत्तेवत करवा योग्य नहीं ते: माता, पिता, गुरु वगेरे. जिसका वचन उत्तांघन करने योग्य न हो; जैसे माता, पिता, गुरु आदि. whose words cannot be transgressed, e. g. parents etc. “ अस्मापिउण्डं अण्णक्रमणिड्जयणा ” ओव० ३८;

अण्णतिविलंबियत्त. न० ( अनतिविलस्वित्तव ) अनिविलंबित ऐक्यमुं ते; वयनना। ३५ अनिशयमानो ऐक्य. विनां विलंब किये बोलना; वचन के ३५ अनिशयों में से ऐक्य-

Speech without too much halting; one of the thirty-five Atisayas of speech. ओव०

अणत्त. त्रि० ( अणात्त ) अ३३३; २२७६२.  
चरणा० ( One ) sunk in debt; a debtor. प्रव० १६८;

अणत्त. त्रि० ( अनात्र-आ अभिविधिना आयन्ते दुःखासंरक्षन्तीति आत्रा, न आत्रा अनात्रा: ) दुःखी न अचापनार. दुःख से न बचाने वाला. Not saving from misery. “ नेरह्याणं भंते ! किं अन्ता पोगला अणत्ता पोगला ? नो अता पोगला अणत्ता पोगला ” भग० १४, ६;

अणत्तहिय. त्रि० ( अनात्मार्थिक ) पौत्रानु करेक नहि ते; असरीकारेनु. बिना अपनाया हुआ. Not accepted as one's own. आया० २, १, १, ८; ( २ ) स्वार्थी नहि ते; परमार्थी. परमार्थी; जो स्वार्थी न हो. unselfish. पराह० २, १;

अणत्तपरण. त्रि० ( अनात्मग्रज-न विद्यते आत्मनी हिताय प्रज्ञा येपां ते ) वेनी भुद्धि अत्महित करामां नथी ते; व्यथ युद्धिवाणो. जिराका द्वार्द्ध आत्महित करने में तपर न हो. ( One ) whose intelligence is not devoted to spiritual progress; ( one ) of futile intellect. “ एगे अवसीयमाणे अणत्तपरणे ” आया० १, ६, १, १७२;

अणत्तव. त्रि० ( अनात्मवत् ) उपायथी युक्त. कायाय वाला. Possessed of moral filth in the form of anger, deceit etc. या० ६;

अणत्तथ. अ० ( अन्यत्र ) भीने स्थले; भीने हेकाणे. दूसरे स्थान पर. At another place; elsewhere. पञ्च० ११;—गय.

त्रि० ( -गत ) भीने स्थले गयेक. दूसरे स्थान पर गया हुआ. gone to another place. भग० ७, ६;

अणत्तथ. पुं० ( अनर्थ ) अनर्थ हेतु किंवद्दि-सम्भे जैषु परिग्रह. अनर्थ हेतु; इक्वासवाँ गौण परिग्रह. A material possession leading to misfortune; the twenty-first Gaupu Parigraha. पराह० १, ५; पंचा० ७, ४१; ( २ ) त्रि० अर्थरहित; निष्प्रयोजन. वे मतलब बिना प्रयोजन. purposeless. नाया० ५, ८; १६, १७; —दंड. पुं० ( -दशद ) प्रयोजन विना कर्मधनमां पड़वुं ते; विना भतलमे कर्मधी दंडवुं ते. बिना प्रयोजन कर्मबंध करना या कर्मफल से दंडित होना. taking in Karma without purpose. ओव०—दंडवच्छ. पुं० ( -दशदवत ) विना प्रयोजने आत्माने दंडवा न देवो ते; श्रावकनु आदमुं त्रत. श्रावक का द वाँ त्रत, जिसमें वे काम आस्मा को नहीं दंडाते. the eighth vow of a Jaina layman viz. guarding the soul against unnecessary evils ( i. e. evil Karmas ). प्रव० २२३; —फलद. त्रि० ( -फलद ) अनर्थकारी इब आपनार. अनर्थकारी फल देने वाला. productive of a disastrous fruit or result. पंचा० ३, ३७;—बाय. पुं० ( -बाद ) निष्प्रयोजन ऐक्षवुं ते. बिना प्रयोजन बोलना. speaking without any purpose. पराह० २, २;

अणत्तथंतर. न० ( अनर्थान्तर-न विद्यतेऽर्थान्तरं यस्य तत् ) ऐक्ष अर्थवाणो। १७६. एकही अर्थ वाला शब्द. A word having only one meaning. विशेष० २२०२; अणत्तथग. त्रि० ( अनर्थक ) निष्प्रयोजन. वे

काम. Causeless; purposeless.

पंचा० ६, ३६;

**अणस्थमियसंकल्प.** त्रि० ( अनस्तमित-सङ्कल्प ) जेने दिवसमां आपानो संडर्स्प छे ते. दिवस में भोजन करने का जिसका संकल्प हो. ( One ) who has vowed to take food during daytime only. वेय० ५, ६;

**अणस्थय.** त्रि० ( अनर्थक ) निरर्थक. निरथक; व्यर्थ. Useless; fruitless. विशे० २२६;

**अणपरिणाय.** पुं० (\*अणपञ्चिक-अप्रज्ञसिक) ड्रूतुखलप्रिय व्यंतर देवतानी ऐक ज्ञत; व्यंतरनी सोण ज्ञतभानी नवभी ज्ञत. कौतूहल प्रिय व्यंतर देवता की एक जाति; व्यंतरों की सोलह जातियों में से नवीं जाति. An order of celestial beings ( the ninth of the sixteen orders ) indulging in pranks.

भग० १०, २; पञ्च० २; परह० १, ४; ओव० २४;

**अणपुण्य.** न० ( अजपुण्य ) अन आपत्ति पुण्य-शुलु कर्म उपार्जन थाय ते. अन्न दान से उत्पन्न होने वाला पुण्य. Good Karma earned by giving food. ठा० ६, १;

**अणपग्गंथ.** त्रि० ( अनर्घ्यग्रन्थ ) आध्यात्मिक ग्रंथनी भाइक जेने तेने आपना योग्य नहि ते; अर्पण करवा अयोग्य जानाहि. आध्यात्मिक ग्रंथ के समान प्रत्येक को न देने योग्य ज्ञान आदि. Spiritual knowledge etc. which cannot be like a sacred book cannot be transferred from hand to hand. ओव०

**अणपग्गंथ.** पुं० ( अनल्पग्रन्थ ) अहुसुत्री. बहुसुत्री; बहुत से सूत्रों वाला. One well-versed in many Sūtras. ओव०

**अणपग्गंथ.** त्रि० ( अनात्मग्रन्थ-अविद्यमान

आत्मनः सम्बन्धी ग्रन्थो हिरण्यादिर्यस्य सः ) परिथित रहित; अपरिथित. परिप्रह रहित; अपरिग्रही. Having no worldly possessions. ओव०

**अणपिय.** न० ( अनर्पित ) अविशेषित; विशेषण विशिष्ट न करेत; अविशिष्ट; साभान्य. विशेषता रहित; सामान्य; साधारण. Possessed of common attributes; similar; alike. या० १०; विशे० २१५३;—णय. पुं० ( —नय-अनर्पितमविशेषितं सामान्य सुन्ध्यते, तद्वादी यो नयः सः ) सर्व वस्तु साभान्यज छे अभ विशेष-निरपेक्ष सामान्य ग्राही नयविशेष. सम्पूर्ण वस्तुओं को सामान्य मानने वाला-सामान्यग्राही नयविशेष. a stand-point which regards all things alike because they possess some common attributes. विशे० २१५३;

**अणबुट्टिय.** त्रि० ( अनभुत्तित ) धर्म करवाने तैयार न थयेत. धर्म करने को जो उयत न हुआ हो. Shirking from duty. नाया० ५; .

**अणबुवगम.** पुं० ( अनभ्युपगम ) अस्वीकार. अस्वाकार. Non-acceptance. क० प० ५, २८;

**अणबुवगय.** त्रि० ( अनभ्युपगत ) श्रुत संपदाने न पामेत; आत्माने न जाणनार. आत्मा को न जानने वाला. Not initiated into the nature of the soul. विशे० १४४७;

**अणभिग्रोग.** त्रि० ( अनभियोग ) चढाई करवा योग्य नहि ते; देखा करवा योग्य नहि ते. आक्रमण करने के अयोग्य; चढाई के अयोग्य. Unworthy of attack; unsuitable for attack. ओव०

**अणभिकंत.** त्रि० ( अनभिक्रान्त ) उक्तं

गयेक नहि; अतुरुद्धित. नहां उलांधा हुआ.  
Not transgressed; not violated.  
आया० १, ४, ४, १३८;—किरिया.  
स्त्री० (-किया) नेमां खीज डेई मतना  
विक्षु उनर्या नथी ऐवी ज्या. ऐसा स्थान  
जहां दूसरे मत का भिन्नु न उतरा हो. a  
place where ascetics of another  
faith have not put up. आया० २,  
२, २, ८१;

**अणभिगम.** पु० ( अनभिगम ) विस्तार पूर्वक  
भेदने अभाव. विस्तृत शिक्षा का अभाव.  
Not containing instructions  
in details. भग० १, ६; ( २ ) सभिता-  
नी अप्राप्ति. रामकृत ( सम्यक्लृत ) की अप्राप्ति.  
non-attainment of right belief.  
“अबोहिए अणभिगमेण” नृश० २, ७, २८;  
**अणभिगहिय.** त्रि० ( अनभिगहिक ) इमत-  
नी प५३ नहि करनार. कुर्मति की पकड़ न  
करने वाला. ( One ) who does not  
obstinately hold to or stick  
to heretical tenets. आ० २, १;

**अणभिगहिह.** त्रि० ( अनभिगृहीत )  
प५३ करेत नहि; आप्रदी० प५३३ नहि.  
न पकड़ा हुआ; आप्रह पूर्वक न पकड़ा हुआ.  
Not held; not persistently held.  
प्रब० ६७३; उत० २८, २६; पष्ठ० १;  
—कुदिहि. त्रि० (-कुदिषि-अनभिगृहीता  
अग्नीहृता कुदिषि-दुमतरुपा येनासौ )  
नेने मिथ्यात्वादी भतनो अंगीकार करेत  
नहि ते. जिसने मिथ्यावादी मत का अंगाकार  
कही किया है. ( one ) who has not  
accepted tenets of heretical  
creeds like those of Buddha  
etc. उत० २८, २६; प्रब० ६७३;—सिज्ञा-  
संगिय. त्रि० (-शष्यासनिक ) शश्यासन  
विष्ट अभिगृहीत रहित. शश्यासन

सम्बन्धी अभिग्रह से रहित. not practising  
any vow relating to things  
used for bedding and seat.  
कप० ६, ५३;

**अणभिगहिया.** स्त्री० ( अनभिगृहीता ) नेना  
अर्थ ज्ञायनहि ऐवी भाषा. जिसका अर्थ न  
जाना जाय ऐसी अव्यक्त भाषा. Unin-  
telligible or incomprehensible  
speech. पन्न० ११; भग० १०, ३;  
प्रब० ६०२;

**अणभिगण.** त्रि० ( अनभिज्ञ ) अज्ञातु; भूर्ख.  
अज्ञान; मूर्ख. Ignorant; foolish.  
विश० १६५६; मु० च० ७, २८६;

**अणभिधेय.** त्रि० ( अनभिधेय ) अवाच्य; नहि  
कहेत योऽप्य. न कहने योग्य. Unworthy  
of utterance; unfit to be told.  
विश० २५;

**अणभिभूत-य.** त्रि० ( अनभिभूत ) पराभव  
नहि भावेत. अपराजित. Not defeated;  
not overpowered. आया० १, ५, ६,  
१६७;

**अणभिलप्प.** त्रि० ( अनभिलाप्य ) ऐत्याने  
अंगाय; वाणीने अंगायर. जो कहा न जा सके;  
वोलने के अंगाय. Unspeakable; inex-  
pressible. विश० १४१;

**अणभिलसमाण.** व० कृ० त्रि० ( \* अनभि-  
लापमाण-अनभिलप्त ) न ४२७तो.  
इच्छा न करता हुआ. Not desiring.  
नाया० १; उत० २६, ३३;

**अणभिवृष्टि.** स्त्री० ( अनभिवृष्टि ) अनावृष्टि;  
वरसाहोता अभाव. अनावृष्टि. Drought;  
absence of rain. प्रब० ४५०;

**अणभिस्संग.** पु० ( अनभिष्वङ्ग ) प्रतिष्वन्ध  
. रहित; भ्रंग-देपरहित साधु. प्रतिबन्ध रहित;  
संग-परिग्रह रहित साधु. Free from

attachment, e. g. a Sādhu. पंचा० १४, १७;

अणभिस्तंगओ. अ० ( अनभिष्वङ्गत् ) प्रति-  
यन्ध रहित पथे. प्रतिवन्ध रहितपन से.  
Without attachment. पंचा० ४, ३५;

अणभिहसेमाण. व०क० त्रि० ( अनभिन्नत् ) न  
हुएनो; न धात करते. न मारता  
हुआ; न धात करता हुआ. Not  
killing. “ तपशं अम्हे पुढवि अपस्तेमाण  
अणभिहसेमाण ” भग० ८, ७;

अणभिहाण. त्रि० ( अनभिधान ) नाम रहित.  
नाम रहित. Nameless. विशे० ६१;

अणरिह. त्रि० ( अनर्ह ) अयोध्य; नावायक.  
अयोध्य. Unfit; unworthy. नाया० १;  
भग० १५, १;

अणल. पुं० ( अनल-नास्ति अलः पर्यासिर्य-  
स्य ) अभिन. आग. Fire. परह० १, १;  
( २ ) त्रि० अनेग; नावायक. अयोध्य. unfit;  
unworthy. निर्सी० ११, ३३; ३५;

अणलंकिय. त्रि० ( अनलंकृत ) अदंकार वगर-  
नो; आभूपश्चादि रहित. आभूपणादि से रहित.  
Devoid of ornaments. निर्सी० १२,  
३४; उत्त० ३०, २२; भग० २, १; १८, ५;  
—विभूसिय. दि० ( -विभूषित ) अदंकार  
अने विभूषा-वस्त्रादिनी शोभाथी रहित.  
अलंकार और वस्त्रादि की शोभा रहित.  
devoid of the splendour of ornaments, dress etc. भग० २, १;

अणलक्षिय. त्रि० ( अलक्षित ) अनलयु. नहीं जाना हुआ. Unknown; not  
marked. पि० नि० ३६५;

अणलिय. न० ( अनलीक ) युहन्दि ते; सत्य.  
सत्य. Not-falsehood; truth. भत्त० १५७;

अणलुक्क. त्रि० ( अनलोक्य-लोकितुं योग्यो  
लोक्यः, न लोक्यः. अलोक्यः, न अलोक्यः

अनलोक्यः ) नजरे हेखाय तेवुं; दृष्टिगोयर.  
दृष्टि से देख सकने योग्य; दृष्टिगोचर.  
Capable of being seen; visible.  
‘ अणलुक्क लुक्मिति अप्पाणं मञ्चह ॥ ”  
भग० १५, १;

अणज्ञियणिज्ज. त्रि० ( \*अनाश्रयणीय ) आ-  
य करना योग्य नहि. आश्रय करने  
के अयोध्य. Unfit to be resorted to;  
unworthy. ‘ विसवहिअणज्ञियणिज्जाओ ॥ ”  
तंडु०

अणवं. पुं० ( ज्ञणवत् ) दिवसनुं २६ मु-  
षेऽत्तर मुहूर्त. दिन का २६ वाँ लोकोत्तर  
मुहूर्त. The twenty-sixth Lokotta-  
ra Muhūrta of a day. जं० प० ७,  
१५२; स० प० १०;

अणवकंखमाण. त्रि० ( \*अनवकाङ्क्षमाण-अ-  
नवकाङ्क्षत् ) न भृत्यो थंडे; भोगनी धृष्टा  
नहि राखते. इच्छा न करता हुआ; भोग की  
इच्छा न रखना हुआ. Not desiring; not  
desiring enjoyments. “ सुसंबद्धा  
पंचंहि संवरेहि इह जावियं अणवकंखमाण ”  
उत्त० १२, ४२; नाया० १; १६; भग० २, १;  
३, १; कप्य० ६, ५१; आया० १, ६, ३, १५७;  
१, ७, ३, २०७; ओव० ३६; जं० प० ३, ७०;

अणवकंखवति. न० ( अनवकाङ्क्षवृत्ति-अनव-  
काङ्क्षा परप्राणनिरपेक्षा स्वगतापायपरि-  
हारनिरपेक्षा वा वृत्तिर्वतनं यत्र वैरे तत्था )  
नेभां परप्राणनी अथवा पौत्राना पापना  
परिदृश्नी अपेक्षा राखनामां नथी आदती  
अथवा वर्तनायुं पैर वेरभान्. जिसमें दूसरे  
के प्राणों की अथवा अपने पाप के परिहार की  
अपेक्षा नहीं रखी जातीं ऐसा वृत्ति वाला वैरभाव.  
Feeling of hostility devoid of  
regard for another's life as also  
for the sin incurred by destroy-  
ing it. The attitude of the

mind being as careless about another's life as about one's own sinlessness. भग० १, ८;

**अणवकंखवत्तिया.** ऋ० ( अनवकाङ्क्षप्रत्यया—अनवकाङ्क्षा स्वशरीराद्यनपेक्षत्वं सैव प्रत्ययो यस्याः सा अनवकाङ्क्षप्रत्यया ) पौत्रानी के परनी शुद्धीनी अपेक्षा राख्या विना साहसरी पापक्रिया थाय ते. अपनो या दूसरे की जिदंगी की परवाह किये बिना जो साहस से पाप क्रिया हो वह. Sinful action rashly done without regard for one's own or another's life. “अणवकंखवत्तिया किरिया दुविहा पश्चत्ता, आयसरीरअणवकंखवत्तिया चेव परसरीरअणवकंखवत्तिया चेव” ठा० २, १;

**अणवकंखा.** ऋ० ( अनवकाङ्क्षा ) धृष्णानो अभाव. इच्छा का अभाव. Absence of desire. ठा० १, १;

**अणवगय.** त्रि० ( अनवगत ) न ज्ञानागेनुं नहीं जाना हुआ. Not known. ठा० ४, ४;

**अणवगम्भ.** त्रि० ( अनवकल्प—वार्द्धक्यरहित ) जराग्रीषु नष्टि थथेव; जरा वगरनो. ब्रह्मावस्था से रहित; जो जराजर्ण नहीं हुआ है. Not infirm through old age. अणुजो० १३८; भग० ६, ७;

**अणवज्ञ.** त्रि० ( अनवद्य ) निर्देषः प्राप रहित. निर्देष; पाप रहित. Innocent; not guilty; faultless. ( २ ) न० पाप-दैषनो अभाव. पाप-दोष का अभाव. innocence; absence of guilt. ओध० नि० ७४६; दस० ७, ३; ४६; भग० ५, ६; विशेष० ७२; ६६८;—भासा. ऋ० ( -भासा ) पाप-दैषरहित भासा; निरवद्य भासा; डैषने दुःख न उपजावे तेवी

भासा. पाप-दोष रहित भासा; निरवद्य भासा. किसीको दुःख न देने वाली भासा. faultless and harmless speech. भग० १६, २;

**अणवट्ट्य.** न० ( अनवस्थाप्य ) दोषभाटे साधुने आपवाना प्रायश्चित्तने। एक प्रकार जेमां अमुक वर्षतसुधी साधुने व्रतथी भहार राखी ते पछी लेवामां आवे तेतुं एक प्रायश्चित्त. दोषी साधु को देने योग्य एक प्रकार का प्रायश्चित्त; जिसमें अमुक समय तक साधु को व्रत बाहिर रख फिर उसे साधुत्व में ले लेते हैं ऐसा एक प्रायश्चित्त का प्रकार. A mode of administering expiation to a monk for a sin, by temporarily expelling him from the fraternity of monks. ओव० १६; प्रव० ७६२; वव० २, ७;

( २ ) त्रि० अनवस्थाप्य नामे प्रायश्चित्तने योग्य. अनवस्थाप्य नामक प्रायश्चित्त के योग्य. ( one ) deserving of the expiation named Anavasthāpya. वेय० ४, ३;—**आरेह.** न० ( -अह-पस्म-जासेविते कञ्चन कालं व्रतेष्वनवस्थाप्यं कृत्वा पश्चाच्चिर्णतया तहोपापरतो व्रतेषु स्थाप्यते तदनवस्थाप्यार्हम् ) नवमुं प्रायश्चित्त; डैष० आपवाने, दोष सेवनार साधुने अमुक वर्षतसुधी व्रत भहार राखी, तप डैषनी निवृत्ति थया पछी व्रतनुं आरोपणु डैरवामां आवे ते प्रायश्चित्त. नवाँ प्रायश्चित्त; जिसके द्वारा दोषी साधु को अमुक समय तक व्रत बाहिर रखकर तप कराने के बाद दोष की निवृत्ति हो जाने पर पांच उसे व्रत अंगीकार कराया जाय वह प्रायश्चित्त. the ninth variety of expiation; a Sādhu temporarily debarred from observing a vow and made to

undergo penance. ठा० १०; भग० २५, ७,

**अणवद्विय.** दि० ( अनवस्थित ) अप्रिथर. अस्थिर. Unsteady. उवा० १, ५३; ( १ ) अनियतप्रभाषुवाणोः जेनुं एके सरभुं प्रभाषु नथी ते. अनियत प्रमाण वाला; जिसका प्रमाण एक समान न हो. varying; changing. “ अणवद्विया गं तथ खलु राहंदिया परणता ” चं० प० ८; प्रव० २८४; तंड० २६;—करण. न० ( —करण ) साभापिक्तो वधत पुरो थया पहेला पाणिनु ते; आपकना नवभा प्रतो नो पांचमो अनियार. आवक के ६ वें व्रत का ५ वाँ अतिचार; सामायिक का समय होने से पहले ही पालन करलेना. the fifth partial violation ( Atichāra ) of the 9th vow of a Jaina layman; viz failing to observe the time fixed for Sāmāyika. प्रव० २८४;—संठाण. न० ( —संस्थान ) एक टेक्ष्ये रिथनि न कर्वी ते; निरंतर गति कर्वी ते. एक स्थान पर स्थित न रहना; निरंतर गमन करना. perpetual motion. जीवा० ३;

**अणवणीयत्व.** न० ( अनपनीतत्व ) क१२५, क१७, वयन, लिंग आदि दोषी अयुक्त; सत्यवयननो २५ मे। अतिशय. कारक, काल, वचन, लिङ्ग आदि दोषों से अयुक्त; सत्य वचन का २५ वाँ अतिशय. Not being faulty in the matter of case-inflection, tense, gender etc; the 25th supernatural manifestation of truthfulness in speech. सम० ३५;

**अणवणिण्य.** सु० ( \*अनपश्चिक=अप्रज्ञसिक ) व्यन्तर देवानी एक ज्ञात. व्यन्तर देवों की छोटी ( प्रथम ) जाति के देव. A deity of the minor class of

Vyantara gods. पञ्च० २; भग० १०, २;

**अणवत्तप्या.** छी० ( अनवन्नाप्यता ) अंग दीनता. अंग हीनता. Bodily defect; deformity of limbs of the body. ठा० ८;

**अणवत्था.** छी० ( अनवस्था ) अनवस्था दोष; नेहीनो। क्यांय पथु अनवस्थान न थाय-छेड़े न आवेत्यां अनवस्था दोष उपरिथित थाय छे. अनवस्था दोष; जहाँ दलील-युक्ति का कहीं भी अवस्थान न हो—अन्त न हो उसे अनवस्था दोष कहते हैं. A fallacy in logic leading to ad infinitum argument. विशे० १५; महा० ५० ३१; अणुजो० १४८;

**अणवदग.** त्रि० ( अनवनताग्र-अवनत-मासमग्रमन्तो यस्य तत्त्वा, तत्त्विधादनवनताग्रम् ) अनंत; ऐडायगरुं. अनंत रहित; नित्य; अनन्त. Endless; perpetual. भग० १, १;

**अणवदग.** त्रि० ( अनवदग-न विद्यतेऽवदग्रं पर्यन्तो यस्य सोऽयमनवदग इति ) अंत वगरुं; छेड़ा वगरुं; अनंत. अंत रहित; नित्य; अनंत. Perpetual; endless. भग० १, १; २, १; ५, ६; ७, ७; ६, ३२; १२, २; १५, १; १६, ६; नाया० २; ओव० २१; परग० १, ३; सूय० २, २, ८२; ठा० २, १;

**अणवयक्षमाण.** व० क१० त्रि० ( अनपेक्षयत् ) न अपेक्षा राखते; न जेते. अपेक्षा न रखता हुआ; न देखता हुआ. Not seeing; not desiring; not expecting. “ अणवयक्षमाण सेलपूण जक्खेण ” नाया० ६;

**अणवयक्षिकता.** सं० क१० अ० ( अनन्देच्य ) न जेत्यनी; जेत्या विना. न देखकर; बिना देखे. Without seeing or having seen. “ जेणं नो पम् मग्गओ रुकाइ

अग्रण्यवद्विक्षता यं पासितए ” भग० ७, ७;  
अग्रण्यवर्गं. त्रि० ( अनवदग्र ) जुओ ‘ अग्रण्यवदग्र ’ शब्द.

Vide ‘ अग्रण्यवदग्र ’. भग० १, १;

अग्रण्यवरय. त्रि० ( अनवरत ) निरंतर; हमेश.  
सदा; हमेशह. Always; perpetually.  
नाया० १; भग० ६, २३; सु० च० १, १११;  
ओव० ३२; जं० प० २, ३०; पंचा० ५, ४४;

अग्रण्यवराह. त्रि० ( अनपराध ) अपराध  
रहित. अपराध रहित. Faultless;  
guiltless. विशेष० १८४०;

अग्रण्यविक्षया. छां० ( अनपेक्षा ) अपेक्षा-हेभ-  
रेख न राखवी ते. देव रेख न रखना.  
Absence of proper supervision.  
गच्छा० ३८;

अग्रण्यवेक्षत्वमाण. व० कृ० त्रि० ( अनपेक्षमाण )  
अपेक्षा न राखता. अपेक्षा न रखता हुआ.  
Not expecting. “ धुणे उरालं  
अग्नुवेहमाणे, चिच्छाण सोयं अग्रण्यवेक्षत्वमाणे ”  
सू० १, १०, ११; नाया० १६;

अग्रण्यसंलग्न. न० ( अनशन ) हमेशनेमाटे के  
थेआ। वाघनेमाटे अनभाष्यना त्याग  
करवै ते; उपवास अथवा संथारा. सदा के  
लिये या अल्प काल के लिये अञ्जलि का त्याग  
करना; उपवास अथवा संथारा. Fasting;  
giving up food and water for  
some time or permanently.  
ओव० १६; भग० २, १; ३, १; २५, ७; नाया०  
५.; द; १४; १५; सम० ६; ठा० ६, १; सू० १,  
२, १, १४; उत्त० ३०, द; निर० ३, १;  
प्रव० २७१; नाया० ८०

अग्रण्यसायणा. छां० ( अनाशातना ) गुड आदि-  
नी आशातना ( अनःदर ) न करवी ते. गुरु  
आदि की आशातना ( अनादर ) न करना.  
Not showing disrespect or ir-

reverence to a preceptor etc.  
प्रव० ५५८;

अग्रण्यसादेमाण. व० कृ० त्रि० ( अनासादयत )  
अग्रण्यपाभतो; न प्राप्त करता. ग्राप्त न करता  
हुआ. Not obtaining. “ पव्यं वा  
विसमं वा अग्रण्यसादेमाणे ” भग० १५, १;

\*अग्रणह. त्रि० ( अक्षत ) नाश वगरनुं, नाश रहित;  
नित्य. Indestructible. सु० च० २,  
३४;—समग्र. त्रि० ( -समग्र ) सहिस-  
लाभत भाल अने सहिसलाभत कुटुंभवालो;  
रस्तामां योरादिकथी नेनुं धन तुंटाएलुं नथी  
ते. सुरक्षित धन और कुटुंब वाला; रस्ते में  
चोर वैराह में जो न लूटा गया हो वह. with  
property and family quite safe.  
“ लद्धेण कथकज्जे अग्रणसमग्रे शियंगं घां  
हन्बमाणए ” नाया० द; ६; १८;

अग्रणह. त्रि० ( अनव ) पाप वगरनुं; निरवद्य.  
पाप से रहित; पर्वत्र; निर्दोष. Sinless;  
faultless; pure. पंचा० १६, ४५;  
ओव० ३२; नाया० द; प्रव० ६६६;

अग्रणहय. त्रि० ( अनाहत ) नवुं; वापरेलुं नहि.  
नया; व्यवहार में न लाया हुआ. New;  
unused. जावा० ३, ३;

अग्रणहार. पुं० ( अनाहार ). अणुलार२५ ( आ-  
हार न लेवै ते ) भार्गणु-द्वार. अग्रणहा-  
रक मार्गणा—द्वार. Fasting. क० गं०  
४, २१;

अग्रणहिग्रय. त्रि० ( अनधिगत ) अग्नितार्थी;  
शास्त्रवेता नहि ते. शास्त्रों को नहीं जानने  
वाला; शास्त्रज्ञान रहित. Not conversant  
with Sāstras. विशेष० ३७७;

अग्रणहित्तमाण त्रि० ( \*अनधीयमान-यान )  
न अणुतो. न पढ़ता हुआ. Not study-  
ing. “ ते विज्जभावं अग्रणहित्तमाणा,  
आहंसु विज्जा परिमोक्षमेव ” सू० १,  
१२, १०;

**अशहिणिविद्.** त्रि० ( अनभिनिविष्ट ) अभि निवेश-इुभतना आथुधी रहेत. कुमत के आप्रह से रहत. Not attached to, free from, insistence on false doctrines. पंचा० ३, २८;

**अणाइल्लपाडणगणयर.** न० (\* प्रभासपत्तन-नगर) सौराष्ट्र-युर्जूर प्रान्तभाँ आवेद ऐ नाभनुं नगर; प्रभासपाटण्. गुजरात-काठियावाड में सरस्वती नदी के तट पर एक प्राचिन्द्व तार्थस्थान; प्रभासपाटन. Name of a town in Saurāṣṭra in Gujarat; also named Prabhūṣa-Pāṭan. भग० २४, १;

**अणाईण.** त्रि० ( अनर्धीन ) स्वाधीन; परन्त्र नहि. स्वतंत्र; स्वाधीन. Independent. विशेष० १८७५;

**अणाहीय.** त्रि० ( अनर्धीन ) अभ्यास न करेत; न ज्ञेयः. विना पढ़ा हुआ. Un-educated. गच्छा० ४३;—परमत्थ. पुं० ( -परमार्थ-अनर्धीता अनभ्यस्ता: परमार्थां आगमरहस्यानि वैस्तेऽनर्धीतपरमार्थाः ) अर्गीतार्थी; शास्त्रवेता नहि ते. शास्त्रज्ञान रहित; शास्त्रों को न जानने वाला. one, not conversant with the truths of Śāstras. “ जे अणाहीयपरमत्थे, गोयमा ! संज्ञापु भवे. ” गच्छा० ४३;

**अणाइ.** त्रि० ( अनादि-न विद्यते आदि: प्राथ-म्यमस्तेत्यनादिः ) अ हि-शङ्काना वगरनु; अनादि काणथी याव्यु आवृ. आदि रहित; अनादि काल से चला आता हुआ. Beginningless; coming down from eternity. ओव० २१; ठा० ३, १; ओघ० नि० ७७५; कठ० गं० ५, ४; कठ० प० २, ६; विशेष० ५३७;—रिहणा. त्रि० ( -निधन ) अनादि अनन्त; जेनां अपि अने अन्त न थी तेवुं. जिसका आदि और अन्त न हो;

अनादि अनन्त. having neither beginning nor end; eternal. सम० —संताण. पुं० ( -सन्तान ) अनादि प्रवाह; अनादि परंपरा. अनादि प्रवाह; अनादि परम्परा. uninterrupted; stretching from eternity. “ अणाइसंताणकम्बवंधण-किळेसचिक्षक्षुद्धुत्तरां ” ओव० परह० २, ३; —सपउजवसिश्च. त्रि० ( -सपर्यवसित ) नंनी अदि नथी पशु पर्यवसान-छेदो छे ते. जिसका आदि न हो परन्तु अंत हो. ( one ) without a beginning but having an end; beginningless but not endless. प्रव० १३२१;

**अणाइश्च-य** त्रि० ( अनादिक ) अनादि; उत्पत्ति रहित; शब्दान् वगरनु. अनादि; उत्पत्ति रहित. Without a beginning; without creation. भग० २, १; ८, ८; उन० ३६, ८; आया० १, ७, १, १४६; प्रव० १३२१;—सिद्धन्. पुं० ( -सिद्धान्त ) अनादि काणथी सिद्ध थेवेत् ८८ थेवेत् सिद्धान्त. अनादि काल से स्थापित; अनादि कान गे रुदि में आया हुआ. established from eternity. अणुजो० १३१;

**अणाइश्च.** त्रि० ( अज्ञातिक ) रवज्ञ-कुरुं वगरना. विना कुटुम्ब का. Destitute of relatives. भग० १, १;

**अणाइश्च-य.** त्रि० ( अणातीत-अणमणकं पापमसिशयेनेत गतमणातीतम् ) पापने प्राप्त थेवु. पाप युक्त; पाप को प्राप्त हुआ. Passing into the limit of sin; become sinful; constituted into sin. भग० १, १;

**अणाइश्च-य.** त्रि० ( क्षणातीत ) क्षणवाणो; हेषुद्दृ; क्षणद्दृ, कर्जदार; ऋणी. A debtor. भग० १, १;

**अशाइज्ज्ञ.** न० ( अनादेय ) नामकर्मनी एक प्रकृति के जेना उद्धर्थी भाष्युसनुं वचन मान्य न थाय. नामकर्म का एक प्रकृति, जिसके उदय से मनुष्य का वचन मान्य न हो. A variety of Nāma-Karma by the rise of which a man's words are not accepted (even though they be true ). क० गं० १, २७; —**दुग.** न० ( -द्विक ) अनादेय नाम अने अवसरीनी नाम. अनादेय नाम और अयशः कीर्ति नाम. the two Nāma-Karmas viz Anādeya-Nāma and Ayasajkurti-Nāma. क० गं० २, १६; —**वयण.** त्रि० ( -वचन—अनादेय वचन योगा ते तथा ) अनादेय वचनवाणी; जेनुं वचन-क्रमं पश्य मान्य न इर ते. अनादेय वचन वाला; जिसके वचन का कोई भी मान न करे. one uttering words doomed to disbelief. भग० ७, ६;

**अशाइगण.** त्रि० ( अनाचीर्ण ) साधुने आयरवा योग्य नहि; अकृपनीय; पर अनाचीर्णभाना। गमे ते एक. गायु के आचरण के अयोग्य; अकृपनीय; ५२ अनाचीर्णों में से कोई भी एक. Unworthy of being practised by an ascetic; one of the fifty-two practices unworthy of a Sādhu. “ तेसि मेयमणाहृश्चणं, निगमायाणं मेहेसिणं ॥ १ ॥ उद्देसिणं कायगडं, नियाणं अभिहडाणिय । राहभत्ते सिणाणिय, गंधमल्ले य विश्वणे ॥ २ ॥ संनिहिगिहि-मत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए । संवाहणं दंत-पहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥ अटावण य नाक्षोए, वृत्तस्स य धारणाटाए । तेगि-च्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोहृणो ॥ ४ ॥ सिजायरपिंडं ज, आसंदी पलियंकपु । गिहंतर निसिज्ञा य, गायस्मुवट्टणाणिय ॥ ५ ॥ गिहि-

यो वेयावदियं, जा य आजीववसिया । तस्ता निवुडभोद्दृतं, शाउरस्सरणाणिय ॥ ६ ॥ मूलए सिंगबेरे य, उच्छुलंडे अनिवुडे । कंदे मूले य सचिते, फले थीए य आमए ॥ ७ ॥ सोबच्चले सिंघवे लोगेण, रोमा लोगेण य आमए ॥ ८ ॥ धुवरेत्त वमणे य, वर्थीकम्मविरेयणे । अंजणे दंतवणे य, गायावभंगविभूसणे ॥ ९ ॥ दस० ३, १-६;

**अशाइनन.** त्रि० ( अनाचीर्ण ) साधुने आयरवा योग्य नहि. साधु के न आचरने योग्य. Not worthy of being practised by a Sādhu or an ascetic. प्रव० १०१६;

**अशाइल.** त्रि० ( अनाविल ) स्वरूप; भेद रहित; पाप रहित. स्वच्छ; मैल रहित; पाप रहित. Pure; free from sin. “ अशाइले या अकस्माई भिक्षु, सक्षेव देवाहिवर्ह जुइमं ” सूय० १, ६, ८; १, १४, २१; १, १५, १२; पराह० २, १;

**अशाउ.** पु० ( अनायुप्-न विद्यते चतुर्विधम-प्यायुर्यस्य स भवत्यनायुः ) आयुः कर्म रहित; सिद्ध भगवान्. सिद्ध भगवान्; आयुः कर्म रहित. A Siddha; one freed from Āyuhkarma. ( २ ) जिन-जेने इरीथी उत्पन्न थंडु नथी तेवा डेवणी, तीर्थकर वगेरे. जिन-जिनहें पुरजन्म धारण न करना हो; तीर्थकर, केवली वर्गीरह. Kevalis etc. freed from rebirth. “ अशुक्ते सच्चजगंस्त्रिविज्ञं, गंथा अतीते अभए अशाउ ” सूय० १, ६, २६; प्रव० १२६२; ( ३ ) छविशेष. एक प्रकार का जीव. a kind of living being. ठा० २, १;

**अशाउच्च.** पु० ( अनायुक्त ) जुओ। “ अशाउ ” शब्द. देखो “ अशाउ ” शब्द. Vide “ अशाउ ”. अणुजो. १२७;

**अणाउजिज्य.** त्रि० ( अनायोगिक ) उपयोग रहित; असावधान. उपयोग रहित; असावधान. Utility; unwary; uncircumspect. “उदाहु अणाउजिया ?” भग० २, ५;

**अणाउट्टि.** स्त्री० ( अनुकूटि ) हिंसने। अभाव; अहिंसा. हिंसा का अभाव; अहिंसा. Absence of killing or giving pain; non-injury. “ अहवत्तिंश्च अणाउट्टि, सरमशेसि अकरणयाप् ” आया० १, ६, १, १७;

**अणाउट्टि.** त्रि० ( अनाकुट्टि ) अहिंसक; हिंसा न करना। अहिंसक; हिंसा न करने वाला. Abstaining from killing or giving pain; one who abstains from killing or injuring others. “ जाणं काप्णेण अणाउट्टि, अबुहो जं च हिंसति ” सूय० १, १, २, २५;

**अणाउत्त.** त्रि० ( अनायुक्त ) उपयोग रहित; उपयोग विनानेः; असावधेत. उपयोग रहित; असावधान. Unwary; without proper circumspection. ठा० २, १; उत्त० १७, ६; भग० ७, १; २५, ७;—**आ-इण्या.** स्त्री० (—आदानता) विना उपयोग वस्तु लेना भूक्तवाथी लागती क्षिया-कर्मयंध; अख्याभोगप्रत्ययक्षियाने। एक ऐसा असावधानी से वस्तु उठाने और रखने का किया से होने वाला कर्मबन्ध; अणाभोगप्रत्ययक्रिया का एक भेद. Karma incurred by taking up or laying down a thing without proper circumspection; a variety of Kriyā called Aṇābhoga-pratyaya. ठा० २, १;—**गमण.** न० ( —गमन ) उपयोग विना चालनु ते; उपयोग शैय गति करनी ते। उपयोग विना चलना. movement without proper

circumspection. भग० २५, ७;—**पमज्जण्या.** स्त्री० ( \*-प्रमार्जनता-प्रमार्जन ) उपयोग रहित पूज्याथी लागती क्षिया-कर्मयंध. असावधानी के साथ पूजन से होने वाला कर्मबन्ध. Karma incurred by brushing off carelessly, or without proper circumspection. या० २, १;

**अणाउल.** त्रि० ( अनाकुल ) आकुलता रहित. आकुलता रहित. Untroubled; undistracted. “ ज्ञथश्चमिष्ट अणाउले, समविसमाहं मुणी हियासए ” सूय० १, २, २, १५; नाया० ८; दस० ४, १, १३;

**अणाकुल.** त्रि० ( अनाकुल ) जुओ ‘अणाउल’ शब्द. Vide “ अणाउल ”. पंचा० ४, ३६;

**अणागच्छ य.** सु० ( अनागत ) भविष्य काल; आवानो काल भविष्य काल. The future. भग० १, १; ४; ६; २, १; २; ८, ५; १४, ३; २५, ४; नाया० ८; जं० ५० ७, १३७; गम० १३; आय० ४३; काप० २, २०; ( २ ) न आयेतु. नहीं आया हुआ. not come. आय० ४३; पश० २; नंदा० १४; ( ३ ) त्रि० लविष्यमां भगवान्; वावी जन्म संग्रामी. भविष्य से मिलने वाला; भावा जन्म राम्बन्धी. to be got in the future birth; concerning the future birth. “ हृथ्याया इमे कासा, कालिया जे अणागदा ” उत० ५, ६; गृद० १, २, २, ५; १, २, ३, २१; अगुज्ज० ४२; ( ४ ) न० पर्युषाभां उत्तमं तप इति कारण् सर अगाउथा। इति लेनु ते; हस पञ्चभाष्याभानु अङ्क। पर्युषण में किये जाने वाला तप किसी कारण से पर्हिले कर लेना; दस प्रत्याख्यानों में से एक प्रत्याख्यान (पञ्चखाण). performing devout austerity (Tapa) of Pa-

ryūṣaṇa at an earlier date for some reason; one of the ten Pachchkhāṇas. प्रव० १८६; भग० ७, २;—खेत्. न० ( -त्रे ) हे वे पहली आपनानु क्षेत्र; जे क्षेत्रमां गति न थी उरी तेवुं क्षेत्र. आज आने वाला क्षेत्र; जिस क्षेत्र में गति नहीं की एसा क्षेत्र. the future Kṣetra. भग० ८, ८;—द्वा. खी० ( अद्वा ) भविष्य काल. future time. अणुजो० ११५; भग० १, ६; १२, ५; २४, ५; प्रव० १०५४;—वयण. न० ( -वचन ) भविष्य कालानु वयन; भविष्यकाल वायुः विभक्ति प्रत्यय नेम डे 'करिष्यति'. भविष्य काल रास्वन्धा वचन; भाविष्य काल वाचक विभक्ति, ग्रन्थय-ज्ञेय "करिष्यत". the termination of the future tense. ठा० ३, ८; आया० २, ४, १, १३२;

अणागाई. खी० ( अनागति ) न आवनु ते. नहीं आना. Not coming back. ( २ ) सिद्धशिवा; व्याधी इरी आपनु न थी ते. सिद्धर्शना, जहांसे फिर वापिस नहीं आना पड़ता वह स्थान. Siddha-Silā from which there is no return. "गङ्ग च जो जायेह णागङ्ग च" सूर्य० १, १२, २०;

अणागता. स० कृ० अ० ( अनागत्य ) न आवाने. न आकर. Without coming; without having come. ठा० ३, २;

अणागम. मुं० ( अनागम ) आगम लक्षण् द्वान् आगम; अपौर्यप्य आगम. अपौर्यप्य आगम; आगम के लक्षणों से रहिन आगम. Scripture without the indispensable features of such; impersonal scripture; revelation. अ० १०;

अणागमण. न० ( अनागमन ) संथम लघने पाणि वेर न आवनु ते. संयम धारण करके पीछे घर न आना. Not returning home after a vow of asceticism. "जे लोगसि अणागमणधमिणो आणाए मामगं" आया० १, ६, २, १८४;—धमि. त्रि० ( -धमिन् ) लीधली प्रतिज्ञानो निर्वाह करनार; संथम लघने पाणि वेर न ज्ञानार. ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करने वाला; संयम लेकर पांछे घर न जाने वाला. ( one ) acting up to the vow taken; ( one ) not returning home after a vow of asceticism. आया० १, ६, २, १८४;

अणागमतिय. त्रि० ( अनर्गतित ) निवारण न करेल; अटकवेद नदि. निवारण न किया हुआ; न रोका हुआ. Not stopped; not detained. भग० १५, १; नाया० ६;

अणागलिय. त्रि० ( अनाकलित ) प्रभाणु उपरातनु; अपरिभित. अपरिमित; प्रमाण रहित. Beyond measure. भग० १५, १;

अणागाढ. न० ( अनागाढ ) साधारणु कारणु; गाढ कारणुनदि. साधारण कारण. Reason, not very serious. निर्सी० ११, २७;

अणागार. न० ( अनाकार-न विद्यमाना आकारा महस्तराकारावयो विच्छिन्नप्रयोजन त्वात् प्रतिपत्तिर्यस्मिस्तदनाकारम् ) पञ्च-भागमां दुकाण, अष्टशी वेशेनो आगार-मृष्ट न शापी ते; अनाभाग अने सहसा ऐ ऐ सिवाय भाडीना आगार विनानु पञ्चभार-ए. पञ्चवत्ताण में दुकाल, वन वगैरह की छृट न रखना; अनाभोग और सहसा, इन दो के सिवाय बाकी के आगारों से रहित पञ्चवत्ताण. A vow of omission ( e. g. food) not admitting exceptions

regarding one's being in a forest etc.; a vow of omission with two exceptions only viz listlessness and force. भग० ७, २; प्रव० १८४; ठा० १०; ( २ ) ( अविद्यमान आकारे भेदो ग्राहस्यास्येत्यनाकारम् ) आकार-भेद-विशेष रूपता उपयोग; सामान्यग्राही दर्शनोपयोग. आकार-भेद-विशेष रहित उपयोग; सामान्यग्राही दर्शनोपयोग. knowledge without differentiation of particulars. विशेष० ७६३; क० गं० ४, १५; जीवा० १; पञ्च० २; ३०; भग० १८, ८;—उवउत्त. त्रिं० ( उपसुकु ) सामान्यग्राही दर्शनना उपयोगनायोग; दर्शनना उपयोग सहित. सामान्यग्राही दर्शन के उपयोग वाला; दर्शनोपयोग सहित. possessed of general and undifferentiated view. पञ्च० ३; भग० १, ५; ६, ४; ८; २; ६, ३१; ११, १; १८, १; २४, १; २६, १;—उवश्चोग. पुं० ( -उपयोग ) सामान्यग्राही दर्शनना उपयोग. सामान्यग्राही दर्शन का उपयोग. general and undifferentiated view. विशेष० ४१२; भग० १, ६; १२, ५;

**अणाधाइज्जमाण.** त्रिं० ( अनाधायमान ) सूध्या वग्ननु. बिना मैथा हुआ. Unsmelt; not smelt. भग० १, १;

**अणाधाय.** त्रिं० ( अनाधात ) आधात विनानु. आधात रहित. Unstruck; not hit. उत्त० ६, १८;

**अणाचार.** त्रिं० ( अनाचार ) आचार हीन. आचार हीन. Devoid of Achāra i.e. right conduct etc. गच्छा० ६४;

**अणाजीवि.** त्रिं० ( अनाजीविन्-न आजीवी अनाजीवी ) तपना इक्षनी धन्त्या वगरनो; निःपृष्ठी. इच्छा रहित; निःस्पृही. Dis-

interested; exempt from desire. “अगिलाए अणाजीवा णायब्दो सो तवायारो” पंचा० १५, २६;

**अणाढाइज्जमाण.** व० कृ० त्रिं० ( अनादियमाण ) अनादर करता हुआ. Disregarding; disrespecting. भग० ३, १; नाया० १; १६;

**अणाढायमाण.** व० कृ० त्रिं० ( अनादियमाण ) अनादर करता हुआ; निरस्कर करता हुआ. Disregarding; showing contempt. नाया० १; ६; १४; भग० ३, १; आया० २, १, २, १३;

**अणादित्र्य-य.** पुं० ( अनादत्त ) अणादित्य नामे नं भृदीपने। अधिष्ठाता देवता. अणादित्र्य नाम का जम्बूद्वीप का अधिष्ठातृ देव. The presiding deity of Jambūdvīpa, named Aṇḍhlia. जं० प० ४, ६०; जीवा० ३, ४; उत्त० ११, २७; ( २ ) काकंदी नगरीनो ऐक गृहस्थ, उन्हें स्थविरनी पासे दीक्षा लिई पहेला देवलोकमां अणादित्य विभानभां ऐ सागरने आउये उत्पन्न थयो, त्याथी यवी महाविदेहमां भेक्ष व॒रे. काकंदा नगरी का एक गृहस्थ, जो स्थविर से दीक्षा लेकर पहिले देवलोक के अणादित्र्य विभान मे दो सागर की आयु सहित उत्पन्न हुआ. वहांसे महाविदेह मे जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त होगा. a gentleman of the city named Kākandī, who was born for a life of २ Sāgaras in Aṇḍhlia abode in the first Devaloka, after taking Dikṣā from a Sthavira. After dying in that place, he will take birth in Mahāvidēha and then get salvation. निर० ३, १०; ( ३ ) न० पहेला देवलोकमां “अणादित्य” नामनं विभान

पहिले देवलोक का "अणादिंश" नाम का विमान. an abode named Anādhia, of the first Devloka. निर० ३, १०; ( ४ ) अनादृ पूर्वक वंदना करनी ते; वंदना पहिले होए. अनादर पूर्वक वंदना करना; वंदना का पहिला दोष. salutation without respect; first fault in salutation. प्रव० ६३; १५०;

**अणादिंशा-या.** श्वी० ( अनादृता ) जंभूद्वीपना अधिष्ठाता अनादृत देवतानी २४४धानी. जंभूद्वीप के अधिष्ठाता अनादृत देव की राजधानी. The capital of Anādrīta, the presiding deity of Jambūdvīpa. जीवा० ३, ४; ज० १०

**अणादिंजमाण.** व० क० ० त्रि० ( अनाद्रियमाण ) अनादृत पाभतो; तिरस्कार पाभतो. अनादर पाता हुआ; तिरस्कार पाता हुआ. Being insulted; being disregarded. नाया० १४;

**अणादियमाण.** व० क० ० त्रि० ( अनाद्रियमाण ) जुर्खे। "अणादिंजमाण" शब्द. देखो "अणादिंजमाण" शब्द. Vide "अणादिंजमाण". नाया० १;

**अणाण.** न० ( अज्ञान ) अज्ञान. अज्ञान. Ignorance. भग २४, १२; २६, १; —अभाव. पुं० ( - अभाव ) अज्ञानो। अभाव. अज्ञान का अभाव. absence of ignorance. पंचा० ६, २५;

**अणाणत्.** न० ( अनानात्व ) जंद रहित; भेदनो। अभाव. भेद रहित; भेद का अभाव. Absence of distinction. भग० ३४, १;

**अणाणा.** श्वी० ( अनाज्ञा ) आज्ञानो। अभाव; जेभां वीतरागनी आज्ञा नथी ते. आज्ञा का अभाव; वीतराग की आज्ञा रहित. Absence of command or order o. g. of

a Vitarāga. "अणाणाए एगे सोवट्टाणा अणाणाए एगे निस्वट्टाणा" आया० १, ५, ६, १६६; १, १, ५, ४२; १, २, ६, १००; १, ६, ३, १६३;

**अणाणुगामि.** न० ( अनानुगामि ) जे ज्याए जान उत्पन्न थयुं होए तेज ज्याए रहे भीज ज्याए साथे न ज्य ऐनुं अवधिज्ञान; अवधिज्ञाननो। एक भेद. अवधिज्ञान का एक भेद, जो ज्ञान जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसी स्थान पर ज्ञानी उसका उपयोग कर सकता है दूसरे स्थान पर वह नष्ट हो जाता है. A variety of Avadhi Jñāna limited to the place where a person acquired it. नंदी० ६;

**अणाणुगामियता.** श्वी० ( \*अनानुगामिकता—अनानुगामिकत्व ) भव परंपरामां साथे न आये ते. भव परम्परा में साथ न रहने वाला. Not accompanying in the cycle of rebirths. दसा० ७, १२;

**अणाणुगिद्ध.** त्रि० ( अनुगृह्द ) अनासङ्गत; अभुर्लित; भावानी लोकुपता वगरनो। अनासङ्ग; मूर्छा रहित; खान पान की लोकुपता रहित. Not greedy, e. g. of food. "अणाणस्स पाणास्स अणाणुगिद्धे" सूय० १, १३, १७;

**अणाणुपुद्वी.** श्वी० ( अनानुपर्वी ) अनुक्तभृथि-परिपाठीथी विपरीत; जुत्क्तभ; अनुक्तभनो। अभाव. अनुकम के विरुद्ध; परिपाठी के विपरीत; व्युत्कम; अनुकम का अभाव. Against, departing from, regular order. भग० १, ६; १७, ४; २५, २;

**अणाणुबंधि.** न० ( अनानुबन्धिन् ) पहिलेहुय करनां वस्त्रनो। डाई पश्च भाग नजर भडार न रहे ते; अप्रभादपरिलेहुनो। एक प्रकार. पर्डलेहण करते समय वस्त्र का कोई भी हिस्सा दृष्टि से बाहर न रहना; अप्रभादपर्डले-

हण का एक भेद. Thorough examination of a garment; a variety of Apramāda ( non-negligent ) Padilehaṇa. उत्त० २६, २५;  
ठा० ६, १;

**अणाणुवाह.** पुं० ( अनानुवादिन् ) वाहिये कहेंल साधन्-हेतुनो अनुवाद करवानी पथ व्याकुलपण्याने लीधे जेनामां शक्ति नथी ते. वादी के कहे हए हेतु का अनुवाद करने की भी जिसमें व्याकुलता के कारण शक्ति न हो. One who cannot even rehearse the argument of an opponent through lack of composure. “ से मुम्खुई होइ अणाणुवाह ” सूय० १, १२, ५;

**अणाणुवीहृतु.** अ० ( अनुविच्छिन्त्य ) विचार्या निना. बिना विचार किये. Without thinking; without having thought. “ अणाणुवीहृतु मुसं वयंति ” सूय० १, १२, २;

**अणानाताविय.** त्रि० ( अनातापित ) ने साधु पोतानां वस्त्र, पात्र वगेरै भिनाशवाणा उप-करणुने तड़कामां न नापे ने. जो साथु अपने भागे हुए उपकरणों को घूँसमें नहीं सुकाता. Not exposing vessels, clothes etc. which are damp, to sunlight ( said of a Sādhu ). कप्प० ६, ५३;

**अणातीय.** पुं० ( अनातीत-आ समन्तादतीत इतो गतोऽनाद्यनन्तसंसारे स आतीतः; न आतीतोऽनातीतः ) संसारसमृद्धी पार ज्ञानार; संसारनेविष्टी पहेले पार पहेलायनार ज्ञव. संसारसमुद्र के पार जाने वाला. One who crosses the worldly ocean. आया० १, ८, ६, २२;

**अणादि.** त्रि० ( अनादि ) प्रवाहनी अपेक्षाये आहि रहित; शैश्वात वगरतुं. प्रवाह की

अपेक्षा से आदि रहित. Without a beginning. भग० ५, ६; ६, ३;  
**अणादिश्च-य.** न० ( अणादिक-अणं पापकर्म तदादि कारणं यस्य तदणादिकम् ) पाप कर्म; पापानुशान. पापकर्म; पापानुष्ठान. Sin; a sinful action. परह० १, १;

**अणादिश्च-य.** त्रि० ( अनादिक ) शैश्वात वगरतुं; आहि रहित; अनादि. अनादि; आदि रहित. Without a beginning. भग० १२, २; १३, ६; १५, १; १६, ६; सूय० २, ५, २; ( २ ) लोक; संसार. लोक; मंसार. the world. सूय० २, ५, २;

**अणादेज्ज.** त्रि० ( अनादेय ) आदेवा येऽप्य नहि. प्रहरण करने के अयोग्य. Unfit to be accepted ज० प० २, ३६;

**अणादेज्ज.** न० ( अनादेय ) अनादेयताम. अनादेय नाम. The term Anādeya. ज० प० २, ३६; सम० २४; भग० ७, ६;

**अणापुच्छित्ता.** सं० कृ० अ० ( अनापृच्छ्य ) पुछ्या निना; नहि पुछ्याने. बिना पूछे; न पूछ कर. Without asking; without having asked. वव० ६, १; ७, १; सम० ३३; वेय० ४, १८; कप्प० ६, ४६;

**अणापुच्छिय.** सं० कृ० अ० ( अनापृच्छ्य ) पुछ्या वगर; नहि पुछ्याने. न पूछ कर; बिना पूछे. Without asking; without having asked. वव० ८, १४, निसी० २, ४५; १४, ५;—चारि. पुं० ( -चारिन् ) गणुने पुछ्या निना क्षेत्रांतरभां विचरनार साधु; पांचमा निग्रदस्थानने ग्राम थयेल. गण से बिना पूछे क्षेत्रान्तर में विचरने वाला साधु; पाँचवं निग्रहस्थान को ग्रास. an ascetic who wanders in another place without asking his bro-

thers of the same order; one who has attained the 5th stage of Nigraha- Sthāna. ठा० १, १;  
**अणावाह.** पुं० ( अनावाष-न विद्यते  
 आवाधा-पीडा यत्र तदनावाधम् ) स्वाभाविक सुख; भेद सुख; परमानंद. स्वाभाविक मुख; मोक्षसुख; परमानंद Natural happiness; highest bliss. उत्त० ३५, ७; या० १०; ( ३ ) आधा-पीडा रहित. पीडा रहित. free from pain or misery. सु० च० २, १०४; वब० ८,  
 १३;—सुह. न० ( -सुख ) आधा-पीडा रहित सुख; अआधित सुख; भेद सुख; बाधा रहित सुख; मोक्ष सुख. eternal and unobstructed bliss. दस० ६. १, १०,  
**अणाभियोगिय.** पुं० ( अनाभियोगिक ) स्वतंत्र देव; वंनो डै॒४ स्वाभा॑-नाय॒५ नथी तेवै देवता. स्वतंत्र देव; जिसका कोई स्वामी न हो ऐसा देव. An independent deity. भग० ३, ५;  
**अणाभोग.** पुं० ( अनाभोग ) ऐ॒४भ॒र; अज्ञान अ॒४नाय॒. अज्ञान; वेख्वर; अज्ञान. Ignorant. ओ॒४ष॒० २४१; भग० ७, ६: २५, ७; ठा० ४, १; प्रब० १६५; ( २ ) अत्यन्तविश्वृति-भूली ज्ञु ते. अत्यन्त विस्मृति-भूल जाना. extreme forgetfulness. आउ० —गय. त्रि० ( -गत ) अनाभोगपाय॒-ने-अ॒४नाय॒पाय॒ने पामेद; ऐ॒४भ॒र. वेख्वर. ignorant of; unconscious of. क० प० ५, ३०.—ज्ञाण. न० ( -ध्यान ) अत्यन्त विश्वरूप थ्यानुं ध्यान-भान आवृत्तु ते; वंभ प्रसन्नयंद्र राजपिने प्रिश्वरूप थ्येत्र प्रतीयादिगिरी थध. अत्यन्त विस्मरण होने वाली वात का ध्यान आना-जिस प्रकार प्रसन्नचंद्र राजर्षि-को विस्मृत व्रत का स्मरण हुआ. या. recollection of extreme

forgetfulness, as in the case of the king-saint Prasannachandra who remembered that he had forgotten a vow taken. आउ० —शिव्वतिय. पुं० ( -निष्टित्ति ) अ॒४नाय॒ पाय॒ निष्टेतुं. अज्ञानता से उत्पन्न. unconsciously performed. ठा० ४, १; भग० १, १; प्रब० ११६;—पडिसेवणा. ली० ( \*-प्रतिसेवना-प्रतिसेवन ) अ॒४नाय॒पाय॒ डै॒४दै॒४ सेवये। ते. अनजानपन से किसी दोष का सेवन करना. incurring a sin unknowingly. ठा० १०;—बृद्धस. त्रि० ( -बृकुश ) अ॒४नाय॒दै॒४ लग्नानार व॒द्वृश नियंटा-साधुविशेष. अनजानपन से दोष लगाने वाला बृकुश प्रकार का साधु. a kind of an ascetic ( Bakusa ) monk unconsciously running into sin. भग० २५, ६; ठा० ५, ३;—भाव. पुं० ( -भाव ) अ॒४नाय॒ पाय॒ थनुं ते; अ॒४नाय॒पाय॒. अनजानपन से होना; अज्ञान पन. condition of unconsciousness or listlessness. “ इय चरणमि डियाण होइ अणाभोगभावओ सहणो ” पंचा० १७, ४७;—घृतिया. ली० ( -प्रात्ययिकी ) अज्ञानथी उपयोगशः-यपाय॒ कुर्म व॒न्धाय ते. उपयोग विना अज्ञान से जो कर्म बन्ध हो वह; उपकरण के लेने या रखने से जो कर्म बन्धता है वह. incurring of Karma by unwariness through ignorance. अणाभोगवतिया किरिया दुविहा परणता, तंजहा-अणाउसआयणया चेव अणाउसपमज्जणवा चेव ” ठा० २, १;  
**अणामंत्रिय.** सं० कू० अ० ( अनामन्त्र ) आमन्त्रया विना; पुष्या विना. विना पूछे. Without having asked; without asking. निरी० २, ४५; १४, ५; आया० २, १, ६, ५४; वब० ८, १४;

**अणामिय.** त्रिं ( अनामिक ) नाम विनाशः; जेनुं दै नाम पाइयुं न होय ते. विना नाम का. Nameless. तंडु०—बाहि. पुं० (—व्याखि) नाम वगने। रै॒ग; असाध्य रै॒ग. विना नाम का रोग; असाध्य रोग. a nameless-incurable disease. तंडु०

**अणाय.** पुं० ( अनात्मन् ) आत्माथी लिन पदार्थ; जू॒. आत्मा से भिन्न पदार्थ; जड. Matter as distinguished from soul. सम० १;

**अणायंविल.** त्रिं ( अनाचामस्तु ) आयं-भिल विनाने; आयंभिल-तपविशेष जेने नथी ते. आयंभिल नामक तपविशेष से रहित. Devoid of Āyambili-a kind of austerity. आव० ६, ६;

**अणायग.** पुं० ( अनायक-न विद्यतेऽन्यो नायकोऽस्येत्यनायकः ) जेनो० ३४८ नायक नथी ऐवे; स्वतंत्र; यश्चर्वती वजेरे. नायक रहित; स्वतंत्र; चक्रवर्ती वगैरह. One who owns no supremacy; independent; a sovereign ruler etc. दस० ६, १; ११; निस० ८, १२; सम० ३०; सूय० १, २, २, ३;

**अणाययण.** न० ( अनायतन ) साधुने रहेना योऽय स्थान नहि; नाटकशागा, वेश्यागृह वजेरे. साधु के रहने के अयोग्य स्थान; नाटक शाला, वेश्यागृह आदि. A place unworthy of an ascetic to live in e. g. a theatre, a house of prostitute etc. परह० २, ४; दस० ५, १, १०; ( २ ) पासत्था वजेरेने उत्तरानुं स्थान. शिथिलाचारि आदि के उत्तरने (ठहरने) का स्थान. a lodging place for Pāsatthās ( ascetics who have transgressed the rules of asceticism ) etc. आं॒क.

**अणायर.** पुं० ( अनाद्वर ) तिस्कारः; अपमान. Insult; disregard.

प्रब० १२२२; पिं० निं० २०३;

**अणायररण्या. स्त्री०** ( अनाचरण-ता ) आचरवा योऽय नहि ते; भाया अने क्षाप्तुं पर्याय नाम; गैजुभोदनीय कुर्मनो ऐक भेद. आचरण के अयोग्य; माया और कषाय का पर्यायवाची नाम; गंगामोहनीयकर्म का एक भेद. Unfitness for performance; a synonym for Māyā ( deceit ) and Kaśaya; a variety of Gauṇa Mohaniya-Karma. सम० ५२;

**अणायरिय.** पुं० ( अनार्य ) अर्थ नहि ते; अनार्थ; कूर. आर्यत्व रहित; अनार्थ; कूर. A Non-Ārya; a barbarian; a cruel person. आया० टी० १, ४, २, १३३; निस० १६, १८;

**अणायरिय.** त्रिं ( अनाचर्य ) आचरवा योऽय नहि. आचरण के अयोग्य. Unworthily of performance. “अणायरियमजार्यं, आसद्वन्तु सहस्रु वा” दस० ६, ४४;

**अणाया.** पुं० ( अनात्मन्-न आत्मा अनात्मा ) जू॒ पदार्थ; अशू॒. जट पदार्थ; निर्जीव. A material substance; non-soul. “एुग अणाया” सम० १; ( २ ) गेता शिवाय; पूर; शीघ्रे. अपने शिवाय; दूसरा. other than one's self. “अणायाए अबकमह” भग० १, ४; —बाहि. पुं० (—बादिन-आत्मा-न विदितुं शरिलमस्येत्यामवादी नात्मवादी अनात्मवादी ) आत्मानुं अस्तित्व न भान-नार॒; नास्तिक॒. आत्मा का अस्तित्व न मानने वाला; नास्तिक. one who disbelieves in the existence of the soul. ( २ ) आत्माने-क्षणिक॒, सर्वव्यापी या अशुभात्र ऐभ विपरीतपदे भाननार॒; यैष्ठ वेदांती, वजेरे. आत्मा को झंगिक, सर्वव्यापी या अणु-

'मात्र मानने वाला; बौद्ध, बेदान्ती वर्गेरह.  
a Vedāntī, a Baudhī etc. having false notions about the nature of the soul, i. e. those who believe it as transitory, all or partly pervading. आया० टी० १, १, १, ५;

**अशायाण.** न ( अनादान ) अकारण; कारणतो अभाव. कारण का अभाव; अकारण. Absence of reason. " अशायाणमेयं अभिग्नहिष्मिज्ञासार्थस्म" कप्प० ६, ५४;

**अशायार.** पुं० ( अनाचार ) साधुपै श्रावक्ता आचार व्यवहारतो भंग; पञ्चभाष्यापि दृष्टुं उद्धृथन करनुं ते. मात्रु अपवा श्रावक के आचार व्यवहार का रोप; पञ्चभाष्याग्राही सांमा का उद्धृथन करना. Breach of right conduct on the part of a Jaina layman or an ascetic; transgression of Pachchikhāṇi. आव० ४, ६; ठा० ३, ४; ( २ ) साधुते न आयरया योग्य-प२. अनार्चीजुभांता गम ने अङ्क. वंगुभाटे जुआ। 'अशायाहशण' १७८. रात्रु के आचारण न करने योग्य-५२ अनार्चीगांगों में से कोई भी एक अधिक के लिये देखो " अशाइरण " शब्द. unworthy of performance for an ascetic. " पुण्ड्रि द्विहं टारेहिं, अशायारं तु जाशए " सूय० २, ५, ३; " अशायारं परक्षम्, नेव गृहे न निष्क्रेव " दस० ८, ३२; ६, ५७; आया० २, ४, १, १२२; पिं० नि० १७६;—**उभारण.** न० ( -ध्यान ) दुष्टायारनु चित्तवंतु ते. दुष्टाचार का चिन्तवन करना. contemplation of evil conduct. आउ० ३;—**सुय.** ( -श्रुत ) सूय-इंगता और श्रुत-कृन्धना पांचमा अध्ययननुताम, के वेमां जोनकांतवाद्यनु समर्थन करतां आयारनु डेवी रीते पालन करनुं अने अन-

यारने। डेवी रीते त्याग करवे। ते अताऽयुं छे. सुत्रकृताग के दूसरे श्रुतस्कंध के पांचवे अध्याय का नाम, जिसमें अनेकान्तवाद का समर्थन करते हुए यह बतलाया है कि, आचार का पालन और अनाचार का त्याग किस प्रकार करना चाहिये. the fifth chapter of the second Śrutaskandha of Sūyagadāṅga establishing Anekāntavāda and showing the manner of observing right conduct and that of avoiding a wrong one. सूय० २, ५, ३३;

**अणायावि.** त्रि० ( अनातापिन् ) आतापना वर्गेरे परिसद सहन न करनार साधु; शीत, उष्णि॒ वर्गेरे सहन न करनार; अनातापी. आतापना वर्गेरह पराष्ठह सहन न करने वाला साधु; शीत, उष्णि॒ वर्गेरह सहन न करने वाला. ( An ascetic ) not enduring heat, cold etc. ठा० ४, ३;

**अणारंभ.** पुं० ( अनारंभ ) शृणे उपदेव न करवे। ते. जीव को न सताना. Giving no pain or trouble to living things.

" सत्तविहे अणारंभे परण्यसे, तंजहा-पुढविकाह्यशणारंभे जाव अजीवकाय-अणारंभे " ठा० ७; ( १ ) त्रि० ( न विद्यते सावध आरम्भो येणां ते तथा ) पापना सावध व्यापार रहित. पाप-सावध व्यापार से रहित. free from sinful operations.

" अपरिग्रहा अणारंभा, गिरकृत्ताणं परिवृण् " सूय० १, १, ४, ३; भग० १, १, ५, ७; द, १;—**जीवि.** पुं० ( -जीविन् ) सर्व आरंभथी निवृत थयेव साधु; सावधानुशान अने प्रभाद रहित शृंद्वी गागनार. सर्व आरंभ से निवृत हुआ साधु; सावधानुशान और प्रभाद से रहित जीवन विताने वाला. a Sadhu free from all sinful actions; one who

leads a life without negligence and sinful actions. “आवंतिए आवंतिलोयंसि अणारंभजीविणो तेसु ” आया० १, २, १, १४६;—द्वाण. न० (—स्थान) आरभ रहित स्थान; सावध अनुधानी सर्वथा निवृत्ति. पापानुषान का सर्वथा निवृत्ति; आरभ रहित स्थान. perfect freedom from all sorts of sin; a stage of character which is free from all sinful actions.“एगंतमिष्टे असाहू तथयं जा सा सब्वतो विरद्ध एस द्वाये अणारंभद्वाये आरिए” सूय० २, २, ३६;

**अणारंभमाण.** व० क० त्रि० ( अनारम्भमाण ) आरभ न करते. आरंभ न करता हुआ Not beginning, i. e. & sinful action. भग० ३, ३;

**अणारद्ध.** त्रि० ( अनारब्ध ) महापुरुषोंमें आचरणे नहि ते. महापुरुषों ने जिरका आचरण न किया हो. Not practised by greatmen.“आरंभे जं चणारंभे अणारद्धं च या आरंभे ” आया० १, २, १, १०३;

**अणाराहय.** त्रि० ( अनाराधक ) धर्मने विराधक. धर्म के विरुद्ध; धर्म का विरोधी. One adverse to religion; a heretic. “अणायावि अस्समिए धर्मस्स अणाराहए भवहू ” ठा० ४, ३;

**अणारिय.** त्रि० ( अनार्य ) न करवा योग्य काम करने वाला; पापी; अनाचारी. न करने योग्य काम को करने वाला; पापी; अनाचारी. Doing unworthy deeds; sinful. भग० ३, ७; सूय० १, १, २, १०; जीवा० ३, ३; निसी० ८, १; ( २ ) अनार्य देशवासी; भेद्य; कूर. a barbarian; a cruel man. सूय० २, १, १३; सम० ३४; ओव० ३४; उत्त० ३४, २५; ( ३ ) न० भेद्यते छाज्ञुं

आचरण; असद् अनुषान. conduct worthy of barbarian. परह० १, १; ( ४ ) अनार्य भूमि; अनार्य देश; अनार्य देश. अनार्य क्षेत्र; अनार्य देश. a country of barbarians. प्रव० ६४;—द्वाण. न० (—स्थान) सावध आरंभनुं स्थान. सावधारंभ का स्थान. a place of sinful operations. सूय० २, २, ३४;

**अणारोहण.** त्रि० ( अनारोहक ) जुआ ‘अणारोहय’ शण्ड. देखो “अणारोहय” शब्द. Vide “अणारोहय.” भग० ७, ६;

**अणारोहय.** त्रि० ( अनारोहक ) योद्धाथी रहित; लड़ते वगरन्. योद्धाओं से रहित. Without a soldier. “अणासए अणारोहिए अणारोहए” भग० ७, ६;

**अणालंभयन्.** न० ( अनालम्बन ) आलंभनने अभाव; टेका नहि ते. आलम्बन का अभाव; असहारा. Absence of support. परह० १, ३;—पदद्वाण. त्रि० (—प्रतिष्ठान ) टेकना पाया विनानुं; आलंभन-रक्षक पगरनुं. आलंभन ( सहारा ) के पाये विना का; टेक रहित. without support. परह० १, ३;

**अणालस्त.** त्रि० ( अनालस ) न ऐकावेक; आलापसंक्षाप न करेत. जिसके साथ बात चीत न की हो. Not talked to; not conversed with. “पुञ्चिं अणालसेणं आलवित्तए वा संसवित्तए वा ” उवा० १, ४; ५;

**अणालस्य.** त्रि० ( अनालस्य ) आलस्य रहित. आलस्य रहित. Free from laziness or idleness. गच्छा० १२६;

**अणालस्स.** न० ( अनालस्य ) आलस्सने अभाव. आलस्य का अभाव. Absence of idleness. ( २ ) त्रि० आलस्स रहित; उद्घभी. आलस्य रहित; उद्योगी. free

from idleness; industrious.  
गच्छा० ४१; तंडु०—शिलय. न० ( -निलय ) उत्साहनुं धर; अहु उत्साही. उत्साह का स्थान; बहुत उत्साही. abode of enthusiasm; very enthusiastic. तंडु०

अणालस्ति० ( अनालस्तिन्—नास्यालस्य मस्येति ) आकृत्य विनानो. उद्यमा. Free from laziness or idleness. गच्छा० ४१;

अणालाव. पुं० ( अनालाप ) कुत्सित भाषण-भाक्षण; भराप ऐवत्तुं ते. कुत्सित भाषण; खराब बोल चाल. Indecent speech. ठा० ७, १;

अणालिस्त. त्रि० ( अनालस ) अजुभेदाव्ये. बिना बुलाया. Not spoken to; not talked to. प्रव० ६५२;

अणालिद्ध. त्रि० ( अनाशिलष्ट ) आदिगत न दीप्ति. आलिंगन न दिया हुआ. Not embraced. प्रव० १५२;

अणालोइश्य-य. त्रि० ( अनालोचित ) आलेघना न करेत; जेने पौताना दैप्य गुरु पासे आलेच्या नथी ते. गुरु के समाप्त जिसने अपने दोषों की आलोचना न की हो. One who has his faults unconfessed to a preceptor. ओव० ३८; भग० ३, ४, ५, ६; ६, ३३; २०, ६; नाया० १० दसा० १०, ३; नाया० १६;—अपडिक्कंत. त्रि० ( -अप्रितक्रान्त ) जेने गुरुनी सभीपे होप आलेच्या नथी अने ते दोपथी निवृत्त थये। नथा ते. जो गुरु के समाप्त दोषों की आलोचना न करने के कारण, उन दोषों से निवृत्त न हुआ हो. one who is not freed from faults through confession to a preceptor. ओव० भग० १०, २;

अणालोक. न० ( अनालोक ) अशान. अशान. Ignorance. परह० १, ३;

अणालोयावित्ता. सं० कृ० श० ( अनालोचयित्वा ) आवेच्या विना. बिना आलोचना किये. Without having reviewed; without reviewing. वव० ६, २०;

अणावरिय. त्रि० ( अनावृत ) दंड्या वगरनुं. न ढका हुआ. Uncovered. भग० १५, १;

अणावाय. न० ( अनापात ) भाषुसनी आवन-ज्वर विनातुं रथण; निर्जन रथण. निर्जन स्थान; मनुष्य के आवागमन से रहत स्थान. A place unfrequented by man. “अणावाए असंलोए अणावाए चेव-होइ संलोए” उत्त० २४, १६; नाया० १६; भग० ८, ६; संथा० ६६; ओघ० निं० २६६; प्रव० ७१६;

अणाविल. त्रि० ( अनाविल ) रागदेषरूपी भत रहित; स्वच्छ. रागदेषरूपी मल रहित; स्वच्छ. Clear; free from dirt in the form of passions. “धर्मे हरए बंझे, संति तिथ्ये अणाविले । अत्तपसङ्गलेसे” उत्त० १२, ४६; सूय० १, २, २, ७;

अणाविल. त्रि० ( ऋणाविल ) क२७थी भेदुं. ऋणरूपी मल से मालन. Sullied with indebtedness. आउ०—ज्ञाण. न० ( -ध्यान ) क२७दशरनुं चित्तवन-चिता. ऋणी की चिता. the anxiety of a debtor. आउ०

अणाविलप्प. पुं० ( अनाविलात्मक ) क४थ रहित आत्मा. कशय रहित आत्मा. Soul unsullied with passions. “अभयंकरे भिक्षु अणाविलप्पा” सूय० १, ७, २८;

अणावृष्टि. ली० ( अनावृष्टि ) अनावृष्टि; वरसाद्वृष्टि. भैसमभां वरसाद न वरसे ते. अनावृष्टि;

वर्षा का अभाव; वर्षाक्रहनु में वर्षा का न होना। Drought. सम० ३४; जं० प० १, १०;  
अणासश्चय. त्रिं० ( अनाशय ) पूर्ण-महत्त्व-  
दिक्ना आशय-अभिप्राय-क्षालक्षा वरगनो;  
द्रव्यथी समवसरखुआि छतां लावथी तेना  
अनाकंक्षी-तीर्थकर. पूजा-महत्तादि की  
लालसा रहित; समवसरणादि के होने पर भी  
भाव से उनको आकंक्षा से रहित-तीर्थकर.  
Mentally unattacked e. g. a  
Tirthankara; not covetous of  
honour etc. “ अणासए जेते दंते, दडे  
आरथमेहुणे ” सूर्य० १, १५, ११; ( २ ) इक्षनी  
आशा विनानो. कल की आशा से रहित.  
without any desire for the  
fruits of actions. अणासए जो उ  
सहेज कंटपु ” दस० ६, ३, ६;

अणासग. त्रिं० ( अनश्वक ) धोडा विनानुं;  
अश्व रहित. धिना धोडे का; अश्व से रहित.  
Devoid of horses. भग० ७, ६;

अणासच्छिन्न. त्रिं० ( अच्छिन्ननास ) नेतुं नाक  
छेदयेतुं नथी ते. जिसका नाक छिदी हुई  
न हो. With unperforated nose.  
निसी० १४, ६;

अणासरण. त्रिं० ( अनासज्ज ) ऐक पासे नहि;  
भडु न ऐक नहि ते. जो बहुत नज़दीक न हो.  
Not very near. “ नाइवृरमणासज्जे,  
पंजली पढिपुच्छह ” उत्त० २०, ७; १, ३३;

अणासस्ति. छां० ( अनाभक्ति ) आसक्तिनो।  
अभाव. आसक्ति का अभाव. Absence of  
attachment. भग० १, ६;

अणासय. त्रिं० ( अनाश्रय ) आश्रय-कर्मभय  
रहित. आश्रव-कर्मबंध से रहित. Free from  
the influx of Karma. “ अणासवे  
अममे अकिञ्चणे ” ओव० भग० २५, ६;  
( २ ) आश्रवनों अभ्यास-संवर. आश्रव का

अभाव. stoppage of Karma. परह०  
२, १; उत्त० ३०, २; ( ३ ) पुं० छां०  
युरना वयन उपर लक्ष्य न आपनार; युरनो  
आदेश न सांखणार. गुरु के बचनों पर लक्ष्य न  
रखने वाला; गुरु का आदेश न सुनने वाला.  
one who does not pay heed  
to the instructions of the Guru  
or preceptor. “ अणासवा थूलवया  
कुसीबा ” उत्त० १, १३; ( ४ ) पुं० न० आश्रवना  
अभाववाणी. भक्षयत आदि. आश्रव के  
आभाव वाले भक्षयत आदि. Mahāvratas  
etc. which arrest Āśrama or  
Karmic influx. आया० १, ४, २, १३०;

अणासाइज्जमाण. त्रिं० ( अनास्वादयमाण )  
रसेंद्रियद्वारा ग्रहण न थतुं-न यथातुं.  
रसनेन्द्रिय के द्वारा न चखा जाने वाला. Not  
being tasted. भग० १, १;

अणासापमाण. व० कृ० त्रिं० ( अनास्वादयत )  
न यथाते. न चाखता हुआ. Not tasting.  
नाया० १८; ( २ ) न वांछते. न चाहता हुआ.  
not longing for. “ परस्प लाभं  
अणासापमाणे ” उत्त० २६, ३३;

अणासायश्च. त्रिं० ( अनाशासक ) अशातना-  
वाधा-पीडा न करनार. अशातना-पीडा न  
करने वाला. Not giving pain. आया०  
१, ६, ५, १६५;

अणासायणा. छां० ( अनाशातना ) तीर्थ-  
करादिक्ना धर्मनी अशातना-हीलना न  
करना ते; दर्शनविनयनो एक भेद; धर्मनी  
भक्ति, अभुमान करने ते. तीर्थकरादि के धर्म  
की अवहेलना न करना; दर्शनविनय का एक  
भेद; धर्म का आदर करना. Abstaining  
from disrespect towards the  
religion of Tirthankaras etc;  
a variety of Darśanavinyaya.  
या० ७;—विणय. पुं० ( -विनय ) जुओ।

‘अणासायणा’ शब्द. देखो ‘अणासायणा’ शब्द. Vide ‘अणासायणा’. टा० ७;

**अणासास.** पुं० ( \* अनाशास-अविश्वास ) अविश्वास; अभरोसे। अविश्वास; अभरोसा। Want of confidence; distrust. विशे० १६३४;

**अणासिय.** त्रि० ( अनाशित ) जुओ। ‘अणासिय’ शब्द. देखो ‘अणासिय’ शब्द. Vide ‘अणासिय’ “अणासिया णाम महासियाला, पांगविष्णो तथ सया सकोवा ” सूय० १, ५, २, २०;

**अणासिय.** त्रि० ( अनाश्रित ) आश्रय रहित। आश्रय रहित। Unsupported; support-less. विशे० ८१३;

**अणासेवणा.** क्षी० ( अनासेवना ) दोपत्री सेवनाने। असाव; अनिच्छाराहि न सेवना ते। दोष के सेवन का अभाव; अतिच्छारादिकों का सेवन न करना। Freedom from sinfulness. आया० १, ८, ३, २१०;

**अणाह.** त्रि० ( अनाथ ) अशरण; अनाथ; नाथ वगरने। अशरण; अनाथ. Helpless. पराह० १, १; नाया० ८; ६; १३; ( २ ) २५; भिखारी. रंक; भिखारी. beggarly; indigent. नाया० ८; ( ३ ) अनाथी मुनि, क्षेत्रे श्रेष्ठिक राजनी पासे अनाथता अने सनाथताने। २५४ भुवारो। करी श्रेष्ठिक राजने पशु पोते अनाथ हेवानी भात्री करावी धर्म पभाउयो। तेतु विस्तृत चरित्र उत्त० २० मा। अध्ययनमां छे। अनाथी मुनि, जिसने श्रेष्ठिक राजा के आगे अनाथता और सनाथता का स्पष्ट विवेचन करके श्रेष्ठिक को भी यह विश्वास करा दिया था कि, वह स्वयं भी अनाथ है, इसका विस्तृत वर्णन उत्त० के २० वें अध्याय में है। Anāthī Muni, who clearly explained the meaning of poverty and wealth to king

Srenika and convinced him of his poverty so that he was converted. “अणाहोमि महाराय!, नाहो मरुक्ष न विजह। अणुकंपयं सुहिं वादि, कंची णाहि तुमे महां। तत्रो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो, एवं ते इद्विमंतस्स, कहं णाहो न विजह॥ होमि णाओ भयताणं, भोगो भुजाहि संजया” उत्त० २०, ६; १०; ११; —पवज्ञा ल्ला० (—प्रब्रड्य) उत्तराध्ययन सूत्रना० २० भा अध्ययननुं अपर नाम। उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्याय का दूसरा नाम। another name of the twentieth chapter of Uttarādhyayana Sūtra. उत्त० २०; —पिष्ठु. न० (—पिण्ड) अनाथेभाटे तैयार करेते। ऐराक। अनाथ के लिये तैयार किया हुआ भोजन। food prepared for the helpless poor. निसी० ८, १६;

**अणाहया.** ल्ला० ( अनाथता ) अनाथपञ्चु। अनाथपन। Helplessness.; poverty. उत्त० २०, २३;

**अणाहरण.** न० ( अनाधरण ) धरवाने-धरी रघवाने अशक्त।; आधार के अयोग्य. Unable to hold or support. भग० १८, ३;

**अणाहार.** पुं० ( अणाधार ) कृष्णदार; देषुदार। देवदार; ऋणी। A debtor. विशे० १;

**अणाहार.** पुं० ( अनाहार ) आहारनो। अभाव। आहार का अभाव। Absence of food. भग० १, १; १८, ३; क० गं० ३, २३; प्रव० १३३३; —भाव। पुं० (—भाव) अनाहारपञ्चु। अनाहारपन। lack of food. भग० १८, १;

**अणाहारम्-य.** पुं० ल्ला० ( अनाहारक ) आहार(क्षेत्र आहार) रहित देवादि। आहार ( ग्रासरूप आहार ) रहित देवादि। One who lives without food e. g. gods etc. विशे० ४१२;

**अणाहारग.** पुं० ( अनाहारक ) अनाहारी श्रव; आहार न लेनार श्रव; श्रव ज्ञाते विश्रेष्ट गतिमां, केवलसमुद्धातमां डे चैदभे युषुदण्डे होय त्वारे अणाहारी होय, सिद्धभगवान् पशु अणाहारी होय. अनाहारी जीव; आहार न लेने वाला जीव; जीव जिस समय विप्रहगति में, केवलसमुद्धात में या चौदहवें शुणस्थान में होता है तब वह अनाहारी होता है, सिद्धभगवान् भी अनाहारी होते हैं. A soul living without food e. g. a soul in Vigrahagati, Kevalasmudghāta and the fourteenth Gupṭsthāna or Siddha state. “योरह्या दुविहा परणात्मा, तंजात्र-अहारगा चेव अणाहारगा ” ठा० २, २; भग०६, ४; ७, १; ८, २; ११, १; १८, १; २५, १; ३५, १; जीवा० ३;

**अणाहारिय.** त्रि० ( अनाहत ) भूतकालीन खावानी कियाथी परिणाम खामेकु नदि ते. भूतकाल की खाने की किया से परिणाम नहीं पाया हुआ. Undigested ( food ). भग० १, १;

**अणाहिण्ड.** पुं० ( अनाधृष्ट ) वसुदेव राजथी थपेक धारिणी राणीनो पुत्र, डेनेवे अधिकार अंतगड सूत्रना ग्रीन वर्गना तेरभा अध्ययन-मां छे. वसुदेव राजा की धारिणी राणी का पुत्र, जिसका अधिकार अंतगडसूत्र के तीसरे वर्ग के तेरहवें अध्याय में है. Son of queen Dhāriṇī by king Vasudeva mentioned in the thirteenth chapter of the third section of Antagada Sūtra. अंत० ३, १३; ( २ ) अंतगड सूत्रना ग्रीन वर्गना तेरभा अध्ययननु नाम. अंतगडसूत्र के तीसरे वर्ग के तेरहवें अध्याय का नाम. name of the thirteenth chapter of the

the third section of Antagada Sūtra. अंत० ३, १३;

**अणाहिण्डि.** पुं० ( अनाधृष्टि ) जुओ उपदेशभृ. देखो “ अणाहिण्डि ” शब्द. Vide “ अणाहिण्डि ”. अंत० ३, १३;

**अणाहुश्च.** त्रि० ( अनाहृत ) आमंत्रण न करेक; नेत्रै न धीधेल; मुनि आमंत्रण विना आहार लेवा ज्ञय भाटे ते अणुहृत-अनामंत्रित. विना नोते के; अनामंत्रित. Uninvited; e.g. an ascetic, because he goes to take food uninvited. भग० ७, १;

**अणिश्च-**य. न० ( अनीक ) सैन्य; दल; लक्ष्य; देख; सेना; फौज. An army. नाया० ८; पश्च० २; जं० प० ४, ७३; सू० प० १८; सु० च० २, ६४;

**अणीह.** छाँ० ( अनीति ) जुओ ‘ अणीह ’ शम्द. देखो “ अणीह ” शब्द. Vide “ अणीह ”. नाया० १;—पत्त. त्रि० ( -पत्त ) जुओ ‘ अणीहपत्त ’ शम्द. देखो “ अणीह-पत्त ” शब्द. vide “ अणीहपत्त ”. नाया० १;

**अणिश्चय.** त्रि० ( अनित्य ) अनित्य; विरंकाण नदि रहेनार. अनित्य; चिरकाल तक न टिकने वाला. Transitory. आया० १, ५, २, १४७;

**अणिश्चय.** पुं० ( अनितिक-इतिशब्दो नियतरूपो-पदर्शनपरः, ततश्च न विद्यते इतिर्थासाक-नितिकः) नेनुं नियत स्वरूप न नी ते; संसार. जिसका नियत स्वरूप न हो; संसार. . The world; that which has no fixed form. भग० ६, ३३;

**अणिपञ्चारि.** पुं० ( अनियतचारिन्-अनियतमप्रतिबद्धं चरितुं शीलमस्याऽसाव-नियतचारी ) अप्रतिअन्ध विद्वारी; अप्रति-अन्धपछे विद्वार करनार. विना प्रतिबन्ध

के विहार करने वाला. One with unrestricted and unobstructed movements. “से भूहृषयणे आणिएश्चारी, आहंतरे धीरे अयंतचक्षु” सूर्य० १, ६, ५; “ अखिले अगिंदे आणिएश्चारी, अभयं करे भिक्षु अणाविलप्ता ” सूर्य० १, ७, २८;

**आणिंगाल.** त्रि० (अनङ्गार) ईगाल हेपथी रहित. अग्नि के दोष से रहित. Free from the fault of having embers. पराह० २, १;

**आणिंद्र.** त्रि० (अनिन्द्र-नास्तीन्द्रो यस्मिन् सोऽनिन्द्रः) ईद्र विनानुं. बिना इन्द्र के. Devoid of Indra. भग० ३, १;

**आणिंद्रिज्ज.** त्रि० (अनिन्द्रनाय) निन्दा कृतवा योऽयं नहिः; द्वृष्टुषु देवा योऽयं नहिः ते. दूषण देने के अयोग्य. Uncensurable; unreproachable. जीवा० १;

**आणिंद्रिय.** त्रि० (अनिन्दित) अनिन्दित; जेनी निन्दा न हो सके. Uncensurable; unreproachable. उत्त० १२, २०: (२) किन्त्र नामे व्यंतर देवनी पांचभी ज्ञान. किन्त्र नामक व्यंतर देव की पाँचवां जाति. the fifth kind of Vyantara gods called Kinnaras. पञ्च० १;—**आणी.** स्त्री० (-आङी) दृष्टुषु वगरना अंगवाणी स्त्री; ऐड खांप्शु वगरनी स्त्री. दूषण राहित अंगो वाली स्त्री. a woman without any defect in the body. “ भद्रेति शामेण आणिंद्रियंगी ” उत्त० १२, २०;

**आणिंद्रिय.** पुं० (अनिन्द्रिय) सिद्धभगवान् तथा कृपाणी; ईद्रिय तथा तेना उपयोग विनाना. सिद्धभगवान् तथा केवली; इन्द्रियों से रहित. A Siddha and a Kevali; free from senses or organs and their

processes. विशेष० १८६५; भग० १, ७; २, १०; द, २; १०, १; ११, १; १६, द; २५, ३; ३५, १; ठा० २, १; (२) त्रि० अपर्याप्तो; वेने धन्दियप्रबन्ध आधी नर्थी ते. अपर्याप्त जीव, इन्द्रियों की पूर्णता से रहित जीव. with senses yet undeveloped (Aparyāpta).

“ गेरइया दुविहा परण्णत्त, तंजहा-सहंदिया चेव आणिंदिया चेव जाव देमाणिया ” ठा० २, २; प्रव० १४४;—पप्पस. पुं० (-प्रदेश) सिद्धगुवना प्रदेश. सिद्धजीव का प्रदेश. molecules of the Siddha souls. भग० १०, १; ११, ११;—पप्पदेस. पुं० (-प्रदेश) जुऱ्यो। ‘ आणिंदियपप्पस ’ शब्द. देसो “ आणिंदियपप्पस ” शब्द. vide ‘ आणिंदियपप्पस ’. भग० १, १; ११, ११; **आणिंदिया.** स्त्री० (अनिन्दिता) उर्ध्वलैक वासी छट्टी दिशाकुमारी. कर्वलोक वासी छठी दिशाकुमारी. The sixth Disā kumāri residing in the upper regions. ठा० द;

**आणिकंप.** त्रि० (अनिक्षम) अनिश्चय; चले येवा; परिसद आटिथी तो तेवा. निश्चलता राहित; पराषह आर्द से गिरजाने वाला. Not firm; one who flinches from danger. आया० २, २, ३, द८;

**आणिकेय.** पुं० (अनिकेत-न विद्यते निकेतो गृहं यस्य) धर वगरनेत (सःधु). बिना घर का (साधु). One who has no house; an ascetic. “ आणिकेओ परिच्छण ” उत्त० २, १५;

**आणिकड.** त्रि० (अनिकृष्ट) द्रव्यथी रथुव शरीरवाणे अने लावथी कुप्तायने वश नर्थी द्रव्य से स्थूल शरीर वाला और भाव से कशायों को जिसने वश में न किया हो. One who is physically developed but has not been able to

conquer passions ( Kasāyas ).

ठा० ४, ४;

**अशिक्कावाह.** पुं० ( अनेकवादिन्-सत्यपि कथमिदेकत्वे भावानां सर्वथाऽनेकत्वं वदती-स्वयनेकवादी ) पदार्थोभां डैर्छ अपेक्षाये अंकुपण्ठं हेवा छतां पथु तेन न जेतां सर्वथा पदार्थेनुं अनेकुपण्ठं स्थापित करनार वादी. पदार्थों में किसी अपेक्षा से एकत्व होते हुए भी उसे न देख कर सर्वथा पदार्थों का अनेकत्व स्थापित करने वाला वादी. One not recognising unity in substances from any point of view and maintaining absolute difference among them; one inspite of the existence of similarity in substances from a certain point of view establishes the fact of absolute difference among them. ठा० ८;

**अशिक्षत्त.** त्रि० ( अनिश्चित ) त्यग करेल नहि; नापेल नहि. बिना स्वागत हुआ. Not abandoned; not thrown. नाया० १; १३; १६; भग० ६, ३१; १७, २; २०, ६; ( २ ) अविश्रान्त; विश्राम वगरनुं; निरन्तर; सदा. विश्राम रहित; निरंतर; सदा. uninterrupted; ceaseless; without rest. नाया० १; १६; भग० २, १;

**अशिखिवित्ता.** सं० कृ० अ० ( अनिश्चिप्य ) भूक्या विना. बिना छोडे. Without placing; without having placed. वेय० ४, १६; २०;

**अशिग्रह.** पुं० ( अनगर्न-न विद्यन्ते न ग्रनास्तत्का-लीना जना येभ्यस्तेऽनग्नाः ) अंकुरभूमिना भनुष्य-जुगलियाने वस्त्र पुरां पाउनार कल्प-वृक्ष. भोगभूमि के जुगलिया भनुष्यों को वस्त्र देने वाला कल्पवृक्ष. \* Kalpavrikṣa or

desire-yielding tree supplying garments to Jugaliyās, the denizens of the land of inaction. जीवा० ३, ३; सम० १०; जं० प० २, २०;

**अशिग्राम.** त्रि० ( अनिकाम ) परिभित. परिभित. Limited. ( २ ) तुच्छ. तुच्छ; हलका. inferior. उत्त० १४, १३;—सोकख. त्रि० ( -सौख्य ) तुच्छ सुख; थोका सुख. scanty happiness. “ अशिग्रामसोक्ष्वा, संसार-मोक्षस्स विपक्षभूया ” उत्त० १४, १३; **अशिगृहिय.** त्रि० ( अनिगृहित ) गोपवेळनहि. विन छिपाया हुआ. Not concealed. पंचा० १५, २७; १६, ३४;—बलधीरिय. पुं० ( बलवीर्य ) नेण्यु अक्ष-रार्दीरसामर्थ्ये अने वीर्य-चित्तनो उत्साह-अन्दरनुं सामर्थ्ये गोपयां नथी ते. जिसने बल-शरीर का सामर्थ्य और वीर्य-चित्त का उत्साह-अंतरंग का सामर्थ्य नहीं हुपाया. हो वह. one who has not concealed his physical and mental powers. पंचा० १५, २७; प्रव० १५६१;

**अशिग्रय.** त्रि० ( अनिर्गत ) नहि नीकेलः नहीं निकला हुआ. Not come out; not started. विशे० २३६; भग० १४, १;

**अशिग्रह.** पुं० ( अनिग्रह-अविद्यमानो निग्रह इन्द्रियनियन्त्रणात्मकोऽस्येति) अनेधन्द्रियों निग्रह-निर्ग्रहे वश नथी ते. जिसने इन्द्रियों का निग्रह न किया हो; जिसने इन्द्रियोंको वश में न किया हो. ( One who has not restrained his senses. परह० १, ४; ( २ ) त्रि० उद्धत; स्वच्छंटी० उद्धत; स्वच्छन्दचारी० selfwilled; insolent. परह० १, २; ( ३ ) न० अगीआरमु गैषु अअक्ष-विप्रय० सेवन. ग्यारहवाँ गैरा अब्रह्मचर्य-विषयसेवन.

Gauṇa Abrahma; sexual enjoyment. પરહ૦ ૧, ૪;

અણિચ્છ. ત્રિ૦ ( અનિત્ય ) અનિત્ય; ક્ષણબંશુર; નાશવંત; નાશર. નાશવાન; ક્ષણબંશગુર. Transitory. ઓવ૦ ૨૦; ૩૪; પિ૦ નિ૦

૧૪૧; ભગ૦ ૬, ૩૩; નાયા૦ ૧; પરહ૦ ૧, ૫;

આયા૦ ૧, ૧, ૫, ૪૬; સ્યુ૦ ૧, ૬, ૪;

—જાગરિયા. લી૦ ( -જાગરિકા ) સંસારનું અનિત્ય રૂપ વિનિત્યનું તે. સંસાર

કે અનિત્ય સ્વરૂપ કા ચિત્વન કરના. thinking upon the transitory nature of the world. “ અણિચ્છજાગરિયા જાગરેતિ ” ભગ૦ ૩, ૧; ૧૫, ૧; નિર૦ ૩,

૩; —ભાવણા. લી૦ ( -ભાવના ) સંસારનું રૂપ અનિત્ય છે એવી ભાવના. ભાવની

તે. સંસાર કા સ્વરૂપ અનિત્ય હૈ, એસી ભાવના કરના. meditation upon the

non-permanent nature of the world. સ્યુ૦ ૧, ૨, ૧, ૨; —મેરાસરૂપ.

શું૦ ( -મર્યાદાસરૂપ ) અનિયત મર્યાદા રૂપ કૃદ્ય-રચના. ભાવીશ તીર્થકરોના સાધુ-

એનો આચાર. અનિયતમર્યાદાસરૂપ કલ્પ-બીચ કે બાવીસ તીર્થકરોં કે સાધુઓ કા આચાર.

the practices of the Sādhus (monks) of the 22 intermediate Tirthankaras; scripture in which rules of conduct are not precisely fixed. પંચા૦ ૧૭, ૭;

અણિચ્છય. ત્રિ૦ ( અનિસ્યક ) નાશવંત; ચિરકાળ નહીં રહેનાર. નાશવાન; અનિત્ય.

Transitory. આયા૦ ૧, ૧, ૫, ૪૬;

અણિચ્છયા. લી૦ ( અનિત્યતા ) અનિત્યપણું; નખરપણું. અનિત્યપના; નખરપના. Transitoriness. સ્યુ૦ ૧, ૨, ૧, ૫;

અણિચ્છાણુપેહા. લી૦ ( અનિત્યાનુપેહા ) ધન, પુત્ર, શરીર વગેરે સર્વ અનિત્ય છે, એવી

ભાવના. ધન, પુત્ર, શરીર આદી સર્વ અનિત્ય હૈ, એસી ભાવના. Meditation upon the impermanence of wealth, sons, body etc. ઠા૦ ૪, ૧; ભગ૦ ૨૫, ૭;

અણિચ્છાંત. વ૦ કુ૦ ત્રિ૦ ( અનિચ્છાત ) ન ધર્યાતો; ન ચાહ્યો. ઇચ્છા ન કરતા હુઅા; ન ચાહતા હુઅા. Not wishing. વિશે૦ ૨૦૧; ચુ૦ ચ૦ ૧, ૩૬૦;

અણિચ્છાંત્ય. ત્રિ૦ ( અનીપ્સિત ) ધર્યાત્ત નહિ; અનિષ્ટ. અનિષ્ટ; અનિચ્છાત. Not desired; evil. પણ૦ ૨૮;

અણિચ્છાયતા. લી૦ ( અનીપ્સિત-તા ) પામ-વાની અનિષ્ટા. પાને કી અનિચ્છા-પ્રાપ્ત કરને કી ઇચ્છા કા ન હોના. Absence of desire to get. ભગ૦ ૬, ૩;

અણિજિંગણ. ત્રિ૦ ( અનિજિંગણ ) જીવધેશથી છુટા ન પડેલ કર્મપુદ્ધળ; નિર્જરા થયેલ નહિ. જીવપ્રેદેશ સે ન છુટા હુઅા કર્મ પુદ્ધળ; જિસકી નિર્જરા ન હુંદે હો એસા કર્મ-પુદ્ધળ-પરમાણુ. Karmic atoms not worked off from the soul by Nirjarā. ભગ૦ ૬, ૩; કણ્ણ૦ ૨, ૧૮;

અણિજામાણ. ત્રિ૦ ( અન્ધીયમાન ) અનુસરાનું; અનુસરવામાં આવતું. જિસકા અનુસરણ કિયા જાતા હો. Being followed. વિવા૦ ૧; —માર્ગ. ત્રિ૦ (-માર્ગ ) અનુસરવામાં આવે છે માર્ગ-પણ એનો તે. વહ માર્ગ જિસકા અનુસરણ કિયા જાતા હો. which tenet is being followed. “ મદિક્યા ચંડગરપહુંકરેણં અણિજામાણમગે મિયાગમે ણયરે ” વિવા૦ ૧; નાયા૦ ૩૬;

અણિજૂઢ. ત્રિ૦ ( અનિરૂઢ ) ખોટા અંથમાંથી સંક્ષેપુંપે ઉદ્ધાર કરેલ નહિ. વહ પ્રય મેં સે સંક્ષિપ્તરૂપ નહીં કિયા હુઅા. Not epito-

mised; not summarised from a larger work. भग० १, ६;

**अणिज्ञात्ता.** सं० क० अ० ( अनिर्धर्य-चकुरव्यापायेत्यर्थः ) अक्षुना व्यापार विना; आंभथी ज्ञेया विना. आँखों से बिना देखे. Without seeing with the eye; without having seen with the eye. भग० ७, ७;

**अणिट्ठ.** त्रि० ( अनिष्ट ) अनिष्ट; अप्रिय; अशुगमतुं. अनिष्ट; अप्रिय. Unpleasant. “आणिट्ठा भवंति णादिज्जे दुष्विशीया” परह० १, ३; भग० १, ५; ७; ३, २; ६, ३३; १४, ५; ६; १६, ३; जीवा० १; ओष० नि० भा० २५; ३०६; ठा० २, ३; सम० य० २२७; नाया० १८; ६; १२; १४; पञ्च० २८; जं० प० २, ३६; सु० च० २, ३१०; उवा० ८, २५६;—फल. त्रि० ( -फल ) जेनुं इल अनिष्ट छे ते. अनिष्ट फल वाला. resulting in evil. पंचा० ११, ३६; —वयण. न० ( -वचन ) अनिष्ट वयन; आडेश वयन. अनिष्ट वचन; आक्रोश वचन. evil speech; cruel speech. “आणिट्ठवयणेहि सप्पमाणा” परह० १, ३; —स्वर. पु० ( -स्वर ) अशुगमने। स्वर-अप्राप्त. अप्रिय स्वर. unpleasant voice, sound. भग० १, ७; ७, ६; जं० प० २, ३६;

**अणिट्ठतर.** त्रि० ( अनिष्टतर ) अति अनिष्ट; अतिशय अप्रिय. बहुत अनिष्ट; बहुत अप्रिय. Extremely unpleasant. विवा० १; नाया० ८; ६; १२;

**अणिट्ठतरय.** त्रि० ( अनिष्टतर-क ) अति अनिष्ट. अति अनिष्ट. Extremely bad; unpleasant. नाया० ८; १६;

**अणिट्ठविय.** त्रि० ( अनिष्टापित ) पूर्णं न करेत; असमाप्तः निष्ठा-समाप्तिने न पामेत.

अपूर्ण; अधूरा. Not finished. भग० ६, ६३;

**अणिट्ठवया.** त्रि० ( अनिष्टवक ) जुओ। “आणिट्ठवया” शब्द. देखो “आणिट्ठवया” शब्द. Vide “आणिट्ठवया”. परह० २, १;

**अणिट्ठवया.** त्रि० ( अनिष्टवक ) भुष्मांथी युक्त-ज्ञाया। द्वेरे न परटवनार-इंडेनार. मुख में से थूक-कफ वैरह न कैकने वाला. Not spitting out cough, saliva etc. ओव० १६;

**अणिट्ठि.** त्रि० ( अनिष्टि ) आभर्णोपयि आदि ल-प्रिधनो अभाव; अप्रिधनो अभाव. आमर्षोषाधि आदि लाभिधों का अभाव; ऋद्धि का अभाव. Absence of supernatural powers like that of Āmarśoṣādhi etc; absence of prosperity. नाया० ११; भग० १२, १;—पत्त. त्रि० ( -प्राप्त ) आभर्णोपयि आदि लप्रिधने प्राप्त थपेक नहि; लप्रिध रहित. आमर्षोषाधि आदि लाभिध रहित. having attained without supernatural powers like that of Āmarśoṣādhi etc. भग० १४, ५;

**अणिट्ठिमंत.** त्रि० ( अनिष्टिमत् ) लप्रिधिवंत नहि; अप्रिधने प्राप्त थपेक नहि. लाभिध रहित; ऋद्धि रहित. Without attaining supernatural powers; without prosperity. “ छविहा आणिट्ठिमंता परयासा, तंजहा-हेमवंतगा हिरण्यवंतगा” ठा० ६;

**अणिगद्वयण.** न० ( अनिहवन् ) जेनी पासे अभ्यास कर्यो हेय तेतुं नःभ न छुपावनुं ते; ज्ञानने पांचभो। आच० २. जिसके पास अभ्यास किया हो उसका माम न छिपाना; ज्ञान का पाँचवाँ आचार. Not concealing the name of &

teacher; the fifth Achāra of knowledge. पंचा० १५, २३;

**अणिंद्रहवमाण.** त्रि० (अनिन्द्रहवत्) भरी वात न धुपावते. सत्य वात को न छिपाता हुआ.

Not concealing a truth. नाया० १; **अणिंतिय.** त्रि० ( अनित्य ) अनित्य; क्षणभं-शुरः; नाशंवंत. अनित्य; ज्ञानभंगुर. Transi-  
tory. आया० १, ५, २, १४७;

**अणिंतिय.** पुं (\*अनितिक-अनियत) जुओ “अणिंहय” शब्द. देखो “अणिंहय” शब्द.  
Vide “अणिंहय”. भग० ६, ३३; दसा० १०, ६;

**अणिंथंथ्य.** त्रि० ( अनित्थंस्थ-अमुं प्रकारमा-  
पञ्चमित्यं, इत्थं तिष्ठतीत्यथंस्थं न इत्थंस्थ-  
मनित्यथस्थर ) डेई लैटिक प्रकारथी न  
रहेनार; अदैलिकि प्रकारनी रिथितवायुं-  
अदैलिकि संदायु; प्रसिध्य संदायुथी विल-  
क्षण. अलौकिक प्रकार की स्थिति वाला-  
अलौकिक संस्थान; प्रायद्व संस्थान से विलक्षण.  
One in a supernatural or extra-  
ordinary condition of existence.  
“संठाणमणिंथंथं, जरामरणविप्सुकाणं”  
ओब० ४४, ८; भग० २२, २; जीवा० १; विशेष० ११७२;—संठाण. न० (-संस्थान)  
अनियत संस्थान; अदैलिकि-विलक्षण संदायु;  
सिद्धेनुं संस्थान--आ॒।२. अनियत संस्थान;  
विलक्षण संस्थान; सिद्धों का संस्थान-आकार.  
extraordinary or supernatural  
structure of the body or form  
of Siddhas. जीवा० १;

**अणिंद्रा.** लौ० ( अनिदा ) अजायुपष्टे क्रेली  
हिंसा; सामा प्राणीने असावधानतामां  
भावये। ते. अजानपन से की हुई हिंसा;  
सामने वाले प्राणी को असावधानी में  
मारना. Unconscious killing; kill-  
ing a living being while it is

off its guard. भग० १६, ५; ( २ )  
अनिर्धारण; अयोक्त्स; वेष्यरपयुं. वे  
खबरपना; अनिश्चित. uncertainty;  
absence of positive knowledge.  
“ पुढिकाह्या सब्वे असणिणभूया अणि-  
दाए वेयण वेदेति ” भग० १, २; पश० १;  
३४;

**अणिंदाणता.** लौ० ( अनिदानता ) नियायुं न  
करनारने भाव; इकाशंसा रहितपयुं; नरेद,  
देवेद्वाहिनी ऋधि न वांछी ते. फलाशा  
रहित भाव; नियाणा न करने का भाव;  
देवादिक की ऋद्धि की इच्छा न करना. Not  
desiring the prosperity of  
Indra etc.; absence of an incli-  
nation for Niyāṇu ( e. g.,  
intense longing for the fulfil-  
ment of an avowed desire in  
future birth. ) “ सम्बन्ध भगवदा  
अणिंदाणता पसत्था ” ठा० ६; वेय० ६, १६;  
**अणिंदेस.** त्रि० ( अनिदेश ) शम्दी न कृषि  
शक्तय ऐयुं; अनलिलाघ. अनिर्वचनीय; शब्द  
से न कहे जाने योग्य. Indescribable;  
inexpressible in words. विशेष०  
२५२;

**अणिंदेस.** पुं ( अनिदेश ) अभान्य; अस्वी-  
कृ॒; अप्रभायुं करयु ते. अमान्य; अस्वीकार.  
Denying the authority of; not  
accepting. उत्त० १, ३;—कर. त्रि०  
( -कर ) अभान्य करनार; क्षू॒क न करनार.  
अमान्य करने वाला; क्षू॒क न करने वाला.  
one who does not accept.  
“ आणागणिंदेसकरे गुरुणमणुववायकारए ”  
उत्त० १, ३;

**अणिंपरण.** त्रि० ( अनिष्पत्त ) निष्पेत्युं नहि;  
तैयार थयेत्युं नहि. अनुत्पत्त. Not  
produced; uncooked. भग० १५, १;

**अणिभंतेमाण.** व० क० त्रि० ( अनिमन्त्रयत् )  
नहि आभन्त्रतो; न नोतरतो; आभन्त्रयु न  
आपतो. नोता न देता हुआ; आमन्त्रित न  
करता हुआ. Not inviting; not  
giving an invitation. आया० २, ●,  
३,६०;

**अणिभित.** न० ( अनिमित्त ) विना कारण;  
कारणु विना. विना कारण; अकारण.  
Unreasonably; without any  
cause. नाया० ११;

**अणिभिस.** त्रि० ( अनिमेष ) अांभनो पलकारे  
भार्या वगरनु. पलक न मारा हुआ. Wink-  
less; without twinkling. उत्त०  
१४, ६; नाया० ३; ८; भग० ५, ३३; ११,  
१०; १५, १; दसा० ७, १२; ( २ ) क्ष वनस्पति  
विशेष. + वनस्पति विशेष. \* a kind of  
vegetable. “बहु अट्टिङ्गं पोगलं अणि-  
भिसं बहुकंटयं” दस० २, १, ७३;—गणया.  
पुं० ( -नयन-न विधते निमेषो येषां  
तानि अनिमेषाणि, अनिमेषाणि नयनानि येषां  
सेऽनिमेषनयनाः ) ऐ आंभनो पलकारे।  
भारता नथी ते; देवता. औंख के पलक न मारने  
वाला देव. a god, with winkless  
eyes. पंचा० १८, १६;

**अणिमुक्ख.** पुं० ( अनिमोक्ष ) भेक्षनो  
अभाव. मोक्ष का अभाव. Absence of

ज्ञेनाट-टीकाकारे पोगल शब्दनो अर्थ भास अने अणिभिसनो अर्थ भत्स्य क्यों ऐ, पणु ते  
उचित लागतो नथी, कारणु के आगण पाठ्य वनस्पतिविशेषनो अविकार ऐ. टीकाकार पोते पणु  
ते वधुतना एनि आचार्योनो भत दर्शावतां कुदे छे के “अन्ये त्वभिदधति वनस्पत्यधिकारात्था-  
विषफलाभिधाने एते इति”

+नोट—टीकाकार ने पोगल शब्द का अर्थ माँस और अणिभिस शब्द का अर्थ मत्स्य किया है,  
परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि, आगे पीछे वनस्पति का वर्णन है और स्वयं टीकाकार  
भी उस समय के दूसरे आचार्यों का भत प्रकट करता हुआ कहता है कि, “अन्ये त्वभिदधति  
वनस्पत्यधिकारात्थाविषफलाभिधाने एते इति”

\*Note—the commentary assigns the meaning “fish” but the context favours the meaning “fruit”.

salvation. विशेष० २४६८;

**अणियहृषि.** न० ( अनिवर्त्तन ) भुक्ति भेणव्या  
विना निवर्त्ते नहि तेवुं ध्यान; शुक्लध्याननो त्रीन्दे  
भै८-पायो. मुक्ति प्राप्त किये विना उससे निवृत्त  
न हो ऐसा ध्यान; शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद-  
पाया. Meditation which does not  
cease without attaining salva-  
tion; the third variety or stage  
of Śukladhyāna. “सुहुमकिरिए  
अणियहृषि” ठा० ४, १; ओव० २०; उत्त०  
२६, ४१; पंचा० ३, २६; ( २ ) पुं० ७६  
मेरा ग्रह. ७३ वाँ प्रह. the seventyninth  
planet. सू० प० २०; ठा० ३,  
३; ( ३ ) जंबूद्वीपना भरतक्षेत्रमां आवती  
चोवीसीमां थनार २० भा तीर्थकूर. जंबू-  
द्वीप के भरतक्षेत्र की आगामी चौवीसी में  
होने वाले २० वें तीर्थंकर. the future  
twentieth Tīrthaṅkara of  
Bharata Kṣetra in Jambū-  
dvīpa in the coming Chovīśī  
(cycle of Tīrthaṅkars) सम०प० २४१;  
—करण. न० ( -करण ) सभक्ति प्राप्त  
करती वधुते रागद्वैष्णवी ग्रंथिने भेदनार विशुद्ध  
अध्यवसायविशेष, के ऐ ग्रंथिने भेद्या विना  
निवर्त्ते नहि ते करणविशेष. सम्यक्त्व प्राप्त  
करते समय रागद्वैष्णव का प्रन्थि को भेदने वाला

teacher; the fifth Achāra of knowledge. पंचा० १५, २३;

**अग्निएहवमाण.** त्रि० (अग्निन्दुवत्) भरी वात न छुपावतो। सत्य वात को न छिपाता हुआ।

Not concealing a truth. नाया० १; **अग्नितिय.** त्रि० ( अग्नित्य ) अग्नित्य; क्षेत्रभूमि-गुरु; नाशवंत. अग्नित्य; ज्ञानमंगुर. Transitory. आया० १, ५, २, १४७;

**अग्नितिय.** पुं (\*अग्नितिक-अग्नियत) जुओ। “अग्निइय” शब्द. देखो “अग्निइय” शब्द.

Vide “**अग्निइय**”. भग० ६, ३३; दसा० १०, ६;

**अग्नित्यस्थ.** त्रि० ( अग्नित्यस्थ-अमुँ प्रकारमा-पश्चमित्य, इत्थं तिष्ठतीतीत्यस्थं न इत्थस्थ-मनित्यस्थम् ) डोधे लैटिक प्रकारथी न रहेनार; अदौडिक प्रकारनी रिथितवाणुं-अदौडिक संहाणु; प्रसिध्य संहाणुथी विलक्षण्। अलौकिक प्रकार की स्थिति वाला-अलौकिक संस्थान; प्रसिद्ध संस्थान से विलक्षण। One in a supernatural or extraordinary condition of existence. “संठाणमग्नित्यस्थं, जरामरणविष्पमुकाणं” ओब० ४८, ८; पञ्चा० २; भग० २५, २; जीवा० १; विशेष० ३१७२;—**संठाण.** न० ( संस्थान ) अग्नियत संस्थान; अदौडिक-विलक्षण संहाणु; सिद्धाणुं संस्थान-आकार। अग्नियत संस्थान; विलक्षण संस्थान; सिद्धों का संस्थान-आकार. extraordinary or supernatural structure of the body or form of Siddhas. जीवा० १;

**अग्निदृष्टि.** श्री० ( अग्निदा ) अग्निपश्चे करेली दिसा; सामा प्राणीने असावधानताभावारवे ते। अजानपन से की हुई हिसा; सामने वाले प्राणी को असावधानी में मारना। Unconscious killing; killing a living being while it is

off its guard. भग० १६, ६; ( २ ) अग्निधरणु; अग्नेऽक्ष; ऐग्नभृपणुं। वे खबरपना; अग्निश्चित. uncertainty; absence of positive knowledge. “ पुढिकाइया सब्बे असग्निभूया अग्निदाए वेयण वेदेति ” भग० १, २; पञ्चा० १; ३४;

**अग्निदाणता.** श्री० ( अग्निदाणता ) नियार्थं न करनारने। भाव; इताशंसा रहितपणुं; नरैर्द, देवेऽग्निहिनी ऋषिध न वांछी ते। फलाशा रहित भाव; नियाणा न करने का भाव; देवादिक की ऋषिदि की इच्छा न करना। Not desiring the prosperity of Indra etc.; absence of an inclination for Niyāṇu ( e. g., intense longing for the fulfilment of an avowed desire in future birth. ) “ सब्बत्य भगवया अग्निदाणता पसत्था ” ठा० ६; वेय० ६, १६; **अग्निदेस.** त्रि० ( अग्निदेश ) शम्भृती न कही शकाय ऐनुं; अनलिला वै. अर्निवचनीय; शब्द से न कहे जाने योग्य। Indescribable; inexpressible in words. विशेष० २५३;

**अग्निदेस.** पुं० ( अग्निदेश ) अभान्य; अस्वी-कार; अप्रभाणु करनु ते। अमान्य; अस्वीकार. Denying the authority of; not accepting. उत्त० १, ३;—**कर.** त्रि० (-कर) अभान्य करनार; क्षुक्ष न करनार। अमान्य करने वाला; कबूल न करने वाला. one who does not accept. “ आणाग्निदेसकरे गुरुशमणुववायकारप् ” उत्त० १, ३;

**अग्निपरण.** त्रि० ( अग्निपक्ष ) निपत्तेनुं नहि; तैयार थयेनुं नहि. अनुत्पत्त. Not produced; uncooked. भग० १५, १;

**असिमंतेमाण.** व० क० त्रि० ( अनिमन्त्रयत् )  
नहि आमन्त्रतो; न नेतरतो; आमन्त्रणु न  
आपतो. नोता न देता हुआ; आमन्त्रित न  
करता हुआ. Not inviting; not  
giving an invitation. आया० २, ●,  
३,६०;

**असिमित्त.** न० ( अनिमित्त ) विना कारण;  
कारणु विना. विना कारण; अकारण.  
Unreasonably; without any  
cause. नाया० ११;

**असिमिस.** त्रि० ( अनिमेष ) आँभनो पकड़ारे  
भार्या वगरनु. पलक न मारा हुआ. Wink-  
less; without twinkling. उत्त०  
१६, ६; नाया० ४; द; भग० ५, ३३; ११,  
१०; १५, १; दसा० ७, १२; (२) क्ष वनस्पति  
विशेष. + वनस्पति विशेष. \* a kind of  
vegetable. “बहु अट्टिङ्गं पोगलं असि-  
मिसं बहुकंटयं” दस० २, १, ७३; —शयण.  
पुं० ( -नयन-न विघ्नते निमेषो येषां  
तानि अनिमेषाणि, अनिमेषाणि नयनानि येषां  
सेऽनिमेषनयनाः ) ऐ आँभनो पकड़ारे  
भारता नथी ते; देवता. आँख के पलक न मारने  
वाला देव. a god, with winkless  
eyes. पंचा० १८, १६;

**असिमुक्त्व.** पुं० ( अनिमोच ) भोक्षनो  
अभाव. मोक्ष का अभाव. Absence of

ज्ञोट—टीकाकारे पौत्रगल शब्दनो अर्थ भास अने अधिभिसनो अर्थ भस्य क्यों छे, पण ते  
उचित लागतो. नथी, कारणु के आगण पाइया वनस्पतिविशेषनो अधिकार छे. टीकाकार पौत्रे पण  
ते वभतना भीजन आचार्योनो भत दर्शायतां कुहे छे के “अन्ये त्वभिदधति वनस्पत्यधिकारात्था-  
विधफलाभिधाने एते इति”

+नोट—टीकाकार ने पोगल शब्द का अर्थ मौस. और असिमिस शब्द का अर्थ मत्स्य किया है,  
परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि, आगे पीछे वनस्पति का वर्णन है और स्वयं टीकाकार  
भी उस समय के दूसरे आचार्यों का भत प्रकट करता हुआ कहता है कि, “अन्ये त्वभिदधति  
वनस्पत्यधिकारात्थाविधफलाभिधाने एते इति”

\*Note—the commentary assigns the meaning “fish” but the context favours the meaning “fruit”.

salvation. विशे० २४६८;

**अलियहृ.** न० ( अनिवार्सित् ) बुक्ति भेणव्या  
विना निवर्ते नहि तेवुं ध्यान; शुक्लध्याननो त्रीज्ञे  
भद्र-पूर्णे. मुक्ति प्राप्त किये विना उससे निवृत्त  
न हो ऐसा ध्यान; शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद-  
पादा. Meditation which does not  
cease without attaining salva-  
tion; the third variety or stage  
of Śukladhyāna. “सुहुमकिरिष  
अलियहृ” ठा० ४, १; ओव० २०; उत्त०  
२६, ४१; पंचा० ३, २६; (२) पुं० ७६  
भा. ग्रह. ७६ वाँ ग्रह. the seventy-  
ninth planet. सू० प० २०; ठा० २,  
३; (३) जंबूद्वीपना भरतक्षेत्रमां आवती  
चोवीसीमां थनार २० भा. तीर्थक२. जंबू-  
द्वीप के भरतक्षेत्र की आगामी चौवीसी में  
होने वाले २० वें तीर्थकर. the future  
twentieth Tīrthaṅkara of  
Bharata Kṣetra in Jambū-  
dvipa in the coming Chovīśī  
(cycle of Tīrthaṅkars) सम०प० २४१;  
—करण. न० ( -करण ) समक्ति प्राप्त  
करती वभते रागदैषनी अंथिने भेदनार विशुद्ध  
अभ्यवसायविशेष, के ऐ अंथिने भेदा विना  
निवर्ते नहि ते करणविशेष. सम्यक्त्व प्राप्त  
करते समय रागदेष की प्रन्थि को भेदने वाला

विशुद्ध अध्यवसायविशेष; जो ( रागदेवरूपी ) प्रथि को भेदे बिना निवृत्त न हो वह करणविशेष extremely pure thought-activity which does not subside without shattering the knot of passion and hatred at the time of initiation into the right faith. आया० नि० दी० १, ६, १, २८४;—बायर. पुं० ( -बादर—न विद्यतेऽन्योन्यमध्यवसायस्थानस्य व्याकृतिर्थस्यासावनिवृत्तिः स चासौ बादरश्चेति ) नवमे गुणाणेषु वर्तते। ७३. नवे गुणस्थान वाला जीव. a soul in the ninth Guṇasthāna. क० गं० ६, ५०; ( २ ) नवमा गुणस्थानकृतुं नाम; आँड़ि कृष्णयोदय इशमा गुणस्थानकृनी अपेक्षाए व्यादर-स्थूल छे, वर्णी आ गुणाणेषु वर्तता धूषा। ७४। नवे गुणस्थान का नाम; इस गुण स्थान में दशवें गुणस्थान की अपेक्षा कषायोदय स्थूल होता है और इस गुणस्थान वर्ती बहुत से जीवों के अध्यवसाय परस्पर पृथकरण को प्राप्त नहीं होते अतः इसका " अनियद्विबादरसंपराय " यह सार्थक नाम है. the ninth Guṇasthāna so named because here the Samparāya or unclean passions are grosser than in the tenth ( Bādara, gross ). The activities of the souls in this stage are not differentiated. क० गं० ६, ५०;

अणियद्विजमाण. त्रि० ( अनिवर्त्यमान ) पालिना तरं यगेरे साथे अखलानु-गोथा

भातुं; जाभाना उक्ताथी द्वातुं. पानी को लहर बैरह से टकराने वाला; सामने के आकरण से दबजाने वाला. Being tossed to and fro e.g. by waves. ● “ सखिलतिक्षेवेगेहैं अणियद्विजमाणी कोहिमंसि करतलाहसे विव तेदुसण ” नाया० ६;

अणियण. पुं० ( अनग्न ) जुओ। ”अणिगण” शब्द. देखो “ अणिगण ” शब्द. Vide “ अणिगण ”. ठा० ७; प्रव० १०८४;

अणियत. त्रि० ( अनियत ) नियमित नहि ते; अचेतक. नियत नहीं. Irregular; uncertain; not fixed. पंचा० १३, १३; —लाभ. पुं० ( -लाभ ) अचेतक लाभ. अनियत लाभ-फ़ायदा. uncertain gain. पंचा० १३, ३३;

अणियत. त्रि० ( अनिवृत्त ) निवृत्त नहि थ्येल; निवृत्ति न पाभेल. निवृत्ति रहित. Not quieted; in a state of activity. “ परिव्यवंते अणियतकामे ” उत्त० १४, १४; सूर्य० २, ६, २३;—काम. त्रि० ( -काम ) जेनी धृष्टि निवृत्त नभी थ्ध ते. अनिवृत्त-निवृत्ति रहित इच्छा वाला. one who is not free from longing; one with yearnings unassuaged. उत्त० १४, १४;

अणियमिता. सं० ह० अ० ( अनिवर्त्य ) नियमित न करीने; न अटकावीने, नियमित न करके; न रोक करके. Without checking; without having restrained. “ इह जीवियं अणियमिता ” उत्त० ८, १४;

अणियय-आ. त्रि० ( अनियत ) अप्रतिष्फृद्ध; डोधना अंधायेल नहि; नित्य वास रहित. अप्रतिष्फृद्ध; किसीका बांधा हुआ नहीं; नित्य वास रहित. Unrestrained; free;

without permanent residence. “गामे अशियओ चरे” उत्त० ६, १७; पञ्च० १७; सूय० १, ६, ६; ( २ ) अनवस्थित; अनिश्चित. अनिश्चित; अनवस्थित. not fixed; unsteady. परह० १, २; ( ३ ) न० ऐक्ली नियतिथी नहि पशु पाचे समवागिकारणुथी उत्पन्न थंतु सुख वगेरे. केवल अकेली नियति से ही नहीं किन्तु पाँचों समवायिकारणों से उत्पन्न होने वाला सुख वगैरह. happiness etc. resulting from the collective operation of the five Samavāyi causes and not from one of them viz. Niyati. नियानियं संतं, अयाणंत अबुद्धिया” सूय० १, १, २, ४; नाया० १; ( ४ ) पुश्पार्थी अ-पथा थंध शडे तेवे भाव; भावीभावथी भिन्न. पुरुषार्थ से अन्यथा ही सकने वाला भाव; भावी भाव से भिन्न. capable of being altered by human efforts; not unalterably fixed; different from future happenings. “अशिय-यमा सज्जभावा” उवा० ६, १६;—चारि. पुं० ( -चारिन् ) जुओ “ अशिएशचारि ” शब्द. देखो “अशिएशचारि” शब्द. vide “अशिएशचारि”. सूय० १, ६, ६;—घट्टि. पुं० ( -वृत्ति ) अप्रतिष्ठि निहार; प्रति घंध विनानु वर्तन. अप्रतिबद्ध विहार; प्रतिबंध रहित वर्तन. unrestricted manner of living. दसा० ४, १२; दस० ४; ठा० ८;—विच्छि. पुं० ( -वृत्ति ) जुओ उपले. शब्द. देखो ऊपर का शब्द. vide “अशियव-हि”. ठा० ८; दसा० ४, १२; १३; १४; अशियाण. त्रि० ( अनिदान ) लेखे संयम-तप वगेरेनु भावि इत्थ भांगी नथी लीधु ते; नियाण्यं न करनार; निर्भरा सिवाय भीज

इत्थनी आकांक्षा न राखनार. संयम-तप वगैरह का फल न चाहने वाला; नियाणा न करने वाला; निर्जरा के सिवाय दूसरे फल की आकांक्षा न रखने वाला. Practising penance etc.; without any motive save that of destroying Karma ( actions ). “ अशियाणे अकोउहजे य जेसभिक्ष्म् ” पंचा० १६, ४१; दस० १०, १३; आया० १, ४, ३, १३६; उत्त० ३५, १६; भगा० २, १; आवा० ४, ८; जं० पा० ५, ११५; ( २ ) त्रि० साधान-नुष्ठान रहित. पापानुष्ठान रहित. free from sinfulness in performance, e. g. of penance. ‘तिविहेणवि पाण-माहणे, आयहिते अशियाणसंवुद्धे’ सूय० १, २, ३, २१; ( ३ ) त्रि० भोग अने अद्विनी प्रार्थनारूप आर्तध्यान विनानो. भोग और अद्विनी के प्रार्थनारूप आर्तध्यान से रहित. free from the painful meditative prayer for future self-enjoyment and prosperity, ठा० ३, १;

अशियाणभूय-आ. त्रि० ( अनिदानभूत ) साध-धानुष्ठान रहित; आश्रव रहित. पापानुष्ठान रहित; आश्रव रहित. Devoid of sinful conduct; not exposed to the inflow of Karma. ( २ ) कर्मना. उपादान कर्मना. कर्मना. कर्म के उपादान कारणों से रहित-ज्ञानादि. devoid of or free from the efficient cause of Karma i. e. knowledge etc. “ झापडिङे भिक्खु समाहिपते, अशियाण-भूए सुपरिव्वप्जा ” सूय० १, १०, १; अशियाणया. ल्ला० ( अनिदानता ) जुओ ‘अशियाणया’ शब्द. देखो “अशियाणया” शब्द. Vide ‘अशियाणया.’ वेय० ६, १३;

**अणिरुद्ध.** त्रि० ( अनिरुद्ध ) क्षयांय पशु अटके नहि तेवुं. कहीं भी न अटकने वाला. Unobstructed. सूय० टी० १, १२, ८; ( २ ) पुं० प्रधुम्न कुभारथी थयेल दैदेहीं राखीनो पुत्र, डे जे नेभ- नाथ प्रभु पासे दीक्षा लाई शत्रुजय पर सिद्ध थया. प्रधुम्न कुमार की बैदर्भी रानी का पुत्र, जिसने नेमिनाथ से दीक्षा ली और शत्रुजय ऊपर सिद्ध गती प्राप्त की. the son of queen Vaidarbhī by Pradyumna Kumāra, who took Dikṣā from Neminātha and obtained salvation on Śatrujaya. नाया० १६; —परण. पुं० ( -गङ्ग ) जेनी भुष्ठि क्षयांय पशु स्वप्नित न थाय ऐवा; तीर्थकर, डेरगी आदि. अस्वलित तुद्धि वाला; तीर्थकर, केवली आदि. ( one ) of infallible, unobstructed intellect e. g. a Tirthankara etc. सूय० टी० १, १२, ८;

**अणिल.** पुं० ( अनिल ) वायु; पवन; वायरे. वायु; हवा. Wind; breeze. जं० प० २, ३१; नाया० ६; दस० ६, ३७; उत्त० १४, १०; ओव० १७; परह० १, १; ( २ ) गर्भ चौवीसीना भरतक्षेत्रना एकवीसभा तीर्थकर. भरतक्षेत्र की गत चौवीसी के २१ वें तीर्थकर. the twenty-first Tirthankara of the last Chovisi of Bharatakṣetra. प्रव० २६१; ( ३ ) छी० भावीसभा तीर्थकरों प्रथम साध्वी. बावास- वें तीर्थकर की प्रथम साध्वी. the first female disciple of the twenty-second Tirthankara. प्रव० ३१०;

**अणिल्लिय.** त्रि० ( अनिर्लिङ्गित ) भासीयत न करेल; अग्रद आहिके न सभारेत, खस्सी न किया हुआ. Not distinguished from others of the same class

by a special mark, spot etc. ( an ox ). भग० ८, ५;

\***अणिल्लिय.** त्रि० ( आनीत ) लावेल; आषेल. लाया हुआ. Brought. नाया० १;

**अणिवारक्त.** त्रि० ( अनिवारक ) अटक- वनार नहि; निवारण ४२नार नहि. न रोक- ने वाला; न निवारण करने वाला. Not preventing; not checking. विवा० २;

**अणिवारित्रि.** त्रि० ( अनिवारित ) रोड़- अटकावेल नहि. बिना रोका हुआ. Not stopped; not obstructed. नाया०

१८; विवा० २; नाया० ८०

**अणिवारिया.** छी० ( अनिवारिका-नास्ति वि- वारको-मैवं कार्यातित्येवं निषेधको यस्या: साऽनिवारिका ) जेने साइ नरसुं करतां डैर्घ्य अटकावनार नथी तेवी अ. ऐसी छी जिसे भला बुरा करने पर कोई रोकने वाला न हो. A woman without any body to check her. “तप्तेण सा सूमाजिया अज्ञः अयोहृष्ट्या अणिवारिया सञ्जंदमर्ह अभि- क्षयणं हरथे धोवेद्” नाया० १६; नाया० ८०

**अणिवृद्ध.** त्रि० ( अनिर्बृद्ध ) सांझाने निर्बाह करेल नहि. सुनकर के उपयोग नहीं किया हुआ. Not made use of after hearing. सूय० २, ७, ३८;

**अणिवृत.** त्रि० ( अनिर्बृत ) क्षयांय शान्ति पाभेल नहि. जिसने कहीं भी शान्ति न पाई हो. Bereft of peace; destitute of mental ease. “अणिवृते धातसुबेति बाले” सूय० १, ४, २, ५; ( २ ) परिषुभ- पाभेल नहि; अपरिषुत. अपरिणाम; परिणा- म शून्य. not matured. दस० ३, ६;

**अणिवृगण.** न० ( अनिवारण ) निर्वाय-भेक्षने अभाव. मोक्ष का अभाव. Absence of final emancipation. पंचा० ७, १३;

**अणिवृद्ध.** त्रि० ( अनिर्बृत ) परिषुभ-

प्रभेद नहि; अपरिणुत; अपरिपक्व. अपरिणत; परिणाम रहित; अपरिपक्व. Not matured. “ तत्ता शिव्वुदभोइत्तं आउ-रसरणाणि य ” दस० ३, ६;

**अणिसं.** अ० ( अनिश्चय ) हमेश; सेव; निरंतर. हमेशह; सदा. Always; constantly. सु० च० २, ५७२;

**अणिसट्.** त्रिं० ( अनिस्त्रिय ) धणिनी के सही-पारीनी अनुमति विनानु; धरना मुख्य भाषुसोमे कथूल न करेतु. घर के मुखियों द्वारा अस्वीकृत. Not consented to by the principal members of a family. ओघ० निं० ७०६; निर्सी० १२, ५; आया० १, १, २, २०२; पिं० निं० ६३; ठा० ६, १; दसा० २, ७; ( २ ) धणा लाग्नीदारीनी साधारण् वस्तुमांथी अंडकनी पशु रज्ज विना साधुने आहारादि आपवायी खागतो ऐक देप; १६ उद्गमनना दोषमाना १५ भो दोष. बहुत से भागीदारों की साधारण वस्तु भी एक की अनुमति के बिना राधु को आहारादि में देने से लगने वाला एक दोष; १६ उद्गमन के दोषों में से १७ वां दोष. a kind of sin incurred by giving food etc. to a Sadhu from the property common to many partners without the permission of any of them; the fifteenth of the sixteen faults of Udgamana. ठा० ६, १; पिं० निं० ६३;

**अणिसिट्.** त्रिं० ( अनिस्त्रिय ) जुओ. “ अणिसट्.” शब्द. देसो “ अणिसट् ” शब्द. Vide “ अणिसिट्. ” अणिसिट् सामन्तं गोट्टियभत्ताहै वेह एगस्स ” पराह० २, ५; भग० ८, ७; ६, ३३; ओव० ८०; निर्सी० ५, ७६, १४, ४; सूर्य० २, ७, ३८;

**अणिसेद्ध.** त्रिं० ( अनिपिद्ध ) भंभनि आपेक्ष;

अतुभोद्दान आपेक्ष; निषेध न करेक्ष. अतुमोदित; निषेध न किया हुआ. Not prohibited; permitted. कप० ८; ( २ ) सातधानुशानधी. निवृति न प्रभेद. सातधानुशान से निवृति नहीं पाया हुआ. not freed from faulty performance. पंचा० १२, २५;

**अणिसेस.** न० ( अनिःश्रेयस ) अश्रेय; अकृद्याख्. अकल्याण; अश्रेय. Absence of welfare; ruin. “ अणिसेसाए अणाणुगमियतापु भवति ” दसा० ७, ९२;

**अणिस्त्र.** त्रिं० ( अनिक्ष ) सर्व जनथी त्वान्य; अनाथ; निराध०२. सब लोगों द्वारा उपेक्षणीय अथवा त्याज्य; अनाथ; निराधार. Abandoned by all men; helpless; supportless. “ रुवे आतिसो दुहिओ अणिस्त्रो ” उत्त० ३२, ३१;

**अणिस्सर.** त्रिं० ( अनीधर ) असमर्ध; दरिद्री; गरीब. असमर्ध; दरिद्र; गरीब. Powerless; poor. गम० ३०; दसा० ६, १५;

**अणिस्त्रा.** स्त्री० ( अनिश्रा ) निश्रा-भद्रो अभाव; देहनी अंगक्षा न राखी ते. सहायता का अभाव; किसीको अपेक्षा न रखना. Absence of help; absence of expectation. वेग० १, २१;

**अणिस्त्रिय-य.** त्रिं० ( अनिश्चित्र ) प्रतिमंध रहित; भभता रहित. प्रानवंध रहित; गमत्व रहित. Free from attachment. “ एन्यवि समणोः अणिस्त्रियः अणिश्चाणे ” सूर्य० १, १६, २; दस० ७, ५७; पराह० २, ३; सूर्य० १, २, २, ७; ( २ ) असंपद्ध; अप्रवृत्त. असमवद्ध; अप्रवृत्त. not connected with; not engaged in. “ अणिद्वे सहफासेसु आरंभेसु अणिस्त्रिये ” सूर्य० १, ६, ३५; ( ३ ) न० कीर्त्तिनी अपेक्षा विना वैधानव्य वर्णे. इवा ते. कीर्त्ति आदि

की अपेक्षा विना सेवा आदि करना. service, worship etc. without desire of fame. पगह० २, १; ( ४ ) न० द्विंग-हेतुनी निशा राम्या विना थंजू जान; हेतु की अपेक्षा विना होने वाला ज्ञान. knowledge not requiring syllogistic proof. विश० ३१०; ठा० ६, १; ( ५ ) पृष्ठनाडिनी अपेक्षा विना थंजू जान. पुण्ड्रादाद की अपेक्षा विना होने वाला ज्ञान. knowledge not requiring reference of books etc. दम० ४; ( ६ ) त्रि० डेहती भय सद्वायता न वाणिजा. किंगते रो गङ्गायना की चाहना न करने वाला not needing help from any quarter. “ अशिष्टस्त्रियो इह लोणपरलागु अशिष्टस्त्रियो ” उच्च० १६, ६३; विश० १६६; ३०८; दयख० त्रि० ( -वचन ) रागदेवरदित वेना वयन छेत; शुभ्य प्र॒ प॒ रागदि दोयो ने रहित दद्यनो वाला, शुद्ध प्रस्पक. free from attachment or hatred in speech. दग्ग० ८, २७; -दयग्नया. ऊ० ( -वचनता वचन ) रागदेव आदि रदित वयन. रागदेवाद गहित वचन. speech free from passions. ठा० ८;

**अशिष्टस्त्रियोवस्त्रिय.** पुं० ( अनिश्चितो-पात्रित ) निश्चित राग अथवा आदरादिनी लेपुन्ता, उपश्रित-दौप अथवा शिखा आदि-नी अपेक्षा. अ नदि; रागदेव रदित; आदर अते शिखादिनी अपेक्षा. रदित आधु. रागदेव रहित; आहार और शिष्य आदि की अपेक्षा रहित रायु. A Sādhu free from passion and hatred; also, one not yearning for sweet, food, disciples etc. “ साहस्रियाण अहि-

गरशंसि उप्परखांसि तस्थ अशिष्टस्त्रियोवस्त्रियो अपक्षयगाही ” ठा० ८; “ अशिष्टस्त्रियोवस्त्रियं सम्म ववहारमाणे समये गिर्मधे आण्याए. आराहण भवइ ” भग० ८, ८; दसा० ४, १०५; वव० १०, ३;

**अशिष्टस्त्रियोवहारण.** न०० ( अनिश्चितोपधान ) वीनती सदाय विना उत्तवाभां आपतुं तपै; निष्काम तपै; ३२ योगसंप्रहामानो चायेऽयोगसंप्रद. दृमर की सहायता विना किया जाने वाला तपै; निष्काम तपै; ३२ योग-मंप्रहों में से चाँचा योगसंप्रद. Penance observed without the help of others; penance without desire of worldly fruit; the fourth of the thirty-two Yogasaṅgrahas. गम० १२;

**अशिष्ट.** पुं० ऊ० ( अनिह ) द्वाधाहिथी अपी-डि. क्रोधादि ये अपांडित. ( One ) not afflicted by anger etc. “ अशिष्टे गे पुढे अहियासाए ” सूर्य० १, २, १, १२; ( २ ) पुं० ऊ० भाया, प्रपंच रहित; उपर रदित. माया, प्रपंच रहित; कपट रहित. free from deceit, “ अस्ति सुठिज्ञा अशिष्टे चरजा ” सूर्य० २, ६, ४२; १, ८, १८; दम० १०, १, १८;

**अशिष्टह.** पुं० ( अनिहत ) उपसर्गादिथी अपराजित; उपसर्गथी पराभव न पामेत. उपगर्भादि रो पराभव न पाया हुआ. ( One ) not overpowered by disturbance caused by human beings, celestial beings etc. “ अशिष्टे पृग मध्याये संपेहाए धुणे सरीर ” आया० १, ४, ३, १३५; सूर्य० १, २, २, २०;

**अशिष्ट.** पुं० ( अखेह ) रागदेव पवरनो; रमेह पवरनो. रागदेव रहित; स्नेह रहित. Free from attachment. आया० १, ४,

३, १३५; सू० १, २, ३, ३०;  
अणिहतय. त्रि० ( अनिहतक ) धात नहि  
पामेल; निःपृष्ठम् आयुष्यवागो. निरुपकम्

आयुष्य वाला; जिसकी आयुष्य धात न हो  
ऐसा. Not destroyed. सम०

अणिहयरित. पुं० ( अनिहतरिषु ) भद्रिलपुर  
ना रहेवासी नाग नामे गाथापतिनी  
स्त्री सुलसा नो पुत्र, के ज्ञेनो अधिकार अंतगड  
सुतना श्रीज वर्गना शेषा अध्ययनभां छे.  
भद्रिलपुर के रहने वाले नाग नामक गाथापति की  
स्त्री सुलसा का पुत्र, जिसका अधिकार  
अंतगड सूत्र के तांसर वर्ग के चौथे अध्याय  
में है. The son of Sulasa the wife of  
a petty ruler named Nāga,  
residing in Bhaddilapura,  
mentioned in the fourth chapter  
of the third section of  
Antagāla Sutra. अंत० ३, ४;

अणिहत. त्रि० ( अनिभृत ) उपशांत थेव  
नहि; शान्ति रहित. अनुपशान्त; शान्ति रहित.  
Devoid of peace; not calm.  
ओव० २१; परह० १, ३;—रान्दिय. त्रि०  
( -इन्द्रिय ) ज्ञेनी इन्द्रिया शांत नहीं ते.  
अशान्त-शान्ति रहित इन्द्रिया वाला.  
of uncontrolled, excitable  
senses; with senses not calm.  
परह० २, ५;—परिणाम. त्रि० ( -परि-  
णाम ) शान्ति रहित-इन्द्रियना उपशम  
रहित परिणामवागो. शान्ति रहित-क्षय के  
उपशम से रहित परिणाम वाला. possessed  
of sense-perception, thought  
etc.; not free from evil  
passions. परह० १, १;

अणीइ. त्री० ( अनीति ) धृति-अनिवृष्टि,  
अनावृष्टि आदिनो अभाव. अतिर्गृष्ट, अनावृष्टि  
आदि का अभाव. Absence of such

calamities as too much rain,  
no rain at all etc. नाया० १;—पत्त.  
त्रि० ( -पत्र-न विद्यते ईतिर्गुरुकिं-  
दिरुपा येषु तात्यनीतीनि, अनीतीनि पदाणि  
येषां ते तथा ) ज्ञेनां पादां गाउर वगेरे  
भ्रात्री खनायेत-डेतरायेत नथी ते. जिसके  
पत्ते कांडां ने न खाये हों-न करते हों.  
with leaves not bitten by  
worms, insects etc. जं० प०

अणीय. न० ( अनीक ) दाढ़ी, धोड़ा वगेरेतु  
संन्य-दश्मृत. हाथा, धोड़ा वगेरह कीरोना. An  
army consisting of elephants,  
horses etc. भग० १८, ६; उत्त०  
१८, २; ओव० ३१; परह० १, ३; कप्प०  
२, १३; जं० प० २, ११७; गम० ७६;

अणीयन. पुं० ( अणीयन ) भद्रिलपुरना निवासी  
नागन में गाथापतिनी भार्या सुलसाथी  
थांसर पुत्र, के ज्ञेनाथ अभ्यास सीक्षा लध,  
१८ पूर्वां अभ्यास दरी, २० वर्षांनी प्रवृत्त्या  
पाणी शर्वुन्त्य पर सिद्ध थया; २१ भाईना  
नामधी ग्रसिद्ध थेव भुनिभांता श्रेष्ठ.  
भद्रिलपुर के निवासी नाग गाथापति ( अधिकारी )  
की भार्या सुलगा के गर्भ से  
उपशम पुत्र, जो ज्ञेनाथ प्रमु से दाक्षा  
लेक्षर, १९ पूर्वों का अभ्यास कर और २०  
वर्षों तक प्रवृत्त्या पागन करने के पश्चात्  
शत्रुंजय पर्वत पर से मोक्ष गया; छः भाईयों के  
नाम से प्रासद मुनियों में से एक मुनि.  
A son born of Sulasa the wife  
of an officer named Nāga, a  
resident of Bhaddilapura, who  
took Dikṣā from Neminātha,  
studied fourteen Pūrvas,  
practised asceticism for twenty  
years and obtained salvation on  
Satruñjaya. अंत० ३, १; ३, ४;

**अरणीया.** छी० (\*अर्नीका-अर्नीकिनी) सेना; कटक.  
सेना; कटक. An army. भग० ३, १; राय०  
७३; या० ५, १; — अहिवृद्. पुं० (-अधिपति)  
सेनाने। अधिपति-प्रभुभू; लक्ष्मरने। ६५८।  
सेनापति. the commander of an  
army; a general. भग० ३, १;  
नाया० ८; या० ३, १; नाया० ८०

**अरणीहड़.** त्रि० ( अर्निर्दृत ) अद्वार नदि। काटेलं.  
आदिर नहीं निकाला हुआ. Not taken  
out. ये० २, १३;

**अरणीहारि.** न० ( अर्निर्दृरिन् ) जुओ। 'अरणीहा-  
रिम' शब्द. देखो "अरणीहाराम" शब्द. Vide  
"अरणीहारिम". उत्त० ३०, १३;

**अरणीहारिम.** न० ( अर्निर्दृरिम ) ज्यां शाखनुं  
अभिसंस्कृत करतार न भगे तवे विषम  
स्थगे—पर्वताहिनी गुद्धमां संथारो करयो। ते;  
संथारने। एक प्रकार. जहां शब का अग्नि  
संस्कार करने वाला न मिते ऐसे विषमस्थल  
में—पर्वतादि का गुरु में संथारा करना; संथारे  
का एक भेद. Practising Santhārā  
in a cave of a mountain where  
there would be no one to cre-  
mate the dead body; a variety  
of Sauthārās. भग० १३, ७; २५, ७;  
ठा० २, ४;

**अरणीहित्र.** त्रि० ( अर्नीहित ) उद्दापोदा० न  
करेत; अवियारित. अविचारित; किना ऊहापोह  
किया हुआ. Not argued with pros  
and cons. विशे० २५७;

**अरणु.** त्रि० ( अरणु ) प्रभाणुमां अनिधित्तु;  
प्रमाण में बहुत थोड़ा. Very small in  
size or proportion. ज० १० ५,  
१३७; परह० २, ३; दरा० ४; ( २ ) सूक्ष्म;  
भारीक; नानु; द्युम्. सूक्ष्म; वारीक; कुद्र; छोटा.  
small; minute. क० गं० १, १८; भग०  
५, १; जीवा० १; सूय० १, २, १, ११;

आया० १, ५, २, १४६; ( ३ ) परभाष्य;  
सूक्ष्ममां सूक्ष्म पुहुलांश. परमाणु; सूक्ष्म से  
सूक्ष्म पुहुलांश. the smallest atoms.  
विशे० ४३२;

**अरणु.** अ० ( अनु ) पश्चात्; पछी. पछें; पश्चात्.  
Afterwards. “ जीवा सोहिमण्णपता,  
आययांते मणुसयं ” उत्त० ३, ७; पश्च० २;

**अरणुअ.** त्रि० ( अरुक ) सूक्ष्म; अचूं. सूक्ष्म;  
छोटा. Minute; small. ज० १०

**अरणुअत्तात्रा.** त्रि० ( अनुवर्तक ) अनुकूल वर्तनार.  
अनुकूल वर्तव करने वाला. Acting  
favourably. विशे० ३४०२;

**अरणुअत्तमान.** व० क० त्रि० ( अनुवर्तमान )  
पाठ्य आवतुं; अनुसरतुं. पाँछे आता हुआ.  
अनुसरण करता हुआ. Following;  
succeeding. राय० ४२;

**अरणुअत्तमाण.** व० क० त्रि० ( अनुवर्तमान )  
जुओ। उपते। शब्द. देखो ऊपर का शब्द.  
Vide “ अणुमत्तंत. ” राय० ४२;

**अरणुआ.** छी० ( अनुगा ) जुवार; धान्यनी  
एक ज्वार. जुवार. एक प्रकार का धान्य. A  
species of corn; ( Juvāra )  
प्रक० १०१८;

**अरणुइरण.** त्रि० ( अनुचीर्ण ) आवेद. आया  
हुआ. Come; approached. विशे०  
१२८८;

**अरणुइष्ट.** त्रि० ( अनुदीर्ण ) उद्दीरणा० न करेत.  
उद्दारणान किया हुआ. Not caused to  
mature; not forced up into  
maturity क० प० ५, १;

\***अरणुउद्द.** पुं० ( अनृतुकालोन्तर ) पोतानो वृप्ति  
नहि; पोताना समयथी पहेला अथवा पछी;  
क्वप्त. अनियमित समय; अपने समय से  
पहिले अथवा पछें; कुसमय. An improper  
time i. e. too early or too late.

‘विसमं पवालिशो परिशमंति अणुउदे सुदेति  
मुष्टं फलं च’ ठा० ५, ३;  
असुओइम्. त्रिं ( अनुयोजित ) प्रवर्तिषेख;  
गैटेक्स. योजना किया हुआ; संगठित.  
Arranged; organised. नंदी०

असुओग. पुं० (अनुयोग-अणु सृथं महानर्थः;  
महतोऽर्थस्यासुना सूत्रेण सह योगोऽणुयोगः;  
अनुरूपो योगो वाऽनुयोगः सूत्रस्यार्थेन सहानु-  
कूलसम्बन्धः) सूत्रनो अर्थनी साथे संबन्ध  
योज्ये ते; व्याख्या; विवरण; टीका; सूत्रनो  
अर्थ प्रकाशये ते. सूत्र का अर्थ के साथ सम्बन्ध  
करना; व्याख्या; विवरण; टीका; अर्थ प्रकाशत  
करना. Exposition of an aphorism.  
अणुजो० २; नंदी० ५६; विशेष० १; ८४;  
१३५०; भग० २५, ३; ओव० १० १; (२)  
द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथानुयोग अने  
चरणुकरणानुयोग ऐ चारभानो गमे ते एक.  
द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथानुयोग और  
चरणकरणानुयोग इन चारों में से कोई भी एक  
अनुयोग. Any one of the four  
Anuyogas viz Dravya, Ganita,  
Dhramakathā and Charanikar-  
apā. “ से किं तं असुओगे ? असुओगे  
कुविहे परणते, तंजहा—मूलपठमाणुओगे  
गंडियाणुओगे य ” ठा० १०; ( ३ ) दृष्टिवाद  
अंगनो योथो विभाग. दृष्टिवाद अंग का  
चौथा विभाग. the fourth part of  
the Dṛīstivāda Āṅga. नंदी० ५६;  
सम० ( ४ ) उप४८, निः४८, अनुगम, नय  
धृत्यादि अनुयोगदारभाना। गमे ते एक  
द्वारनु ज्ञान; श्रुतज्ञाननो एक प्रकार. उपक्रम,  
निक्षेप, अनुगम, नय आदि अनुयोगद्वारों में  
से किसी भी एक का ज्ञान; श्रुतज्ञान का एक  
प्रकार. a variety of knowledge  
called Śruta Jñāna; knowledge  
with regard to any one of the

ways of defining, namely Upa-  
krama, Nikṣepa, Anugama,  
Naya etc. क० गं० १, ७;—अतथ. पुं०  
(-अर्थ) व्याख्यानरूप अर्थ. व्याख्यानरूप अर्थ.  
meaning as shown by expla-  
nation. आया० नि�० टी० १, १, १, १;  
—गम. पुं० (-गत) दृष्टिवाद अंतर्गत  
एक अभिकार; अवयवमां समुद्दृयना उप-  
यारथी दृष्टिवाद सत्र; भारमुं अंगसत्र. दृष्टि  
वाद के अंतर्गत एक अधिकार; अवयव में  
समुदाय के उमचार से दृष्टिवाद सत्र; भारहमौ  
अंगसत्र. a chapter in Dṛīstivāda  
Sūtra; the twelfth Āṅgasūtra.  
या० १०;—दायय-अ. पुं० (-दायक)  
अनुयोग-सत्रार्थ आपनार; सुधर्मासामी  
वगेरे. अनुयोग-सत्रार्थ प्रदान करने वाले  
सुधर्मास्वामी वर्योरह. an expounder of  
a Sūtra; e. g. Sudharmanā Svāmī  
etc. “ वंदितु सब्दे सिद्धे, जिणे य असुओ-  
गदायपृष्ठब्दे ” आया० नि�० १, १, १, १;  
—दार. पुं० (-द्वार) अनुयोग-व्याख्या  
करनां उप४८, निः४८, अनुगम अने नय  
ऐ चार द्वार; व्याख्याननी रीति. अनुयोग-  
व्याख्या करने के उपक्रम, निक्षेप, अनुगम  
और नय ये चार द्वार; व्याख्यान की रीति.  
the four points to be attended  
to in a commentary, viz Upa-  
krama, Nikṣepa, Anugama and  
Naya; a way of lecturing. अणु-  
जो० ४६; १४६; सम० प० १६८; भग० ४६, ४;  
१७, १; नंदी० ४३; ४५; विशेष० ४४३;—  
दारसमाप्त. पुं० (-द्वारसमाप्त) अनुयोग  
द्वारना समुद्दृयनु ज्ञान; श्रुतज्ञाननो एक प्रकार.  
अनुयोगद्वारों के समुदाय का ज्ञान; श्रुतज्ञान का  
एक प्रकार. knowledge of the four  
points requisite for a collective

commentary. क० ग० १, ७;—धर. पुं०(—धर) अनुयोग—सूत्रार्थ धारणु करनार०; अनुयोगी. सूत्रार्थ धारण करने वाला; अनुयोगी.(one)who follows the explanation of the Sūtras. कप० ८; क० प० ४, १;—पर. त्रि०(—पर) अनुयोग-सिद्धांती व्याख्या करवामां तत्पर. मिद्दान्त की व्याख्या करने में तत्पर. intent on explaining the established principle of Sūtras. जावा० १;—समास. पुं०(—समास) एडीवीवधारे अनुयोगदरेनु शान थंतु ते; श्रुतशानतो एड प्रकार. एक से ज्ञावदह अनुयोगदारों का ज्ञान होना; श्रुतज्ञान का एक प्रकार. getting a knowledge of more than one Anuyogadvāra; a variety of scriptural knowledge. क० ग० १, ७;

**अणुओगि.** पुं० ( अनुयोगिन् ) सूत्रनु अनुतरणु करवाने प्रश्न करवामां आवे ते-नंभ “ चउहि समएहि लोगा ” ए भूत्रनु अनुतरणु करवाने “ कहाहि समएहि ? ” एभ पुछनु ते. सूत्र का अवतरण करने के लिये प्रश्न करना-जैसे “ चउहि समएहि लोगा ” इस सूत्र के अवतरण के लिये इस प्रकार पूछना कि, “ कहाहि समएहि ? ” A question asked with a view to a quotation of a Sūtra. घा० ६;

**अणुओगिश्च-य.** त्रि० ( अनुयोगिक ) प्रव-ज्ञा शीघ्रेत. दीक्षित. ( One ) who has entered the order of asceticism. “ अणुओगियवरवसमे नाइकुलवंसनंदिकरे ” नंदी० ३२; ( २ ) व्य-प्यान आपनार. व्याख्यान देने वाला. a lecturer; an expounder. नंदी० ३२;

**अणुकंपश्च-य.** त्रि० ( अनुकम्पक-अनुरुपं

कम्पते चेष्टत इत्यनुकम्पकः ) उचित प्रवृत्ति करनार; सेवा करनार. उचित प्रवृत्ति करने वाला; सेवा करने वाला. Acting properly; serving properly. “ अणुकंपओ तस्स महामुणिस्स ” उत्त० १२, ८; कप० २, ३०; अणुकंपग. त्रि० ( अनुकम्पक ) द्या० करनार; हितवितक. दया करने वाला; हितचितक. Compassionate; ( one ) who is a well-wisher. “ अणुकंपगं सुहि वावि, किंचि नाभिसमेमहं ” उत्त० २०, ६; ( २ ) आत्महितमां प्रवृत्त थयेत. आत्म-हित में प्रवृत्त-तत्पर. ( one ) engaged in self-weal. घा० ४, ४;

**अणुकंपण.** न० ( अनुकम्पन ) दुःखी-अनाथ उपर अनुकंपा करवा ते. अनाथों पर दया करना. Showing compassion to the poor. अंत० ३, ८; कप० ४, ६१;

**अणुकंपमाण.** व० कृ० त्रि० ( अनुकम्पयत ) द्या०-अनुकंपा करते. दया करता हुआ. Showing compassion. नाया० १;

**अणुकंपा.** छी० ( अनुकम्पा ) अनुकंपा; द्या०. अनुकम्पा; दया. Compassion; mercy; pity. भग० ८, ८; १५, १; विं० निं० ३२६; ओध० निं० ६११; पंचा० ६, ६; १०, १०; प्रव० ६५०; ( २ ) भक्ति; प्रेमनी लागानी. भाक्त; प्रेम की लगन. feeling of love. भग० ८, ८;—**आसय.** पुं० ( —आशय ) अनुकंपावाणु चित्त; द्याणु दृष्ट्य. दयालु हृदय. kind heart. **अणुकंपासयप्पओगतिकालमहिविसुद्भत्तपा-शाइ**” सम०—दाण. न० ( -दाण ) अनुकंपा-द्याथी दुःखी हीने दान देनु ते. अनुकम्पा-दया से दीन दुःखियों को दान देना. charity to the afflicted ones through compassion. घा० १०;

अणुकट्टमाण. व० क० त्रि० (अनुकर्त) जैयते।  
खेचता हुआ. Drawing; pulling.

विवा० १;

अणुकट्टि. ख० (अनुकृष्टि) अनुर्वर्तन-अनुसरण  
करने ते. अनुसरण करने का किया. The  
act of following; imitation. क०  
प० १, २६;

अणुकइदेमाण. व० क० त्रि० (अनुकर्त) जैता।  
तरङ्ग आकर्षण करते; पौतानी पाणी। जैयते।  
अपनी ओर आकर्षित करता हुआ. Dragging  
behind; pulling behind towards  
one's self. नंदा० १०;

/ अणुकहृ. धा० I. (अनु+कथ) कैधनि। कहा  
पश्चि कहेन्तु; ऐद्या पश्चि ऐद्यन्तु. पंडन करनु;  
वाद करें। किसीके कहने के पांछ-बोलने के  
बाद बोलना; खंडन करना; वाद करना. To  
speak after another has spoken;  
to refute; to dispute.

अणुकाहयते. शि० सूय० १, १३, ३;

अणुकडू. अ० (अनुकृद्य) भितनी पासै. दीवाल  
के पास. Near a wall. वेय० २, २६;

अणुकूल. त्रि० (अनुकूल) अनुकृत; संग्रह  
पञ्जु; भनगभञ्जु. अनुकूल; मनचाहा; मुमाने  
का. Favourable; agreeable.  
“अणुकुलेण धरणेण कुमारबंधचारी” स० प०  
२०; परह० २, ४; जीवा० ३, ३; कल्प०  
४, ६५;—कारि. त्रि०—(कारिन) अनुकूल  
कर्म करने वाला. acting  
favourably. नाया० १७;—चाय.

पु० (-वात) अनुकृत भवन; ज्वेधश्च तेवै।  
वायु; हितकर वायरो. अनुकूल वायु; चाहिये  
जैसी हवा. favourable wind. जावा० १;  
अणुकृत. त्रि० (अनुकृत) अनुयान करेत।  
सेवन करेत. अनुष्ठान किया हुआ; सेवित.  
Practised; performed. “एस किहि

अणुकंते माहयोग मईमया बहुसो ” आया०  
१, ६, ४, १७;

अणुकृत. त्रि० (अनुकृत) आयरेत. आचरित;  
व्यवहृत. Practised; performed.

आया० १, ६, २, १६; १, ६, ३, १४;

अणुकम. पु० (अनुकम) अनुकम; परिपाठी;  
अनुपूर्णि; क्लेश. अनुकम; परिपाठी; तरतीव-  
वार. Serial order; consecutive  
order. अणुजो० ४५; प्रव० १०५७; क०  
गं० ५, ५१;

अणुकमन. त्रि० (अनुकमन) पश्च मुक्तां;  
प्रवेश करना; पैर रखना; प्रवेश करते. Enter-  
ing. सूय० १, ५, १, ७;

अणुकसाइ. पु० (अनुक्षायिन्) सत्कार  
आदिति। उत्कृष्टाना। असाववागो; अणु-  
पातगा। कृपायवागो। सत्कार आदि की  
उत्कृष्टा न रखने वाला; सूक्ष्म कषाय वाला.  
(One) not desirous of honour,  
reception etc. or, one with  
scanty Kasuya. “अणुकसाई अपिच्छेष,  
अजाएवी अज्ञालुए ” उत्त० २, ३६;

अणुकसाइ. त्रि० (अणुक्षायिन्) कौध आदि  
कृपायेन अणु-सूक्ष्म-पातगा। पातनार; स्वल्पे  
कृपायी; भैक्षणी। मंद कषाय वाला; कषायों  
का सूक्ष्म करने वाला. Having slender  
or scanty moral impurity.  
“अणुकसाई लहु अप्प भक्षी, चिच्चा  
गिहं एग घेरे स भिक्खु ” उत्त० १६, १६;

अणुकसत्त. त्रि० (अनुकर्तवत) आठ भद्रमांते।  
कौध भद्र त करते; उत्कृष्ट-भद्र रहित. आठ  
प्रकार के मदों में से किसी भी प्रकार का मद  
न करने वाला; उन्कर्म-मद रहित. Free from  
any of the eight kinds of pride.  
“अणुकर्तवे अप्पलीणे मज्जेण मुर्णी जावए”  
सूय० १, १, ४, २; •

अणुकोस. पु० (अनुकर्त) पौतानी

भावाद्य-असिभान; भानकपाय. निजकी बड़ाई-अभिभान; मानकशाय. Self-conceit; pride. सम० ४२; ठा० ४, ४; भग० १२, ५; क० गं० ५, ७४;

**अणुकोश.** पुं० ( अनुकोश ) दया. Compassion. भग० १२, ६; ठा० ४, ४;

✓ **अणुकल.** धा० I. ( अनु+इक्ल ) ज्ञेयुं; दृष्टि करना; दृष्टि करना. To see; to look at.

**अणुकिलस्मामि.** आया० १, ७, ५, २१७;

**अणुकिलस्त.** त्रि० ( अनुकिल्पत ) पाठ्य० इ३५८८. पीछे फैका हुआ. Thrown from behind; thrown after. “अणुकिलस्तांसि धुगंसि” नाया० ८;

**अणुग.** त्रि० ( अनुग ) अनुसरन।२; पाठ्य० पाठ्य० ४८। अनुगरण करने वाला; पीछे पक्षे जाने वाला. One who follows or goes after. उत्त० ३२, २७; गच्छा० १२६;

**अणुगंतव्व.** त्रि० ( अनुगन्तव्य ) अनुसरनुं; अनुसरवा ये॒ न्य॑. अनुसरण करना; अनुमरण करने योग्य. Worthy of imitation; worthy of being followed. निर्णा० १, ४१; ठा० ५, १; जं० प० ७, १६०;

✓ **अणुगच्छ.** धा० I. ( अनु+गम् ) सन्मुख ज्ञेयुं; सत्कार करने से ज्ञेयुं. सन्मुख जाना; सत्कार करने के लिये सन्मुख जाना. To go forward to receive or welcome.

**अणुगच्छइ.** नाया० १४; १८; ओव० १२; जं० प० ५, ११५;

**अणुगच्छति.** जं० प० ३, ५३;

**अणुगच्छह.** आ० विवा० १;

✓ **अणुगच्छइत्ता.** स० क० नाया० ३; १४; भग० १२, ९;

**अणुगच्छमाण.** व० क० स० १, १४, ३३; नाया० २; १८; भग० ३, ३;

**अणुगच्छण्या.** धा० (\*अनुगमनता-अनुगमन) सत्कार करने के लिये गुरु के सन्मुख जाना. Going forward to welcome a preceptor. ओव० २०;

✓ **अणुगम.** धा० I. ( अनु+गम् ) ज्ञेये। ‘अणुगच्छ’ धातु. देखो ‘अणुगच्छ’ धातु. Vide the verb “अणुगच्छ”.

**अणुगमइ.** सु० च० २, ४३८;

**अणुगमम.** सं० क० स० १, १४, ११;

**अणुगम.** पुं० ( अनुगम-अनुगमनमनुगम; अनुगम्यतेऽनेनास्मिन्नादितिवाऽनुगमः ) निषेधपथी पात्रेत भेदभावी प्रकरण या प्रसंगने अनुकूल अर्थ ये ज्ञेये ते; सुन्त्रना अनुकूल अर्थज्ञेये ज्ञेयुं ते. निषेध से किये हुए भेदों में से प्रकरण या प्रसंग के अनुकूल अर्थ की योजना करना; सूत्र के अनुकूल अर्थ कहना. Showing the connection of one chapter to another in the course of explanation. विशेष० २६०; ६१३; ६७१; १३५७; ठा० १; अणुजा० ६६; ( २ ) ५६, ५८४७६, विग्रह, अन्यथा वर्गे व्याख्यानना। प्रकार. पद, पदच्छेद, विग्रह, अन्वय व्यौरह व्याख्यान के भेद. explanation by separation of words, paraphrase grammatical notes etc. सम०

**अणुगम आ० त्रि०** (अनुगत) अनुसरेत; अनुक्रेतु त्रिरेत. अनुसरण किया हुआ; अनुकरण किया हुआ. Followed; imitated. पराह० १, ३; (३)त्रि० प्राप्त थयेत. प्राप्त. obtained. उत्त० ३२, २७; (४)धातु० व्याप्त. pervaded by. “ते पेजदोसाणुगया परज्जा” उत्त० ४, १३; (५) आप्तित. आप्तित. dependent; supported. पिं० निः० भा० ४०;

✓ अशुगवेस. धा० I. ( अनुगवेष् ) पाणीथी तपास करवी—शोध करवी. पंचे से खोजना; बाद में शोध करना. To make an inquiry in the absence of; to search after.

अशुगवेसइ. भग० ८; ४; ८;

अशुगवेसमाय. व० ५० भग० ५, ६; ८, ४; ६; नाया० १६;

अशुगवेसियव्य. त्रि० ( अनुगवेषितव्य ) गवेषयु. करवी; तपास करवी; तपास करना योग्य. जँच करना; गवेषणा करने योग्य. Worthy of inquiry. भग० ८, ६; वेय० ३, २४;

अशुगाम. उं० ( अनुग्राम ) गामांतर ज्ञातां कृच्ये गाम आवेते; गाम पक्षीनुं गाम; नदानुं गाम. ग्रामान्तर जाते समय बीच में जो ग्राम आवे वह; छोटा गाँव. A village on the way to another village;a hamlet.

“ गामाशुगामं दृश्यमाये ” आया० १, ५, ४, १५६; नाया० १; अशुजो० १३१; भग० ८, ६;

अशुगामि. त्रि० ( अनुगामिन् ) अनुकरण करनार; नक्ल करनार; येषु के शब्द ज्ञेषु के सांभगी ते प्रभाषे करी ज्ञातनार. अनुकरण करने वाला; चेष्टा या शब्द देख अथवा सुनकर उसके अनुसार कर बताने वाला. ( One ) imitating anything e. g. gesture or speech. आव० १६; ( २ ) साध्यसाधक हेतु; होष रहित हेतु. the middle term or basis of proof; which is not fallacious. ठा० ३, ३; ( ३ ) एकेकाइ अवधिज्ञान उत्पन्न यथुं हेतु त्यांशी भीजे स्थगे पशु आंभनीभाइक साथे साथे जन्म ते; अवधिज्ञानने। ऐक ब्रेक्ट्राइ. अवधिज्ञान का एक भेद; जो ज्ञान जिस स्थान में उत्पन्न हुआ हो वहांसे दूसरे स्थान में भी साथ २ जाय वह. a variety of Avadhi jñāna; that

division of knowledge which accompanies the soul from place to place. क० गं० १, ८;

अशुगामिङ्ग-य. उं० ( अनुगामिक ) अनुगमित्वा व्यव्यनिरेकी हेतुथी थतो वस्तुते निर्णय; आनुभानिक [ निश्चय. अन्वयव्यतिरेकी हेतु से होने वाला वस्तुनिर्णय; आनुभानिक निश्चय.

Conclusion derived from syllogistic reasoning; an invariably concomitant mark leading to inference. ठा० ३, ६; ( २ ) त्रि० पाणी ज्ञातर; भीजने अनुसरनार. पंचे चलने वाला; दूसरे का अनुसरण करने वाला. ( one ) going after or following. सूय० १, १, २, १८; २, २, २८; ( ३ ) भवपरंपरा साथे ज्ञातना सुखने उत्पन्न करनार. भवपरम्परा में साथ साथ आने वाले सुख को उत्पन्न करने वाला. producing happiness accompanying one in rebirths. जावा० ३, ४; ( ४ ) अनुचर; नाईर. अनुचर; नौकर. an attendant. सूय० २, २, २; ( ५ ) उं० अकर्तव्यरूप यैष; असद्य अनुशान. अकर्तव्यरूप-१४ असद्य अनुशान. the fourteen evil practices. सूय० २, २, २; ( ६ ) क्षेत्रांतरभां साथे साथे ज्ञातार अवधिज्ञानविशेष; अवधिज्ञानने। ऐक ब्रेक्ट्राइ. क्षेत्रान्तर में भी साथ साथ जाने वाला अवधिज्ञानविशेष; अवधिज्ञान का एक भेद. a division of Avadhi jñāna accompanying the soul from place to place. पक्ष० ३३;

अशुगामियस्ता. व्या० ( \* अनुगामिकता-अनुगामिकत्व ) भवपरंपराभां साथे ज्ञातार सातुर्मध्य सुख. Happiness accompanying the soul in successive rebirths. आव० नाया० १३;

अशुगिरह. धा० I. ( अनु+गृह ) अतुथेत्-  
कृपा करनी। अनुग्रह करना; दया करना. To  
favour; to oblige.

अशुगिरिहत्ता. स० कृ० दशा० १०, १;

अशुगिरहंत. य० कृ० सु० च० ३, २१६;

अशुगिरहमारा. य० कृ० नाया० १६;  
अशुगिति. ली० ( अनुकृति ) अनुकृतिः;  
नकल. नकल. An imitation; a copy.  
पंचा० ६, ३७;

अशुगित. धा० I. ( अनु+गृ ) खावन  
करनुः; जटिण् करनुः. खाना; खोजन  
करना. To eat.

अशुगिता॒. नाया० ७;

अशुगिकृहत्ता. स० कृ० नाया० ७;

अशुगीय. त्रि० ( अनुग्रीत ) पाण्डाथी शासाभां  
आवेद्य; तीर्थकरादिती पासंशी सांक्षीते भाष-  
णथी स्थविरोऽसंपादन करेत. पाञ्चे गे गाया  
हुआ; तीर्थकरादिओ से मुगकर पाञ्चे गे स्थविरो  
द्वारा गंपादित किया हुआ. Reiterated;  
e.g. words of Tirthankaras etc. by Sthaviras or monks. ‘महत्त्वरुद्वा-  
वयणाप्यभ्या, नाहाशुगीया नरसंघमउक्ते’  
उत्त० १३, १२;

अशुगुणा. पुं० ( अनुगुण ) यशू उ८२ युण् करपे॑  
ते. युण के ऊपर युणा. A good turn  
done in return for a good turn.  
नाया० १;

अशुग्राह-य. त्रि० ( अनुद्रूत ) अशुउंग्याः;  
अशुउंगेलोः ६६४ न पांभव. उदय रहित;  
विना उगा हुआ. Not come out; not  
risen. वेय० ५, ६; प्रव० ५६८; निसी०  
३, ७२;—सूर. पुं० ( -सूर ) सूर्यू उञ्जा  
पहेलाने। वृत्तत. सूर्योदय के पहिले का समय.  
time before sunrise; time pre-  
ceding sunrise. प्रव० ५६८;

अशुग्राह. पुं० ( अनुग्रह ) उपकार. उपकार.  
Benevolence. पि० निं० ४४८; ओष०  
निं० १; आव० १६; पंचा० ६, १; प्रव०  
१३८; ( २ ) कृपा; महेश्वरानी; दृथि. कृपा;  
मेहरवानी; दया. favour; mercy; kind-  
ness. विश० २०८; पिं० निं० ४४८; ओष०  
निं० आ० १; २७६; आव० १६; दस० ५,  
६, ६४; नाया० ३: १४; सु० च०७, १८५;  
उत्त० २७, ३७;—अष्टु. पुं० ( -अर्थ ) उपकार  
सूर्यप्रेरणत. उपकाररूप प्रयोजन. bene-  
ficient motive. “स परेसिममुण्गाहद्वाए”  
पंचा० ६, १;

अशुग्राहता. ली० ( \*अनुग्रहता-अनुग्रह ) अतुथेत्  
करपे॑ ते. अनुग्रह. Favour; kindness.  
विश० १८५८;

अशुग्रहया. ली० ( \*अनुग्रहता-अनुग्रह ),  
बुज्या उपलो शम्भ. देखो ऊपर का शब्द.  
Vide “अशुग्राहता.” विश० १८५४;

अशुग्राहय. न० ( अनुद्वातिम-उद्धातो  
भागपातस्तेन निर्वृत्तमुद्धातिमं लवु तक्षिपेधा-  
दनुद्वातिमं तुरु ) यु३ प्रायश्चित्त; महेषुक्तप५.  
भारी प्रायश्चित्त. Austere penance;  
severe expiation. ठा० ३, ४;  
( २ ) पुं० ली० यु३ प्रायश्चित्तने योग्य साधु सा-  
धी। बहुत बड़े प्रायश्चित्त के योग्य माधु साधी.  
a male or female ascetic liable  
to severe expiatory penance.  
ठा० ५, २;

अशुद्वाहय. पुं० स्त्री० ( अनुद्वातिक ) जेलो  
अंद्रा दोप भेद्यो दोप के प्रायश्चित्तमां धराडो  
करी शक्ति नदि ते; यु३प्रायश्चित्तने योग्य.  
जिसने एंगा दोष किया होकि, उसके प्रायश्चित्त  
में कभी नहीं को जा सके; वहुत बड़े प्रायश्चित्त  
के योग्य. One deserving un-  
mitigated severity of expiatory  
penance, “तत्रो ‘अशुग्राहया पश्चत्,

तंजहा-हृथकभं करमाणे मेदुण्ण सेवमाणे  
राहभोयणं भुजमाणे ” ठ० ३, ४; वेय० १,  
३६; ४, १; सम० २८; वव० ६, १६;  
निसी० १०, १६;

**अगुण्डाय.** पु० ( अनुद्वात ) प्रायश्चित्तमां  
धटांडान थाय ते; लघु प्रायश्चित्तनो अभावः;  
यु३ प्रायश्चित्त. प्रायाश्चित्त में कस्मा न होना;  
लघु प्रायश्चित्त का अभाव; बहुत बड़ा प्रायश्चित्त.  
Unmitigated severity of ex-  
piation. अ० ५, २;

**अगुण्डायण.** न० ( अणोद्वात्-अणन्यनेन  
जन्तुगणश्चतुर्गतिकं संसारमित्यणं कर्नं  
तस्योत्प्रावलयेन वातनमपनयनमणोद्वात्-  
नम् ) कर्मने हूर कर्त्तव्यं जे; कर्मनी धात  
कर्त्तव्या ते. कर्मों को हूर करना; वर्मों का नाश  
करना. Destruction of Karma.  
“ से मेहावी ओ अगुण्डायणस्य खेदण्यं जे  
य बंधु ” आया० १, २, ६, १०२;

✓ **अगुण्डास.** धा० II. ( अनु+य॒+णि० ) अ॒-  
य॑यु॒; ज्ञभाइ॒. विलाना; भोजन करना. To  
feed.

अगुण्डासेज्ञा. वि० निगा० ७, २३;

✓ **अगुचर.** धा० I. ( अनु+चर् ) तपनु आय-  
रु॑. तप का आवरण करना. To practise  
penance or austerity.

अगुचरंति. प्रव० ६१४;

**अगुचरंत.** व० कृ० त्रि० ( अनुचरत् ) पाण्डि॒  
७तोः दासपाण्डु॑ सेवतो. पांछे चलता हुआ:

दामता के स्वाक्षरता हुआ. Attending;  
following as a servant. गच्छा० ६८;

**अगुचरग.** त्रि० ( अनुचरक ) सेवा॑ करतार;  
अनुचर. नौकर. • A servant; an  
attendant. प्रव० ६१८;

**अगुचरिश्च-य.** न० ( अनुचरित ) चारित्रने  
अनुसारे. चारित्र के अनुसार: According  
to right conduct. अगुजो० १३१;

( २ ) त्रि० आसेवित; आयरेत. आचरित;  
आसेवित. served; practised;  
performed. भग० ११, ११;

**अगुचरिता.** सं० कृ० अ० ( अनुचर्यै )  
आयरने; सेवीने. आचरणकरके; सेवन  
करके. Serving or having served;  
having practised. सम० ६; चउ०  
१८;

**अगुचरिया.** स्त्री० ( अनुचरिका ) चरिका-गढ  
अने वस्ति वन्यना रस्तो, तेनी पासे. गढ और  
वस्ता के बांच के रस्ता के पास. Near  
the road leading from the fort  
to the town. वेय० ३, २६;

✓ **अगुचित.** धा० II. ( अनु+चित् )  
विचार॑ कर्त्तव्योः; विचारनु॑. विचारना; चित्तन  
करना. To meditate upon.  
**अगुचितिय.** सं० कृ० सूय० १, ६, २५;

जीवा० १;

अगुचित ते माण॑ व० कृ० नाया० १; ६;  
१४; विवा० ३;

✓ **अगुचिहृ.** धा० I. ( अनु+स्था-तिष्ठ् )  
उभा॒ रंयु॑; विश्रथ्यु॑. गाँड़ रटना; रिथर होना.  
To stand; to become steady.  
अनुचिहृ. दग० ५. २, ३०;

**अगुचयगण.** त्रि० ( अनुचीर्ण ) संसर्गमां  
आपेक्षा. संसर्ग में आशा हुआ. Come in  
contact with. आया० १, ४, ४, १५८;  
प्रव० ४३७; जीवा० १;

**अगुचिरागणचं.** त्रि० ( अनुचीर्णवत् ) ऐष्टे॑  
अनुश्रूत की॑ छे ते. जिसने अनुष्ठान किया है  
वह. ( One ) who has performed  
e. g. religious practice. आया० १,  
७, ६, २२२;

**अगुचिय.** त्रि० ( अनुचित ) अधिति;  
अगुचियित; उचित नहि॑ ते. अनुचि॑.  
Improper षि० नि० २०४;

अणुचीद-ति. सं० कृ० अ० ( अनुचित्स्य )  
विचितवीने; विचारीने. विचितवन करके; विचार  
करके. Thinking upon; having  
thought; having meditated  
upon. “ अणुचीद भासए स्थायमज्जे  
लहइ पसंसंग ” दस० ७, ५५; सूय० १,  
१, ३, १३;

अणुच. त्रि० ( अनुच ) उँयु नहि ते. जो  
ऊँचा न हो. Not lofty. “ अणुचे अकुए  
थिरे ” उत्त० १, ३०; पिं० निं० ३६४;

अणुचाकुइय. पुं० ( अनुचाकुचिक-न विद्यते  
कुचश्चलनं यस्याः सा अकुचा, लिखमिच्छ  
शाब्दमकुवाणा इन्यर्थः, अनुचा चासावकुचा  
आनुचाकुचा, सा विद्यतेऽस्येति तथा )  
उच्च-उँयु द्रुच-परिशंपह-हालतुं चालतुं, नेनुं  
आसन-शय्या-पथारी गृह उरतां उच्ची नथी  
अने यद्यायमान नथी ते. युर का अपेक्षा  
जिसका आसन-शय्या-विह्नीना ऊँचा और  
चलायमान न हो. One whose seat,  
bed etc. are not higher than  
those of the preceptor and are  
motionless. कप्प० ६, ५२;

अणुचिक्कह. त्रि० ( अनुचिक्षा ) एँडु जुँडु नहि  
ते. अर्मनया; भूठन नहीं. ( Food etc.)  
which is not stale or tainted  
( i. e. a remnant of what others  
have already eaten ). प्रव० ११६;  
अणुजत्ता. छी० ( अनुयाना ) नीक्कयुं ते;  
पाणी ओंतु ते. निकलना; पांछे जाना.  
Going after; starting. पिं० निं०  
८८;

✓ अणुजा. धा० I. ( अनु+या ) पाणी ज्वुं;  
अनुसरतुं. पांछे जाना; अनुसरण करना. To  
follow; to go after.  
अणुजाइ. उत्त० १३, २३;

अणुजाअ-य. त्रि० (अनुयात) सं० पति अने गुण  
वगेश्वी पिताना तुल्य थाय ते बुत्र; नेम डे-  
आदित्ययशाने। दीकरो महायशा राजा. संपत्ति  
और गुण आदि से पिता के समान बुत्र; जैसे-  
आदित्ययशा का पुत्र महायशा राजा.  
A son worthy of his father in  
wealth, merits etc. e. g. king  
Mahāyāśa the son of Āditya-  
yāśa. ठा० ४, १; ( २ ) सद्दश; सरभुं.  
समान; सदश. similar. “ सरिसे बस-  
भाणुजाए ” सू० प० १२; ( ३ ) पाणी  
घरेद. पांछे गया हुआ. followed; gone  
behind. परह० १, २;

✓ अणुजाण. धा० I. (अनु+ज्ञा) आजा देवी; रूप  
आपनी. आजा देना, लुटी देना. To permit.  
( २ ) अनुभेदन आपनुं; संमति देवी. अनुमोदन  
करना; सम्मति देना. to consent.

अणुजायाइ. नाया० १; ५; निसी० ५, ८;

अणुजायाइ. सूय० १, १, २, ३;

अणुजायंति. दस० ६, १५;

अणुजायामि. भग० १६, १;

अणुजायात. भग० ११, ६;

अणुजायाह. आ० पिं० निं० ४६५; बव०  
२, ३६; दस० १०, १;

अणुजायित्ता. सं० कृ० नाया० ६;

अणुजायित्तए. हे० कृ० ठा० २, १;

अणुजायण. व० कृ० उत्त० ८, ८;

अणुजायानेड. शि० सं० कृ० सु० च० २, १४२;

अणुजायानिय. शि० सं० कृ० प्रव० ६८८;

अणुजायावित्तए. शि० हे० कृ० बव० २, २६;

अणुजायावित्तण. छी० ( अनुशापना ) २७१

अपावधी ते. लुटी दिलाना. Causing  
another to consent or permit.  
पंचा० ६, १३;

अणुजायावेयब्द. त्रि० ( अनुशाप्य ) आजा  
देना योग्य; नेती अाशा लध प्रवर्ततुं जेधये

ते. आशा लेने के योग्य; जिसकी आशा पाकर कुछ किया जाय नह. ( One ) worthy of being asked permission to commence a work. प्रव० ६०;

**अणुज्ञाति.** स्त्री० (अनुजुक्षि) अनुगत-संगत-युक्तिपूर्वक हेतुगमित इष्टांत. संगत-युक्तिपूर्वक हेतु गर्भित इष्टांत. A logically sound illustration to establish correct inference. “ सधाहिं अणुजुसीहिं अचयंता जवित्तए ” सूय० १, ३, २, १७; ( २ ) अनुकूल युक्ति-तद् अनुकूल युक्ति. apt logical reasoning. सधाहिं अणुजुसीहिं मतिमं पद्धितेहिया ” सूय० १, ११, ६;

**अणुज्ञेहृ.** त्रिं० ( अनुज्ञेह-अनुगतो ज्येष्ठमनुज्ञेहः ) सैथी भेटा। पछी त्रीने नंबरे ऐ हेतु ते. सब से बड़े के बाद तीसरे नंबर का जो हो वह. Third in order from the eldest. पंचा० ६, ४७;

**अणुजोग.** पुं० ( अनुयोग ) तीर्थकर, कुलकर, यक्षनर्ती वर्गेरेना अधिकारन्वेभां दर्शन्या हुता ते अनुयोग-इष्टिवादने। एक विभाग, डे ने हाल विच्छेद थध गयेक छे. तीर्थकर, चक्रवर्ती कुलकर आदि के अधिकारों का जिसमें वर्णन था, वह अनुयोग-इष्टिवाद का एक विभाग, जिसका हाल में विच्छेद हो गया है। A lost portion of Dṛīstivāda dealing with the functions of Tirthaṅkaras, Kulakaras, Chakravartis etc. ठा० ४, १;

**अणुजोगि.** पुं० (भ्रुयोगिन्) जुओ।“अणुजोगि” शब्द. देखो “अणुजोगि” शब्द. Vide “अणुजोगि”。 ठा० ६, ४;

**अणुज्ञा.** स्त्रा० ( अनुज्ञा ) महावीरस्वामीनी दीक्षीतु नाम; प्रियदर्शनानु अपर नाम.

महावीरस्वामी की पुत्री का नाम; प्रियदर्शना का दूसरा नाम. Name of the daughter of Mahāvira Svāmī; another name of Priyadarśanā. “ सीसेणं दो नामधिजा एवमा० अणुज्ञाह वा प्रियदर्शस्वामीह वा ” आया० २, १५, १७७;

**अणुज्ञु.** त्रिं० ( अनुजु ) सरख-सीधे नहि ते; कृपटी स्वलाववागे। कपटी स्वभाव वाला. Crooked in nature: deceitful. पिं० नि० २८६;

**अणुज्ञुय.** त्रिं० ( अनुजुक ) असरख; सीधे नहि ते; वांडे। कपटा; टेढा. Not straight; crooked in nature. उत्त० ३४, २५; परह० १, २;

**अणुद्वारण.** न० ( अनुहान ) आचार; क्षियां-क्लाप. आचार; क्रियाकलाप. Performance; religious practices. ठा० ७; भग० २, १; आया० १, ६, ३, १८७; पंचा० २, ४०; प्रव० ६६०;—**गोयर.** त्रिं० (-गोचर) अनुधान-आचारने। विषय। आचार का विषय. ( that ) which is a subject or province of practice or conduct. पंचा० १६, ३८;

**अणुष्टिय.** त्रिं० ( अनुष्टित ) आन्यरेख; सेवेक. सेवन किया हुआ. Performed; practised. “ अहवा अवितहं यो अणुष्टियं ” सूय० १, २, २, ३१; पंचा० ६, ४५;

**अणुष्टिय.** त्रिं० ( अनुरिथत ) उठेक नहि; तैयार थयेक नहि; ज्ञान, दर्शन अने चारित्रन। उद्घागथी रहित। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उद्योग से रहित; जो तैयार नहीं हुआ ही; नहीं उठा हुआ. Not arisen; not performing vows etc. to secure right knowledge, faith and conduct. आया० १,

४, १, १२६; प्रव० १४७; दसा० ३, ३०;  
निसी० ६, ११;

**अणुडहमाण.** व० क० त्रि० ( अनुदहत् )  
दृष्टि करते। दहन करता हुआ। Burning;  
setting on fire. भग० १५, १;

**अणुणाइत्र.** न० ( अनुनदीक ) नदी सभीपे;  
नदी भधे. नदी के पाय; नदी के बीच में.  
Near a river; in the midst of  
a river. अणुजो० १३१;

**अणुणंत.** व० क० त्रि० ( अनुनयत् ) पेतानो  
अभिप्राय ज्ञानवतो—समन्वयतो। अपना  
अभिप्राय प्रकट करता हुआ। Reasoning  
with; expostulating; reconciling.  
“पुरोहियं तं कमसोऽगुणंत, शिमंतयंतं च  
सुषुध्येणं” उत्त० १४, ११;

**अणुणाइ.** त्रि० ( अनुनादित्र ) पञ्चेते—पञ्चेते  
उठे अपी रीते ऐकतनार. ऐसा बोलना जो  
गूंज उठे या जिमका प्रान्तवर्णन हो। Speaking  
so as to start an echo.  
“गजियसहस्रं अणुणाइणा” कथ० ३,  
४४;

**अणुणाइत्त.** न० ( अनुनादित्व ) पञ्चेते—पञ्चेते  
उठे अपी अथार; सत्यवचनना ३५  
अतिशयभानो अंक. ऐसा आवाज जो गूंज  
उठे; सत्यवचन के ३५ अतिशयों में रो एक.  
A voice starting an echo; one  
of the thirty-five Atisayas  
of truthful speech. सम० ३५;

**अणुणाइरित.** त्रि० ( अनुनातिरिक्त )  
नृन् क अधिक नहि; अरायर प्रभाय-भाय  
सहित. न्यूनाधिकता राहित; बरोबर प्रमाण-  
माप राहित. Neither more nor  
less; proportionate. उत्त० २६, २८;

**अणुणास.** पुं० ( अनुनास ) नाइभांथी गातुं  
ते; गायनना ७ देखभानो अंक दोष। नाक में से  
गाना; गायन के छः दोषों में से एक दोष.

Nasal melody; one of the six  
defects in singing. अणुजो० १२८;

**अणुणेत्ता.** स० क० अ० ( अनुनीय )  
पाभीने; ध्यान धरीने. पाकरके; ध्यान धरके.  
Having meditated upon; hav-  
ing obtained. सम० ६;

**अणुगग्य-अ.** त्रि० (अनुज्ञत) मद रहित; उन्हें  
नहि ते; गर्व विनानो। मद रहित; जो उज्जत  
न हो वह; गर्व रहित. Free from  
pride; not conceited. “एत्थवि  
भिन्नू अणुणणपु विणीपु” सूत्र० १, १६, ४;  
दस० ५, १, १३;

✓ **अणुणणव.** वा० I. (अनु+ज्ञा+णि०) भीज  
आदेशनो अभिथ्या पछी “करेल पाठधारी  
राख अने भीजने लखाव” अथवा रीतेशिष्य  
प्रत्ये गुड्नो त्रीनं आदेश थाय ते. दूसरे  
आदेश का पालन होजाने पर “किंये हुए पाठ  
का धारणा रख और दूसरे को पढ़ा” इस प्रकार  
गुरु का शिष्यक प्रति तीसरा आदेश होना। To  
order a disciple to hold and  
teach what he has learnt, (this  
comes after two previous  
orders). (२) अनुभोदन करनुं. अनुमोदन  
करना. to approve of.

**अणुणणविज्ञंति.** अणुजो० २;  
**अणुणणवित्तु.** स० क० दस० ५, १, ८१; द३;  
**अणुणणवि-वे-त्ता.** स० क० सम० ३३; दस० ३,

३२; ३३; वव० ७, १७; निसी०  
२, ५३; वेय० १, २७; ३, २४;

**अणुणणविय.** स० क० दसा० ३, ३२; निसी०  
५, २२; ओघ० नि० १७;  
आया० १, १५, १७६;

**अणुणणवित्तपु.** हे० क० वव० ८, १०;  
**अणुणणवेमाण.** व० क० ठा० ६;  
**अणुणणवणा.** लो० ( अनुज्ञापना ) आशा;  
रग्न। आज्ञा; लुट्ठा. Order; approval.

अनुभेदन; संभति. अनुमोदन सम्मति. permission. प्रब० ६६;

अणुराणवणी. ब्रा० ( अनुज्ञापनी ) वस्ति-भक्तनीरज भागवती भाषा. वस्ती-मकान मांगने की भाषा. Speech used in asking permission for a house.

ठा० ४, १; दसा० ७, १;

अणुराणा. ब्रा० ( अनुज्ञा ) अधिकार आपदा. अधिकार देना. To invest with authority. “तिविहा अणुराणा प० तं आयरियत्ताए उवज्ञायत्ताए गर्णन्त्वाए” ठा० ३, ३; ( २ ) अनुभेदन देनु; संभति आपदी; आजा. अनुमोदन करना; सम्मति देना; आजा. consent; approval of; order. दस० ५, १, १६; ८३; अणुजो० २;

अणुराणाअ-य. त्रि० ( अनुज्ञात ) आजा आपेक्षा. आजा दिया दुआ. Permitted; ordered. प्रब० ४४५; पंचा० ६, ३१;

अणुराणायव. त्रि० ( अनुज्ञातव्य ) आजा भागदी; रज लेवा ते. आजा मांगना; मंजरी लेना. Asking permission. वब० २, २८;

अणुतडभेद. पुं० ( अनुतटभेद ) जैम वांसने थीरवाथी इ४४ प५३ तेवी रीते डौर्ह वस्तुने थीरवाथी इ४४ प५३ ते. बाँस को चीरने से जिस तरह चिम्पाली हो जाती है उसी तरह किसी वस्तु के चीरने से जो चीर हो वह. Lengthwise split like that in a bamboo. ठा० १०;

अणुतडियाभेद. पुं० ( अनुतटिकाभेद ) शे२३-ने थीरवाथी छोतां उतरे तेम डौर्ह पृष्ठ थीजनी छाक उतरे ते बंतनो द्रव्यभेद. सठे को चीरने से जिस तरह उसका छिलका निकलता है उसी तरह किसी भी वस्तु की छाल निकले उस जात का द्रव्यभेद. A variety of substance which is peeled off

lengthwise like a sugar-cane.

पञ्च० ११;

✓ अणुतप्य. धा० I. ( अनु+तप् ) परतावें। करवें; धोजे। करवें; थेवा भूतभाटे ऐद करवें। पश्चात्ताप करना; भूत के लिये खेदप्रकट करना. To repent,

अणुतप्यइ. क० वा० सूत्र० १, ४, १, १०; अणुताव. पुं० ( अनुतौप ) पश्चात्ताप. पश्चात्ताप. Repentance; remorse. “पच्छाणुतावे य तवप्पभावं” उत्त० ३२, १०४; पंचा० १५, ३; जीवा० ३, १;

अणुतावश्च. त्रि० ( अनुतापक ) पश्चात्ताप करनार; गोद पामनार. पश्चात्ताप करने वाला. Repentant; penitent. उत्त० १०, ३३;

अणुताविया. ब्रा० ( अनुतापिका ) परने संताप उपग्रहनार भाषा. दूसरे को संताप कराने वाली भाषा. Language giving pain to others. “अणुतावियं खलु ते भासं भासंति” सूत्र० २, ७, ७;

अणुतत्म. त्रि० ( अनुत्तम-न उत्तमा अनुत्तमः) उत्तम-अपि नहि ते; दुष्ट; नीय. दुष्ट; नीच. Not best; wicked. पंचा० २, ३१;

अणुत्तर. त्रि० ( अनुत्तर ) सौथी अपि; प्रधान; सर्वोत्तम; सर्वोत्कृष्ट; जेनाथी उत्तर-प्रधान औन्जुं नथी तेनुं. सब से अपि; प्रधान; सर्वोत्तम. Best; highest. “केवलिस्स णं दस अणुत्तरा परणात्ता, तंजहा-अणुत्तरे नाये अणुत्तरे दंसणे अणुत्तरे चरिते अणुत्तरे तवे” ठा० ५, १; भग० ६, ३१; १३, १; १८, ७; १६, ६; २५, ७; नाया० १; १४; दस० ४, १६; २०; ६, १, १६; जं० प० २, ३१; ओव० ३४; ४०; उत्त० २, ३७; १०, ३५; दसा० १०, १; ११; आव० ४, ८; कप्प० ५, १०६; ( २० ) पुं० विष्ण५, वैन धृत आदि पांच अणुत्तरविभान. विजय,

बैजयंत आदि पांच अनुत्तर विमान. the five highest heavenly abodes viz Vijaya, Vaijayanta etc. प्रब० ८३०; विश० ६५७; भग० १, ४; उत्त० ३६, २१०; ( ३ ) ऊ० अणुत्तर विभानवासी देवता. अनुत्तर विमानवासी देव. deities residing in the above heavens. उत्त० ३६, २१०;—उववा-इय-आ. ऊ० ( -उपातिक ) अनुत्तर विभानना देवताभां उप०वावागी; अनुत्तर विभानना देवता. अनुत्तरविमान के देवों में उत्पन्न होने वाला; अनुत्तरविमान का देव. deities born among those of Anuttara heavens; gods of Anuttara Vimāna. “अथि यां भंते ! अणुत्तरोववाइया देवा, हृता अथि से केणटेण्यं भंते ! एवं बुद्ध अणुत्तरोववाइया देवा ” भग० १४, ७; सम० ११००; जं० प० २, ३१; नंदी० ५३; कप० ७, २२५; भग० ५, ४; ६, १; ८, ३; २४, ३१; नाया० ८; पञ्च० १५; ठा० १, १; जीवा० १;—गइ. ऊ० ( -गति). सिद्धगतिने प्राप्त थयेद. सिद्धगति को प्राप्त. finally emancipated; Siddha. “ एस करेमि पश्चाम तिथ्यराणं अणुत्तरगैयं ” ( २ ) ली० सिद्धगति. सिद्धगति. Siddha-hood; final bliss; absolution. च० प० —णाणदंसणधर. त्रि० ( -क्षमदर्शवधर ) सर्वोत्तम शान् अनेदैशनना. धरना॒; तीर्थ॑८२, डेवणी आदि. सर्वोत्तम ज्ञान तथा दर्शन को धारणा करने वाले; तीर्थकर केवली आदि. possessing absolute knowledge. e. g. Tirthankaras, Kevalis etc. “ एवं से उदाहु अणुत्तरदंसी अणुत्तरणा-णदंसण धरे ” सूय० १, २, ३, २२; —णाणि. त्रि० ( -क्षमिन् ) डेवणी. केवली.

possessed of perfect and highest knowledge; a Kevali. उत्त० ६, १८; सूय० १, २, ३, २२;—दैति, त्रि० ( -दर्शिन् ) डेवणी दैशनी. केवल दर्शन वाला; possessed of perfect and absolute right belief; a Kevali. उत्त० ६, १८;—विमाणः न० ( -विमान ) विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजित अनेत अनेत सर्वार्थसिद्ध, ऐ पांच अणुत्तर विभान. विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध ये पांच अनुत्तर विमान. the five Anuttara heavens viz. Vijaya, Vaijyanta, Jayanta, Aparajita and Sarvārthaśiddha. “पंच अणुत्तरविमाणा परणाता, तंजहा-विजये खेयंते जयंते अपराजिए सद्वद्विसिद्धे य ” भग० १, ५; ६, ५; १६, ८; ३६, ७; २५, ६; अणुजो० १०४;

अणुत्तररगा. ली० (अनुत्तराङ्ग्या) धृष्टप्राभार॒, पृथी॒; आठभी॒ पृथी॒; सिद्धिशिला॒. ईवत् प्राभार पृथी॒; आठभी॒ पृथी॒; सिद्धिशिला॒. A place called Īsatprāgabhāra in which the Siddhas live; Siddhaśilā. “अणुत्तरगं परमं महेसी ” सूय० १, ६, १७;

अणुत्तरोववाइयदस्ता. ली० (अनुत्तरोपपातिक-दशा) नवभा नंवरनां अंगसूत्रनुनाम, के जेभां ऐ भुनियो अनुत्तरविभाने उपन्या तेना त्रिषु वर्णे छे; ‘अणुत्तरोववाइ’ नामे नवमु अंग-सूत्र. नवे अंगसूत्र का नाम, जिसमें जो मुनि अनुत्तरविमान में उत्पन्न हुए हैं, उनके वर्णन के तीन वर्ण हैं; ‘अणुत्तरोववाइ’ नामक नवाँ अंगसूत्र. The ninth Angasūtra describing the three classes of saints born in Anuttara heaven. नंदी० ४४; सम० १; अणुजो० ४२;

**अशुद्धर.** त्रिं ( अनुदिशि ) उद्य न पाभनार; उद्यमां न आवनार; जेनो। उद्य नथी थये। तेवी कर्मप्रकृति। उदय न पाने वाला; उदय में न आने वाला; जिसका उदय नहीं हुआ ऐसी कर्मप्रकृति। Not coming to rise; (Karma) that has not matured. भग० ११, १; ३५, १;

**अशुद्धय.** पुं० ( अनुदय ) कर्मना विपाकोदयने अभाव। कर्म के विपाकोदय का अभाव। Absence of the maturing of Karma. क० गं० २, १३;

**अशुद्धिजंत.** त्रिं ( अनुदीयमान ) अन्तर्भु-हूर्तपर्यंत उद्यमां न आवेषुं। अंतर्भुहूर्त-तक उदय में नहीं आया हुआ। Not maturing or rising for an Antarmuhūrta. विशेष० ५३०;

**अशुद्धिरण.** त्रिं ( अनुदीर्ण ) नल्लना भविष्यमां जेनी उदीरणा थवानी नथी येवी कर्मप्रकृति। नज़दीक के भविष्य में जिसकी उदीरणा न हो ऐसा कर्मप्रकृति। Karma which is not to mature in very near future. भग० १, ३; **अशुद्धिय.** त्रिं ( अनुदिति ) उद्यमां न आवेषु। उदय में न आया हुआ। Not risen;not come to rise or maturity. क० प० ५, ३३;

**अशुद्धियहं.** ओ० ( अनुदिवसम् ) दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन। Day after day; every day. सु० च० १, ३०४;

**अशुद्धिसा.** ज्ञां० ( अनुदिशा ) जगल्लवनी पद्धी। यावज्जावन की पद्धी। Life-long status or position. “ तीसे इतरियं दिसं वा अशुद्धिसं वा ” वव० ६, २०; ( २ ) विदिशा; भुषेण; अभिन, नैऋत्य, वायव्य अने छशन ए यारभानों गमे ते एक भुषेण। विदिशा; अभिन, नैऋत्य, वायव्य और

ईशान इन चारों में से कोई एक विदिशा-कोना। any of the intermediate points of the compass. पाईयं पर्दिज्ञं वावि, उडुं अशुद्धिसामवि.” दस० ६, १४; सूर्य० २, १, १७; आया० १, १, १, २;

**अशुद्धिसी.** ज्ञां० ( अनुदिशा ) विदिशा; भुषेण। कोना। An intermediate point of the compass. कप्प० ६, ६९; **अशुद्धीरग.** त्रिं ( अनुदीरक ) कर्मनी उदीरणा। न करनार। कर्म की उदीरणा न करने वाला। Not forcing up Karma into maturity. भग० ११, १; ३५, ६; ३५; १२ क० गं० ४, ६५;

**अशुद्धिहङ्क.** त्रिं ( अनुहिष्ट ) उद्देश दोषरहित आहार आहि। उद्देश दोष से राहित आहारादि। Food etc. free from the fault of being specially prepared. भग० ७, १;

**अशुद्धरी.** ज्ञां० ( अशुद्धरी-न उद्दर्त्तु शक्येति) अंथवा; कंथवानी ऐक जात। कुंथु आदि सूक्ष्म जीव विशेष; (भुम्मण, पंजाबी) A variety of minute insects. कप्प० ५, १३१; ६, ४५;

**अशुद्धित.** त्रिं ( अनुदृत ) जुओ। ‘अशुद्धिय’ शब्द. देखो ‘अशुद्धिय’ शब्द. Vide ‘अशुद्धिय’। पंचा० १५, ३८;

**अशुद्धिय.** त्रिं ( अनुदृत ) ऐची। नहि काटेदुं। खेचकर नहीं निकाला हुआ। Not drawn out. ओघ० निं० ८०४;

**अशुद्धिघुञ्च.** त्रिं ( अनुदृत-अनु पश्चादुभूत मनदूतम्) तथावीने सज्ज० करेल. तपाकर तैयार किया हुआ। Made ready by heating. नाया० १; भग० ११; ११; ज० प० ६, ११२; कप्प० ५, १०१;—मुहंग. न० (- मृदग ) सज्ज० करेल भृदग। तैयार किया हुआ मृदंग। a kind of drum ५८

tabor made ready for use. कप्य० ५, ११०;

**अणुधर्म.** पुं० ( अनुधर्म ) अनुकूल धर्म. Conformable religion. सूय० १, २, १, १४; —चारि. पुं० ( -चारिन् ) तीर्थकराहिना प्रस्तोत्र धर्मभ्रमाणे चालनार. one conforming to the religion as expounded by Tirthankaras etc. “ जंसि विरता मसुट्टिया कासवस्त्र अणुधर्मचारिणो ” सूय० १, २, २, २५; **अणुधाव.** धा० I. ( अनु+धाव ) पाण्डि पाण्डि हेत्वं. पाण्डि पाण्डि दाङ्डना. To run behind; to run in the footsteps of.

अणुधावहृ. प्रव० १५१७;

**अणुश्रव.** धा० I. ( अनु+ज्ञा ) आज्ञा लेवी. आज्ञा लेना. To ask permission.

अणुश्रविय. सं० कृ० प्रव० ६४५;

अणुश्रवित्तु. सं० कृ० प्रव० १२५;

**अणुश्रवणा.** ल्ला० ( अनुज्ञापन ) जुओ। “ अणुगणणवणा ” २०८८. देखो ‘ अणुगणणवणा ’ शब्द. Vide “ अणुगणणवणा ”. प्रव० ६६;

**अणुश्रवेयव्य.** त्रि० ( अनुशापितव्य ) भीष्म वार. आज्ञा हेति. दूसरी वार आज्ञा देना. Giving command for the second time. वेय० ३, २८; ( २ ) आज्ञा हेति योग्य. आज्ञा देने योग्य. worthy of being commanded. वव० ४, २१;

**अणुश्राय.** त्रि० ( अनुश्रात ) जिनसंभत; वीतरणे आज्ञा आपेक्ष. जिनसम्भत; वीतराग भगवान् द्वारा आज्ञापित्. Permitted by Tirthankaras etc. ठा० ३, ४; त्रि० नि० २५२;

✓ **अणुपश.** धा० I. ( अनु+प्र+दा ) अपावत्तु;

देवरावत्तु. दिलाना. To cause to be given.

अणुपइज्जा. वि० आया० २, १, १, ५;

अणुपदावहृता. यि० सं० कृ० भग० ५, ६; **अणुपइज्ज.** त्रि० ( अनुप्रकीर्ण ) परस्पर भणी गयेत. परस्पर में मिला हुआ. Mixed up together. कप्य० ३, ४६;

**अणुपथ.** न० ( अनुपथ ) भार्ग-पंथनी सभी-पै. मार्ग के समीप. Near a road. वेय० ३, २६;

**अणुपत्त.** त्रि० ( अनुप्राप्त ) पछीथी ग्राम थयेत. पांछे से प्राप्त. Got after. “ सिद्धि मग्गमणुपत्तो ” दस० ३, १५; नाया० १; १२; १४; कप्य० १, ६; ३, ५३; भत्त० ६५;

**अणुपपरणा.** त्रि० ( अनुपपत्त ) उपपत्त नहि थयेत. अनुपपत्त; जो उपपत्त नहीं हुआ हो. Not arisen; not come to exist. दस० १, १३;

✓ **अणुपरियहृ.** धा० I. ( अनु+परि+हृत ) लट्टवत्तु; भ्रमणु लट्टवत्तु. भ्रक्तना; भ्रमण करना. To wander.

अणुपरियहृहृ. नाया० ३; ६; भग० १, ६; २, १; जं० प० ७, १६२;

**अणुपरियहृति.** सम० १३; उत्त० ८, १५; सूय० १, १, ३, ३२; १, ६, ११; जं० प० ७, १४०;

अणुपरियहृज्जा. वि० भग० १८, ७;

अणुपरियहृस्त्वहृति. भ० नाया० २; ६; १५; १७; १८; भग० १३, ६;

अणुपरियहृसंति. सूय० २, २, ८२;

अणुपरियहृता. सं० कृ० भग० ३, ३; ६, ५; १०; ६, ३३; १८, ७; २०, ६; पञ्च० ३६; ओव० ४२;

**अणुपरियहृमाण.** व० कृ० सूय० १, ५, ३;

**अशुपरियहित्यव्व.** त्रि० ( अनुपरिवर्तितव्य ) परिभ्रमणु करनु; परिभ्रमणु करना योग्य. परिभ्रमण करना; परिभ्रमण करने योग्य. Wandering frequently; deserving of frequent wandering or transmigration. नाया० ६;

**अशुपरिहारि.** पुं० ( अनुपरिहारिन्-परिहारिणः अग्नु-स्तोकं प्रतिकेखनादिषु साहाययं करोतीति अशुपरिहारी ) परिहार तपवाणो ज्यां ज्यां ज्यां त्यां त्यां तेनी पाण्डि। इरो तेने सहाय करनार साधु। परिहार तप वाला जहां जहां जावे वहां वहां पीछे रहकर उसको सहायता करने वाला साधु। An ascetic who accompanies and renders services to a Parihārī saint. ठा० ३, ४;

**अशुपरिहारित्व.** पुं० ( अनुराहारक ) ज्ञामेण। 'अशुपरिहारि' शा० ६. देखो 'अशुपरिहारि' शब्द. Vide 'अशुपरिहारि' प्रव० ६१५; वव० २, ५;

**अशुपविहृ.** त्रि० ( अनुपविष्ट ) प५७॥ प्रवेश करेत्। पीछे प्रवेश किया हुआ। Entered after; next. जं० प० ३, ५२; कप० ४, ८७; वव० ८, ११;

✓ **अशुपव्यय.** धा० १. ( अनु+प्र+व्यज् ) डेढ़नी साथे प्रवन्नया-दीक्षा लेवा अथवा डेढ़ना अनुकरण्या प्रवन्नया लेवी। किसीके साथ या किसीके अनुकरण से दीक्षा लेना। To follow another in taking Dikṣā.

अशुपव्ययति. नाया० ५;

✓ **अशुपस्त.** धा० १. ( अनु+दर् ) लंतु; हेखतुं। देखना. To see.

अशुपस्तसृ. दसा० ५, ३१;

अशुपस्तिम. सं० कृ० सूया० १, २, ३, ५;

अशुपस्तम. व० कृ० उत्त० ६, १६;

**अशुपस्ति.** पुं० ( \*अनुपरियन्-अनुपरियन् ) शुभाशुभ इर्गे अने तेना परिषुभने ज्ञेवा वाणो। शुभाशुभ कर्म और उसके परिणाम को देखने वाला। ( One ) looking into good and evil Karmas and their results. “ विहृयकप्ये एयाशुपस्ती ” आया० १, २, ३, ११७; १, ३, २, ७७;

**अशुपाङ्ग.** धा० ॥ १. ( अनु+पा ) पांतुं. पिलाना. To cause to drink.

अशुपाण्जा. विं० निसां० ७, २३;

**अशुपाण.** त्रि० ( अणप्राण-अणवः सूक्ष्माः प्राणाः प्राणिनां येषु त अशुप्राणाः ) सूक्ष्म जन्तुओंथी युक्त। सूक्ष्म जन्तुओंसे युक्त। Full of minute insects. “ जययं विहराहि जोगवं, अशुपाणा पंथा दुरुत्तरा ” सूया० १, २, १, ११; क० गं० ५, ७५;

✓ **अशुपाल.** धा० ॥ १. ( अनु+पाल ) निरंतर पालन करनु; निरंतर सेवनु; रक्षणु करना; बचाना। To observe constantly; to protect constantly.

अशुपालहृ. भग० २, १;

अशुपालेभि. आव० ४, ८;

अशुपालाद्. दस० ६, ४७;

अशुपालिज्जा. विं० आया० १, १, ३, १६; दस० ८, ६९;

अशुपालहृता. सं० कृ० उत्त० २६, १;

अशुपालेत्ता. सं० कृ० आव० ४१;

अशुपालित्ता.” कप्य० ६, ६३. वव० ६, ३७;

अशुपालित्य.” क० प० २, ६१;

अशुपालंमाणा. व० कृ० भग० २, ५;

अशुपालंत. व० कृ० आव० ४, ८;

अशुपालहृता. धा० ( :अनुपालना-अनुपालन )

संकट पड़ये पशु लींघेव पर्याप्त अराधर

भाणवां ते. संकट आने पर भी प्रहरण किये हुए पच्चखाणा का यथार्थ रीति से पालन करना. Steady observance of vows of abstinence in spite of difficulties. ठा० ५, ३;—सुख्न. न० (-शुद्ध) पृथ्य-भाषुनो अेक भेद; दुष्काण, अटवी वर्गेरे अपवाहे पशु पृथ्यभाषु भराभ२ पाणवुं ते. पच्चखाणा का एक भेद; दुष्काल, वन आदि में भी पच्चखाणा का ठीक ठीक पालन करना. steady observance of the vows of Pachchakhāṇa or abstinence even where exceptions are allowed, e. g. in famine etc. ठा० ५, ३;

अणुपालिय. त्रि० ( अनुपालित ) आत्म संयमनी अनुकूलतापश्चे पाणेदुं. आत्म संयम की अनुकूलतापूर्वक पाला हुआ. Observed consistently with self-restraint; e. g. a vow. ठा० ८; अणुपिद्ध. न० ( अनुपृष्ठ ) अनुकृम; परिपाठी. अनुकूल; परिपाठी. Serial order. “ अणुपिद्धसिद्धाइं ” सम० ४४;

अणुपुत्तिया. ली० ( अनुपुत्रिका ) संतति. संतति. Progeny. नाया० १:

अणुपुव्य. न० (\*अनुपूर्व-आनुपूर्व) अनुकृम; परिपाठी. अनुकूल; परिपाठी. Serial order. सूय० १, ११, ५; शोव० १०; नाया० १; ३; ४; ५; ६; १३; १४; भग० ११, ११; १३, ६; आया० १, ७, २, २०४; जं० ०४, ७४;

अणुपुव्यसो. अ० (अनुपूर्वशस्) अनुकृमप्रभाषु; अनुकृमे. अनुकूलपूर्वक. In serial order.

आया० १, ६, १, १७२; उत्त० ३६, ४७;

अणुपुव्यी. ली० ( अनुपूर्वी ) अनुकृम; परिपाठी. अनुकूल; परिपाठी. Serial order. नाया० ८; राय० ६८; उत्त० २, १; जं० ०४, ७, १३७; आउ० ६७;

अणुपुव्यी. ली० ( अनुपूर्वी ) नामकर्मनी एक प्रृति, के जेना उद्यथी छव एक गति-भांथी वीलु गतिमां सिद्धिरेते जर्छ झें. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव एक गति से दूसरी गति में सीधे तौर पर जा सकता है. A variety of Nāmakarma by the rise of which a soul can pass directly from one state of existence into another; क० ग० १, २४; ४३; ५, १६; प्रब० १२७७;

अणुपेहंत. व० क० त्रि० ( अनुप्रेष्टमाण ) वित्ततो. सोचता हुआ. Thinking; meditating. प्रब० ३६३;

अणुपेहंत. व० क० त्रि० ( अनुप्रददत ) अपानतो. दिलाता हुआ. Causing to be given. निसी० १, २८;

अणुपपश्य. त्रि० ( अनूत्पत्ति ) उडी गयेल; उड़ल; उधर्य गति करेके. उड गया हुआ; ऊर्ध्व गमन किया हुआ; उडा हुआ. Flown up; gone upwards. “ आगासेयु-प्पहओ ललियचवलकुंडलातिरीढी ” उत्त० ६, ६०;

अणुपपग्नथ. पु० ( अनुपग्रन्थ-विरसि-तयाऽणुः स्वल्पोऽपि प्रगतो ग्रन्थो धनादिर्यस्य स तथा ) निर्ग्रन्थ; परिप्रह रहित-साधु. निर्ग्रन्थ; परिग्रह रहित-साधु. One freed from even the slightest worldly possessions; an ascetic. ठा० ६;

अणुपरणण. त्रि० ( अनुत्पन्न ) वर्तमान समयमां जेतुं अस्तित्व नहीं ते; उत्पन्न न थयेल. वर्तमान समय में जिसका अस्तित्व नहीं है वह; अनुत्पन्न; जो उत्पन्न नहीं हुआ है वह. Not born; not existing. दसा० ४, ६१; विशे० ४१;

✓ अशुप्पदा. धा० I. ( अनु+प्र+दा ) आप्तुं;  
देतुं. देना. To give; to bestow upon.

अशुप्पदाइ. निसी० १, ३८;

अशुप्पदेजा. वि० वेय० ४, ११; १२;

अशुप्पदाउं हे० कृ० वव० २, २६;

अशुप्पदेमाण. व० कृ० वेय० ४, ११;

अशुप्पदायब्द. त्रि० ( अनुप्रदातब्द ) देतुं  
नेष्ठये; देना योग्य. देने योग्य.

Worth being given. भग० ८, ६;

अशुप्पयादिशकरेमाण. त्रि० ( अनुप्रद-  
शिष्टीकुर्वत् ) प्रदक्षिणा॒ कृतो॑। प्रदक्षिणा॒  
करता हुआ. Circumambulating.  
राय० १७३; भग० ६, ३३; जं० प० ३, ६८;

✓ अशुप्पवाचा. धा० II. ( अनु+प्र+वाच् )  
निधारी॑ कृचयुं; ध्यान॑ दृध॑ वाचयन्. ध्यान देकर  
पढ़ना. To read attentively.

अशुप्पवाचति. जं० प० ३, ४५;

अशुप्पवाएमाण. व० कृ० जं० प० ३, ४५;

अशुप्पवाय-अ. युं० ( अनुप्रवाद ) नवभा॒  
पूर्वनु॑ नाम; विद्यानुप्रवाद तेनु॑ अपर नाम छे॑.  
नवे॑ पूर्व का नाम; जिसका दूसरा नाम विद्यानुप्र-  
वाद है. Name of the ninth Pūrva;  
its other name is Vidyānupra-  
vāda. नंदी० ( २ ) अेकना॑ कथा॑ पछि॑ कहेनुं॑  
ते; अनुवाद. एक के कहने के बाद कहना;  
अनुवाद. speaking after. one has  
spoken सूय० २, ७, १३;

अशुप्पविहृ. त्रि० ( अनुप्रविष्ट ) प्रवेश॑ करेख;  
पेतुल-पेसेख. प्रवेश किया हुआ. Entered.  
नाया० १; ८; १४; १६; १८; भग० ३, १;  
८, ६; ११, ११; १२, १; १५, १; १६, ५; ६;  
निर० १, १; दस० ६, २; वेय० १, ३७;

✓ अशुप्पविस. धा० I. II. ( अनु+प्र+विश् )  
प्रवेश॑ करेता; अंदर॑ जरुं; दाखल॑ थंतुं. प्रवेश  
करना; भीतर जाना. To enter.

अशुप्पविसइ. भग० ७, ६; १३, १; १५, १;  
राय० १७३; ओव० ३१; जं०

प० ३, ५४; नाया० १; २, ५;  
८; १४; १६; निसी० १६, १;

अशुप्पवेसेह. नाया० १६;

अशुप्पविसइ. नाया० १;

अशुप्पविसंति. नाया० १; २; ८; १; ११;

अशुप्पविससि. नाया० १६;

अशुप्पविसामि. भग० १५, १;

अशुप्पविसे. वि० उत्त० २, १४;

अशुप्पविसेज्जा. वि० दसा० ७, १;

अशुप्पविस-से-ह. आ० नाया० ८; १४; १६;

अशुप्पविसइत्ता. सं० कृ० नाया० १; २;

८; १४; १५; १६; भग०

७, ६; १५, १;

अशुप्पवेसेहत्ता. सं० कृ० नाया० १६;

अशुप्पविसइत्ता. सं० कृ० नाया० १;

अशुप्पवेसित्ता. सं० कृ० निसी० १, १०;

अशुप्पविसित्ता. सं० कृ० भग० ३, ४; आया०

२, ७, १, १५५; निसी० ५, ३७;

अशुप्पविसामित्ता. सं० कृ० भग० १५, १;

अशुप्पविस्त्ता. सं० कृ० सूय० १, १३, १७;

अशुप्पविसित्तए. हे० कृ० नाया० ८;

अशुप्पविसमाण. व० कृ० भग० १६, ६;

अशुप्पसूय. त्रि० ( अनुप्रसूत ) जन्मे॑ भेल॑. जन्मा  
हुआ. Born. आया० २, १, ८, ४६;

अशुप्पिय. त्रि० ( अनुप्रिय ) अनुकूल;

भी॑; भी॑. अनुकूल. Favourable;

agreeable “ अन्नस्स पाणस्स इहलो-  
इयस्स, अशुप्पियं भासति सेवमाणे ” सूय०  
१, ७, २६;

✓ अशुप्पेह. धा० I. ( अनु+प्र+ईह् ) अनुप्रेक्षा-

यितवना॑ करनी॑; भावना॑ भावनी॑; आलोचन-

मनन॑ करनुं. चित्तवन करना; भावना करना;

आलोचन॑ मनन करना. To think; to

meditate upon.

अशुप्पेहंति. ओव० २१;

**अणुपेहा.** ली० ( अनुप्रेता. ) भावना; विचारणा; वित्तवन्. चित्तवन्; भावना; विचारणा. Meditation. ओष्ठ० नि० भा० २६१; अणुजो० १३; ओव० २०; ठा० ४, १; भग० २५, ७; पिं० नि० ६६६; उत्त० २६, २;

**अणुपेहि.** प्रि० ( अनुप्रेषिन् ) वित्तवन्-आवेच्यन करना। चित्तन-आलोचन करने वाला. One who thinks; one who meditates upon. उत्त० ५, ११; १३, १५;

**अणुफरिहा.** ली० ( अनुपरिखा ) आधनी सभीपनी जग्या; आधनी पासेनुं स्थग्य. खाई के समीप की जगह. A place near a ditch or a trench. वेय० ३, २६;

**अणुकास.** पु० ( अनुस्पर्श ) अनुभाव; महिमा. महिमा; महत्ता; बड़प्पन. Dignity; greatness. दस० ६, १६;

**अणुबंध.** पु० ( अनुबन्ध ) सतत; निरंतर; अविछिन्पयु. सतत; निरन्तर; सदा; अविच्छिन्नता. Uninterruptedness; unbroken continuity. ओष्ठ० नि० २६५; विश० २५७०; —च्छेयण. पु० (—च्छेदन ) अनुग्रंथ-संसारसंघंधने छेदनार उपाय; कर्म भावनार उपाय. संसार सम्बन्ध के छेदने वाला उपाय; कर्मक्षय करने का उपाय. means of destroying Karma. “ चित्ताण्य कमाण्यं चित्तोचियं होइ खवण्वाओ यि, अणुबंधच्छेयणाहूं सो उण एवंति याण्यव्यो ” पंचा० १८, ४१;

—भाव. पु० ( —भाव ) अनुभाव-संस्कृते कर्मनी सत्ता. अनुभाव-संस्कृते कर्म की सत्ता. the state of Karma matured into mild or strong results. पंचा० ५, ८; —भावविहि. पु० ( —भाव-विधि ) पञ्चाण्याणुना परिणामने निरंतर

टकानी राखने विधि. पञ्चखाण के परिणाम को निरंतर बनाये रखने की विधि. rules of steadily keeping up the thought-activity about Pachch khāṇa or abstinence. पंचा० ५, ४४; —साहग. प्रि० ( —साधक ) अनुअंध-निरंतरपयु साधनार. अनुबंध-निरन्तरता साधने वाला. one obtaining or trying to obtain continuity. पंचा० ८, ४८; —सुद्धिभाव. पु० (—शुद्धिभाव ) निरंतर कर्मना क्षयोपशम-थी आत्मानी निर्मलता थाय ते. निरंतर कर्म के क्षयोपशम से आत्मा की निर्मलता जो हो वह. the purity of soul arising from constant subsidence and destruction of Karma. पंचा० ८, २७;

**अणुबंधणा.** ली० ( \*अनुबन्धना-अनुसन्धान ) अनुसंधान; भूली गयेक वातनुं रमरण्यु करी साध भेगवती ते. अनुसंधान; जाँच; भूली हुई वात का स्मरण कर उसका सम्बन्ध मिला लेना. Establishment of proper contextual connection. by recollection “ तस्सेव पण्संतरणहस्सत्त्व-बंधणा घडणा ” पंचा० १२, ४५; **अणुबंधि.** प्रि० ( अनुबन्धिन् ) हेतु; साधक. हेतु; साधक. A mark; a basis of proof or inference. ओव० २०; ( २ ) निरंतर पञ्चादि विभाग भेगा क्रवाथी पठिलेहणुभां अननुभंधी हेष कागे ते हेष टाणीने पठिलेहणु करवुं ते. निरंतर वस्त्रादि विभाग एकत्रित करने से पठिलेहण में जो दोष लगता है उस दोष को टालकर पठिलेहण करना. getting rid of the fault of putting together clothes etc.

without examining them with care. ठा०६;

**अणुबद्ध.** त्रि० ( अनुबद्ध ) वाधेत; निरंतर अहंषु करेत. बांधा हुआ; निरन्तर महण किया हुआ. Tied; taken ceaselessly. सम० ११; ( २ ) निरंतर; सतत; अव्यप्तित. निरंतर; सतत; अव्यवच्छ्वन्. constant; ceaseless. परह० १, १; २; नाया० २; ( १ ) व्याप्ति. व्याप्ति. pervading. नाया० २; ( ४ ) पूर्वसंचित, दैषअंधनथी वंधायेत. पूर्वसंचित; द्वेषबंधन से बद्ध. fettered by the bond of hatred shown in past life. उत्त० ४, २; —खुहा. ज्ञा० (-ज्ञुधा) अत्यन्त भूष्म; तीव्र द्वंधा. बहुत ज्यादह भूख; तीव्र ज्ञुधा. sharp hunger. “ अणुबद्धसुहापरदसीऊरहसयेयणादुग्घट शरियविवण्यासुहविच्छविया ” परह० १, ३; —शिरंतर. त्रि० ( -निरन्तर ) अत्यंत निरंतर; हमेश. सदा; हमेशह. incessant; constant. “ अणुबद्धशिरंतरवेयणासु ” परह० १, १; —तिव्यवेर. त्रि० ( -तीव्यवेर ) निरंतरपृष्ठे तीव्र वैर राखनार. निरन्तर तीव्र वैर रखने वाला. given to implacable hostility. “ अणुबद्धतिव्यवेर, परोच्चरं वेयणं उदीरेति ” परह० १, १; —धर्ममज्जाण. त्रि० ( -धर्मध्यान-अनुबद्ध सततं धर्मध्यानमाज्ञाविनयादिक्लवणं वेषो सेऽनुबद्धवर्मध्यानाः ) धर्मध्यान वित्तननी अंद्र सतत प्रवृति राखनार. धर्मध्यान चित्तवन में निरंतर प्रवृत्ति रखने वाला. constantly engaged in religious meditation. परह० २, १; —रोपस्पसर. त्रि० ( -रोपसर-अनुबद्धः सततमव्यवच्छ्वासो रोपस्य प्रसरो विस्तारो यस्य सोऽनुबद्धरोपसरः ) निरन्तर कोऽधी. निरंतर कोधी; सदा कोई सहित. perpetually

in anger. गच्छा० टी० ८३; अणुबूह. धा० I. II. ( अनु+बूह ) बोलनु; कहेनु. बोलना; कहना. To speak; to tell. अणुबूह. भग० ११, ११; अणुबूहइ. नाया० १; अणुबूहमाण. व० कृ० नाया० १; **अणुबमड.** त्रि० ( अनुद्भट ) अभिभान रहित. अभिभान से रहित. Free from pride or conceit. “ अणुस्सुप्तयं जीवे अणुकंपए अणुबमडे विगयसेगे ” उत्त० २६, २६, ( २ ) स्पष्ट नहि ते; भुझु नहि ते. जो स्पष्ट नहीं हो-प्रकट नहीं हो वह. not clear; not open. “ अणुबमड-पसन्थकुकिल ” जीवा० ३;

✓ **अणुभव.** धा० I. ( अनु+भू ) अनुभवनु; भोगनु. अनुभव करना; भोगना. अणुभवंति. भग० ११, १२; अणुभवित. है० कृ० उत्त० २०, २१; अणुभवमाण. व० कृ० नाया० १३; **अणुभाग.पुं०** (अनुभाग) कर्मना निक्त-निक्षेप, निक्तनर-व्यधारे निक्षेपा, कंडु, कंटुतर वज्रेरे रस; कर्मना रक्षेपाभां अध्यवसायानुसार ऐ रस पड़े ते; कर्मविपाक; कर्मपरिणुति. चर्परा, कडुआ वैग्रह रस; कर्म के स्कन्धों में अध्यवसाय के अनुसार जो रस पड़े वह; कर्मविपाक; कर्मपरिणाति. Results of Karma with reference to their intensity caused by the degree of passion. क० गं० ४, ८५; ५, ६५; उत्त० ३३, २४; भग० १, ४; सम० ४; सूय० ३, ६, ३४; ( २ ) अनुभाग; स्वभाव. अनुभाग; स्वभाव. nature. क० प० १, २६; —अण्पावहुय. ( -अल्पवहुत्व ) अनुभाग-रस आश्री कर्मनु अल्प अहुत्व-परम्पर आश्री. वत्तारूपे संरभापैभूषी कर्वी ते. अनुभाग-रस की अपेक्षा से कर्म का अल्प बहुत्व-

न्यूनाधिकरूप से परस्पर तुलना करना. weighing the comparative intensity of Karmic results. ठा० ४, ३;—उदय. पुं० (-उदय) कर्मनो अनुभाग-२संख्येथो उदयकर्म का अनुभाग-२संख्येथो होता हुआ उदय. maturing of Karma in greater or lesser intensity. क० ५० ६, ५;—उदीरणा. ल्ला० (-उदीरणा) उदयमां आवेदा कर्मना २सनी साथे उदयमां न आवेद २सने ज्येष्ठे तेभां भेगवो भ्लागवो ते. उदय में आये हुए कर्म के रस के साथ उदय में नहीं आये हुए रस को मिलाकर उसका फल भोगना blending the intensity of matured Karmas with that of unmatured ones and experiencing the results of this modified intensity. ठा० ४, २;—उदीरणोवक्रम. पुं० (-उदीरणोवक्रम) उदयमां आवेदा २सनी साथे सत्ताभां २हेला २सने ज्येष्ठी वेदानो आरंभ करये। ते. उदय में आये हुए रस के साथ राता में रहे हुए रस को खांचकर उसके भोगने का आरंभ करना. beginning to experience the blended intensity of the matured and unmatured Karmas. ठा० ५, १;—कर्म. न० (-कर्मन्) कर्मनो २स; तीव्र, तीव्रतर, मंद, भैष्टतर वर्गेरे कर्मप्रृतिभानो शुभ, अशुभ २स. कर्म का रस; तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर आदि कर्मप्रकृति में का शुभ अशुभ रस. greater or lesser intensity of the results of Karmas according to their nature. भग० १, ४;—णामानेहत्ताउय. न० (-नामनिधत्तायुक्-गत्यादीनां नाम कर्मणामनुभागबन्धरूपे भेदोऽनुभागनाम,

तेन सह निधत्तमायुक्तुभागनामनिधत्ता-युक्तिं) नामकर्मनी गति आदि प्रकृतिना अनुभागयंधनी साथे आयुष्य कर्मनो निवड बंध करये। ते; आउभाना बंधनो ऐक भेद. नामकर्म की गति आदि प्रकृति के अनुभागबन्ध के साथ आयुष्य कर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध करना; आयुष्य कर्म के बंध का एक भेद. blending together the intensity of Nāmakarma with that of Āyusyakarma; a variety of the bondage of Āyusyakarma. भग० ६, ८; सम०—बैध. पुं० (-बन्ध) कर्म अंदर तीव्र, तीव्रतर आदि २सने बंध. कर्म में तीव्र, तीव्रतर आदि रस का बंध. the intensity of the bondage of Karma according to the degree of passion. ठा० ४, २;—बंधद्वाण. न० (-बन्धस्थान). अनुभागयंधनां स्थानक; ने ने अध्यवसाये अनुभाग-ऐक समयना क्रपायसंबंधी अध्यवसायथी ग्रहण डरेल कर्मपुद्गग्ना ना २ससमुदायनु परिणाम थाय ते क्रपायोदयरूप अध्यवसायविशेष. अनुभाग बंध के स्थानक, जिन जिन अध्यवसायों से अनुभागबन्ध का एक समय के क्रपायसम्बन्धी अध्यवसाय से प्रहरण किये हुए कर्मपुद्गतों के रससमुदाय का परिणाम हो वह क्रपायोदयरूप अध्यवसायविशेष. thought-activity in the form of passion giving rise to greater or lesser Karmic bondage. प्रव० १०६५;—संक्रम. पुं० (-सङ्क्रम) कर्मना २समां संक्रमण थनुं ते; संक्रमनो ऐक भेद. कर्म के रस में संक्रमण होना; संक्रम का एक भेद. transformation of Karmic results; a variety of Sāṅkrama. क० ५० ५, ७१;

—संतकम्. न० (—सल्कर्मन्) अनुभाग संशयधी कर्मनी सत्ता; कर्मना अनुभाग—रसनी सत्ता. अनुभाग सम्बन्धी कर्म की सत्ता; कर्म के रस की सत्ता. existence of Karmic matter in relation to the intensity of bondage. क० प० ७, १;

अणुभाव. पु० ( अनुभाव ) प्रभावःशक्तिः सामर्थ्यः प्रभाव; शक्ति. Power; prowess. सू० प० १; १६; ( २ ) सुख. सुख. glory; blessedness. सम० १०; ( ३ ) तीव्र. मन्द-रूपे कर्मना रसनो अनुभव करवेते; रसरूपे कर्मनु परिणाम-विपाक. तीव्र, मन्दरूप से कर्म के रस का अनुभव करना; रसरूप से कर्म का परिणाम-विपाक. the result of Karma in greater or lesser intensity; experiencing this result. पञ्च० २३; क० प० २, १; उत्त० ३४, ६१; —कर्म. न० ( -कर्मन् ) अनुभाव-विपाकरूपे वेदानु कर्म. अनुभाव अर्थात् विपाकरूप से जिसका वेदन हो वह कर्म. Karma experienced in result. ठा० ४, ४;

अणुभासश्च. त्रि० ( अनुभासक ) युरु पासे सांलग्नो ऐश्वर्या-उपदेश करनार. युरु द्वारा श्रवण करने के पश्चात् बोलने वाला—उपदेश करने वाला. Preaching after hearing from a preceptor. विशेष० ३२१७;

अणुभासंत. व० क० त्रि० ( अनुभायमाण ) पाष्ठो ऐश्वर्या. पाष्ठो से बोलना हुआ. (One) speaking after another has spoken. पञ्चा० ५, ५;

अणुभासणा. ल्ला० (\*अनुभाषणा—अनुभाषण) युरु जै द्वारा, दीर्घ कड़े ते प्रभाषे शिष्ये ऐश्वर्यु ते; युरुना ऐश्वर्याप्रभाषे ऐश्वर्यु ते.

युरु के बोलने के अनुसार बोलना; युरु जैसे-द्वारा, दीर्घ कहे वैसा ही शिष्य का बोलना. Imitation of the accents of a preceptor by a pupil. गा० ५, ३;

अणुभिति. न० ( अनुभिति ) लीत सभीपे; भीतनी पासे. दीवाल के समाप. Near a wall. वेय० ३, २६;

अणुभूइ. न० ( अनुभूति ) अनुभव. अनुभव. Experience. विशेष० १६११;

अणुभूइमय. त्रि० ( अनुभूतिमय ) अनुभव भय. अनुभवमय; अनुभव स्वरूप. Full of experience. विशेष० १६११;

अणुभूय. त्रि० ( अनुभूति ) अनुभव करेत. अनुभवित; अनुभव किया हुआ. Experienced. अणुजो० १३०; भग० ६, ३३; नाया० १;

अणुमह. ल्ला० ( अनुमति ) अनुभति-संभति; अनुमेत्ता. अनुमति; सम्मति; अनुमोदन. Consent; approval. क० प० ५, २६;

अणुमहत्तो. अ० ( अनुमतितस ) अनुभति छे भाटे. अनुमति होने से. Because of, through, permission or consent. पञ्चा० ४, ३६;

अणुमग्गं. अ० ( अनुमार्गम् ) पाष्ठो; पाष्ठी; द्वे. पांचे. Behind; in the wake of. नाया० १८;

अणुमग्गजाय-अ. त्रि० ( अनुमार्गजात ) पाष्ठो जन्मेत; नदीनो भाई के ज्ञेन. पांचे से जन्मा हुआ; छोटा भाई या बहन. Born after; a younger brother or sister. नाया० ८; १८; विवा० १;

अणुमरणा. ल्ला० (\*अनुमन्या—अनुमति). अनुमोदना; संभति. अनुमोदन. Consent;

approval. ( २ ) अनुभेदनज्ञन् एक द्वितीय. अनुमोदन से होने वाला एक दोष. a fault incurred by showing approbation. पिं० नि० १२८;

**अणुमतः.** त्रिं० ( अनुमत ) अवगुण् नेयः पछी पश्च जेना उपरथी प्रीति न उत्तरे नेतुं धृष्टः धृष्टितः. अवगुण देखने के पश्चात् भी जिस परसे प्राप्ति कम न हो एमा; इष्टः. Desired or liked inspite of faults. भग० ३, १; ओव० ३६; ( २ ) अनुकृतपृथुथी संभवः भान्यः. अनुकूलता से सम्भवः भान्यः. acceptable; agreeable. जीवा० १;

**अणुमतः.** आ० १. ( अनु+मन्य-मन् ) संभवि आपीः; भान्य राज्युः. सम्भवि देना; भान्य करना. To permit; to approve of; to assent to.

अणुमतसु. आ० मु० च० १, ३४१;

अणुमणिथा. भू० भग० ६, ३३; नाया० १; १६;

**अणुमयः.** त्रिं० ( अनुमत ) जुआ 'अणुमत' शब्दः. देखो 'अणुमत' शब्द. Vide "अणुमत." नाया० १; भग० २, १; ६, ३३; १५, १; पञ्च० ११; मु० च० २, ७४; वव० ३, ६; कल्प० ६, १६; जं० प० २, २०;

**अणुमाणः.** पुं० ( अणुमान ) अणु-अद्य भान्य-अद्यारः; थोड़ा पश्च गर्व. थोड़ा अंभमान; थोड़ा गर्व. Some little pride; a little touch of pride. "अणुमाणं च मायं च, तं पङ्किषणाय पंडिते" सूर्य० १, ८, १८;

**अणुमाणः.** न० ( अनुमान ) हेतु-दिग्गथी थंजुं साध्यनुं जनः; अनुभान ज्ञान. हेतु से जो साध्य का ज्ञान हो वह; अनुमान ज्ञान. An

inference; knowledge got by syllogistic reasoning. भग० ५, ४; अणुजो० १४७; ठा० ४, ३; विशेष० ६०; —णिराकियः. त्रिं० ( -निराकृत ) अनुभानथी निराकृते करेत. अनुमान से निराकरण किया हुआ. refuted by inference. ठा० १०;

**अणुमाणद्वितीयः.** सं० कृ० अ० ( अनुमीय ) अनुभान इरीने. अनुमान करके. Having inferred. भग० २५, ७;

**अणुमाय-अ.** त्रिं० ( अणुमात्र ) अणुभात्रः धृणु थाँ. बहुत थोड़ा; नाममात्र. Very little. "अणुमायंपि मेहावी, मायामोसं विवज्जपे" दस० ५, २, ४६; द, २४; अणुमुलंत व०कृ०त्रिं०(अनुमुल्लत) नतज्ञते; नर्वि भुक्तोः त्याग न करते. न छोड़ता हुआ; न त्यागता हुआ. Not abandoning. उत्त० ३०, २३;

**अणुभेरा.** स्त्री० ( अनुमर्यादा ) नगरभर्यादानी सभीप. नगर की मर्यादा-सीमा के सभीप. Near the border of a town. वेष्य० ३, २६;

**अणुमोइयः.** त्रिं० ( अनुमोदित ) अनुभवि आपी उत्सुकी अनावेद; उत्सन्निति करेत. अनुमति देकर उत्साहित किया हुआ. उत्सेजित किया हुआ. Encouraged. आउ० ११;

**अणुमोयणा.न०**(अनुमोदन) जुआ 'अणुमोयणा' शब्दः. देखो 'अणुमोयणा' शब्द. Vide 'अणुमोयणा'. पञ्चा० ६, २८; परह० १, ३;

**अणुमोयणा.स्त्री०**(\*अनुमोदन-अनुमोदन) अनुभेदन; संभवि; सहानुभूति; भद्र उत्सवी ते. अनुमोदन; सहानुभूति; सहायता करना. Approval; consent; sympathy. पिं० नि० ६५; ११३;

**अणुमसुकः.** त्रिं० ( अनुनुकृत ) भुक्तयेत नहिः

तम्भेत नहि. नहीं छोड़ा हुआ; नहीं त्यागा हुआ. Not abandoned. पगह० १, ४;  
अशुय. त्रिं ( अनुग ) जुओ ‘अणुग’ शब्द. देखो ‘अणुग’ शब्द. Vide “अणुग”.  
ओव० ४१;

अशुयत्तणा. व्ही० ( अनुवर्तना ) हुःभी ज्ञान-नथगाने। उपचार करवे—सेवा करवी ते; अनुकूलपदे वर्णनु ते. दुखी-ग्लान या निर्बल का उपचार सेवा-करना; अनुकूलनापूर्वक बर्ताव करना. Serving the afflicted; sympathetic conduct. जावा० १

अशुयत्तमाण. व० कृ० त्रिं ( अनुवर्तमान ) भानतो; अनुसरतो; स्तीकारो; कृपय करते मानता हुआ, अनुसरण करता हुआ; स्वीकार करता हुआ. Accepting; following; acknowledging. “ छंदमणुयनमाणे गुरुजणाराहणे कुणइ ” विश० १४५१; अंत० ६, १५;

अशुयात्. त्रिं० ( अनुयात् ) पाठ्या० ७८२; अनुसरनार. पांचे जान वाला; अनुसरण करने वाला. ( One ) who follows. भग० १२, ६;

अशुयास. पुं० ( अनुकाश ) विकाश-प्रकाशनो। विस्तार. विकाश-प्रकाश का विस्तार. Expanse of light. नाया० १;

अशुरंजिएङ्घय. त्रिं० ( अनुरञ्जित—स्वार्थिक हल्लक प्रत्ययः ) संप्रदायकभूती रंगायेत्. संप्रदायपरंपरा से रंगा हुआ. Coloured with traditional doctrine. जं० प०

अशुरत्त. त्रिं० ( अनुरक्त ) स्नेहयागे। अनुरागी; प्रेमी. लेहयुक; अनुरागी; प्रेमी. Affectionate; loving. “ अणणमणण मणुरसा अणणमणणहिएसियो ” उत्त० १३, ५; ओव० सू० प०, २०; नाया० ३; १४; भग० १२, ६;

अणुरसिय. न० ( अनुरसित ) भेषेशी पैकार करवे। ते; शम्भ-अवाज करवे ते, जोर से पुकारना; शब्द करना. Crying aloud; bawling out. नाया० ५;

अणुराग. पुं० ( अनुराग ) अनुरागः प्रीति; प्रेम; अत्यन्त स्नेह अनुरागः प्रीति; प्रेम; बहुत ज्यादह लेह. Love; affection; भग० ६, ३३; राय० २२४; ( २ ) वर्ण॑; किरण आहिनो रंग. रंग; किरमची आदि का रंग. colour. पग० २;

अणुरागय. न० ( अनुवागत-रेष आगमिकः ) अनुकूल आगमन; अनुकूलपदे आवर्ण ते. अनुकूलत-पूर्वक आना. Favourable arrival; agreeable arrival. “ अणुरागय ते खंदया ” भग० २, १; अणुराग. पुं० ( अनुराग ) जुओ ‘अनुराग’ शब्द. देखो ‘अनुराग’ शब्द. Vide ‘अनुराग’. नाया० ५; भत्त० २२; —रता. त्रिं० ( -रक्त ) प्रेमशी रंगायेत्. प्रेम से रंगा हुआ. full of ( lit. coloured with ) attachment. प्रव० ८२४;

अणुराहा. व्हा० ( अनुराधा ) अनुराधानामनु नक्षत्र. अनुराधा नाम का नक्षत्र. A constellation named Anurādhā. सम० ४; सू० प० १०; अणुजो० १३१; ठा० २, ३; जं० प० ७, १५५;

अणुरूप. त्रिं० ( अनुरूप ) लाप्त; धृति; उचित; अनुकूल. योग्य; घाट्त; अनुकूल; उचित. Proper; fit; agreeable. पि० निं० ४८६; नाया० १६; ठा० ६; विश० १६२१;

अणुलग्न. त्रिं० ( अनुलग्न ) पाठ्या० लागेल्य॑. पांचे लगा हुआ. Attached behind. विवा० ८;

अणुलाद. पुं० ( अनुलाप ) वारेवार ऐक्षवं ते; इरी इरी ऐक्षवं-भालाप करवे। ते.

बारंबार बोलना; बारंबार बात चीत करना.  
 Speaking frequently. ठ० ७;  
**अशुलिप. धा० I. II. (अनु+विष्प्)** लिप्तुः  
 ग्र० २ इर्पी. लीपना. To daub with  
 cowdung; (२) विलेपन करनुः; लेप करने।  
 विलेपन करना; लेप करना. to smear.  
 अशुलिपह. नाया० ५;  
 अशुलिपेह. जीवा० ३, ४;  
**अशुलिपति.** नाया० १; भग० ६, ३३; ज० प०  
 २, २३;  
 अशुलिपह. आ० भग० १५, १;  
 अशुलिपदृत्ता. सं० कू० नाया० १; ५; भग० १५, १;  
 अशुलिपेदृत्ता. सं० कू० भग० ६, ३३;  
 अशुलिपित्ता. हे० कू० ओव० १८; ३८;  
**अशुलिपण.** न० (अनुलेपन) एक बार लिपेदी  
 भूमि इरीथा लिपनी ते; इरी विलेपन करनु ते.  
 एक बार लीपी हुई भूमि को फिर से लापना;  
 पुनः विलेपन करना. Daubing or  
 smearing again. परह० २, ३;  
**अशुलिता.** त्रि० (अनुलिप्त) चंदन वज्रेनु  
 विलेपन करेत. चंदन आदि का विलेपन  
 किया हुआ. Besmeared; anointed.  
 ओव० २२; नाया० १; ५; कप० ४, ६२;  
 —गता. त्रि० (-गत्र) नेना गात्र-शरीर  
 अवयव चंदनादिथा विलेपन करेत छे अयेता.  
 जिसके शरीर अवयव आदि चंदनादि से  
 विलेपित हैं वह. with limbs anoint-  
 ed with fragrant unction. तंडु०  
**अशुलिहंत.** व० कू० त्रि० (अनुलिखत) मृष्टिन  
 इरतुः; स्पर्शी इरतुः. चुंबन करता हुआ; स्पर्श  
 करता हुआ. Touching; licking.;  
 “गगणतलमशुलिहंतसिहर” सू० प०  
 १८; ओव० ३१; सम० प० २१३; राय० ६६;  
 नाया० ५; भग० ६, ३३; ज० प० ५, ११७;  
**अशुलूहेहत्ता.** सं० कू० आ० (अनुलूह्य)  
 शरीर दूँधिने. शरीर पोङ्क कर. Having

wiped the body, e. g. with a  
 towel. भग० १५, १;  
**अशुलेवण.** न० (अनुलेपन) विलेपन; विलेपन  
 करनु ते. लेप करना; विलेपन. Besmear-  
 ing; anointing. ओव० २२; ज० प०  
 पञ्च० २;—तल. न० (-तल) इरी लीपेद  
 भूमि-जमीन. फिर से लीपी हुई भूमि.  
 ground which has been daubed  
 again. “मेयवसापूयहिरमंसचिकित्त्वा  
 लिताशुलेवणतला” सू० ३, ३, ३६;  
**अशुलोपत्ता.** सं० कू० आ० (अनवलोक्य)  
 न जाइने; अवदोषन कर्या विना. बिना  
 देखें; बिना अवलोकन किये. Without  
 having seen. भग० ७, ७;  
**अशुलोम.** न० (आनुलोम्य) इभ. क्रमवार.  
 Natural order. पंचा० १५, १६;  
**अशुलोम.** त्रि० (अनुलोमन) अनुइक्षा;  
 मनने गमतुः. अनुकूल; मन को रुचने  
 वाला. Agreeable; pleasing; in  
 natural order. जीवा० १; ३, ३;  
 ज० प० २, ३१; नाया० १; ६; वव० १०, १;  
 ओव० नि० ३६; पंचा० १५, १६; ओव० १०;  
 (२) भाँडामांडी अनुकूल करनाने पुछनु ते.  
 आपस में अनुकूल करने के लिये पूछना.  
 mutual consultation for coming  
 to an agreement. ठ० ६, १;  
**—वाउयेग.** त्रि० (-वायुवेग) जेना शरीर-  
 नी अंदरना वायुनो वेग अनुकूल छे ते;  
 जेना पेटमां गुलमवायु नथी ते; जुगल  
 भगुय. जिसके शरीर के भीतर की वायु का  
 वेग अनुकूल है वह; जिसके उदर में गुलम  
 वायु नहीं है वह; युगल मनुष्य. free from  
 unwholesome gases in the  
 body; without vitiated windy  
 humour in the stomach. जीवा० १;

**अगुलोमहता.** सं० कृ० श० ( अनुकोम्य )

अनुकूल करने; पेताना पक्षमां लेने.

अनुकूल करके; अपने पक्ष में लेकर. Having made agreeable; having taken on one's side. ठा० ६, १;

**अगुलोमविलोम.** पुं० ( अनुकोमविलोम )

आपलव करवी ते; ज्वरुं अने आपलुं.

आवागमन करना; जाना और आना. Going to and from. पंचा० १६, १८;

**अगुलुम्भ-य.** पुं० ( अनुलुभवक ) क०८८ विशेष.

एक प्रकार का ज़मीकन्द. A kind of bulbous root. उत्त० ३६, १२८; ( २ )

ऐ ईद्रिय शृविशेष. दो इन्द्रियों वाला जीव विशेष. a variety of living being having two senses. उत्त० ३६, १२८;

**अगुलग.** त्रि० ( अनुलुभवक ) जुर्यों “अगुलुम्भ”

श०८८. देखो “अगुलुम्भ” शब्द. Vide

“अगुलुम्भ”. उत्त० ३६, १२८;

**अगुल्लाप.** पुं० ( अनुल्लाप ) माणे उल्लाप;

कुत्सित रीतिथी वर्जुन करवुं ते. कुर्मगत रीति से-खराब रीति से बर्दन करना. Contemptuous mention. ठा० ७, १;

**अगुलोय.** पुं० ( अनुलुभवक ) ऐ ईद्रिय शृव

विशेष. दो इन्द्रियों वाला जीवविशेष. A

kind of living being having two senses. उत्त० ३६, १३०; ( २ )

ईद्रिय शृविशेष. कंदविशेष. a kind of

bulbous root. उत्त० ३६, १३०;

**अगुवद्दिष्ट.** त्रि० ( अनुपदिष्ट ) आर्यपरंपरा-

थी उपदेशेलुं नहि ते. जिसका आचार्य परंपरा

से उपदेश न हुआ हो वह. Not taught

traditionally by preceptors.

क० प० ५, २५; प्रव० १२२;

**अगुवउत्त.** त्रि० ( अनुपयुक्त ) उपयोगवगरनुं;

उपयोग श०८८. उपयोग रहित. Careless;

lacking in due attention. अगुजो०

१४; भग० ५, ४; विशेष० ४२; ओषध० नि०

१३;

**अगुवपस.** पुं० ( अनुपदेश ) उपदेशनो अभाव; स्वभाव; निसर्ग. उपदेश का अभाव; स्वभाव; निसर्ग. Absence of teaching; nature as opposed to art. “निसर्गः स्वभावोऽनुपदेश इत्यनर्थान्तरम्” अगुजो० १५१; ठा० २, १;

**अगुवओग.** पुं० ( अनुपयोग ) उपयोगनो

अभाव; उपयोग श०८८ता. उपयोग का अभाव;

उपयोग श०८८ता. Want of proper care or attention. “अगुवओगो दब्बं”

अगुजो० १३; ७२; ( २ ) उपयोगनो अविपृथ; भावश०८८. भावश०८८. that which is not a province of Upayoga.

अगुजो० ७२; ( ३ ) निप्रयोजन; निप्रयोजन;

निप्रयोजन; बेमतलब; निप्रयोजन; निष्कारण. without any purpose. पंचा० ३, ३७;

**अगुवओगि.** त्रि० ( अनुपयोगिन् ) उपयोग श०८८; निप्रयोजन. निकम्मा. उपयोग

श०८८ Unnecessary; useless; purposeless. पंचा० ३, ३७;

**अगुवक्षय.** त्रि० ( अनुपकृत-उपकृतमुपकारो,

न विद्यते उपकृतं येषां ते) नेहुं उपकार नथी कर्मे ते. जिसने उपकार नहीं किया वह.

Devoid of benevolent deeds. नाया० ३; ( २ ) धीनना उपकार नीचे

आवेद नहि ते. दूसरे के द्वारा उपकृत न हुआ हो वह. not under anybody's obligation. विशेष० २१४३; नाया० ३;

**अगुवक्षंत.** त्रि० ( अनुपकान्त ) निप्रयोजन उपकार नहि. जिसका निप्रयोजन नहीं किया गया हो वह. Not repudiated. ओव०

**अगुवधाइश्च-य.** त्रि० ( अनुपधातिक ) ज्यां संयम आदिनी धात न थाय तेवुं स्थगी.

ऐसा स्थान जहां संयम आदि का धात न हो. ( A

place ) secure against impediments to self-restraint. प्रव० ७१६;  
उत्त० २४, १३;

**अशुचदृणगाउस.** त्रिं ( अनुपवर्त्तनीयायुक्त )  
जेना आयुष्यनुं अपवर्तन न थाय तेवा देवता,  
नारकी वर्गेरे. जिनके आयुष्य का अपवर्तन  
न हो ऐसे देवता, नारकी आदि. (Gods; hell  
beings etc.) whose life-term can-  
not be reduced or transferred  
क० प० १, ७५

**अशुचदृंत.** त्रिं ( अनुपतिष्ठत ) अध न ऐसतुं;  
लाशु न पृथुं. मेल न खाता; घटित न  
होता; ठीक न बैठता; संगति न खाता.  
Not fitting; not applicable.  
ओघ० नि० ४०१;

**अशुचद्वावियआ.** त्रिं ( अनुपस्थापितक ) धीम  
या० रत्नी उपस्थापना किधा। वगरनो. दूसरे  
चारित्र की विना उपस्थापना किया हुआ.  
( One ) who has not been re-  
admitted into the order of  
monkhood after a temporary  
expulsion for a fault. वेय० ४, १३;

**अशुचटिग्र.** त्रिं ( अनुपस्थित ) धर्माचरणुभां  
प्रमाद करनार; धर्माचरणुभाटे तैयार न थयेल.  
धर्माचरण में प्रमाद करने वाला; धर्माचरण  
के लिये जो तत्पर न हो वह. Negligent in  
religious observations; not  
prepared for religious practices.  
आया० १, ४, १, १२६;

अशुचहू. धा० II. (अनु+वृष्ट+णि०) वृधारनुं;  
वृद्धि कर्त्ती. बढ़ाना; वृद्धि करना. To  
increase; to accumulate.

अशुचद्वेह. भग० ५, ६;

अशुचद्वेषि. नाया० १;

अशुचद्वेषि. आ० नाया० १४;

अशुचद्वेष्टसामि. भ० विवा० ७;

अशुचद्वेष्टा. सं० कृ० भग० ५, ६;

अशुचणीय. त्रिं ( अनुपनीत ) सौपेल नहि  
ते. जो सुपर्दन हुआ हो वह. Not handed  
over. भग० ५, ६;

**अशुचत.** त्रि ( अनुदृत ) धीम वार प्रवृत्त  
थयेल. दूसरी वार प्रवृत्त. Re-engaged;  
occupied in doing again. पिं०  
नि० भा० १८;

**अशुचत्तमाण** व० कृ० त्रिं ( अनुवर्त्तमान )  
अनुसरो. अनुसरण करता हुआ.  
Following. भग० ११, ११;

**अशुचत्ति.** त्रिं ( अनुवर्त्तिन् ) अनुसरनार.  
अनुसरण करने वाला. ( One ) who  
follows; following; a follower.  
गच्छा० ५२;

**अशुचत्ति.** ल्ल० ( अनुदृति ) युरुनो भनोभाव-  
धिगिताहिक येष्टाथी वत्तनि तेने अनुकूल वर्तवुं  
ते. गुरु के मनो भाव-इशारे आदि से जान  
कर उसके अनुकूल बर्ताव करना. Shaping  
one's conduct by guessing the  
likes and dislikes of a precep-  
tor from his actions etc. गच्छा०  
५२;

**अशुचत्तिय.** सं० कृ० अ० ( अनुदृश्य )  
अनुसरने. अनुसरण करके having  
followed विवा० २, ४;

**अशुचधारिय.** त्रिं ( अनुपधारित ) धारण न  
करेल. धारण न किया हुआ. Not held;  
not put on. भग० १, ६;

**अशुचम.** त्रिं ( अनुपम ) अनुपम; उपमा  
रहित. उपमा रहित; अनुपम. Matchless;  
incomparable. विशेष० ३१८३; कप्य०  
३, ३७;—सुखब. न० (—सौख्य) अनुपम  
सुख; उपमारहित सुख; भेक्ष सुख.  
उपमा रहित सुख; मोक्ष सुख. Matchless  
happiness; perfect bliss.  
नाया० १७;

**अशुचमा.** छी० ( अनुपमा ) भावनिशेष;  
भिक्षाधनी एक जाति. खाय पदार्थ विशेष;  
मिठाई की एक जाति. A kind of sweet-  
meats. जीवा० ३;

**अशुचमियं.** त्रि० ( अनुपमित ) उपमारहित;  
अनुपम. उपमा रहित; अनुपम. Match-  
less सु० च० २, ५१६;

✓ **अशुचय.** धा० I. ( अनु+ब्रज ) पाण्डि॒ ज॒नुः;  
अनुसर्युः; पाण्डि॒ गति॑ कृ॒नी. पांछे २ चलना;  
अगुसरण कृ॒ना. To follow; to pursue.

अशुचयमो. उत्त० १३, ३०;

**अशुचयमाण.** व० कृ० त्रि० ( अनुवदत् ) पा-  
ण्डि॒ थी॑ ऐ॒लतो; प४॒पुडे॑ ऐ॒लतो. पांछे संबोलता  
हुआ; पीठ पांछे बोलता हुआ. Speaking  
in the absence of. “ आरंभटी  
अशुचयमाणे हणमाणे धायमाणे ” आया०  
१, ६, ४, १८६; १६२; नाया० १;

**अशुचयार.** त्रि० ( अनुपचार ) उप्यः॒-व्य॒रथा॒  
रहित. अव्यवस्थित. Devoid of proper  
arrangement; out of order.  
प्रव० १५६;

**अशुचरय.** त्रि० ( अनुपरत ) पापथी॑-सानधि॑  
व्यापारथी॑ निवृत्ति॑ नहि॑ पामेल; अविरति॑  
युक्ता. पाप से-सावद्य व्यापार से निवृत्ति॑ न पाया  
हुआ; अविरति॑ सहित. Not freed from  
sinful operations. पञ्च० २२; ठा०  
२, १; आया० १, ४, १, १२६; भग० ८,  
१०; विशे० १३२५; ( २ ) निरंतर; द्वैशेष;  
अविच्छिन्न. निरन्तर; सदा. constant;  
ceaseless. पिं० नि० ७१; सम०—काय-  
किरिया. छी० ( -कायक्रिया ) अविरतिपैदे॑  
शरीरने वापरवाथी॑ लागती॑ क्रिया॑-उभयंधि॑;  
क्रियक्रियानो॑ एक भेद. अविरतिपूर्वक  
शरीर का उपयोग करने से जो कर्मबंध हो वह;  
क्रियक्रिया का एक भेद. Kriyā incurred by using the body

without self-restraint: a variety  
of Kāyikī kriyā. भग० ३, ३;—दंड.  
त्रि० ( -दरड ) मन, वर्गन अने कायाना दंडथी॑  
निवृत्ति॑ न थेल. मन, वर्गन और काया के दंड से  
आनेवृत्त-निवृत्ति॑ न पाया हुआ. not freed  
from austerities of mind, speech  
and body. आया० १, ४, १, १२६;

**अशुचरि॑.** अ० ( अनुपरि॑ ) उपर नहि॑ ते;  
नीचे. नीचे. Below; not above.  
क० प० १, ६६:

**अशुचलंभ.** पुं० ( अनुपलम्भ ) स्वसंवेदननो॑।  
अभाव स्वसंवेदन का अभाव. Absence  
of experience. विशे० १६४;

**अशुचलेव.** त्रि० ( अनुपलेप ) लेपरहित.  
लेप रहित. Unsmearied. परह० १, २;

**अशुचघणणग.** त्रि० ( अनुपपञ्चक ) उत्पन्न  
थथा नथी ते-उत्पन्न नही॑ हुआ हो वह. Un-  
born; unproduced. भग० १४, १;

**अशुचवाय.** पुं० ( अनुपपात ) पासे न ऐसन्तु॑  
ते. सर्माप मे न बैठना. Not sitting in  
proximity. “ आणानिदेसकरे गुरुण-  
मणुववायकारण् ” उत्त० १, ३;—कार-  
आ. त्रि० ( -कारक ) गुरुदिक्षिनी पासे॑  
न ऐसनार. गुरु आदि के सर्माप न बैठने  
वाला. not sitting in the proximity  
( e.g. of a preceptor ). उत्त०  
१, ३;

**अशुचवेय.** त्रि० ( अनुपपेत ) प्राप्त नहि॑ थेल.  
अप्राप्त; प्राप्त न हुआ हो वह. Not endow-  
ed with. पञ्च० १७; ( २ ) युक्त नहि॑.  
अयुक्त. unaccompanied with. जं०  
प० २, २२;

**अशुचसंत.** त्रि० ( अनुपशान्त ) उपशान्त  
थेल नहि॑; उद्यभां आवेद. उपशान्त नही॑  
हुआ हो वह; उद्य में आया हुआ. Not  
subsided; matured into results.

भग० ७, ६; ठा० ४, १; ( २ ) ५४४ वाणी; जेना कृपाय उपशम्यानथी ते. कषाय वाला, जिसके कपाय उपशमित न हुए हों वह. with passions unsubsidied.

“उवसंते चेव अणुवसंते चेव” सूय० २, २, १; “जहाअणुवसंतेण” उत्त० १६; ४३;

**अणुवसु.** त्रि० ( अनुवसु ) रागवाणी; राग सहित. सरांग; राग वाला. Attached to worldly things. ( २ ) स्थनिरः श्रावक. स्थावर; श्रावक. a Jaina layman. “वसु वा अणुवसु वा जाणित्तु धम्मं जहा तहा” आया० १, ६, २, १८१;

**अणुवहं.** अ० ( अनुपथम् ) भार्गनी सभीपे; भार्गनी पासे. मार्ग के समाप. In the vicinity of the road. “अणुपथमेवास्मद्वस्थो भवतां वर्तत” आया० टा० १, ८, १, १६८;

**अणुवहय.** त्रि० ( अनुपहत ) अभिन आदिथी नाश न पाभेत. अभिन आदि से नाश न पाया हुआ. Not destroyed by fire etc. पंचा० ४, ३६;

**अणुवहारिय.** त्रि० ( अनुपधारित ) ५६४मां नहि अनुपारेत. हृदय में जिसकी अवधारणा न की हो वह. Not decided in the mind. सूय० २, ७, २८;

**अणुवहास.** त्रि० ( अनुपहास ) ६५६स रहित; डाईनी भस्करी न करनार. उपहास रहित; किसीकी हँसी न करने वाला. Not given to jesting. पंचा० ६, ६;

**अणुवाह.** त्रि० ( अनुपातिन् ) पाण्डी जनार; अनुसरनार. पांछे जाने वाला; अनुसरण करने वाला. ( One ) who follows.

( २ ) करनार. करने वाला. ( one ) who does. “नो विभूसाणुवाह भवइ निगंथे” उत्त० १६, ६; सम० ६;

**अणुवाय.** पुं० ( अनुपात ) अनुसार; अनुसरन्

ते. अनुसार; अनुसरण किया. Act of following; pursuit. “सदाणुवाए रुवाणुवाए” उत्त० १, ५४; पञ्च० ३; १६; ( २ ) ४८। रो. इशारा. sign. प्रब० २८४;

**अणुवाय.** पुं० ( अनुवात ) अनुकूल वायु-पवन. अनुकूल वायु-पवनवाणी। देश; जे देशभांधी अनुकूल वायु आये ते. अनुकूल वायु वाला देश; वह देश, जहां से अनुकूल वायु आये. country from which agreeable wind blows. भग० १६, ६; राय० ५६;

**अणुवालय.** पुं० ( अनुपालक ) अनुपालक नामे गोशालानो भुज्य श्रावक. गोशाला का अनुपालक नामक मुख्य श्रावक. Name of the principal layman follower of Gosālā. भग० ८, ५;

**अणुवासग.** पुं० ( अनुपासक-न उपासकः श्रावकोऽनुपासकः) अश्रावक; श्रावक नहि ते. जो श्रावक न हो वह. One who is not a Śrāvaka “अणुवासगो नायगमनायगो य” निरी० ८, १२;

**अणुवासणा.** ह्ला० ( अनुवासना ) चाम्पानी नदीथी युदाभाणे गेटमा तेविशेष नाखुं ते. चमड़े की नली से युद्धार से पेट में तेल आदिका डालना. Injection of a particular oil in the stomach through the rectum by means of a leatheren tube. नाया० १३;

**अणुवासरं.** अ० ( अनुवासरम् ) ६२२४७; प्रतिदिन. प्रतिदिन. Every day; daily. प्रब० १५६६;

**अणुवासिश्र.** त्रि० ( अनुवासित ) संस्कृत वडे वासित करेत. संस्कारों द्वारा वासित-गन्ध युक्त किया हुआ. Perfumed e. g.

with good deeds. जं० प० ५, ११२;  
विशेष २६;

**अशुद्धाहण.** न० ( अनुदाहन ) वाहनरहित; स्वारी वगरनो। विना वाहन का; विना सवारी का. Without a procession of vehicles etc. नाया० १५;

**अशुचिग्ग.** त्रि० ( अनुद्विष्ट ) शान्त; प्रशान्त रूप; व्यथपूर्णाथी रहित; उद्यगरहित. शान्त; व्यग्रता से रहित; उद्वेग से रहित Free from worry; calm. “ चरे मंद मणुविग्गे, अविक्षित्सेण चेयसा ” दस० ५, १, २;

**अशुचित्ति.** छी० ( अनुदृष्टि ) प्रदूषित; धृष्ट वस्तुतुं प्रभृत उत्तमानीक्य। इस वस्तु को प्राप्त करने की क्रिया; प्रवान्ति. Effort; action to gain a desired object. विशेष० १५६४;

**अशुचिरह.** छी० ( अनुचिरति ) देशविरति; अवक्षयः. देशविरति; आपकरन. Partial self-control e. g. on the part of a Jaina layman. क० गं० १, १८;

**अशुचिवाग.** पुं० ( अनुविपाक ) अनुरूप प्रिपाक; कर्मनु अनुरूप परिणाम; कर्मप्रभाषु तेनुङ्कल. अनुरूप पिपाक; कर्म का अनुरूप परिणाम; कर्मानुसार फल. Fitting results of Karma. “ एवं तिरिक्षेभ मणुप्रासुरेषु, चउरत्तणं तं तयणुविवागं ” सूय० १, ५, ३, २५;

**अशुचीइ.** सं० क० अ० (\*अनुविचिन्त्य) आवेद्याने; विचार करने; चिन्तनाने. आलोचना करके; विचार करके; चिन्तन करके. Having reflected upon. सूय० ३, १, ५७; दस० ७, ४४; ५५; परह० २, २; आया० १, १, ३, २५; १, ६, ५, १६४; २, ४, १, १३२; —समिहज्जेग. पुं० ( -समितियोग ),

विचारीने ऐतिवारूप लापासमितिनो व्यापार. विचार कर वोलनेरूप भाषासमिति का व्यापार. careful speech. परह० २, २;

**अशुचीय.** सं० क० अ० (\*अनुविचिन्त्य) लुओ। ‘अशुचीइ’ शब्द. देखो ‘अशुचीइ’ शब्द. Vide “ अशुचीइ. ” सूय० १, १०, १;

**अशुचेदयंत.** व० क० त्रि० ( असुचेदयत ) अनुभवते; वेदना पाते; लोभते. अनुभव करता हुआ; वेदना पाता हुआ. Experiencing; feeling. भग० २५, ७; सूय० १, ५, १, १६;

**अशुचेलंधर.** पुं०(अनुवेलन्धर)वेलन्धर जनिना देवताना अनुयायी- लुक्ष्मि उदावनारा नागकुमार जनिना देवता. वेलन्धर जाति के देवों के अनुयायी-आज्ञा मानने वाले नागकुमार जाति के देव. Deities of the Nāga-kumāra species of gods, followers of Velandhara gods. “ कहणं भंते ! अशुचेलंधरणागरायाणो परणत्ता ? गोयमा ! चत्तारि अशुचेलंधरणागरायाणो परणत्ता, तंजहा-क्ळोडण कहमए कहलासे अरणप्पमे ” जावा० ३, ४; सम० १७;

**अशुचेह.** पुं० (अनुवेच्च) जेडाषु; भेदाप. संयोग; जोड़; मिलाप. Meeting; contact. विं० नि० ५६;

**अशुचेहमाण.** व० क० त्रि० ( अनुप्रेहमाण ) विचार करते; विचारो; भावना भावते. विचार करता हुआ; भावना करता हुआ. Considering; meditating upon.

“ धुणे उरालं अशुचेहमाणे, चिद्वाण सोयं अणवेक्खमाणे ” सूय० १, १०, ११;

**अशुद्धाइय.** त्रि० ( अनुवृत्तिक ) भडाप्रतनी अपेक्षाए अशु-नहाना। प्रत-अशुप्रतन संबंधी; अशुप्रतरूप. महाप्रत की अपेक्षा से लघु व्रत; अशुप्रतल्प. Relating to partial vows. ओत्र० ३५;

**अणुव्वतिज्ञामाण.** व० कृत्रि० (अनुद्वर्त्यमान)

उद्वर्तनं न पाभेतोः षड्हार लाप्यताभां न  
आपतोः उद्वर्तनं न पाता हुआ; जो बाहिर लाने  
में नहीं आता हुआ. Not being drawn  
out. नाया० ३;

**अणुव्वय.** न० (अणु-नु-व्रत) भद्रप्रतनी अपेक्षाए  
नहाना व्रतोः श्रावकनां प्रथमनां पांच व्रतोः.  
महाव्रत का अपेक्षा से छोटे व्रत; श्रावक  
के प्रारंभ के पांच व्रत. The first five  
partial vows of a Jaina layman.  
नाया० १२; आउ० ३; राय० २२३; ओव० ४१;  
पंचा० १, ७; १०, १७; भन० २६;—**धारि-**  
त्रि० (-धारिन) अणुप्रत धरनार; व्रतधारि—  
श्रावक. व्रतधारी—श्रावक. ( a person )  
observing minor vows; a Jaina  
layman (observing minor vows)  
प्रव० ६६७;

**अणुव्वय.** त्रि० ( अनुव्रतक ) अग्नानुकृत  
क्रम करने वाला; पांछे चलने वाला. Obedient:  
following in the footsteps  
of. नाया० ३;

**अणुव्वया.** स्त्री० ( अनुव्रता-अन्विति कुलाः  
नुरुपं व्रतमाचारोऽस्या इत्यनुव्रता ) पतित्रा  
स्त्री; पतित्रा धर्म पाणनार स्त्री. पतित्रा स्त्री;  
पातित्रत्य धर्म पालने वाली स्त्री. A chaste  
woman. “भारिया मे महाराय! अणुरना-  
मणुव्वया ” उत्त० २०, २८;

**अणुव्वस.** त्रि० (अनुवश ) वश थेत्र. वर्णाभृत.  
Subdued; under the sway of.  
“ एऽं तु द्वये सरागच्या, अग्नमज्जमणुव्वसा ”  
स्य० १, ३, ३, १०;

**अणुव्वारा.** त्रि० (\*अनुःयान-अनुस्तान) दंधक  
स्तिंध अने धंधे भागे करभायेद्धु. कुछ  
हिंडव और अधिकतर कुम्हलाया हुआ.

Withered greatly but retaining  
some brilliance. ओघे० नि० ४८;

**अणुविषग.** त्रि० (अनुद्विष्ट) जुओ “अणुविषग”  
शब्द. देखो “अणुविषग” शब्द. Vide ‘अणु-  
विषग’ नाया० ८; दृष्टि० ५, १, २; ६०; दृ० ४६.

**अणुसंगिय.** त्रि० (आनुषङ्गिक) प्रासंगिक; प्रसंगे  
प्राप्त थेत्र. प्रासंगिक; प्रसंग में आया हुआ.  
Incidentally coming in; arising  
incidentally. पंचा० ८, ४५;

✓ **अणुसंचर.** धा० I. (अनु+सम+चर) पाण्डि  
करनुः लटकनुः परिभ्रमणुः करनुः पांछे किरना;  
भटकना; परिग्रमण करना. To move  
after; to wander.

अणुसंचरहू. आया० १, १, १, ४;

अणुसंचरंति. स्य० १, १२, १४;

अणुसंचरंत. व० कृ० आया० १, १, १, ४;

**अणुसंचेयण.** न० (अनुयंवेदन) पाण्डि वेदनु ते;  
अनुभवनु ते. अनुभव करना; पांछे से संवेदन-  
ज्ञान होना. Feeling afterwards;  
experiencing. “अणुसंचेयणमप्याणेण  
जं हंतव्यं” आया० १, ५, ५, १६४;

**अणुसंसर.** धा० I. (अनु+सम+स्तु) स्मरणु  
करनुः पाद करनुः स्मरण करना; याद करना.  
To recollect.

अणुसंसरहू. आया० १, १, १, ४;

✓ **अणुसज्ज.** धा० I. (अनु+वज्ज) प्रसंग प्राप्त  
थवे. प्रसंगप्राप्त होना. To arise  
as an incident or occasion.

अणुसज्जंति. प्रव० ७६५;

**अणुसज्जणा.** स्त्री० (\*अनुषज्जना-अनुषज्ज )  
अनुसरणु करनु; अनुर्वतन करनु ते.  
अनुसरण करना; अनुवर्तन करना. Act of  
following. उत्त० २६, १७;

**अणुसज्जितथ.** त्रि० (अनुषक्तव्) काण  
परेपराधी चालनु आपेत्र. कालपरफ्ग से  
चला आया हुआ. Coming down from

times immemorial. “छब्बिहा मणुस्सा अणुसज्जित्या परणता ” भग० ६, ७; जं० प० २, २५; २६;

**अणुसृष्टि.** ली० ( अनुशास्ति ) सहशृणुनी श्रुति क्रत्वानो उपदेश आपवे ते; सहशृणुनी तारी॒ क्रत्वी ते. सदगुण की स्तुति करने का उपदेश देना; सदगुण की प्रशंसा करना. Instruction to laud virtue; praising of virtue. “ आहरणतदे॒ से चउविहे पञ्चते, तंजटा अणुसृष्टि उवालमे पुच्छा णिस्सावयणे ” टा० ८, ३: ( १ ) शिखाभण; सखाभण. शिक्षा. advice; exhortation. भन० ४३; गन्धा० १०८: ( ३ ) होप शर्वी शिक्षण् आपवे ते. दोष दिक्षाकर. शिक्षा देना. instruction after pointing out faults. “ तन- विहा अणुसृष्टि पञ्चना तंजटा आयाणुमट्टी पराणुसृष्टी तदुभयालमट्टी ” टा० ३, ३;

**अणुसमय.** अ० ( अनुमयम् ) समय समय; प्रतिसमय. प्रानसमय; समय समय. Every time; from time to time. “अणुसमय अविरहियं णिरंतरं उवउज्जन्ति” भग० १, १; २४, १२; १६; ४१, १; क० गं० ५, ८२; ग्रव० १२; १०२२;

**अणुसय.** पु० ( अनुशय ) गर्भ; अदुक्तर. गर्व; अहंकार; ग्रंथ. Pride; conceit. ( २ ) पश्चाताप. पश्चात्नाप; पछतावा. re-pentance. परह० १, १;

✓ **अणुसर.** धा० I. ( अनु+सू ) अनुसरनु; पाण्डि पाण्डि चालनु. अनुसरण करना; पीछे २ चलना; अनुगामी होना. To follow.

अणुसरइ. दिशो० १६१;

अणुसरित्ता. सं० कू० सय० १, ७, १६

अणुसरआ. व० कू० विशे० १६७;

अणुसरत. व० कू० गच्छा० ३०;

अणुसरमाण. व० कू० मु० च० ३, ४;

अणुसरण. नं० ( अनुस्मरण ) स्मरण; चित्तवन. स्मरण; चित्तवन; याद. Meditation; remembrance. विशे० २६१;

अणुसरित्तव्य. त्रि० ( अनुसर्त्यव्य ) अनुसरया योग्य. अनुसरण करने योग्य. Worthy of being followed. महा० ८० ३१;

अणुसरिया. त्रि० ( अनुस्मर्त्य ) पाण्डीथी स्मरण इन्द्रार. पाण्डे से स्मरण करने वाला. (One) who remembers, recollects or meditates upon. विशे० ६२;

अणुसार. पु० ( अनुसार ) पाण्डी जनु ते; सरभु जनार्थु; अनुसरनु. पाण्डे जाना; समान बनाना; अनुगरण करना. The act of following. विशे० १; नाया० १; ( २ ) परन्त्र पञ्च; परनन्त्रता. dependence. विशे० १;

अणुसार. पु० ( अनुस्वार ) अक्षर उपरनु टैपड-पिन्ड; अक्षरनो उच्चार करती वर्खने नाइमांथी अवान नीको ते. अनुस्वार; अक्षर के ऊपर की विन्दी; जिसका उच्चारण नाक से होता है. A dot over a letter representing a nasal sound. नंदी० ३८; विशे० ५०१;

अणुसारओ. अ० ( अनुसारतस् ) अनुसारे; प्रभाषे. अनुसार. In pursuance of; in accordance with. पंचा० २, ३६;

अणुसारित. त्रि० ( अनुसारित्त ) अनुसरनार; अनुकृतयु इन्द्रार. अनुयायी; अनुकरण करने वाला. (One) who follows; an imitator. पंचा० ३, ६; ओव० १६;

✓ **अणुसास.** धा० I. ( अनु+शास् ) शिक्षा क्रत्वी; सता चक्षावनी; अंदुशभां राखनु; शिखाभण देवी. शिक्षा देना; दंड देना; सता चलाना; अकुंश में रखना; सीख देना. To

punish; to curb; to instruct.

अणुसासति. उत्त० २७, १०;

अणुसासए. सु० च० १, ३५७;

अणुसासयंति. “जे मे गुरुसययमणुसासयंति”

दस० ६, १, १३;

अणुसासमि. सु० च० २, ३०२;

अणुसासयमि. उत्त० २७, १०;

अणुसासिड़. हे० कृ० सु० च० १, ३५०;

अणुसासंत. व० कृ० उत्त० १, ३८;

अणुसासण. न० ( अनुशासन ) शिक्षा; शिक्षणः शासन-आगमन् अनुसरण नेम थय तेभ उपदेश आपवो ते. शिक्षा; आगम का अनुरारण जिस प्रकार हो उस प्रकार उपदेश देना. Spiritual instruction. “ अणुसासणमोवायं, दुक्षडस्म य चोयणं ” उत्त० १, २८; ६, ११; सूय० १, २, १, ११; १, १५, ११; सम० ६; नाया० १३;

अणुसासित्र. त्रि० ( अनुशासित ) नेतो शिष्य-भजु-शिक्षा आपवाभा आवे ते. जिसे शिक्षा दी जाय यह. Instructed; advised. admonished. “ अणुसासित्रो न कुप्तिज्ञा, सांति सेवेज्ज पांडिए ” उत्त० १, ६; पंचा० ६, १७;

अणुसासिज्जंग. व० कृ० त्रि० ( अनुशास्यमान ) गुरुथी शुभ कार्यमां प्रेरणा करतो. गुरुदारा शुभकार्य मे प्रेरित किया हुआ. Being advised or instructed by a preceptor. “ अणुसासिज्जंतो लुम्पन् ” दस० ६, ४, १;

✓ अणुसिज्ज. धा० I. ( अनु+सज्ज )

अपिच्छिन्पये रहेनु; कापम रहेनु; टक्कु.

अविच्छिन्पनसे रहना; कायम रहना; टिक्कना. To remain constantly.

अणुसिज्जिसह. भ० भग० २०, ८;

अणुसिद्ध. त्रि० ( अनुशिष्ट ) शिक्षा-शिखा-भशु आपेक. शिक्षित; समझाया हुआ. Instructed; admonished. “ तरेण अणुसिद्धा ते, अपडित्रेण जाण्या ” सूय० १, ३, ३, १४; परह० १, ५;

अणुसिद्धि. ब्र० ( अनुशिष्टि ) हितकारक उपदेश; शिक्षा; ऐध. हितकारक उपदेश; शिद्धा; बोध. Good instruction; just advice. “ अथथमगद्यं नचं, अणुसिद्धि कुणेह भे ” उत्त० २०, १;

अणुतिण. त्रि० ( अनुपण ) उष्ण नहि ते; शीतण. ठंडा. Not hot; cold. क० गं० १, ४६;

अणुस्थू. त्रि० ( अनुस्थूत ) भीजनी नेथाये रहेक-न्तु, भाइ वगेरे. दूसरे के आथ्रय मे रहा हुआ-हूँ, सटमल आदि. Closely attached to; woven with; e. g. lico, bugs etc. सूय० २, ३, २७;

अणुस्थूत्त्वा. न० ( अनुस्थूत्त्व ) भीजना शरीरने आप्रिने; पारकी नेश्चा-अपेक्षा. दूसरे के रारीए का आथ्रय करके; दूसरे की आपेक्षा. Having close connection with or dependence upon other bodies; close connection with other bodies. सूय० २, ३, २४;

अणुसाठि. ब्र० ( अनुश्रेणि ) लधु श्रेणि; न्तुनी श्रेणि-आकाशप्रदेशपक्षित. लघु श्रेणि; छोटी श्रेणि; आकाशप्रदेशपक्षि. A small straight line parallel with east-west-north-south and up and down, either way. भग० ३४, १; ( २ ) श्रेणि-आकाशप्रदेशपक्षित, तेने अभिमुख रहीने अनुकूलपक्षे गति कर्त्ती ते. श्रेणि अर्थात् आकाशप्रदेशपक्षि के अभि-मुख रहकर गति करना. moving in a straight line parallel with

one of the three above-said directions. भग० २५, ३;

**अशुसोय.** न० ( अनुस्त्रोतस् ) नहीं वर्गेरेनो प्रवाहः; वेगः नदी वर्गेरह का प्रवाहः; वहावः A current of a river etc. ठा० ४, ४;

—चारि. त्रि० ( -चारिन् ) नहींना प्रवाहते अनुभारे यालनार भाष्ट्रां वर्गेरै. नदी के प्रवाह के अनुसार चलने वाली मन्त्रितायां वर्गेरह. moving along with the current of a river e. g. fish etc. ( २ ) अभिग्रहविशेषयी उपाश्रय पासेथी कृमसर खिक्षा—गोचरी इनार साधु. अभिग्रहविशेष से उपाश्रय के समान से क्रमानुसार भिक्षा मांगने वाला साधु. ( a Sādhu ) starting to beg food from his lodging-place and proceeding to beg in the order of houses. ठा० ४, ४;

**अशुसोयमाण.** व० कृ० त्रि० ( अनुरोचन् ) शोक कृतो. शोक करता हुआ. Grieving; lamenting. सु० च० ५, ८०;

**अशुरसरि.** त्रि० ( अनुसारिन् ) अनुसरनार. अनुसरण करने वाला. ( One ) that follows; following. भत्त० १७१;

**अशुस्सिस्यत्त.** न० ( अनुस्त्रन्तव् ) उद्धताध्नो अभावः; अदुङ्कारनो अभावः; निरभिमःनिपञ्च. उद्धतपने का—उद्दंडता का अभाव; अहंकार का अभाव; निरभिमानीपन. Absence of pride or conceit. उत्त० २६, ४६;

**अशुस्तुआ.** त्रि० ( अनुस्तुक ) उत्सुक नहि ते; उछांछलापथ्याथी रहित. जो उत्सुक नहीं हो वह; उच्छृंखलता रांदित. Free from restless curiosity or eagerness.

सूय० १, ६, ३०;

**अशुस्तुय.** त्रि० ( अनुश्रुत ) अवधारेनु. अवधारित; निश्चित. Determined; fixed.

उत्त० ५, १३; ( २ ) सांखयेनु. सुना हुआ. heard. सूय० १, २, २, २५; ( ३ ) भारत आदि पुराण. a mythological work like Bhārata etc. सूय० १, ३, ४, ४;

**अशुरसुश्रृत.** न० ( अनुसुक्तव ) दिव्य अने भानुपि॑ क्रमभैर्गमां निःस्पृहता. दिव्य और मातृपिक कामभोगों में निःस्पृहता. Freedom from desire for celestial or worldly enjoyments. “ सुहसाध्यं अशुरसुश्रृत जगायति ” उत्त० २६, २६;

✓ **अशुरहव.** धा० I. ( \*अनु+भव्-भु ) अनुभवनु; भागवनु. अनुभव करना; भोगना. To experience.

**अशुरहवति.** सूय० १, १, १, २;

**अशुरहवित्त.** सं० कृ० सु० च० १, ३०६;

**अशुरहवित्तं.** ह० कृ० पंचा० २, ४३;

**अशुरहवतं.** व० कृ० सु० च० २, ५१६;

**अशुरहव.** पु० ( अनुभव ) अनुभव. अनुभव. Experience. पंचा० ३, २५;—सिद्ध. त्रि० ( -सिद्ध ) अनुभवसिद्ध; अनुभवथी—अर्थात् स्थीर्थसिद्ध थपेनु. अनुभवसिद्ध; अनुभव—अभ्यास से सिद्ध. proved by experience. पंचा० ३, २५;

**अशुरहविय.** त्रि० ( अनुभूत ) अनुभव करेत. अनुभव में आया हुआ. Experienced. सु० च० १, १०५;

**अशुरहवियद्व.** त्रि० ( अनुभवितव्य ) अनुभव करया योऽप्य. अनुभव करने योग्य. Worthy of being experienced. सु० च० ४, २४१;

**अशुरहयासण.** न० ( अनुभवासन ) अप्य रही सहन करनु ते. निश्चल होकर—अटल होकर सहन करना. Act of suffering bravely and courageously. ज० प०

**अशुरहूआ.** त्रि० ( अनुभूत ) अनुभव करेत;

अनुभवेत्. अनुभव किया हुआ. Experienced. विशेष ० १७०३;

अशुहो. धा० I. ( अनु+भृ ) अनुभवतुं; भागवतुं; वेदवतुं. अनुभव करना; भोगना. To experience; to feel.

अशुहोति. पञ्च ० २;

अशुहुंति. भग ० ११, ६;

अशुहोह. आ० नाया० ६;

अशुहोहि. आ० भग ६, ८३;

अशुहोहिह. भ० नाया० १;

अशुरा. त्रि० ( अन्यून ) न्यन-अम्बुं नदि ते. कम न हो वह. Not less; not falling short of. क० प० १, ७६; पि० निं० २६८;

अणेदिय. त्रि० ( अनिन्दिय ) ज्ञुआ॑ 'अणादिय' शब्द. देखो "अणिदिय" शब्द. Vide 'अणिदिय.' पञ्च ० ३;

अणेक. त्रि० ( अनेक ) ज्ञुआ॑ 'अणेग' शब्द. देखो "अणेग" शब्द. Vide "अणेग". ठा० १, १; उत्त० ३६, ४८; —चिह. त्रि० (-विध) नानाप्रकारता; अनेकविधि. नाना प्रकार का; अनेक प्रकार का. of various kinds. उत्त० ३६, ४८; —सिद्ध. पुं० (-सिद्ध) ऐक समये ऐक करता वधारे सिद्ध थाय ते. एक समय में एक से अर्धक सिद्ध होना. attainment of Siddhalhood by more than one at a time. ठा० १, १;

अणेकावाइ. त्रि० ( अनेकवादिन ) धृष्णा अ-त्माने भाननार वाही. बहुत आत्माएं मानने वाला वादा. ( One ) believing in the existence of many souls. ठा० ८, १;

अणेग. त्रि० ( अनेक ) अनेक; ऐकथी वधारे; धृष्णा॑. अनेक; एक से ज्यादह; बहुत. Many; more than one. "अणेगवंदाए" राय० ४३; "अणेगसाहपसाहविडिमा" ओव० ५०; "अणेगरायवरसहस्साण्णायमग्गे" जं०

प० ३, ५४; "अणेगभूयभावभविष्ट वि अहं" ठा० १, १; नाया० १; ५; ७; ८; १६; उत्त० ८, १८; भग० २, १; ५; ३, २३ ५, २; ६, ६; ६, ३३; १८, १०; २०, २; १०; विशेष० ३१; पि० निं० ४४; आया० १, १, १, ६; निर० १, १; दस० ५, २, ४३; जं० प० ५, ११५; —कोडि. त्रि० ( -कोटि ) अनेक कोडि नेनी पासे धन अथवा कुटुंबियों की संख्या अनेक कराइ हे वह. possessed of crores in riches or in family connections. "अणेगकोडिकुटुंवियाहृणणिव्यु-सुहा" नाया० १; ओव० —खंडी. स्त्री० ( -खरडी ) नेमां नीकुणवाने अनेक छिडि भारीआ होय अपवी नगरी. एसी नगरी जिसमें निकलने की अनेक खिड़ियाँ हों. A town with many exits. नाया० १८; विवा० १, ३; —गुण. पुं० (-गुण) अनेक. अनंत गुण. अनेक-अनन्त गुण. many qualities or attributes. विशेष० १३०; —चिन्न. न० ( -चित्त ) अनेक विद्यागुणाम-पिचारमां लागेवुं चित्त. अनेकप्रकार के विचारों में लान चित्त. mind plunged in many thoughts. "अणेगचिसे खल अयं पुरिसे" आया० १, ३, २, ११३; —जन्म. न० ( -जन्मन् ) अनंत जन्म; अनेक जन्म. अनन्त भव; अनेक जन्म. many births. पञ्चा० ८, ६; —जीव. त्रि० ( -जीव ) नेमां धृष्णा—अनेक श्व छे ते; पृथिव, पाणी, अजिन वर्गे. जिसमें अनेक जीव हैं वह; पृथिवी, पाणी, अस्ति आदि. possessed of or containing many sentient beings; e. g. earth, water, fire etc. "पुढबीचित्तमंतमक्षत्वाया, अणेगजीवा उठो सत्ता" दस० ४; भग० ११, १; —जोगं-

धर. पुं० (—योगधर—योगः—साराश्रवादि  
लम्बितकलापसम्बन्धः, अनेकाश्र योगाश्र,  
तथा, सान् धारयन्तीति ) अनेक लम्बिता  
धरनार; अनेक लम्बितसंपत्ति. अनेक लम्बित का  
धारक; अनेक अनंत लम्बितसंपत्ति. possessed  
of many spiritual attainments  
or powers. सूय० नि० १, १, १,  
१६;—भस. त्रिं० (—झप) विविध  
भाष्टी; नानी भेदानी अनेक भाष्टी.  
छांटा, बड़ी अनेक मछलियां. many  
kinds of fishes. परह० १, १;  
—दंत. त्रिं० (—दन्त) अनेक दांतवाणी;  
बत्रीस दांतवाणी. अनेक दांतो वाला; वर्ताम  
दांतो वाला. having many teeth;  
having thirty-two teeth. तंड०  
—द्रव्यक्षयंध. पुं० ( द्रव्यस्कन्ध ) सचित्त,  
अचित्त अनेक द्रव्यनु व्यवेत्र अनेक स्फन्ध;  
ज्ञवना प्रयोग-व्यापाश्ची विशेषरूप अनेक  
परिणामवृत्ते परिणाम परिणाम व्यवेत्र  
सचेतन अने अचेतन द्रव्य ते अनेकद्रव्यस्फन्ध.  
सचित्त, अचित्तरूप अनेक द्रव्यों का एक  
जीव के व्यापार से विशेषरूप एक परिणाम  
द्वारा परिणाम सचेतन और अचेतन द्रव्य वह  
अनेकद्रव्यस्कन्ध. a body made up of  
sentient and insentient substances. विश० ८६७;—पाखंड. पुं०  
(—पाषण्ड) अनेक-नाना प्रकारना पाखंड.  
नाना प्रकार के पाखंड. various kinds  
of false beliefs, “ अणेगपासंडपरिगम-  
हिय ” परह० २, २;—बहुविविहीनसा.  
पुं० (—बहुविविहीनसा) अनेक-अनेक ज्ञतीय  
पर्यु व्यक्ति भेदनी अपेक्षाये भुदु-ध्यान-अति-  
विविध लिङ्ग लिङ्ग ज्ञतीनी अपेक्षाये नाना  
प्रकारनु विस्त्रसा-स्वलाभ; अर्थात् अनेक ज्ञतीय  
के अनेक ज्ञतीय ध्यान। स्वलाभ. व्यक्ति अथवा  
भिन्न भिन्न ज्ञाति की अपेक्षा से नाना प्रकार

का स्वभाव. manifoldness of nature. जीवा० ३; —भव. पुं० (—भव)  
अनेक भव. अनेक भव-जन्म. many  
births. नाया० ५;—भागस्थ. त्रिं०  
(—भागस्थ) अनेक भागमां विभेदी शक्तय  
अद्वै. अनेक भागों में जो विभाजित हो सके  
वह. divisible into many parts.  
भग० १४, ४;—भाव. त्रिं० (—भाव)  
अनेक भाववाणु; विविध पर्यायवाणु. अनेक  
भावो वाला; वहन पर्याय वाला. of many  
qualities; having many modifications. भग० १८, ४;—रूप. त्रिं०  
( रूप) अनेक रूप-प्रकारनु; विविध प्रकारनु.  
अनेक प्रकार का. of various kinds or  
forms. “मुहुं मुहुं मोहगुणे जयंतं, अणेगरूपा  
समरणं चरंतं ” उत्त० ४, ११; आया० १, ६,  
२, ७; भग० ६, ६; ७, ६;—रूपधुणा.  
द्वा० (: रूपधुणा) वस्त्रो साथे परिलेखाथी  
अथवा नायुथी ध्वारे वस्त्र वस्त्रो धुणुवाथी  
लागता है ५; पर्युलेखुन! दोपता अनेक प्रकार.  
एक ही गमय में अनेक वस्त्रों का एक साथ  
पांडेलहण से जो दोष लगे वह; पांडेलहण के  
दोष का एक भेद. fault incurred  
by examining many garments at a time one or by examining  
more than three times.“एगा मोसा  
अणेगरूपधुणा”उत्त० २६, २७;—वरणा. पुं०  
(—बरण) अनेक वर्ण-रंग; क्रांगो, धांगो आदि.  
अनेक रंग; काला, सफेद आदि. many  
colours; e. g. black, white etc.  
भग० ६, ६;—वयरणपद्महाण. पुं० (—वचनप्र-  
धान) अनेक भाषानो ज्ञानान्; जुही जुही  
भाषामां व्यवहार करनार. अनेक भाषाओं का  
जानकार; भिन्न भिन्न भाषाओं में व्यवहार करने  
वाला. ( one ) knowing many languages. जं० ८०—वायामजोग. त्रिं०  
(—व्यायामयोग) अनेक भक्तरनी क्षसरतने

थेऽथ. अनेक प्रकार की कसरत के योग्य. fit for many kinds of physical exercise. कप्प० ४, ६१;—वाल. पुं० (-व्याल) अनेक-संभव-यंध व्याल-हिंसक जंगली जनान्वर. बहुत से व्याल-हिंसक जंगली जानवर. many wild and carnivorous animals. “ अर्णेगवाल सयसंकणिज्ञ याचि होत्था ” नाया० २;—विह. त्रि० ( -विध ) अनेक तरेक-प्रकारनुः विविध प्रकारनुः. अनेक प्रकार का. of various kinds. सिद्धार्णेग. विहा वुता, तं मे कित्त्यतुं सुरा ” उत्त० ३६, ४६; पञ्च० १;—सयमहस्सखुन्तो. अ० ( -शत-सहस्रकृत्वम् ) अनेक लाभप्राप्त; लाभाप्राप्त. अनेक लाख बार; लाखों बार. lacs of times. नाया० १६; भग० १५, १;—साहु. पुं० (-साधु) अनेक साधु-मुनिश्चारा. अनेक साधु; बहुत से सुनि. many Sādhus or ascetics. “ अर्णेगसाहुरूद्य ” दस० ५, २, ४३;—सिद्ध. पुं० (-सिद्ध) एक समये अनेक सिद्ध थाय ते. एक समय में अनेक सिद्ध होना. many persons attaining to Siddhahood at a time. पञ्च० १; नंदी० २१;

**अर्णेगंत.** त्रि० ( अनेकान्त ) अनिश्चय; एकान्त नहि ते. जो एकान्त न हो वह अर्थात् जो अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है वह. Looking at from various points of view. सूर्य० ठी० २, ५, ५; सम०—वाय. पुं० (-वाद) वस्तुनुं अेकान्त स्वरूप न माननुं ते; अनंत धर्मवागी वस्तुनुं अनेकान्तपश्च प्रतिपादन करनुं ते. वस्तु का एकान्त स्वरूप न मानना; अनन्त धर्म वाली वस्तु का अनेकान्त स्वरूप प्रतिपादन करना. system of Jaina logic by which things can be explained from several different

points of view. सूर्य० ठी० २, ५, ५; सम०

**अर्णेगंतिग.** त्रि० ( अनेकान्तिक ) साध्यने भुक्ति अन्यत्र रहेन्तर हेतु; व्यक्तिचारी हेतु. साध्य को छोड़कर अन्यत्र रहने वाला हेतु; व्यक्तिचारी हेतु. A middle term consistent also with the absence of the conclusion; a deviating middle term. विशेष० २८३६;

**अर्णेगंतिय.** न० ( अनेकान्तिक ) जुओ “ अर्णेगंतिग ” शब्द. देखो “ अर्णेगंतिग ” शब्द. Vido “ अर्णेगंतिग.” विशेष० ५६;

**अर्णेगभूय.** त्रि० ( अनेकभूत ) अनेकभूप्रकार. अनेकप्रकार; नानाप्रकार. Having many forms; of many kinds. “ अर्णेगभूयभावभविष्य अहं ” “ अर्णेगभूय भावभविष्य भवं ” नाया० ५; भग० १४, ४;

**अर्णेगया.** त्रि० ( अनेकता ) अनेकप्रकार. अनेकतना; अनेकत्व. Plurality. दसा० १०, ३;

**अर्णेगहा.** अ० ( अतेकधा ) अनेक प्रकारे; धर्मी रीते; धर्मे प्रकारे. अनेकप्रकार से; बहुत तरह से. In many ways. सु० च० १४, ५०; ग्रव० १०६२; पंचा० ५, ३०;

**अर्णेगाह.** न० ( अनेकाहन् ) धर्णा. दिवस. बहुत से दिन. Many days. निर्सी० १६, १७;

**अर्णेयात्य.** त्रि० ( अनेयायिक-न्यायेन चरति नैयायिक; नैयेयायिकोऽनैयायिकः) अन्यायी; असह-न्यायवृत्तिवागी. अन्यायी. Unjust; not impartial. “ अविष्पुरणे अर्णेयात्य असंसुद्दे ” सूर्य० २, २, ३२;

**अर्णेलिस.** त्रि० ( अनीद्वश ) अनन्यसदृश; अद्वितीय; अनुपम. अद्वितीय; अनुपम; सावश्य रहित. Matchless; incomparable. “ सञ्च नवा अर्णेलिस ” आया० १, ७, ८,

१, १, ७, २, २०४; सूय० १, ६, १;  
( २ ) ऐना जेरुं नहि; विलक्षण॑. विलक्षणः;  
असमान. dissimilar; different;  
strange. सूय० १, १५, २;

अणेवंभूय. त्रि० ( अनेवम्भूत ) अवी रीते नहि;  
जेरी रीते कर्मभाव्यः छे तेवी रीते नहि दिन्तु-  
तेथी भुदी रीते. इस प्रकार नहाँ; जिस राति  
से कर्म बांधे हैं उस राति से नहाँ, किन्तु जो  
भिन्न रीति है वह. Of a different  
manner or description; of a  
manner different from that by  
which Karma is incurred. “अणे-  
वंभूयं पि वेयणं वेयंति” भय० ५, ५;

अणेसणा. ली० ( अनेपणा ) प्रभादादि दोष  
सहित अपशुः—आडाराहिगवेपशु. प्रभाद  
आदि दोषो सहित एषणा—आहारादिगवेषणा.  
Lack of carefulness in receiving  
food etc. सूय० १, १३, १७; नाया० ध०  
३; ( २ ) अपशुः—गवेपशुनो अभाव.  
एषणा का अभाव; असावधार्ना. absence  
of carefulness; negligence in  
proper examination e. g. of  
alms received. “एसणामणेसणं आलो  
पइरक्ता” उवा० १, ८६; आव० ४, ५;

अणेसणिज्ज. त्रि० ( अनेपणीय ) साधुने न  
कृप्ते तेनुः; डोधपशु दोषपथी हुए थेव; अने-  
पशुः; अभुजरुः. साधु के लेने योग्य न हो  
वैसा; किसी भी दोष से जो अप्राप्य हो चुका हो  
वह. Not fit to be taken by Sādhu;  
contaminated. “पूयं अणेसणिज्जं च,  
तं विजं परिजाणिया” सूय० १, ८, १४;  
प्रव० ७६०; ठा० ३, १; भग० ५, ५; द, ६;  
१८, १०; नाया० ५; वेय० ४, १३;  
आया० २, १, १, १;

अणेसणीय. त्रि० ( अनेपणीय ) जुओ ‘अणे-  
सणिज्ज’ शब्द. देख्ये ‘अणेसणिज्ज’ शब्द.

Vide “अणेसणिज्ज.” पंचा० १५, ३३;

अणोउया. ली० ( अनुतुका—न विद्यते जातुः—र-

क्तरूपः शास्त्रप्रसिद्धो वा यस्याः सा अनुतुका )

अनुतुका वगरनी ली; २७२८६. अनु-  
काल रहित ली; रजस्वला धर्म से रहित ली. A

woman not in menses; a woman  
before menstruation. ठा० ५, २;

अणोक्तं. त्रि० ( अनुपकान्त ) निराकरण०

करेत नहि. निराकरण न किया हुआ.  
Not settled; not decided. ओव०

अणोगाढ. त्रि० ( अनवगाढ ) अवगाहन नहि

करेत; अवगाहेत नहि. अवगाहन नहाँ किया  
हुआ. Not localised; not entered  
into. भग० २५, ४;

अणोग्वसिय. त्रि० ( अनवधर्षित ) नहि धसेव-

भावेत्वः; राज्य वगरेती धसी साइ न करेत.  
विना मांजा हुआ; राज्य वगरह से साफ न

किया हुआ. Not cleansed. “अणो-  
ग्वसियशिम्मलाए छायाए संततो चेव समणु-  
बद्धा” जीवा० ३;

अणोघाइश्च. त्रि० ( अनवधातित ) न सेवेत;  
संव्या पिनानुः. असेवित. Unserved.  
वब० २, २३;

अणोज्ज. त्रि० ( अनवद्य ) निर्दोषः; दोष  
रहित. Faultless; pure. नाया० ८;

अणोज्जा. ली० ( अनवद्या ) महावीरस्वामिनी  
पुत्री. महावीरस्वामी की पुत्री. The  
daughter of Mahāvira Svāmī.  
कप्प० ५, १०२;

अणोद्देवमाण. व० कू० त्रि० ( अनुपद्रवत )

उपद्रव न करते. उपद्रव न करता हुआ. Not  
causing any trouble or injury.  
भग० ८, ५; १८, ८;

अणोद्दिसिज्जमाण. व० कू० त्रि० ( अनुपध्व-  
स्यमान ) माहात्म्यथी अष्ट न थेतो. माहात्म्य  
से अष्ट न होता हुआ. Not degenerating

or falling off from greatness. आव०

**अणोम. त्रि०** ( अनवम ) भिथ्यादृष्टि, अविरति

आदि कर्मधना हेतु नेष्टे दूर कर्या छे ते;

भिथ्यात्वः अविरति आदि कर्मधनेतुरहित.

मिथ्यात्व, अविरति आदि कर्मधन के कागणों से रहत. Free from false belief, attachment etc. आया० १.३, २, ११४;

**—दंसि. पुं०** ( -दर्शित ) न्यूनदर्शी नहि; पूर्ण-दृष्टिवाणो; उच्यते ज्ञान, दर्शन अने व्याक्रितवाणो. पूर्णदर्शी; अन्यूनदर्शी; उच्चप्रकार के ज्ञान, दर्शन और चारित्र वाला. possessed of perfect knowledge, faith and conduct. “ अतेर पवासु अणोमदंसी गिसको पावेहि कम्भेहि कोहाइमाणं हणियाय वीरे ” आया० १, २, ३. ११६;

**अणोमाणनतर. त्रि०** ( अनवमानतर ) अनिश्चय धृता धृता; अनि नंडीर्प-आम नहि ने. विन्कुल पृथक पृथक; वहुत कला हुआ. Extremely scattered. सग० १३, ५;

**अणोरपार. त्रि०** ( अनवाक्षार ) आरपार पगरनुः; आरपाररहित; विस्तीर्ण. विस्तृत; विस्तार्ण; आरपार रहत. Boundless; extensive. “ आणोरपारं आगासं चेव निरालंबं ” परह० १, ३; सय० २, ६, ४६; पंचा० १५, ८२; भत्त० १६५;

**अणोवरिहित्या. स्त्री०** ( अनौपनिधिकी ) अंडेकुल वस्तुमां-तेना कहित अंशोमां पौर्ण-पूर्व भाव-अनुकूलनी धरना; इत्यानुपूर्वनी। अंड प्रकार. एक ही वस्तु में या उसके कल्पित अंशों में पूर्वपररूप अनुकूल की रचना; द्रव्यानु पूर्वी का एक भेद. Due arrangement of the parts of a thing or substance as conceived. अणुजा० ७२;

**अणोवदग्र. त्रि०** ( अनवदग्र ) अन्-नहि अवदय-अंत; अन वगरनु-अनंत. अत रहित; अनंत; अन अर्थात् नहीं है अवदग्र अर्थात् अनंत

जिसका वह. Endless; infinite. सूय०

१, १२, ६;

**अणोवम. त्रि०** ( अनुपम ) अनुपम-उपभा

रहित; तुलना रहित. उपमा रहित; अतुलनीय.

Matchless; incomparable. “ अतुल सुहसागरगया अव्वावाहं अणोवमं पत्ता ”

आव० सम० ६; नाया० ८; पञ्च० २; जं०

प० ३, ४४;—**—दंसि. पुं०** ( -दर्शित ) उच्यते ज्ञान, दर्शन अने व्याक्रितवाणो.

आव० सम० ६; नाया० ८; पञ्च० २; जं०

प० ३, ४४;—**—दंसि. पुं०** ( -दर्शित ) उच्यते ज्ञान, दर्शन अने व्याक्रितवाण. उच्च ज्ञान, दर्शन और चारित्र वाला. ( one ) having

high knowledge, vision, and conduct. “ अरतेपयासु अणोवमदंसी

गिमराणो पावेहि ” आया० १, २, ३, ११४;

**—सिरीअ. त्रि०** ( -श्रीक ) अनुपम श्रीला

वाणु. अनुपम-उपमा रहित-आद्वितीय श्री-शोभा

वाला. one having matchless beauty. “ अणोवमसिरीआ दासीदासपरिबुद्धा ”

नाया० ८;—**—सुख. त्रि०** ( -सुख ) अतुल सुख

वाणु. मोक्षसुख. having highest, eternal bliss. “ ठाणमणोवमसुहमुवगयाणं ”

सम० १;

**अणोवमा. स्त्री०** ( अनुपमा ) सुभवी-भिक्षाहिनी

अंड ज्ञान. मियाही का एक जाति. A kind of

sweetmeats. पञ्च० १७;

**अणोवलेचय. त्रि०** ( अनुपलेपक ) इंद्रिय-

कर्मधनथी रहित. कर्मलेप-कर्मवंधन से रहित.

Free from Karmas. परह० १, २;

**अणोवसंखा. स्त्री०** ( अनुपसंख्या ) अन-नहि

उपसंख्या-ज्ञान; अज्ञान; अविद्या. अज्ञान;

अविद्या. Ignorance; absence of

knowledge. “ अणोवसंखाहृति ते उदाहू,

अट्टे सउभासइ अम्ह एवं ” सूय० १, १३, ४;

**अणोवहिंश्च-य. त्रि०** ( अनुपधिक ) उपाधि

रहित; इत्यथी उपधि-सुवर्णाहिधि धन, भावथी

उपधि भावा. कृष्ण-वगेरे, तेथा रहित. उपाधि

से रहित; द्रव्यरूप अर्थात् धनधान्यादिरूप

और भावरूप अर्थात् मायाकषायादिरूप उपाधि से रहत. Free from sources of trouble such as wealth, passions etc. आया० १, ४, १, १२६;

**अर्णोदाहण्य.** त्रि० (अनुपानत्क) लेडा-पगरभा रहित. लेडा न खेनार. बिना जूते का; जूता न पहिनने वाला. Bare-footed. भग० १, ६;

**अर्णोसिश्र.** त्रि० (अनुषित) निवास नहि ईरेत; अव्यवस्थित. निवास न किया हुआ; अव्यवस्थित. Not lodged; not settled.

“अर्णोसिए णंतकरिति गच्छा” सूय० १, १८, ४;  
**अर्णोहंतर.** त्रि० (अनोघन्तर) ऐ प्रकारना ओधने नहि तरनार; १ द्रव्य औध-नहींपूर २ भाव औध-आह प्रकारनां ३ भू अथवा संसार, तेने न तरनार. इव्य, भावक्षण औध से नहीं तिरने वाला नदी आदि का पूर इव्य औध और कर्मक्षण संमार भाव औध कहलाता है. Not able to cross the stream of a river or that of Karmas. “अर्णोहंतरा पृष्ठ णम ओहंतरित्तए” आया० १, २, ३, ८०;

**अर्णोहट्टुअ-हिंत्र.** त्रि० (अनपघटक-टिका-अविद्यमानोपघटको यदच्छया प्रवर्त्तमानस्य हस्तग्राहाक्षिना निवर्त्तको यस्य तत्तथा) गमे तेभ वर्तनां छतां ज्ञेने हाथ ५६। अटकावनार-रैकनार डेढ़ि नथी ते. मन-माना वर्तन करते हुए भी जिसका हाथ पकड़कर रोकने वाला कोई न हो वह. Having no body to restrain in spite of wanton conduct. ‘तवेण सा सुभद्रा अजा अर्णोहट्टिआ अशिवारिया सच्छदमहै’ नाया० ९६; १८; विवा० २; नाया० ८०

**अर्णोहिया.** त्रि० (अनोधिका) ऐनी अंदर पाणीमुं डेढ़ि पछु स्थान नथी ऐनी अटवी. ऐसा जंगल जिसमें पानी का एक भी स्थान नहीं हो. A forest having no place

containing water. “एं महं अगामियं अर्णोहियं छिक्कावायं दीहमदं” भग० १५, १; अरण. न० (अर्ण) जल; पाणी. पानी; जल.

**Water.** “अरणवंसि महोहंसि” उत्त० ५, १; अरण. न० (अर्ण) जल वर्गेरे धान्य; अनाज.

चांवल वर्गरह धान्य; अन्न. Corn, like rice etc. नाया० १४: सूय० १, ४, २, ६; (२) भाजन; भोजन वर्गेरे भाराक. भोजन; लड्डु आदि का खराक. food e. g. sweet balls etc. “अगणं पभूय भवयाणमेयं” उत्त० १२, १०; (३) भिक्षा; अन्नरी. भिक्षा. begging of food etc. “अजस्म अटा इह मागश्रोपि” उत्त० १२, ६; पंचा० ५६, १०:—**जिलायक.** पुं (—जिलायक) अन बिना ज्ञानी पाभनार साधु; भुज्यान रहेवारी अथवा अभिअलविशेषी सपारमान आदार इरनार सधु. बिना अन के ग्लानि पाने वाला गाम्भ; भूमेन रहा जाने से अथवा अभिग्रहयितेय से सुबह ही आहार करने वाला साधु. an ascetic experiencing trouble in fasting; a Sādhu who takes food in the morning, being unable to observe fast. “जावह्यंचणं भंते! अरणगिलायणं समयं निगमंके कम्बं चिज्जंरति” भग० १६, ४; पगह० २, १; ओव०—**जंभग.** पुं स्त्रा० (—जू-स्म) जंभका देवतानीदेस जनभानी पहेला न०. जंभका देवो की दम जातियों में से पहिली जाति. first of the ten kinds of Jambhakā gods. “अरणजंभगा पाणजंभका” भग० १४, ८;—**पाण.** न० (—पान) अनपाणी. अशजल. food and water. नाया० १६;—**पुरण.** न० (—पुरण) अनुकंपाभावे अन-भोजन आपवाथी थंतुं पुष्य; अपपुष्य. दयाभाव से भोजन देने के कारण जो पुरय हो वह. religious

merit acquired by giving food through charity. ठा० ६;—प्यमत्त. त्रि० (-प्रमत्त) भावाने गृहि-लोकपी. भोजन का लोलुपी. greedy of food. “अरणप्यमत्तेधणेसमाणे”उत्त० १४, १४; —भोग. पुं० (-भोग) भावधारि भोग्य पदार्थ. खाय आदि भोग्य पदार्थ. materials of enjoyment consisting of food etc. “अरणभोगेहि लेण भोगेहि” ओव०—चिह्नि. पुं० (-चिह्नि) अन्न उत्पन्न उत्पन्न करने की, साफ करने की और उसे सिफाने की कला. the art of producing, cleansing, or purifying and cooking food. ओव० ४०; जं० प० २; नाया० १;

अरण. त्रि० (अन्य) पैताथीसिन्न; पैता! शिवाय; भीजुं; पृथक्; लुटू. अपने से भिज़ा; अपने सिवाय; दृसरा; भिज़ा. Another; different.“नो अरणेदेवे नो अरणेहि देवाणं देवीओ अभि जुंजिय”भग० २, १; ५; ३, ४; ५, ४; १५, १; १६, ६; १८, २; २०, १०; नाया० १; ५; ७; ८; १३; १४; १५; १६; ओव० १३; सूर्य० १, १, २, १; आया० १, १, १, ४; वव० १, २३; ५, ११; ८, १२; जं० प० १, १४; विशेष० ३४; ४६६; दसा० ६, ४;—उत्त. त्रि० (-उत्त) अन्य-अविवेकितनोंमें कठेक-कठन कठेक. अविवेकों जनों द्वारा कथित-कहा हुआ. mentioned by others; e.g. by undiscerning men. ओव०—गण. पुं० (-गण) अन्य गच्छ. अन्य गच्छ. another order of saints. वव० ६, २०;—गुण. त्रि० (-गुण-चैतन्यादन्ये गुणा येचां तान्यन्यगुणानि) अचेतन; ७३. अर्जाव; जड. inanimate; insentient. “मंचरहं संजोषु अरणगुणाणं च चेयशाहू गुणो ” सूर्य० निं० १, १, १, ७;

—दत्तहर. पुं० (-दत्तहर) भीजनमें अक्षीश करेकी हेय तेने रस्तामां लूटनार. दूसरे ने जो इनाम दिया हो उसे रास्ते में लूटने वाला. ( one ) robbing a person on the road, of a gift received by him. “अरणदत्तहरे तेषो माई कन्तु हरे सद्दे” उत्त० ७, ५;—धमिय. पुं० (-धार्मिक) गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी. गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी. a householder. ठा० ३, ४;—परिभोग. पुं० (-परिभोग) अन्य-अन्नपाणी शिवाय भावितम, स्वादित आहिनो उपभोग. अज्ञजल के सिवाय खादिम, स्वादिम आदि का उपभोग. enjoyment of objects other than food and water. पंचा० ५, ३५;—प्यमत्त. त्रि० (-प्रमत्त) अन्य-सगा संभवीमां आसक्त थेल. अन्य-नातेदारों में आसक्त. attached to others viz. relatives. “अरणप्य-मत्ते धणेसमाणे, पप्योति मच्चुं पुरिसो जरं च” उत्त० १४, १४;—लिंग. न० (-लिङ्ग) अन्यलिंग; जैनतर लिंग-वेष. अन्य लिंग; जैनतर लिंग-वेष. a non-Jaina characteristic mark. भग० २५, ६, ७; सम० प० २३१;—लिंगसिद्ध. पुं० (-लिङ्गसिद्ध) अन्य-जैनशिवायना. लिंगे वेष सिद्ध थाय ते. अन्यलिंग-जैनलिंग के सिवाय अर्थात् अन्यधर्म से जो सिद्ध हो वह. a non-Jaina who has attained to Siddha-hood. पन्न० १;—बवपद्म. पुं० (-ब्यपद्म) कठेक वस्तु पैतानी हेय छां ते भीजनी भालेडिनी छे एम कठेतुं ते; साधु बहेरवा आव्या हेय त्यारे पैतानी वस्तुने भीजनो व्यपदेश करवायी साधु न ल्ये तेथी लागेना भारमा प्रतनो त्रीने अतिथार. किसी बस्तु के अपनी होने पर भी यह कहना कि वह दूसरे की है; साधु भिज्ञार्थ आये हों तब अपनी वस्तु

को दूसरे का व्यपदेश करना जिससे साधु न लें इससे जो बारहवें व्रत का तीसरा अतीवार लगता है वह attributing falsely to another the ownership of a thing belonging to oneself; the third violation of the twelfth vow viz. telling this kind of lie to an ascetic. प्रव० २८७; —संभोइश्च. त्रि० (—साम्भोगिक) अन्य भीम गच्छना साधुसाथे आहुरपाणीना व्यवहारयोगे। अन्य गच्छ के भाधुओं के साथ अचाजक्त का व्यवहार रखने वाला. one who keeps relation os regards. food and drink with a Sādhu of another order. वव० १, ३७;

**आरण्यउत्थिय.** पु० (अन्यूथिक—जैनयूथादन्य-दृश्यं सङ्खात्तरं सीर्थान्तरं तदस्ति येषां तेऽन्य-यूथिकाः) तीर्थान्तरश्च; जैनेतरः; जैनशिवाय-ना भतान्तर-शाक्य, वरक, परिव्राजक, कपिल, आण्वक, वृद्धश्रावक वर्गे। अन्यधर्मी; जैनेतर; जैन सिवाय अन्य मतान्तर-शाक्य, चरक, परिव्राजक, कपिल, आजीवक, वृद्ध, भ्रावक आदि। One belonging to a non-Jaina creed such as, Śākyā, Charaka, Parivrājaka, Kapila, Ājīvaka, Vṛiddha-śrāvaka etc. “ तस्यां गुणसिलयस्स चेह्यस्स अदूरसामते बहवे अरण्यउत्थिया परिवसंति ” भग० ७, १०; “ अरण्यउत्थियाणं भंते ! एवमाइक्षंति ..... पृगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेह ” भग० १,६; “ अरण्यउत्थियाणं भंते ! एवमाइक्षंति ..... चक्षमाये ” अचलिष्य जाव निजारिज-माये अनिजिलये ” भग० १, १०; “ अरण्यउत्थियाणं ..... पृगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओं पकरेह ” भग० १, १०; “ अरण्यउत्थियाणं भंते ! ..... कहञ्चं समणाणं निगम-

धाणं किरिया कज्जंति ” भग० ३,२; “ अरण्यउत्थिय-धाणं भंते ! ..... अरण्ये जीवे अरण्ये जीवाया ” भग० १७,२; २,१; ५; ५,२; ७,१; १५,१; १८,७; नाया० ११; आया० २, १, १, ४; आव० उवा० १; सम० १; १२; ३४; निसी० ३, ४; १२, १६; —देवय. न० (—दैवत) अन्यभतिआ-ये भानेल हरिहरादि देव. a god of non-Jaina creeds e. g. Hari, Hara etc. उवा० १, ५८; —परिगगहिय. त्रि० (—परिगृहीत) अन्य तीर्थियों यहुलु करेल; अन्यभतिआये पेतानुं करी लिखेल. अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा ग्रहण किया हुआ; जिसे अन्यमतियों ने अपना कर लिया हो वह adopted by followers of non-Jaina creeds. उवा० १, ५८;

**आरण्यओ.** अ० (अन्यतस्) यीने स्थले दूसरे स्थान पर. At another place; elsewhere. “ नहु दाहामि ते भिक्षुं, भिक्षुं जायाहि अरण्यओ ” उत० २५, ६; नाया० १;

**आरण्यतर.** त्रि० (अन्यतर) युग्मा “ अरण्ययर ” शब्द. देखो “ अरण्ययर ” शब्द. Vide “ अरण्ययर.” पञ्च० २८; आव० १७; नाया० १४;

**आरण्यतिथिय.** पु० (अन्यतीर्थिक) अन्य-भति; अन्यदर्शनी; जैनेतरदर्शनवायो। अन्यमतावलम्बी; जैनेतर दर्शन वाला. A non-Jaina. सम० २६; —पवत्ताणुश्चोग. पु० (—प्रवृत्तानुयोग) कपिलादिकं प्रवर्तीनेत्रं शास्त्रं; पापश्रुतविशेषं. कपिलादिकों का प्रवर्तीया हुआ शास्त्र; पापश्रुतविशेष. a scripture taught by non Jaines like Kapila etc; a variety of tainted scripture. सम० २६;

**आरण्यत्वभावणा.** त्रि० (अन्यत्वभावना) दृष्टि आत्मा युहों छे ऐभ थितवन् करवुं भावना भाववी ते. देह से आत्मा भिन्न है इस

प्रकार की भावना करना Meditation upon the non-identity of the soul with the body. प्रव० ५८०;  
अरण्यत्थं पुं० ( अनर्थ ) अर्थशी विपरीत; अनर्थ. अर्थ से विपरीत; अनर्थ. Wrong interpretation; false meaning. भग० ७, २; विशेष० २५;

अरण्यत्थं त्रि० ( अन्यस्त ) राखेल नहि. न्यास न किया हुआ; निक्षेप न किया हुआ. Not placed; not deposited. विशेष० ६१६;

अरण्यत्थं अ० ( अन्यथ ) भीजे क्यांक; शिवाय; वर्णने. दूसरे स्थान पर; सिवाय; छोड़कर. Elsewhere; barring; excepting. “ अरण्यत्थकथह ” विवा० २; प्रव० ८६२; अरण्यत्थकथह मणं अकुब्बमाणे ” अरण्यजो० २७; सू०प० २०; पन्न० ११; नाया० ५; — अरण्यभोग. पुं० (—अनाभोग) अनाभाग-अग्नजु-पशु शिवाय. अनाभोग-अज्ञानपन के सिवाय. Excepting ignorance or unconsciousness. “ अरण्यत्थाणभोगेण ” आव० ६, २; — गय. त्रि० (—गत) अन्यत्र-भीजे स्थले गयेल. दूसरे स्थान को गया हुआ. gone elsewhere. भग० ६, ६;

अरण्यत्थं पुं० ( अन्वर्थ-अनुगतोऽर्थोऽन्वर्थः) व्युत्पत्तिने अनुसारे थता अर्थनिनानो। शब्द; ऐमां ईन्द्रनो अर्थ नधा ऐवा केऽपि भागद्युं ईन्द्र नाम भाड्युं ते. व्युत्पत्ति के अनुसार होने वाले अर्थ से शब्द शब्द; जैसे कि किसी साधारण बालक का नाम ‘ इन्द्र ’ रखा गया तो वहां इन्द्र शब्द का वह अर्थ घटित नहीं होता जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ है. A word not bearing out its etymological significance; e. g. the name Indra given to a child not possessing the connotation

of the word Indra. पंचा० १२, १८; — जुय. त्रि० (—युत) व्युत्पत्ति अनुसार अर्थयुक्त व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ वाला. having a meaning bearing out the etymological sense. पंचा० १६, ३७; — जोग. पुं० (—योग) शब्द अनेतेना अर्थनो। अनुगत-व्युत्पत्ति अनुसारी संभन्ध. शब्द और उसके अर्थ का व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध. the etymological relation of a word and its meaning. पंचा० १२, १८; अरण्यदां अ० ( अन्यदा ) भीजे केऽपि क्षणभां. और किसी समय में. At some other time; at another time. भग० १६, ५; अरण्यमरण. त्रि० ( अन्योन्य ) अ-योन्य; पर-२५२; एक भीजन्तु. परस्पर; एक दूसरे का. Mutual. “ अरण्यमरणमणुरत्तया अरण्यमरणमणुव्याया ” नाया० २; “ अरण्यमरणं विजमार्णाओ विव ” राय० “ अरण्यमरणं करेमाणे पारंचिषु ” ठा० ३, ४; जं० प० ३, ५६; “ अरण्यमरणमणुरत्ता, अरण्य मरण हिणुसिष्णो ” उत्त० १३, ५; अरण्यजो० ६७; भग० १, ८; २, ५; ३, १; ५, २; ६; ७, ६; ८, ६; ११; १०; १५, १; १८, ७; नाया० १; ३; ५; ८; १३; १४; १६; दसा० १०, १; वव० ४, ५; ६; ८; ६; ५, ६; ७, १५; ओव० २७; ३६; निसी० ४, ६६; १४, ५; — अभ्यास. पुं० (—अभ्यास) अन्योन्य अभ्यास करेवो ते; एक भीजन्ते। शुणु-कार करेवो ते; जेम के  $5 \times 5 = 25$  अन्योन्य अभ्यास का करना; एक दूसरे का गुणाकार करना. जैसे  $5 \times 5 = 25$ ; multiplication of a by the same number e. g. five into five. अरण्यजो० ६७; — अरोगाढ. त्रि० (—अवगाढ) परस्पर क्षीरनीरने पेडे अवगाहीने रहेल. आपस में हिल मिलकर दूधपानी के समान मिलकर रहा हुआ. remaining in mutual contact like milk and wa-

ter. भग० १,६;—किरिया. ली० (—क्रिया) रहाभ रहत्वे अेक भीजना। परं पुंजन्या, परं न्यैण्या, भर्त्वन करवुं वगेरे. परस्पर में एक दूसरे के पैर दबाना, मर्दन करना आदि. reciprocal action, e. g. massaging feet mutually etc.“से भिक्खू वा भिक्खू-गी वा अरण्णमरणकिरियं उजभात्यिथं संसेहयं गो तं साहप् गो तं शियमे से अरण्णमरणो पाए आमज्जेज वा पमज्जेज वा” आया० २, १३, १७२;—गंठिय. त्रि० (—ग्रथित) पर-स्पर गांधींथीं गुथेद्वः; परस्पर गांधीांगुं. परस्पर में गांठ से गुंथा हुआ; परस्पर गठान वाला. interwoven with knots. भग० ५, ३;—गुरुयत्ता. ली० (—गुरुकता) परस्पर गुथवाथी थथेव विस्तीर्णिता. परस्पर में गुथने से जो विस्तोरित हुई हो वह. breadth got by intertwining one thing with another. भग० ५, ३;—घडत्ता. ली० (—घटता) परस्पर समुदायरचना; परस्पर संग्रन्थ. परस्पर संबन्ध; परस्पर सामुदायिक रचना. mutual formation of society; interrelation. “अन्नमन्नसिरेणहपिद्वद्वा अरण्णमरणघटत्ताएु” जावा० ३; भग० १,६;—पुहु. त्रि० (—स्पष्ट) अेक भीजने अेउत्र-स्पर्श करेव. एक दूसरे को छुश्चा हुआ. in reciprocal contact. भग० १, ६;—बद्ध. त्रि० (—बद्ध) परस्पर गाठतर आंधेव; जेम श्वसाथे कर्म अने कर्मसाथे श्व प्रेष्टि. परस्पर मे बंधा हुआ; जिसप्रकार जीव के साथ कर्म और कर्म के साथ जीवप्रदेश. in close inter-relation, e.g. the soul with Karma and vice versa. भग० १, ६;—भारियत्ता. ली० (—भारिकता—शन्योन्यस्य यो यो भारः स विद्यते यत्र तमावस्तत्था) अेक भीजना भार—भै०८८०। एक दूसरे का भार—बोझा

वाला. state of bearing reciprocal burden. भग० ५, ३;—मणुग्रह. त्रि० (—अनुग्रह) अेक्षभीजने अनुदूलपछे वण्गेत्र. एक दूसरे से अनुकूलता पूर्वक मिला हुआ. united in mutual interest. नंदो०—मस्सपत्त. त्रि० (—असम्प्राप्त) अेक्षभीजने प्राप्त थयेत्र नहि; परस्पर अेक भीजने अंडेल नहि. एक दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ हो वह; परस्पर एक दूसरे से नहीं हुआ हुआ. not in mutual contact. जीवा० ३;—समाउत्त. त्रि० (—समायुक्त) परस्पर संभैध युक्त. पारस्पारक सम्बन्ध युक्त. related mutually. भग० १, ६;—सिरोहपडि-बद्ध. त्रि० (—स्नेहप्रतिबद्ध) अन्येन्य स्नेहयुक्त; अेक भीजनाथे वण्गेत्र. अेक्षटे सुधी के अेक चाले तो तेनी साथे भीजने पश्य चालदुँज प०. अन्योन्यस्नेहबद्ध; एक दूसरे के साथ स्नेह से इसप्रकार बंधे हुए कि एक चले तो दुसरे को भी चलनाहो पङ्क. bound by close ties of mutual love, so much, so that if one walks the other also must walk in company. जीवा० ३; भग० १, ६; प्रगण्यकर. त्रि० (आश्रवकर) आश्रव करनार. आश्रव करने वाला. (One) who opens a door to the influx of Karma. भग० २५, ७; प्रगण्यर. त्रि० (अन्यतर) गमे ते अेक; अनेमै; भेमानुं के अनेकभानुं कोई अेक. चाहे जो एक; दो में से या अनेकों में से कोई एक. One of two or more. “अगण्यरेषु अभियोगेसु देवलोगेसु देवत्ताए उवज्जइ” निसी० ४, २१; १०, ४; १२, १; द; १३, १२; १५, ३५; ४०; १७, २३; भग० १, १; ६; २, १; ८; ३, ५; ५, ६; ६, ५; ७, १; ७; द, ३; १६, ६; २५, ६; नाया० १; १४; १५; १६; वेय० ४, १३; २६; ५, १३; गम० २८; आया० १, १; १, २; ओव०

३४; दसा० ६, ४; १०, ४; पञ्चा० २२;  
वद० १, ११, २७; १०, ११; कप्प० २, १७;  
—कुल. न० (—कुल) गमे ते एक कुल. दूसरा  
कुल-वंश. another family; any one  
family. दसा० १०, ४;

अरण्यादेश. त्रि० (अन्यतर-क) जुआ। “अरण्य  
यर” शब्द. देखो “अरण्यादेश” शब्द. Vide  
“अरण्यादेश”. दसा० ६, ४;

अरण्यादेश. अ० (अन्यदा) क्षयरेक; डेईच एक सभये;  
डेईच वधते. किसी एक समय में; कभी. At  
some time or other. नाया० १; २;  
५, १६; भग० २, १; ३, १; ५, ४; विवा० १;  
अरण्यादेश. अ० (अन्यदाकदाचित्)  
डेईच एक वधने; डेईच एक सभये; गमे ते  
एक वधते; अनिर्धारित सभये. किसी एक  
समय में; चाहे जिस एक समय में, अनिश्चित  
समय में. At some time or other; at an unfixed time. नाया० ४; ८;  
१२; १३; १४; १६; भग० ६, ३१; १५, १;  
अरण्यव. पुं० (अरण्यव) समुद्र. (२) संसार.  
समुद्र. संसार. Ocean. worldly ocean.  
“अरण्यवंसि महोहंसि, एगे तिश्ये दुर्लते”  
उत्त० ५, १; विश० ११२७;

अरण्यव. त्रि० (अरण्यवत्) २७ भुं लेड्डातर  
मुहुर्त. २७ वाँ लोकोत्तर मुहूर्त. The  
twenty-seventh Lokottara Muhūrta. जं० प०

अरण्यवालय. पुं० (अरण्यपालक) ऐ नामने।  
ऐक अन्यतीर्थिक; कालोदायी धत्यादिभानो।  
ऐक. एक अन्यधर्मानुयायी का नाम;  
कालोदायी इत्यादियों में से एक. A non-Jaina of that name; one among  
Kālodāyī and others. भग० ७, ६;

अरण्यहा. अ० (अन्यथा) अन्यथा; अग्र;  
भागुरीते; नहि तो; नहितर. अन्यथा; दूसरी  
तरह से; नहीं तो; या. If not; otherwise;

in another way. “अरण्यहा जोग  
मुवेहमाणे” आया० १, ५, ३, १५४; नाया०  
६; १६; पंचा० १४, २२;—भाव. पुं०  
(—भाव) विपरीत भाव; सत्यने असत्य भा-  
नन्तु ते. विपरीत भाव; सत्य को असत्य मानना.  
regarding truth as untruth.  
भग० ३, ६;—वाइ. त्रि० (—वादिन्)  
अन्यथावादी-असत्य ऐकनार. अन्यथावादी-  
असत्य वोलने वाला. a liar; untruthful.  
नाया० ३; भग० १६, ६;

अरण्याद्वा. त्रि० (अज्ञात) नहि ज्ञानार्थेत;  
अपरिचित. न जाना हुआ; अपरिचित. Not  
known; unacquainted. ओष्ठ०  
नि० ६६;

अरण्याद्वाह. त्रि० (अन्याविष्ट) देवताना।  
आवेशी व्याभ थयेत-परवश थयेत. देवता  
के आवेश से जो व्याप्त हो-परवश हुआ हो  
वह. Possessed, influenced, by a  
spirit or deity. भग० १५, १; १८, ६;

अरण्याद्वंछ. पुं० (अशातोऽच्छ) जुआ। “अरण्या-  
यउंछ” शब्द. देखो. “अरण्यायउंछ”  
शब्द. Vide “अरण्यायउंछ”. दसा० ७, १;

अरण्यापसि. पुं० (अज्ञातेष्विन्) जलि, विद्वता।  
आदिथि अज्ञात थहने आहाराद्विनी अपश्चा  
करनार; जोतानु भास्त्राभ्यन जाणुता होय तेवा  
कुलमां लिक्षा करनार साकु. जाति, विद्वता आदि  
न जताकर आहारादि की एषणा करने  
वाला; अपने भास्त्र को जो न जानता हो ऐसे कुल  
में भिज्ञा ग्रहण करने वाला साकु. An ascetic  
begging alms from families  
ignorant of his greatness  
and learning. “अरण्यापसि परिष्वेण जे स  
भिक्खु” उत्त० १५, १; उत्त० २, ३६;

अरण्यारण. न० (अज्ञान) अरान; अनाखुपशु;  
विपरीत शुद्धि; विपर्यास. अज्ञान; अज्ञानपन;  
विपरीत बुद्धि. Ignorance; nescience.

“अरण्याणे तिविदे पश्चाते तंजहा-देस  
गणाणे सञ्चयणाणे भावण्याणे ” ठा० ३,  
१; भग० ५, ७; द, १; २; ६, ३१; २६,  
१; नाया० ५; ओव० २०; विश० १०८; आव०  
४, ८;—किरिया. लो० (-क्रिया) अत्तान  
पश्चे कृवामां आवती चेष्टी लागती क्रिया-  
कर्मधै; असानक्रियाना० एक लेद. अज्ञान पूर्ण  
चेष्टा से होने वाला कर्मचंद; अज्ञानक्रिया  
का एक भेद. Karma arising from  
actions done in ignorance; a variety of Ajñāna Kriyā.  
ठा० ३, ३;—णिवाचि. लो० (-निवृत्ति)  
अत्ताननी उत्पत्ति; भूति अज्ञान, छुत अज्ञान  
अने विनंग एव त्रितु अज्ञाननी निष्पत्ति.  
अज्ञान की उत्तरता; कुमांत, कुश्रुत और विभंग  
इन तीनों अज्ञानों का उत्तरता. rise of  
the three varieties of ignorance viz Mati, Śruti and Vibhaṅga  
ignorance. “कृत्विवाहाणं भंते ! अरण्याणा-  
णिवाचि परण्णता ? , गोवमा ! तिविहा अरण्या-  
णिवाचि परण्णता, तंजहा-महारण्याणा-  
णिवाचि सुश्रावण्णाणा-णिवाचि विभंगरण्णाणा-  
णिवाचि” भग० ११, ८;—दोष. पु०(-दोष)  
कुशाक्षेत्रना० संरक्षार्थी हिसादि दृत्यैमां धर्म  
भूष्मि राखनाथी लागतो० एक होप; रैऽप्याननुं  
त्रीग्नुं लक्षण्. कुशाक्ष के संस्कार से हिसा-  
दिक्षियों में धर्मदुद्धि लाने से जो दोष लगता  
है वह; रोद्रध्यान का तोसरा लक्षण. a sin  
arising from killing for religious  
purposes as a result of the  
teachings of false scriptures;  
the third variety of Raudra-  
dhyāna. ठा० ४, १; भग० २५, ७;  
—परीक्षह. पु०(-परीक्षह) अत्तान परिसेवा;  
अत्तान एटले विद्या न आउडी थंडुं कृष्ण  
अकुन करुने ते. अज्ञानपरीक्षह; विद्या न आने से

होने वाले कष्ट का सहन करना. bearing  
without complaint troubles  
caused by ignorance; suffering  
without complaint the trouble  
of the sense of shame arising  
from the consciousness of  
want of learning. उत्त० २, १;  
—फल. न० (-फल) अज्ञाननुं इक्ष-ज्ञाना-  
वरण्णरूप कर्म; धर्मगुरु वगेरैनी निंदा  
कृत्वाथी वंधातुं ज्ञानावरण्णीय कर्म.  
अज्ञान का फल-ज्ञानावरण्णरूप कर्म; धर्मगुरु  
वगेरह की निंदा से बंधने वाला ज्ञानावरण्णीय  
कर्म. Jñānāvaraṇīya (knowledge  
obscuring ) Karma arising  
from censuring preceptors etc.  
“से नूयं महु पुष्टं कम्मारण्णाणकला कडा”  
उत्त० २, ३;—लाभि. लो० (-लाभि)  
अत्ताननी प्राप्ति; ज्ञानावरण्णीय कर्म।  
उत्त्यथी थती अज्ञाननी प्राप्ति. अज्ञान की प्राप्ति;  
ज्ञानावरण्णीय कर्म के उदय से होने वाली अज्ञान  
की प्राप्ति. ignorance resulting from  
the maturing of knowledge  
obscuring Karma. अरण्याणलक्ष्मीण  
भंते ! कहविहा परण्णता ? , गोवमा ! तिविहा  
परण्णता, महारण्याणलक्ष्मी सुश्रावण्णाणलक्ष्मी  
विभंगरण्णाणलक्ष्मी” भग० ८, २;—वाइ.  
वि० (-वादिन्) अरानन्दी-अज्ञान-  
नेत० श्रेय माननार वादी; ज्ञानभां दोष दर्शी-  
वी अज्ञानतुं रथापन कृत्वार. अज्ञान  
वादी; अज्ञान को ही श्रेय मानने वाला  
वादी; ज्ञान में दोष बतलाकर अज्ञान की  
स्थापना करने वाला. one establishing  
the superiority of nescience  
by pointing out the defects of  
knowledge. सूर्य० १, १, २, २३; नंदी०  
४६;—सत्थ. न० (-शास्त्र) अत्तान शास्त्रे;

भारत, काव्य, नाटकादि लौटिकशास्त्र.  
अज्ञानशास्त्र-भारत, काव्य, नाटक आदि लौटिक  
शास्त्र. secular science such as  
that of poetry, drama etc; science or knowledge not  
dealing with spiritual matters.

ठा० ६;

अरण्णाण्या. छी० ( अशानता ) अशानता;  
अनुष्ठानपूर्ण. अज्ञानता; अज्ञान पन्. Ignorance,  
भग० १, ६; सम० ३२;

अरण्णाणि. त्रि० ( अज्ञानित् ) अशानी;  
ज्ञानपूर्णाथी रहित; ज्ञानथी रहित; अज्ञान-  
वादी. अज्ञानी; ज्ञान से रहित; अज्ञानवादी.  
Ignorant; devoid of knowledge; professing the doctrine of  
nescience. “ अरण्णाणी अरण्णाणं  
विष्णाहत्ता वेणाहयवादी ” सू० नि० १, १२,  
११८; पंचा० ११, २६; भग० १, ५; च, २;  
११, १; १८, १; २४, १; २६, १; सम० ३०;  
दसा० ६, ३०;

अरण्णाणि-अ-य. पु० ( अज्ञानिक ) अशानी;  
शानहीन; शानमां होय दर्शानी अज्ञाननेन  
श्रेय भाननार; अज्ञानी; ज्ञान में दोष  
बतलाकर अज्ञान को ही थेय मानने वाला.  
Ignorant; devoid of knowledge; one establishing the superiority  
of nescience by pointing out the defects of knowledge or  
science. भग० १, ६; च, २; सू० १, १२,  
२; अगुजो० ४१;—वाइ. पु० (-वादित् )  
अज्ञानवादी; शानमां होय दर्शानी अज्ञाननेन  
श्रेयरूप भाननार वादी. अज्ञान वादी; ज्ञान में  
दोष बतलाकर अज्ञान को ही थेयरूप मानने  
वाला वादी. ( one ) maintaining the superiority of nescience by  
pointing out the defects of

knowledge or science. भग० ३०,  
१; ठा० ४, ४;

अरण्णाय. पु० ( अन्याय ) अन्यायी; न्याय-  
रहित. अन्यायी; न्याय से रहित. Devoid of justice;  
unjust. सू० १, ११, ६;  
—भासि. त्रि० (-भाषिन्) अन्याययुक्त  
भोलनार; नेम तेम भोलनार. अन्याय  
युक्त बोलने वाला. one who speaks  
without a sense of justice or  
propriety. “ जे विग्गहिए अरण्णायभासी ”  
सू० १, १३, ६;

अरण्णाय. त्रि० ( अज्ञात ) अनुष्ठान;  
ज्ञानरनु. बिना जाना हुआ. Unknown;  
not known. ओघ० नि० १६; प्रव०  
५८७; भग० ३, ७; १५, ७;—उङ्छु. पु०  
(-उम्छु) परिचय करावा. विना भिक्षा,  
उपग्रहण वगेरे साधुओं लेवा ते. परिचय कराये  
बिना भिक्षा, उपकरण वगैरह का साधुद्वारा लिया  
जाना. accepting of alms & begging  
of bowls by a Sādhu as a stranger.  
“ अरण्णायउङ्छु उलनिष्पुक्ताए ” दस०  
१०, १६;—चरण. पु० (-चरक ) अज्ञात  
रहनी-स्वज्ञत्यादि दर्शान्या विना गवेषणा कर-  
नार. अज्ञात रहकर-स्वज्ञत्यादि प्रकट किये बिना  
गवेषणा करने वाला. ( one ) wandering  
about in search of alms incognito. ओघ० ३८;—पिँड. पु० (-पिँड )  
अनुष्ठान कुलनी भिक्षा; अंतप्रान्त भिक्षा.  
अज्ञात कुल की भिक्षा; अंतप्रान्त भिक्षा. alms  
from an unknown family. “ अ-  
रण्णायपिँडण हियासएज्जा, णो पूर्णं तवसा  
आवहेजा ” सू० १, ७, २७;—सील. त्रि०  
(-शील ) नेमो स्वभाव पंडिते पृथु न कणी-  
ज्ञानी शके तेवे. जिसका स्वभाव पंडित  
भी न जान सके एसे स्वभाव वाला.  
( one ) of a temperament

unknowable even by learned men. ( २ ) जेणे शील-धर्मयर्थं अङ्गाकारं नथी कर्तुं ऐवेऽ। जिसने ब्रह्मचर्यं अंगीकारं नहीं किया वह. ( one ) devoid of strict observance of chastity or continence. “ ताणं अग्रण्यायसीलाणं ( नारीणं ) ” तड़ो ॥

**अग्रण्यायया.** ली० ( अज्ञातता ) अज्ञातपञ्च; पशः क्षीरिनी वांछाये तपस्या वर्गेरेनो प्रकाश न कर्वेऽ। ते. अज्ञातपन; यशः कार्ति की वांछा से तपस्या वैयरह का प्रकाश न करना. Remaining unknown; not disclosing one's penance etc. out of a desire for fame. सम० ३२;

**अग्रणारंभणिवित्ति.** ली० ( अन्यारम्भनिवृत्ति ) ऐती आदि आरंभनो त्याग. खेती आदि आरंभ का त्याग. Giving up the pursuit of agriculture etc. which involves killing. “ अग्रणारंभणिवित्तिएष अप्पणाहिट्यं चेव ” पंचा० ७, ३३;

**अग्रण्यायाउत्त.** पु० ( अक्षिकापुत्र ) जयसिंह नामे विषुक्षुपुत्रनी पुनी अनिकानो हेवहतथी थयेद पुत्र, ३ जेणे तरुणावस्थामां जयसिंह आचार्यपासे दीक्षा लीधी अने थेा वभतमां आचार्यपद मेणव्यु, धृष्टवस्थामां ऐक्षेकाणे रिथरवास हुता. दुकाण पठवाथी शिष्याने ऐने भेकली आप्या ऐक पुण्यचूडा साखी तेमने आडार, पाणी लावी आपता ते साखीने डेवणग्रान उपज्यु तो पशु वेयावच्य करतां, ज्यारे आचार्यने भभर पड़ा त्यारे तेनी सेवा अटकावी. आ आचार्यने गंगा-नदीनावाथी उत्तरतो नाविकोये नदीमां नाखी हीधा, तां तेमने डेवणग्रान उपज्यानुं क्षेवामां आव्यु छे. जयसिंह नामक वणिक पुत्र की पुत्री अक्षिका का देवदत्तद्वारा उत्पन्न पुत्र, जिन्होंने तरुणावस्था में जयसिंह आचार्य

के पास दीक्षा ली थी और थोड़े समय में आचार्यपद प्राप्त किया. फिर बृद्धावस्था में एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक निवास करने लगे. वहां दुष्काल पड़ने से उन्होंने अपने शिष्यों को दूसरे स्थान पर भेज दिया. एक पुष्पचूडा नामक साधी उनके लिये आहारादि लाती थी. उस साधी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ परंतु तो भी वह साझु की वैयाकृत्य करती रही. जब आचार्य को यह मालूम हुआ तब आचार्य ने उसे रोक दिया. इन आचार्य को नावद्वारा गंगा नदी पार करते समय नाविकों ने नदी में कैंक दिया था. कहा जाता है कि, वहां उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ. The son of Devadatta by Annika, the daughter of a merchant named Jayasimha. He, in his youth, took Dikṣā from the preceptor Jayasimha and himself soon became a preceptor. In his old age he was living permanently at one place. Owing to famine he sent his disciples to another place. One female ascetic named Puṣpachūḍā used to bring food and water for him. She attained to perfect knowledge yet she used to serve the preceptor when the latter came to know this he stopped her service. While this preceptor was crossing the Gaṅgā river in a boat he was thrown into the water by the sailors, where, it is said he obtained perfect knowledge. संस्था०

**अरण्युलु.** त्रिं ( अन्योन्य ) जुओ। “ अरण्य-  
मरण ” शब्द. देखो “ अरण्यमरण ” शब्द.

Vide “ अरण्यमरण ”. कप० ३, ४६;

**अरण्युलु.** त्रिं ( अनुन-अन्युल ) न्यूनतःथी  
रक्षित; पूर्ण. स्थूनता से रहित; पूर्ण. Complete;  
perfect, not wanting. नाया०  
८;

**अरण्येसण** न० ( अन्वेषण ) तपास करी जेमुं  
ते. गहरी जांच करना. Act of searching  
or looking minutely into.  
पंचा० १३, २५;

**अरण्येसि.** त्रिं ( अन्वेषिन् ) गवेषया॒ ५२नार॒;  
भाग्यु॑ ५२न॒ २. गवेषणा करने वाला; खोज  
करने वाला; प्रार्थी. (One) who searches  
after; one who solicits. “ जे य  
बंधपमुख्यमधेसी कुसके पुण नो बढे नो मुके ”  
आया० निं० १, १, १, ६६; आया० १, २,  
६, १०३;

**अरण्योरण.** त्रिं ( अन्योन्य ) जुओ। “ अरण्य-  
मरण ” शब्द. देखो “ अरण्यमरण ” शब्द.  
Vide “ अरण्यमरण ”. विशे० ६१८;  
पन्न० २; जं० प० ७, १४१;—अंतरिक्ष.  
त्रिं ( -अन्तरित ) ऐडीभीने आंतरे रहेका.  
एक दूसरे से अन्तर पर रहा हुआ. situated  
at alternate intervals of each other. पंचा० ३, १६;—अखुग्या.  
त्रिं ( -अनुगत ) अन्येन्य-ऐडीभीने  
अनुसरीने रहेका. एक दूसरे का अनुसरण  
कर रहा हुआ. situated in alternate  
succession. पंचा० १८, ४५;—गमण.  
त्रिं ( -गमन ) ५२२५२ गमन करवा योऽप्य.  
परस्पर गमन करन योग्य. fitted for  
mutual intercourse. “ अरण्यो-  
रणं च होऽज कर्मं ” परह० २, २;  
—जाणेय. त्रिं ( -जानित ) ५२२५२ करैद;  
रहामरहामे करैद. परस्पर किया हुआ.

done mutually. “ अरण्योरणजिग्यं च  
होज्ज हासं ” परह० २, २;—पग्गाहियस्त.  
न० ( -प्रगृहीतत्व ) वाक्य व क्यनी अने ५६  
५८नी ५२२५२ सापेक्षतः; ५२२५२ सापेक्ष  
वाक्य ऐक्षयां ते; सत्यवयनना ३५ अतिशय-  
भांति १७ मे। वाक्य वाक्य की और पद  
पद की परस्पर सापेक्षता; परस्पर सापेक्ष  
वाक्य का बोलना; सत्यवचन के ३५ अतिशयों  
में से १७वां अतिशय. interdependence  
of sentences or words uttered;  
utterance of inter-related  
sentences; the seventeenth of  
the thirty-five Atisayas of  
truthful speech. सम० ३५; राय०  
—समणुबद्ध. त्रिं ( -समनुबद्ध ) ५२२५२  
बंधायेद-ज्ञेयायेद. परस्पर बंधा हुआ-  
जुड़ा हुआ. inter-linked. “ अरण्योरण  
समणुबद्धं यिच्छयतो भाणियविसयंतु ” पंचा०  
६, २७;

**अरह.** न० ( अह-अहन् ) दिवस. दिन.  
A day. “ पुद्यावयहकालसमयंसि ”  
उवा० ६, १६४;

\***अरहय.** उं० ( आश्रव-अभिविधिना औति  
श्रवति कर्म येभ्यस्ते आश्रवा:) पापुं द्वार;  
कर्न आवयाने भार्ज; कर्मयंध हेतु. पाप का  
द्वार; कर्म आने का मार्ग; कर्मबंध का हेतु.  
An inlet for the influx of Kar-  
ma; cause of Karmic bondage.  
परह० १, १; ओव० २०;—कर. उं०  
( -कर ) आश्रव-कर्नयहयु॑ ५२नार॒; नवा॑  
कर्म य धनार. आश्रव-कर्मग्रहण करने वाला;  
नवीन कर्म बांधने वाला. one who in-  
curs fresh Karmas. ठा० ७; ओव०  
—भावणा. ऊ० ( -भावना ) आश्रवना॑  
अनिति इत्युं यित्यन करवुं ते; भार भावना॑-  
भांति सातभी भावनाँ॑. आश्रव के आनेहु फल

का चिंतन करना; बारह भावनाओं में से सातवीं भावना. meditation upon the evils of Karmic inflow; the seventh of the twelve Bhāvanās. प्रव० ५८०;

**अरण्ययंत.** व० क०त्रि० ( अभत् ) भोजन करते। भोजन करता हुआ. Taking food; eating. तंड० ओव०

✓ **अरण्हा.** धा० I. ( आः+श्च ) अःश्व-कर्मय-ध थवे। ते; कर्मनी आवड थवी ते. आश्रव होना; कर्म का आवा. Inflow of Karmic matter into the soul.

**अरण्हाति.** ओव० ३८;

**अरण्हाणग.** न० ( अस्लानक ) स्नान न करने ते. ज्ञान न करना. Not bathing. भग० १, १; ओव०

**अरण्हाणय.** त्रि० ( अरनानक ) स्नानरहित. ज्ञान से रहित. Bathless. भग० १, ६;

**अतक्षेमाण.** व०क०त्रि० ( अतक्षयत् ) कल्पना न करते. कल्पना न करता हुआ. Not thinking about; not imagining. “परस्स ज्ञाभं अणासाप्तमाणे अतक्षेमाणे अपीहेमाणे” उत्त० २६, ३३;

**अतथ.** त्रि० ( अत्रस्त ) नास न प्रभेत. त्रास नहीं पाया हुआ. Not terrified; not frightened. “एवं बुर्ते समाणे अभीषु अथथे अणुविग्मे” उवा० २, ६६; नाया० ८, ६;

**अतर.** पु० ( अतर-न तरितुं शक्यते हृत्यतरः) रेत्ना०३; सागर; समुद्र. रत्नाकर; समुद्र. The ocean. प्रव० ४०१; ( २ ) त्रि० दुष्टर; तरवाने. अशक्य. दुष्टर; जिसे पार करना अशक्य हो वह. insurmountable. “जे तरंति अतरं वयिथा वा” उत्त० ८, ६;

**अतरंत.** त्रि० ( अवरद ) शेषी; ज्ञान.

रोगी; उदास. Diseased; sickly; invalid. पंचा० ५, ४१; ( २ ) अशक्य; असहिष्णु. अशक्य; सहनशीलता से रहित. incapable of endurance. सु० च० २, ५०४;

**अतरण.** त्रि० ( \*अतरण-ज्ञान ) दुर्बल; ज्ञान. दुर्बल; कमज़ोर; ग्लानियुक. Feeble; sickly; lethargic. ओघ० निं० १४८;

**अतव.** न० ( अतपस ) तपने। अभाव. तप का अभाव. Absence of penance. “इसा अमरिस अतवो अविज्जमाया अहिरियाय” उत्त० ३४, २३;

**अतपस्ति.** त्रि० ( अतपस्ति॒न् ) तपस्ती न॑ह॑; तपस्य॑ न करना॒. तप न करने वाला. (One) not practising penance. दसा० ६, २३; सम० ३०;

**अतसी.** ओ० ( अतसी ) वनस्पतिनिशेष; अक्षसी॑। छोड़-आ॑। अलसी का पौधा. A kind of vegetation; a linseed plant. पञ्च० १;

**अतह.** न० ( अतथ-अतथ ) असत्य; भिथ्या; असद्खून॑; नु॑। भूठ; मिथ्या; असद्भूत. A falsehood; a lie. “अणावज्जमतहं सेसि, ए ते संबुद्धवारिणो” सूर्य० १, १, २, २६; आया० १, ६, ३, १६१; १, ६, २, १८३; १

**अतहकार.** पु० ( अतथाकार ) गुरुओं शिष्यने उह आज्ञा करतां शिष्ये ‘तेभ॒ डीर॑श’ ऐभ शम्भनो। प्रेषेण न करवे। ते. गुरु शिष्य को कुछ आज्ञा दे उस समय शिष्य का ‘ऐसा ही कहूंगा’ ऐसा न कहना. Non-utterance of the words “I shall do so” on the part of a disciple in response to an order given by a preceptor. पंचा० १२, १७;

**अतद्वाणी.** त्रि० ( अतथाज्ञान-न विद्यते यथावस्तु तथाज्ञानं यस्य तत्त्वा ) अयथार्थ ज्ञानुनार; अज्ञानी. अयथार्थ ज्ञाने वाला; अज्ञानी. Ignorant; possessed of false knowledge. ( २ ) न० अयथार्थ ज्ञान; अनेकांतने एकांतगणे ज्ञानुनु ते. अयथार्थ ज्ञान; अनेकांत को एकान्तरूप से ज्ञानना. incorrect knowledge. ठा० १०; ( ३ ) त्रि० प्रश्नात्मक भराभर न ज्ञानुनार पृ४७५. प्रश्नोत्तर को ठीक ठीक न ज्ञाने वाला पृच्छक. an inquirer without a clear knowledge of questions and answers. भग० ६, ८;

**अताण.** त्रि० ( अत्राण ) त्राण-शरणुरुदित. शरण रहत. Without protection. परह० १, १;

**अतार.** त्रि० ( अतार ) तरवाने अशक्य; न तरी शक्य तेट्डु विशाल. दुस्तर; जिसका तैरना अशक्य हो वह. Insurmountable; too vast to cross. “ अत्थाइमतारम-पोरिसीधं सीओदगम्मि अप्पाणं मुयंति ” नाया० १४; भग० ७, १;

**अतारण.** उं० ( अतारक ) तरी न शक्य तेट्डु; अगाध पाणी वर्गे. जिसका तैरना असंभव हो वह; अगाध जल आदि. Impossible to cross; e.g. unfathomable water etc. नाया० ६;

**अतारिम.** त्रि० ( अतारिम ) भुङ्केक्षीथी तरी शक्य तेनु; दुष्प्रेक्षी तरवा योग्य. कठिनता से तैरा जा सके वह. Difficult to swim across. “ एते संगा मणुस्ताणं पाताला व अतारिमा ” सूर्य० १, ३, २, १२;

**अतारिस.** त्रि० ( अताद्वा ) तेना ऐनु नहि; तेना सरभु नहि; तेथी विलक्षण. उसके समान नहीं; उससे विलक्षण. Dissimilar;

of a different nature. “ अतारिसे मुखी ओहंतरे ” आया० १, ६, १, १८०; अतालिस. त्रि० ( अताद्वा ) तेवा प्रकारनु नहि; तेना ऐनु नहि. उस प्रकार का नहीं; उसके समान नहीं. Of a different nature; dissimilar. “ अतालिसे से कुण्ड धोरोस ” उत्त० ३२, २६;

**अतावक्षेत्र.** न० ( अतापहेत्र ) तापनु क्षेत्र नहि ते; रात्रि. ताप का अक्षेत्र; रात्रि. That which is not a province of sunlight; night. प्रव० ८२७;

**अति. अ०** ( अति ) धृण्; अतिशय. ज्यादह; बहुत. Very much; excessive. नाया० १;

**अतिउड्ह.** त्रि० ( अतिवृत्त-अतिक्राम्तो वृत्तादतिवृत्तः ) पैताना। इत्यने न ज्ञानुनार. अपने कृत्य को न ज्ञाने वाला. Ignorant of the nature of one's own actions. “ जंसि गुहाए जलये तिउड्हे, अविजाणश्चो डउम्ह लुतपञ्चो ” सूर्य० १, ५, १, १२;

**अतिंतिण.** त्रि. ( \* अतिनितिन ) निराशानां कारणे। हेता। अतां क्यवाणु राखी न्येभ तेभ न ऐलानार साँधु. निराशा के कारण होते हुए भी कुछ का कुछ न बोलने वाला साधु. ( A Sādhu ) not losing control of speech in spite of reasons for disappointment. “ अतिंतिणे अचबले, अप्पभासी मियासणे ” दस० ८, २६; ( २ ) कुदु वयन सांखणीने पशु शांति राखी व्यष्टाट न करनार। कुदु बचन सुनकर भी शान्ति रखकर बडबडाहट न करने वाला. keeping quiet and not losing control over speech in spite of bitter words. “ जियबवरणरपु अतिंतिणे ” दस० ६, ४, ५;

**अतिकाय.** त्रिं० (अतिकाय) जुओ। “अहकाय”

शब्द. देखो ‘अहकाय’ शब्द. Vide ‘अहकाय’.

भग० १५, १;

**अतिकिलिट्ठ.** त्रिं० ( अतिकिलिट्ठ ) अत्यंत भलीन; क्लेशयुक्त. अत्यन्त मर्तान. क्लेशयुक्त. Highly perturbed or agitated. क० प० ६, २०;

**अतिक्षंत.** त्रिं० ( अतिक्रान्त ) अतीत-भूत कणिभां थथेत. अतीत-भृतकाल में हो चुका हुआ. Past; gone by. “जे य बुद्धा अतिक्षंता, जे य बुद्धा अणागदः” सूय० १, ११, ३६;

**अतिक्षम.** उं० ( अतिक्षम ) जुओ। ‘अहक्षम’ शब्द. देखो “अहक्षम” शब्द. Vide “अहक्षम”. भग० ७, ६; सूय० १, ८, २०;

**अतिक्षण.** त्रिं० ( अतीक्षण ) तीक्ष्ण नहि ते. तिक्ष्णु-संप्त नहि ते. जो तीक्ष्ण न हो वह; कठोर न हो वह. Not sharp; not severe. पंचा० १६, ६,—तुंड. त्रिं० ( -तुरुण ) जेरी यांच तीक्ष्ण-संप्त-कहिन नथी तेवा पक्षी. जिसकी चोंच कठिन या तीक्ष्ण न हो ऐसा पक्षी. a bird without sharp or hard beak. पंचा० १६, ६;

**अतिगच्छमाण.** व० क० त्रिं० ( अतिगच्छत् ) अतिक्षमेते; उल्लंघन करते. अतिक्रमण-उल्लंघन करता हुआ. Transgressing; violating. निरी० ६, ८; नाया० १;

**अतिगमण.** न० ( अतिगमन ) जुओ। “अहगमण” शब्द. देखो ‘अहगमण’ शब्द.

Vide “अहगमण”. नाया० २;

**अतिगय.** त्रिं० ( अतिगत ) प्राप्त थथेत. प्राप्त हुआ. Obtained; got. नाया० १;

**अतिचार.** उं० ( अतिचार ) जुओ। “अहयार” शब्द. देखो “अहयार” शब्द. Vide “अहयार”. परह० ३, १; आव० १, १;

**अतिज्ञाय.** त्रिं० (\*अतिक्रान्त) जुओ।

‘अहज्ञिय’ शब्द. देखो ‘अहज्ञिय’ शब्द. Vide “अहज्ञिय”. ओष्ठ० निं० ४१४; उत्त० ७, २१;

**अतितापगिह.** न० ( अतितानगृह ) नगरनां प्रसिद्ध उंचां धर, के जे नगरभां पेसतां एकदम ज्ञाप्त आवे. नगर का प्रसिद्ध ऊंचा घर, जोकि, नगर में प्रविष्ट होते ही एक दम दिख जाय. A lofty & conspicuous building in a town. ठा० २, ४;

**अतितिक्षा.** त्रिं० ( अतितीक्षा ) अतितीक्ष्ण; व्युत्तीपेता. बहुत ज्यादह तीक्ष्ण. Very pungent or sharp. भग० १६, ४;

**अतितेआ.** त्रिं० ( \*अतितेजा ) यैदृशनी रात्रिनुं नाम. चतुर्दशी की रात्रि का नाम, The night of the fourteenth day of a month, so named. जं० प० सू० प० १०;

**अतित्स.** त्रिं० ( अतृप्त ) असंतोषी; अतृभै; संतोष पामेत नहि; तृभ थथेत नहि. संतोष न पाया हुआ; असनुष्ट; तृम हुआ हो वह. Unsatisfied “कासे अतित्से य परिगमहे य” उत्त० ३२, ८; “अतित्ता कामाण्य” परह० १, ४;—लाभ. उं० ( -लाभ ) संतोषने लाभ नहि; असंतोष; अतृभि. असन्तोष; अतृसि; संतोष की प्राप्ति न होना. lack of contentment or satisfaction. “संभोगकाले य अतित्तलाभे” उत्त० ३२, ८;

**अतित्सि.** ली० ( अतृप्ति ) असंतोष; अतृभि. असंतोष; तृसि का अभाव. Want of contentment or satisfaction. उत्त० ३२, ८,—लाभ. उं० ( -लाभ ) संतोष नी अप्राप्ति; असंतोषने लाभ. संतोष की प्राप्ति न होना; असंतोष का लाभ-प्राप्ति. absence of satisfaction or contentment. “संभोगकाले य अतित्सि लाभे” उत्त० ३२, ८;

**अतित्थं न०** ( अतीर्थ ) तीर्थकरे तीर्थ स्थाप्या  
पहेलानो समय अने तीर्थवच्छेद थया  
पश्चाते समय; तीर्थ-संधस्थापनानो अभाव.  
तीर्थकर के द्वारा तीर्थस्थापित होने के पहले  
का और तीर्थवच्छेद के पांछे का समय;  
तीर्थ-संवस्थापना का अभाव. Time  
preceding the establishment  
of Tirthas or orders of  
community by Tirthankara &  
also the time succeeding their  
break-down, भग० २५, ६; ७; नाया०  
१; पञ्च० १;—सिद्ध. पुं० (-सिद्ध )  
तीर्थकरे संधस्थापना कर्म पहेलां अथवा तीर्थ  
वच्छेद थया पश्चि सिद्ध थाय ते: तीर्थने  
अभावे सिद्ध थाय ते, ऐम भरदेवी भाता  
पगेरे. तीर्थकर के संघ स्थापन करने के पहले  
या तीर्थवच्छेद होने के बाद सिद्ध होना; तीर्थ  
के अभाव में सिद्ध होना; जैसे कि, मरुदेवी  
आदि. one who became Siddha  
when the orders of community  
were not founded or had  
suffered a break-down, e. g.  
Marudevi etc. पञ्च० १;

**अतित्थगर.** पुं० ( अतीर्थकर ) तीर्थकर नहि  
ते; तीर्थकरनी पदी न पाभनार. डेवगी;  
गौतमस्वामी वगेरे. जो तीर्थकर न हो वह;  
तीर्थकर की पदवी न पाने वाला केवली; गौतम  
स्वामी वगैरह. One not entitled to  
be called Tirthankara e. g.; a  
Kevali; Gautamasvāmī etc.  
पञ्च० १;—सिद्ध. पुं०(-सिद्ध) तीर्थकर ५६  
पाभ्या विना सिद्ध थयेत; गौतम स्वामी आदि.  
तीर्थकर की पदवी पाये बिना जो सिद्ध हुए होंवे;  
गौतमस्वामी आदि. one who has  
attained ' salvation without  
being Tirthankara; e. g. Gau-

masvāmī etc. पञ्च० १; नंदी०  
**अतित्थयर.** पुं० ( अतीर्थकर ) तीर्थकर नहि  
पश्चि तीर्थकर वेवा डेवगी वगेरे. तीर्थकर  
नहीं किन्तु उनके जैसे केवली आदि. A  
person who is not a Tirth-  
ankara but who is like one;  
e. g. a Kevali. प्रव० ४७६;

**अतिदुखव.** न०(अतिदुःख) जुओ “अहुमुख”  
शा०८. देखो ‘अहुमुख’ शब्द. Vide  
“ अहुमुख ”. “ पिहिया व सक्षामो अति  
दुख्योहिमगसंकासा ” आया० १, ६, २, १४;  
—धम्म. पुं० (-धम्म) अत्यंत दुःख आप-  
वानो नेनो धर्म-स्वभाव छे ते; न्यां निमिष  
मात्र पश्चि निशानि नथी तेवां नरकादि स्थण.  
अत्यन्त दुःख देने का जिसका स्वभाव है वह;  
जहाँ निमष-ज्ञाणमात्र भी विश्रान्ति नहीं है  
ऐसे नरकादि स्थान. that, the nature  
of which is to give extreme  
pain ( hell etc., in which there  
is acute and incessant misery ).  
“ सया य कलुण्यं पुण्य घम्मठाण्यं, गाढोदणीयं  
अतिदुःखधम्मं ” सू० १, ५, १, १२;

**अतिधृत.** त्रि० ( अतिधृत-अतीव धूतमष्ट  
प्रकारं कर्म यस्य सोऽस्तिधृतः ) आरे कर्मी;  
धुतुल कर्मी. कर्म के बहुत भार से युक्त. बहुल  
कर्मी. Heavily loaded with Kar-  
mas. “ अभिकृतकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे  
अतिधुते ” सूय० ३, २, ३२;

**अतिपंडुकंबला.** ली० ( अतिपाशदुकम्बला )  
जुओ “ अद्यपंडुकंबलसिला ” शा०८.  
देखो ‘ अद्यपंडुकंबलसिला ’ शब्द. Vide  
‘ अद्यपंडुकंबलसिला.’ ठा० २, ३;

**अतिपास.** पुं० ( अतिपास्त्र ) जुओ  
“ अहपास ” शा०८. देखो ‘ अहपास ’ शब्द.  
Vide ‘ अहपास ’, सम० प० २४०;

**अतिप्पण.** अ० (अतिप्रगे) परेशीड. प्रातःकाल; भोर; बिल्कुल सुबह. In the early dawn. ओव० नि० ४१४;

**अतिप्पंत.** व० कृ० त्रि० (अनुप्यत्) अधरातुं; तृप्तिन पामुं. तृप्ति न पाता हुआ. Insatiate; unquenching.“तं चिय अहप्यमाणं, मुजाह जं वा अतिपंतो” पिं० नि० ६४७;

**अतिप्पण्या.** त्री० ( \*अतेपनता-अतेपन ) खस्तिनो वर्ण, लागि अरे, आंसु भरे तेवा रुदनां कारणे। हूर करवां ते; आंसु अरेत्युं रुदन न। करवुं ते. रुदन के ऐसे कारणों का दूर करना जिनसे परीना निकले, लार टपके और आंसु गिरे; ऐसे रुदन का न करना जिसमें आंसु गिरे. Removal of the causes of bitter weeping accompanied with perspiration, and dropping of saliva and tears; not to weep with tears dropping. भग० ७, ६:

**अतिप्पंत.** व० कृ० त्रि० (अनुप्यत्) जुओ। “अतिपंत” शभ० देखो “अतिपंत” शब्द. Vide “अतिपंत.” दसा० ६, २७; अतिप्पसंग. पुं० (अतिप्रसङ्ग) जुओ। “अहप्पसंग” शभ० देखो “अहप्पसंग” शब्द. Vide “अहप्पसंग.” पंचा० १०, २१;

**अतिवल.** त्रि० (अतिवल) अतिप्रयान्. बहुत बलवान्. Very powerful. सम० प० २३५;

**अतिमंच.** पुं० (अतिमञ्च) जुओ। “अहमंच” शभ० देखो “अहमंच” शब्द. Vide “अहमंच.” जीवा० ३;

**अतिमहिच्छु.** त्रि० (अतिमहेच्छ) धण्डे। असंतोषी; भैरवी धृष्टियागे। बहुत असनुष्ट; बहुत बड़ी इच्छा वाला. Extremely ambitious; highly discontented. परह० १, ३;

**अतिमुच्छ्य.** त्रि० (अतिमुच्छित) जुओ। “अहमुच्छ्य” शभ० देखो “अहमुच्छ्य” शब्द. Vide “अहमुच्छ्य.” परह० १, ३;

✓ **अतियर.** धा० I. (अति+चर) उत्थान करुं; अनिक्षिभाणु करुं. उत्थान करना; अतिकरण करना. To transgress; to violate.

**अतियरंति.** सू० २, ७, ६;

**अतिराउल.** न० (अतिराकुल-अतिशयोरैः समृद्धिरस्ति यत्र तत्र कुलश्वेति) अति-समृद्धिवाणु इग। बहुत बड़ी समृद्धि वाला कुल. A very opulent family. पच० ११;

**अतिरित्त.** त्रि० (अतिरित्त) जुओ। “अहरित्त” शभ० देखो “अहरित्त” शब्द. Vide “अहरित्त.” भग० २५, ३; सू० २, ६, १५; —सेत्तासासित्र. पुं० त्री० (शय्यास-निक) भर्यादाथी अधिक शय्या, पाट पाटला वर्गे राखनार; असभाधिनु योथुं स्थानक सेत्तनार साँधु। भर्यादा से अधिक शय्या, पाट आर्दि रखने वाला; असभाधि का योथा स्थानक रेवन करने वाला माधु। (one) who keeps bedding wooden seats etc. in excess of the prescribed limit. सम० २०;

**अतिरेग.** त्रि० (अतिरेक) जुओ। “अहरेग” शभ० देखो “अहरेग” शब्द. Vide “अहरेग.” भग० २४, १;

**अतिलिय.** त्रि० (अतैल) तेलना अंश विनानु. तेल के अंश से रहित. Free from oil. तंडु०

**अतिवच्चंत.** व० कृ० त्रि० (अतिवज्ञत) अतिशय ज्ञो-गति करते. अतिशय गमन करता हुआ-गति करना हुआ. Walking moving too far. जीवा० ३;

✓ अतिवय. धा० I. ( अति+वय् ) उल्लंघन करुन्; अतिक्रमण् करुन्. उल्लंघन करना; अतिक्रमण करना. To transgress; to violate.

अतिवयंति. परह० १, १;

अतिवाति. त्रि० ( अतिपातिन् ) जुओ। 'अइवाइ' श०८६. देखो "अइवाइ" शब्द. Vide "अइवाइ." सूय० १, ५, १, ५;

अतिविज्ज. त्रि० ( अतिविद्य ) जुओ। "अइविज्ज" श०८६. देखो "अइविज्ज" शब्द. Vide "अइविज्ज." "तम्हातिविज्जं परमंति यच्चा"

आया० १, ३, २, १११; १, ४, ३, १६६;

अतिवेलं. अ० ( अतिवेलम् ) जुओ। "अइवेलं" श०८६. देखो "अइवेलं" शब्द. Vide "अइवेलं." सूय० १, ६, २६; १, १४, २५;

अतिसंक्लेश. पुं० ( अतिसंक्लेश ) अत्यंत वित्तनी भूलोनना. चित का बड़ा भारी मैलापन. Extreme impurity or turbidity of the mind. पंचा० १५, ६;

अतिसेस. त्रि० ( अतिशेष ) जुओ। "अइसेस" श०८६. देखो "अइसेस" शब्द. Vide "अइसेस." ठा० ५, २; ओव० १०; भग० ११, ६;

अतिहि. पुं० ( अतिथि ) अभ्यागत; भोजन व्यभते आवेदे। प्राङ्मुख्या। अभ्यागत; भोजन के समय आया हुआ पाहुना; मिहमान. A guest; a mendicant who comes at dinner time. ( २ ) जेने आपवानी तिथि मुक्तर२ नथी ऐवा साधु. जिसके आवे की तिथि नियत नहीं है ऐसा साधु. a Sādhu whose date of arrival is not fixed. आया० १, ८, ४, ११; अणुज० ३, १; आउ० ५; ठा० ५, ३; नाया० १२; —पूया. झी० ( -पूजा ) अतिथिनी पूजन-अठकार-परोंशुगत-थाठरी-धरदास. अतिथि का सल्कार. hospitality. निर० ३, २;

भग० ११, ६; —संविभाग. पुं० ( संविभाग ) श्रावकनां भार व्रत पैकी भारमुं व्रत; ज्ञाती व्यभते पोताना भोजनभांथी अभुक्त भाग अतिथिने आपवानी भावना भाववी ते. श्रावक के बारह व्रतों में से बारहवाँ व्रत; भोजन करते समय भोजन में से अमुक भाग अतिथि को देने की भावना करना. the last of the twelve vows of a Jaina layman; the earnest wish at the time of dinner, that a portion of it might be given to a guest. भग० ७, २; आउ० ५;

अतीत. पुं० ( अतीत ) भूतकाण. भूतकाल. The past. भग० १२, ४; नाया० ७; विशेष० ४१; —अद्वा. झी० ( -अद्वा ) अनन्ता। पुद्गतपरापर्तनप्रभाष्टे अतीत-भूतकाण. अनन्त पुद्गतपरापर्तन के अनुसार अतीतकाल. past time viewed from the point of changes in infinite particles of matter; i. e. time connected with past changes. अणुज० ११५; —णिमित्त. न० ( -निमित्त ) अतीत-भूतकाणनु निभित. अतीत-भूतकाल का निमित्त. instrumental cause of past time. निसी० १२, १५;

अतीय. पुं० ( अतीत ) जुओ। "अतीत" श०८६. देखो "अतीत" शब्द. Vide "अतीत." अणुज० १४७; नाया० १; भग० १, ६; ( २ ) त्रि० भूतकाणनु. भूतकाल का. of the past. सूय० १, २, २, ५; —अद्वा. झी० ( -अद्वा ) अतीतकाण; भूतकाण. भूतकाल. past time; the past. प्रव० १०५३; —वयण. न० ( -वचन ) अतीतवयन-भूत काणवायक पद-जेभ के कई, खाड़, पीछे वर्गेरे. भूतकालवाचक शब्द, जैसे कि, खाया, पिया, किया आदि. a word inflected

in the past tense; e. g. did etc.

आया० २, ४, १, १३२;

**अतीरंगम.** त्रिं० ( अतीरंगम ) तीरे-काँडे वा-  
ने असमर्थ; संसारने काँडे नहि पहुँचने में  
असमर्थ. Unable to reach the  
opposite shore, e. g. of worldly  
existence. आया० १, २, ३, ८०;

**अतीव.** अ० ( अतीव ) अति; धृष्टि; अनिश्चय.  
बहुत; ज्यादह; अतिशय. Excessively.  
भग० २, १; नाया० ११;

**अतुच्छ.** त्रिं० ( अतुच्छ ) तुच्छ नहि ते; उदार;  
श्रेष्ठ; प्रधान. जो तुच्छ न हो वह; उदार;  
श्रेष्ठ; मुख्य. Not mean or insignificant;  
high. पंचा० ७, २४;—भाव. पुं०  
(-भाव) उच्चे भाव; प्रधान-श्रेष्ठ भाव; उदा-  
रता. ऊंचा भाव; श्रेष्ठ भाव; उदारता. high  
or liberal feeling; nobility;  
excellence. पंचा० ७, २४;

**अतुष्टि.** बी० ( अतुष्टि ) असंतोष; अनुभि.  
असन्तोष; तृप्ति का न होना. Dissatisfaction;  
discontent. “ अतुष्टिदोसेण  
दुही परस्स, लोभाविले आयर्ह अदतं ”  
उत्त० ३२, २६;

**अतुरिय.** त्रिं० ( अत्वरित ) उतावयुं नहि;  
धीभुं. जो जल्दी वाला न हो वह; ठंडा; धीरे  
धीरे काम करने वाला. Slow; not fast.  
“ उड़दं धिरं अतुरियं, उच्चं चेव ”  
उत्त० २६, २४; नाया० १; भग० २,  
५; ७, १०; कप्प० १, ५;—भासि. त्रिं०  
(-भासि०) शांतियं। ऐलनार; उतावणथी  
नहि ऐलनार. शांति से बोलने वाला; बोलने  
में शीघ्रता न करने वाला. speaking  
without haste. “ अतुरियभासि विवेग  
भासि समियाए ”” आया० ३, ४, १, १४०;

**अतुल.** त्रिं० ( अतुल ) जेनी तुलना न करी  
शक्ति अवृं; अतुल्य; असाधारण. अतुलम;  
जिसकी तुलना न की जा सके वह. Incom-  
parable; extraordinary. सम० ३०;  
परह० १, १;

**अतो.** अ० ( अतस् ) अथी; अहिथी; अनाथी.  
इससे; यहांसे. Hence; from the  
place; therefore. “ अतोपरं तुमं  
जाणासि ” नाया० १६; दसा० २, ८; ६, १;

**अत्त.** त्रिं० ( आत्र-आ-अभिविधिना आयते  
दुःखात् संरक्षति सुखं चोत्पादयतीत्यात्रः )  
दुःख उत्तरार; सुख आपनार. दुःख हरने-  
वाला; सुखप्रद. ( One ) removing  
misery and giving happiness.  
“ येरहश्चार्यं भेते ! किं अता पोगला अणता  
पोगला ? वा ” भग० १४, ६;

**अत्त.** पुं० ( आस-आसिर्हि रागद्वेषमोहानामै-  
कान्तिक आत्यन्तिकश्च त्यः सा यस्यास्ति  
स आसः ) यथार्थदर्शी; रागद्वेषादि सर्व  
द्वैषरहित; निर्दैषप्रागमना। प्रेषुता;  
वीतराग. यथार्थदर्शी; रागद्वेषादि सब  
दोषों से रहित; निर्दैषप्रागम का प्रणेता;  
वीतराग. One absolutely free  
from love, hatred etc.; one with  
perfect vision of truth; an  
author of faultless scriptures;  
one devoid of passions. सू४० १,  
६, ३३;—पञ्चेसि. त्रिं० (-पञ्चान्वेषिन-  
आसो रागादिविप्रमुक्तस्तस्य प्रश्ना केवल  
ज्ञानास्या तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते तथा )  
सर्वशनी उक्तिनं अ-वेष्टु ५२नार.  
सर्वश की उक्तियों की खोज करने वाला.  
( one ) who searches into ( i. e. reflects upon ) the words or  
sayings of the omniscients. “ वीरा  
जे अत्तपन्नेसी ” सू४० १, ६, ३३;—मुक्त्वा.

पुं० (-मुख्य) आम् पुरुषोभां मुख्य; केवलज्ञानी. आस पुरुषों में मुख्य; केवलज्ञानी. one chief among persons with perfect knowledge; a Kevali. तंडु०

**अत्तं. त्रि० ( आत्त )** अदृश् करेत्; स्वीकारेत्. ग्रहण किया हुआ; स्वाकृत. Taken; accepted. ठा० २, ३; नाया० १;—परगणह. पुं० (-ग्रजाहन्) पोतानी॑ के भरनी आत्त-अदृश् करेत् अथवा आम्-हितकर भुक्षिते दण्णुनार; आत्मभंगधी प्रजाने दण्णुनार-दरेवनार; पाप अभिजुन् अङ्क लक्षण्. अपनी या दूसरे की आत्त-ग्रहण की हुई या आम्-हितकर बुद्धि को हनन करने वाला; आत्मराम्बन्धा ग्रजा को हनन करने वाला; पाप अमरा का एक लक्षण. ( one ) destroying one's own or another's (आत्त) acquired, or ( आस ) wholesome intellect; ( one ) repudiating spiritual wisdom; ( a mark of a sinful ascetic). “अहम्मे अत्तपरणहा” उत्त० १७, १२;

**अत्तं. त्रि० ( आर्त )** परिति; दुःखी; कंटाणी ग्रेष्म. पांडित; दुःखी; पबगया हुआ. Afflicted; troubled. सूत्र० १, ३, १, ६; उत्त० ६, १०; ओव० २०;—गवेसण्या. छाँ० ( :गवेपण्ता-गवेपणा) आर्त-दुःखी—गरीय भाष्युसेनी गवेपणा करवी ते; केवल दुःखी छे? तेनु दुःखं केम् दूर थाय? अंग शोध करवी ते. दुःखी मनुष्यों का खोज करना; दुःखी कौन है?, उसका दुःख किग तरह दूर हो सकता है? इस प्रकार खोज करना. Investigation into the causes and cures of distress; finding out means and ways to remove their distress. भग० २५, ७;—मझ.

त्रि० (-मति-आत्तं आर्तध्याने मतियेषां ते तथा) आर्तध्यानभां ज्ञेयाभेद. आर्तध्यान में लीन. engaged in painful meditation. आउ०

**अत्तं. पुं० ( आत्मन् )** जीव; आत्मा; येतन पदार्थ. जीव; आत्मा; चैतन्य पदार्थ. A soul; a living being. विशेष० ७५७; १३४३; आया० १, ६, ०५, १६५; उत्त० २, १७; दण्ण० ८, ३०; नाया० ५; १४; १६; भग० २, १; २, १; ३; ६, १०; १२, २; १७, ४; पञ्च० १५; ( २ ) पोते; नृते; पॅंडु. स्वयं; सुदु. one's self. ओव० ४१; नंदी० ( ३ ) स्वभाव; प्रृति. स्वभाव; प्रकृति. nature. अत्ताणं. द्वि० ए० गच्छा० ४६; अत्तणो. प० ए० गच्छा० १३;—आगम. पुं० (-आगम) तीर्थकरनी अपेक्षाये भूत सूत्रपाद; अनागम. तीर्थकर की अपेक्षा से मूल सूत्रपाठ; आगम. the older or original Jaina Sūtra; the Attāgama. भग० ५, ४;—उक्करिस. पुं० (-उक्कर्प) अभिमान; आत्मस्वाधा. अभिमान; आत्मप्रशंसा. pride; self-applause. “तम्हा अत्तुक्करिसो वजेयब्बो जतिजरणं” सूत्र० नि० १, १२, १२६;—उक्कोसिय. पुं० ( -उक्कर्पिक—आत्मो-क्कर्पोऽस्ति येषां ते आत्मोत्कर्पिकाः ) गविष्ठ वानप्रस्थ. गर्वयुक्त वानप्रस्थ. a proud hermit. ओव०—उवरणीय. पुं० ( -उपनीत ) दुराघट करी पोतानो भत स्थापन करवा ते; नेम ज्ञव दण्णवा नहि ते वराअर. पेणु पापीमाने तो' दण्णवाज ज्ञेयाभे धृत्याहि; पोताना भतमां द्वैष, आवे तेवी रीते परभतनु उत्थापन करवुं ते. दुराग्रह पूर्वक अपने मत का स्थापन करना, जैसे जीव-हिंसा करना नहीं परंतु पापी को तो मारना ही

चाहिये इत्यादि; अपने मत को दोष लगे इस प्रकार दूसरे के मत की उत्थापना करना. establishing one's own tenet by specious and perverse reasoning; refuting the opponent's doctrine by arguments damaging to one's own doctrine.

ठा० ४, ३;—उवमा. छी० (-उपमा) पैतानी उपमा; आत्मुक्षना; पैतानासाथेनी सरभाभृती. अपने आपकी उपमा; आत्म तुलना. self-comparison. सूय० १, ११, ३३;—कङ्ग. त्रि०(-कृत) पैतानुं कङ्गी स्वीकारेत; पैतानुं कङ्गी राखेत. अपना बनाकर स्वीकार किया हुआ; अपनाकर रखा हुआ. accepted as one's own. भग० १, ६; १७, ४;—कर्म. न० (-कर्मन्) पैतानुं दुश्चरित-दुश्चृत्य. अपना दुश्चरित-दुश्चृत्य. one's own wicked action.“यिच्छुविगमो जहातेणो अत्तकर्म-हि दुम्हर्ह” दस० ५, २, ३६; (२) एताथी आत्मा कर्मे कर्त्ता लेखाय तेवुं कथ्य; आधार-कर्मी आत्मायादि. ऐमा कार्य जिममे आत्मा कर्मों से लिस हो; आत्माकर्मी आहार आर्द. action causing the inflow of Karmia; accepting Adhakarmi food etc. दसा० ६, ६;—गवेसन्न. त्रि० (-गवेषक) आत्मवित्त-गवेषक; शेषाधि८. आत्मा का खोज करने वाला. (one) meditating upon the nature of the soul. दसा० ६, ३१; (२) (आत्मानं चारित्रात्मानं गवेषयत्ताति) यारित्रात्मानो गवेष-पृष्ठ-शेषाधि८. चारित्रात्मा की शोध करने वाला. (one) meditating upon the nature of the soul and right conduct. “तिगच्छ नाभिनेदज्ञा सचि-क्षेत्रगवेसण्” उत्त० २, ३२;—गवेसि.

त्रि० (-गवेषिन्) आत्मानी गवेषण्यु-शेषाधि८ करनार; आत्मार्थी. आत्मा की शोध करने वाला; आत्मार्थी.(one) meditating or reflecting upon the nature of the soul. दस० ८, ५७;—गामि. पुं० (-गामिन्) आत्माने प्राप्त कर्त्तव्य मेक्षमार्थीमां चालनार भुनि; भुमुक्तु. आत्मा को प्राप्त करने के लिये मोक्षमार्ग में चलने वाला मुनि; मुमुक्तु. a sage striving after final emancipation. “मुसं न बूया मुणी अन्तगामी” सूय० १, १०, २२;—कङ्ग. पुं० (-पष) सूयगडांगसंतना पैठेता अध्ययनना पैठेता उद्देशानो पांचभो अर्थाधिकार, केन्द्रेभां पांच भूत अने छट्टा आत्मानु निरुपणु छे. सूयगडांग सूत्र के पहले अध्याय के पहले उद्देशों का पॉचवाँ अधिकार, जिसमें पंचभूत और छठे आत्मा का निष्पत्त्य है. the fifth subject of the first subdivision of the first chapter of Sūyagadāṅga dealing with the five elements and the soul. “अन्तङ्गदो पुणो आहु, आया लोगे य मास्पु” सूय० १, १, ११५;—त्वाण्. न० (-त्राण) आत्मरक्षा; आत्मानु रक्षण्. आत्मरक्षा; आत्मा का रक्षण. protection of the soul. सूय० १, ११, ३२;—दुकङ्ग. न० (-दुष्कृत) पैतानुं दुष्कृत्य. अपना दुष्कृत्य. one's own evil action. “संपराह्य यिच्छंति अत्तदुकङ्ग-कारिणो” सूय० १, ८, ८;—दोस. पुं० (-दोष) पैतानो दोष-भावी. अपना दोष; निजकी त्रुटि. one's own fault. सम० ३२; भग० २५, ७;—दोषोवसंहार. पुं० (-दोषोपसंहार) पैतानो दोषोने दुर्कर्त्तव्य-अटकवया ते; ३२ योगसंबुद्धमानो अटवीशभो योगभूत्य. अपने दोषों का दूर

करना; ३२ योगसंग्रहों में से इकवीसवाँ योग-  
संग्रह. removing one's own faults;  
the twenty-first of the thirty-  
two Yogasaṅgrahas. सम० ३२;  
—परणेसि. पुं० ( -प्रश्नान्वेषिन्-आत्मनः  
प्रश्नामन्वेष्टुं शीलं यस्य स तथा ) आत्मराजान-  
नो शोधक; आत्महितना गवेषया कृत्वार शुभ.  
आत्मज्ञान की शोध करने वाला; आत्महित की  
गवेषणा करने वाला जीव. (one) seeking  
after the knowledge of  
the soul for one's spiritual  
evolution. “ वीरा जे अत्तपरण्योसी,  
धितिमंता जिहंदिया ” सूर्य० १, ६, ३३;  
—परहह. पुं० ( -प्रश्नह-आत्मनि प्रश्न  
आत्मप्रश्नस्तं हन्तीयात्मप्रश्नहा ) आत्म  
संबंधी प्रश्नने हुएनार-उडावनार; पापश्रम-  
णुन् एक लक्षण. आत्मसंबन्धी प्रश्न का हनन  
करने वाला; पापश्रमण का एक लक्षण. one  
who evades a question relating  
to the soul; a mark of Pāpaśra-  
māṇa. “ अहम्ये अत्तपरहा ” उत्त०  
१७, १२; —लद्धिय. पुं० ( -लविधक-  
आत्मन एव सत्का लविधर्भक्तादिलाभो वा य-  
स्यासावात्मलविधकः ) पौत्रानी लविधवाणो.  
आत्मलविधि वाला; निज की लविधि वाला.  
(one) possessed of one's own  
Labdhi or attainment. पंचा० १२,  
३५; —लाभ. पुं० ( -साभ ) स्वरूपनो लाभ.  
स्वरूप का लाभ. attainment of (one's  
own) real or essential form or  
nature. क० गं० २, २६; —संपग्गहिय.  
त्रि० ( -संप्रगृहीत ) द्वेष कार्यभां पौत्रानी  
उत्कृष्टता-श्रेष्ठता. भृत्यावनार; आत्मप्रशंसा  
कृत्वार. प्रत्येक कार्य में अपनी श्रेष्ठता बताने  
वाला; आत्मप्रशंसा करने वाला. given to  
self-praise in all matters. “ न य भ-

वह अत्तसंपग्गहिए ” दस० ६, ४, १;  
—सम. त्रि० ( -सम ) आत्मतुल्य; पौत्रा  
सभान; आत्मवत्. आत्मतुल्य; अपने  
समान; आत्मवत्. like one's self;  
equal to oneself. “ अत्तसमे मद्देज  
छप्पिकाये ” दस० १०, १, ५; —समाहित्र.  
पुं० ( -समाधिक ) स्वपक्षनी सिद्धि कृत्वामाटे  
पशु भृत्यस्थपणे रही परने दुःख न उपजाना-  
वान् ते. स्वपक्ष का सिद्धि करने के लिए भी  
मध्यस्थभाव से रहकर दूसरे को दुःख न उप-  
जाना. not defending one's own  
side for fear of giving pain to  
others. “ कुजा अत्तसमाहिए ” सूर्य०  
१, ३, ३, १६; —समाहित्र-य. त्रि०  
( -समाहित ) सदा स्वउपयोगमां जेडयेत;  
निर्विकल्पसमाधियुक्त. सदा आत्मोपयोग में  
लगा हुआ; निर्विकल्पसमाधियुक्त. absorbed  
in Nirvikalpa meditation i. e. one in which there is no  
distinction between the knower  
and the known. “ एवं अत्तसमाहिय-  
अणिहे ” आया० १, ४, ३, १३५; —हिय.  
न० ( -हित ) आत्महित; आत्मानुहित-  
श्रेय. आत्मा का हित-कल्याण. well-being  
of the soul; one's own welfare.  
दस० ४;

अत्तग. त्रि० ( आत्मग-आत्मनि गच्छतीत्या-  
त्मगः) आंतरिक; आत्मिक. आन्तरिक; आत्मि-  
क. Inward; relating to the soul.  
“ चिद्वाण अत्तगं सोयं ” सूर्य० १, ६, ७;  
अत्तटु. पुं० ( आत्मार्थ ) आत्मानो अर्थ-  
स्वर्ग, मोक्षादिक. आत्मा का अर्थ-स्वर्ग, मोक्ष  
आदि. Final goal of the soul such  
as heaven, emancipation from  
births etc. “ इह कामनियहस्त, अत्तटु  
नावरजमह ” उत्त० ७, २६; ( २ ) पौत्रानी

भतक्षय; स्वार्थ. अपना मतलब; स्वार्थ. self-interest. “ अतटु गुहयो लुद्धो, बहुपादं पक्षम्बह ” दस० ५, २, ३२;

**आत्माद्वय.** त्रिं ( आत्मार्थिक-आत्मार्थे भव-  
मात्मार्थिकम् ) पेतानेमाटे; पेतानी ज्ञात-  
भाटे. अपने लिये. For one's own  
person. “ अतटियं सिद्धमिहेगपक्षं ”  
उत्त० १२, ११; ( २ ) पेतानुं करेल; स्वीकृ-  
रेल. अपना किया हुआ; स्वीकृत. accepted  
as one's own. आया० १, ६, १, १;  
**आत्मता.** जी० ( आत्मता-आमनो भाव आत्म-  
ता ) आत्मानुं अरितव; ज्ञवनी ह्याती.  
आत्मा का अस्तित्व; Existence of the  
soul; state of being of the soul.  
( २ ) पेताना करेल कर्मनुं परिणाम. अपने  
किये हुए कर्मों का परिणाम. result of  
one's own Karma. “ इह खलु अत-  
ताए तेहि तेहि कुलेहि अभिसेषण संभूता ”  
आया० १, ६, १, १७६;

**आत्मासंबृद्ध.** त्रिं ( आत्मासंबृत-आत्म-  
न्यात्मना संबृतः ) आत्मावडे आत्माभां  
कीन थयेल. आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन.  
Absorbed in the contemplation  
of one's own soul. भग० ३, ३;

**आत्मतथ.** त्रिं ( अत्रस्त ) त्रास वगरनो; भय  
वगरनो; त्रास पामेल नहि. त्रास रहित; भय  
रहित; त्रास नहीं पाया हुआ. Not terrified;  
without fear;not frightened.

नाया० ६; १५;

**आत्मय-आपुं.** (आत्मज) छोकरो;दीकरो; पिताना  
वीर्यथी उत्पन्न थयेल पुत्र. लड़का; पिता के वीर्य  
से उत्पन्न पुत्र. A son. ठा० १०; भग०  
६, ३२; ११, ६; नाया० १; २; ७; ८; ६;  
१२; १४; १६; १८; विवा० १; निर० १, १;

**आत्मया.** जी० (आत्मजा) दीकरी;पुत्री.लड़की;पुत्री.  
A daughter. नाया० ८; १४; विवा० ६;

**आत्मरण.** न० (आत्मरण) पथारी उपर ढाँडवा-  
नुं वस्त्र; ओछाड. विस्तर के ऊपर ढाँकने का  
वस्त्र;चादर. A bed-cover. विशे० २३२२;

**आत्मवं.** पुं० ( आत्मवत् ) आत्माना उपयोग-  
वाणो; सावचेत साधु. आत्मोपयोगी; सावधान  
साधु. (One) self-restrained; (one)  
reflecting upon the soul; e. g.  
a Sādhu. “ भासं निसिर अत्वं ”  
दस० ८, ४६; ( २ ) अक्षयायी आत्मा.  
कषाय रहित आत्मा. soul free from  
Kasaya or evil passions.  
‘ अत्वतो ’ ष० ए० ठा० ६, १;

**आत्मा.** पुं०(आत्मन्) आत्मा; ज्ञव. आत्मा; जीव.  
Soul. पिं० निं० भा० ४;

**आत्माण.** त्रिं ( अत्राण ) त्राण-शरणुरहितः;  
ज्ञेनो डेई २४५ न हेय ते. त्राण-शरण-  
रहित; जिसका कोई रक्षक न हो वह. De-  
fenceless; destitute of refuge;  
helpless. पराह० १, १; विवा० ६;

✓ **आत्मीकर.** ना० धा० II. (आत्मी+कृ) पेता-  
नुं करी लेनुं; पेताना कुर्यामां लेनुं. अपना  
बना लेना; अपने कब्जे में लेना. To take  
possession of; to make one's own.  
आत्मीकरेह. पि० निं० ११२; निसी० ४, १;

**आत्मिकतं.** व० कृ० निसी० ४, १;  
**आत्मेय.** पुं० ( आत्रेय ) आत्रेय-ऋषि. आत्रेय-  
ऋषि. The sage Ātrey. विशे०  
२७६६;

✓ **आत्थ.** धा० I. (आसु) ऐसनुं. बैठना. To sit.  
आत्थाहि. आ० नाया० १;

✓ **आत्थ.** धा० I. ( अस् ) थनुं; हेवुं.  
होना. To be; to exist.

**आत्थिय.** ओव० १७; नाया० १; २; ८; १६;  
भग० २, १; ५, ६; १८, ८;

**आत्थु.** ओव० १२; जीवा० ३, ४;

**आत्थ.** न० ( अस्त ) आथभवुं ते; अदृश्य थवुं;

अंद्र, सूर्य वगेरेनुदेशांतर-क्षेत्रांतरमां जनुं ते.  
अस्त होना; अदृश्य होना; चन्द्र, सूर्य आदि का  
क्षेत्रान्तर में जाना. Setting; disappearing;  
e.g. of the sun, the moon  
etc. स० प० १; २; ३; जावा० ३; दसा० ७, १;  
अथ. न० (अक्ष) कैटवानां हथीगार-तार वगेरे.  
फैकने का अस्त; तार वग़रह. A missile; e.g.  
an arrow etc. पगह० २, २; विश० २०१६;  
अथ. अ० (अत्र) अधिः अधिः इति. यहां.  
Here; in this place. भग० ८, १;  
पञ्च० २;  
अथ. पुं (अर्थ) धन; धृयः संपत्ति; परिपथ  
धन; संपत्ति; परिग्रह. Wealth; riches.  
ओव० ३२; स० प० २०; पगह० १, २; भग०  
१२, ६; स० च० १०, ६५; भत० १०३; नाया०  
१; १८; १८; उत्त० ३२, १०७; (२) लक्ष्मी-  
ना भग्नारूप पर्वत; भेरपर्वत. लक्ष्मी  
का भंडाररूप पर्वत; मंग पर्वत. the Meru  
mountain, treasure of immense  
wealth. गम० १६; (३) तात्पर्य; भत० ५;  
सारांश; भावार्थ. तात्पर्य; मतलब; गारांश.  
meaning, gist; sense. ओव० ४०;  
उत्त० १, २३; ३२, ३; नंदा० ६०: विश०  
१०३६; (४) शम्भना अभिन्नत्य; वाच्यार्थ;  
विप्य. शब्द का वाच्यार्थ; विषय. the ex-  
pressed meaning of a word. विश०  
१०७१; १३६६; ओव० १६; भग० ५, ४; ८,  
८; २५, ७; पि० नि० ६७; १२६; १६०; (५)  
अपेक्षा अपेक्षा. standpoint; expectation;  
relation. जावा० १: (६) पदार्थ;  
अभिलाप्य पदार्थ. पदार्थ; अभिलाप्य पदार्थ.  
a substance. विश० १२८; १०३७;  
(७) शम्भादि पांच विप्य. शब्दादि पांच  
विषय. the sense-contacts. पञ्च० १५;  
विश० १७६; (८) भेदः परमार्थ. मोक्ष  
immortality. दस० ५, २, ४३;

—अतिथि. त्रि० (-अर्थिन्) धननो अर्थी;  
धननो यात्रुः. धन का अर्थी; धन का यात्रक.  
needy of wealth; (one) begging  
money. भग० १५, १;—अतिथ्य-अ.  
त्रि० (-अर्थिन्) जुँगा “अत्थअतिथि” शम्भ०.  
देखो “अत्थअतिथि” शब्द. vide ‘अत्थअतिथि.’  
नाया० १; जं० प० ३, ६७;—अभिम-  
सुह. त्रि० (-अभिमुख) अर्थ अहेण के-  
वामां चतुर. अर्थ प्रहण करने में चतुर.  
clever in grasping meaning.  
विश० ८०;—अभिसंकिति. त्रि० (-अभिस-  
क्षिक्ति) धननी यादना-धृष्टा करनार. धन  
का चाहना करने वाला. (one) longing  
for wealth; (one) desirous of  
getting wealth. नाया० १८;  
—अलिय न० (-अलीक) द्रव्यनेमाटे  
जुँग योद्धुं ते. द्रव्य के लिये असत्य बोलना.  
telling a lie for the sake of  
wealth. पगह० १, २;—अवगगह. पुं  
(-अवग्रह) पदार्थना इदियोनी साथे २५४  
संश्यंध थाय ते: भनिनानना अङ्क भं८. पदार्थ  
का इन्द्रियों के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होना; मात्र  
ज्ञान का एक सद. connection of an  
organ of sense with its object;  
a variety of Matijñana. नाया० १;  
सम० २८;—आदाण. न० (-आदान)  
द्रव्यउपार्नन करवाना कारणरूप अष्टांग  
निभितः आह प्रकारना निभित प्रकाशवा ते.  
द्रव्योपार्जन करने के कारणरूप अष्टांग  
निभित. interpreting any or all  
of the eight varieties of signs  
and omens with a view to  
earn money. ठा० ३, ४;—आलोयण.  
न० (-आलोचन) अर्थनुं आलेयन करवुं-  
चितवन करवुं ते. अर्थ की आलोचन-  
चितवन करना. reflecting upon the

meaning of. पंचा० १, ६;—उग्राहुं (—जवग्रह) व्यञ्जनावग्रह पछी अर्थात् सामान्यपशु ग्रहण करवुं ते; पांच इदिय अने भनसाथे पदार्थो व्यक्त संबंध थाय ते. व्यञ्जनावग्रह के पश्चात् अर्थ का सामान्यतया ग्रहण करना; पांच इन्द्रिय और भन के साथ पदार्थ का व्यक्त सम्बन्ध होना. perception of a determinable sense-object; the definite connection of the sense-object with five sense-organs and the mind. सम० ६; नंदी० २७; क० गं० १, ५;—उग्राहुणा० न० (—जवग्रहण) करणी। इतनो निश्चय करवो। ते. करनी-कर्म के फल का निश्चय करना. determining about the results of actions. भग० ११, ११;—ओग्राहुं (—जवग्रह) पांच इदिय अने भननी साथे पदार्थो निश्चय थतां जे प्रथम सामान्य घेअथ थाय ते. पांच इन्द्रिय और भन के साथ पदार्थो का सम्बन्ध होने पर जो प्रथम सामान्य बोध होता है वह. the first perception of a determinable sense-object due to the connection of the object with the five sense-organs and the mind. क०प्य० १, ३; विशेष० २६४; भग० ८, २; ठा० ३, १;—ओग्राहणा० न० (—जवग्रहण) इतनिश्चय. फल का निश्चय. certainty about result भग० ११, ११;—कंकिलय. त्रि० (—काङ्क्षिक) अर्थ-धननी आकंक्षा-तृष्णावगेण. धन की तृष्णा वाला. desirous of, bankering after, wealth. भग० १, ८; १५, १;—कर. त्रि० (—कर) धन भेणवनार. धन उपार्जन करने वाला; इव्य संपादक करने वाला. one, acquiring we-

alth. वर० १०, ४;—कहाण. ली० (—कथा) अर्थ-द्रव्यसंबंधी कथा, जेम के दृष्टि विनाने। भनुष्य तुष्य तुल्य छे धृत्यादि. धन संबंधी कथा, जैसे कि, धनहीन भनुष्य तृण के समान है इत्यादि. talk about wealth; e.g. talking about the miseries of poverty. ठा० ३, ३;—कामआ॒य. त्रि० (—कामक-अर्थे द्रव्ये कामो वास्त्रामात्रं यस्याऽसावर्थकामकः) दृष्टिनी वांउच्छनावगेण. द्रव्य की चाह वाला. desirous of wealth. भग० १, ७;—गवेसणाया॒. ली० (\*—गवेषणा-गवेषणा) धन-नी गवेषणा-शोध करनी। ते. धन की खोज करना. search after wealth. भग० १५, १;—गवेसि॒. त्रि० (—गवेषिन्) धननी गवेषणा-शोध करनार. धन का अन्वेषण-खोज करने वाला. (one) searching after wealth. भग० १५, १;—गग्रहणा० न० (—ग्रहण) अर्थ-पदार्थात् ज्ञान; पदार्थो निश्चय करवो। ते. अर्थ-पदार्थ का ज्ञान; पदार्थ का निश्चय करना. knowledge of the meaning of a word or words etc. विशेष० ०;—जाय. न० (—जात) दृष्टिना प्रकार-ज्ञभीन, भरास, जनवर वगेरे. इव्य का भेद-जमीन, जागीर, पशु आदि. different forms of wealth; e. g. land, animals etc. वेय० १०, १६; पंचा० १०, १३;—जोणि॒. त्रि० (—योनि) पैशानी उत्पत्तिनां स्थान; पैशा भेग नवाना उपाय. धन की उत्पत्ति का स्थान; धन उपार्जन करने का उपाय. means of gaining money. तिक्किहा अरथज्ञेषी वक्ता, तंजहा-सामें दंडे भेष “ ठा० ३, ३;—णय. पु० (—नय) अर्थभेदान नय; अर्थो आश्रय करनार-नैगम, संग्रह, व्यवहार अने अङ्गुभेद ए चार नय. अर्थप्रधान नय; अर्थ का आश्रय लेने वाले नैगम, संग्रह, व्यवहार

और ऋजुसूत्र ये आर नय. standpoint relating to the object considered. It is the collective name of four standpoints viz Naigama, Saṅgraha, Vyavahāra and Rijusūtra. “नैगमाद्याश्रत्वारोऽप्यर्थनया अर्थमेव प्राधान्येन शब्दोपसर्जनमिच्छन्ति” सूत्र ० ई० २, ३, ४०;—रिउर. पु० (-निकुर) ८४ लाभ अर्थनिकुरांगप्रभाषु काणविशेष. ८६ लाभ अर्थनिकुरांगप्रभाषा कालविशेष. a period of time measuring eighty-four laes of Arthanikurāṅga. जीवा० ३, ४; ज० प० २, १८;—रिउरंग. पु० (-निकुराङ्ग-निपूराङ्ग) ८४ लाभ नलिनप्रभाषु काणविशेष. ८८ लाभ नलिनप्रभाषा कालविशेष. a period of time measuring eighty-four laes of Nalinas. जीवा० ३, ४;—दंड. पु० (-दण्ड) शरीरादि निर्वाह अर्थं पर्याप्त थाय ते; स्तांष्ट्रं हंडतु ते. शरीरादि के निर्वाह के लिये कर्मयं प होना; स्तांष्ट्र के लिये दंडित होना. Karma arising from actions done to support one's body etc. ग्रव० ८२६; परण० २, ५;—धर. त्रि० (-धर) शास्त्रों अथै धरनार; अर्थवेता. शास्त्र का अर्थ धारणा करने वाला; अर्थवेता. (one) well-versed in the meaning of Sāstras. ठा० ३, ३;—निजजदश. त्रि० (-निर्यापक) नयप्रभाषु लाभु भाडी सूत्रना अर्थनो निर्यापक डरनार. नय प्रभाषा को अन्वित कर सूत्र के अर्थ का निर्वाह करने वाला. (one) explaining the Sūtras with logical reasoning of stand points. दरा० ४, ३१;—पञ्जय. पु० (-पर्याय) अर्थना ऐक देशनु प्रतिपादन

कृतनार पर्याय; अर्थकृप पर्याय. अर्थ के एक देश का प्रतिपादन करने वाला पर्याय; अर्थहृष पर्याय. a modification explaining a part of a substance. विशेष ३६८:- एथ. न० (-पद) “उत्पाद, व्यय अने ग्राह्ययुक्त सत्” धृत्याहि अर्थ प्रतिपादक-प्रधान पद. उत्पाद, व्यय और धौव्य युक्त पदार्थ होते हैं। इसप्रकार अर्थ का प्रतिपादन करने वाला-प्रधान पद. a term such as one conveying the meaning of a substance with the three attributes of creation, sustained existence and destruction. प्रब्र० १५१७;—पिदासिय, प्रिं (-पिदासिन) धननी तृप्तिवागी; धन भेणन वान आनुरथेत्र. धन का तृष्णण वाला; धन पात करने के लिये आतुरित. greedy; thirsty of wealth. भग० २, ७; १५, १;—पुहुचा. न० ( पृथुवा-पृथुविस्तरीयं तस्य भावः पृथुव्यम् अर्थस्य पृथुव्यमर्थपृथुव्यम् ) धृत्याहि पदार्था। विस्तार२४५ श्रुतशान; यामान्य श्रुतज्ञान. जीवादि पदार्थों का विस्तारवा श्रुतज्ञान; रामान्य श्रुतज्ञान. Śruti-jñāna consisting of a detailed description of Jīva or soul and other categories. “जं वा श्राधेण पुहुं अत्थपुहुत्तंति तदभावो” “अथपुहुत्तस्त तेहि कहियस्त” विशेष० १०७२;—भाव. पुं० (-भाव) शम्भना अर्थमां लाप-उपरोक्त वंडवो ते. शब्द के अर्थ में भाव का जोड़ना, associating action or use with the meaning of a word. “तदत्थभावा गिओगेण” पंचा० ३, ४५;—मास. पुं० (-माष) भासी; सानुं, रेखनेभवानुं च रति भारनुं अंक पञ्चन. माश; सुवर्णी तोलने का व रत्ती भर का एक

**बाट.** a measure of weight equal to eight Rattis; ( one, Ratti—about two grains). नाया० ५; भग० १८, १०;—**लाभ.** पुं० (-लाभ) धननो लाभ; धननी प्राप्ति. धन का लाभ; धन की प्राप्ति. acquisition of wealth. भग० ११, ११; नाया० १;—**लाह.** पुं० (-लाभ) धननी प्राप्ति. धन की प्राप्ति. acquisition of wealth. कप० १ द;—**लुड़.** त्रिं० (-लुड़) द्रव्यनी लालसापाणे; द्रव्यतुरु० द्रव्यनो लेकी. द्रव्य का लोटी; द्रव्य की लालसा वाला. greedy of wealth. भग० १५, १;—**वायग.** न० (-वाचक) अर्थवाचक पद, रूपमें दृश्य से धृत्यादि. अर्थवाचक पद; जिसे बृह है, पठ है आदि. a complete or inflected word expressive of a meaning. विशेष० १००३;—**वि. त्रिं०** (-विन) शार्दूर्ध ने ज्ञाननार. शब्दार्थ को जानने वाला. knowing the meaning of words. त्रिं० निः० भा० १;—**विणिच्छय.** पुं० (-विनिश्चय) पदार्थनो-यथार्थ निश्चय. पदार्थ का यथार्थ निश्चय. correct and well-established meaning of scriptural words, categories etc. “बहुस्मुञ्च पञ्जुबासिज्ञा, पुच्छज्ञात्यविणिच्छयं” दस० ५, ४४;—**ब्वावण.** पुं० (-ब्वापन) सर्व अर्थप्रत्ये व्याप्त थनार. सब अर्थों में व्याप्त होने वाला. pervading the whole Artha i.e. meaning etc. विशेष० ८६;—**संजुत्त.** त्रिं० (-संयुक्त) अर्थसहित; सार्थक. अर्थसहित; सार्थक. accompanied with meaning. “विउकं अथसंजुत्तं, कित्तहस्तं सुखेह मे” दस० ५, २, ४३;—**संपदा.** ली० (-सम्पदा) धननो वैभव; धननी संपदा. धन का वैभव; धन की संपदा.

opulence or magnificience of wealth. विवा० १; नाया० द; १३;—**संपदाण.** न० (-सम्पदान) अर्थ-धननु दान। देनु ते. धन का देना; धन दान करना. gift of wealth. नाया० १६;—**सत्थ.** न० (-शास्त्र) अर्थशास्त्र; पैसों डेवी रीते लेगा। करवो नेनी रीति अतावनार शास्त्र. अर्थशास्त्र; धनसंनय करने की रीति बताने वाला शास्त्र. science of wealth; political economy. मु० च० ४, ३१३; राय० २०६;—**सत्थकुशल.** त्रिं० (-शास्त्रकुशल) अर्थशास्त्रमें दुश्वाद-दशीयार. अर्थशास्त्र में निपुण-कुशल. well-versed in political economy. ज० प० ३;—**सार.** पुं० (-सार) प्रधान धन; रोकड़ द्रव्य; सार द्रव्य; तत्त्वमात्र. प्रधान धन; नक्दमाल; रोकड़ धन. cash money; essence. नाया० २;—**सिद्धि.** ली० (-सिद्धि) इर्पि सिद्धि. कार्याभिद्धि; मतलब का पूरा होना. accomplishment of object. गणि० १; नाया० द;—**सुग्राण.** त्रिं० (-शून्य) अर्थ-वगरनु; निरर्थक. अर्थ रहत; निरर्थक; बिना मतलब का. useless; meaningless. ठा० १, १;

**अन्थओ.** अ० ( अर्थतस् ) अर्थनी अपेक्षाये; अर्थश्चि; अर्थ आश्री; अर्थरूपे. अर्थ की आपेक्षा से; अर्थ में; अर्थरूप में. In the form of meaning; from the point of meaning. “सो होइ अभिगमरह, सुयनाणं जेरा अन्थओ दिङ्ग” उत० २८, २३; नाया० १; प्रद० ६७०;

**अन्थंग.** पुं० ( अस्ताङ्ग ) भरतश्चेनता गर्भ चानीशीना पंद्रभा तीर्थकरनु नाम. भरत क्षेत्र का गत चारीसा के १५ वें तीर्थकर का नाम. Name of the 15th Tirtha-kara of Bharata Kṣetra.

in the past Chovisi. प्रब० २६२;  
अत्थंगय. त्रि० ( अस्तमत ) आथभेदोऽरस्त  
थयेदो. अस्तंगत; अस्त हो सुका हुआ. Set;  
e.g. the sun, the moon etc.  
“ अत्थंगयास्मि आहूषे, पुरत्थाय अणुगणए ”  
दस० ८, २८;

अत्थंत. व० कृ० त्रि० ( अस्तमयत ) आथभतो;  
अस्त थतो—पाभतो. अस्त होता हुआ.  
Setting. “ अत्थंतंसिय सूर्यमि, आहारेह  
अभिकलशं ” उत्त० १७, १६;  
\* अत्थङ्क. न० ( अनवसरे ) अवसर निना;  
वण्णत वग्र. बिना अवसर के, बेसीके.  
At an improper time; too early  
or too late. सु० च० २, ३८०;

अत्थध. त्रि० ( अर्थेन्द्र ) अर्थनीहानि इत्यार.  
अर्थ की हानि करने वाला. Destructive  
of Artha i.e. wealth etc. ओष्ठ०  
निं० १४;

अत्थधरण. पु० ( आस्थानगृहक ) ज्यां  
आवी हेवता सुभे ऐसे अंवां धर. ऐसा घर  
जहाँ देवगण आकर सुख पूर्वक बैठें. A  
house worthy of abode for  
gods. राय० १३६;

अत्थमण. न० ( अस्तमन ) सूर्यनु आथभनु  
ते; सूर्यनु अस्त थनु ते. सूर्य का अस्त होना.  
The setting of the sun. राय० ६२;  
जं० प० ७, १३६; सम० १६;—सुहुत्त. न०  
(—मुहूर्त ) सूर्यास्त थवानु सुहूर्त—वप्त.  
सूर्यास्त होने का सुहूर्त—समय. time of  
sunset. भग० ८, ८;

अत्थमय. न० ( अस्तमय ) सूर्यवगेरेनु अस्त  
थनु—अहृत् थनु ते. सूर्यादि का अस्त  
होना. Setting of the sun etc. भग०  
२, १०;

अत्थमाण. व० कृ० त्रि० ( \*आसीन ) ऐसतो;  
१भशानादिमां वास इरतो. बैठता हुआ; रमशा-

नादि में रहता हुआ. Sitting; residing  
in such places as a cemetery  
etc. “ तथ से अथमाणास्त, उषसमा-  
भिधारण ” उत्त० २, ३१; भग० ७,  
१; ८, ४;

अत्थमिश्र. त्रि० ( अस्तमित ) अस्त पाभेद;  
आथभेद; सर्व आथभी गयेत. अस्त प्राप्त;  
अस्त हुआ. Set; e.g. the sun. वेय०  
५, ६; विशेष० १५६; ओष्ठ० ५०७; सूर्य०  
१, २, २, १४;—उद्विध. त्रि० ( -उदित )  
जे आथभीने पाणि उग्या होय ते; अर्थात्  
हीनकुण्डभां ज्यन्मी भषुतपै भेणव्युं होय  
ते; जेभ हरकेशी भुनि. अस्त होकर फिर  
उत्पन्न होने वाला; अर्थात् हीनकुल में उत्पन्न  
होकर महत्पद प्राप्त करने वाला; जैसे कि, हर-  
केशी भुनि. risen after having set;  
i.e. a person of low birth  
rising to greatness,like the sage  
Harakeshi. ठा० ४, ३;—अत्थमिय.  
त्रि० (—अस्तमित) आथभीने पुनः आथभेद  
होय ते अर्थात् हीनकुण्डभां उत्पन्न थधु पुनः  
अवा हुएकर्म करेके भरीने हुर्गितिभां यात्ये।  
ज्यय-ज्येभ कालसुरियो। कसाई। अस्तंगत  
होते हुए फिर अस्त होना, अर्थात् हीन कुलमें  
उत्पन्न होकर फिर इस प्रकार के दुष्कर्म करना  
जिससे दुर्गति प्राप्त हो. जैसे कालसुरिया नामक  
कसाई. set once more i.e. a person  
born in a low family and ensuring  
the same kind of birth by  
evil actions like the butcher  
Kalaśūriyā. ठा० ४, ३;

✓ अत्थमे. धा० I. ( अस्त+इण् ) आथभनु;  
अस्तपाभनु. अस्त होना. To set ( as  
opposed to “ to rise ” ).

अत्थमेह. प्रब० ५८८;

अत्थरण. न० ( अस्तरक ) आभास्तम;

ओऽपि० आच्छादन; चादर. A covering; a bed-cover. नाया० १; जीवा० ३, ४; भग० ११, ११;

अत्थरण. त्रिं० ( अस्तरज्ञ ) निर्भै०; स्वच्छ. निर्मल; स्वच्छ; साफ़. Free from dirt; pure. “ अत्थरयमिडमसूरगोथयं ” भग० ११, ११;

अत्थरण. न० ( आस्तरण ) ओऽपि०.आच्छादन; पर्दा. A covering; a bed-cover. अंध० नि० ७२;

अत्थरय. न० ( आस्तरक ) युग्मे। “ अत्थरग ” शब्द. देखो “ अत्थरग ” शब्द. Vide “ अत्थरग.” नाया० १; जीवा० ३, ४; भग० ११, ११; कप्प० ४, ६३;

अत्थव्यष्ण. पुं० ( अर्थव्यष्ण ) अर्थरेणुनामे चार वेदमानो एक वेद. चार वेदों में से अर्थव्यष्ण नामक एक वेद. the Atharvapna Veda; one of the four Vedas. “ जाव अथव्यष्णकुसले यावि होत्था ” विवा० १, ५; नाया० ५; १६; भग० ६, ३२;

अत्थसिद्ध. पुं० ( अर्थसिद्ध ) नं॒ अ॒ द्व॑ इ॑ पना। ऐरावतक्षेत्रभां आपत्ति॒ उत्सर्पिणीभां थनार॒ भी॒ ना॒ तीर्थ॒ कृ॒ जम्बूद्वीप के ऐरावतक्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी में होने वाले दूसरे तीर्थकर. The future second Tirthankara of the coming Utsarpini in the Airavata Ksetra of Jambudvipa. नाया० ८; सम० १० २४२; ( २ ) पक्षना दशमा हिंसनुं लोडिातर नाम. पक्ष के दसवें दिन का लोकोत्तर नाम. name of the 10 th day of a fortnight in the Lokottara world. “ अत्थसिद्धे अभिजाते असासवे य संतज्जए ” सू० प० १०; १४; जं० प० ७, १५२;

अत्था. ली० ( आस्था ) जिनशासनमत्ये

भुमानपणुं; आस्था; अद्वा. जिनशासन के प्रति श्रद्धा रखना; आस्था रखना. Faith; reverence; e. g. for Jainism. जीवा० १;

अत्थाण. न० ( आस्थान ) अविष्य; अप्रसंग. अप्रसंग. Anything inappropriate. विशे० ६७१;

अत्थाण. न० ( आस्थान ) सभागृह; ऐटक. सभागृह; सभास्थान. A council hall; a meeting-house. सू० च० २, ३६६; ४, ३६;

अत्थाणी. ली० ( आस्थानी ) सभा; ऐटक. सभा; बैठक. A meeting. विं० नि० द८;

अत्थात्थमण्णपविभृति. पुं० ( अस्तास्तमन्-प्रविभृति ) ज्ञेमां येद्भा, सर्व आथभ्याना दृश्य अतावत्तामां आदे अवे। एक नाटक प्रकार; देवताना भवीश प्रकारना नाटकमानो नूमें प्रकार. एक प्रकार का नाटक, जिसमें सूर्य, चंद्र के अस्त होने का दृश्य बतलाया जाय; देवताओं के दर्तास प्रकार के नाटकों में से ६ वें प्रकार का नाटक A variety of drama exhibiting scenes of the setting sun and moon; the ninth of the thirty-two kinds of dramas of gods. राय० ६२;

अत्थाम. त्रिं० ( अस्थामन् ) शारीरिक अक्षरहित; सामान्य शक्ति वगरनो. शारीरिक बल से रहित; सामान्य शक्ति रहित. Physically weak. नाया० १; द८; १३; १६; १८; भग० ७, ६;

अत्थावति. ली० ( अर्थापति ) अत्यक्षादि प्रभात्युथी जाणुयेद अर्थ जेना दिना उपपन न थाय, तेवा अदृष्ट अर्थनी कुपपना करवी ते अर्थापति, जेम “ पीलो देवदत्तो दिवा न भुक्ते ” ए वाक्यमां देवदत्तुं पुष्टपृष्ठे रानि बोजन दिना उपपन नथी, तेथी रात्रिभोजननी

कृपना। थाय छे ते अर्थापति. प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परिज्ञात अर्थ जिसके बिना उपपनन न हो ऐसे अहश्च अर्थ की कल्पना, जैसे मोटा ताजा देवदत्त दिन में नहीं खाता, परन्तु भोजन बिना मोटा ताजा हो नहीं सकता तो रात में अवश्य खाता होगा, ऐसी कल्पना करना अर्थापति है। An inference used to account for an apparent inconsistency. e. g. from the sentence "Fat Devadatta does not dine by day" the inference is that he dines by night. एंड० नि० ४५७; पंचा० ४, ३६;—दोस० पुं० (—दोष ) न्यां अर्थापतिथी अनिष्टपञ्चानी प्राप्ति थय त्यां लागतो सुत्रनो एंड० दोष० नैभ "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" एंड० सुत्र वांच्यु दोय तो आत्मानु भारवेा त्यारे अथात्मणु-क्षतियाहिक्तन भारवानु अर्थापतिथी आयी पृ० ४७, के नै अनिष्ट छे, भाटे त्यां अर्थापतिदोष० छे। सुत्र रचनामां ते दोष टागवेा न्यां अर्थापति से हाँग वाला दोष-सूत्रदोष, जैसे कि, "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" अर्थात् ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, यह एक सूत्र बनाया, परन्तु अर्थापति से इसका यह अर्थ भी होता है कि, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये पर ज्ञात्रियादि को मारना चाहिए, ऐसा अर्थ अनिष्टकारक होने से यह एक दोष है, जो अर्थापति के कारण होता है, इस दोष को सूत्र रचना में न आने देना चाहिए। a faulty construction of an aphorism involving by Artha-patti, an undesired result e. g. "a Brāhmaṇa should not be killed", here the inference viz. a non-Brāhmaṇa may be killed, is involved. पंचा० ४, ३६;

**अत्थाहि. त्रि० ( अस्तिथि ) अगाधःधृष्णु उ०५४.**

आगाध; बहुत ऊँडा-गहरा. Very deep. unfathomable. भग० १, ६; ७, १; नाया० ६; १४; १६; पि० नि० ३२२; **अत्थाहिगार.** पुं० ( अर्थाधिकार ) प्रकरण वर्गेरेतुं अस्तिथि-निधि० उपक्रमो एक भेद० प्रकरण वर्गरह का विषय; उपक्रम का एक भेद. The subject or topic of a chapter etc.; a sub-division of Upakrama. "अहवा उपक्रमे छविवहे परगाते, तंजहा-आणुपुञ्ची नामं पमा णं वतव्यया अत्थाहिगारे; समोआरे" अणुजो० ७०; ५८;—जाणुआ. त्रि० ( \*-ज्ञायक ) अर्थातुं स्वरूप भरावर समजनार आटले चुधी के ते अर्थना उपयोगमां तन्मय अती जय; दाखला तरीडे एक भाग्युसु 'धर्म' शब्दना अर्थमां उपयोगवतं दोय, धर्मनुं स्वरूप भरावर समजतो दोय तो ते भाग्युसने शब्दादि नयवाणा 'धर्म' तरीडे ओगापे अथवा 'धर्म' कही जोलावे। अर्थ का स्वरूप यहाँ तक ठीक ठीक समझने वाला कि, उस अर्थ के उपयोग में तन्मय हो जाय; उदाहरणार्थ एक मनुष्य "धर्म" शब्द के अर्थ में इतना उपयोग वाला हो और वह धर्म का स्वरूप इतना ठीक ठीक समझता हो कि, उस मनुष्य को शब्दादि नय वाले धर्मरूप ही समझे और "धर्म" कह कर उसे बुलावें। ( one ) thoroughly knowing the meaning and so much absorbed in it that he is unable to perceive any thing else properly. अणुजो० १४८;

**अस्तिथि.** अ० ( अस्ति ) छे; विद्यमान; उपातिमां है; विद्यमान; मौजूद. Being; existent; so it is. " अस्तिथिण भंते, जीवाणं पाणाह्वाण्यं किरिया कज्जह " ओव० ३४; भग० १,

१; ६; १०; ३, १; ३, २; ५, ६; १८, ३; दस० ५, २, २७; १०, १, ७; अग्निजो० ८०; सू० प० २०; नाया० १; २; ८; १४; १६; ( २ ) पुं० धर्मस्तिकाय आदिना प्रदेश-सद्गम अंश. धर्मास्तिकाय आदि का प्रदेश. atomic portions of Dharmāstikāya etc.

( ३ ) पञ्चवणा सूत्रना त्रीणि पदना ऐडवीस-भा द्वारातुं नाम, जेमां धर्मस्तिकाय आदि ७ द्रव्यनुं अदपाअहुतः दर्शाव्युं छे. पन्नवणा सूत्र के तासरे पद के २१ वें द्वारा का नाम, जिसमें धर्मास्तिकायादि छः द्रव्यों का अल्पा-बहुत्व दिखाया गया है. name of the twenty-first Dvāra of the third Pada of Pañnavāṇī dealing with the six substances such as Dharmāstikāya etc. पन्न० ३;

**अस्थि.** त्रि० ( अर्थिन् ) धनिकः श्रीमंत. धनवान्. A wealthy man. पंचा० १०, २६; ( ४ ) सूत्र अने अर्थने नाण्नार गुरु. सूत्र और अर्थ को जानने वाला गुरु. ( one ) knowing a Sūtra and its meaning; e. g. a preceptor. विशेष० १४४६;

**अस्थि. न०** ( अस्थि ) दाढ़ि. हड्डी. The bone. प्रव० १३४४; —खंड. न० ( -खण्ड ) दाढ़िनो॒ कृकौ। हड्डी का टुकड़ा. a piece of bone. प्रव० १३४४; —मिज्ज. न० ( -मज्जा ) हाउनी भिज्ज. हड्डी की मज्जा. the marrow of the bones. दसा० १०, ८;

**आस्थिङ्ग.** त्रि० ( आस्तिक ) शुभ, अशुभ, स्वर्गी, नरक, भैक्ष आदिने भानवापागेह; आस्तिक. जीव, अजीव, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि का आस्तिन्व मानने वाला; आस्तिक. ( One) believing in the existence of soul, heaven, hell, absolution etc. ठा० ४, ४;

**अस्थिङ्ग.** त्रि० ( अर्थिक ) धृष्टिवाग्जु; अर्थी; भावन्यु. इच्छा वाला; अर्थी; लालची. Desir-

ous of; covetous of. ओव० १३; अस्थिङ्ग. पुं० ( अस्तिक ) व्युधीज्जवाणु वक्ष-विशेष; अग्निथियाणु झ॑. बहुबीज वाला वृक्ष-विशेष. A kind of tree with many seeds. ( २ ) न० ते आउनां इह. बहुबीज वाले वृक्ष का फल. a fruit of the above-said tree. दस० ५, १, ७३; जीवा० १; पञ्च० १; भग० २२, ३; अस्थिउद्देशय. पुं० ( अस्त्युद्देशक ) अगवती सूत्रना २० भा शतकना भीग उद्देशाणु नाम. भगवती गृह के २० वें शतक के दूसरे उद्देशो का नाम. Name of the second Uddesha of the twentieth Śataka of Bhagavati Sutra. भग० २०, २; अस्थिकाय. पुं० ( आस्तिकाय ) धर्मस्तिकाय आदि पांच द्रव्य; अस्तित-प्रदेश, काय-समूह-प्रदेशना समूहरूप काणा शिवाना पांच द्रव्य, तेमां चार अशुभ अने अंक ७४३. धर्मास्तिकाय आदि पांच द्रव्य; अस्तित-प्रदेश, काय-समूह प्रदेश के समूहरूप काल द्रव्य के सिवाय अन्य पांच द्रव्य, जिनमें चार अर्जीव और एक जीव है. One of the five embodied substances viz Dharma, Adharma, Akasha, Pudgala and Jiva. “ चनारि अस्थिकाया अजीवकाया • पञ्चता. तंजहा- धर्मस्तिकाए अधर्मस्तिकाए आगायस्तिकाए पोगलत्तिकाए ” ठा० ४, ४; सू० २, १, २३; पञ्च० १५; सम० ५; भग० २, १; १०; ७, ६; २४, ४; —धर्मम्. पुं० ( -धर्म ) अस्तिकायरूप धर्म; गतिभां सदाय करनार धर्मास्तिकायरूप द्रव्यधर्म. आस्तिकाय रूप धर्म; गति में सहायता करने वाला धर्मास्तिकाय रूप द्रव्यधर्म. a substance which is the medium of motion to soul and matter. ठा० १०; प्रव० ६७४;

**अस्तिथक.** न० ( आस्तिकय ) अस्तितपाण्डु; शूव, अशूव, स्वर्ग, नरकादिने मानवां ते. अस्तिकपन; जीव, अजीव, स्वर्ग, नरक आदि का मानना. Belief in the existence of soul, non-soul, heaven etc. पंचा० १०, ६;

**अस्तिथक.** न० ( अस्तित्व ) अस्तित्व; विद्यमानपाण्डु; हेत्यापाण्डु; हयाती. मोजूदगी; विद्यमानता. Existence. “से शूण्य भंते ! अस्तित्वं अस्तित्वे परिणामहृ” भग० १, ३;

**अस्तिथनास्तिथपद्धत्याय.** पु० ( अस्तिनास्तिप्रवाद ) अस्तितनास्ति नामनो चैथेऽपूर्व, चैद्यपूर्वः शास्त्रभास्तुं अेक, नेमां अस्तित्व, नास्तित्वनुं विवेचयन हतुं; हाल तेनो विषेद थयेत छे. अस्ति नास्ति नामक चौथा पूर्व; चौदह पूर्वों में से एक पूर्व, जिसमें अस्तित्व, नास्तित्व का विवेचन था. हाल में उसका विच्छेद हो गया है. The fourth Pūrva of the scriptures; one of the fourteen Pūrvas dealing with existence and non existence. It is no longer extant; सम० १६; १८; नंदा० ५६; प्रव० ७१६;

**अस्तिथनित्तर.** पु० ( अर्थनित्तर ) जुओ। “अस्ति गित्तर” शब्द. देखो “अत्थगित्तर” शब्द. Vide “अस्तिगित्तर.” अगुजो० ११५; भग० ५, १;

**अस्तिथनित्तरंग.** न० ( अर्थनित्तराङ्ग ) जुओ। “अत्थगित्तरंग” शब्द. देखो “अत्थगित्तरंग.” शब्द. Vide “अस्तिगित्तरंग.” भग० ५, १; अगुजो० ११५;

**अस्तिथभाव.** पु० ( अस्तिभाव ) विद्यमानपाण्डु; अस्तित्व. विद्यमानपन; अस्तित्व. Existence; ( २ ) सत्पदार्थ; विद्यमान वस्तु. सत्पदार्थ; विद्यमान वस्तु. an existing thing. भग० ७, १०; ओष० ३४;

**अस्तिथया.** श्री० ( अस्तित्वा ) अस्तित्व; हेत्या पाण्डु. मौजूदगी; अस्तित्व. Existence. विश० १७२१;

**अस्तिथर.** त्रिं० ( अस्तिथर ) अपरिचित. अपरिचित; विना पहिचान का. Unacquainted; unfamiliar. “अस्तिथरस्तु पुष्टगाहियस्तु बत्तशा जं हह थिरीकरण” पंचा० १२, ४५; ( २ ) अट्टकाउ; आजो वभत चाले नहि अेमुं. जुयादह समय तक न टिक सकने वाला. not lasting. भग० १, ६;—**छक्क.** न० ( -षट्क ) अस्तिथर, अशुभ, दुर्भग, हुःस्वर, अनादेय अने अन्यसभीति ए नाम कर्मनी छ प्रकृतिअयो। सभुदाय, अस्तिथर, अशुभ, दुर्भग, हुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति इन नाम कर्म की छः प्रकृतियों का समुदाय. the group of the six varieties of Nāmakarma viz. Asthira, Aśubha, Durbhaga, Dusvara, Anādeya and Ayaśakirti क० गं० १, २८;—**णाम.** न० ( -नामन् ) जेना उद्यथी कान, आंख वगेरे शरीरना अवयवे। अस्तिथर भगे ते नाम कर्मनी अेक प्रकृति. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से कान, आंख वगैरह शरीर के अवयव स्थिरता रहित हों. a variety of Nāmakarma maturing into unsteadiness of eyes, ears etc. क० गं० ५, ६;—**तिग.** न० ( -त्रिक ) अस्तिथर नाम, अशुभ नाम अने अपराकीर्ति नाम ए त्रियु नाम कर्मनी प्रकृति. अस्तिथर नाम, अशुभ नाम और अयशःकीर्ति नाम ये नामकर्म की तीन प्रकृतियां. the group of the three varieties of Nāmakarma viz Aśubhanāma, Ayaśakirtināma and Asthiranāma. क० ४० २, १०२;—**दुग.** न० ( -द्विक ) अस्तिथर.

नाम अने अथुभनाम् ए नामकर्मनी ऐ  
प्रृति. अस्थिरनाम् और अशुभ नाम ये  
नामकर्म की दो प्रकृतियाँ. the group  
of the two varieties of Nāma-  
karma viz Asthiranāma and  
Aśubhanāma. क० गं० २, ७;

**अस्थिरवाच.** पु० ( अस्थिरवाच ) सत्पदार्थोंतुं  
अस्तित्व स्थापतुं-ज्ञेभ आत्मा छे, कर्म  
छे, भोक्ष छे, भोक्षनो उत्तम छे धृत्याहि सत्  
पदार्थोंतुं सत्त्व अने शशृंग, भुपुष्प आदि  
असत्पदार्थोंतुं असत्त्व २१३२४ ते. सत्पदार्थों  
का अस्तित्व स्थापन करना; जैसे कि, आत्मा  
है, मोक्ष है, कर्म है आदि सत्पदार्थों का सत्त्व  
और आकाशकुमुम, बन्धायुत्र आदि अस-  
पदार्थों का असत्त्व स्वीकारयुं ते. सत्पदार्थों  
का अस्तित्व स्थापन करना; जैसे कि, आत्मा  
है, मोक्ष है, कर्म है आदि सत्पदार्थों का सत्त्व  
और आकाशकुमुम, बन्धायुत्र आदि अस-  
पदार्थों का असत्त्व स्वीकार करना. Doctrine  
accepting the existence of realities like soul, Karma,  
absolution etc. “ यथि लोए अलोए  
वा, ये व सज्ज निवेसए ” अथि लोए अलोए वा,  
एवं सज्ज निवेसए ” सू० २, ५, १२;  
**अत्थुय.** त्रि० ( आस्तृत ) भिष्णवेतुं. विछाया  
हुआ. Spread. विश० २३२१; नाया०  
१३; १७;

**अत्थुच.** धा० I. ( आ+स्तृ ) भिष्णवतुं;  
पथरी पाथरी. विछाना; विस्तर करना.  
To spread; e.g. a bed.

अत्थुचइ. क० वा० विश० २३२१;

अत्थुचंत. व० क० विश० २३२१;

**अत्थेगाइअ-य.** त्रि० ( सन्धेकक ) छे डेट्ला  
ऐक हैं कुछ. Some there are. “ अत्थे  
गाइया समाउया समोबवण्यगा अत्थेगाइया  
समाउया विसमोबवण्यगा अत्थेगाइया विस-  
माउया समोबवण्यगा अत्थेगाइया विसमाउया  
विसमोबवण्यगा ” भग० १, २; १६, ३;  
**अत्थेगाइअ-य.** त्रि० ( अस्त्येकक ) छे डेट्ला  
ऐक ज्ञेभे ते डेट्ला ऐक है कोई एक; कोई भी

एक. One there is; some one.  
भग० २, १; ३, ३; ५, ४; ६, ५; ८, १०; १८,  
८; २०, १; ८; २९, १; नाया० १; १५; १६;  
जं० प० ५, १२७;

**अत्थेत्य.** पु० ( आस्तरक ) भिष्णवेतुं. विस्तर.  
A bed. नाया० १;

**अथ.** अ० ( अथ ) पछी; पश्चात्; खाद. पीछे;  
पश्चात्. Afterwards. स० प० १०;  
**अथववण्यवेय.** पु० ( अथवण्यवेद ) जुओ “ अथ-  
वण्ण ” श०८. देखो “ अथवण्ण ” शब्द.  
Vide “ अथवण्ण ”. भग० ६, ३३; नाया०  
५; कप्य० १, ६;

**अथिर.** त्रि० ( अस्थिर ) जुओ “ अथिर ”  
श०८. देखो ‘अथिर’ शब्द. Vide ‘अथिर’.  
सू० ३, ६, २; सम० २८; भग० १, ६;  
सू० च० १०, ६५; पञ० २३; क० गं० १,  
२७; २, ३;—आसण. न० ( -आसन )  
हालतुं आसन. हिलता हुआ आसन.  
an unsteady seat. “ अथिरासणो कुदकु-  
इए, जस्त तस्थ निसीयइ ” उत्त० १७, १३;

**अदंड.** पु० ( अदण्ड ) हिंसा वगेरे दंडो।  
अभाव; मन, वयन अने कायाना प्रशरत योग;  
हिंसा वगैरह के दंड का अभाव; मन, वचन और  
काया का प्रशस्त योग. Absence of such  
sins as killing etc.; pure, sinless  
operations of mind, speech and  
body. “ एओ अदंडे ” सम० १; ( २ ) दंड-  
सज्जनो अभाव. सज्जा का अभाव. absence  
of punishment. भग० ११, ११;  
—कुदंडिम. न० ( -कुदण्डिम ) जुओ  
“ अदंडकोदंडिम ” श०८. देखो ‘ अदंडको-  
दंडिम ’ शब्द. vide ‘ अदंडकोदंडिम ’. भग०  
११, ११;—कोदंडिम. त्रि० ( -कुदण्डिम-  
म-दण्डलम्यं द्रव्यं दण्डः, कुदण्डेन निष्ठुतं  
कुदण्डिमं तजास्ति यत्र तत्त्वा ) अपराध  
प्रभावे दंड ते दंड, अपराध दण्डतां ओछें-

जोनों हें ते कुदंड, आ थेनोने। जयां अभाव होय ते. अपराध के अनुसार दंड, दंड कहलाता है और कमती बढ़ता कुदंड कहलाता है, इन जोनों का जहाँ अभाव हो वह. absence of disproportionate punishment.

“ अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिम ” भग० ११, ११; जं० ४० ३, ६८, कप० ५, १०१;

**अदंतभुवण्य.** न० ( अदंतधावनक ) जुओ। “ अदंतवण ” श०८. देखो “ अदंतवण ” शब्द. Vide “ अदंतवण ”. “ अरहाण्यं अदंतभुवण्यं अच्छत्तं ” भग० १, ६; अदंतवण. त्रि० ( \*अदंतवण-अदंतवणन ) दंतधावन-दातशु क्षयने! नेभां निरोध छे ते; दंतधावन-दत्तन करने का जिसमें लिपेथ है वह Prohibiting the cleansing of teeth. टा० ६;

**अदंसण.** न० ( अदर्शन ) दर्शननो अभाव; अंभेकरी नजेन्तु ते. दर्शन का अभाव; आँखों से न देखना. Not seeing; not being seen. “ अदंसणं चेव अपथ्यणं च ” उत० ३२, १५; (२) त्रि० दर्शन-इष्टिपिननो; अंधेगो. इष्टि रहत; अंधा. blind. (३) थिशुद्धि निद्रा उद्यतगो. थिणद्धि निद्रा के उदय वाला. one overpowered by Thirsty-Nidrā; a somnambulist. (४) दर्शन-सम्भित वगरनो; भिथात्वी. सम्यक्त रहित; मिथ्यात्वी. heretic. प्रव० ७८७.

**अदंसणिज्ज.** त्रि० ( अदर्शनीय ) जेवा लायक नहिं; न हेभवा योग्य. देखने के अयोग्य. Unfit to be seen. “ कपरे तुमं हृव अदंसणिज्जे ” उत० १२, ७;

**अदक्ख.** त्रि० ( अदक्ष ) अणुसभञ्जु. वे समक; मूर्ख. Stupid; foolish. वि० नि० १०६;

‘**अदक्ख.** था० I. ( दर्श ) हेभनु; जेनु. देखना. To see; to observe.

अदक्खु. भू० प्र० ८० “ अदक्खुकामाइ रोगवं ” सू० १, २, ३, २; भग० ५, ४; १६, ३;

**अदक्खु.** त्रि० ( अदक्ष ) अर्वाग्नीशीन; दुंकी इष्टि. अवार्ग् दर्शन; संकुचित दृष्टि. Shortness of vision. “ अदक्खु व दक्खु बाह्यं ” सू० १, २, ३, ११;

**अदक्खु.** त्रि० ( अपश्य-पश्यतीति पश्यो न पश्योऽपश्यः ) अन्ध; आंधेगो. अन्धा. Blind. सू० १, २, ३, ११;

**अदक्खु.** त्रि० ( अदक्ष ) अनिपुण; दुश्क-हेशियार नहिं ते. चातुर्य राहित; निपुणता राहित. Inexpert; not proficient. सू० १, २, ३, ११; —**दंसण.** त्रि० ( -दर्शन ) असर्वसशासनना. अनुयायी; अन्यभिति; अन्यदर्शीनी. असर्वज्ञ द्वारा प्रस्तुत शासन का अनुयायी; अन्यमतावलम्बी. following a creed founded by non-omniscient persons; non-Jaina. “ सदहसु अदक्खुदंसणा ” सू० १, २, ३, ११;

**अदक्खुव.** त्रि० ( अपश्यवत् ) अंधतुल्य; अंधगो जेवो; इष्टिपार्य न जानुनार. अंधे के समान; कार्याकार्य न जानने वाला. Like a blind man; without discrimination. सू० १, २, ३, ११;

**अदक्षा.** सं० कृ० अ० ( अदक्षा ) दान क्षयी विना; नहिं आपीने. दान किये विना; विना दिये. Without having given. i. e. in charity. टा० ३, ३;

**अदक्ष.** त्रि० ( अदक्ष ) अखुदीधुं; दीधा धगरनु; अणुदीधेनु. विना दिया हुआ. Not given. उत० ३२, २६; परह० १, ६; भग० ८, १; —**आदाण.** न० (-आदान) जुओ। ‘अदिगणादाण’ श०८. देखो ‘अदिगणा-

दाण” शब्द. Vide “अदिलणादाण”. ठा० १, १;—आहार. पुं० (—आहार) दी॑ना। विन॑तुं हुरनार-ये॒रनार; ये॒र. बिना दिये ग्रहण करने वाला; चोर. & thief. “ अदत्ताहारो वा से अवहरंति रायायो वा से विलुप्तिं ” आया० १, २, ३, ८०;—दृहर. त्रि० (—हर) अथुटीधुं हुरनार-ये॒रनार. बिना दिये लेने वाला; चोर. (one) who steals; one who takes away without being given. उत्त० ४, ५;

अद्वम् प्रि० ( अद्वम् ) = नन्दि॒; धृणु॑;  
 अति॒ अनसः; अता नहीं हो वह; बहुत.  
 Not little; much; excessive.  
 जं० प० —वाह. प्रि० (—दाह-अद्वमनसरं  
 वद्यत्यद्वमवाहः) धृणु॒ ऐंगे॑ उपाडी॒  
 नन्दि॒-यैडा वगेरे. कहुा भार उठाने वाला-  
 घोड़ा, गधा आदि. carrying heavy  
 load; e.g. horses etc. “अद्वमवाह  
 अमेलनयणको कासिप्रवृक्षपत्तनच्छं”  
 जं० प०

अदाउँ सं० कु अ० ( अदरया ) न आपीने  
न देकर. Having not given;  
without having given. पंचा०

**अदारुय.** त्रि० ( अदारुक ) लाकड़ा वर्गसंग्रह;  
काष्ठरहित। काठ रहित। Without wood;  
devoid of wood. तंडु०

અદિહ. પુંઠ ( અદિતિ ) જુએઓ “ આઇઇ ” શાન્દ. દેખો ‘આઇઇ’ શબ્દ. Vide ‘આઇઇ.’ સી. પી. ૧૦;

આદિત. વ૦ કુ૦ ત્રિ૦ ( અદદત ) નહિ આપતો.  
નહી દેતા હુઅા. Not giving. “ તસ્માચિ  
સંજમો સેમો, આદેતસર વિ કિંબળ ” ઉત્ત૦  
૬, ૪૦; દસ૦ ૫, ૩, ૨૮;

**अदिज्ज.** त्रि० ( अदेय ) न देवा ये.३५. न देने  
योग्य. Unfit to be given. त्रि० नि०

क्रवामां आवी हेय तेवुं नगर वगेरै. ऐसा  
नगर वगैरह जहाँ लेन देन करने की रोक टोक  
की गई हो. ( a city etc. ) in which  
exchange is prohibited. भग० ११,  
११; कप्प० ५, १०१;

**आदिजग्नाय.** विं. ( अदीयमान ) नहि  
अपां; न देवतुं. नहीं दिया जाता हुआ.  
Not being given. विं. नि० ५०८;

अदिष्ट. त्रि० (अदृष्ट) नहि जेअेतुं; नहि  
 जाएतुं. नहीं देखा हुआ; नहीं जाना हुआ.  
 Unseen; unknown. सू० २, ७, ३८;  
 भग० १, ६; ३, ७; १८, ७; (२) न० पूर्व-  
 जन्माणि कर्म. पूर्वजन्म का कर्म. Karmas  
 of the past life. नंशी०—दोष.  
 त्रि० (—दोष) नेतो डैर देवा नेतवामां न  
 अभ्यो लेप्य ते. जिसका कोई दोष देखने  
 में नहीं आया हो वह. (one) whose  
 fault is not seen; free from any  
 fault brought to notice. नाया० १६;  
 —धर्म. पुं० (—धर्म) नेत्रे शुतधर्म के  
 वारित्वधर्म ज्ञानात्मा नशी ते. जिसने ध्रुत-  
 धर्म या चारित्रधर्म नहीं पढ़िवाना वह. one  
 not familiar with principles of  
 scriptures or of right conduct.  
 “अदिष्टवस्थमे विलापु अकोविष्” दस० ६,  
 २, २३; दसा० ४, ७७;—फल त्रि० (—फल)  
 नेतुं प्रयेजननेत्रामां न आनुं लेप्य ते.  
 जिसका प्रयोजा देखने में न आया  
 हो वह. of unseen purpose.  
 “ दिष्टदिष्टफलमेयं ” पंचा० ७, २१;  
 —लाभित्रा-य. पुं० (—लाभिक) पूर्वे नहि  
 नेत्रेवा-अपरिचित दानार आपै तोन लेनुं  
 जेवा अभियद्धथी गवेषणा. करनार (सधु).  
 अपरिचित दाता दे तो ही लेना, इस प्रकार के  
 अभिग्रह से गवेषणा करने वाला (सधु).  
 one, e.g. a Sādhu in quest of

alms with a vow to accept them from strangers only. ओव० १६; परह० २, १;—सेवक. पुं० (—सेवक) देशपार थेव क सेवक; स्थामिने भोगी न भतावनार सेवक. देश से निकाला हुआ सेवक; मालिक को मुख न दिखाने वाला नौकर. an exiled servant. “तं गच्छतु यं देवाणु-पिया! पंच पंडवा दाहिण्यां वेयांति तत्थं पंडु महूरं यिवेसंतु ममं अदिट्टसेवगा भवंतुति-कहु” नाया० १६;—इड. त्रि० (—हठ) दीक्षा वगर अहंशु करेव. बिना देखे लिया हुआ. accepted without being seen. आब० ४, ५;

अदिगण. त्रि० ( अदत्त ) स्वाभी, तीर्थकर के गुरुनी रग्न विता लीधेदुः; अणुटीधेदुः. स्वामी, तीर्थकर अथवा गुरु की आज्ञा बिना लिया हुआ. Not given; got without the permission of a preceptor, Tirthankara etc. “अदिगणे सेवि अपि-वित्तए” ओव० ३४; “अदिगणं सुजामो” “अदिगणं साहजामो” भग० ८, ७; आब० ३४; अदिगणादान. न० ( अदत्तादान ) अदत्तादान; अणुटीधेदुः लेवुं ते; न्यारी; पापनुं तीजुं स्थानक. बिना दिया हुआ लेना; चोरी; पाप का तीसरा स्थानक. Theft; the third Sthānaka of sin. सम० २१; ओव० ३४; परह० १, ३; वेय० ६, २; नाया० १, ५; भग० ८, ५; १२, ४; १४, ३; दसा० ३, १५; १६; पञ्च० २२;—वच्चिय. पुं० (—प्रत्ययिक—अदत्तादानं स्तेयं तत्प्रत्ययिको द-पदस्तयेति) अदत्तवस्तु अहंशु करवाधी आत्मा दंडाय ते; ते२ क्रियास्थानकभानुं सातमुं क्रिया-स्थानक. अदत्तवस्तु प्रहण करने से आत्मा का दंडित होना; तेरहं क्रियास्थानकों में से सातवाँ क्रियास्थानक. sin incurred by the soul for dishonest gain, theft

etc; the seventh of the thirteen Kriyāsthānakas. “अहावरे सत्तमे कि-रियाडाये अदिगणादाणवस्तिपूति आहिजहु” सूग० २, २, १५; सम० १३;—विरह. त्री० (—विरति) अदत्तादाननी निष्ठिति; अदत्त वस्तु अहंशु करवानो त्याग. अदत्तवस्तु प्रहण करने का त्याग. abstaining from taking things not given; abstention from dishonest gain. महा० प० ७;—वेरमण. न० (—विरमण) अदत्त वस्तु लेवानो त्याग; त्रीजुं प्रत; ते न्ये. स्थूल विरमण द्वाय ते। आपकुनुं त्रीजुं अछुनत अने सर्वथा विरमण द्वाय ते। साधुनुं त्रीजुं भजावत. अदत्तवस्तु लेने का त्याग; तीसरा ब्रत; यदि स्थूल विरमण रूप हो तो श्रावक का अणुप्रत होताहै और सर्वथा विरमणरूप हो तो साधु का तीसरा महाब्रत होता है. the third vow viz abstention from taking things not given; abstention from dishonest gain, partial in the case of a layman and total in that of an ascetic. परह० २, ३;

अदिति. पुं० ( अदिति ) जुओ। “अहह” शब्द. देखो “अहह” शब्द. Vide “अहह.” अणुजो० १३१; जं० प०७, १५७;

अदिक्ष. त्रि० ( अदत्त ) जुओ। “अदिराह” शब्द. देखो “अदिगण” शब्द. Vide “अदिगण.” आया० १, ७, १, १६६; भग० १, ६; ४; निसी० ४, १७; भत० १०४;

अदिग्नवित्ति. त्री० ( अदत्तवृत्ति ) पोताने के परने अर्थे अणुटीदुः लेवानी धृति; सातमुं क्रियास्थानक. अपने या औरों के लिये बिना दिया हुआ लेने की वृत्ति; सातवाँ क्रियास्थान-क. The 7th Kriyāsthānaka ( source of incurring Karma )

viz desire or inclination to take ( for oneself or for another ) what is not given. प्रब० ८३३;

आदिशास्त्राण् न० ( अदत्तादान ) जुओः “आदि-  
शास्त्राण्” श०६. देखो “आदिशास्त्राण्” शब्द.

Vide “ आदिशास्त्राण्.” दस० ४; आव०  
४, ७; आया० १, १, ३, २६;—वर्तिअ. न०

(-प्रत्ययिक ) सातभुं हियास्थानक; अह  
तादान-चोरी करवाई, करावाई अने करतां  
रुडुं जायुगाई लागती हिया. सातवाँ क्रिया-  
स्थानक; अदत्तादान-चोरी करने, कराने और  
करते हुए का अनुमोदन करने से होने वाला  
कर्मबंध. Karma incurred by  
committing theft, causing another to commit theft or  
approving of theft. सम० १३;  
सूय० २, २, १५;

आदिस्स. त्रिं० ( अदरश ) हेखाय नहि अवुं;  
अदृश्य. अदरश; नहीं दिख सके ऐसा.  
Invisible. “ पच्छमे आहारनीहारे, अ-  
दिस्से मंसचरक्षुणा ” सम० ३४; “ अदिस्साण्यं  
च भूयाणं, आसीं तथ्य समागमो ” उत्त० ३२,  
२०; प्रब० ४४७; विशे० १७४६; मु०च० ३, ३१;

आदिस्समाण. त्रिं० ( अदरशमान ) जेवाभां  
न आवुं. दिखने में नहीं आता हुआ.  
Being unseen; invisible. आया०  
१, ३, ५, ८८;

आदीण. त्रिं० ( अदीन ) दीनता-गरीभाठ  
रहित. दीनता रहित. Not poor. “ सीज्जबंता  
सविसेसा, आदीणा जंति देवयं ” नाया० ८;  
दस० ५, २, २६; ओष० नि० ५३७; उत्त० ७, २१  
—चित्त. त्रिं० ( -चित्त ) भेटा भनवाणो;  
प्रसन्न चित्तवाणो. उदार मन वाला; प्रसन्न चित्त  
वाला. magnanimous; of a blithe,  
sanguine temper; cheerful.  
पैचा० १८, ३४;—मण्डस. त्रिं० ( -मनस् )

भेटा भनवाणो; प्रसन्न भनवाणो. उदार मन  
वाला; प्रसन्न मन वाला. magnanimous;  
high-minded; of blithe, sanguine  
spirits. “ मायेष्व असण्याणस्स,  
अदीणमणासो घरे ” उत्त० २, ३;—चित्त.  
त्रिं० ( -चित्त ) दीनवृत्ति वगरनो. दीनवृत्ति  
रहित. not-mean or poor in spirits.  
दस० ६, ३, १०;

आदीणसत्तु. पुं० ( अदीनशत्रु ) कुरुदेशना  
हस्तिनागपुर नगरना. राज्ञयुं नाभ. कुरुदेश  
के हस्तिनागपुर नगर के राजा का नाम. Name  
of a king of Hastināgapura, a  
city of the country called  
Kuru. “ अदीणसत्तुस्स रण्णो भारणी  
पामोक्षाण्यं देवीसहस्रं ओरोहेषावि होत्था ”  
विवा० २, १; ठा० ७, १; नाया० ८; ( २ ) पुं०  
२२ भा॒ तीर्थंकरना त्रीज्ञ पूर्जभव्युं नाभ. २२ वे॑  
तीर्थकर के तीसरे पूर्वभव का नाम. name  
of the third past birth of the  
twenty-second Tirthankara.  
सम० ८० २३०; ( ३ ) चंपा नगरीना जित-  
शत्रुराजनो अदीणशत्रु नाभे युवराज-डुभार.  
चंपा नगरी के जितशत्रु राजा के युवराज का  
नाम. name of the heir-apparent of Jitāśatru, king of Champā  
city. नाया० १२;

आदु. अ० ( अथ ) पछी; पश्चात्; व्याप.  
पीछे; पश्चात्; अनन्तर; बाद. Afterwards.  
“ अदु पोरसिं तिरियं भित्ति ” आया० १,  
६, १, ५; सूय० १, २, २, २;

आदुक्ष. न० ( अदुःख ) दुःखो अलाप.  
दुःख का अभाव. Absence of misery.  
भग० १, १०;

आदुक्षण्या. छी० ( \*अदुःखनता-अदुःख )  
दुःखी न थवुं ते; दुःख न वेद्युं ते. दुःखी  
न होना. Not suffering misery.,

non-endurance of misery. भग० ७, ६;

**अदुक्खमसुहा.** स्रो० ( अदुःखसुखा ) ऐभां हुःभ नर्थी तेभन् सुभ नर्थी एवी रिथति। ऐसी स्थिति जिसमें दुःख, सुख न हो। A feeling free from pain as well as pleasure. “नेरद्वयाणं भंते ! किं दुःखं वेयणं वेयंति सुहं वेयणं वेयंति अदुक्खमसुहं वेयणं वेयंति ? ” भग० १०, २;

**अदुक्खावरण्या.** ली० ( \*अदुःखापना-अदुःखापन ) डैधने हुःभ न आपुं ते; डैध हुभी थाप एवां साधने। उसां न करवां ते. किसीको दुःख न देना; ऐसे साधन खड़े न करना जिन से किसीको दुःख हो। Not giving pain to any body; non-injury. भग० ३, ३;

**अदुक्खिक.** त्रि० ( अदुःखिक् ) सुभी; हुःभी रहित. सुखी; दुःख से रहित. Not miserable; happy. भग० ७, १; १४, ४;

**अदुर्गुच्छिक्षय-**आ. त्रि० (\*अजुगुप्तित) अनिन्दित; उत्तम. अनिन्द्य; उत्तम. Such as would not excite disgust or censure; excellent. “ कुलेसु अदुर्गुच्छिपसु ” आया० २, १, २, ११;

**अदुद.** त्रि० (\*अदुष्ट-अद्विष्ट) दै५-अदेखाई रहित. द्वेष-इर्षा रहित. Not envious or jealous. परह० २, १;

**अदुद.** त्रि० ( अदुष्ट ) दै५-प्रहित; दै५-पाप वगरनो. दोष रहित. Free from fault or

sin. दस० ७, ५५; परह० २, १; पंचा० ४, ३६; जं० प० २, ३१;

**अदुत्तरं.** अ० (अथोत्तरम्) † अथवा; हवे पछी। +अथवा; इसके बाद. x Or; hence forward. “अदुत्तरं चणं गोयमा ! पभूणं चमरे असुरिदे ” भग० ३, १; ७, ६; अदुत्तरं चणं मम समर्था निगंधा” नाया० १; २; १६; जं० प० २, ३६;

**अदुत्तरंचणं.** अ० ( \* अथोत्तरचणं ) जुओ। “ अदुत्तरं ” शब्द. देखो “अदुत्तरं” शब्द. Vide “ अदुत्तरं.” भग० २, १; ७, ६;

**अदुयं.** अ० ( अद्रुतम् ) विक्षेपे; उतावये नहि. विलंब पूर्वक; शीघ्रता से नहीं. Without haste. भग० ७, १; परह० २, १;

**अदुयत.** न० ( अद्रुतत्व ) सत्य पर्यनना ३५ अतिशयमानो २७ भे। अतिशय. सत्य वचन के ३५ अतिशयों में से २७ वाँ अतिशय. The twenty-seventh of the thirty-five Atisayas or supernatural manifestations of truthful speech. सम० ३५;

**अदुवा.** अ० (अथवा) अथवा; या। या; अथवा. Or (an alternative conjunction).

दस० ५, १, ७५; ६, २; भग० ३, ३; ११, १; २१, १; ३५, १; उत्त० १, १७; २, १२; आया० १, १, ३, २६; १, ६, ३, १८३; १, ६, ४, १६१; सूय० १, ४, १, २१; दसा० ६, ७;

**अदुस्समारण.** व० कृ०त्रि० (अद्वेष्यत) दै५ नहि करते। द्वेष नहीं करता हुआ. Not hostile; not hating. सूय० १, १२, २२;

+ नोट—टीकाकारे “अथापरम्” ऐम संस्कृत अनुवाद कर्देंछे. पशु तेना करतां “अथोत्तरम्” भां वर्षु साधभूद वधारे होनाथी तथा अर्थं पशु वधारे वंध भेसतो होनाथी ते स्थीकर्तु छे.

+ नोट—टीकाकारने “अथापरम्” इस प्रकार संस्कृत पर्याय दिया है, परन्तु उससे ‘अथोत्तरम्’ में वर्णसाधर्म्य अविक होने से तथा अर्थ भी अधिक संगत होने से ऐसा किया है.

\* Note—This appears preferable to the commentator's rendering “अथापरम्”

**अदूर.** त्रि० ( अदूर ) पासेतुः नश्चतुः समीप-  
वर्ती; नज़दीक का. Not far off; in the  
vicinity. कल्प० ४, ६३; भग० २, १;  
निसी० ३, ४५. ( २ ) न० पासे; नश्चतुः समीप;  
नज़दीक. vicinity; neighbourhood. जं० प० ५, ११२; नाया० २; १२;  
१४; अंत० ६, ३; भग० १, १; २, १; ३, ५; ५,  
६;—आगय. त्रि० ( -आगत ) नश्चतुः आवेष;  
पासे आवेष. नज़दीक आया हुआ; समीप  
आया हुआ. situated in the vicinity;  
not far off. “ अदूरागए बहुसंपत्ते  
अद्याणपदिवरणे अंतरापहे बढू ” भग० २, १;  
—सामंत. तुं० ( -सामन्त ) अतिदूर के  
अतिनश्चतुः नहि ऐवे। प्रदेश-उचितप्रदेश.  
ऐसा प्रदेश जो न तो बहुत दूर हो और न बहुत  
पास हो. region at a moderate  
distance. नाया० १; ३; १२; १४; १६;  
राय० १००; अंत० ६, ३; ओव० भग० १,  
१; २, १; ५; ६; ७, ६; १०; ६, ३३;  
१६, ७;

**अदूसिय.** त्रि० ( अदूषित ) दूष्य वगरतुः.  
दूषण रहित. Free from fault or  
blemish. पंचा० ६, २०;

**अद-** पुं० ( अद्य-अद्यते गम्यतेऽनेनेत्यर्दः )  
आकाश. आकाश. The sky. भग० २०, २;  
**अद.** त्रि० ( आद्र्वं ) लितुः लीतुः स०८८. भाजा  
हुआ; गीला; सजल. Wet; moist. पन्न०  
१७; ओघ० नि० ३६; राय० ५०; ओव० २२;  
—चंदण. न० ( -चन्दन ) लीतुः चंदन-सुभृत.  
हरा चंदन; बिना सूखा हुआ चंदन. green  
sandalwood; sandalwood-unction. “ अहयंदणाणुकित्तगत्ता इसिसि-  
क्षिप्तपुष्कव्यासाईं सुहुमाईं असंकिलिट्टाईं  
बरथाईं पवरपरिहिया ” ओव० २२;  
**अदृश्य.** न० ( आद्र्वकीय ) सूखगडांगसूतना।  
भीज श्रुतरक्षणा छटा अध्ययननु नाम, हे

लेभां आद्र्वकुमार भुनिने जोशाला वर्गेरेनी  
साथे वाद थे। छे तेतु वर्णन छे. सूत्रकृतांग  
सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंध के छठे अध्याय का  
नाम, जिसमें आद्रकुमार मुनि का गोशाला  
वगैरह से जो विवाद हुआ है उसका वर्णन  
है. The sixth chapter of the  
second Śrutaskandha of  
Sūtrakṛitāṅga treating of the  
discussion between Ārdraku-  
māra and Gosālā etc. सू० २, ६,  
५५; सम० २३; अणुजो० १३१;

**अद्यगुमार.** पुं० ( आद्र्वकुमार ) आद्र्वं  
पुरना आद्र्वकुमारना आद्र्वनामे कुमार, केज्जेने  
अभ्युमारे भैक्षणिक वक्षीश उपरथी  
जलिरमरण ज्ञान उत्पन्न थां, पोतानी  
भेजे हृक्षी लीक्षी। ते पश्चि भहानीरस्ताभी  
पासे ज्ञां, रस्ताभां जोशालानो समग्रम  
थां, तेनी साथे धरें। वाद थये। छे.  
जोशालाना आक्षेपोना उत्तर सारी शीते  
आये। छे. तेनो विस्तार धीज श्रुत  
संधना छटा अध्ययनभां छे. आद्रकुमार नगर  
के आद्रक राजा का आद्रक नामक कुमार,  
जिसे कि, अभयकुमारद्वारा भेजे हुए पारि-  
तोषिक पर से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ  
और अपने आप दाँक्ता ली। उसके बाद महावीर  
स्वामी के पास जाते समय रास्ते में गोशाला  
के मिलने पर उससे बहुत विवाद हुआ  
और उसके आक्षेपों का उत्तर अच्छी तरह से  
दिया। इसका विस्तृत वर्णन दूसरे श्रुत-  
स्कंध के छठे अध्याय में है। Ārdraka,  
son of Ārdraka king of Ār-  
drakapura got the knowledge  
of birth-recollection on the  
occasion of a present sent to  
him by Abhayakumāra and  
became a monk. On his way

to a visit to Mahāvīrasvāmī he met Gosālā and a long discussion took place between them in which he answered or rather refuted all the objections raised by Gosālā. This is related in the sixth chapter of the second Śrutaskandha of Sūyagadāṅga. सूय० नि० २, ६, १६२; अहगुप्त. न० ( आर्द्रकुपुर ) ये नामनु अनार्ये देशनु प्राचीन नगर, के ज्यां आर्द्रकुभारते० ७८-म् थथे हुतो. अनार्यदेश का प्राचीन नगर, जहाँ आर्द्रकुमार का जन्म हुआ था.

An ancient city of the Anārya country—the birth-place of Ādrakumāra. सूय० नि० २, ६, १६२; अहमुच्छा. श्री० ( आर्द्रमूर्छा ) कृन्दविशेष. कृन्दविशेष. A variety of bulbous root. भग० ७, ३;

अहध. त्रि० ( अद्रव ) नष्टि गोलुं. बिना गला हुआ. Not melted. प्रव० १०७;—दहि. न० ( -दधि ) कृषु दंडि; भरापर जमी गथेल दंडि. गाढ़ा दहि. Fully curdled ( and so solid ) milk. प्रव० २०७; अहधव. न० ( अद्रव्य ) रूपीआ. आहि द्रव्यनो अभाव. स्फये आदि द्रव्य का अभाव. Want of, lack of wealth; e. g. money etc. पंचा० ३, ३६;

✓ अहह. धा० II. ( आ+दह् ) पक्वतुं; तग्वतुं. तलना; पकाना. To bake; to fry.

अहहेह. उवा० ३, १३२;

अहहेमि. उवा० ३, १२६; १३५; ४, १४७; ७, २२७;

अहा. श्री० ( आर्द्री ) आर्द्रनक्षत्र. आर्द्रनक्षत्र. The constellation Ārdra. “ दो अहा खत्तु ” ठा० ३, ३; “ अहा खत्तु नक्षत्रे ”

सू० प० १०; अणुजो० १३१; सम० १; विशे० ३४०८; जं० प० ७, १५५;

\*अहाग. पुं० ( आदर्श ) अरीसो; दर्पण; आरसी; तक्तो. काँच; दर्पण.” a looking glass; a mirror. “ अहायं पेहमाये मशुस्से कि अहायं पेहसि” पन्न० १५; नंदी० ५४; अणुजो० १६; ( २ ) स्फटिक भण्डि. स्फटिक मणि.crystale. ओघ० नि० २१५; —पसिण. पुं० ( -पस ) प्रश्नविद्वाविशेष. ने विद्वावते अरीसामां देनतानुं आहूत्वानं करी तेनी भारकृत ज्याप अपावृतमां आवे. प्रश्नविद्याविशेष, जिसके द्वारा दर्पण में देखता का आव्हान करके उसके द्वारा प्रश्न का उत्तर दिलाया जाता है. the science of getting questions answered by a deity invoked in a mirror ( २ ) प्रश्नव्याकरणतुं अरीसाना प्रश्नविद्वावाणुं आठामुं अध्ययन, के ने हाल विषेद थध गयेल छे. प्रश्नव्याकरण के दर्पण का प्रश्नविद्या वाला आठवाँ अध्ययन, जिसका वर्तमान में विच्छेद हो गया है. the eighth chapter, which is now extinct, of Praśṇa Vyākaraṇa dealing with the above science. ठा० १०;—समाण. त्रि० ( -समान ) दर्पणुनी पेडे साधु उपर निर्मल भाव रखकर उसके हिताहित को दिखलाने वाला श्रावक. ( a layman ) pointing out with transparent love and honesty things beneficial or otherwise, to a monk. ठा० ४, ३;

\*अहाय. न० ( आदर्श ) जुओ। “ अहाग ” शब्द. देखो “ अहाग ” शब्द. Vide “ अहाग.” पन्न० १५; अहिज्जमाण. त्रि० ( आर्द्रीयमान ) रनेहर्थी आर्द्र-डेमण थतु; रनेहर्द्र. रनेह से केमल

होता हुआ; स्नेहार्द. Melting with affection; tender with affection.

आया० १, ५, ३, १५५;

अधिसूत. त्रिं ( अदृश्य ) आंभे लेवामांन. आवे तेवुं. जो देखने में न आवे. Invisible. प्रव० १०४०;

अचू. पुं० ( अध्वन् ) भागी; २२तो. रास्ता; मार्ग.

A road; a way. नाया० १४; भग० २,  
१; २५, ५; उत्त० ६, १३; सूर्य० १, १, २, १६;

अचू. न० ( अचू ) अर्ध; अद्युः ऐ सरभा भाग; द्वितीयांश. आधा; दो समां भाग; द्वितीयांश. A half; one of two halves.

“ अद्युगुलसोणिको जेटृप्पमाण्यो असी भयिण्यओ ” जं० प० ३; श्व० १०; अणु-जो० १६; उत्त० २६, ३५; ३४, ३४; पञ्च० २; सम० १; पिं० नि० ८४३; ८५०; राय० ५३; भग० १, ६; ७; २, ८; १०; ३, २; ७; ७, १; २०, २; निर० १, १;—आद्यय. पुं० ( -आढक ) आढक-भगधेशमां प्रसिद्ध भानविशेष, तेनो अर्थे भाग. मगधदेश में प्रसिद्ध आढक नामक मापविशेष का आधा हिस्सा. half of an Āḍhaka, a measure of weight current in the Magadha country. राय० २७२;—आसण. न० ( -आसन ) अर्धासन; अर्धु आसन. अर्धासन; आधा आसन. a half-seat. नाया० १; १४;—उड्ठ. त्रिं ( \*-बतुष्क ) साडा त्रेषु; साडे तीन. three and half. “ अद्युट्टाधो कुमारकोडिओ ” नाया० १६; परह० १, ४; जीवा० ३, ३; नंदी० ५; विशेष० ६६३; नाया० ध० २; निर० ५, १; प्रव० १०६८;—उरुग. न० ( -उरुक ) साधीने साथणपर धारणु करतानु वस्त्र; साधीना २५ उपकरणमांतुं एक. साधी का कटिपर धारण करने का वस्त्र; साधी के २५ उपकरणों में से एक उपकरण. a loin-cloth

of a nun; one of the twenty-five articles permitted to a nun. प्रव० ५४१; ग्रोघ० नि० ६७६;—करिस. पुं० ( -कर्द ) एक पत्ते। आडमें भाग; मगधदेशमां प्रसिद्ध एक प्रकारने। तोल. एक पत्त का आठवाँ हिस्सा; मगधदेश में प्रसिद्ध एक प्रकार का माप. a measure of weight current in Magadha, equal to the eighth of a Pala. अणुजो० ११३;—कविढु. पुं० ( -कपित्थ ) ४१६ इतनुं अड्धीयु. कबीट फल का आधा हिस्सा. ( form of ) half a wood-apple. “ अद्युविड्वसठाणासंठिय ” सू० प० १०; जं० प० ७, १६५;—काय. पुं० ( -काय ) अर्धु शरीर; शरीरने अर्धु भाग. शरीर का आधा हिस्सा. half of a body. राय० ११८;—कुड्डव. पुं० ( -कुड्डव ) लुण्ठे। “ अद्युकुलव ” १३८. देखो “ अद्युकुलव ” शब्द. vide “ अद्युकुलव ”. राय०—कुलव. पुं० ( -कुड्डव ) मगधदेश प्रसिद्ध धान्यने एक भाष्म-मानविशेष. मगधदेश में प्रचलित धान्य का एक मापविशेष. a measure of weight current in Magadha. राय०—कोस. पुं० ( -कोश ) अर्थे डोश-गाउ; एक हजार धनुष्य प्रमाण अधिगाउ; एक भाईल. आधा कोस; एक हजार धनुष्यप्रमाण क्षेत्र; एक माइल. a mile; half of a Krośa ( two miles). जं० प०—घड्य. पुं० ( -घटक ) अर्थे धटे. आधा घटा. half a pot. “ घडए य अद्युघडए य कलसए य ” उवा० ७, १८४;—चंद. त्रिं ( -चन्द्र ) अर्धचन्द्र-कार. अर्धचन्द्रकार. of the shape of half-moon. सम० प० २१२; ( २ ) अहुनिशेष० प्रहविशेष. a particular planet. जीवा० ३, ३; ( ३ ) अर्धचन्द्र आकारनी सीढी-प-गथीय० अर्धचन्द्र के आकार की सीढी.

a stair-case of the form of half moon. “ मणिकण्ठगरयण्यूभियविडंकजामद्वचंद ” नाया० १; परह० १, १; —चक्रवाला॒ न० (—चक्रवाल ) गतिनिश्चयमेंमां अर्थे चक्र पडे ऐती गति. गतिविशेष; अर्धचक्रकार में होने वाली गति. semi-circular motion. गा० ७; —चक्रवाला॒ ल्ला० (—चक्रवाला ) अर्थचक्र-गोण आकार ऐसी॒ अर्ध गोलाकार शेरणी. a semi-circular line. भग० २५, ३; ३४, १; ठा० ७; —चक्रि॒ पुं० (—चक्रिन्) चक्रवर्ती॑ कृतां ज्ञेनी अर्धी सत्ता है॑ ते॑; वासुदेव. चक्रवर्ती की अपेक्षा आर्थी सत्ता वाला. one whose power is half that of Chakravarti; a Vasudeva. क० गं० १, १२; —चित्तुकडकस॒ न० (—चित्तिकटाक्ष ) अर्धी॑ आंभ मारवी ते॑; अर्धु॑ कटाक्ष. आर्थी आँख का मारना; आधा कठाक्ष. a glance with half an eye. “ अद्वचित्तुकडकस॒ चिट्ठुहि॑ लूसमाणा॑ ” जीवा० ३; —जाम. पुं० (—याम ) अप॑ पहेर. आधा प्रहर. half a Praharā ( a Praharā=3 hours). गच्छा० ३; —जोयण. न० (—योजन ) ऐ॑ गाडि; अर्धु॑ योजन. दो कोस; आधा योजन. half a Yojana ( eight miles); four miles. निसी० ११, ३; वेय० ४, ११; १२; जं०प० १, ४; —हृ. त्रि० (—अष्ट) साडा॑ सात; ७।।. साढे॑ सात. seven and a half. भग० ११, ११; —टुम. त्रि० (—अष्टम ) साडा॑ सात; ७।।. साढे॑ सात. seven and a half. “ अद्वट्टमाण्य य राहंदियाण्य च बिहृकंताण्य ” ठा० ६; कप्य० १, ८; जं० प० २, ३१; —टुमसय. न० (—अष्टमशत ) साडा॑ सात से॑. साढे॑ सात सौ; ७५०. seven hundred and fifty; 750. कप्य० ६, १६५; —णाराय. न० (—नाराय अर्द्ध ना-

राचमुभयतो भर्कटबन्धो यन्न तद्देनाराचम् ) ज्ञेने ऐक पडे॑ भर्कटव्यन्धन अने भीले पडे॑ भीली हेतु॑ तेवुं हाडकानुं बंधारणु; ७ संवयणुमानुं चोयुं संवयणु. जिसके एक और मर्कटव्यन्धन और दूसरी और खील हो, ऐसा शरीर की अस्थियों का संगठन; छः संहननों में से चौथा संहनन. a physical constitution in which the bones have become partially loosened and so deprived of their strength; the fourth of the six varieties of bone-structure. क० गं० १, ३८; ठा० ६, १; —णारायसंघयण. न० (—नाराचसंहनन) ज्ञेणा॑ “ अद्वणाराय ” शा० ६. देखो “ अद्वणाराय ” शब्द. vide “ अद्वणाराय. ” जीवा० १; —तुला॒ ल्ला० (—तुला ) पचास पक्षनी अर्धतुला; प्रत्यीन सभ्यमां भग्धेशप्रसिद्ध तेलपिण्ड. पचास पलों की अर्धतुला; प्राचीन समय में मगधदेश में प्रसिद्ध एक माप. a measure of weight prevalent in the Magadha country equal to fifty Palas. अणुजो० १३३; —तेरस. त्रि० (—त्रयोदश) साडा॑ आ॒; १२॥. साढे॑ बारह. twelve and a half. विवा० १; भग० ३, ७; १०, ६; मु० च० ३, २०; प्रव० १८४; जं० ५० ४, ७४; —छू. न० (—अर्द्ध ) अर्द्धनु॑-अर्ध॑; पा॑ भाग; चोथा॑ भाग. आधे का आया; पाव हिस्सा; चौथाई. a quarter; half of a half; a fourth. भग० १४, ६; पिं० निं० ६४३; क० प० १, ७७; —नवम. त्रि० (—नवम ) साडा॑ आठ. साढे॑ आठ, eight and a half. कप्य० १, २; ७, २२७; —पंचम. त्रि० (—पञ्चम) साडा॑ आ॒; ४॥. साढे॑ चार. four and a half. भग० १४, ६; पञ्च० ४; जीवा० १; —पंचमसुहूत्त. न० (—पञ्चमसुहूत्त ) अपाड सुहि॑ पुनमे

१८ मुहूर्तोंनो हिवस लेख त्वारे साडा आर  
मुहूर्त-४ घडी परिभित एक प्रहरे थाय ते;  
हिवसनो चेथे भाग. आषाढ़ सुदी १५ को  
१८ मुहूर्त का दिन होता है, तब साडे चार मुहूर्त-  
६ घडी परिभित जो एक प्रहर होता है वह;  
दिन का चौथाई भाग. the fourth part  
of a day, equal to four and a  
half Muhūrtas, taking the  
whole day to consist of eighteen  
Muhūrtas as on the full-moon  
day of Āśāḍha. “ज्याणं भेते ! उको-  
सिया अद्वयचमयुक्ता दिवसस्तु राहपृता  
पारिसो भवह् ” भग० ११, ११;—पल. न०  
(—पल) ऐ कृप्रभाषु; अर्धं पल. आधा  
पल; दो कर्षप्रमाण. a measure of  
weight equal to two Karsus.  
अशुजो० १३३;—पलियंका.ल्ल० (—पर्यङ्का)  
अउधी पलाहींये भेसनुं ते; ऐक पग साथग  
उपर अने ऐक पग उभीन उपर मुक्तनुं ते.  
आधी पालकी मारकर बैठना; एक पैर जांघ  
पर और एक ज़मान पर रखकर बैठना; आधा  
पश्चासन. a sitting posture with  
crossed legs, one touching the  
ground and the other resting  
on the thigh. ग० ५, १;—बल. न०  
(—बल) अर्धु बल. आग्रा बल. half the  
strength. क० ग० १, १२;—भरह. पुं०  
(—भरत) भरतपंडों अर्धों भाग. भरत  
खण्ड का आधा हिस्सा. half of Bharata-  
takhaṇḍa. “ अद्वभरहस्त सामिका  
धीरवित्तिपुरिसा ” परह० १, ४; जं० प०  
नाया० १६;—भरहप्पमाण. त्रि० (—भरत-  
प्रमाण) भरतक्षेत्रनुं अर्धं प्रभाषु; अर्धा  
भरतक्षेत्रप्रभाषु. भरतक्षेत्र के आधे हिस्से  
जितना. of the measure of half of  
Bharatakhaṇḍa. ग० ४, ४;—भरह-

प्पमाणमेत्त. त्रि० (—भरतप्रमाणमात्र-  
अर्धभरतस्य यत्प्रमाणं तदेव मात्रा-प्रमाणं  
यस्य स तथा) जुओ “अद्वभरहप्पमाण” १४८.  
देखो “ अद्वभरहप्पमाण ” शब्द. vide  
“ अद्वभरहप्पमाण ”. “ अद्वभरह-  
प्पमाणमेत्त बोंदिविसेण विसपरिणयं ” ठा०  
४, ४;—भार. पुं० (—भार) अउधी भार;  
तोलविशेष. आधा भार; तोलविशेष. a particular measure of weight.  
अणुजो० १३३;—मंडल. न० (\*—मण्डल)  
भंडलनो अर्ध भाग. मण्डल का आधा हिस्सा.  
a semi-circle; a hemi-sphere.  
सू० प० १;—मागद्व. त्रि० (—माग-  
ध) धरविशेष. गृहविशेष. a kind  
of a house. जीवा० ३, ३;  
—मागद्वी. ल्ल० (—मागधी-मागध  
भाषालक्षणं किञ्चित् किञ्चिच्च आकृत-  
भाषालक्षणं यस्यामास्ति सा, अद्व मागधा  
इति ब्युत्पत्त्यार्थमागधी ) प्राकृतभाषानी  
अङ्क पेटा भाषा, के ने भद्रानीर स्वा-  
भीना वर्णतभां भग्नप्रदेशना अर्धं भागभां  
भोक्तानी हनी अने ने भाषाभां तीर्थकरैये  
उपदेश आयो छे ते भाषा; जैन आगमनी  
भृगु भाषा. प्राकृतभाषान्तर्गत एक उपभाषा,  
जो कि, महावीरस्वामी के समय में मगधदेश  
के आधे हिस्से में प्रचलित था और जिस  
भाषा में तीर्थकरों ने उपदेश दिया है; जैनागम  
की मूल भाषा. one of the varieties of  
the Prākṛita language current  
in half of the Magadha country  
in the time of Mahāvīrasvāmī;  
the original language of  
Jaina scriptures. “ भगवं च्छं  
अद्वमागद्वीपु भासाए धम्ममाइक्षलह ” सम०  
३४; “ अद्वमागद्वी भासा भासिजमाया  
विसिज्जू ” भग० ५, ४; पञ्च० १; ओब० ३४;

—माणिक्षा. ली०(—माणिक) अर्धी भाषी; भाषीनुं द्वितीयांश; धान्यनो भापविशेष. आधी मानी; धान्य का भापविशेष. half a Māṇī; a measure of weight for corn. अणुजो० १५३;—माणी. ली० (—माणी) अर्धी भाषी; १२८ पलभ्रमाण. आधी मानी; १२८ पलप्रभ्रमाण. a measure of weight equal to 128 Palas. अणुजो० १३२;—मास. पुं० (—मास) अर्द्ध भास; पक्ष. अर्ध मास; पक्ष; पखवाढा. half a month; a fortnight. विशे० ६१०; दसा० ६, ४; भग० १५, १; प्रव० १३२४;—मासि-आ-य. त्रि० (—मासिक) पाक्षिक; पक्षसंबंधी. पाक्षिक; पक्षमम्बन्धी. fortnightly. “अद्य-मासिए कत्तरि मुँडेसि ? ” कप्प० ६, ५७; (२) पाक्षिक तप; पंद्र हिवसना जेगा उप-पास २२या ते; पञ्चवाडीच्यानुं तप. पाक्षिक तप: पंद्र ह दिन का इकट्ठा उपपास करना. a continuous fast of fifteen days. “ मासद्वमासिएण तु, आहारेण तवं चरे ” उत्त० ३६, २५३; भग० २२, ७; ओव० १६;—रज्जिय. पुं० (—राज्यक) अर्ध राज्यनो धर्णी; अर्द्ध राज्यनो भाविक. आंतर राज्य का स्वार्मा. owner of half a kingdom. “ ताणं जाहं तुशं आदरजियं करिस्सामि ” विवा० ६;—रत्त. न० (—रात्र) भधरात; भधरात्रि. आधी रात; मध्यरात्रि. midnight.; midnight time. सु० च० १०, ७३; भग० ११, ११; नाया० १; न० १८; ठा० ४, २; निरी० १६, ८;—रत्तकाल. पुं० (—रात्रकाल) अर्द्धरात्रिनो समय; भधरात्रिनो वधत. आधी रात का समय; मध्यरात्रि का समय. midnight time. नाया० ८;—रत्तकाल-समय. पुं० (—रात्रकालसमय) अर्द्धी रातनो समय; भधरात्रिनो वधत. आधी रात का समय. midnight time. “ अद्यरत्तकाल-

समयंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी ओही-रमाणी ” भग० ११, ११; विवा० २; ६;—विसुद्ध. त्रि० (—विशुद्ध) अरेहुं शुद्ध अने अरेहुं अशुद्ध. आधा शुद्ध और आधा अशुद्ध. partly correct and partly incorrect; partly pure and partly impure. क०गं० १, १४;—वेयाली. ली० (—वैताली) वैतालीक विद्याने सभावनारी-द्वावनारी विद्या. वैतालिक विद्या को दबाने वाली विद्या. an art enabling one to counteract Vaitālika-Vidyā i.e. science dealing with ghosts, magic etc. सूय० २, २, ३०;—सम. न० (—सम) ऐ घरखुमां सरखा अक्षर हैय अनेभेमां सरखा न हैय तेवोऽन्. ऐसा छन्द, जिसके दो चरणों में तो समान वर्ण हों और दो चरणों में असमान वर्ण हों. a class of meters in which the first and third and the second and fourth lines have the same syllables and Ganás. अणुजो० १२८; ठा० ७; अद्यद्वा. ली० (\*अद्यद्वा—अद्याया अद्या अद्याद्वा) हिवस या रात्रिनो ऐक भाग; प्रहर वगेरे. दिन या रात्रि का एक भाग; प्रहर वगेरह. A part of a day or a night; e. g. a Prahara etc. पञ्च० ११; ठा० १०; प्रव० ६००; —मीसय. न० (—मिश्रक) हिवस रात्रि आशी भिश्र भाषा ऐतावी, ऐभ पहेंर हिवस च्यो। हैय छतां कहेनुं के थपेहर तो थर्धगया धृत्यादि; सत्य भृत्या भाषानो ऐक प्रकार. दिन और रात्रि के संबंध में मिश्रित भाषा बोलना, जैसे कि, प्रहर दिन चढ़ा हो तो यह कहना कि, दुपहर हो गया, इत्यादि सत्यमृषा भाषा का एक भेद. speech which is a mixture of truth and falsehood in relation to-day

and night; e.g. saying that it is mid-day when it is not yet mid-day; a variety of speech partly true and partly false. ठा० १०;

**अद्धपेडा.** स्त्री० ( अद्धपेटा ) साधु गृहस्थनां धरोनी यारे दिशाभां यार पंक्ति कल्पी, तेभांथी भभे पंक्तिने छेउ व्होरे, वयभां खाली राखे ते; गोचरीनी आठ वीथीभांनी छटी वीथी. गोचरी की आठ वीथियों में से छठी वीथी; जिसमें साधु गृहस्थ के घरों की चारों दिशाओं में चार कल्पित पंक्तियां बनाकर उनमें से दो दो पंक्तियाँ छोड़कर भिज्ञा प्रहण करता है. A way of begging alms in which a Sādhu the dwellings of householders into four imaginary lines and begs food from the ends of every two succeeding lines; the sixth of the eight Vithis(modes or paths of movement) of Gochari ( proceeding to alms ).

ठा० ६, १; दसा० ७, १; प्रव० ७५५;

**अद्धसागर.** पुं० ( अद्धसागर ) अद्धा सागरोपम; दश क्षेत्र अध्या पल्योपम परिमित काण्डिभाग; कायस्थिति अने कर्मस्थितिभां आ सागरोपमनो उपयोग थाय छे. अद्धसागरोपम; दस करोड़ अद्धा पल्योपम परिमित कालविभाग; कायस्थिति और कर्मस्थिति में इस सागरोपम का उपयोग होता है. Addhā Sāgaropama; 10 × crore × Addhā Palyopama of time; ( this Sāgaropama of time is used as a unit in calculating the duration of Kāyasthiti and Karmasthiti) "सुहुमेण उ अद्धसागरस्स माणेण सञ्जीवाण्य " प्रव० १०४४;

**अद्धहार.** पुं० ( अद्धहार ) नवसरो ६२;

गणाभां पहेरवां आभरधुविशेष. नौ लक्ष-हार; नौ लक्षों का हार; गले में पहिरने का एक आभरण. A kind of necklace. कप्प० ४, ६२; ओव० २७; जीवा० ३, ३; भग० ११, ११; राय० १८६; जं० प० ५, ११६; निसी० ७, ८; दसा० १०, १; ( २ ) ऐ नामनो ऐक द्वीप अने ऐक समुद्र. इस नाम का एक द्वीप और एक समुद्र. name of an island and a sea. जीवा० ३;—**ओभास.** पुं० ( -अवभास ) ऐ नामनो ऐक द्वीप अने ऐक समुद्र. इस नाम का एक द्वीप और एक समुद्र. name of an island and a sea. जीवा० ३;—**ओभासभद्र.** पुं० ( -अवभासभद्र ) अर्धद्वारावभास द्वीपनो अधिपति देवता. अर्धहारावभास द्वीप का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardha-hārāvabhāsa Dvīpa. जीवा० ३;—**ओभासमहाभद्र.** पुं० ( -अवभासमहाभद्र ) अर्धद्वारावभास द्वीपनो अधिपति देवता. अर्धहारावभास द्वीप का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardha-hārāvabhāsa Dvīpa. जीवा० ३;—**ओभासमहावर.** पुं० ( -अवभासमहावर ) अर्धद्वारावभास समुद्रनो अधिपति देवता. अर्धहारावभास समुद्र का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardha-hārāvabhāsa ocean. जीवा० ३;—**ओभासवर.** पुं० ( -अवभासवर ) अर्धद्वारावभास समुद्रनो अधिपति देवता. अर्धहारावभास समुद्र का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardha-hārāvabhāsa ocean. जीवा० ३;—**भद्र.** पुं० ( -भद्र ) अर्द्धहार द्वीपनो अधिपति देवता. अर्धहार द्वीप का अधिपति देव. the presiding

deity of the Ardhahāra Dvīpa. जीवा० ३;—महाभद्र. पुं० (-महाभद्र) अर्धहार द्वीपनो अधिपति देवता. अर्धहार द्वाप का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardhahāra Dvīpa. जीवा० ३;—महावर. पुं० (-महावर) अर्धहार समुद्र अने अर्धहारवर समुद्रनो अधिपति देवता. अर्धहार समुद्र और अर्धहारवर समुद्र का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardhahāra and Ardhahāravara oceans. जीवा० ३; ( २ ) ए नामनो ऐक द्वीप अने ऐक समुद्र. एक द्वीप और एक समुद्र का नाम. name of an island; also, the name of an ocean. जीवा० ३;—वरभद्र. पुं० (-वरभद्र) अर्धहारवर द्वीपनो अधिकाता देवता. अर्धहारवर द्वाप का अधिष्ठातृ देव. the presiding deity of the Ardhahāravara Dvīpa. जीवा० ३;—वरमहावर. पुं० (-वरमहावर) अर्धहारवर समुद्रनो अधिकाता देवता. अर्धहारवर समुद्र का अधिष्ठातृ देव. the presiding deity of the Ardhahāravara ocean जीवा० ३;—वरवर. पुं० (-वरवर) अर्धहारवर समुद्रनो अधिपति देवता. अर्धहारवर समुद्र का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardhahāravara ocean. जीवा० ३;

अद्धा. छी० ( अध्वन् ) भागी; रस्ते. मार्ग; रास्ता. A road. “ अंधो अंधे पहं चिंतो, दूरमद्धाशुगच्छइ ” सूय० १, १, २, १६; उत्त०

६, १३; ओव० ३६; ४३; भग० १५, १; अद्धा. छी० (\*अद्धा) भूत, अविष्य अने वर्तमान काण. भूत, भविष्य और वर्तमान काल. Time, past, present and future. अग्नुजो० ६७; भग० ७, २; १६, ८; ओव० ४३; ( २ ) काण आशी भिश्र वयन आलानु, जेम रात छतां डैधने क्लेवुं के “उठ उठ दिवस उगी गयो;” भिश्रभाषानो नवभो प्रकार. मिश्रभाषा का ६ वाँ प्रकार; काल के बारे में मिश्र वचन कहना, जैसे रात रहते हुए भी कहना कि, “उठ उठ दिन निकल आया.” the 9th variety of speech partly true and partly false; viz that relating to time; e. g. saying to another “ Get up, it is day ” while yet it is night. प्रव० ६००;—ओवामिय. न० (-ओपम्य-ओपम्यमुपमा पल्यसागररूपा तत्प्रधाना अद्धा-कालोऽद्धोपम्यम् ) पल्योपम, सागरोपम आदि उपमाकाण; उपमा विना जेतुं अद्धयु न थर्थि लडे तेवो। काण. पल्योपम, सागरोपम आदि उपमाकाल; उपमा के बिना जिसका प्रहण न हो सके वह काल. long periods of time such as Palyopama Sāgaropama etc. which are used as units to convey the idea of a certain period “दुविहे अद्धोवमिए पञ्चते, तंजहा-पक्षिओव-मे चेव सागरोपमे चेव ” ठा० ३, ४;—काल. पुं० (-काल) सर्यक्षियावाणा समयक्षेत्र-अद्धीद्वीपमां वर्ततो काण. सर्य कियाविशिष्ट समयक्षेत्र-अद्धाई द्वीपवर्ती काल. time in Samayakṣetra ( i. e. Adhi-Dvīpa ) marked by the motion of the sun e.g. setting, rising etc. भग० ११, ११; ठा० ४, १;

—छेद. पुं० (—च्छेद) कर्मनी स्थितिरूप कार्यने। छेद-उच्छेद; स्थितिधात्. कर्म की स्थितिरूप काल का उच्छेद; स्थितिधात्. the wearing out or destruction of the time which constitutes the duration of Karma ( from the point of view of its being worked off ). क० प० ४, ३२; —पच्छक्खाण्. न० (—प्रत्याख्यान) काणी-नी मर्यादा यांधी पञ्चभाष्य करवां ते; नोकारसी, पोरसी वगेरेनां पञ्चभाष्यः; पञ्चभाष्य-नो दशमो प्रकार. काल की मर्यादा बांधकर प्रत्याख्यान करना; नोकारसी, पोरसी वगैरह का प्रत्याख्यान; प्रत्याख्यान का १० वाँ प्रकार. taking a vow i. e. Pachchakkhāṇa for limited periods of time; e. g. Pachchakkhāṇas known as Nokārasī, Porasī, etc.; ( This is the 10th variety of Pachchakkhāṇa ). प्रब० २०१; —पञ्जाय. पुं० (—पर्याय) काणीनो पर्याय. काल का पर्याय. modifications of time. ठ० ७; —परिवर्त्ति. ऋ० (—परिवृत्ति) काणीनुं परावर्तन. काल का परावर्तन. turning back of the wheel of time. क० प० ५, ३४; —मीसय. न० (—मिश्रक) काणी आश्री सत्यमृषा भाषानो एक प्रकार; ऐमेड हिस हैथ छतां “ उतावण करौ, रात पड़ी गढ़ ” ऐमेड हैथनुं ते. काल का आश्रय कर सत्यमृषा भाषा का एक भेद; जैसे दिन होने पर भी यह कहना कि, ‘ जलशी करो रात होगई.’ a kind of speech in relation to time half true and half false; e.g. saying that it is night when it is yet day time. ठ० १०; —मीसिया. ऋ०

(—मिश्रिता) जुधे। “ अद्वासीसय ” १०६. देखो “ अद्वासीसय ” शब्द. vide “ अद्वा-सीसय ”. पञ्च० ११; —रूप. न० (—रूप-अद्वा कालः, तस्य रूपं स्वभावोऽद्वारूपम्) काणीनो स्वभाव. काल का स्वभाव. nature of time. पञ्चा० ५, ३; —समय-आ. पुं० (—समय) काणीनो अविभाज्य-ऋणः भां ऋणे। अंश. काल का अविभाज्य-विभाजित न हो सके ऐसा सूक्ष्म अंश. the smallest indivisible part of time. अणुजो० ६८; भग० २, १०; (२) वस्तुनुं परिवर्तन करनार एक द्र०५; ७ द्रव्यमानुं काणीनामे एक द्र०५. वस्तु का परिवर्तन करने वाला एक द्रव्य; क्वः इव्यों से से काल नामक एक द्रव्य. time, regarded as one of the six substances; a substance which is the cause of changes in things. उत्त० १६, ६; अणुजो० १३१; पञ्च० १; भग० १०, १; ११, १०; २५, ४;

अद्वाउश्च-य. पुं० न० ( अद्वायुष ) काणीप्रधान आयुषः; मनुष्य अने तिर्यचन्तुं आयुषं काणी-प्रधान छे, एटेके डे एक भव थया पञ्ची पञ्च डेहने पुनःतेज भव प्राप्त थनां मनुष्ये ते तिर्यचन्तुं आयुषं इरीथी वेदाय छे—भोगवाय छे. काल प्रधान आयुषः; मनुष्य और तिर्यच का आयुष कालप्रधान है अर्थात् एक भव पूर्ण होने पर किसाको पुनः वही भव प्राप्त होने पर मनुष्य या तिर्यच का आयुष फिर से भोगना पड़ता है. Life period of human beings and animals. In case of their re-birth in the same class their life-period is the same. “ दोरण्ण अद्वाउष परखते. तंजहा-मणुस्साण्ण चेव पंचिदिव्यतिरिक्तजोग्याण्णं चेव ” ठ० २, ३; ४;

**अद्धाण.** न० ( अध्वान ) प्रथाणु करुं ते;  
भुसःइरी कर्त्ती ते. मुसाफिरी करना; यात्रा  
करना. Travelling. “अद्धाणेहि सुहेहि  
पातरासेहि जेयेव साकारवी चोरपही तेयेव  
ठवागच्छह” विवा० ३;

**अद्धाण.** पुं० ( अध्वन् ) भार्ग; २२ते.  
मार्ग,रस्ता. A road; a way. वेय० १,  
४५; ओव० ३८; गंण० १४; नाया० १४;  
१५; वव० ८, ४; ११; प्रव० ५१६;—गमण.  
न० ( -गमन ) भार्गमा पंथ करवे। ते; विहार  
करवे। ते. विहार करना. travelling  
on foot ( by an ascetic ). “गायणत्थ  
अद्धाणगमणे शो कप्पह॑ओव०—पाडिवणण.  
त्रिं० (-प्रतिष्ठ) भार्गने पामेल; पथे पडेल.  
राते लगा हुआ; भार्गप्राप्त. on the  
road. भग० २, १;

**अद्धापलिय.** न० ( अद्धापल्य ) ऐक नेजननो  
लाभा, पहेलो अनेउडो कुवो वागाग्रथी भरेलो  
होय, तेमांथी सो सो वरसे ऐक वागाग्र काटां  
जेटला वर्खतमां आली थाय तेटला वर्खत. एक  
योजन का लम्बा, चौड़ा और ऊँड़ा बालाग्रों से  
भरा हुआ कूप हो उसमें से सौ सौ बरस में एक  
२ बालाग्र निकालने में जितना समय लगता  
है उस समय का नाम. a pit one Yojana  
in length, one Yojana ( i. e.  
eight or nine miles ) in breadth  
and one Yojana in depth is to be filled with the finest points  
or ends of hair. At the close of  
every period of 100 years one  
point of hair is to be taken out.  
The time required to empty  
the whole pit in this way  
constitutes the division of time  
known as Addhā-Palya. प्रव०  
१०३७;

**अद्धापलि.** न० ( अद्धापल्य ) जुआ। “अद्धा-  
पलिय” १०५६. देखो “अद्धापलिय” शब्द.

Vide “अद्धापलिय.” प्रव० १०४३;

**अद्धामलय.** न० ( अर्द्धमलक ) भारी जरनु  
मेंर अथवा भीणु. खारी जुबार के मोर. The  
blooms of the Juvāra having  
a saltish taste. प्रव० १२४;

**अद्धिं. छी०** ( अधृति ) अधीराध, धीरनो।  
अभाव. धैर्य का अभाव; अधीरता. Lack  
of patience. पिं० निं० ४८७;

**अद्धुड़. त्रि०** ( अर्द्धचतुर्थ ) सात्रात्त्व. साते तीन.  
Three and a half. कप्प० ६, १६४;  
—सत्य. न० ( -शत ) सात्रात्त्व से। साते  
तीन सौ; ३५०. three hundred and  
fifty ; 350. कप्प० ६, १६४;

**अद्धुव.** त्रि० ( अधुव ) जुआ। “अधुव”  
१०५६. देखो “अधुव” शब्द. Vide “अधुव”.  
ओव० १४; परह० १, ८० क० गं० ५, ७;  
क० प० ७, १;—उद्धा. छी० ( -उद्धा )  
नेनो उद्य विच्छिन्थया पठी पण्डव्य, क्षेत्र,  
कृष्ण, भाव अने भवरूपहेतुना सानिध्यथी  
पुनः उद्य थाय अवी कर्मप्रकृति. जिसका  
उदय विच्छिन्न होने के बाद भी फिर द्रव्य,  
क्षेत्र, काल, भाव और भवरूपहेतु के सानिध्य  
से उदय हो एसा कर्मप्रकृति. a variety  
of Karma coming again into  
rise through the vicinity of  
contributory causes like substance,  
space, time etc ; a Karmic  
variety of an uncertain period  
of maturity; a variety of  
Karmic ( Prakṛiti ) nature.  
Though the development of  
it is at a stand still, yet on  
account of its close contact  
with substance, space, time and

the desire for worldly existence, it matures again क० गं० ५, ८;—बन्धिणी. लो० (-बन्धिनी) जुआः ‘अभुवबंधी’ शब्द. देखो ‘अभुवबंधी’ शब्द. vide “अभुवबंधी.” क० प० २, १०२;—संतकम्. न० (-सत्कर्मन्) अध्रुव सत्तावाणा कर्म; वे कदाच बंधाय कदाच न बंधाय ऐवी कर्मप्रकृति. अध्रुव सत्ता वाला कर्म; कदाचित् बंध होने वाली और कदाचित् बंध न होने वाली कर्मप्रकृति. a Karmic variety which may or may not come into existence. क० प० २, ७२;—सत्कर्मिण्या. ली० (-सत्कर्मिका) ध्रुव सत्कर्म की प्रतिक्रिया प्रकृति. ध्रुव सत्कर्म की प्रतिक्रिया प्रकृति. a Karmic variety contrary in nature to Dhruvasatkarma. क० प० २, ३७;—सत्तागा. ली० (-सत्ताका) ज्ञेनी सत्ता डेह वधते हैय डेह वधते न हैय ऐवी कर्मप्रकृति. ऐसी कर्मप्रकृति, जिसकी सत्ता किसी समय में हो और किसी समय में न हो. a variety of Karma with uncertain periods of existence. क० गं० ५, १;—साहण. न० (-साधन) भनुष्यजन्म वगेरे अनित्य साधन; अध्रुव हेतु. मनुष्यजन्म आदि अनित्य साधन; अध्रुव हेतु. transitory, uncertain means of accomplishment like birth in the human body etc. पंचा० १२, ४०;

अधरण. त्रि० ( अधम ) निन्दा; निन्दापात्र;

सौभाग्यादीन. निन्दा का पात्र; सौभाग्य हान. Blameworthy; unfortunate. “अधरणा सूलभाभिज्ञदेहा” परह० १, ३; “नरगा उवटिया अधरणा ते पिय दीसंति” परह० १, १; नाया० २; ६; १६; राय० २७६; पंचा० ६, २७; निर० १, १;

अधम. त्रि० ( अधम ) हल्कुं; नीचुं; दुष्ट. अधम: नीच; दुष्ट. Mean; low; wicked. “अहो वयइ कोहेण, माणेण अधमा गई” उत्त० ६, ५४;

अधमम्. पुं० ( अधर्म ) स्थितिहेतुभूत अधर्मास्तिकाय; छ द्रव्यमानुं भीजुं द्रव्य. स्थितिहेतुभूत अधर्मास्तिकाय, छ: द्रव्यों में से दूसरा द्रव्य. One of the six Dravyas which is a cause or rather a source of rest to soul and matter. “एगे अधर्मे” सम० १; उत्त० २८, ७; ३६, ५; भग० २०, २; पञ्च० १; ठा० ७; ( २ ) भिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्राय अने अशुभयोगरूप कर्मबंध कारणभूत आत्मपरिणाम. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभयोगरूप कर्म बंध कारणभूत आत्मपरिणाम. thought-activity of the soul consisting of false belief, passions etc. causing Karmic bonds. “णथिधम्मे अधर्मे वा, ऐवं सञ्च शिवेसपु” सूर्य० २, ५, १४; दसा० ६, ४; ( ३ ) सावधानु-धानरूप पाप. सावधानुशानरूप पाप sinful performance. “अद्विषेदं चेव वित्तं कप्येमाये विहरह” गाय० १८; ( ४ ) अथक्षर्येनुं रोगमु तैः अब्रहाचर्य का सोलहवाँ गायण तथा sixteen description of कषाय अविरति. परह० १, ४;—अग्नुः १२० (—अतुगा ) अधर्मने अनुसरनार. अधम क.

अनुसरण करने वाला. following sinful ways. भग० १२, २; नाया० १८; विवा० १;—खाइ. त्रि० (-खानि) अधर्मितरीक्षे नेनी ख्यति-प्रसिद्धि होते ते. जो “अधर्मी” के नाम से प्रसिद्ध हो वह. notorious as a sinful person. भग० १२, २; विवा० १;—खाइ. त्रि० (-खानिन्) अधर्मनुं आप्यान-प्रतिपद्न करनार. अधर्म का प्रतिपादन करने वाला. ( one ) preaching sin. नाया० १८; भग० ३, ७; दसा० ६, ४; विवा० १;—जीवि. त्रि० (-जीवन्) अधर्मवृत्तिरी शृननार. अधर्म वृत्ति से जागे वाला. earning livelihood by sinful means. दसा० ६, ४;—जुत्त. न० (-जुक्) तदैऽपि उदाहरणां एक अ॒ २, ३ ने सांलग्नवादी श्रान्ताने अधर्म भुद्धि थाय. तदोष उदाहरण का एक गेद, जिसके मुरान से श्रान्ताओं में अधर्मवृद्धि उत्पन्न होती है. an illustration breeding heresy in the mind of the hearer. ठा० ४, ३;—थिकाय. पुं० (-अस्तिकाय) उ३ अने पुह्यगानी गति अटकावामां स्थिति करनामां स्थाय आपना॒ २ द३४; ४ द३४मांतुं अधर्म-स्थितिकाय नामे थीज्ञुं द३५. जीव और पुद्ल की गति का अवरोध करने का कारणभूत द्रव्य; छः द्रव्यों में से दूसरा द्रव्य. one of the six Dravyas or substances which is a medium of rest to soul and matter. “अधर्मस्थिकायस्त णं भंते ! केवइया अभिवयणा ? ” भग० १३, ६; “अधर्मस्थिकायस्त णं भंते ! केवइया अभिवयणा ? ” भग० २०, २; भग० २, १०; ७, १०; सम० ५; अणुजो० ६७; १३१; राय० २७;—दाण. न० (-दान) अधर्मे पैषुक्षदान; अधर्मी-पापीने अपातुं दान, ते ने

अधर्मे उत्तेजन आपे ते. अधर्मपोषक दान, अधर्मी को दिये जाने वाला दान, जो कि, अधर्म को उत्तेजन दे. charity encouraging or promoting sin. ठा० १०;—दार. न० (-द्वार) आश्रवद्वार; प्रश्वव्याकरणसूत्र का प्रथम द्वार. आश्रव द्वार; प्रश्वव्याकरणसूत्र का प्रथम द्वार. the first Dvāra of the Sūtra called Praśna-vyākaraṇa; door for the inflow of Karma. “ पदम् अप्यमदारं संमत्तच्चित्तेमि ” परह० १, १;—पक्ष. पुं० (-पक्ष) क्रियावादी, अक्रियावादी, असान्वादी, विनयवादी वर्गेरे पाप्ती; अधर्म-पक्ष. क्रियावादी, अक्रियावादी, असान्वादी, विनयवादी आदि पास्तराडी; अधर्मपक्ष. a heretic; e. g. Kriyāvādī, Akriyāvādī, Ajñānavādī, Vinayavādī etc. सूॢ० २, २, ३५;—पञ्चरण. न० (-प्रजनन) लोकामां अधर्मे उत्पत्ति करनार. लोगों में अधर्म उत्पन्न करने वाला. propagating heretical creed amongst people. राय०—पडिमा. श्वी० (-प्रतिमा) अधर्मप्रतिमा; अधर्मप्रधान प्रतिमा-शरीर. अधर्मप्रतिमा; अधर्मप्रधान शरीर. a sinful vow; a body full of sin. “ एगा अधर्मपडिमा जंसि आया परिकिलेसत्ति ” ठा० १, १;—पलाज्जरु. त्रि० (-प्रजनन-न धर्मे प्ररज्यन्ते ये से) अधर्मेभां रंजन थनार; अधर्मप्रेमी. अधर्म से प्रस्तु होने वाला; अधर्मप्रेमी. sin-loving. नाया० १८; विवा० १; दसा० ६, ४;—पह्लोइ. त्रि० (-प्रलोकिन्-न धर्मसुपादेयतया प्रलोक्यति यः स तथा) अधर्मेभै॒ उपादेयरूपे ज्ञेनार. अधर्म को ही उपादेयरूप से देखने वाला. (one) preferring sin to piety etc. नाया० १८; विवा० १; दसा० ६, ४;—राह.

त्रि० (-रागिन्) अधर्मनो। रागी; अधर्म प्रेमी. अधर्म का प्रेमी. sin-loving; attached to sin. दसा० ६, ४; —समुदायार. त्रि० (\*—समुदाचार—समाचार—अधर्मात्मकः समुदाचारः सप्रमोदो वाऽस्त्वारो यस्य स तथा ) यात्रित्थी विकल; दुराचारी; अधर्मना. आयरणुमां भग्न रहेनार. अधर्माचरण में मग्न रहने वाला; दुराचारी. engrossed in vicious practices; steeped in vice. नाया० १८; विवा० १; —सीतासमायार. त्रि० (-शीलसमाचार) अधर्मस्तुप स्वभाव अने आचार छे नेनो ते. जिसका अधर्मस्तुप स्वभाव और आचार है वह. of sinful nature and conduct. दसा० ६, ४;

**अधर्मित.** त्रि० ( अधर्मित् ) धर्माहीन; अपर्भी. धर्म हीन; अधर्मी. Sinful; irreligious. सम० ३०; —जोय. तुं० (-योग) निमित्त, वशीकरण आदि प्रयोग करना. practising such arts as fascination etc. सम० ३०;

**अधर्मित्तु.** त्रि० (-अधर्मिष्ट—अतिशयेन धर्मी अधर्मिष्टो न धर्मिष्टोऽधर्मिष्टः) अतिशय अधर्मी; अतिनिर्दय कर्म करनार. अतिशय अधर्मी; बहुत निर्दय कर्म करने वाला. Highly sinful; doing highly wicked deeds. नाया० १८; विवा० १;

**अधर्मिय.** त्रि० ( अधर्मिक ) अधर्मधर्मी वर्तनार; अधर्मी; पापी; असंज्ञित. अधर्म-मय वर्ताव करने वाला; अधर्मी; पापी. Sinful; impious. नाया० १८; विवा० १; ठा० ४, १;

**अधर.** त्रि० ( अधर ) नीचेतुं. नीचे का. The lower. ज० प० नंदी०—उट्टुं० (-ओष्टुं) नीचेनो। लेइ०. नीचे

का ओष्टुं. the lower lip. “ ओयविय सिलप्पदालविंबफलसरिणभाधहट्टा ” नंदी० —गमण. न० (-गमन) अधोगति ज्वानां कारणे. अधोगति में ले जाने के कारण. cause of fall or degradation. “ तहा गवालीकिं च गरुयं भयांति अधरगमणं ” परह० १, २;

**अधरिम.** त्रि० ( अधरिम-अविद्यमानं धरिम मृणद्रव्यं यस्मिंस्तत्त्वाद ) ज्यां अमुक वर्खतभाटे डेइये डेइनी पासेथी करूङ लेतुं नहिं के ते संबंधी तकरार करवी नहिं ऐवो। हुक्म क्रमाववामां आव्यो। हेय तेतुं नगर वर्गेरे. ऐसा नगर वर्गेरह, जहां यह आज्ञा दी गई हो कि, अमुक समय तक कोई भी किसीके पास से कर्ज न ले और न उस सम्बन्ध में झगड़ा करे. (A city etc.) in which exaction of money due or quarrel about it is prohibited for a time. भग० ११, ११; नाया० १; कण० ५, १०१;

**अधरी. क्री०** ( अधरी ) वाटवानी छिपर; अरक. घरल. A stone mortar. “ अधरीसंठाणसंठिया दोवि तस्स पाया ” उवा० १, ६६; —लोटुं. पुं० (-लोष्टुं) वाटवानो-लद्दनो. पथरे, अपरसीओ. वाटने का गोल पथर. a round flat stone used to pound substances as in a mortar. “ अधरीलोटुंसंठाणसंठियाऽस्मो पापसु अगुलियो ” उवा० १, ६४;

**अधारणिज्ज.** त्रि० ( अधारणीय ) अमुक वर्खत भाटे परस्पर करूङनी लेनी हेती याते संबंधी तकरार करवानी ज्यां भना। करवामां आवी हेय तेतुं नगर वर्गेरे. अमुक समय तक परस्पर ऋण लेने देने या उस संबंधी झगड़ा करने की जहां मनाहीं की गई हो ऐसा नगर वर्गेरह. ( A city etc. ) in which

**अधोगामि.** त्रिं ( अधोगामिन् ) पाणीना प्रवाहनी पेठे अधो-नीचे जलार. पानी के प्रवाह के समान नीचे जाने वाला. Down-rushing like a torrent of water.

निर्सी० १६, ११;

**अधोहि.** पुं० ( अधोवधि-परमावधेऽधोवद्यं-वधिर्यस्य सोऽधोवधि. ) परमावधिधि उत्तरता प्रकारना अवधिज्ञानवालो अव. परमावधि से नीचे की श्रेणी के अवधिज्ञान वाला जीव. A soul falling short of the highest

**Avadhijñāna.** “ अधोहिसमोहण्यं चेष्ट इप्याशेषं आत्मा अहेतों जाणाह ”

ठा० ३, ३;

**अनन्त.** त्रिं ( अनन्त ) अनन्त-पार वगरनु ज्ञेनो पार पारी शक्य नहि ते. अनन्त; अनन्त-पार रहित. Endless; infinite.

दस० ६, ३, १६;—हिय. न० ( -हित ) अन्त वगरनो हित; मेक्ष. अन्त रहित-शाश्वत हित; मोक्ष. external bliss; salvation. दस० ६, २, १६;—हियकाम. त्रिं ( -हितकाम-अनन्तहितं मोक्षं कामयत हृति ) मेक्षनी ४२७। करनार. मुक्ति की कामना करने वाला. (one) desirous of eternal bliss or final emancipation. दस० ६, ३, १६;

**अनन्य.** त्रिं ( अनन्य-न अन्योऽनन्यः ) अन्य-लिन नहि ते. जो मिच-दूसरा न हो वह. Not different; not other than; identical; without a second. पि० नि० १५०;

**अनल.** पुं० ( अनल ) अग्नि; आग. अग्नि; आग. Fire. सु० च० १, २;—सेवा. छी० ( -सेवा ) अग्निनु सेवन. अग्नि का सेवन. resorting to fire; making use of fire. ग्रन० ५२५;

**अनलस.** त्रिं ( अङ्गस ) आधम्यरहित;

उत्साही. आत्मस्य रहित; उत्साही. Not lazy; energetic. “ ऊजे अनलसो भुव ” दस० ८, ४३;

**अनवरयं.** अ० ( अनवरतम् ) सतत; निरंतर. सतत; निरंतर. Constantly; ceaselessly; uninterruptedly. पञ्चा० १, ५०; अनह. न० ( \*अनह-अन्त-विरिज्जन ) विधि वगरनु. विश्र रहित. Unobstructed; unopposed; unfettered. सु० च० १, १०५;

**अनाउत्त.** त्रिं ( अनायुक्त ) उपर्योग वगरनु. उपर्योग शून्य. Careless; inattentive. ओव० २०;

**अनागय.** त्रिं ( अनागत ) आवता डालिनु. भविष्य काल संबंधी. Future; belonging to the future. निर्सी० १०, ८;

**अनागार.** पुं० न० ( अनाकार ) आकार-भेद-विशेष वगरनु. आकार-भेद रहित. Shapeless; without any difference “ अनागारोवउत्ते बंधह ” भग० ६, ३;

**अनाण.** न० ( अज्ञान ) जुओ. “ अणाण ” शब्द. देखो “ अणाण ” शब्द. Vide “ अणाण ”. क० गं० ३, १८;—तिग. न० ( -त्रिक ) त्रिष्ण अज्ञान; भूति, क्षुत अनेविभंग एव नशु विपरीत ज्ञान. तीन अज्ञान; मति, क्षुत और विभंग ये तीन विपरीत ज्ञान. the group of three kinds of ignorance viz Mati, Sruta and Vibhaṅga. क० गं० ३, १८;

**अनाणत्त.** त्रिं ( अनानात्व-न विष्टते नानात्वं येषां तेऽनानात्वाः ) नाना भाव-भेद-रहित, प्रकार विनाश. भेद रहित. Undifferentiated; homogenous. “ प्रणविष्टमनाष्टका, सुहुमा तत्थ विष्टाहिमा ” उत्त० ३६, ७७;

**अनादेज्जा.** त्रिं ( अनादृष्ट ) नाम्भूर्भनी ऐक प्रकृति, ते जेना उद्दृथी भुवे छेल

हितकारी वचन पथु केऽपि स्मीकारे करे नहि  
अने उपदृतभाषुसं पथु तिरस्कारे करे छे.  
नाम कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से  
जीव के द्वारा प्रतिपादित हितकर वचनों को  
भी कोई अंगीकार न करे और उपकृत पुरुष भी  
षृणा करे. A variety of Nāmakarma  
by the rise of which a person's  
words even though wholesome  
are not trusted or are derided  
and disregarded. पञ्च० २३;

**अनाबाह.** त्रिं० (अनाबाह) जुओ। “अणाबाह”  
शब्द. देखो ‘अणाबाह’ शब्द. Vide  
“अणाबाह.” ओष्ठ० निं० ३७;

**अनाय.** त्रिं० (अज्ञात) जुओ। “अणाय”  
शब्द. देखो ‘अणाय’ शब्द. Vide  
“अणाय.” विशेष० २१६; ४८५;

**अनायमासि.** त्रिं० (अन्यायभाषित्)  
यदा तदा न्यायविश्व ऐकनार. यदा तदा  
न्यायविरुद्ध बोलने वाला. Speaking  
recklessly and without regard  
to justice. “जे विगाहिण अनायमासी,  
न से समे होइ अम्भकपत्ते” सूय० १, १३, ६;

**अनायरं.** व० क० कृ० त्रिं० (अनाचरत्) नहि आचर  
ते। नहीं आचरता हुआ. Not practising;  
not performing. पंचा० ११, १६;

**अनारिय.** त्रिं० (अनार्थ) जुओ। ‘अणा-  
रिय’ शब्द. देखो ‘अणारिय’ शब्द. Vide  
“अणारिय.” आया० १, ४, २, १३३;

**अनाविल.** न० (अनाविल) जुओ। “अणा-  
विल” शब्द. देखो “अणाविल” शब्द.  
Vide “अणाविल.” सूय० १, २, २, १४;

**अनासज्ज.** त्रिं० (अनासज्ज) आसज्ज-न७३  
नहि ते; दूरवर्ती. दूरवर्ती. Not in the  
vicinity; situated at a distance.  
अब० ७१७;

**अनिश्चित.** त्रिं० (अनियत) नियत-नियम  
रहित. अनियमित; नियम रहित. Without  
fixed rules or principles. विशेष० १;

**अनिश्चित्वायर.** पुं० (अनिश्चित्वायर) क्षेत्र-  
ना अष्टकने खपाववाना आरंभथी अने  
नपुंसकवेदना उपरामधी मांडी वादर लोभ-  
भृत्यने खपावे के उपरामधी त्वां सुधीनी  
स्थितिमां नवमे शुद्धाशुद्ध वर्तते छूय. कषाय  
के अष्टक का ज्यय करने के आरंभ से और  
नपुंसकवेद के उमशाम से लेकर बादर लोभ-  
खंड को ज्यय करे या उपशामित करे वहाँ  
तक का स्त्रिति में नवें गुणस्थान में विद्य-  
मान जीव. A soul in the ninth Gu-  
ṇasthāna when eight of his  
passions begin to be wholly  
destroyed, he begins to feel  
sexless, and his greed of a  
grosser nature is destroyed or  
subsided. सम० १४;

**अनिश्चम.** पुं० (अनियम) अनियति; असं-  
यम. असंयम. Absence of control  
over senses; attachment to  
worldly objects. क० गं० ४, ५४;

**अनिकेत.** त्रिं० (अनिकेत) धरभारहित. अ-  
निकेतन; बिना घरबारका. Houseless;  
possessionless. उत्त० २, १४;

**अनिक्षित्स.** त्रिं० (अनिक्षित्स) निरंतर;  
अत्थु; खाच्या पाऊचा विना. निरंतर; लगातार.  
Continuous; uninterrupted.  
“छटु छटुणं अनिक्षित्सेणं तवोऽस्मेणं”  
ओष्ठ० ४०; भग० २, ५; ३, १; ७, ६;  
निर० ३, ३;

**अनिगिरा.** पुं० (अनग्न) क्षेत्रक्षेत्री दृश्यभी  
ज्ञात; अनग्न-नन्पथ्युने टाणनार-वस्त्राहिक  
आपनार क्षेत्रक्षेत्री. कल्पवृक्ष की दृश्यभी  
ज्ञाति; नमता को दूर करने के साधनस्य

धर्मादिक देने वाले कल्पवृक्ष. Tenth variety of Kalpavrikṣa removing nudity by yielding clothes etc. सम० १०;

**अनिग्रह.** पुं० ( अनिग्रह ) धन्दियेने क्षम्भां न राखी शक्ते; धन्दिये अधीन. इन्द्रियों को बश न कर सकने वाला; अजितेन्द्रिय. Want of control over the senses; lack of self restraint. उत्त० ११, ३;

**अनिष्ट.** त्रि० ( अनिष्ट ) अनित्य; अस्थिर. चलायमान; अस्थिर. Transient; transitory; not permanent. दस० ८, ५६;

**अनिजिएण.** त्रि० ( अनिजिएण ) निर्जरा ईरेत नहि; आत्मप्रदेशथी अरीने दूर थयेत नहि. आत्मप्रदेश से जो पृथक् न हुआ हो वह; जिसकी निर्जरा नहाहुई हो वह. Not worked off by Nirjarā. भग० १, १०;

**अनिर्जूद.** त्रि० ( अनिर्जूद ) जुहुं कुपेलुं छनां जुहुं ओंची नहि अपेतुं. पृथक् माना हुआ होने पर भी पृथक् नहीं किया गया हो वह. Imagined as separate but not actually divided in fact. वेय० २, १८;

**अनिष्ट.** त्रि० ( अनिष्ट ) धृत नहि ते; अशुभ. अनिष्ट; अशुभ; अभद्र. An evil; any thing not desired. भग० २०, १;

**अनिदा.** ली० ( अनिदा ) जुओ. 'अणिदा' शब्द. देखो 'अणिदा' शब्द. Vide "अणिदा." पञ्च० ३५; भग० १६, ५;

**अनिमिस.** पुं० ( अनिमिस ) आंभना पग-कास न भारवा ते. आंख का पलक न मारना. Absence of the twinklings of the eyes; winklessness. भग० १, २;

**अनियह.** पुं० ( अनियह ) ज्याथी दूरी निवर्तवानुं नथी ते; भोक्ष. जहाँ से फिर

वापिस आना नहीं होता वह; मोक्ष. Final emancipation; lit. that from which there is no return. आया० १, ४, ४, १३७;

**अनियदृत्ति.** त्रि० ( अनियदृत्ति ) निष्ठति पामेल नहि. निवृत्ति नहीं पाया हुआ. Unabstained. “इह कामानियदृत्तस्स, अस्त्वै अवरज्ञह” उत्त० ७, २५;

**अनियहि.** न० ( अनिवर्तिन्-अनिवृत्ति ) जुओ। 'अणियहि' शब्द. देखो 'अणियहि' शब्द. Vide "अणियहि". क० ५० २, ६७; ४, २४; क० गं० २, २; ५, ७; विशेष० १२०६; —बायर. पुं० (-बादर) जुओ। "अणियहि-बायर" शब्द. देखो "अणियहिबायर" शब्द. Vide "अणियहिबायर". क० गं० ६, ५०; क० ५० २, ४३;

**अनियहिकरण.** न० ( अनिवर्त्तकरण ) जुओ। "अणियहिकरण" शब्द. देखो 'अणियहिकरण' शब्द. Vide "अणियहिकरण". विशेष० १२०३;

**अनियत्ता.** त्रि० ( अनियत्ता ) निष्ठति नहि पामेल; अट्केल. नियत नहीं हुआ. Not retired from; not turned away from. उत्त० १४, १४;

**अनियत.** त्रि० ( अनियत ) नियत नहि ते. अनियत; नियत न हो वह. Unsettled. उत्त० ६, १७; प्रव० ५५०;—वित्ति. त्रि० (-वृत्ति) अनियत-अप्रतिश्वेष्यते वृत्ति-विहार करनार. अनियतवृत्ति से विहार करने वाला. roaming or wandering from place to place unrestrained or unchecked. प्रव० ५५०;

**अनिया.** ली० ( अनिदा ) जुओ. 'अणिदा' शब्द. देखो 'अणिदा' शब्द. Vide "अणिदा." पिं० नि० १०३;

**अनियाण.** त्रि० ( अनिदान ) कर्त्तुनुं ३६

न भागनार; नियाणा विनानो; भावी इक्षनी  
काभना विनानो। भावी फल की कामना नहीं

करने वाला; निदान रहित. Free from  
desire of the fruits of actions.

“ अनियाणे अकोउहङ्के जे स भिक्खु ” दस०  
१०, १, १३; सत्त० ३०;

**अनिरुद्ध.** पुं० ( अनिरुद्ध ) प्रद्युम्नकुमारनी  
पैदर्भी राणीनो पुत्र, उ० जे नेमनाथप्रभुनी  
पासे दीक्षा लई, बार अंगनो अभ्यास करी,  
सोण वरसनी प्रनज्या पाणी, शत्रुंजय पर्वत  
उपर ऐड भासनो संथारो करी सिद्ध थया.  
प्रद्युम्नकुमार का वैदर्भी रानी से उत्पन्न पुत्र, जो  
नेमनाथप्रभु के पास से दांता लेकर, बारह  
अंगों का अभ्यास कर और सोलह बर्ष तक  
प्रवर्ज्या का पालन कर शत्रुंजय पर्वत पर  
एक मास का संथारा कर सिद्ध हुआ. The  
son of Vaidarbhi the queen of  
Pradyumnakumāra who took  
Dikṣā from, Nemanātha, studied  
twelve Aṅgas, observed ascetic  
ism for sixteen years and obtained  
salvation after a months'  
fasting on the Śatruñjaya  
mountain. ( २ ) अंतगडसूत्रना योथा  
वर्गना आइमा अध्ययननुनाम. अंतगड सूत्र के  
चौथे वर्ग का चूँवाँ अध्याय. name of the  
eighth chapter of the fourth  
section of Antagaḍa Sūtra.  
परह० १, ४; अंत० ४, ८;

**अनिल.** पुं० ( अनिल ) पवन; वायु. वायु; हवा.  
Wind. भग० ५, १; ७, ६; दस० १०, १,  
३; क० गं० ४, १३; ( २ ) भरतक्षेत्रना गध  
योवीसीना सतरमा तीर्थकरनु नाम. भरत  
क्षेत्र की गत चौरीसी के १७ वें तीर्थकर का  
नाम. name of the 17th Tirthan-  
kara of Bharatakṣetra in the

past Chovīśī ( cycle of time ).  
प्रब० २६१;

**अनिला.** ली० ( अनिला ) एकवीशमा तीर्थकर-  
मुनिसुव्रतस्वामीति प्रथम साधीनु नाम:  
२१ वे तीर्थकर-मुनिसुव्रतस्वामी की प्रथम  
साधी का नाम. Name of the first  
female ascetic disciple of Muni-  
Suvrata Svāmī, the 21st  
Tirthankara. प्रब० २१०;

**अनिवारण.** न० ( अनिवारण ) अतुभि, असंतोष.  
अतृप्ति; असन्तोष. Absence of content-  
ment. “ अयसो य अनिवारणं, सयं च  
असाहुया ” दस० ५, २, ३२; ३८;

**अनिवृड.** त्रि० ( अनिवृत ) अवेद्यादि शब्द-  
था परिशुत्-अचित् थेवत् नहि; सचित्.  
अप्रि आदि से जो आचित नहीं हुआ हो वह;  
सर्वत्. Not made lifeless by fire  
etc; having life. “ उच्छुखंडे अनिवृडे ”  
दस० ३, ७;

**अनिसद्ग.** त्रि० ( अनिसद्ग ) जुओ “ अणिसद्ग ”  
शब्द. देखो “ अणिसद्ग ” शब्द. Vide  
“ अणिसद्ग. ” पंचा० १३, ६;

**अनिसिसअ.** त्रि० ( अनिश्रित ) निश्रा-  
णीजनी भद्र मेवावानी धन्ति विनानो.  
दूसरे की सहायता प्राप्त करने की इच्छा रहित.  
Self-reliant. दस० १, ५; सम० १२;  
दसा० ४, ४१; ५२;—वयण. त्रि०  
(-वचन) रागदेवनी निश्रारहित जेनां वयन  
होते. रागदेव से रहित वचन कहने वाला.  
(one) whose speech is free from  
passion or hatred. प्रब० ५५१;

**अनिहत.** त्रि० ( अनिहत ) निरुपक्षम आ-  
युधवाणी; जेतु आयुध त्रुटे नहि-डोर्थि  
हुएय नहि एवे. अखंड आयु वाला; जिसकी  
आयु किसीसे भंग न हो वह. Indestruct-  
ible. सम० प० २३५;

**अनिहृत.** त्रि० ( अनिभृत ) अनुपश्चान्त.

अशान्त. Not calmed; not quieted; not peaceful. पगह० १, ३;

**अनीश.** न० ( अर्नीक ) सैन्य; लश्कर. सेना.

An army. कप्प० २, ११;—**अहिवृद्-**  
पुं० (-अधिपति) सेनानीं नाथक. सेना का  
नायक-अधिपति. commander of an  
army. कप्प० २, ११;

**अनीसा.** छाँ० ( अनिश्चा ) नेश्चा-छीलनी।  
अपेक्षानी। अभाव. दूसरे की अपेक्षा का अभाव.  
Self-reliance; self-help. पिं० नि०  
१४५;

**अनीहारिम.** न० ( अनिर्हारिम ) जुओ।  
“अणीहारिम” शब्द देखो “अणीहारिम”  
शब्द. Vide “अणीहारिम.” भग० २, १;

**अनुच्छ.** त्रि० ( अनुच्छ ) द्रव्यथी अल्पभूम्य  
अने भावथी गुरुना आसनथी उन्नु नहि.  
द्रव्य से अल्पमूल्य और भाव से गुरु के आसन  
से ऊँचा न हो. Less in value and not  
more elevated from devotional  
point of view than the seat of  
a preceptor. उत्त० १, ३०;

**अनुपज्ञ.** त्रि० ( अनुपज्ञ ) उपजेत नहि ते.  
उत्पन्न नहीं हुआ. Not produced; not  
born; not created. निसाँ० ४, २२;

**अनुप्याहिणीकरेमाण.** व० क० त्रि० ( अनु-  
प्रदक्षिणीकुर्वत् ) आसपास प्रदक्षिणा  
करते. आस पास प्रदक्षिणा करता हुआ.  
Cir-cum ambulating; moving  
round an object. राय० ६७;

**अनुप्यविसित्ता.** सं० क० त्रि० ( अनुप्यविश्य )  
प्रवेश करने. प्रवेश करके. Having  
entered.“से अनुप्यविसित्ता गामं वा जाव  
रायहार्यि वा” आया० २, ७, १, १५५;  
**अनुभ्य-अ.** त्रि० ( अनुभृत ) अनुभवेद्ध;

परियथमां आवेद्धु. अनुभृत; परिचित,  
Experienced; familiarly known.

अणुजो० १३०;

**अनुरक्त.** त्रि० ( अनुरक्त ) अनुरागी; आस-  
क्त; प्रेमी. अनुरागी; प्रेमी. Full of attachment  
to or love for. सु० च० १,  
२७६;

**अनुलेवण्टतल.** न० ( अनुलेवण्टतल ) जुओ।  
‘अणुलेवण्टतल’ शब्द. देखो ‘अणुलेवण्ट-  
तल’ शब्द. Vide ‘अणुलेवण्टतल’ दसा०  
६, १;

**अनुलोम.** त्रि० ( अनुलोम ) जुओ। ‘अणु-  
लोम’ शब्द. देखो ‘अणुलोम’ शब्द. Vide  
“अणुलोम.” वव० ८, १०; परह० १, ४;

**अनुलोमयव्य.** त्रि० ( अनुलोमितव्य ) अनु-  
इत्य अनावन्तु ते. अनुकूल करना. Making  
agreeable. वव० ८, १०;

**अनुसास.** धा० I. ( अनु+शास् ) अनुशासन  
करना; शिक्षा आपवी. अनुशासन करना; शिक्षण  
देना. To teach; to instruct,  
अनुसासन्ति. उत्त० १, २७;

**अनेरक्तश्च-य.** त्रि० ( अनैरयिक ) नारकी शि-  
ष्यायना; नारकीयी भिन्न. नारकी के सिवाय;  
नारकी से भिन्न. Not Nārakī; other  
than Nārakī. भग० ४, ६; ६, १०;

**अन्न.** न० ( अज्ज ) अनाज; दाढ़ु. अनाज.  
Corn; grain. राय० २४१;—**जीविय.**  
(-जीवित-अन्नेन जावितं प्राणाश्चारणं यस्या-  
इसावचजीवितः) अन्ने आधारे जीवनार.  
अज्ज के आधार से जीने वाला. depending  
on food for life. राय० २४१;

**अन्यत.** त्रि० ( अन्यत ) जुओ। ‘अणण’ शब्द.  
देखो ‘अणण’ शब्द. Vide “अणण.”  
राय० १६; दस० ४, ५, ३६; ६, १२;  
७, १६; अणुजो० १३०; नंदी० स्थ० ४६;

उत्त० १, ३३; ६, ४२; ३०, २५; सु० च० ४, १५२; विशेष० १५४; पिं० निं० भा० ४;  
—धर्मिन. त्रि० ( -धार्मिक ) लिन् धर्मवागो; विधर्मी. अन्यधर्मी; विधर्मी. following another religion; belonging to a different creed.  
ओघ० नि० १५;—भव. पुं० ( -भव ) भीजे भव. दूसरा भव. another birth.  
क० प० ६, १०;—मणि. त्रि० ( -मणि ) भीषु तरः भटकता भनवागो. जिसका भन दूसरी ओर भटकता हो वह. having wind wandering elsewhere.  
आया० १, १, ३, १५;—लिङ. पुं० न० ( -लिङ्ग ) अन्यदर्शनीनो वे। अन्यदर्शन वाले का वेप. non-Jaina in dress etc.  
उत्त० ३६, ४६; प्रव० ४७६;—वेलचरग. पुं० ( -वेलाचरक ) भावनती वेणा भीनारीने लिक्षा इरवानो. अलिंगु धरनार साधु. भोजन का समय निकल जाने पर भिजा लाने का अभिप्रह रखने वाला साधु. a Sañlhu, begging food after the time of dinner has passed. ठा० ५, १;  
—संभोइय. त्रि० ( -सासभोगिक ) विन सामाचारीवागो ( साधु ). भिज सामाचारी वाला साधु. ( an ascetic ) differing in religious practices. पंचा० ५, ४३;  
अन्नतिथि. त्रि० ( अन्यूथिक ) जुर्पो ‘अण्णतिथि’ श०८. देखो ‘अण्णतिथि’ शब्द. Vide “अण्णतिथि” सम० १४;  
नाया० ११; आया० २, १, १, ४; ओव० ४०;  
अन्नतर. त्रि० ( अन्यतर ) जुर्पो ‘अण्णतर’ श०८. देखो ‘अण्णतर’ शब्द. Vide “अण्णतर.” दस० ४; ६, ७;  
अन्नतिथि. त्रि० ( अन्यतीर्थित्रि० ) अन्यतीर्थी; जैनेतर मतानुयायी. A non-Jaina. प्रव० ६७१;

—देव. पुं० ( -देव ) अन्य भनना देव-धर्मा, विष्णु अभूति. अन्यतर के देव. a god of a different ( i. e. heretical ) creed; e. g. Brahmā, Viṣṇu etc. प्रव० ६५१;

अन्नतिथिअ. पुं० ( अन्यतीर्थिक ) जैनेतर. A non-Jaina. प्रव० ६५१;  
अन्नत. न० ( अन्यत्र ) अन्यत्रभावना; सङ्कल संभूती वस्तुनः पेनाथी जुदा छे ऐभ वित्तयुं ते. अन्यत्र भावना. Meditation upon the fact that all relatives etc. are in reality unconnected with one's soul प्रव० ४७६;

अन्नतथ. अ० ( अन्यत्र ) जुर्पो ‘अण्णतथ’ श०८. देखो ‘अण्णतथ’ शब्द. Vide “अण्णतथ”. म० प० १; पिं० निं० १०८; २८३; ओघ० निं० ७८; सु० च० ५, १६८;

अन्नमध्य त्रि० ( अन्योन्य ) जुर्पो ‘अण्णमध्य’ श०८. देखो ‘अण्णमध्य’ शब्द. Vide “अण्णमध्य-मध्या.” ग्र० २, ३; नाया० ८; राय० ८३; वेण० ४, २;

अन्नयर. त्रि० ( अन्यतर ) जुर्पो ‘अण्णयर’ श०८. देखो ‘अण्णयर’ शब्द. Vide ‘अण्णयर’. आया० १, ६, २, १८३; २, ४, १, २४५; दस० ४; ६, ७; १६; २३; ६०; सू० १, २, २, ८; उत्त० ३०, २२; जावा० ३, ३; निर्सा० १, १०; सु० च० २, ६०१; क० गं० २, २२; ५, ८७; क० प० २, ५३; कप्प० ४, ७६; दसा० १०, ३; जं० प० २, २१;

अन्नया. अ० ( अन्यता ) जुर्पो ‘अण्णया’ श०८. देखो ‘अण्णया’ शब्द. Vide ‘अण्णया’. ओव० ४०; पिं० निं० ८४; सु० च० १, ४२; दसा० १०, १;

अग्रण्याक्याद्. अ० ( अग्रण्याक्यादाचित्र ) जुर्पो ‘अण्णण्याक्याद्’ श०८. देखो ‘अण्णण्या-

क्याहं” शब्द. Vide “अरण्याक्याहं.” जं० प० ३, ४३; भग० ७, ६;

**अश्व.** पुं० ( अर्णव ) समुद्र; दीप्ति. समुद्र; सागर. Ocean. उत्त० १०, ३८;

**अश्वा.** अ० ( अन्यथा ) जुओ। ‘अरण्याहा’ श०८८. देखो ‘अरण्याहा’ शब्द. Vide ‘अरण्याहा’.

आया० १, २, ५, ६१; १, ५, ६, १७०;  
सूय० १, १, ३, १४; उत्त० २८, १८; विशे० १८७; सु० च० ४, २४०; क० गं० १, २१;  
४६; २, ८;

**अश्वाहिं.** अ० ( अन्यत्र ) भीमे रथगे. दूसरी जगह.  
In another place; elsewhere.  
“अश्वाहिं गच्छे” प्रव० ६०३;

**अश्वागय.** त्रि० ( अन्धागत ) युक्त; जोड़येत.  
मिला हुआ; जुड़ा हुआ. Joined; connected. आया० १, ५, ३, १५५;

**अश्वाण.** न० ( अश्वान ) जुओ। ‘अरण्याण’ श०८८.  
देखो ‘अरण्याण’ शब्द. Vide ‘अरण्याण’.  
प्रव० ४५७; भग० १, ६; उत्त० १८, २३;  
—परितह. पुं० ( —परियह ) जानना।  
अभावे थंतु कृपु सहन कृत्युते. ज्ञान के अभाव  
से होने वाला कष्ट सहन करना. endurance  
of the dis-comforts of ignorance. सम० २२;

**अश्वाण्या.** ऋ० ( अश्वानता-अश्वान ) अश्वान-  
ता; अज्ञानपृष्ठ. अश्वानता; अज्ञानपत्त.  
Ignorance. सूय० २, ७, ३८;

**अश्वाणि.** त्रि० ( अश्वानिन् ) जुओ। ‘अरण्याणि’  
श०८८. देखो ‘अरण्याणि’ शब्द. Vide  
“अरण्याणि”. दस० ४, १०; विशे० ३१८;  
भन० ८१;

**अश्वाणिय.** त्रि० ( अश्वानिक ) सम्यग्ज्ञान-  
रहित; अज्ञानी. सम्प्रग्ज्ञान से रहित;  
अज्ञानी. Ignorant; devoid of right  
knowledge. सूय० १, १, २, १६; ( २ )

अश्वाननेष्ट श्रेय माननार वाई, के लेना। ६७  
प्रकार छे. अज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने वाला  
वाई, जिसके ६७ प्रकार हैं. one who  
holds that ignorance alone is  
the highest bliss. (there are ६७  
varieties of this tenet). प्रव०  
१२०२;—चाह. त्रि० ( —चाहिन् ) “अश्वान-  
थीज श्रेय थाय छे, सानभां तकरारो थाय छे,  
पुरे पुरे सान डेखने थंतु नथी, अधुरा  
जानथी अनेक भनो थाय छे, भाटे सान  
भेणव्यु नहि,” ऐम भाननार ऐक वाई.  
“अज्ञान से ही कल्याण होता है, ज्ञान में भगड़ा  
हो जाता है, पूर्णज्ञान किसीको होता नहीं,  
अध्येरे ज्ञान से भिन्न २ मतों की उत्पत्ति होती  
है, इस लिये ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता  
नहीं है” ऐसा मानने वाला एक वाई. (one)  
who believes that knowledge is  
a curse and that ignorance is  
bliss सूय० २, २, ७६;

**अश्वाय.** त्रि० ( अश्वात ) अपरिचित. अपरि-  
चित; बिना पाहन्नान का; बिना जाना हुआ.  
Not known; unfamiliar. दस० ६,  
३, ५;—उच्छ्व. पुं० ( —उच्छ्व ) जुओ।  
‘अरण्यायउच्छ्व’ श०८८. देखो ‘अरण्यायउच्छ्व’  
शब्द. vide ‘अरण्यायउच्छ्व’. दस० ६, ३, ४;  
१०, १, १६;—एसि. पुं० ( —एसिन् ) अश्वात  
थंतु आहारनी गवेषणा। करनार. अज्ञात होकर  
आहार की गवेषणा करने वाला. one who  
seeks food incognito. उत्त० १५, १;  
—चरञ्च. पुं० ( —चरक ) जुओ। ‘अरण्यायचरञ्च’  
श०८८. देखो ‘अरण्यायचरञ्च’ शब्द. vide  
‘अरण्यायचरञ्च’. ठा० ५, १;

**अश्विआपुत्त.** पुं० ( अश्विआपुत्र ) ऐक प्राचीन  
धर्माचार्यनु नाम. एक पुरातन धर्माचार्य.  
Name of an ancient religious  
preceptor. संस्था० ५६;

**अश्विय.** त्रि० ( अन्वित ) युक्त; सहित. युक्त;

सहित. Joined to; accompanied with. सूय० १, १०, १०;

✓**अन्नेस.** धा० I. ( अनु+एष् ) अन्वेषणु कृत्वुं; शोध्युं; तपास कृत्वी. अन्वेषण करना; खोजना; शोध करना. To inquire after; to search; to scrutinize.

अन्नेसि॒. वि० आया० १, १, ७, ५६;

**अन्नेसन्ना.** त्रि० ( अन्वेषक ) अन्वेषणु—तपास कृत्वा॒र. खोजना. One who looks into or inquires into. प्रव० ६४२;

**अन्नेसगण.** न० ( अन्वेषण ) गवेषणु; तपासवुं; ज्ञेयुं. खोजना; शोध; अन्वेषण. Inquiry; search. विशेष० १३८१;

**अन्नोसि॒.** त्रि० ( अन्वेषिन् ) ज्ञुओ. “अरणोसि” शभ०. देखो “अरणोसि” शब्द. Vide “अण्णोसि”. आया० १, २, ६, १०२; १, ५, २, १४६;

**अन्नोष्ट्रा.** त्रि० ( अन्योन्य ) ज्ञुओ. “अरणोरणा” शभ०. देखो “अरणोरणा” शब्द. Vide “अरणोरणा”. पि० नि० ५६; —पर्यवेस पुं० (-प्रवेश) एक विभिन्न शृंखलाओंध संबंध. एक दूसरे का शृंखलाचन्द्र सम्बन्ध connection as of the links of a chain. क० प० १, ४; .

**अन्नहाण्य.** पुं० ( अस्त्रानक ) ज्ञुओ. “अरहाण्य” शभ०. देखो “अरहाण्य” शब्द.

Vide “अरहाण्य”. भग० १, ६;

**अपञ्च.** त्रि० ( अपद ) पर वगरन्तु; अति विनाना आउ परेरे. विना पैर का; गति रहित वृक्षादिक. Devoid of feet; devoid of motion; e.g. trees etc. भग० १८, ४; पि० नि० ७६; आया० १, ५, ६, १७०; अणुजो० ६१;

**अपइट्टाण.** पुं० ( अप्रतिष्ठान ) ज्ञुओ. ‘अपइट्टाण” शभ०. देखो “अपइट्टाण” शब्द,

Vide “अपइट्टाण”. जावा० ३; ठा० ५, ३; पञ्च० २;

**अपइट्टिय.** त्रि० ( अप्रतिष्ठित ) ज्ञुओ. “अपइट्टिय” शभ०. देखो “अपइट्टिय” शब्द. Vide “अपइट्टिय”. ठा० ४, १;

**अपइण्णपसरियत्त.** न० ( अपकीर्णप्रसूतत्व ) ज्ञुओ. “अपइण्णपसरियत्त” शभ०. देखो “अपइण्णपसरियत्त” शब्द. Vide “अपइण्णपसरियत्त”. सम० ३५;

\***अपउल्ल.** त्रि० ( अपक्व ) पाँडिन्हु नहि; कचा; न पका हुआ. Unripe; raw. पंचा० १, २२;

**अपपस.** त्रि० ( अप्रदेश ) प्रदेशरहित; अंश वगरन्तु; अवयव विनानु; जेना विभाग परी शंडे नहि तें; परभाषु वगरे. प्रदेश रहित; अवयव विना का; अविभाजित-परमाणु वगैरह. Indivisible; e.g. an atom. भग० ५, ७; द० ६, ४; २०, ५; ठा० ३, ३; —हुया. छा० (-अर्थता) अप्रदेशपण्यानी अपेक्षा. अप्रदेशत्व की अपेक्षा. Stand point of indivisibility. भग० २५, ४;

**अपओस.** पुं० ( अपद्वेष-अपगतो द्वेषोऽपद्वेषः ) द्वेषो अगाव; अभसरिपाणुं; भृत्यस्थपाणुं. द्वेष का अभाव; अमात्सर्यभाव; माध्यस्थ भाव. Absence of malice; neutrality. पंचा० ३, ४८;

**अपांडिय.** त्रि० ( अपरिदृष्ट ) भृष्म; अग्नाख्य. मूर्ख; अज्ञानी. Ignorant; stupid. झु० च० ४, ६८;

**अपक्र.** त्रि० ( अपक्व ) अजिन आहिथी पुरे पुरं पाँडिन नहि; कायुं. अग्नि आहिसे बराबर नहीं पका हुआ; कचा. Not well cooked; raw. परह० २, ५; प्रव० २८२; —**ओसदिभक्षण्या.** छा० (-ओषधिभक्षण्या) अजिन आहिउपर पकाव्या विनानु अनाज खानु ने; शावकना सातभा वतनो भ्रथम

अनियत. आग्नि आदि द्वारा बिना पकाया हुआ अज्ञ खाना; श्रावक के सातवें व्रत का प्रथम अतिचार. eating uncooked or raw food; the first partial violation of the seventh vow of a layman. उवा० १, ५१;

**अपच्छखग्राहि.** त्रि० ( अपलग्राहिन्-न पञ्च गृहातीत्यपच्छग्राहि ) शास्त्राभित्ति पक्ष ऐन्यनार नहि; अपक्षपाती. शास्त्राभित्ति पञ्च का आप्रह न करने वाला; अपक्षपाती. Importial; not specially advocating any cause. दसा० ४, १०५; ठा० ६;

**अपक्षेवग.** त्रि० (अप्रसेपक) भार्गीनी पञ्चये नेनुं द्रव्य भरयाई गयं होय ते. मार्ग के बीच में ही जिसका धन खर्च हो चुका हो वह. (One) whose money has been spent up in the midst of his travel. नाया० १५;

**अपगंड.** त्रि० ( अपगगड-अपगतं गशङ्क दोषो यस्मात्तदपगणदम् ) निर्दोषः; दोषरहित. निर्दोष; दोष रहित Innocent; faultless. ( २ ) भाष्टुना इश्वर. पानी का फेन. foam of water. “ सुसुक्सुकं अपगंड सुकं ” सूया० १, ६, १६;

**अपश्चश्रा.** पुं० ( अप्रत्यय ) अप्रतीति; अविश्वास. अविश्वास. Disbelief; distrust. परहा० १, २;

**अपच्छक्खाणा.** पुं० न० ( अप्रत्याख्यान ) पञ्चभाण्य-त्याग-विरतिपरिणामने अभाव. पच्छाणा-त्याग-विरतिपरिणाम का अभाव. Not taking the vow of giving up or abstaining from. भगा० ६, ४; ( २ ) देशविरतिपरिणामने अटकावनाई कृषाय; अपञ्चभाण्यवरणीय कृषायनी योक्ती. देशविरतिनिरूप परिणाम को रोकने

वाला कषाय; अपच्छखाणावरणीय कषाय की चौकड़ी. a sort of moral uncleanness which is an obstacle to the vow of partial abstinence from. पञ्च० १४.—**कसाय.** पुं० ( -कसाय )

अपञ्चभाण्यवरणीय कृषाय-कौध, मान, माया अने लोभ; जेना उद्यथी देशविरतिपरिणाम न आवे, ऐवी कृषायनी योक्ती. अपच्छखाणावरणीय कषाय-कौध, मान, माया और लोभ; जिसके उदय से देशविरतिरूप परिणाम न हो सके. Kasāya which prevents one from the vow of Pachchakhāṇḍa or abstaining from certain kinds of enjoyment or gratification. भगा० ६, ३१; —**किरिया.** र्णा० ( -क्रिया ) पञ्चभाण्य-त्याग न कर्माती लागती छिया-कर्मणध; अपञ्चभाण्य छिया. त्याग न करने से होने वाला कर्मबंध; अपच्छखाण क्रिया. Karma resulting from non-abstinence. “ अपच्छखाणकिरिया दुविहा प० तं० जीव अपञ्च० अजीवचअपञ्च० ” ठा० २, १; ‘ अपच्छक्खाणकिरियाणं भंते ! कस्म कज्जइ ? गोयमा ! अज्ञयरस्स वि अपच्छक्खाणिस्स ” पञ्च० २२; १७; “ से खूणं भंते ! सेदिस्स थ सणुयस्स किवणस्स खात्तियस्स थ समा खेव अपच्छक्खाणकिरिया कज्जइ ? ” भगा० १, ३; ६; ७, ८;—**कोहृ** पुं० ( -कौध ) ने डेख उपत्य थया पठी तदाननी इटपेठे ऐक वरससुधी लुंसाय नहि अने डेख पशु पञ्चभाण्य आववा द्ये नहि ते; अपञ्चभाण्यवरणीय डेख. अपच्छखाणावरणीय कौध, जो उत्पन्न होने के बाद एक वर्ष तक न छूटे और न कोई पच्छाणा-त्याग बगैरह होने दे. anger lasting long and obstructing the vow of abstinence.

ठ० ४, १;—गिर्वस्ति॒य. त्रि० (—निर्वस्ति॒त) अविरतिपरिषुप्ती॑भ॒थी निष्पत्त-थ॒येत्.  
अविरतिपरिषाम से निष्पत्त-उत्पत्त.  
resulting from the absence of  
the vow of abstinence. भग० ६, ४;

**अपच्छाणी.** त्रि० (अप्रत्याख्यानित्) पञ्च-  
भाषु-त्याग न करना॒र; विरतिरहित. पच्छां-  
ण-त्याग न करने वाला; विरति रहित. Devoid  
of the vow of abstinence. भग०  
६, ४; ७, २;

**अपच्छक्षाणी॒या.** स्त्री० (\*अप्रत्याख्यानिका-  
की) अपञ्चभाषु निभ॒ते लागती क्षिया-  
कर्मन्ध. अपच्छाणी के निमित्त से होने वाला;  
कर्मबंध. Karma due to absence  
of the vow of abstinence. भग०  
५, ६;

**अपच्छक्षाय.** त्रि० (अप्रत्याख्यात) जेनो॑  
त्याग न थी क्यों ते; न तमेतु. जिसका त्याग  
नहीं किया हो वह. Not given up; not  
renounced. भग० ५, ५; नाया० १६;  
सूर्य० २, ४, १;

**अपच्छभिजाणमाण.** व० कृ० त्रि० (अप्रत्यभि-  
जानत) ‘आ ते नथी पशु भीजुँ छे’ ऐम ना-  
छुतो; ते तेरूपे न जानते. ‘यह वह  
नहीं है किन्तु दूसरा है’ इस प्रकार जानता हुआ;  
उसे उस रूप से न जानता हुआ. Not  
recognising; not able to identify.  
“ तसेण सा दोवृहं देवी.....पदिषुद्धा  
समाणी तं भवणं असोगवाणियं च अ-  
पच्छभिजाणमाणी ” नाया० १६;

**अपच्छय.** पुं० (अप्रत्यय) असत्यनु॑ ऐक नाम.  
असत्य का एक नाम. Disbelief. परह० १,  
२; (२) अदत्तादाननु॑ सत्तरभुं नाम. अदत्ता  
दान का सत्रहवाँ नाम. a variety of  
falsehood; the seventeenth

synonymous word for Adattā-  
dāna. परह० १, ३;—कारण. त्रि०  
(-कारक) विश्वासधाती; लरेसो उड़नार.  
विश्वासघाती. committing breach  
of trust. परह० १, २;

**अपच्छरण.** त्रि० (अपच्छरण) युभ नहि;  
प्रगट; छानुं नहि. बिना छिपा हुआ; प्रकट.  
Manifest; not concealed. भग०  
१५, १;

**अपच्छापुतावि.** त्रि० (अपश्वातापित्र) अपराध आलेयीने पश्वाताप ने करना॒र;  
युक्ति॑ सभीपे दोषानि आलेयाना॒र करी राघ  
थना॒र. अपराध की आलोचना करके पश्वाताप न  
करने वाला; गुरु के समीप दोष की आलोचना  
करके संयुक्त होने वाला. Not repenting  
after confession of faults to a Guru; feeling delighted after  
confession of faults to a Guru.  
भग० २५, ७;

**अपच्छायमाण.** व० कृ० त्रि० (अपच्छादयत) न छुपावतो; छानुं न राखतो. नहीं छुपाता  
हुआ. Not concealing. “ अणिरहृ-  
माणा अपच्छायमाणा जहाभूयमवि-  
तहमसदिद्धं एयमदु आहूखाह ” नाया० १;

**अपच्छुम.** त्रि० (अपश्विम-न विद्यते पश्विमो  
इस्मादित्यपश्विमः) सौथी छेद्यतु; जेना पंछी  
डेढ़ न थी ते; अंतसभयनुं; आभरनुं. सब से  
आखिर का; अंतिम. Last; final. भग० ६,  
३३; २०, ५; सम० ७; ओव० ३४; नंदी०  
स्थ०२; नाया० १;—मारणंतियसंलेहणा.  
स्त्री० (—मारणान्तिकसंलेखना-मरणमे-  
वास्तो मरणास्त; तत्र भवा मारणान्तिकी,  
संलिखते हृशीक्रियतेऽनवा शरीरकषाया-  
दिकमिति संलेखना तपोविशेषकषणा  
ततः कर्मधारयः) भरणुसभये-अंतवभते  
कृपायने उपश्वामी देहनी भूर्भुर्गी टाणी

कृत्वाभां आवतुं तपविशेष-संथारे। मृत्यु के समय कथाय का उपशमकर और देह में मूर्छा न रखकर जो तपविषेश किया जाता है वह—संथारा। an austerity practised at the approach of death, consisting in assuaging evil passions and giving up food and water etc. उवा० १, ७३; भग० ७, २;

**अपर्याप्ति.** त्रि० (अपर्याप्ति) अपर्याप्तिनुं दुङ्कुं रूप-नाम् अपर्याप्ति का छोटा नाम। An abbreviation of 'अपर्याप्ति.' क० गं० १, २०; ३, १३;—बायर. न० (-बादर) बादर ऐकेंद्रियनो अपर्याप्ति; जेषु पर्याप्ति पूरी नथी भांधी अवे। बादर ऐकेंद्रिय। जिसने पर्याप्ति पूरी न भांधी हो एसा बादर ऐकेन्द्रिय। an undeveloped one-sensed Jiva (living being) with a gross body. क० गं० ४, १०;—संश्लिष्टि. त्रि० (-संश्लिष्टि) संश्ली पंथेदियनो। अपर्याप्ति; अपर्याप्ति संश्ली। अपर्याप्ति संज्ञा, संज्ञा पञ्चेन्द्रिय का अपर्याप्ति। an undeveloped five-sensed rational living being. क० गं० ४, ७;

**अपर्याप्ति.** त्रि० (अपर्याप्ति) अपर्याप्ति; जेषु आहारादि ७ पर्याप्तिमांनी पर्याप्ति पुरी नथी करी ते। जिसने आहारादि छः पर्याप्तियो में से पर्याप्ति पूरी न करा हो वह। Undeveloped; (the soul) that has not developed the six Paryāptis viz Āhāra etc. क० प० २, ५३;

**अपर्याप्ति.** त्रि० (अपर्याप्ति-अपर्याप्तियो विच्छन्ते यस्य सोऽपर्याप्ति) अपर्याप्ति-नामकर्मना उद्यथी आहारादि पर्याप्ति भांधीने पुरी करी न होय ते; ते ऐ प्रकारना होय-ऐक लक्ष्मिध-अपर्याप्ति भीने कृत्युभ्युपर्याप्ति, जे पोतानी

जलि योग्य पर्याप्ति पूर्णु कर्या विना भरणु पामे ते लक्ष्मिध अपर्याप्ति अनेजेषु कृत्युपर्याप्ति पूर्णु करी नथी पश्य अवस्थ पूर्णु करी पर्याप्ति थशे ते कृत्युभ्युपर्याप्ति; ६२५ छ० उत्पन्न थवाने पहुेसे अंतर्मुहूर्ते कृत्युभ्युपर्याप्ति थहनेज पर्याप्ति थाय छे। अपर्याप्ति—नामकर्म के उदय के कारण आहारादि पर्याप्ति का बंध करके जिसने उन्हें पूर्ण न किया हो वह; उसके दो प्रकार होते हैं—एक लक्ष्मिध अपर्याप्ति, दूसरा करणाअपर्याप्ति। जो अपनी जाति योग्य पर्याप्ति पूर्ण किये बिना मरण को प्राप्त हो वह लक्ष्मिधअपर्याप्ति और जिसने अपी पर्याप्ति पूर्ण न की हो पर अवश्य पूर्ण करके पर्याप्ति होगा वह करणाअपर्याप्ति। प्रत्येक जीव उत्पन्न होने के पहिले अंतर्मुहूर्ते तक करणाअपर्याप्ति अवस्था में रहकर फिर पर्याप्ति होता है। (A soul) without a full development of the characteristics of the body into which it is to incarnate. It is of two sorts: (1) Labdhi-Aparyāpta i.e. dead in an Aparyāpta state; (2) Karaṇa-Aparyāpta i.e. sure to attain to the Paryāpta state. भग० ५, ४; ८, १; ३, २४, २०; ३३, १; भग० १; नंदी० १७; क० गं० २, ३३; ३, १०; ४, ५; प्रव० ११६५; (2) अपूर्णु; पूर्णु नहि ते। जो पूर्ण न हो वह, imperfect。“सञ्चं पि से अपर्याप्ति, नेव तात्याप्य तं तब” उत्त० १४, ३६; राय० २५७;—णाम. न० (-नामकर्म) नामकर्मनी ऐक भ्रूति, डे जेना उद्यथी। छ० वे पोताने योग्य पर्याप्ति पूर्णु कृत्वाभां समर्थ थते। नथी। नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। a variety of Nāma-

Karma by which the soul remains Aparyāpta. क० गं० २,३३;

अपउजन्तग. त्रि० ( अपर्यासक ) जुओ।  
“ अपजन्त ” शब्द. देखो “ अपजन्त ”  
शब्द Vide “ अपजन्त ”. “ दुविहा  
नेरह्या परणत्ता, तंजहा-पञ्चन्तगा चेव अप-  
जन्तगा चेव जाव वेमायिया ” भग० ८, १;  
१६, ३; २५, १; पञ्च० १; २३; क० प०.१,  
६; ठा० २, २;

अपउजन्तय-अ. त्रि० ( अपर्यासक ) जुओ।  
“ अपजन्त ” शब्द. देखो “ अपजन्त ”  
शब्द. Vide “ अपजन्त ”. भग० ६, ३;  
२४, १; १२; ३४, १; सम० १४;

अपउजन्ति. ल्ली० ( अपर्यासि ) पर्यासिनी  
अपूर्णुता; गेताना स्थान येऽप्य पर्यासिभांधि  
पूर्णु करी न हेत्य ते. पर्यासि की अपूर्णता;  
अपने स्थान योग्य पर्यासि बांधकर उसे पूर्ण  
न किया हो. State of being Aparyā-  
pta. भग० १८, १;

अपउजवसिय-अ. त्रि० ( अपर्यवसित ) नेन्द्र-  
पर्यवसान-छेड़ा नथी ते: अनंत. जिसका अत  
नहीं वह; अनंत. Endless; infinite.  
“ एत्थर्यं सिद्धा भगवंतो सादिया अपउजव-  
सिया चिट्ठंति ” पञ्च० २; आया० १, ७, १,  
१६६; ठा० २, १; ओव० ४३; भग० २, १;  
६, ३; ८, २; ८; २५, ३; उत्त० ३६, ८;

अपउजवसियत्त. न० ( अपर्यवसितत्त ) अंत-  
रहितपृष्ठ; अनंतपृष्ठ. अन्त रहितपना; अन-  
न्तत्व. Infinity; endlessness. विशे०  
३१३१;

अपउदुदास. पु० ( अपयुदास ) अनिषेध.  
निषेध रहित. Non-prohibition; ab-  
sence of prohibition. विशे० १८३;

अपउवासणा. ल्ली० ( अपयुपासना ) पर्यु-  
पासना-सेवा न कर्त्ती ते. सेवा न करना.

Not serving; absence of wor-  
ship. नाया० १३;

अपडिकम्. न० ( अप्रतिकर्मन् ) जुओ।  
“ अपडिकम् ” शब्द. देखो ‘ अपडिकम् ’  
शब्द. Vide “ अपडिकम् ”. पञ्च० २; ५;  
अपडिक्कंत. त्रि० ( अप्रतिकाम्त ) देख-अति-  
यारथी निवृति पामेद नहि. दोष-अतिचार  
से निवृति नहीं पाया हुआ. Not abstained  
from sins or faults. दसा० १०, ३;

अपडिकम. पु० ( अप्रतिकम ) जुओ। “ अप-  
डिकम् ” शब्द. देखो ‘ अपडिकम ’ शब्द.  
Vide “ अपडिकम ”. भग० २, १;  
२५, ७;

अपडिक्कमित्तु. सं० क० अ० ( अप्रतिकम्य )  
पृष्ठभृष्ट न करीने. प्रतिकमण किये बिना.  
Without having performed  
Pdaikamana ( repentance for  
sin ). उत्त० २६, २२;

अपडिग्रहा. ल्ली० ( अपतदग्रहा ) ने अंधाती  
कर्मप्रदृतिमां यीउ प्रदृतिना दृश्यातुं संक-  
भष्य न थाय ते प्रदृति त्यारे ‘ अपतदग्रहा ’  
कहेवाय, नेम-संज्ञवक्तनकपायनी योक्तीनी  
योक्त सभा उप्यु त्रये आरक्षिकानी रिथति  
शेष २५ त्यारे ते ‘ अपतदग्रहा ’ कहेवाय. जिस  
बन्धती हुरे प्रकृति में दूसरा प्रकृति के दल-समूह  
संक्रमण नहीं होता तब वह प्रकृति ‘ अपतदग्रहा ’  
इस नाम से कही जाती है, जैसे-रंज्वलनक्षाय  
की चौकड़ी की एक समय न्यून तीन आव-  
लिका की स्थिति शेष रहे तब वह ‘ अपतदग्रहा ’  
कही जाती है. That Karmic nature  
or Karma into which another  
Karmic nature or Karma can-  
not be transformed while the  
former is yet being shaped. क०

प० २, ५;

अपडिचक्र. त्रि० ( अप्रतिचक्र ) जुओ। ‘ अप-

डिचक्क ' श॒५६. देखो 'अपडिचक्क' शब्द.  
Vide " अपडिचक्क ". नंदी०

**अपडिगण.** त्रि० (अप्रतिज्ञ) अ-नहि-प्रतिज्ञा-नियाष्ट; नियाष्ट् न करना॒र; कर्तुम् इत्यभागी सेना॒र नहि. प्रतिज्ञा न करने वाला; कर्म के फल की चाह न रखने वाला. Not desiring the fruits of Karma. सूय० १, २, २, २०; ( २ ) इत्यादिना आवेशभां 'अभुक्तने भासीश, अभुक्तुं अनिष्ट करीश' धृत्यादि प्रतिज्ञा न करना॒र. क्रोधादि के आवेश में किसीका अनिष्टादि करने की प्रतिज्ञा न करने वाला. oe nnot swearing to kill or injure another in a fit of rage. आया० १, २, ४, दद; १, ७, ३, २०६; ( ३ ) शग्रौ४ रहित. रागद्वेषरहित. free from attachment and hatred. " तत्सेणं अशुसिद्वा ते अपडिगणेण जाग्यथा " सूय० १, ३, ३, १४;

**अपडिगणवित्ता.** सं० कृ० अ० (अप्रतिज्ञाप्य) आशा लीधा विना. आज्ञा लिये विना. Without having taken permission. काय० ६, ५२;

**अपार्डिपुण्य** त्रि० (अप्रतिपूर्ण) अधुरै; उच्छ; युगुदीन. अभूता; तुच्छ; युण रहित. Imperfect; mean; devoid of merit. सूय० २, २, ५७;

**अपडिपूयश्च.** त्रि० (अप्रतिपूजक) जुओ। 'अपर्डिपूयत्रा' श॒५६. देखो 'अपडिपूयश्च' शब्द. Vide " अपडिपूयश्च ". इसा० १, २०; २१;

**अपडिपूरेमाण.** व० कृ० त्रि० (अप्रतिपूरयत) साशीत न करते; पुरव्यारन करते. साबित नहाँ करता हुआ. सिद्ध नहाँ करता हुआ. Not proving; not adducing evidence. सूय० ६, ३;

**अपडिबद्ध.** त्रि० (अप्रतिबद्ध) विषयभोग के स्थानना। प्रतिअधथी रहित. विषयभोग या स्थान के प्रतिबंध से रहित. Unrestrained; e.g. in sensual pleasure, movement in space etc. " अप-डिबद्धो अनलो व्व " पराह० ३, ५; ठा० ४, ४; जं० प० ३, ३१;—**विहार.** पु० (-विहार) प्रतिअध-द्रव्यादि अभिष्वंगरहित विहार. प्रतिबंध-द्रव्यादि अभिष्वंग रहित विहार. movement unfettered by attachment to wealth etc. प्रव० ७७६;

**अपडिबद्धया.** लौ० (अप्रतिबद्धता) जुओ। " अपडिबद्धया " श॒५६. देखो " अपडिबद्धया " शब्द. Vide " अपडिबद्धया ". उत० २६, ३०;

**अपडिबुजभमाण.** व० कृ० त्रि० (अप्रतिबुध्यमान) श॒६३-तरने न समझते; धारणा न करते. शब्दान्तर को न समझता हुआ; धारणा न करता हुआ. Not grasping the import of a word. जं० प० ३, ६७; भग० ६, ३३;

**अपडियार.** पु० (अप्रतिकार) दुःखना उपाय यना। अलाव. दुःख के उपाय का अभाव. Absence of remedy for misery. पंचा० २, १०;

**अपडिलक्ष्म.** त्रि० (अप्रतिलक्ष्म) न प्राप्त थेक्क; नहीं पाया हुआ; अप्राप्त. Not received; not obtained. " अपडिलक्ष्म सम्मतरयणपडिक्कंभे " नाया० १;

**अपडिलेस्स.** त्रि० (अप्रतिलेश्य) जुओ। " अपडिलेस्स " श॒५६. देखो " अपपडिलेस्स " शब्द. Vide " अपपडिलेस्स ". ओव०

**अपडिलेहण.** न० (अप्रतिलेखन) पडिलेहण. न करने ते; नजरे नेहुं नहि ते. पडिलेहण

न करना; दृष्टि से नहीं देखना. Not examining; not inspecting. आव० ४, ६;  
**अपडिलेहणा.** ली० ( अप्रतिलेखना ) आप्ते  
 न ज्ञेयुं ते. आँखों से नहीं देखना. Not  
 examining; not inspecting.  
 कप्प० ६, ५३;—सील. त्रि० ( —शील )  
 ज्ञेने ज्ञेधने चालवानी २७ नथी ते. जिसे  
 देखकर चलने की आदत नहीं है वह.  
 used to walk without carefully  
 inspecting. कप्प० ६, ५३;  
**अपडिलेहिय.** त्रि० ( अप्रतिलेखित ) ७८नी  
 रक्षाभाटे नजरे ज्ञेयेव-तपासेव नहि.  
 जीव की रक्षा के लिये आँखों से नहीं देखा हुआ.  
 Not examined with a view to  
 the protection of lives. उवा० १, ५५;  
 —दुष्पडिलेहियउच्चारपासवणभूमि.  
 ली० ( —दुष्प्रतिलेखितोच्चारप्रस्त्रवणभूमि—  
 अप्रत्युपेक्षिता जीवरक्षार्थं चक्षुषा न निरीक्षिता  
 दुष्प्रत्युपेक्षिताऽसम्यग् निरीक्षिता पुराणमृत्र  
 निमित्तं भूमिः स्थरिङ्गलं ततः कर्मधारयः )  
 पोषाभां वृडी-पीत-आटो, लधुनीत-पेशाच भृ-  
 हनानी भूमि न ज्ञेयाथी अथवा सारी रीते न  
 ज्ञेयाथी पोषाभां लागते अतियार; आवक्ता  
 अप्तीयारभा प्रत्यो त्रीने अतियार. पोषव-  
 व्रत में शौच, पेशाच करने की भूमि न देखकर  
 उन कियाओं के करने से जो दोष लगता है  
 वह; श्रावक के ग्यारहवें व्रत का तीसरा  
 अतिचार. sin arising from cast-  
 ing away or laying down feces,  
 urine etc. without examining  
 or properly examining the  
 ground, during the time of  
 Poṣadha vow of a layman;  
 the third partial violation of the  
 eleventh vow of a layman. उवा०  
 १, ५५;—दुष्पडिलेहियसिउजासंथार्य.

पुं० (—दुष्प्रतिलेखितशय्यासंस्तारक ) पोषा-  
 भां सुवानी पथारी न पडिलेहणाथी अथवा  
 सारी रीते पडिलेहण न करवाथी पोषाभां लाग-  
 तो अतियार; आवक्ता अप्तीयारभा व्रतना  
 प्रथम अतियार. पोषव में सोने का बिछौना—  
 विस्तरा अच्छी तरह पडिलेहण न करने से  
 जो दोष लगता है वह; श्रावक के ग्यारहवें व्रत  
 का प्रथम अतिचार. partial violation of  
 Poṣadha vow accruing to  
 a layman through not examin-  
 ing or properly not examining  
 his bed; the first partial  
 violation of the eleventh vow  
 of a layman. उवा० १, ५५;  
**अपडिलोमया.** ली० ( अप्रतिलोमता ) अतु-  
 दृढता. अनुकूलता. Favourableness;  
 agreeableness. भग० २५, ७;  
**अपडिवज्जविता.** सं० कृ० अ० ( अप्रतिपद्य )  
 अप्तीयारभा कर्या विना. अंगाकार किये विना.  
 Without having accepted.  
 उवा० ६, २०;  
**अपडिवाह.** त्रि० ( अप्रतिपातिन् ) अपडिवाह;  
 आप्त्यु नय नदि नेयु-क्षायकसमक्ति, डेवण  
 नान् वर्गेरे. जो उत्पन्न होकर कभी नष्ट न  
 हो ऐसा ज्ञायकमम्यक्य, केवलज्ञान आदि.  
 Not passingaway; permanent-  
 ly remaining e. g. Kevala-  
 Jñāna etc. ठा० २, १; ( २ ) न० डेवण  
 ज्ञान उत्पन्नथायत्यां सुभी रहेत्वायां अप्यषि-  
 ग्नान. केवलज्ञान उत्पन्न होने तक रहने वाला  
 अवधिज्ञान. Avadhijñāna lasting  
 till omniscience is attained to.  
 “से किं तं अपडिवाह यं ओहिनायं” नंदी०  
 विश० ७०३;

**अपडिविरच्च-य.** त्रि० ( अप्रतिविरत )  
 जुओ “अपडिविरय ” ६०८८. देखो “अप-

डिविरय ” शब्द. Vide “ अपडिविरय.”  
दसा० ६, १; ४;

**अपडिसंलीण.** त्रि० ( अप्रतिसंहीन ) जेणे  
धृतिए। अने कथायने निथइ नथी क्यों। ते.  
जिसने इन्द्रिय और कपाय का निग्रह नहीं  
किया वह. Having passions and  
senses uncontrolled. “ चत्तारि  
अपडिसंलीणा प० तं० कोहश्चापडिसंलीणे  
मा० मा० लो० अपडि० ” ठा० ४, ३;  
“ पञ्च अपडिसंलीणा प० तं० सोऽन्दियश्चप-  
डिसंलीणे जाव फासिंदियश्चपडिसंलीणे ”  
ठा० ५, २;

**अपाडेसुरण्ण.** न० ( अप्रतिश्रवण ) युरनां  
वयन सांख्यां छतां ने वयनने गणुकारवा  
नहि ते; युरनी आजानो श्वीकार करी ज्वाब  
न वाणवे। ते. गुरु के वचन सुनकर भी उन्हें  
न गिनना; गुरु का आज्ञा मानकर उत्तर न  
देना. Not giving a response to  
the order of a preceptor i. e.  
not signifying acceptance of  
his order in words. प्रव० १३०;

**अपडिसुरुण्णता.** सं० क० अ० ( अप्रतिश्रुत्य )  
जुओ। “ अपडिसुरुण्णता ” श॒८८. देखो  
“ अपडिसुरुण्णता ” शब्द. Vide “ अप-  
डिसुरुण्णता.” दसा० ३, १४; १५; २०; २१;

**अपडिसेवय.** पु० खी० ( अप्रतिसेवक )  
अतिचार आदि होपने न सेवनार; होप न  
लगाइनार. अतिचार आदि दोपो को न लगाने  
वाला. One, not incurring sins  
like those of partial violation  
etc. भग० २५, ६; ७;

**अपडिसेह.** पु० ( अप्रतिषेघ ) निषेध न करवे।  
ते; अटकाव नहि. निषेध न करना. रोक  
दोक का अभाव. Non-obstruction;  
not stopping. पंचा० ६, ३६;

अपडिहर्द्दु. सं० क० अ० ( अप्रतिहत्य ) पाखु  
आध्या विना. पांछे दिये बिना. Without  
having given back. वेय० ३, २२;  
निसी० २, ५६;

**अपडिहय.** त्रि० ( अप्रतिहत ) जुओ। ‘अप-  
डिहय’ श॒८६. देखो ‘अपडिहय’ शब्द.  
Vide “ अपडिहय.” नाया० १६; उत्त०  
११, २१; भत्त० ८०;

**अपडिहारण्य.** त्रि० ( अप्रतिहारक ) अपाढी-  
यारा-धरिणे पाणि न आपवा योग्य सेव,  
संथारे वगेरे. मालिक को पांछे न देने योग्य  
शरण्या, विस्तर आदि. Unfit to be re-  
turned to the owner; e.g. bed,  
bed-cover etc. आया० ३, २, ३;

**अपडिकार.** त्रि० ( अप्रतीकार ) प्रतीकार-  
धक्षा० वगरनो; रक्षणुना. उपाय विनानो.  
प्रतीकार रहित; रक्षा के उपाय बिना का.  
Ir-remediable; having no  
means of protection against.  
“ किं ते सीउएहतरहखुहवेयणं अपडीकार-  
अडविजम्मणा ” पराह० १, १;

**अपढम.** त्रि० ( अप्रथम ) प्रथमतारहित;  
नंभां प्रथमपाँच नथी ते; अनादि; शरन्यात  
निनानु. प्रथमता रहित; आदि रहित; अनादि:  
Having no beginning. भग० १८,  
१; ३५, ३; ( २ ) प्रथम-पहेउं नहि;  
भीजुं, वीजुं वगेरे. प्रथम-पहिला न हो वह  
अप्रथम कहलाता है अर्थात् दूसरा, तीसरा  
आदि. not first; e. g. second, third  
etc. क० गं० ५, १६; ठा० २, १; भग०  
२५, ६; —खगइ. खा० (—खगति ) भगति-  
निषुषेणगति-यावदुं, ते याव ऐ प्रकारनी छे  
शुभ अने अशुभ तेभानी अपढम-भीजु अ-  
शुभ-अप्रथमन विषुषेणगति. वह विहायोगति  
जो दूसरी प्रकार की अर्थात् अशुभ है, क्यों  
कि, विहायोगति शुभ और अशुभ इस तरह दो

प्रकार की होती है. the second of the two kinds of Vihāyogati viz. (1) good and (2) bad ; gait or movement of a bad kind. क० ग० ५, ५७; अपदमसमय. पुं० ( अप्रथमसमय ) प्रथम समय नहि; धीने, त्रिने समय वर्णे. प्रथम समय नहां; दूसरा, तीसरा आदि समय. Samaya or unit of time other than the first. भग० ३५, ५; ठा० २, २;—उच्चवरणग. त्रि० ( -उपपत्तक ) ज्ञेने उपत्ये एकथी वधारे-भे, नशु आदि समय थया होय ते. जिसे उत्पन्न हुए एक से अधिक अर्थात् दो तीन आदि समय हुए हों वह. (one) after whose birth more than one Samaya have elapsed. “ शेरह्या दुविहा पञ्चता, तं० पदमसमयो-ववरणगा अपदमसमयोववरणगा जाव वेमाणिया ” ठा० २, २;—उच्चसंतकसाय. पुं० छी० ( -उपशान्तकवाय ) ज्ञेने एकथी वधारे-भे, नशु आदि समय क्षाय उपशमाव्याने-उपशमभ्रेणीये अज्ञाने थया छे ते. जिसे कषाय का उपशम किये एक से अधिक अर्थात् दो, तीन समय हुए हैं वह. one after whose assuaging of impure passions more than one Samaya have elapsed. ठा० ८;—एण्डिय. पुं० ( -एकेन्द्रिय ) ज्ञेने एकेन्द्रियपछुं प्राप्त क्षये एकथी वधारे समय थया छे ते. जिस जीव को एकेन्द्रियन्व प्राप्त किये एक से अधिक समय हुआ है वह. (a soul) after whose becoming one-sense-organized more than one Samaya have elapsed. ठा० १०;—क्षपणिकसाय. पुं० छी० ( -क्षीणिकवाय ) ज्ञेने क्षाय क्षय क्षये-क्षपक्ष्रेणीये अज्ञे एकथी वधारे समय थया होय ते. जिसे कषाय को क्षय किये-क्षपक्ष्रेणी

पर चढ़े एक से अधिक समय हुआ हो वह. one after whose starting on the path of destruction of impure passions more than one Samaya have elapsed. ठा० ८;—सज्जोगिभवत्थ. पुं० ( -सयोगिभवस्थ ) ज्ञेने सज्जे-गिभवस्थ थये-तेरभे गुणुदाषु यज्ञे एकथी वधारे समय थया छे ते. जिसे सयोगिभवस्थ हुए-तेरहवें गुणस्थान पर चढ़े एक से अधिक समय हुआ हो वह. one after whose reaching the thirteenth Guṇasthāna ( Sayogibhava ) more than one Samaya have elapsed. ठा० २, १;—सिद्ध. पुं० ( सिद्ध ) सिद्ध पर्याय-सिद्धपञ्चाना याइन, त्रिन आदि सम्भ-भां वर्तमान सिद्धभवन्; ज्ञेने सिद्ध थयाने एकथी वधारे समय थया छे ते. सिद्धपर्याय के दूसरे तीरो आदि समय में वर्तमान सिद्ध भवगान; जिसे सिद्ध हुए एक से अधिक समय हुआ हो वह. one after whose attainment to Siddhahood more than one Samaya have elapsed. पञ्च० १;—सुहुमसंपरायसंज्ञम. पुं० ( -सुचमसम्परायसंयम ) ज्ञेने सुहुमसंपराय संयम प्राप्त किये-दशभे गुणुदाषु यज्ञे एकथी वधारे समय थया होय ते. जिस सुहुमसंप-रायसंयम प्राप्त किये-दशवें गुणस्थान पर चढ़े एक से अधिक समय हुआ हो वह. one after whose attaining to the tenth Guṇasthāna ( Sūkṣma-samparāya Samyama ) more than one Samaya have elapsed. ठा० ८;

अपत्त. त्रि० ( अपात्र ) अयोग्य; पात्र-लायक नहि. अयोग्य; पात्र-योग्य नहां. Unfit; unworthy. निसी० १६, २२;

**अपत्त. त्रि० ( अप्राप्त )** पर्येत् नहि; प्राप्त न करेत्. प्राप्त नहीं किया हुआ; नहीं पाया हुआ. ( One ) not in possession of; (anything) not obtained. नाया० ६; भग० १८, १;—कारि० न० (-कारिन्) स्वविषयसाथे संभव पाभ्या विना विषयने ग्रहण. ३२नार धृदित्री; आंख अने भन. अपने विषय के साथ संबंध हुए बिना विषय को ग्रहण करने वाली इन्द्रियां-आँख और मन. an organ of sense which becomes conscious of its object without actual touch; i.e. the eye and the mind. विशे० २४५; —जोवणा. ली० ( -योवना ) योवन अवश्यने न प्राप्त थयेत् खी; डुमारिका; भासा. यौवनावस्था को अप्राप्त खी; कुमारिका; बाला. a young girl; a maiden. ठा० ५, २;—विसय. न० (-विषय-अप्राप्तस्त्वद्वारा विषयो ग्राह्यवस्तुरूपो यस्य तद्-प्राप्तविषयम्) अप्राप्यकारी धन्दिय; ने धन्दिय विषयने पाभ्या विना विषयने ग्रहण. करे ते-आंख अने भन. अप्राप्तकारी इन्द्रिय; जो इन्द्रिय विषय को प्राप्त किये बिना विषय को ग्रहण करे वह; आँख और मन. an organ of sense which becomes conscious of its object without actual touch; i.e. the eye and the mind. “लोयणमपत्तविसयं मणो ऽव जम-चुगगाहाऽसुणति” विवा० १, २; विशे० २०६;

**अपत्तजात. त्रि० ( अपत्तजात )** जने पाए नथी आवी ऐनुं पक्षीतुं अन्युं. जिसे पंख नहीं आये ऐसा पक्षी का बचा. An unfledged bird. “जहा दियापोक्तमपत्तजातं, सावासगा पवित्रं मज्जमाणं” सूर्य० १, १४, २;

**अपत्ति. ली० ( अप्राप्ति )** अप्राप्ति. Not getting; non-acquisition. क० गं० २, १३;

**अपत्तिग. त्रि० ( अप्रतीक )** प्रीति वगरनुं. प्राप्ति रहित. Devoid of pleasure. पंचा० ७, १०;—रहिय. त्रि० (-रहित) अप्रीति रहित. अप्रीति हीन. free from displeasure or disgust. पंचा० ७, १०;

**अपत्तिय. त्रि० ( अपात्रिक )** नेने उधार नथी ते. जिसे कुछ आधार नहीं है वह. Help-less; supportless. भग० १६, ४;

**अपत्तियंत. त्रि० ( \*असंघटित-अप्राप्त )** न पापतो; न भगतो. प्राप्त न होता हुआ; नहीं मिलता हुआ. Not obtaining; not being obtained. सु० च० १०, ३८;

**अपत्तियमाण. व० क०** त्रि० ( अप्रतीयत ) प्रतीति-विश्वासन राखतो; भरेंसे न राखतो विश्वास न रखता हुआ. Not believing; not putting trust in. भग० ३, १; १, ३३; १५, १; नाया० १५; १६;

**अपत्थ. त्रि० ( अपथ )** अपथ; शरीरनी प्रदूषिती प्रनिरूप-भोजन वर्गे. पथ्यरहित भोजन; शरीर की प्रकृति से विश्व भोजन आदि. Unwholesome; e.g. food etc. “अपथं भुष्णा, राया रजं तु हारप्” उत्त० ७, ११; पंचा० ८, १०; १५, ४०;—अयण. त्रि० (-अद्वन्) पथ्य-हितकर भोजन विनाने; संभव वगरनो; परभवमां सुख आपे तेवा सुकृत्य विनाने. हितकर-पथ्यरूप भोजन रहित; पर भव में सुख देने वाले सुकृत्य से रहित. de-stitute of wholesome food; de-stitute of good actions which would give happiness in the next birth. नाया० १५;—पत्थश्च. त्रि०

(—प्रार्थित-अपथं प्रार्थितं येन स तथा )  
अपथ-अनिष्टने धृष्टनार. अपथ्य-आनिष्ट  
की इच्छा करने वाला. desirous of  
(things) unwholesome or evil.  
जं० प० ३, ४५; निर० १, १;

**अपथण.** न० ( अप्रार्थन ) धृष्टा न करनी  
ते; प्रार्थनानो अभाव. इच्छा का न करना;  
प्रार्थना का अभाव. Absence of prayer  
or desire. “अदंसर्यं चेव अपथणं च”  
उत्त० ३२, १५;

**अपत्तिथय.** श्रि० ( अप्रार्थित ) न धृष्टेनुः; न  
भागेनुः. आनिष्टित; नहीं मांगा हुआ. Not  
sought; not wished. नाया० १६;  
—परिथय. श्रि० (-प्रार्थक) जुओ. ‘अप-  
थियपथय’ शब्द. देखो ‘अपार्थयपथय’  
शब्द. Vide ‘अपार्थयपथय’. नाया० ८;  
६; निर० १, १;

**अपस्थेमाण.** व० क० श्रि० (अप्रार्थयमान) प्रार्थना  
न करते; अथ॑ धृष्टते. प्रार्थना न करता हुआ;  
इच्छा न करता हुआ. Not entreating;  
not wishing. उत्त० २६, ३३;

**अपद.** पुं० ( अपद-न विद्यते पदमवस्थाविशेषो  
यस्य सोऽपदः ) भुक्ता आत्मा; सिद्धभगवान्.  
मुक्तात्मा; सिद्ध भगवान्. A liberated  
soul; Siddha. “अपदस्स पयं यत्थि”  
आया० १, ५, ६, १७०; (२) दातिभ, आंभै,  
भीज्वरा वर्गेरे आ॒. आम, अनार, बिजोरा  
आदि वृक्ष. a variety of trees  
like mango, pome-granate,  
Bijorā etc. भग० १८, ४;

**अपदार.** न० ( अपद्वार ) नगरनी भागवते;  
अपद्वारः दृष्टमार्गः दुष्टमार्गः नाला-मलमूत्र वहने  
की नाली. A passage for draining  
filth etc.; a gutter etc. नाया० ८;  
**अपदुस्समाण.** व० क० श्रि० (अपद्विष्वत्) देखन

करते. द्वेष न करता हुआ. Not hating;  
not despising. अंत० ४;

**अपदेस,** पुं० ( अपदेश ) निन्द्य भ्रेत्ता-स्थल।  
निन्द्य स्थल. A bad place; an in-  
famous quarter. पंचा० ७, ११;

**अपद्ववत्.** व० क० श्रि० (अपद्ववत्) भरणु पा-  
भते. मरण पाता हुआ. Dying; depart-  
ing the world. भग० २, १;

**अपाप्कारित्व.** न० ( अप्राप्यकारित्व ) विषय-  
आत्मवस्तुना स्थण्यप्रये गया विना. विषयनो  
परिष्ठेष्ट करनार धृष्टियोनो धर्म; आंभ अने  
मन ए शिवाय चार धृष्टियो आप्यकारी  
छेत्यारे आ ए अप्राप्यकारी छे भाटे ए  
एमां अप्राप्यकारित्व रहे छे. विषय-प्राणवस्तु  
स्थल के प्रति गये बिना विषय का परिच्छेद करने  
वाला इन्द्रियों का धर्म; आँख और मन ये दो  
इन्द्रियों अप्राप्यकारी हैं और बाकी की चार  
प्राप्यकारी हैं, इसलिये इन दो में अप्राप्यकारित्व  
धर्म है. The property of a sense-  
organ by which it can cognise  
its object without actual  
contact with it. The eye and  
the mind have this property.  
नदी०

**अपमर्जण.** न० ( अप्रमार्जन ) पुंजवुं नहि  
ते; प्रमार्जन न करनु ते. परिमार्जन नहीं  
करना; जीव, जन्तु, रज आदि को नहीं हटाना.  
Not removing away; not cleans-  
ing of dust etc. सम० १७;

**अपमज्जणासील.** श्रि० ( अप्रमार्जनशील )  
रमेहरणु, यु॒ष्टा वर्गेरेथी प्रभार्जन न करवाना।  
स्ववाववाणा ( साधु साध्वी ). रजोहरण आदि  
से प्रमार्जन न करने वाला ( साधु, साध्वी ). ( A  
monk or a nun) not given to or  
disposed to cleanse vessels,

ground etc. by means of a long-handled brush. कप्प० ६, ५३;

**अप्पमजिय.** त्रि० ( अप्पमाजित ) रजेहरखु आदिथी पुंजेत्तु नहि; प्रभार्जन न करेक. रजोहरण आदि से परिमार्जन नहीं किया हुआ. Not cleansed by a brush etc.; not removed away. प्रव० २८६; —चारि. पुं० ( -चारिन् ) पुंज्या विनाना स्थानमां ऐसनार, चालनार, परठनार साधु; असभाधितु थीज्ञुं स्थानक सेवनार. अपरिमाजित स्थान में बैठने वाला, चलने वाला साधु; अग्रमार्गि का दूसरा स्थानक सेवन करने वाला. ( an ascetic ) sitting, walking etc. in a place not cleansed with a brush etc; ( one ) incurring the second Sthānaka of Asamādhi. सम० २०; दसा० १, ५;—**दुष्पमजियउच्चार-**पासवरणभूमि. ल्ला० ( -दुष्पमाजितोच्चार-प्रस्तवणभूमि ) पोपामां उच्चार पासवणु पृष्ठ-पानी भूमि भुद्ध न पुंज्याथी डे परश्चार न पुंज्याथी पोपयन्तमां लागतो अतियार. प्रोषध व्रत में मलमूराद प्रक्षेपण करने की भूमि को मलमूरादि प्रक्षेपण करने समय बिल्कुल न पूंजने-जीवजंतु रहित न करने या विधिपूर्वक न पूंजने से जो अतिचार लगे वह. partial violation incurred during the Poṣadha vow by not cleansing or by improperly cleansing (with a brush etc.) the ground for laying down feces and urine. उवा० १, ५५;—**दुष्पमजियसिज्जासंथार.** पुं० ( -दुष्पमाजित शाय्यासंस्तार ) पोपामां सुवानी पथारी भुद्ध न पुंज्याथी डे विधिपूर्वक न पुंज्याथी लागतो अतियार; श्रावकना अग्रीयारमा

व्रततो एक अतियार-दोष. प्रोषध में सोने का विस्तरा बिल्कुल न पूंजने से-जीवजंतु रहित करने से या विधिपूर्वक न पूंजने से लगता हुआ दोष; श्रावक के स्यारहवें व्रत का एक अतिचार. a fault incurred by a layman during the Poṣadha vow by not cleansing or by improperly cleansing his bed ( with a brush etc.); partial violation of the eleventh vow of a layman. आव० ४, ६; उवा० १, ५५; **अप्पमत्त.** त्रि० ( अप्पमत्त ) भ८, विपृथ, कृपृथ, निद्रा, विकथा आदि प्रभाद वगरने; अप्रभादी; सनत उपयोगी; सातभाथी चाइमा युशुरथानक पर्यंता ७८. प्रमाद रहित जीव; विषय, कथाय, मद, निद्रा आदि प्रमादों से रहित सातवें से चौदहवें गुणस्थान तक का जीव. Free from pride, passions, Kaṣaya, and such other faults; souls between the seventh and the fourteenth stages of evolution. क० गं० २, १; २; ४, ६०; नंदी० १७;—**अंत.** न० ( -अन्त ) सातभा अप्रभत्यंथति युशुदाख्या पर्यंत. सातवें अप्रमत्त-संयति गुणस्थान तक. up to the 7th Guṇasthāna, called Apramatta Guṇasthāna. क० गं० ४, ६२;—**संजय.** पुं० ( -संयत ) सातमे युशुदाख्ये वर्ततो ४४; प्रभादरहित-अप्रभादी साधु. सातवें गुणस्थानवर्ती जीव; प्रमाद रहित साधु. a soul in the seventh stage of spiritual evolution; a Sādhu free from Pramāda i.e. passions etc. “अप्पमत्तसंजयस्स यं भरते ! अप्पमत्त सजमे बहुमाणस्स सज्जा विय यं अप्पमत्तदा काज्ज्ञो केवचिरं होइ ” भग० १, १; २; ३,

—संजयगुणाद्वाण. न० ( संयतगुणस्थान ) सातभा गुणस्थानकनुं नाम; अप्रभासंयत नामे गुणाध्यु. सातवें गुणस्थान का नाम. the seventh Gunasthāna so named. प्रव० ३२४;

अपमाद. त्रि० ( अप्रमादिन् ) अप्रभादी; प्रभादरहित. प्रमाद रहित. Free from negligence or idleness. क० ग० ५, ७०;

अपमाण. न० ( अप्रमाण ) प्रभाषुथी भिन्न; प्रभाष्यरहित. प्रमाण से रहित. Any thing not in harmony with the fixed standard. परह० २, ३; ( २ ) प्रभाषु उपरांत आहार करवाथी साधुने लागतो एक दोप; आहारना भीने दोप. प्रमाण से अधिक भोजन करने से साधु को लगने वाला दोष; आहार का दूसरा दोप. a fault incurred by a monk by eating beyond a fixed limit; the second fault connected with eating. परह० २, ३; —भोद. त्रि०. ( -भोजिन् ) अन्तिश क्वाणथी वधारे आहार करनार. वर्तीस कवल-कौर-प्रास से अधिक भोजन करने वाला. (one) eating more than thirty-two morsels of food. परह० २, ३;

अपमाय. पु० ( अप्रमाद ) प्रभादो अभाव; अन्तीश योगसंयुक्तमाने २६ में योगसंयुक्त. प्रमाद का अभाव; वर्तीस प्रकार के योगसंग्रहों में से २६ वाँ योगसंग्रह. Absence of Pramāda i. e. entertaining passions etc. through inadvertance; the twenty-sixth of the thirty-two Yogasaṅgrahas. सम० ३२; पंचा० १, ३८; —पडिलेहा. खी० ( \*-प्रतिस्त्रा-प्रत्युपेक्षणा ) प्रभाद

पड़ने पडिलेहां इरुं ते; “ अणाचाविय ” इत्यादि छ प्रकारे पडिलेहां इरुं ते. प्रमाद छाडकर पडिलेहण करना; ‘ अणाचाविय ’ इत्यादि छः प्रकार से पडिलेहण करना. careful inspection of garments etc. ठा० ६; —भावणा. खी० ( -भावना ) भविरा आदि प्रमादनु सेवन न इरुं ते. मदिरा आदि प्रमाद का सेवन न करना. abstention from such faults or vices as drinking etc. आया० २, १५, १७६; —बुद्धिद. खी० ( -बृद्धि ) अप्रमादनी वृद्धिवधारे. अप्रमाद की वृद्धि. progress or increase of carefulness. पंचा० ५, १२;

अपमेय. त्रि० ( अप्रमेय ) जुआ “ अपमेय ” शा० ६. देखो “ अपमेय ” शब्द. Vide “ अपमेय. ” परह० १, ३;

अपर. त्रि० ( अपर ) अन्य; पूर्वे कडेल हेय तेनाथी जुहु. अन्य; पूर्वकथित से भिन्न-कुरारा. Different. निसी० २०, १०; ( २ ) पश्चिम विशाग. पश्चिम विभाग-हिस्सा. latter part; remaining part. राय० ६३; —परिगगहिय-आ. त्रि० ( -परिगृहीत- अपरैः परिगृहीतोऽपरपरिगृहीतः ) अग्न डेढ़ये (साधुओं) अद्यु इरेल. अन्य-द्वारा प्रहण किया हुआ. accepted by another (monk). “ अब्दोगडेसु अपर-परिगगहेसु अपरपरिगगहेसु ” वेय० ३, २७; वव० ७, २२;

अपरककम. त्रि० ( अपराक्रम ) पराक्रम-सामर्थ्यहीनः; नेतुं नंधाणकक्षीय थयुं छे ते. पराक्रम हीन; जिसका जंघाबल क्षीण हुआ है वह. Powerless; incapacitated. नाया० १; आया० नि० १, ८, १, २६६; भत्त० ११; अपरत्त. न० ( अपरत्त ) अपरपत्त्यु; परत्तवर्थी

विपरीत. अपरभाव; परत्व से विपरीत भाव.  
Condition of being different.  
विशेष २४६।

**अपराजय-आ.** पुं० ( अपराजित ) जुओ  
'अपराजिय-आ' शब्द. देखो 'अपराजिय-आ'  
शब्द. Vide 'अपराजिय आ.' जीवा० ३,  
२; ज० प० ३, ४२;

**अपराजया-आ.** ज्ञा० ( अपराजिता )  
जुओ "अपराजिया-आ" शब्द. देखो "अपरा-  
जिया-आ" शब्द. Vide "अपराजिया-आ," ज०  
प० ५, ११४; ७, १५२;

**अपराजित.** पुं० ( अपराजित ) जुओ 'अपरा-  
जिय-आ' शब्द. देखो 'अपराजिय-आ' शब्द.  
Vide 'अपराजिय-आ.' सम० ज० प० १, ७;

**अपराजिता.** ज्ञा० ( अपराजिता ) जुओ  
'अपराजिया-आ' शब्द. देखो "अपराजिया-आ"  
शब्द. Vide 'अपराजिया-आ.' ज० प०

**अपराजिय-आ.** पुं० ( अपराजित ) आवर्ती  
चोद्योतीना छठा प्रतिवासुदेवनुं नाम. आगामी  
चौबीसी के छठे प्रतिवासुदेव का नाम.  
Name of the sixth Prativāsudeva of the coming Chovisi.  
सम० प० २४२; (२) आहमा अक्षदेवना नीम  
पूर्वभवनुं नाम. आठवें बलदेव के तीसरे  
पूर्वमव का नाम. name of the third  
preceding birth of the eighth Baladeva. नम० प० २३६; (३) पांच  
अनुत्तर विभावपैदी चोथा अनुत्तरविभावनुं  
नाम. पांच अनुत्तरविभावों में से चौथे अनुत्ता-  
विभाव का नाम. name of the fourth  
out of the five celestial abodes.

कप्प० ६, १७; भग० ५, ८; २४, २४;  
जीवा० ३, २; (४) चोथा अनुत्तरविभावना  
द्वितीय चौथे अनुत्तरविभाव के देव. the deity  
of the fourth celestial abode. पञ्च०

१;(५) अंभूदीपतीजगती-डोटना उत्तरदिशाना  
द्वयाज्ञनुं नाम. जम्बुद्वीप के जगती-गोट की  
उत्तरदिशा के द्वार का नाम. the northern  
gate of the fort of Jambū-  
dvīpa, so named. जीवा० ३, ४; ज०  
प० (६) ८८ महाग्रहमानो ७२ भौ महाग्रह.  
८८ महाग्रहों में से ७२ वाँ महाग्रह. seventy-  
second of the eighty-eight Mahāgrahas or large planets.  
'दो अपराजियाओ' ठा० २, ३; (७) लवण्ण  
समुद्र, धातकीष्वंड द्वीप, कालोदधिसमुद्र अने  
पुक्करोद समुद्रना एक द्वयाज्ञनुं नाम.  
लवण्णसमुद्र, धातकीष्वंड द्वीप और कालोदधि  
समुद्र के एक द्वार का नाम. name of a gate of Dhātakīkhaṇḍa  
Dvīpa, Kālodadhi Samudra,  
and Puskaroda Samudra  
and he Lavaṇya Samudra.  
जीवा० ३; (८) ऋषभदेव स्वाभीना  
६३ भा पुत्रनुं नाम.ऋषभदेव स्वामी  
के ६३ वें पुत्र का नाम. name of  
the 63rd son of Rishabhadēva  
Svāmī. कप्प० ८; (९) भेरुनी उत्तरे  
अंभूर्पर्वतनुं अंड ४८. भेरु के उत्तर का  
ओर स्तर्कर्पर्वत का एक कूट. a summit  
of the Ruchaka mountain to  
the north of Meru. ठा० ८; (१०)  
त्रिं० पराजय नदि पर्वत; अनित. अपराजित;  
पराजय नहीं पाया हुआ. not defeated;  
not subdued. सम० ४००; सूर्य० १,  
२, ३, २३; (११) पुं० १८भातीर्थकरने प्रथम  
भिक्षा आपनार गुडस्थनुं नाम. १८ वें तीर्थ-  
कर को प्रथम बार भिक्षा देने वाले गृहस्थ का  
नाम. name of a gentleman who  
first gave alms to the eighteenth Tirthankara. सम० प० २३३;

**अपराजिया-आ.** श्री० ( अपराजिता ) भृष्ट-  
वृच्छा विजयनी भुज्य राजधानी. महावच्चा  
विजय की सुख्य राजधानी. The capital  
of Mahāvachchhāvijaya. “दो  
अपराजियाओ” ठा० २, ३; जं० प० ( २ )  
वप्रकावती विजयनी राजधानी. वप्रकावती  
विजय की राजधानी. the capital of  
Vaprakāvatīvijaya. जं० प० ( ३ )  
दशमनी रात्रिं नाम. दशमी की रात्रि का  
नाम. name of the night of the  
tenth day of a fortnight. जं० प०  
सू० प० १०; ( ४ ) अंजनगिरिनी उनर  
तरक्षनी पुष्करणी-वाष्णीनु नाम. अंजनगिरि  
की उत्तर दिशा की ओर की बावड़ी का नाम.  
name of a well to the north of  
Añjanagiri. प्रब० १२०३; जीवा० ३,  
४; ( ५ ) अंगारक भृष्टभृष्टनी अथभृष्टी.  
अंगारक महाग्रह की पृष्ठरानी का नाम. the  
crowned queen of Aṅgāraka  
planet. भग० १०, ५; ठा० ४, २; ( ६ )  
भृष्टा भृष्टभृष्टनी चौथी अथभृष्टी। सब महाग्रहों  
की चौथी पृष्ठरानी. the fourth princi-  
pal queen of all large planets.  
ठा० ४, १; जीवा० ४, १; ( ७ ) रुचकपर्वत  
वासी आठभी दिशाकुभारिका. रुचकपर्वत पर  
रहने वाली आठबां दिशाकुमारी. the eighth  
Disākumārī residing on the  
Ruchaka mountain. जं० प० ५;  
( ८ ) आठभा अथदेव अते वासुदेवनी भातानुं  
नाम. आठबें बलदेव श्रीर वासुदेव की माता का  
नाम. name of the mother of the  
eighth Baladeva and Vasudeva.  
सम० प० २३४; ( ९ ) आठभा अथप्रभतीर्थ-  
कृ दीक्षा लेती वर्षते ने शिगिका-पाणभीमां  
भेड़ा हुता ते पाणभीर्तु नाम. आठबें तीर्थकर  
चंद्रप्रभस्वामी दीक्षा लेने समग्र जिग पालकी

पर आरूढ हुए थे उस पालकी का नाम. name  
of the palanquin of the eighth  
Chandraprabha—Tirthaṅkara  
in whic he sat at the time of  
taking Dikṣā. सम० ७२;

**अपराह.** पुं० ( अपराध ) युन्है; अपराध.  
अपराध; युन्हा. A fault; a crime.  
महा० प० ११;

**अपरिआहता.** सं० कृ० अ० ( अपर्यादाय )  
भृष्टु कर्या विना. ग्रहण किये विना. Without  
out having taken or accepted.  
“बाहिराङ् पोगले अपरिआहता” भग०  
३, ८; २५, ७;

**अपरिकम्म.** त्रि० ( अपरिकर्मन ) युओ।  
‘अपरिकम्म’ शब्द देखो ‘अपरिकम्म’  
शब्द. Vide ‘अपरिकम्म’. उत्त० ३०,  
१३;

**अपरिकम्म.** त्रि० ( अपराक्रम ) पराइभरहित;  
सामर्थ्यविनानुं. पराक्रम रहित; सामर्थ्य रहित.  
Unheroic; powerless. “तपणं तुमं  
मेहा... अथामे अवज्ञे अपरिकम्मे” नाया० १;

**अपरिक्ख.** सं० कृ० अ० ( अपराच्य ) परीक्षा।  
कर्मविना; तपास्या विना. परीक्षा किये विना;  
जाँचेविना. Without having examin-  
ed. सू० १, ४, १६;

**अपरिक्खऊण.** सं० कृ० अ० ( अपरीच्य )  
परीक्षा न कर्त्तव्य; तपास्या विना. परीक्षा न  
करके; विना जाँच. Without having  
examined. सु० च० ३, १६६;

**अपरिखेदितत्त.** न० ( अपरिखेदितत्त ) अना-  
यास उत्पत्ति० ४० ३८ भै। वयनातिशय.  
अनायास उत्पत्त होने वाला वचन; वचन का  
३८ वाँ अतिशय. The thirty-fourth  
Atisaya of speech viz. speech  
without effort. ओव्र०

**अपरिग्रह.** त्रि० ( अपरिग्रह ) निपरिग्रही; नेनी पासे धर्मना उपग्रहण विना कुछ परिग्रह नथी ते. परिग्रह रहित; जिसके पास धार्मिक उपकरणों के सिवाय कुछ भी परिग्रह नहीं है वह. A possessionless monk. “अपरिग्रहा अणारंभा, भिक्खु तायां परिव्यव् ” सू० १, १, ४, ३; भग० ५, ७; परह० २, १;

**अपरिग्रहिया.** ली० ( अपरिग्रहीता ) वेश्या; रघात; अनाथ ली. वेश्या; रखलस्त्री; अनाथ ली. A prostitute; an unmarried ( public ) woman. पंचा० १, १६; ( २ ) विधवा. विधवा. a widow. प्रव० २७८; ( ३ ) दारी. दासी. a maid-servant. प्रव० २७८;—गमण. न० ( —गमन—अपरिग्रहीतायां गमनं मैथुन सेवनम् ) अपरिग्रहेत लीनी साथं मैथुन सेवनं ते; आवडना याचा वततो एवं अतिचार. अविवाहिता स्त्री के साथ मैथुन सेवन करना; आवक के चाँथे वत का दृगरा अतिचार. adultery: the second Atichāra of the fourth vow of a layman. उवा० १, ४८;

**अपरिग्रहेमाण.** व० क० त्रि० ( आरिगुद्रुत ) परिग्रह न राखतो; धन, धान्यादि परिग्रह उपर भूर्धा न राखतो. परिग्रह नहीं रखता हुआ; धन, धान्यादि परिग्रह में मूर्छा न रखता हुआ. Not keeping any worldly effects. आया० १, ७, ३, २०७;

**अपरिचक्त.** त्रि० ( अपरिचक्त ) न तरेत; न भुक्त. नहीं त्यागा हुआ; नहीं छोड़ा हुआ. Not given up; not abandoned. ठा० २, ४;—कामभोग. त्रि० ( -कामभोग-कामौ शब्दरूपे भोगाश्र गन्धरसस्पर्शी अथवा काम्यन्ते से कामा मनोज्ञः, भुज्यन्त इति भोगा: शब्दादयः, न परित्यक्ता यैस्ते तथा ) ऐसे कामभोग-मनोज्ञ शम्भादि पांच

विषय तज्ज्या नथी ते. जिसने कामभोग-मनोज्ञ शब्दादि पांच विषय छोड़े नहीं हैं वह. ( one ) who has not renounced pleasures of the senses. ठा० २, ४; अपरिच्छिग्रण. त्रि० ( अपरिच्छिग्रण ) परिवार रहित. परिवार रहित. Without dependants, attendants etc. वव० २, १;

**अपरिजाणमाण.** व० क० त्रि० ( अपरिजानत ) अतुन न जातो; अनुमोदन न आपतो. भला नहीं जानता हुआ; अनुमोदन नहीं करता हुआ. Not supporting; not approving. उवा० ७, २१५; नाया० १६;

**अपरिजाणिज्जमाण.** त्रि० ( अपरिज्ञायमान ) नेना भाटे भनमां रुदुं न जातुवामां आवे ते; आदरभावरहित. आदरभाव रहित. Not respected; not regarded with respect. “तएं से गोसाले… आणढाइज्जमाणे अपरिजाणिज्जमाणे” उवा० ७, २१६;

**अपरिणय.** न० ( अपरिणत-न परिणतं प्रासुकीभूतमपरिणतम् ) ने वस्तु पुरे पुरी प्रासुद-अविन न थर्द्देव ते वस्तु लेवाथी भुनिने लागतो अपाणुहोप; अपशुना. दश देव-भानो आउमे। देव. जो वस्तु ठांक तौर पर-पूरीतया प्रासुक न हुई हो उस वस्तु के ग्रहण करने पर साधु को जो दांष लगे वह दोष; एषणा के दस दोगां में से आठवाँ दोष. A fault of an ascetic caused by eating food which is not rendered perfectly free from life. निसी० ७, २०; आया० २, १, ८, ४६; पिं० नि० ५२०; भग० १६, ५; ( २ ) त्रि० रस, रुधिरकै परिणाम न पामेल घोरक. रस, रुधिर आदि रूप से परिणाम न पाया हुआ भोजन. un-assimilated ( food ). पंचा० ३, १२;

**अपरिणाम.** पुं० ( अपरिणाम ) त्रण प्रकारना

शिष्य पैड़ी प्रथम प्रकारना शिष्य; अपरि-  
षुभ-अधृत भुद्धिवाण। अने जिनवयनना  
रहस्यना अनलशु शिष्य. तीन प्रकार के शिष्यों  
में से प्रथम प्रकार का शिष्य; अल्पबुद्धि वाला और  
जिनवचन के रहस्य को न जानने वाला शिष्य.  
A dull-headed disciple unable  
to grasp the real meaning  
of the words of Tirthankara  
etc; a disciple of the first of  
the three sorts of disciples.  
विशेष २२६२;

अपरिणिवाण. न० ( अपरिनिर्वाण-न परितः  
समन्ताचिर्वाणं सुखमपरिनिर्वाणम् ) यारे  
तरक्षनी शारीरिक अने मानसिक पीड़ा-दुःख.  
चारों ओर की शारीरिक ओर मानसिक पीड़ा.  
All-round misery of mind and  
body. “ सब्बेसि सत्ताणं अस्सायं अपरि-  
णिवाणं महदभयं दुक्खं ” आया० १, १,  
६, ५०;

अपरिणाय. त्रिं० ( अपरिज्ञात-ज्ञपरिज्ञया  
स्वरूपतोऽनवगतः प्रत्याख्यानपरिज्ञया  
चाप्रत्याख्यातः ) ज्ञपरिता-समन्तपुथी स-  
भुने प्रत्याख्यान-परिज्ञाथी पर्याप्ता  
क्रेत नहि. ज्ञपरिज्ञा (समझ) से प्रत्याख्यान  
न किया हुआ अर्थात् बिना समझे छूटे  
प्रत्याख्यान किया हुआ. Not consciously  
or intelligently given up. भग०  
८, ४; आया० १, १, १, ८; १, २, ५, ६८;  
ठा० ५, २; दसा० ६, २;

अपरितंत. त्रिं० ( अपरितान्त ) थाठें नहि;  
परिश्रम न पामेल. नहीं थका हुआ. Not  
fatigued; not tired. अगुत० ३, १;  
विशेष ३४०२;—जोगि. त्रिं० ( -योगिन्-  
अपरितान्तोऽविभान्तो योगः समाधिर्थस्य स  
तथा ) थाठे-भेद-कटाणा विना योग-समाधि-  
वाणो; अविभान्त संयमवाणो. थकावट-

लेद रहित योग-समाधि वाला; अविभान्त  
संयम वाला. ( one ) with tireless  
meditation or self-control. अगुत०  
३, १; परह० ३, १;

अपरितावण्या. द्वी० ( \*अपरितापनता-अप-  
रितापन ) शरीरभाँ परिताप-संतापनु न  
उपज्ञुते. शरीर में संताप का उत्पन्न न  
होना. Freedom of the body from  
mental distress. भग० ५, ६;

अपरिताचिय. त्रिं० ( अपरितापित ) पोताथी के  
भीजथी ज्ञेने कापिक अने मानसिक ताप-  
दुःख न थयु ते. अपने से अथवा दूसरे से  
जिसे मानसिक और शारीरिक कष्ट न हुआ हो  
वह. Free from mental or physical  
pain self-inflicted or otherwise. भग० ३, २;

अपरित्त. पुं० ( अपरीत ) अनंतश्च वच्चे  
एक साधारण शरीरवाणे। ७४. अनंत  
जीवों के बीच में एक साधारण शरीर वाला  
जीव. A soul sharing a common  
body with infinite souls. ठा० ३,  
२; जीवा० १०; ( २ ) अनंतकाणसुधी  
संसारभाँ परिभ्रमणु करनार ७४; अनंत  
संसारी ७४. अनंतकाल तक संसार में परि-  
भ्रमण करने वाला जीव; अनंतसंसारी जीव. &  
soul eternally wandering in the  
worldly existence. “अपरित्त बंधू”

भग० ६, ३; “अपरित्ते दुविहे प० तं० काय  
अपरित्ते य संसारअपरित्ते य संसार-  
अपरित्ते दुविहे प० तं० अणादिए अपज्ञवसिए  
अणाइए सपज्ञवसिए” भग० १८; जीवा० २;  
विशेष ४११;

अपरिनिवाण. न० ( अपरिनिर्वाण ) जुओ।  
“अपरिणिवाण” १०८. देखो “ अपरिणि-  
वाण ” शब्द. Vide “अपरिणिवाण.”  
आया० १, ४, २, १३३;

**अपरिपूर्ण.** त्रिं ( अपरिपूर्त ) असुगण;  
वस्त्रादिकथि गणेत नहि. न छना हुआ.

Unfiltered, कप्प. ६, २५;

**अपरिभूय.** त्रिं (अपरिभूत) ने क्वाहथी  
पराभव्ये-गंज्ये। न ज्य ते; जेनो डेम्फ  
पराभव झुकी शडे नहि अवे। धनवान् या बण-  
वान्। जिसका कोई पराभव न कर सके ऐसा  
धनवान् या बलवान्। Not vanquished;  
invincible in point of wealth,  
power etc. ठां ७; नाया० ५; ७; ८;

अपरिभोग. पुं (अपरिभोग-परि-पुनः पुनः भोगः परिभोगः, न परिभोगोऽपरिभोगः) वारंवार भोगाय ते वस्त्र, धरेण्युं वरेण्येन। अभाव. बार बार भोगने में आनि वाले वस्त्र, आभूप्रण आदि का अभाव. Absence of things not consumed by one enjoyment; e. g. clothes, ornaments. या० ५, ३;

**अपरिमाण.** त्रिं (अपरिमाण-न विद्यते परि-  
माणं यस्य स तथा) क्षेत्र के काणथी परिमाण-  
भर्यादा विनाने. ज्ञेय या काल का मर्यादा  
रहित. Unlimited in point of time  
or space. ‘अपरिमाणं विभायाह, इहमेगे-  
सिमादिष्टं’ सृयो १, १, ४, ७; निसी०९८, १०;

**अपरिमिय-अ.** त्रि० ( अपरिमित ) परिभाषा  
रहित; अत्यंत मेहुदः; विशाल; परीमाण रहित;  
विशाल; बहुत बड़ा. Unlimited; ex-  
tensive. “**अपरिमियमहिच्छकलुसमति-**  
~~वाउबेगउद्धममाणं~~” परग २० २, ३; “**अपरि-**  
~~मियनायावंसयधरेति~~” परग २० २, १; ओवो  
२१; ३४; कप० ६, २५;

અપરિયત. ત્રિ. ( અપરિવૃત્ત ) એ કર્મપ્રકૃતિ  
પોતાના અધ્યક્ષ ઉદ્ય વખતે થીજી પ્રકૃતિનો  
અધ્યક્ષ અટકાને નહિ તે; અપરાવર્તમાન કર્ગે

प्रकृति. अपरावर्तमान कर्मप्रकृति; जो अपने वंध या उदय के समय दूसरी प्रकृति के वंध या उदय को नहीं रोकती. ( Karmic nature ) which does not, either at the time of its own formation or of maturity, hinder the formation or rise of another Karmic nature i.e. Karma; Karma Prakriti known as Aparavarta-māna. क० गं० ५, १५;

**अपरियाइज्जमाणं त्रि०** ( अपर्यादीयमान )  
 न थेषु क्वारातुं; न स्वीकारातुं. प्रहणा नहीं  
 किया जाता हुआ; स्वीकार न किया जाता हुआ.  
 Not being accepted. भग० ३. १;

**अपरियाइत्ता.** सं० कृ० अ० ( अपर्यादाय )  
अहेतु कर्त्ता विना. प्रहण किये विना. Without-  
out having accepted. भग० ६, ६;  
७, ६; १६, ५; ३० १, १;

**भपरियाणमाण.** व० क० त्रि० (\* अपरिजाम-  
मान-अपरिजानत्) भद्रु न ज्ञातेऽ; अनुभेदन-  
न आपतोः भला न जानता हुआ; अनुमोदन-  
नहीं करता हुआ. Not approving;  
not supporting. नाया० १; १४;

अपरियाणिता. सं० कृ० अ० ( अपरिज्ञाय )  
 शपरिशार्थी नाभ्या विना अने प्रत्याख्यान  
 परिज्ञार्थी त्याग कर्त्ता विना. जपरिज्ञा से जाने  
 बिना और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग किये  
 बिना. Without having had con-  
 sciousness of ( knowledge or  
 giving up ). छ० २, १;

**अपरियार.** व्रि० ( अपरिचार ) परियारणा—  
मैथुनसेवारहित. परिचारणा रहित; मै—  
थुनसेवा रहित. Free from Parichā-  
raṇā i. e. sexual intercourse.  
**पञ्च.** ३४;

## अपरियावण्या ॥० ६॥ अपरिसापनता—

**अपरितापन** ) परितापना-द्वय-संतापनो  
अभाव. दुःख-संताप का अभाव. Absence of misery or distress. भग० ३,  
३; ७, ६; ८;

**अपरियाविय.** सं० हृ० अ० ( अपरिताप्य )  
परिताप-संताप उपजाव्या विना. परिताप-  
संताप उत्पच किये बिना. Without causing  
distress or misery. जीवा० ३,  
६; जं० १० २, २५;

**अपरिवडिय.** त्रि० ( अपरिपति ) रिथर;  
अथवा० स्थिर; अचल. Fixed; steady.  
पंचा० ७, २८;

**अपरिचाग.** पुं० ( अपरिपाक ) अपरिपाक-  
परिपाकनो अभाव. अपरिपाक-परिपाक का  
अभाव. Absence of full ripeness.  
पल० १७;

**अपरिसाडि.** पुं० ( अपरिशादि ) खातां खातां  
नीये अहं न भेदवी ते. खाते खाते नीचे  
झूठन म ढालना. Not allowing  
scraps of food to drop while  
eating. भग० ७, १;

**अपरिसाडिय.** त्रि० ( अपरिशादिक ) नीये  
भेद्य वगरन्. नीचे न ढाला हुआ. Not dropped below; e.g. scraps of  
food while eating. “ जय अपरि-  
साडिय ” उत्त० १०, ३५; परह० ३, १;

**अपरिसावि.** त्रि० ( अपरिसाविन ) जुओ।  
‘ अपरिसावि ’ शब्द. देखो ‘ अपरिसावि ’  
शब्द. Vide ‘ अपरिसावि ’. ठा० ८, १;

**अपरिसुख.** त्रि० ( अपरिशुद्ध ) दोषसहित;  
अथुद्ध. दोष सहित; अशुद्ध. Impure;  
faulty. पंचा० ३, ३६; ( २ ) अधुक्तिवाणुं.  
अयुक्ति वाला. lacking in art or skill.  
पंचा० ३, ३६;

**अपरिसेस.** त्रि० ( अपरिशेष ) निःशेष; सर्व;

सधुण्. निःशेष; सर्व; समूर्ण. Whole;  
entire. परह० ३, १; भग० ३, १; ८; ८,  
६; ११, १; २१, २;

**अपरिसेसिय.** त्रि० ( अपरिशेषिक ) नेभां  
शेष कंधर रव्यु नथी ते; पुरे पुरे. जिसमें शेष  
कुछ न रहा हो वह; पूर्ण. Complete;  
entire. भग० ५, ४;

**अपरिस्सव.** पुं० ( अपरिश्रव ) पापनु उपादान-  
करण. पाप का उपादान कारण. Material  
cause of sin. आया० १, ४, २, १३०;

**अपरिस्सावि.** त्रि० ( अपरिसाविन-परिस्सावितुं  
शालमस्येतिपरिज्ञावी न परिज्ञावी-अपरि-  
ज्ञावी) नेभांथी प० जु झरी न ज्यतेवा तुंडा  
वंगरे; न झरनार. जिसमें से पानी वैरह न  
भर सके ऐसा तुंबा आदिक; न भरने वाला;  
Not causing to leak; e. g. water  
from gourds etc. ठा० ४, १; ५, ३;  
भग० २५, ६; गच्छा० २२; ( २ ) भावथी  
अपरिसावी-कर्मभन्धरहित; नेमो॒ कर्मभन्धा॑  
आवते अटुओ। छे ते. भाव से अपरिसावी,  
अर्थात् कर्मबंध रहित; जिसका कर्मप्रवाह आने  
से रुक गया है वह. without influx of  
Karma. भग० २५, ६; ठा० ४, १; ( ३ ) शिष्ये  
आलोचक भोताना दोष भीज डेखनी पासे पथु  
न प्रकाशनार युरु; सागर नेमा गंभीर पेटवाणा।  
युरु-आर्य वंगरे शिष्य ने जिन अपने दोषों की  
आलोचना की हो उन दोषों को प्रकट न करने  
वाला-समुद्रवत् गंभीर युरु. ( a Guru  
or preceptor) who does not  
disclose the faults confessed  
by a disciple “ जो अपरिस्सावी सो होइ ” ठा० ८, १;  
पंचा० १४, १४; भग० २५, ७;

**अपरिहारिय.** पुं० ( अपरिहारिक ) भक्तयु  
द्धेय अने उन्नभुजुद्धेयानो परिद्वाक-त्याग

करनार नहि; पासथे, अवसन्न, दुश्शीदीये, संसक्त अने यथाच्छंदस् ५ दूषित साधु. मूल गुणदोष और उत्तरगुणदोष का त्याग न करने वाला; शिथिलाचारी, अवसन्न, कुशीली, संसक्त और यथाच्छंदरूप पांच प्रकार के दूषित साधु. A Sādhu not abstaining from Mūla Guṇa and Uttara Guṇa; one of the five sorts of tainted Sādhus e. g. Pāsattha, Avasa-nna etc. आया० नि० १, १, १; ( २ ) अन्यतीर्थी गृहस्थ. जैनेतर गृहस्थ. a non-Jaina. वव० २, २७;

**अपरोवधाइया.** ली० ( अपरोपणातिका ) परने भीज अनेते उपधात-हुःभ-त्रास न उपलब्धनार भाषा; सांख्यनारने आधात न थाय तेवी भाषा। ऐली. दूसरे जीव को दुःख-त्रास आदि न पहुंचाने वाली भाषा; जिससे सुनने वाले को आधात न हो ऐसी बोली. Inoffensive speech. भग० १८, ७;

**अपलापय.** त्रि० ( अप्रलापक ) प्रक्षाप न करनार. प्रलाप न करने वाला. ( One ) not prattling. भग० १५, १;

× **अपलिउच्चमाण.** व० क० त्रि० ( अपरिकृत्यत ) न धुपावते; न संताउते. नहीं छिपाता हुआ. Not concealing; not hiding. आया० २, ५, १;

**अपलिउच्चिय.** स० क० अ० ( अपरिकृत्य ) भाषा न करने. माया-कपट न करके. Without having recourse to fraud. निसी० २०, १०; वव० १, १;

**अपलिउज्जिय.** त्रि० ( अपरियोगिक-परि-समंतात् योगिका: परियोगिका: परिज्ञानिनः, न

परियोगिका अपरियोगिका: ) यारे व्याख्या शानवागे। नहि; विशाल शानरहित. विशाल ज्ञान रहित; विस्तृत ज्ञान रहित; चारों ओर के ज्ञान से रहित. Not possessed of thorough and extensive knowledge. भग० २, ५;

\***अपलिश्रोवमाण.** व० क० त्रि० ( अगोपयत् ) न गोपयते; न संताउते. न छिपाता हुआ. Not hiding; not concealing. आया० १, ७, ४, २११;

**अपलिक्खीण.** त्रि० ( अपरिच्छीण ) क्षय पामेल नहि. जिसका क्षय नहीं हुआ हो वह; जिसका विनाश नहीं हुआ हो वह. Not destroyed; not decayed. ओव० ४२;

**अपलिच्छिरण.** त्रि० ( अपरिच्छिरण ) जुझे। “अपरिच्छिरण” १०८. देखो ‘अपरिच्छिरण’ शब्द. Vide ‘अपरिच्छिरण’. वव० ३, १; अपलिमंथ. पुं० ( अपरिमन्थ ) स्वाध्याय आदि कार्यमां परिमंथ-अंतराय-विघ्नो अभाव. स्वाध्याय आदि कार्य में विघ्न का अभाव. Absence of obstacles in the work of religious study etc. उत्त० २६, ३४;

**अपवग्ग.** पुं० ( अपवर्ग ) भेद्य. मोक्ष. Absolution; final emancipation. भत्त०४;

**अपवद्य.** पुं० ( अपवटक ) तवे; तावी. तवा. A pan to bake bread. भग० ११, ११;

**अपवत्तण.** न० ( अपवर्तन ) प्रवृत्तिनां अभाव. प्रवृत्ति का अभाव. Absence of activity. पंचा० ४, ४५;

**अपवरक.** पुं० ( अपवरक ) एवडें; केडों. कमरा; कोठा. A room. जीवा० ३, ३;

× नोट—आया० १, ७, ४, २११; आ-स-आ-भा० ‘अपलिश्रोवमाण’ एवें पाठे. पाठे.

× नोट—आया० १, ७, ४, २११; आ-स-आ-मे० ‘अपलिश्रोवमाण’ यह पाठ है.

× Note, one reading is. ‘अपलिश्रोवमाण’

**अपसंसरिज्जा.** त्रि० ( अप्रशंसनीय ) सारा भाष्यसे अप्रशंसा करता योग्य नहि; वभाष्यव्याख्यक नहि. प्रशंसा के अयोग्य; अचंक मनुष्यों द्वारा प्रशंसा न करने योग्य. Not praiseworthy. तंडुः।

**अपसत्थ.** त्रि० ( अप्रशस्त ) खश्य; अशोभन. खराब; बुरा; शोभाहीन. Not good; bad. प्रव० १३०२; भग० ४, १०; ( २ ) अअंय; लेवा योग्य नहि. अश्रेय; नेतै के अयोग्य. unacceptable. ठा० ३, ३; ( ३ ) वभाष्यव्याख्यक नहि. प्रशंसा न करने योग्य. not laudable. अखुज्जा० ६६; —कायदिग्य. पुं० ( कायदिनय ) दृष्ट कर्त्तव्यों कायाने रोकनी ते; अशुभकर्त्तव्यमां शरीरने न प्रवर्त्तव्य ते. दुष्कार्य करने से शरीर को रोकना; अशुभकार्य में शरीर को प्रवृत्ति न करने देना. restraining the body from sinful act. भग० २५, ७;

**अपसन्न.** त्रि० ( अप्रसन्न ) जुञ्चा “ अप्पसन्न ” शब्द. देखो ‘ अप्पसन्न ’ शब्द. Vide ‘ अप्पसन्न ’. दस० ६, १, ५;

**अपसिण.** पुं० ( अप्रशन ) प्रश्न पूछ्या विना सवाल कर्त्ता विना विधिपूर्वक विद्या के भंगना वभवाभावन्थी शुभाशुभ इति कठी शक्तय ते. प्रश्न पूछे विना विधिपूर्वक विद्या या मन्त्र का जाप करने मात्र से शुभाशुभ कल का कह सकना. Foretelling good or evil result without asking questions, simply by the force of science or repetition of incantations. नंदी० ५४;

**अपसु.** पुं० ( अपशु ) पशु-गाय, भैस, धौध वगेरे जेनी पासे नथी ते; साधु. जिसके पास गाय, भैस, धौध आदि पशु नहीं हैं वह; साधु. One not possessed of domestic animals; a Sādhu. “ समर्थ भवि-

समामि अणगारे अकिञ्चणे अपुत्ते अपसु परदत्तभेगी ” आया० २, ७, १, १५५;

**अपस्मयग्रासा.** व०क० त्रि० ( \*अपश्यमान-शप्यत् ) न देखतोः न ज्ञतोः न देखता हुआ. Not seeing. “ अपस्माने पस्सामि, देखे जर्खे य गुज्जरे ” सम० ३०; ओव० ३६; दस० ६, २६;

**अपहय.** त्रि० ( अपहत ) दण्डयेत; अटकेल. मार हुआ; अटका हुआ. Struck; killed; obstructed. प्रव० ४६३;

**अपहिण्ड.** त्रि० ( अपहष्ट ) जुञ्चो “ अपहिण्ड ” शब्द. देखो ‘ अपहिण्ड ’ शब्द. Vide ‘ अपहिण्ड ’. दस० ५, १, १३;

**अपहृपत्त.** त्रि० ( अप्रभवत् ) परिपूर्ण न थनु; अपार्थु रहेन्तु. परिपूर्ण न होता हुआ. Remaining insufficient. “ बहुसुय अपहृपते ” भणाइ अज्ञपि रंधेह ” त्रि० नि० २७२; भस० ११;

**अपाइया.** छी० ( अपात्रिका ) पातरा त्रिनानी ( साधी ). पात्र रहित ( साक्षी ). ( A nun) having no bowls. “ नो कप्पह य निगंथीए अपाइया ए हुतए ” वेय० ५, २०;

**अपाउड.** त्रि० ( अपावृत-न विद्यते प्रावृतं प्रावरणं यस्येत्यप्रावृतः ) वस्त्ररहित. वस्त्र रहित. Uncovered; naked. ठा० ५, १;

**अपाउरण.** त्रि० ( अप्रावरण ) प्रावरण-वस्त्ररहित. Devoid of covering i.e. clothes. प्रव० ५००;

**अपाण.** न० ( अपान ) युदा. युदा; मलद्वार. Anus; rectum. त्रिवा० ६; जं० प० २, ३१;

**अपाणग.** त्रि० ( अपानक ) जुञ्चो “ अपाणग ” शब्द. देखो ‘ अपाणग ’ शब्द. Vide ‘ अपाणग ’. प्रव० ५६४;

**अपाण्य.** त्रिं (अपानक) पाणी विनानुं. जल रहित. Having no water; waterless. “छटेण्यं भत्तेणं अपाण्याण्यं” जं० प० ४; दशा० ७,८; (२) दाढ़ने शमावनार. पाणी नेवा शीतण स्थाणीयानक आदि पदार्थ, के ने गोशालाने संभव नहा. दाह को शमन करने वाले पाना के समान शान्तल स्थार्ली-पानक आदि पदार्थ, जो गोशाला के मन से प्राय समझा जाना था. substances such as Sthālipānaka etc. which were acceptable in the opinion of Gośalā. भग० १५, १: (३) नेभां पानकदृष्ट्य-दृष्ट्य, क्षेवा, शर्वडी, पाणी वर्णरेना त्याग करवामां आये अवा उपवास वर्गेरे. जिसमें पान करने के द्रव्यों-दृष्ट्य, रवडी, पाना आदि का त्याग किया जाय ऐसा उपवास आदि. ( a fast etc.) in which drinkables like milk etc. are abstained from. प्रव० ४००; कथ० ७, २११; ठा० ६; पंचा० १८, १८;

**अपादाण.** न० (अपादान) उपादान द्वारण्: नेभ-कुंडलनु सुनर्ज, धडनु भाडी. उपादान कारण; जैसे कुण्डल का उपादान कारण सुनर्ज और घट-उपादान कारण मिश्री. Material cause e.g. earth of an earthen pot. विशे० २११७;

**अपायन्त्रिरण.** त्रिं (अपादन्त्रिका) नेना० प४ छेदायेक नथी ते. जिसका पाँव छेदा हुआ नहीं है वह. One whose foot is not pierced whith thorn etc. निसो० १४, ६;

**अपार.** त्रिं (अपार) पार-तीर विनानुः; नेना० छोड़ा नथी ते; अनन्त; पार विनानुः: अपार-पार रहित; अन्त रहित; अनन्त; जिसका किनारा न हो ऐसा. Infinite; endless. नाया० ६; रस० ६;—दुक्षक्ष. न० (-दुःख) अनन्त दुःखः पार विनानु० ५४. असीम दुःखः

ऐसा कष्ट जिसका पार न हो. infinite misery. सम० ६;—संसार. पुं०(-संसार) नेना० पार नथी अवै। संसार. पार रहित संसार; अनंत संसार. endless world; world without an end. नाया० ६;

**अपारंगम.** त्रिं (अपारङ्गम-पारस्तटः परकूलं तद्वद्यन्तीति पारङ्गमः, न पारङ्गमोऽपारङ्गमः) संसार समृद्धना पारने न पामनार. संसार समुद्र के पार को न पाने वाला. Not reaching the opposite shore of the worldly ocean. “अपारंगमा एष, ए य पारं गमित्तए” आया० १, २, ३, ८०;

**अपाव.** त्रिं (अपाव) पापरहित; सर्वथा शुद्ध. पाप से रहित; सर्वथा शुद्ध. Without sin. भत्त० २३; दस० ८, ६३;—भाव. त्रिं (-भाव) लभ्य आदिनी अपेक्षा विनानु अपाप-शुद्ध-निर्भक नेनुंचित छे ते; निर्भव लावसहित. लब्ध वगैरह की अपेक्षा से रहित शुद्ध-निर्भल चित्त वाला; निर्भल भाव महित. having the heart unsullied by any sin, e.g. the desire of supernatural attainment. गत० २३; दस० ८, ६३;

**अपावसारण** व० क० क० त्रिं (अप्राप्नुवत्) न भावते; ग्राम न करते. नहीं पाता हुआ; ग्राम न करता हुआ. Not getting; not obtaining. ओघ० निं० १६;

**अपाचवय.** पुं० (अपापक) शुभ चित्तवनरूप प्रशस्त भनोविनय. शुभ चित्तवन करने रूप प्रशस्त (प्रशंसा योग्य या उच्च) मनो विनय. Reverential attitude of mind consisting in pure and pious thoughts. सूक्ष० १, १, ३, ११; ठा० ७; (२) पाप विनानी वाणी योद्धवा० २५ पाणीविनय. पाप रहित वाणी बोलने

स्वप वारणीविनय. reverential speech consisting in expressions free from sinfulness. भग० २५, ७; ( ३ ) सर्वथा कर्मकंदिकरहित. सम्पूर्णतया कर्मकलंक से रहित. wholly unsullied by Karma. सूय० १, १, ३, ११;

**अपावा.** ल्लो० ( अपासा ) ज्यां भद्रवीर स्वामी निर्वाणुपद पाभ्या ते नगरी; हृषितपाल राजनी राजधानी जहाँ मदावीर स्वामी ने निर्वाण पद प्राप्त किया वह नगरी; हस्तिशाल राजा की राजधानी. The town where Mahā-vīra-svāmī attained to Nirvāṇa or final beatitude; the capital of king Hastipūja. पंचा० ६६, १७:

**अपास.** मु० ( अपाश ) पाश-पंचनो अभाव. बंधन का अभाव. Absence of fetters. आया० १, १, ३, २५;

**अपासंत.** व० कू० त्रि० ( अपश्यन ) न देतो; न देखते. नहीं देखता हुआ. Not seeing. “ जाई राशो अपासनो, कहमेसर्णीयं चरं ” दस० ६, २८; सूय० १, ६, ३८;

**अपासत्थया.** ल्लो० ( अपार्श्वस्थना न पार्श्वस्थो-उपार्श्वस्थस्थय भावस्थना ) पासत्थयपूर्णो भरिदार-त्याग कर्ये। ते. पार्श्वस्थन का शिथिलाचार का त्याग करना. Giving up the attitude of a Pasaltha; giving up looseness in ascetic life. ठा० १०;

**अपासमाण.** व० कू० त्रि० ( अपश्यन ) न देखते; न देतो. नहीं देखता हुआ. Not seeing. नाया० ३; ८; ६; १६; भग० १५, १;

**अपादेज्ज.** त्रि० ( अपाथेय ) पाथेय-संभग-लातुं, ते विनानो; लाता वग्ननो. पाथेय-कलेवा-रास्ते का भोजन जिसके पास न हो वह. Without provision of food dur-

ing journey etc. “ अद्वाणं जो महं तंतु, अपाहेजो पञ्चज्ञ ” उत्त० १६, १८; अपिडज. त्रि० ( अपेय ) पीवा लायड नहि; पान करने अथेय. न पाने योग्य. Unfit for drinking. पिं० निं० १६४;

**अपिदृणया.** ल्लो० ( \*अपिदृनता-अपिदृन ) लङडी आदिर्थी ताडन न करनुं; छटुं पिट्टुं नहि ते. लकड़ी बगैरह मे न पाटना; मार पीट का अभाव. Not striking with a stick etc. भग० ७, ६;

**अपिय.** त्रि० ( अप्रिय ) अप्रानिक्षर; देखवामां अप्रिय-अनिष्ट. देखने में जो अच्छा न लगे वह; अप्रीतिकारक; अनिष्ट. Unpleasant in sight; of unpleasant appearance. भग० ६, ३३; जीवा० १;

**अपिवरणिज्जोदग.** मु० ( अपानीयोदक ) जेनुं पाणी पिवा याज्य न दाय तेवो भेघ. ऐसा भेघ, जिसका पाना पान योग्य न हो. Rain water which is not drink-worthy. भग० ७, ६;

**अपिसुण.** त्रि० ( अपिशुन ) यांत्री चुगणी न करनार; छाईनुं आनुं पाई न करनार. चुगली न खान वाला. Not given to back-biting; not being a tell-tale. “ अपिसुणे आवि अदीणवित्ती ” दस० ६, ३, १०;

**अपीडिकारग.** त्रि० ( अप्रीतिकारक ) अभनोरा; बनाथी अप्रीति उपनं तेनु. अमनोज्ज; अप्रीतिकारक; जिसमें अप्रीति उत्पन्न हो वह; मनोहरना रहित. Unpleasant. ठा० ३, १;

**अपीडितर.** त्रि० ( अप्रीतितर ) अतिशय अ-भनोरा. अतिशय मनोहरता रहित; अति अप्रिय. Highly unpleasant. जीवा० १;

**अपुच्छिंश-य.** त्रिं० (\*आश्वष्ट) पुण्या विनामोः  
नेने पुण्याभां नथी आव्यु ते. विना पूछा  
हुआ. Unasked. “अपुच्छिंशो न भासिज्ञा.  
भासमाण्णस्त अनरा ” दस० ८, ४७;  
**अपुच्छिंश-य.** सं० क० अ० (\*अपृष्टवा) पुण्या  
विना; अपृयु. विना पूछे; न पूछार. Un-  
asked. निर्मा० २, ४८; ६, ७; १५,  
३४;  
**अपुट्ट.** त्रिं० ( अपुष्ट ) पुष्ट नहि; दुर्बल. दुर्बल;  
कमज़ोर; कृश. Not robust; weak.  
सूर्य० १, १५, ३;  
**अपुट्ट.** त्रिं० ( अपुष्ट ) नेने पुष्ट्यु नथी ते;  
पुण्याभां न आवेद. विना पूछा हुआ. Un-  
asked. “पुट्टो वावि अपुट्टो वा. लाभालाभं  
न निहिमे ” दस० ८, २८; उन० १, १६;  
भग० ३, १:—लाभिअ. पुं० (-लाभिक)  
‘शु आपु ?’ अभ पुण्या विना किदा आप  
ते देवी अयो असिअद धर्मार रहायु. ‘वया  
दृ ?’ ऐसा पूछे विना जो मित्रा दे वह मिथा  
लेने का अमिग्रह नियम धारण करने वाला  
साधु. an ascetic taking only  
those alms which are not pre-  
ceeded by the question “ What  
may I give you ? ”. अंत्र० १६:  
—वागरण. न० ( व्याकरण ) पुण्याभां  
न आव्यु देय छां प्रतिपादन करना. explaining a  
thing that is not asked. “ एवं  
सर्वं अपुट्टवागरणं नेयच्चं ” भग० ३, १:  
काष्ठ० ५, १४६;

**अपुट्ट.** त्रिं० ( अस्पृष्ट ) रप्ते न करेत; नेने  
अप्याभां नथी आव्यु ते. विना छुया हुआ.  
Untouched. “अपुट्ट उद्धाइति ” भग०  
२, १; “अपुट्ट भासेत ” भग० ८, ८; १,  
६; २, १, १; ११:—धर्म. पुं० ( धर्मन् )  
नेना धर्म अणहान छ ते; नेणु धर्म कर्मया।

नथी ते. जिसका धर्म बलहीन है वह;  
जिसने धर्म का स्पर्श न किया हो वह. (one)  
of feeble religion; ( one ) un-  
touched by religion. “ एवं तु सेहे  
वि अपुट्टमे, धर्मं न याणाइ अबुजकमाये ”  
सूर्य० १, १४, १३;

**अपुण.** अ० ( अपुनर ) इरी नहि. किर नहीं.  
Not over again. पंचा० १२, ११;  
**अपुणकरण.** न० ( अपुनःकरण ) इरने  
न कर्यु ते. फिर से न करना. Not doing  
over again. पंचा० १५, २८;

**अपुणकरणमय.** त्रिं० ( अपुनःकरणसङ्कृत-  
पुनरिदं मिथ्याचरणं न करिष्यामीत्येवं निश्च-  
यान्वितः ) ‘इरने आव्यु आचरण नहि करूं’  
अया निश्चयवाले. ‘फिर से ऐसा आचरण  
नहीं करंगा ’ऐसा निश्चय करने वाला. Re-  
solving not to do a particular  
act again. पंचा० १२, ११;

**अपुणच्चव.** पुं० ( अपुनश्चय-न पुनश्चयवनं  
च्यवोऽपुनश्चयवः ) देवताभांथी यथाने तिर्यच  
आदिमां द्वितीय न थनु ते; इरने यथाने  
—भर्यांतः अभाव. देवयोनि से च्युत होकर-  
देव शरीर को छोड़कर तिर्यच आदि गतियों  
में उत्पन्न न होना; फिर से मरने का अभाव.  
Not being born among animals  
etc. after finishing life among  
gods; not being required to  
die again. “ मन्त्रा अपुणच्चवं ” उत्त०  
३, १६;

**अपुणबंधग.** पुं० ( अपुनर्बन्धक ) जुन्मे  
‘अपुणबंधय’ शब्द. देखो ‘अपुणबंधय’  
शब्द. Vide ‘अपुणबंधय’. पंचा० २,  
४४;

**अपुणबंधय.** पुं० ( अपुनर्बन्धक-न पुनरपि बन्धो  
मोहनीयकमोक्षस्थितिनिवन्धनं यस्य स

तथा ) नेषु ग्रंथिंभद् कुर्यां छे—रागदेवती  
भज्ज्यूत गांठ लंघी छे ते; भेष्णीयनी उत्कृष्ट  
स्थिति इरी न खांधनार गुव. जिसने ग्रंथिमेद  
किया है—रागदेवती मज्जूत गांठ का भेदन  
किया है वह; धर्म का अधिकारी. ( One )  
who has shattered the bonds  
of love and hatred; ( one ) fitted  
for religion. पंचा० २, ४४;

**अपुण्डभव.** त्रि० ( अपुण्डभव ) नने इरने  
जन्म नाही करवे। ते; पुनर्जन्मरहित. जिस  
फिर जन्म नहीं धारण करना वह; पुनर्जन्म  
रहित. Freed from rebirth “सिद्धि-  
गद्यशिलयं सासयमव्यावाहं अपुण्डभवं”  
परह० १, १;

**अपुण्डरावत्तय. त्रि०** ( अपुनरावत्तक ) जयां  
इरी आवर्त्तन-आगमन नथी तेयुः पुनर्जन्मभादि  
रहित. पुनरागमन रहित; पुनर्जन्म, मरणादि  
रहित; जहाँ फिर से आवर्त्तन-आगमन नहीं  
ऐसा. From which there is no  
return; freed from the cycle of  
birth and death. भग० १, १;

**अपुण्डरावित्ति. स्त्री०** ( अपुनरावित्ति ) जुञ्जा  
‘अपुण्डरावित्ति’ श०६. देखो ‘अपुण्डरावित्ति’  
शब्द. Vide ‘अपुण्डरावित्ति’. आव० ६,  
११;

**अपुण्डरावित्तिअ. त्रि०** ( अपुनरावित्तिक )  
जुञ्जा. ‘अपुण्डरावत्तय’ श०६. देखो ‘अपुण्ड-  
रावत्तय’ शब्द. Vide ‘अपुण्डरावत्तय’.  
ओव० १०;

**अपुण्डरावित्ति. स्त्री०** ( अपुनरावित्ति-न पुनरा-  
वृत्तिः संसरेऽवतारो यस्मात्तत्तथा ) सिद्धि-  
स्थग्नि; भुक्ति. सिद्धिस्थान; मुक्ति; मोक्ष. Sal-  
vation; Siddhahood. जं० प० ५,  
११४; सम० १; राय० २३; कप्प० २, १५;  
नाया० १;

**अपुण्डरुत्त. त्रि०** ( अपुनरुक्त ) पुनरुक्ति द्वैप

रहित; ऐने ए वात इरी कहेवी ते पुनरुक्ति,  
तेथी रहित. पुनरुक्ति दोप रहित; एक ही वात  
को दुबारा कहना पुनरुक्ति होता है, उससे रहित.  
Free from tautology. राय० १६०;  
जं० प० २, ३०; ५, १२२; विश० ४७२;  
**अपुण्डगम. त्रि०** ( अपुनरागम ) जयांथी इरी  
जन्म धारण नथी करवे। ते; भेष्ण. जहाँ से  
फिर जन्म धारण नहीं करना वह स्थान; मोक्ष.  
( That ) from which there is no  
re-birth; salvation. “ समुद्घापले  
अपुण्डगमं गइं, गण्डि ” उत्त० २१, २६;  
“ उवेह भिक्खु अपुण्डगमं गइं ” दस० १०,  
१, २१;

**अपुण्डोच्चय.** पुं० ( अपुनरच्चय ) इरने  
भरवाना। अभावः अभरपण्. फिर से  
मरने का अभावः अमरत्व. Absence of  
any further death; freedom  
from death. उत्त० ३, १४;

**अपुण्डग. त्रि०** ( अपुण्डग ) पुण्डरीन; ऐनशीअ.  
पुण्डराहान; अमागा. Devoid of religious  
morit; unfortunate. नाया० २; १६;  
१६; विवा० १, ७; गय० २७६; निर० १, १;  
( २ ) तीव्र असानवेदनीयना उद्यवाणी.  
तीव्र अगातोदर्मायकर्म के उदय वाला.  
( one whose Karmas giving  
keen pain have matured.  
“ सामा योरुद्यायां पवत्तयंती अपुण्डगायां ”  
सूय० निं० १, ५, १, ७५; ( ३ ) अनार्थ;  
पापायरणी. अनार्थ; पापाचरणी. siuful.  
आया० १, ६, १, ८;

**अपुण्डग. त्रि०** ( अपुण्डग ) अधुरै; अपूर्ण  
भानान्थवाणी. अधरा; अपूर्ण; अपूर्ण मनोरथ  
वाला. Imperfect; incomplete;  
of unsatisfied desires. “ अहर्ण  
अधरणा अपुण्डगा ” विवा० १, ६; जं० प०  
३, ४३;

**अपुत्र.** त्रिं ( अपुत्र ) पुत्र विनामो; दीक्षा वगरने। पुत्र रहित. Sonless; having no son. आया० २, ७, १, १५५; नाया० १४;

**अपुम.** पुं० ( अपुम् ) पुरुषातन वगरनुं; नपुंसक. पुरुषत्व रहित; नपुंसक. An impotent. क० प० ४, ४५; ओष्ठ० निं० २२३;

**अपुरकार.** पुं० ( अपुरस्कार ) पुरस्कार-लेक्मां शुश्री तरीके भनावाथी भगता सत्कारने अभाव; अवशा; अनादर. लोगों द्वारा गुणी जनों को जो सत्कार मिलता है, उसका अभाव; अनादर; अवज्ञा. Lack of respect; disrespect. “गरण्यायु अपुरकारं जण्यह् ” उत्त० २६, ७; —गश्च. त्रिं (-गत) असत्कारने ग्राम थेल; अनादर पामेल. असत्कार ग्रास; अनादर पाया हुआ. dishonoured; an impotent. उत्त० २६, ७;

**अपुरिस.** पुं० ( अपुरु-न पुरुषोऽपुरुषः ) नपुंसक; पुरुषत्वनो अभाव. पुरुषत्व रहित; नपुंसक. An impotent. ठा० ६;—वाय. पुं० (-वाद) नपुंसक्याद; डेधना ७५२ नपुंसक्यानो आरोप भुक्त्वा ते; डेधनी नपुंसक तरीके वात इक्षावधी ते. नपुंसक्यावद; किसीके ऊपर नपुंसक्त्व का आरोप करना; किसीके नपुंसक होने का बात प्रकट करना. accusing a man for being impotent “अपुरिसवायं वयमाणे दासवायं वयमाणे ” वेय० ६, २;

**अपुरिसक्कारपरक्रम.** त्रिं ( अपुरुषाकारपरक्रम म-पुरुषाकारः पौरुषाभिमानः पराक्रमो निष्पादि-तप्रयोजनं सामर्थ्यं तौ न विद्येते यस्य तत्त्वाः ) पुरुषाकार-भाष्यसाध-भनु० ५५ ने छान्ता० ५२-५३ म विनामो। मनुष्यत्व के योग्य पराक्रम से रहित. Devoid of manly exploits. नाया० १३; १६; भग० ७, ६; विवा० १, ३;

**अपुरोहिय.** त्रिं ( अपुरोहित-नास्ति पुरोहितो

यत्र ) पुरोहित-शांतिकर्भकरनार ज्यां नथी ते. पुरोहित-शान्तिकर्म करने वाला जहाँ नहीं है वह. Devoid of a family-priest. भग० ३, १;

**अपुव्व.** त्रिं ( अपूर्व ) नवीन; विलक्षण; अन्य साधारण नहि. असाधारण; नवीन. Novel; extraordinary. क० प० ४, २०; क० गं० २, ६; ४, ४८; विशे० १२०३; प्रव० ३१४ पंचा० ३, २६; (२) पूर्वे न अनु-भवेत; अपूर्वकरण; नये २२७मानुं अके. जो पहिले कभी अनुभव में न आया हो वह; अपूर्वकरण; तीन करणों में से एक करण. not experienced before; one of the three Karanas. अगुजो० ११०; नाया० १७;—चिन्तामणि. पुं० (-चिन्तामणि) अपूर्व-अद्वितीय चिन्तामणि॒ रत्न. अपूर्व चिन्तामणिरत्न. unrivaled or unparalleled philosopher's stone. पंचा० ४, ३८;—नाण. न० (-ज्ञान) अपूर्वज्ञान; नवुं नवुं ज्ञान. अपूर्व ज्ञान; नया-नया ज्ञान. knowledge which one did not possess before; new knowledge. प्रव० ३२०;

**अपुव्वकरण.** त्रिं ( अपूर्वकरण-अपूर्वमभिनवं प्रथमं करणं स्थितिघातरसघातगुण्य श्रेणिगुणसङ्क्रमस्थितिश्वन्धानां पञ्चाना मर्थानां निर्वर्तनं यस्यासावपूर्वकरणः ) स्थितिश्वात, रसघात, गुणुश्रेणि, गुणुसङ्क्रम अने अन्यस्थितियंध ये पांचनी अपूर्व-पञ्चानी॒ वार निष्पति॒ २२नार ७५; आठमे गुणुदाणे॑ निरुक्ता पांचस्थिति प्राप्त २२नार ७५. स्थितिश्वात, रसघात, गुणश्रेणी, गुण-सङ्क्रम और अन्यस्थितिबंध इन पांचों की प्रथम ही बार निष्पति करने वाला जीव; आठवें गुणस्थान में उक्त पांचों स्थिति प्राप्त करने वाला जीव. (A soul) attaining

for the first time to a stage (the eighth stage of spiritual evolution) in which the five things occur viz Rasaghāta, Sthitighāta, Guṇaśreṇi, Guṇasāṅkrama and Anyasthitibandha. क० गं० २, ६; (२) न० (अप्राप्तं पूर्वमपूर्व—स्थितिधातरसधातायपूर्वार्थं निर्वतनं वा तत्त्वत्करणाश्चापूर्वकरणम्—भव्यात्मां सद्गव्यत्वाद्यनुगुणो विशुद्धतरपरिणामविशेषः) एव परिणाम—अथ नसायथी स्थितिधात, रसधातादि अपूर्वं अर्थानि ऐकज्ञ समये साथे साथे निष्पत्ति थाय ते परिणाम विशेषः; समक्तिं आदिते अनुकूलं भव्यज्ञदना विशुद्धतर परिणामविशेषः। जिस परिणाम से स्थितिधात, रसधात आदि अपूर्व अर्थ की एक ही समय में साथ साथ प्राप्ति हो वह परिणाम विशेषः; सम्यक्त्व आदि के अनुकूल भव्यजीव का विशुद्धतर परिणामविशेषः. modifications undergone by the soul simultaneously acquiring as result of them unique conditions of Rasaghāta etc. जं० प० ३, ७; भग० ६, ३१; क० प० ४, २०; क० गं० ४, ४६; (३) आदमुं गुणस्थानकं आठवाँ गुणस्थानकं. the eighth Guṇasthānaka, नाया० ८; १४;—आलिंगा. छी० (—आवलिंगा) अपूर्वकरणी आवलिंगा—सभ्यविशेषः। अपूर्वकरण की आवलिंगका-समयविशेष. the particular time of the attainment of Apūrvakarana. क० प० २, ६८;

**अपूर्वणाणग्नहण.** न० ( अपूर्वज्ञानग्रहण-  
अपूर्वस्य ज्ञानस्य निरन्तरं ग्रहणम् ) निरंतर  
अपूर्वे अपूर्वे ज्ञानं प्राप्तं करुं ते; तीर्थकर-  
त्वाभिकर्मे उपर्याप्तानां पीश स्थानकमातुं

१८ भु रथानक. सदा अपूर्व अपूर्व ज्ञान प्राप्त करना; तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करने के बीस स्थानकों में से १८ वाँ स्थानक. Ceaselessly acquiring new knowledge; the eighteenth of the twenty sources of attaining to Tirthankara-Nāmakarma.

अपुहत्त. त्रिं ( आपृथक्त्व- आविद्यमानं पृथक्त्वं  
 प्रस्तावात्संयमयोगेभ्यो विमुक्तत्वस्वरूपं  
 यस्यासौ तथा ) निरंतर रंयभयोगभां वर्त-  
 ना॒. सदा संयमयोग में प्रवृत्त. Cease-  
 lessly engaged in the practice  
 of self-control. “ अपुहत्ते सुप्पणिहिए  
 विहरहु ” उत्त० टी० २६;

**ਅਪੂੰਅ**- ਯ. ਪੁੰਨੂ ( ਅਪੂੰ ) ਪੁਰੀ; ਮਾਣਪੁਆ.  
ਪੁਰੀ; ਮਾਲੁਪੁਆ. A small round cake  
of flour; a bun. ਆਯਾ २, ੧, ੪,  
੨੪; ਓਵਰ ੪੨; ਜੀਵਾ ੩, ੧; ਜੰ ੫੦

**अपूरुषयण.** न० (अपूर्तिवचन-न पूर्ति अपूर्ति  
 तक्षणद्वचनं चापूर्तिवचनम्) संहेतुं-डोआध  
 ग्रथेतुं वचनं नहिः; अर्थात् ऐसाव्युं पाणे तेवा  
 उत्तमपुरुषोंनुं वचन. पर्वत्र व्यक्तियों का  
 वचन; जिनके कहं हुए वचन की पालना हो सके  
 एगा उत्तमपुरुषों का वचन. Words of  
 men of character; words never  
 growing rotten or stale.  
 नाया० १६;

अपूप. पुं० (अप्प) ज्ञाने। 'अपूचा-य' शब्द.  
देखो 'अपूचा-य' शब्द. Vide 'अपूचा-य'.  
पञ्च. ३६;

**अपूर्या.** ली० ( अपूर्जा ) पूजने। अभाव।  
पूर्जा का अभाव। Absence of worship.  
“ पूर्या पूर्या हियाहिया ” ठा० ५, ३;  
**अपूर्णि.** त्रि० ( अपूर्ति ) अपूर्ण; अधुरं.

अधूरा; अपूर्ण. Imperfect; incomplete. विं० नि० २१६;

**अपूर्वुं०** (अपोह) अवाय; निश्चय; विशिष्टज्ञान. निश्चय; विशेषप्रकार का ज्ञान. Definite, determine knowledge; certainty. नाया० १; ८;

**अपेच्चमाण.** व० कृ० त्रिं० (अपेत्यमाण अनाकमत्) आडमणि न करतो; डैमना उपर होतो न करतो. आकमणा न करता हुआ. Not attacking; not assailing. भग० ८, ७; १६, ८;

**अपेत्तज्ज.** त्रिं० (अपेत्य) पीता योऽय नहि; भद्रा यंत्रे अपेपदर्थ. न पाने योग्य; मदिरा आदि अपेयवस्तु. Not drink-worthy; e.g. wine etc. जावा० ३, ४;

**अपोगगल.** पुं० (अपुद्गल-न विद्यन्ते पुद्गलाः कर्मरूपा येणां ते तथा) कर्मयुक्तगणरहित सिद्ध भगवान्. कर्मपुद्गल रहित सिद्धभगवान्. One free from Karmic atoms; a liberated soul. ठा० २, १;

**अपोरिसिय.** त्रिं० (अपौरुषिक-पुरुषः प्रमाण मस्यति पौरुषिकं तत्त्वप्रेपादपार्थपकम्) पुरुषप्रभाजुथी अधिक उंडु; अगाध जल वर्गरह. Of a depth exceeding the height of a man; (water etc.) very deep. “ अत्थाहमपोरिसियं पक्षिवेजा ” नाया० ६; भग० १, ६;

**अपोरिसीय.** त्रिं० (अपौरुषेय) पुरुषप्रभाजु- वामथी वधारे उंडु; अगाध. पुरुषप्रमाण से अधिक ऊँडा-गहरा. Of a depth exceeding the height of a man; unfathomable. नाया० १४; (२) पुरुषना क्षेत्र नहि; अभानुपिक. पुरुषद्वारा न कहा हुआ; अमानुषिक. ठा० १०;

**अपोरुसिय.** त्रिं० (अपौरुषिक) जुओ। ‘अपोरिसिय’ शण्द०. देखो ‘अपोरिसिय’ शब्द. Vide ‘अपोरिसिय’. भग० ७, १;

✓ **अपोह.** धा० I. (अप+जह) भिहापेहु करी निश्चय करते. ऊहापोह कस्के निश्चय करना. To settle after discussion. अपोहए. विश० ५६१;

**अपोहुं०** (अपोह) छिला पछी थतो निश्चय; अवाय; भत्तज्ञानो त्रीजे लेद. इहा के बाद होने वाला निश्चय; अवाय; मतज्ञान का तासरा भंद. Judgment; ascertained knowledge; the third variety of Matijñāna. जं० प० नंदी ३६; विश० ३६६; (२) विपक्षना दुयुक्तिअभानो निरास-त्याग करवाने विशेष विचार करते; तर्क; विशिष्ट ज्ञान; शुर्क्षनो छडा शुशु. विपक्ष की कुरुक्षियों का परिहार करने के लिये विशेष विचार करना; तर्क; विशिष्ट ज्ञान; बुद्ध का छठा गुण. minute logical reasoning to refute the objections raised by an opponent; the sixth merit of intellect. भग० ६, ३१; (३) पदिलेहणुनो अंड प्रकार. पदिलेहण-प्रतिलेखन (बत्तो का निरीक्षण) का एक प्रकार. a variety of Padilehana i. e. minute inspection of garments etc. ओघ० नि० ६२;

✓ **अप्प.** धा० II. (अई) अर्पण करुं; सौ- पी हेवुं; अप्पण करना; सौप देना. To present; to give.

अप्पेह. मु० च० ४, ८०;

अप्पणामि. नाया० १६;

अप्पेजा. वि० पंचा० ८, ७;

अप्पाविडं. सं० कृ० सु० च० ४, १३६;

अथ. त्रिं ( अश्व ) थेऽुः; जरी; स्वद्यै; लगा-  
रेक. थोड़ा; स्वल्प. Little; small.  
भग० १, १; २, २; ३, २; ५, ६; १०; ७,  
३; १२, ४; नाया० १; १२; १६; दस० ४;  
५, १, ७४; ६, १४; जीवा० १; आया० १,  
२, १, ६२; १, २, ३, ८०; उत० १, ३५;  
११, ११; २५, २४; वव० ६, ४१; ४२;  
कष्ट० ४, ६७; पिं० निं० २०४; ३७६; स०  
प० १०; २०; ओव० ११; १६; ३८; ( २ )  
अभाव; [हि. अभाव. absence of;  
negation of. ठा० ७; गाह० ३२; आया०  
१, ८, ६, २२२;—अंड. त्रिं (-अण्ड-  
अल्पानि-न सन्ति अण्डानि कीटिकादीनां  
चत्र ददलपारडन्) ईंडा॒ पृष्ठनुं; झ्यां क्षी  
वगेरेनां ईंडा॑ भुद्वल नथी ते. अंडा रहित;  
जहां चिंटियाँ आदित्र के अंडे नाममात्र के भी  
नहीं हैं वह. absolutely free from  
eggs; free from eggs of ants  
and other insects. आया० २, १,  
१, १; वेय० ४, २६;—अद्विगरण.  
त्रिं (-अधिकरण-अल्पमविद्यमानमधिकरणं  
कलहो यस्य तत्त्वा) क्षेत्ररक्षित; क्षेत्र  
विनानो। कलह रहित; क्षेत्र रहित. free  
from feud or quarrel; peaceful.  
ठा० ६, १;—आउ. त्रिं (-आयुष्) जुओ।  
‘ अप्पआउअ-य’ शब्द. देखो ‘अप्पआउअ-य’  
शब्द. vide “अप्पआउअ-य” क०प० ४, ७३;  
—आउअ-य. त्रिं (-आयुष्क) अद्य-थेऽ।  
आउभावाणो; थेऽी निंदी भोगननार.  
थोड़ी आयुः वाला. having a short  
life; short lived. सूय० २, ७, २३;  
परह० १, १;—आउअन्ता. ली० (\*-आयु-  
षक्ता-अल्पमायुर्यस्यासावल्पगयुक्तस्तस्य भा-  
वस्तता) ज्वन्य आउभुं; दुंदु आयुष्य;  
दुंकी निंदी॒ थोड़ी आयु; जघन्य आयु.  
shortness of life. भग० ५, ६; ठा०

३, १;—आगम. त्रिं (-आगम) अद्य  
आगमने। ज्ञानार; अद्यपश्च. अल्प-थोड़ा आगम  
जानने वाला; अल्पस्. (one) possessed  
of a smattering knowledge of  
scriptures; a smatterer. वव० ६,  
२;—आयंक. त्रिं (-आतङ्क-अल्पस् सर्वथाऽ-  
विद्यमान आतङ्को उवरादिव्यस्यासावल्पातङ्क) निरोगी; रोगरहित. निरोगी; रोग रहित.  
free from disease; healthy.  
“ अप्पायंके महाप्रभ, अभिजाए जसोबले ”  
उत० ३, १८; भग० १६, ३; आया० २, ५,  
१, १४१;—आरंभ. त्रिं (-आरम्भ) पृथ्वी आदि ऊपरेनो थोड़ा। आरंभ सभारंभ  
कृनार. पृथ्वी आदि जीवों का थोड़ा आरंभ-  
समारंभ करने वाला. injuring or  
killing to a slight extent the  
sentient beings of earth-bodies  
etc. ओव०—आसव. पुं० (-आश्रव)  
थोड़ा। आश्रव-कर्मप्रवाह. थोड़ा आश्रव-कर्म  
प्रवाह. slight influx of Karma.  
भग० १६, ४;—आसवतर. पुं० (-आश्रवतर)  
धर्मेन थोड़ा आश्रव; अतिशय थेऽी कर्मनी  
आवृक. बहुत थोड़ा आश्रव; बहुत कम कर्म की  
आश्रव. slight influx of Karma.  
भग० १६, ५;—आहार. पुं० (-आहार)  
स्वद्य आहार; थोड़ा ऐराक। स्वल्प आहार;  
थोड़ी सुराक. scanty food. अटककुडि-  
अंडगप्पमाणमेते कवले आहारमाहरेमाणे  
अप्पाहरे ” भग० ७, १; दसा० ५, २६;  
पिं० निं० ६४८; वव० ८, १५; ( २ ) त्रिं०  
भिताहारी॒ थेऽुः भानार. मिताहारी॒ थोड़ा  
खाने वाला. ( one ) taking scanty  
food. पिं० निं० ६४८; वव० ८, १५;  
—इच्छ. त्रिं (-इच्छ-अल्पा स्तोकाऽ-  
विद्यमाना वा इच्छा यस्य तत्त्वा) धर्मोपकरण  
शिवाय अन्य वरेतुनी ईच्छा न राखनार.

धर्मोपकरण के सिवाय दूसरी वस्तुओं की इच्छा न रखने वाला. ( one ) having desires limited only to implements of religious practices. सूय० २, २, ३६; जीवा० ३; ( २ ) स्वत्प्र आहार करना० २; आहारना त्यागी. थोड़ा आहार करने वाला; आहार का न्यागा. taking scanty food; one who gives up food. “लक्ष्मिती सुमंतुटे, अपिष्ठ्वे सुहरे सिया” दस० ८, २५;—इच्छुया. ची० ( -इच्छाता-इच्छा ) अप्र धृष्टि; धृष्टाना० अभाव. थोड़ी इच्छा; अल्प इच्छा; इच्छा का अभाव. scantiness of desire; absence of desires. “अपिष्ठ्वा अहासेवि संते” दस० ६, १, ५;—इच्छा. ची० ( -इच्छा ) आहारादिकां थोड़ी प्रभृति; स्वत्प्र वांछा० अहारादि में थोड़ी इच्छा. scantiness of desire for food etc. भग० १, ६;—इच्छिय. त्रि० ( -अद्विक ) थोड़ी निष्ठियां। थोड़ा प्रदृढ़ि वाला. possessed of limited means. भग० १, २; १०, ३; ११, १०; इच्छियतर. त्रि० ( अद्विकनर ) अतश्य थोड़ी निष्ठियां। बहुत ही कम प्रदृढ़ि वाला. having very scanty means. भग० १३, ४;—उत्तिग. त्रि० ( -उत्तिङ्-ठीडीना० नगररदिति; ठीडीना० नगरा० विनानु० चिक्कटीयों के नगराओं ( घरों ) से रहने. free from ant-hills. वेय० ४, २६;—उत्थाई. त्रि० ( उत्थायिन्-आत्प्रसुत्थानु० शीलमस्येत्यल्लोत्थापी० ) प्रयोजन यज्ञे पञ्च वारंपार उत्थेया० करवाना० गन्नो० स्वभाव न थी ते. प्रयोजन होने पर भी बार बार उठने बैठने का जिमका स्वभाव नहीं हो वह. ( one ) not getting up from his seat frequently inspite of necessity. “अप्युदाई निरुदाई, निसीपञ्चाणकुक्कुप०”

उत्त० १, ३०;—उद्दय. त्रि० ( -उदक ) पाणि० विनानु०; पाणिरहित. जल रहित; विना पानी का. devoid of water; waterless. आया० १, ८, ६, २२२;—उद्यथ. त्रि० ( -उदक ) जुओ० ‘अप्पुदय’ शब्द. देखो ‘अप्पुदय’ शब्द. vide ‘अप्पुदय’. नाया० १;—उस्स. त्रि० ( -अवश्याय ) औस-जाइना० अिन्दु वगरतु०; नीचे के उपर हारना० अिन्दु नथी तेवु० ओस के बिन्दुओं से रहित; जिसके ऊपर या नीचे ओस की बूंदें नहीं हैं ऐसा. free from dew-drops. आया० १, ८, ६, २२२; वेय० ४, २६;—उस्सुय. त्रि० ( -औत्सुख्य ) उत्थापापञ्चाशी० रहित; विड्वणा० नहि० उत्सु-कता रहित; विहलता रहित. free from restlessness. भग० २, १; ३, ३; आया० ३, ३, १, ११६;—कर्मतर. त्रि० ( -कर्मतर ) अहुज थोड़ा० कर्मवाणी० बहुत ही थोड़े कर्म वाला. having very slight Karmas. “तमो पच्छा अप्पकर्मतराए० चेव ” भग० ५, ६; १, २; १६, ५;—कर्मतरय. त्रि० ( -कर्मतरक ) धर्माज थोड़ा० कर्मवाणी० धर्मा० हणवाकर्मी० बहुत थोड़े कर्म वाला. having very slight Karmas. भग० ७, १०, १८, ५;—कालिय. त्रि० ( -कालिक ) थोड़ा० वभूत रहेनार० थोड़ा कर्मनु० थोड़ा समय रहने वाला; थोड़े समय का. of a short duration of time; resting for a short time. भग० ६, ३३;—किरिय. त्रि० ( -क्रिय ) थोड़ी छियावाणी० जैने थोड़ी छिया लाणे० छे ते. थोड़ा क्रिया वाला; जिसका थोड़ा कर्मबंध होता है वह. having slight Karma. या० ४, ३;—किरिया. ची० ( -क्रिया ) थोड़ा छिया० अप्र छिया० अल्प क्रिया० थोड़ा कर्मबंध. slight Karma,

भग० १६, ४;—किरियातरा. श्री० (—क्रि-  
यातरा ) धोड़ी थेड़ी किया—कर्मभन्ध. बहुत  
थोड़ा कर्मबन्ध. very slight Karma.  
भग० १६, ५;—किलंत. त्रि० (—कलान्त-  
अल्पं स्तोकं कलान्तं कलमो येदां ते तथा )  
अनें ऐ६—परिश्रम नथी ते. जिसे परिश्रम—  
खेद नहीं है वह. unfatigued; slightly  
fatigued. “अप्यकिलंताणं बहुसुभेण्यं भे”  
आव० ३, १;—कुष्कुश्च. त्रि० (\*-कौकुच्य-  
अल्पमसत् कौकुच्यं करचरणादिचेष्टाऽस्येति  
तथा ) हाथ, पैर, मस्तक वर्गे धुयुवयनी  
येष्टा यिनानो। हाथ, पैर, मस्तक आदि हिलाने  
की चेष्टा से रहित. free from move-  
ments of hands, feet, head etc.  
“ निसीएज्जप्पकुष्कुए ” उत्त० १, २०;  
—कोह. त्रि० (—कोध ) हाइपरडित; भाव  
उष्णे. दरीनो एक प्रकार. कोध रहित; भाव  
ज्ञानोदरी का एक भेद. free from anger;  
a variety of mental उमोदारी.  
भग० २५, ७; ओव०—क्षत्र. न० (—अक्षर-  
अल्पान्यक्षराणि यस्मिंस्तत्त्वा ) युग्मयुक्त  
सूत्र; अनें अक्षर थेड़ा अने अर्थ गंभीर  
देख तेवुं सूत्र. गुण माहित सूत्र; जिसमें अ-  
क्षर थोड़े हों और अर्थ बहुत हो एंसा सूत्र. an  
aphorism concise in form but  
comprehensive in meaning. ओव०  
—उद्ध. त्रि० (—अर्व-अल्पोऽर्वं मूल्यं यस्य  
तत्त्वा ) थेड़ी किस्मतवाणुं; अ६५ भृत्यवान्  
पदार्थ; सर्वं. अल्प मूल्य वाला; धोड़ी कामत  
वाला; संस्ता. cheap; of small price.  
जीवा० ३, ३; दस० ७, ४६; भग० ३, ७;  
—जोग. पुं० (—योग ) न्यून्य योग—मन  
आदिनो व्यापार. जघन्य योग. minimum  
or lowest degree of thought  
vibration and other activities.  
क० गं० ५, ५३; —भंझ. त्रि०

(\*-भंझ-विगततथा विधविप्रकीर्णवचनं )  
उद्देश-अगडानां वयन न थोकनार;  
भाव उषेहारी करनार. लडाई, झगड़े के  
वचन न बोलने वाला; भाव ज्ञानोदरी करने  
वाला. not given to offensive or  
quarrelsome speech; practis-  
ing mental उमोदारी. ठा० ८; भग०  
२५, ७;—दिढ्य. त्रि० (—अद्विक ) थेड़ी  
भृद्यवाणु; अनें पासे थेड़ी भृद्य हे ते.  
थोड़ी भृद्य वाला; जिसके पास थोड़ी भृद्य है  
वह. having limited wealth.  
भग० १८, ३; १६, ११; पञ्च० १७;  
—णिज्जरा. श्री० (—निर्जरा ) थेड़ी  
निर्जरा. थोड़ी निर्जरा; कम प्रमाण में  
कमों का नाश. a modicum of Nirjarā.  
भग० १६, ४;—तुमंतुम. त्रि० (—त्वमत्वम् )  
हाथों परो ‘तुम्तु’ करी ऐ६ अप्यमान न  
करनार. कोध के यश होकर ‘तू तू’ आदि हीन  
शब्दों द्वारा एक दूसरे का अपमान न करने  
वाला. not insulting one another  
by the use of the term “thou”  
in anger. भग० २५, ७; ठा० ८; दसा० ४,  
१०५;—त्थामश्र. त्रि० (—स्थामन् ) थेड़ी  
भृत्यवाणु; अ६५ सामर्थ्यवान्. कम शक्ति  
वाला; अल्प सामर्थ्यवान्. of small or  
limited strength. “ से अंतसो अप्य-  
त्थामण् ” मृग० १, २, ३, ४;—झा. श्री०  
(—आद्वा ) अ६५ क्षण; थेड़ा वधत. थोड़ा  
समय. short time; a small dura-  
tion of time. क० प० २, १०१; ७,  
८३;—प्रप्सग्ना. त्रि० (—प्रदेशाग्र-अल्पं  
प्रदेशाग्रं कर्मदलिकपरिमाणं यस्य तत् ) थेड़ा  
प्रदेशवाणां कर्म; अनें प्रदेशांध-कर्मदलनो  
७४३ थेड़ा देख ते कर्म वर्गे. थोड़े प्रदेश  
वाला कर्म; जिस कर्म का प्रदेशांध थोड़ा हो  
वह कर्म. (Karmas etc.) covering

a narrow space. भग० १, १;—परिग्रह. त्रि० (—परिग्रह) धन धान्य-दि-  
थेा। परिग्रहणे। धनधान्यादि थोड़े परिग्रह  
वाला. having limited worldly  
possessions. ओव०—परिश्वाय. पु०  
(—परिश्वाय) थेआ। त्याग. थोड़ा त्याग;  
अल्प त्याग. slight abstention.  
पंचा० १८, ३२;—पाणि० त्रि० (—प्राण-  
अहस्तः प्राणाः प्राणिनो यत्र तत्त्वाः)  
प्राणिरहित; ज्यां डेई० पछु आणी०—जंतु  
नथी तेवा उपाश्रय वगेरे. प्राणी रहित स्थान;  
जहां कोई भी प्राणी—जीवजन्तु नहीं ऐसा उपा-  
श्रय वगैरह. free from living beings  
e. g. a monastery or a monk's  
abode. आया० १, ६, ८, ७; वेय० ४,  
२६;—पाणासि. त्रि० (—पानाशिन्-अल्प-  
पानमशितुं शीलमस्यासावल्पपानाशी) थेआ०  
पेय द्रव्य पीनार; पाणी० वंगरेनुं थेआ० पान  
करनार. पेय पदार्थ को थोड़ा पाने वाला;  
पानी वगैरह को अल्प प्रमाण में पाने वाला.  
(one) taking a limited quantity  
of fluid substances like water  
etc. सूय० १, ८, २५;—पिंडासि. त्रि०  
(—पिंडाशिन्-अल्पं पिंडमशितुं शीलमस्ये-  
ति) थेआ। आहारनो करनार; भिताहारी;  
अल्पाहारी। अल्प प्रमाण में आहार करने  
वाला; भिताहारी. ( one ) taking a  
limited quantity of food; moderate  
in food. “ अप्पपिंडासिपाणासि,  
अप्पं भासेज्ज सुब्बए ” सूय० १, ८, २५;  
—पुरणा. त्रि० (—पुरण) पुरुषीन; पापी;  
अनार्य. पुरुष हीन; पापी; पुरुष रहित; अनार्य.  
sinful; devoid of religious  
merit. आया० १, ६, १, ८;—बहु. त्रि०  
(—बहु) थेआ० वंतु; थेआ० धाँचु; थेआ० आँचु.  
न्यूनाविक; थोड़ा बहुत. more or less.

जीवा० २; जं० प० ७, १६२;—बहुग. त्रि०  
(—बहुक) एक करता थीज्ञुं एमाँ वा धधारै-  
थेआ० वा धाँचु। एक की अपेक्षा दूसरा कम या  
ज्यादह; कम ज्यादह. more or less.  
क० प० १, ५; भग० ७, २;—बीय. त्रि०  
(—बीज-अल्पमसदू बीजं वश तत्त्वाः) थीज्ञ  
रहित; ज्यां धान्य वगेरे भी विधभान नथी ते  
स्थगी वगेरे. बीज रहित; जहां धान्य आदि के  
बीज मौज्ह नहीं हों वह स्थान आदि. barren  
of seeds. वेय० ४, २६;—भक्षिक. त्रि०  
(—भक्षिन्-अल्पं भक्षितुं शीलमस्येति)  
अल्पाहारी; भिताहारी। अल्पाहारी; कम  
आहार करने वाला. moderate in food;  
taking a modicum of food. “ अ-  
गुणसाई लहुअप्यमवर्द्धी ” उत्त० १५  
१६;—भार. त्रि० (—भार) जेनुं भूत्य धाँचुं  
छतां भार थेआ। हेय ते; थेआ। वजनवाँचुं.  
जिसका मूल्य बहुत होने पर भी वजन कम  
हो वह; थोड़े वज़न वाला. small in  
weight. भग० २, १;—भाव. पु०  
(—भाव) अल्प भाव-लागाँची. अल्प भाव.  
slender or feeble feeling. पंचा०  
६, १६;—भासि. त्रि० (—भासिन्) भित-  
भासी; विकथा आदिथी रहित. भितभासी;  
विकथा आदि न करने वाला; अल्प प्रमाण में  
बोलने वाला. given to speak little;  
not prolix. “ अतिंतिये अच्चवले, अप्प-  
भासी मियासणे ” दस० ८, २६;—भूय.  
त्रि० (—भूत) सत्त्व-प्राणीरहित २७॥  
वगेरे. प्राणी रहित स्थान आदि. ( a place  
etc. ) free from living beings.  
ठा० ५, १;—मझ. त्रि० (—मति) थेआ०  
भुद्धियाँ। थोड़ी बुद्धि वाला. of slender  
intellect. क० प० ७, ५६;—महरघ.  
त्रि० (—महार्ध) जेनो भार-वजन थेआ० अने  
किम्भत धर्थी हेय तेवुं. जिसका वज़न थोड़ा

हो और कीमत बहुत हो वह, small in weight but of high price. राय० २३८; नाया० ४०—महग्नधाभरण। त्रिं० (—महाधीभरण—अलपानि स्तोकभारवन्ति महार्वाणि बहुमूल्यान्वयभरणानि यस्यासौ तथा) थेऽुं वृष्टन अने धर्षी किमतवाणां आभूथश्च। राखनार. थोड़े वज़न और अधिक कीमत वाले आभूषणों को रखने वाला. having ornaments of small weight and high price. उवा० १, १०;—रय. त्रिं० (—रजस्) कर्मरहित; अल्पकर्मी. कर्मरज रहित; अल्पकर्मी वाला. sullied with slight Karma; unsullied with Karma. “सिद्धे वा हवह सासए, देवे वावि अप्परए महिण्हिए” उत्त० १, ४८;—रय. त्रिं० (—रत—अल्पम-विद्धमानं रतं क्रीडनं यस्येति) क्रीडरहित-काम भेगनीधृच्छाविनाना—अनुत्तरविभानना। देवता वगेरे. कीडा रहित, कामभोग की इच्छा रहित; अनुत्तरविमाननिवासी देवादि. free from carnal lust; e. g. gods of Anuttara heavenly abode. दस० ६, ४, २; ३;—लेवा. ल्ली० (—लेपा) नेनाथी पात्र भरदाय नहि ऐवा चथु, पाढ़ुवा वगेरे आक्षर लेवानी प्रतिरा कर्वी ते; पिं-पथुनो याथी प्रकार. जिन वस्तुओं से पात्र न लिप हो उन वस्तुओं को आहार में ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना; पिंडेषण का चौथा भेद. the fourth variety of care in food; a vow to take food consisting of grams, beans etc. which do not bespatter or stick to a vessel. ठा० ७;—लोभ. पुं० (—लोभ) लोल धरावेया या न करवेया ते; भाव उछोड़ी-रीना एक प्रकार. लोभ का घटाना या न करना; भाव ऊनोदरी का एक भेद. miti-

gation of or cessation of greed; a variety of mental उनोदरी. भग० २५, ७;—लोह. पुं० (—लोभ) जुथे। ‘अप्पलोभ’ शब्द. देखो ‘अप्पलोभ’ शब्द. vide ‘अप्पलोभ’. भग० २५, ७;—बुहि. ल्ली० (—बृहि) थेऽुं। वरसाद. अल्प वर्षा; धोझी वर्षा. scanty rain. ठा० ३ ३;—बुहिकाय. पुं० (—बृहिकाय—वर्षणधर्मयुक्तमुदकं बृहिस्त-स्याः कायः समूहो वृष्टिकायः स चासावल्पः स्तोकोऽविद्धमानो वाल्पवृष्टिकायः). थेऽुं। वरसाद वरसे अथवा भुद्धल न वरसे ते. योकी वर्षा हो अथवा बिलकुल वर्षा न हो वह. scantiness or complete absence, of rainfall. “तिहिं ठारेहि अप्पतुटिक्ष्य सिया तंजहा” ठा० ३, ३; “अज्ञायाकाया पदमसरदकालसमयंसि अप्पबुट्टिकायंसि” भग० १५, १; कप्य० ६, ३१;—बेयण-तरणा. ल्ली० (—बेदनतर-का) अतिशय थेडी वेदना; धर्षीज थेडी वेदना. बहुत कम वेदना कष्ट. very slight pain. भग० १, २; १८, ५; १६, ५;—बेयणा. ल्ली० (—बेदना) थेडी वेदना—दुःख योई वेदना; अल्प कष्ट. slight pain. भग० ६, १; ७, ६; १६, ५;—सत्तिय. त्रिं० (—सात्त्विक) सत्त्व व्यग्रना; भनोप्य विनाना. सत्त्व रहित; मनोबल रहित. lacking in will-power; stuffless. सूय० नि० १, ४, १, ६१;—सद०. पुं० (—शब्द) २३ न पाड़ी; धीभे धीभे भोक्तु ते; भाव उछोड़रीनो एक प्रकार. ऊंचे स्वर से न चिल्लाना; धीमे स्वर से बोलना; भाव ऊनोदरी का एक भेद. not shouting; speaking in a low tone; a variety of mental उनोदरी. भग० २५, ७; (२) कुल्ये। करवा गुरसाथी न भोक्तु ते. करवा हो जाने की संभावना के

कारण कोध या गुस्से से न बोलना. not shouting with a view to quarrel.

ओव०—ससरकष. त्रि० (—सरजस्क ) २७—क्यरै। क्लीने साइ शुश्रृ केरेख. कचरा निकालकर साफ़ किया हुआ. cleansed by the removal of dirt. आया० २, २, १, ११०;—सावारिय. त्रि० (—सावारिक ) ५४्याहिक्षी रहित. द्रव्यादि से रहित. not possessed of wealth etc. वेय० १, २४;—सावज्जकिरिया. ली० (—सावद्यकिया ) जेमां सावद्यकिया थोड़ी छे ऐमी वसनि-स्थान. जिसमें पाप किया थोड़ी हो ऐसी वस्ती-स्थान. a residence with very few sinful actions in it. आया० २, २, २, ८६;

—सुअ. त्रि० (—श्रुत ) शास्त्र-आश्रमो अग्निः; थेडुं जाणुनार; अद्यपश. शास्त्रों को थोड़ा जानने वाला; अल्पज्ञ. ignorant of scriptures; possessed of meagre knowledge. “उहरे इमे अप्पसुएति शास्त्रा” दस० ६, १, २; वव० ६, ४;—सुह. त्रि० (—सुख ) थेडुं सुख आपनार; नक्ष नंदुं सुख जेमां छे ते. थोड़ा सुख देने वाला; नाममात्र का सुख जिसमें है वह. giving but little happiness. परण० १, १;—हरिच्छ. त्रि० (—हरित) ५४्यां हरित-वनस्पति नथी तेवुं; वनस्पतिरहित. जहाँ हरी वनस्पति नहीं हो वह (स्थान); वनस्पति रहित. free from green vegetation वेय० ४, २६;

अप्प. पुं० ( आत्मन्-अतति सततं गच्छति विशु-द्धिसंक्लेशात्मकपरिणामात्तराणीत्यात्मा ) ५४्य; आत्मा; चेतन; स्वयं; पोते; पंडे. जीव; आत्मा; चेतन; खुद व खुद; स्वयं. Consciousness; soul; self; oneself. “अप्पणा चेव उद्दीरहे ” भग० १, ३;

“ अप्पणा अप्पणो कम्मक्क्वयं करित्तए ” नाया० ५; “ अप्पणो भासाए परिणामेण ” “ अप्पा रई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामकी ” उत्त० २०, २६; पिं० निं० भा० ३०; विशे० १५६; १५६८; निसी० १३, ३०; १५, १; दस० १, २; ६, २२; कप्प० १, ७; गच्छा० ६६; आव० १, ३; नाया० ७; १६; भग० १५, १; दसा० ५, १६; वव० २, २७; ५, ११; द, १२; अप्पाण. द्वि० ए० उत्त० १, ६; २६; जं० प० ३, ६८; नाया० १४; निसी० ११, १३; अप्पणा. तृ० ए० वेय० १, ३३; ४, ११; १२; भग० ३, ५; २४, १; २३; नाया० २; दसा० १०, ७; अप्पणो. ष० ए० ओव० ३४; सूय० १, १, १, ३; अणुजो० १६४; दस० ४; नाया० १; द; वेय० ४, २५; उत्त० १०, २८; भग० ५, २; ६; १५, १; १७, १; १८, द; भस० ३६; पंचा० ६, ५०; दसा० ४, १२; पञ्च० २२; निसी० ३, ३४; १६, १७; अप्पे. स० ए० उत्त० ६, २६;—अभिगिवेस. पुं० (—अभिनिवेश) पुत्र, क्लवाइटिभां पोतापथुनो आभह; जे वास्तविक रीते पोताना नथी ते विषे आथदपैक भभत्व राखवुं ते. जो वस्तुएं वास्तविक रीति से अपनी नहीं हैं उनमें आप्रहपूर्वक भमत्व रखना; पुत्र, कलन्त्र आदि में अहंभाव. excessive attachment to family, worldly possession etc. which are not really a part of one's self or soul. नंदी०—उपमा. ली० (—उपमा ) आत्मतुल्यना; पोतानी उपमा. आत्मतुल्यना; अपने आपकी उपमा. comparison with one's own self. सूय० १, ११, ३३;—उस्सुय. त्रि० (—उस्सुक ) भीजनी संपत्तिनी अवगणुना करी पोतानी संपत्ति विशेष भाननार; आत्मप्रशंसा कुरनार. दूसरे

की संपत्ति की अवहेलना करके अपनी संपत्ति को विशेष मानने वाला; अपनी प्रशंसा करने वाला. self-applauding; self-exalting. जं० प०,—चउत्थ, त्रि० (-चतुर्थ) जेमां पैतानो योथा नंभर छे ते; पैते जेमां योथा छे ते. जिसमें अपना चौथा नंबर हो वह. having oneself as the fourth of a series or group. वेय० १, ४८; वव० ४, ५; ६; ६; १०; ११; ५, ३; ८;—छुट. त्रि० (-पष्ठ) जेमां पैते छोड़े छे ते. जिसमें छुट का छठा नंबर हो वह. having oneself as the sixth of a group or series. नाया० ६; १६; १८;—तइय. त्रि० (-तृतीय) पैते जेमां त्रीने नंभरे छे ते. स्वयं जिसमें तीसरे नंबर पर हो वह. having one-self as the third of a group or series. वेय० १, ४७; ४८; वव० ४, ५; ६; ८; ५, ३;—पंचम. त्रि० (-पञ्चम) जेमां पैते पांचमे छे ते; पैता सहित पांचमे. जिसमें खुद पांचवाँ हो वह; अपने सहित पांचवाँ. having oneself as the fifth of a group or series. वव० ८, ८;—पर. त्रि० (-पर-आत्मा च परश्चात्मपरो तथा) पैते अने भी-ना; पैते अथवा भीनो. खुद और दूसरा; स्वयं अथवा दूसरा. oneself and others; oneself or another. नाया० ७;—विद्वि-ति-य. त्रि० (-द्वितीय) पैते जेमां भीने छे ते; पैता सहित ऐ. स्वयं जिसमें दूसरा हो वह. having oneself as the second of a group or series; forming a group of two inclusive of oneself. वेय० १, ४; ४७; वव० ४, ३; ५, १;—वस. त्रि० (-वश) स्वतंत्र; पैताने वश; परवश नहि. आत्मवश; स्वाधीन; जो परवश नहीं है वह. self-dependent;

independent. गच्छा० ६८; नाया० १६;—वसा. ली० (-वशा) स्वच्छंदू ली; निरं-कुश. नारी. स्वच्छंद ली; स्वेच्छाचारिणी नारी. a self-willed woman; a woman without any body to curb her. नाया० ८०—वह. पुं० (-वध) आत्मधात; पैतानो वध-धात डरी ते. आत्महत्या. suicide. भत० ६३;—वाइ. पुं० (-वादिन्) ‘पुरुष एवं द सर्व’ ने कंधि देखा प छे ते सर्व आत्मा शिवाय भीजुँ कंधि नथी-ओकूल आ-त्मतत्वने प्रतिपादन डरनार वाही; अद्वैत-वादी. “पुरुष एवं द सर्व” जो कुछ दिखता है वह सब आत्मा है, आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, इस प्रकार केवल आत्म-तत्व का प्रतिपादन करने वाला वादी; अद्वैत-वादी. a pantheist; a non-dualist. नंदा०—सत्तम. त्रि० (-सप्तम) जेमां पैते सातमे देखा ते; पैता सहित सातमे. जिसमें स्वयं सातवाँ हो वह. having oneself as the seventh of a series or group. ‘मङ्गीणं अरहा अप्पसत्तमे मुद्दे भवित्ता’ ठा० ७;—द्विय. न० (-द्वितीय) आत्महित; आत्मानु अय-क्षम. आत्मा का भला; आत्मा का हित. welfare of the soul or self. नाया० ७; अप्पद्वारा. पुं० ( अप्रतिष्ठान-न विद्यते प्रतिष्ठानमौद्रारिकशरीरादेः कर्मणो वा यत्र सो ऽप्रतिष्ठानः ) भेदः; भुक्ति. मोक्ष; सुक्षि. Salvation; final liberation. आया० १, ५, ६, १७०; ( २ ) सातमी न२५ना पांच न२५तासामग्नि। भृत्यवर्ति श्रेष्ठ न२५यासी। सातवें नरक के पांच नरकावासों में से मध्यवर्ती एक नरकावास. name of the middle of the five infernal abodes of the seventh

hell “अप्पहिंडाणे नरए एगं जोयणसयसहस्रं  
आथामुविक्षमेण ” ठा० ५, ३; पञ्च० २;

जीवा० ३, १; भग० १३, १; सम० प० २०६;

**अप्पहिंडि अ. त्रि०** ( अप्रतिहित ) अतिथिन-  
रहित; पाया विना-निमित विना स्वभावे  
उद्भवेत्. प्रतिष्ठान रहित; विना निमित के  
अपने आप उत्पन्न. Self-born. ठा० ४,  
१; ( २ ) प्रतिअंधरहित; अशरीरी.  
प्रतिबंध रहित; अशरीरी. free from  
obstruction; bodiless; unem-  
bodied. आया० २, १६, १२;

**अप्पहिंडणपसरियत्तच. न०** ( अप्रकीर्णप्रसुतत्व )  
जे भां असंबद्धपाणु अने अतिविस्तार  
नथी अपी वाणी; तीर्थकर्ता वाणीना। ३५  
अतिशयमानो। अडु. जिसमें असंबद्धता और  
विस्तार नहीं है ऐसी वाणी; तीर्थकर की  
वाणी के ३५ अतिशयों में से एक आतिशय.  
Speech free from irrelevance  
and prolixity; one of the  
thirty-five Atishayas of a  
Tirthankar's speech. सम० ३५;

**अप्पउलिङ्ग. त्रि०** ( अप्रज्वलित ) अपक्ष;  
परापर रंधामेल नहि. विना पका हुआ;  
अच्छीतरह से न सांका हुआ. Raw; im-  
perfectly cooked. “ अप्पउलिङ्गो-  
सहिभवस्याया ” उवा० १, ५१;

**अप्पकंप. त्रि०** ( अप्रकम्प ) अपक्ष; अच्यत;  
कंपे नहि-हले नहि तेमुः ६८. हलन चलन  
रहित; अचल; ढढ. Firm; steady.

“मंदरो हव अप्पकंपे” ठा० १०; ओव० १७;

**अप्पकलम. त्रि०** ( अल्पकर्मन् ) हलवा कर्मी;  
जे ने थेां कर्म बोगवाना छे ते. जिसे थोड़े  
कर्मों का फल भोगना है वह. Having  
slight Karmas. ठा० ४, ३; —पच्चा-  
याय. त्रि० (—प्रत्याशात्-अल्पैः स्तोकैः कर्मभिः  
प्रत्याशातः प्रत्यागतो मानुषत्वमित्यल्पकर्मप्र-

त्याशातः) बोगवतां के अपावतां थेां कर्मों  
भाड़ी रखा तेथी इरी मनुष्ययोनिमां जन्मेत;  
थेां कर्मों साथे मनुष्यरूपे जन्मेत. थोड़े कर्मों  
सहित मनुष्ययोनि में उत्पन्न; भोगते या  
क्षय करते २ जो थोड़े कर्म शेष रहे हों उनसे  
फिर मनुष्ययोनि में उत्पन्न. born again  
in the human womb on account  
of a few remnants of Karmas.  
ठा० ४, १;

**अप्पच्चक्खाण. न०** ( अप्रत्याख्यान ) जुओ।  
“ अपच्चक्खाण ” शा० ६. देखो ‘ अपच्चक्खाण ’  
शब्द. Vide ‘ अपच्चक्खाण.’ क० गं०  
१, १७; ठा० २, १; विश० १२३१;  
—चत्तिया. त्रि० (—प्रत्यया ) पच्चयाख्य  
न कर्त्त्वाथी लाभती हुया—कर्मांध. पच्चक्खाण-  
प्रत्याख्यान न करने से जो कर्मबंध हो वह.  
Karma arising from not taking  
a vow of giving up sense-  
pleasure etc. ठा० ४, ४;

**अप्पच्चक्खाय. सं० क० अ०** ( अप्रत्याख्याय )  
पच्चयाख्य न करने; त्याग न करने.  
प्रत्याख्यान न करके; त्याग न करके. Without  
having given up or  
abandoned. “ इहमेंगे उ मन्त्रंति, अप्प-  
क्खाय पावगं ” उत्त० ६, ६;

**अप्पपूजूहिंडि. त्रि०** ( सिद्ध ) पाड़ीने तैयार  
थयेल; रंधाई रहेल. पककर तैयार; सीक चुका  
हुआ. Cooked; ripe for eating.  
आया० २, १, ४, २३;

**अप्पडिकंटय. त्रि०** ( अप्रतिकरणक-न विघ्ने  
प्रतिमङ्गः करणको यत्र तदप्रतिकरणकम् )  
जे ने डाई प्रतिपक्षी नथी ते. जिसका कोई  
प्रतिपक्षी नहीं हो वह. Unrivalled;  
having no rival. राय०

**अप्पडिकलम. न०** ( अप्रतिकर्मन् ) जे भां  
प्रतिकर्म-क्षरीर-संस्कार, शरीरवेष्ट-संकेत,

विस्तार वरे इधं न थर्थं शक्ते तेवो संथारनो। एक प्रकार; पादपोपगमन संथारनो। एक भेदः जिसमें शरीरसंस्कार, शरीर बेष्टा अर्थात् संकोच, विस्तार वैरुद कुछ न हो सके ऐसा देह त्यागने का एक भेद; पादपोपगमन नामक उपवास का एक भेद। A variety of Pādapopagamana ( bodily ) austerity; a variety of bodily austerity in which an ascetic gives up food and drink and awaits death without moving any part of the body. “सुज्ञारे य अप्पडिकम्मे” पण्ड० २, ५; घा० २, ४; ओव० १६;

**अप्पडिकुट्.** त्रि० ( अप्रतिकुट् ) निरोध न करेतः; भनाइ न करेतः; आनन्दे; निषेध न किया हुआ; अनिन्द्य; जिसका मनाहा न की गई हो वह। Unforbidden, unproscribed. घा० २, ४;

**अप्पडिक्कंत.** त्रि० ( अप्रतिकान्त ) प्रतिक्लिम्यु द्वारा पापथी पाणि न हुक्ष. प्रतिकमण द्वारा पाप से पीछे न हटा हुआ। Not freed from sin through Pratikramanya। उत्त० १३, २६; ओव० ३८; नाया ध०

**अप्पडिक्कमित्तु.** सं० कृ० अ० ( अप्रतिकम्य ) पडिक्कम्या विना; सवारना प्रान्तिक्लिम्युभाटे का-उस्तुग कुर्या विता। प्रातःकालान प्रतिकमण के लिये कायोत्सर्ग किये विना। Without performing Pratikramanya or confession of sin; without performing Kāyotsarga for the morning Pratikramanya। “अप्पडिक्कमित्तु कालस्स, भायणं पाढ़लेहए” उत्त० २६, २२;

**अप्पडिक्कमावेत्ता.** सं० कृ० अ० ( अप्रतिकम्य ) पडिक्कम्या विना। प्रतिकमण कराये

बिना। Without performing Pratikramanya or confession of sins.  
वा० ६, २०;

**अप्पडिगमाहिय.** त्रि० ( अप्रतिगृहीत ) अखण् न करेतः। अगृहीत; प्रहण न किया हुआ। Not accepted; not taken. भग० ८, ७;

**अप्पडिचक्क.** त्रि० ( अप्रतिचक्क-न विद्यते प्रति अनुरूपं समानं चक्रं यस्य तदप्रतिचक्कम् ) परयै कर्त्ता अवश्य न करी शक्ते तेवु चरु अद्वितीय। जिसके समान दृश्या चक्र आदि न हो ऐसा चरक आदि। Unrivalled by unapproached by other schools of philosophy such as that of Charaka etc. “अप्पडिचक्कस्य जओ होइ सया संघचक्कस्स” नंदा०

**अप्पडिग्न.** त्रि० ( अप्रतिज्ञ ) जुओ। ‘अपडिगण’ शब्द। देखो ‘अपडिगण’ शब्द। Vide ‘अपडिगण.’ सूय० १, १५, २०;

**अप्पडिपूज्य.** त्रि० ( अप्रतिपूजक ) युरुनी भूगत रोपा न करनार। युरु का पूजा-सेवा न करने वाना। Not worshipping a preceptor. “अप्पडिपूज्यए थद्दे, पाचस-मणेच्चि बुच्छह” उत्त० १७, ५; सम० ३०;

**अप्पडिबद्ध.** त्रि० ( अप्रतिबद्ध ) जुओ। ‘अपडिबद्ध’ शब्द। देखो ‘अपडिबद्ध’ शब्द। Vide “अपडिबद्ध.” प्रव० २४; संथा० ६१;

**अप्पडिबद्धया.** न्ना० ( अप्रतिबद्धता ) [नःसंगपत्तुः; अप्रतिपूज्य विहार। निःसंगपना] अप्रतिबंध विहार. State of being unaccompanied by any body; unobstructed movement from one place to another. “अप्पडिबद्धया ए यं भंते ! जावे किं जययह ?” उत्त० २६, २; भग० १, ६; १७, ६;

**अप्पडिम.** त्रि० ( अप्रतिम ) भीमा-हु०  
वगरनुं असीम; सीमा रहित. Unlimited;  
limitless. सु० च० २, ७०;

**अप्पडिहरूवे.** त्रि० ( अप्रतिरूप ) जेनी भरभर  
भीमानुं रूप नथी ते. जिसके समान दूसरे का  
रूप नहीं है वह. Of matchless appear-  
ance or beauty. “ अप्पडिहरूवे  
अहाउयं ” उत्त० ३, १६;

**अप्पडिलद्व.** त्रि० ( अप्रतिलब्ध ) जुओ।  
‘ अप्पडिलद्व ’ शुभ०. देखो ‘ अप्पडिलद्व ’  
शब्द. Vide “ अप्पडिलद्व.” नाया० १;

**अप्पडिलेस्स.** त्रि० ( अप्रतिलेश्य ) जेनी भनो-  
वृत्ति अतुक्ष व्यग्याणी हेय ते. जिसका  
मनोवृत्ति अतुलबल वाली हो वह. Of very  
strong desires or emotions. “ अ-  
प्पडिलेस्सासु सामग्यारया दंता इण्मेव  
शिगंधं पावयणं पुरओ काउ विहरंति ” ओव०

**अप्पडिलेहण.** न० ( अप्रतिलेखन ) जुओ।  
‘ अप्पडिलेहण ’ शुभ०. देखो ‘ अप्पडिलेहण ’  
शब्द. Vide “ अप्पडिलेहण.” आव० ५, ६;

**अप्पडिलेहिय.** त्रि० ( अप्रतिलेखित ) जुओ।  
‘ अप्पडिलेहिय ’ शुभ०. देखो ‘ अप्पडिलेहिय ’  
शब्द. Vide ‘ अप्पडिलेहिय.’ प्रव० २८६;  
उवा० १, ५५;

**अप्पडिलोमता.** छ्री० ( अप्रतिलोमता )  
जुओ। ‘ अप्पडिलोमया ’ शुभ०. देखो ‘ अप्पडि-  
लोमया ’ शब्द. Vide ‘ अप्पडिलोमया.’  
भग० २५, ७;

**अप्पडिवाइ.** त्रि० ( अप्रतिपातिन् ) जुओ।  
‘ अप्पडिवाइ ’ शुभ०. देखो ‘ अप्पडिवाइ ’ शब्द.  
Vide ‘ अप्पडिवाइ.’ ओव० २०; नंदी० ६;  
कण० ५, १०६; विश० ८२३;

**अप्पडिविरय.** त्रि० ( अप्रतिविरत ) पापथी  
अनिवृत्त थयेक. पाप से आनिवृत्त; जो पाप से  
निवृत्त न हुआ हो वह. Not free from

sinfulness; not refraining  
from sin. सूय० २, १, १६;

**अप्पडिसुणेत्ता.** त्रि० ( अप्रतिश्रोतृ ) प्रत्युत्तर  
नहि अपनार. प्रत्युत्तर नहा देने वाला.  
(One) who does not respond  
to. सम० २३;

**अप्पडिसेह.** पुं० ( अप्रतिषेध ) प्रतिषेध नहि ते.

अप्रतिषेध; रोक टोक का अभाव. Absence  
of prohibition; absence of  
check. पंचा० ६, ३६;

**अप्पडिहय.** त्रि० ( अप्रतिहत ) प्रतिधातरहित;  
अप्रतिहित. प्रतिधात से रहत; अखण्डित.  
Unbroken; unimpaired. नाया०  
१६; ( २ ) क्रांत्य यथु रभवना पामेद नहि.  
जो कहीं भी स्वलित न हुआ हो वह. un-  
obstructed; unimpeded. सम० १;  
( २ ) क्रैं अटकाणी न शडे कै डै तेनु उङ्घन  
न करी शडे तेवुं कोई रोक न सके या कोई उसका  
उस्त्रयन न कर सके ऐसा. irresistible.

“ अप्पडिहयबले जोहे, एवं हवह  
बहुस्सुए ” उत्त० ११, २१; उत्त०  
११, १८; कण० २, १५; सम० १;  
ओव० १७; अणुजो० ४२; सु० च०  
२, १७६; नाया० १; १६; भग० ८, ६; जं०  
प० ५, ११५;—गड. त्रि० ( -गति ) अप्रति-  
षेध विद्वारा. अप्रतिबंध विद्वारा; बिना रोक  
टोक के विहार करने वाला. moving  
unimpeded.“ अप्पडिहयगई गामे गामे  
य एगरायं गागरे गागरे पंचायं दूजांते य  
जिझंदिए ” जं० प० २, ३१; परह० २, ५;  
ठा० ६;—पूच्चकस्त्रायपावकम्भम्. त्रि०  
(-प्रत्याख्यातपापकम्भन्-प्रतिहतं निराकृत-  
मतीतकालकृतं निन्दादिकरणेन प्रत्याख्यातं  
च वर्जितमनागतकालविषयं पापकम्भ  
प्राणातिपातादि येन स तज्जिवेधात्तथा )

अतीत अने अनागत इग्नि संबंधी पाप

कर्मना ऐसे पश्यभाषु नथी कर्ता ते. भूत और भविष्य कालसम्बन्धी पापकर्मों का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया वह. ( one ) who has not repudiated past sinful acts by censuring them and future ones by vowing to abstain from them. भग० १, १; —बल. त्रि० (-बल) ऐनुं भगै डेवीथी छाय नदि-उद्धवाय नदि ते. जिस के बल का किसीके हारा नाश न हो अथवा उल्लंघन न हो वह. of irresistible might. उत्त० ११, २१; —सासण. त्रि० (-शासन) ऐनो हुक्म अंडप्रये प्रगाय तेवै. जिसका आज्ञा अखंडित रीत से पाला जाय ऐसा. of unchecked, irresistible authority. “ अप्पडिहयसासणे असेणावई ” गाया० १६; —वरणाणदंसणधर. तुं० (-वरज्ञानदर्शनधर) अपां न अटें तेवां रात-इवण्ज्ञान अनं दृश्यन-इवण्डा दृश्यनना धरनार. कहीं भी न रुके ऐसा ज्ञान-केवलज्ञान और केवलदर्शन धारणा करने वाला. one possessed of irresistible or invincible perfect knowledge and right faith. आव० ६, ११; भग० १, १;

अप्पण. न० ( अर्पण ) अर्पणु करनुं ते; भट्. आपवी ते. मेट करना; अर्पण करना. Act of giving; act of presenting. विशेष० १८४३;

अप्पण. पुं० ( आत्मन् ) आत्मा; पोते. आत्मा; स्वयं; खुदबखुद. Soul; self; oneself. “ अप्पणटा परटा वा, उभयसंतरेय वा ” उत्त० १, २५; —आटू. पुं० (-अर्थ) स्वार्थ; पोतातुं प्रयोजन-भत्ताच. स्वार्थ; खुद का मतलब; अपना प्रयोजन. self interest; one's own interest. दम० ६, १३; ६, २, १३; उत्त० १, २५;

अप्पणिच्चय. त्रि० (\*आत्मीय) आत्मसं- अधी; पोतातुं. अपना; आत्मसम्बन्धी. One's own; relating to oneself. “ यो अप्पणिच्चिद्राओ देवीओ अभिजुनिष ” भग० २, ५;

अप्पणिज्जय. त्रि० ( आत्मीय ) पोतातुं; आपणु; आत्मातुं. अपना; निजका. Relating to one's self or soul; one's own. दसा० १०, ६; ७;

अप्पतर. त्रि० ( अल्पतर ) अतिशय अ८५; धृष्टुं थोड़ा. बहुत थोड़ा. Very little. “ अप्पतराए से पावे कम्भे कजहू ” भग० ८, ६; भग० १, १; २; ओव० ३८; क० गं० ५, २२; पंचा० ५, १६; —बंध. पुं० (-बन्ध) अत्यंत थोड़ा। कर्मभैध; ज्यारे आह प्रकृतिनो अंधक थृष्टने सातनो अंधक थाय त्यारे प्रथम अप्पतर धृष्टुं थोड़ा अंध होए. बहुत थोड़ा कर्मबंध जब कि आठ प्रकृतियों का बंधक होकर सात प्रकृतियों का बंधक होता है तब पर्हिने जो बहुत थोड़ा बंध हो वह. very little Karmic bondage क० गं० ५, २२;

अप्पनिट्टाण. न० ( अप्रतिष्ठान ) : जुओ। “ अप्पइट्टाण ” श०८८. देखो ‘ अप्पइट्टाण ’ शब्द. Vide “ अप्पइट्टाण ” जीवा० ३; अप्पन्त. त्रि० (अप्राप्त) न प्राप्त थेवै. जो प्राप्त न हुआ हो वह. Unobtained. विं० नि० भा० २६; प्रव० ८७१; —कारि. त्रि० (-कारि॒न) जुओ। ‘ अप्पकारि ’ श०८८. देखो ‘ अप्पकारि ’ विशेष० ३४०; —जाल. पुं० (-ज्वाल) यूदा उपर रहेक ऐ वास्थुने अभिनी जण। न स्पृशती द्वाय ते. चूल्हे पर रखे हुए जिस बर्तन की आगि की ज्वाला न लगती हो वह. untouched by flames ( e. g. & vessel on an oven). विं० नि० ५४६;

**अप्पत्तिय.** यु० ( अप्रत्यय ) अविश्वास. अविश्वास. Distrust. सू० २, ३, ६५; ( २ ) दुष्ट ध्यान. दुष्ट ध्यान. evil contemplation. सू० ३, २, ६५;

**अप्पत्तिय.** न० ( अप्रीतिक ) अप्रीति; देष; अप्रेम. अप्रीति; देष; प्रेम का अभाव. Hatred; absence or want of love. “अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुण्ठिया जावा परो” दस० ८, ४८; “अप्पत्तियं सिया हुआ, जहुतं पवयणस्स वा” दस० ५, ३, १२; “महया अप्पत्तिपृणं मणो माणसिएणं दुखेणं अभिभूए समाणे” भग० १३, ६; सू० १, १, २, १२; भग० ७, १;

**अप्पत्तिथय.** त्रि० ( अप्रार्थित ) जुओ। “अप्पत्तिथय” वा० ६. देखो ‘अप्पत्तिय’ शब्द. Vide ‘अप्पत्तिथय’. नाया० ५; भग० ३, २; अप्पत्तिथयप्पथश्च. त्रि० ( अप्रार्थितप्रार्थक ) नेने कैधि न धृष्टे ते अप्रार्थित-भरणु, नेने धृष्टनारू; भेननेना अविश्वासी। जिसे कोई न चाहे वह अप्रार्थित-भरण, उग मरण को नाह-ने वाला। ( One ) desiring what nobody desires viz. death. “कस्मरणं एस अप्पत्तिथयप्पथए दुरंतपतलवत्वये” भग० ३, २; जं प० ३;

**अप्पत्थय.** त्रि० ( अप्रस्तुत ) प्रस्तुत नहि; असंख्य. असंबद्ध. Irrelevant; void of the mark. सु० च० ४, ६६;

**अप्पदुस्समाण.** व० क० त्रि० ( अप्रद्विष्यत् ) देष न कृतो. देष न करता हुआ. Not hating. अत० ४;

**अप्पण्य.** त्रि० ( अप्राप्य ) न भग्नी शके शेषु; ग्राम न थाई शके शेषु. जो न मिल सके वह.

Unobtainable. विशेष० २६८०;

**अप्पबहुश.** न० ( अल्पबहुक-त्व ) जुओ। ‘अप्पबहुत्त’ श॒८६. देखो ‘अप्पबहुत्त’ शब्द. Vide ‘अप्पबहुत्त.’ प्रव० ६९;

**अप्पबहुता.** ज्ञा० ( अल्पबहुता ) जुओ। “अप्पबहुत्त” श॒८६. देखो ‘अप्पबहुत्त’ शब्द. Vide “अप्पबहुत्त.” क० प० ३, २६;

**अप्पबहुत्त.** न० ( अल्पबहुत्त ) ज्ञेयवत्ता-पथु; सरभाभिषु कृतां डेषु कैठुं वधु-शेषु छे ते व्यतावतुं ते. कमती बढ़ती; मुकाबले में कौन ज्यादह कम है सो बताना. Excess or defect in point of comparison. क० गं० ४, १, ३;

**अप्पभुत्रि०(अप्रभु)** प्रभु-भावित नहि ते. माल-कियत से रहित; जो स्वामी न हो वह. One who is not a master भग० २, ५; अप्पमज्जण. न० ( अप्रमार्जन ) जुओ। “अप्पमज्जण” श॒८६. देखो ‘अप्पमज्जण’ शब्द. Vide ‘अप्पमज्जण.’ सम० १७;

**अप्पमउज्जणा.** ज्ञा० ( अप्रमार्जना ) प्रभार्जना नहि ते. प्रमार्जना का अभाव. Absence of cleansing or brushing. आव० ४, ६;

**अप्पमज्जिय.** त्रि० ( अप्रमार्जित ) जुओ। ‘अप्पमज्जिय’ श॒८६. देखो ‘अप्पमज्जिय’ शब्द. Vide ‘अप्पमज्जिय.’ उवा० १, ५२; उत० १७, ७;

**अप्पमत्त.** त्रि० ( अप्रमत्त ) जुओ। ‘अप्पमत्त’ श॒८६. ’देखो ‘अप्पमत्त’ शब्द. Vide ‘अप्पमत्त.’ अहो य राशो य अप्पमत्तेण हुंति’ परह० २, ५; ‘अप्पमत्तो जपे यिच्छा’ दस० ८, १६; उत० ४, ६; नाया० १; भग० ६, ३३; श्रोव० १७; सु० च० ३, ६५; दसा० ४, १०५; पंचा० ४, ४६; प्रव० ८४२; क० गं० २, ८; क० प० ४, १६; ६, २; आया० १, १, ४, ३३;—संजय. यु० ( -संयत ) संरथा प्रभादरहित साधु; सातमे युख्याशे वर्तते। श्रृ॒४. संरथा प्रमाद रहित साधु; सातवे युख्यानवर्ती जीव. an ever vigilant ascetic

free from errors due to negligence; a soul in the seventh Guṇasthāna. सम० १४;

**अप्यमत्त्या.** ली० ( अप्रमत्ता ) प्रभाद्वो अभाव; अप्रभत्तपत्तुं. प्रमाद का अभाव; अप्रमत्तपत्ता. Absence of negligence or errors due to it. सम० ५;  
**अप्यमाद्य-**य. पुं० ( अप्रमाद ) प्रभाद्वो अभाव. प्रमाद का अभाव. Absence of carelessness or errors due to it.  
 परह० २, १;

**अप्यमाद.** पुं० ( अप्रमाद ) प्रभाद्वो अभाव; प्रभाद्वो त्याग. प्रमाद का अभाव; प्रमाद का त्याग. Absence of negligence or errors due to it. सम० ३२; उत्त० १३, २६;

**अप्यमेय.** त्रि० ( अप्रमेय ) प्रभाणुप्राप्त नहि; नेनो भाष्य न थई शहे ते. जो प्रमाण में न आ सके वह. Immeasurable. “अण्टतमप्यमेय-भवियधमचाउरंतचकवट्ठी नमोत्थु ते अरिहंतात्तिकट्डु” परह० १, ३;

**अप्ययओ.** अ० ( आत्मतस् ) आत्मानी अपेक्षाएः; पैतानी अपेक्षाएः. आत्मा की अपेक्षा से; अपनी-निज की अपेक्षा से. Regarding one's self; regarding the soul. विश० ६१६;

**अप्ययर.** त्रि० ( अप्यतर ) जुओ ‘अप्यतर’ शब्द. देखो ‘अप्यतर’ शब्द. Vide ‘अप्यतर.’ दसा० ६, १; क० प० ७, ५१; क० गं० ५, ८३;

**अप्यरिसाद्विय.** न० ( अपरिशादित ) परिशाट-भोज्यपदार्थं नीचे भरवुं न थाप ते, अथवा परिशाट-यावतां यावतां ‘भयभय’ ऐव। अवाज्ञन करवो। ते. भोज्यपदार्थ का नीचे न गिरना, अथवा चबाने में ‘बच बच’ आवाज़।

का न होना. Not dropping down food while eating; not making a chuckling noise while chewing.

“आलोए भायणे साहू, जयं अप्यरिसाद्विय” दस० ५, १, ६६; उत्त० १, ३५;  
**अप्यलीण.** त्रि० ( अपलीन ) असंपत्ति; संग-रहित; अनासक्त। संबंध रहित; आसक्ति रहित. Unattached; free from attachment. “अगुक्से अप्यलीणे” सूय० १, १, ४, २;

**अप्यलीयमाण.** त्रि० ( अपलीयमान ) काम-भाग, संपत्ति, स्वजन आदिभां लीन-आसक्त थेक नहि; रनेहमां अनासक्त। कामभोग, संपत्ति, स्वजन आदि में जो आसक्त न हुआ हो वह; स्नेह में अनासक्त. Unattached to wealth, pleasures, relatives etc. आया० १, १, २, १८३;

**अप्यलेचडा.** ली० ( अल्पलेपकृता ) नेथी वा-सागु न अरयाय तेवा वाणु, वटाणु वगेरेनी विक्षा लेवा ते; अपाणुनो ओंक ब्रक्तर. एषणा का एक प्रकार; जिसे बरतन न लिपे गेसा चना आदि का आहार लेना. Begging only that food which does not soil or bespatter the vessel in which it is placed, e.g. gramis, peas etc.; a mode of Eṣapū. प्रव० ७४८;

**अप्यवत्त.** त्रि० ( अप्रवृत्त ) प्रवृत्त न थेक. जो प्रवृत्त नहीं हुआ हो वह. (One) who has not engaged himself in or set himself to. क० प० ५, ७३;

**अप्यवत्तण.** न० ( अप्रवर्तन ) प्रवृत्तिनो। अभाव. प्रवृत्ति का अभाव. Absence of activity. पंचा० ४, ४५;

**अप्यविश.** त्रि० ( अप्रवृत्त ) निवृति पाभेक्ष; प्रवृत्त न थेक. निवृति पाया हुआ; जो प्रवृत्त

न हुआ हो वह. Not engaged in activity; retired. पंचा० १४, १४;

**अप्पविद्यार.** त्रि० ( अप्रविचार ) भैयुन-विपृथ-सेवनीन् प्रवृत्ति विनाना. विषयसेवन की प्रवृत्ति बिना का. Not engaging in sexual intercourse. प्रव० १४५४;

**अप्पसंत.** त्रि० ( अप्रशान्त ) शांत थेक नहि.

अशान्त; जो शान्त न हुआ हो वह. Not calmed. पंचा० २, २;—**चित्त.** त्रि० (-चित्त) लेनुं चिन शांत नथी थयुं ते. जिसका चित शान्त नहीं हुआ वह. with a mind not calm. पंचा० २, २;

**अप्पसत्थ.** त्रि० ( अप्रशस्त ) भराम; अशो-जन; प्रशंसना योग्य नहि. खराब; अशोभ-नीय; बुरा; मनोहरता रहित; प्रशंसा न करने योग्य. Evil; not praise-worthy. उत्त० २६, २८; ३४, १६; भग० ६, ३१; २६, १; प्रव० ५३; ६८;—**मणविण्य.**

पुं० (-मनेविनय) दृष्ट भनने। निरोध करवे। ते; भनने दृष्ट चिननाथी अटडायनुं ते. मन को दुष्ट चिनत्वन-विचार आदि से पराड़मुख करना. restraining the mind from wicked thoughts. भग० २५, ७;—**वदविण्य.** पुं० (-वाचिनय) इपित वार्जुनो उच्चार न करवे। ते; दृष्ट वर्यो। न ऐवां ते. दूषित वार्णी का उच्चार न करना; खराब वचन न बोलना. abstaining from wicked speech. भग० २५, ७;

**अप्पसञ्ज.** त्रि० ( अप्रसञ्ज ) अप्रसञ्ज; प्रसाद रहित; युशी नहि. अप्रसञ्ज; प्रसञ्जता रहित; नाखुश. Not pleased; displeased.

“आयरियपाया पुण अप्पसञ्जा” दस० ६, १, ५;

**अप्पहाण.** त्रि० ( अप्रधान ) प्रधान-श्रेष्ठ नहि ते. जो प्रधान न हो वह. Not prominent or predominant. पंचा० ३, ७; ६, १२;

**अप्पहिङ्ग.** त्रि० ( अप्रहष ) ‘संपदि यस्य न हर्षो’ संपत्ति भज्ये फुलाई न जनार; शुभ वर्तु भगवाथी राज्ञ थनार; सुख के दुःख-भाँ सभभाव राखनार. संपत्ति मिलने पर न फूलने वाला; शुभ वस्तु मिलने से प्रसञ्ज न होने वाला; सुख दुःख म; संमभाव रखने वाला. Not transported with joy in prosperity; balanced in mind in weal and woe. “ अप्पहिङ्गे अणाउले ” दस० ५, १, १३;

**अप्पा.** पुं० ( आत्मन् अतति सातत्येन गच्छति ताँस्तान्पर्यायानित्यात्मा ) आत्मा; ७५; पौते. आत्मा; जीव; स्वयं. Soul; self; oneself. दस० १, २; ५, १, ५; ८०; ६, ६८; ८, ७; नाया० १; ५; ६; १२; १३; १४; १६; भग० १, १; ६, ६; १२, २; २५, ७; राय० २७; स० १० १; ओव० १२; पिं० नि० ६६; स० १० ३, ४७;

**अप्पाउड.** पुं० ( अप्रावृत ) वस्त्र न पहेरवानो अभिग्रह धरनार; वस्त्र परवे अभिग्रह-विशेषधारी भुनि. वस्त्र न पहिरने का नियम लेने वाला; वस्त्रसम्बन्धी अभिप्रहविशेष धारण करने वाला सुनि. An ascetic who has vowed nudity. सूत्र० २, २, ३८;

**अप्पाउरण.** पुं० ( अप्रावण ). वस्त्र न पहें-वानो अभिग्रह धरनार; वस्त्र विना रहेनुं ऐवा प्रतिज्ञा लेनार भुनि. वस्त्र न पहिरने का अभिप्रह धारण करने वाला; वस्त्र रहित रहने की प्रतिज्ञा लेने वाला सुनि. An ascetic with a vow of nudity. परह० २, १; प्रव० २०६; पंचा० ५, १०;

**अप्पाणी.** पुं० ( आत्मन् ) आत्मा; ७५; पंडे; पौते. आत्मा; जीव; स्वयं. Soul; self; oneself. “ अप्पाणी भावेमाणे विहरह ” भग० १, १; “ अप्पाणी विसंजोएह ” भग०

६, ३१; “ अप्पाणं मरणह ” भग० १५, १; “ अप्पाणं मज्जावेह ” नाया० १४; “ अप्पाणेण ” तृ० ए० नाया० १६;—र-विल्ल. त्रि० (—रक्षिन्—आत्मानं रक्षति पापेभ्यः कुरुतिगमनाद्वा स आत्मरक्षी ) पापथी ३ दुर्गतिशी आत्माने अचापनार. पाप से या दुर्गति से आत्मा को बचाने वाला. saving the soul from sin or perdition. “ अप्पाणरक्षी व चरेप्पमत्तो ” उत्त० ४, १०; अप्पाणग. त्रि० ( अपानक ) जुओ। ‘अप्पाणय’ शब्द. देखो ‘ अप्पाणय ’ शब्द. Vide ‘ अप्पाणय .’ नाया० ८; १६;

अप्पाबहुअ-य. न० ( अल्पबहुत्व-अल्पबहु बहु चाल्पबहु तज्जावोऽल्पबहुत्वम् दीर्घत्वा-संयुक्ते चार्यत्वात् ) ऐ वर्णनी सरभा भूमां परस्पर तारतम्य-ओश्वरतापयुं कहेंगुं ते; भुक्तालामां न्यनताथिक्ता-थेडा अःअपयुं दर्शायें ते. दो वस्तुओं की सह-शता में परस्पर तारतम्यतापूर्वक न्यूनाधिकता बताना. Pointing out proportions of two things by comparison. “ चउबिहे अप्पाबहुए प० तं० पगइ अप्पाबहुए ठिह० अणुभाव० पणुसअप्पाबहुए ” ठा० ४, २; पञ्च० ३; विशेष० ४०६;

अप्पाबहुग. न० ( अल्पबहुत्व ) जुओ। ‘अप्पाबहुअ-य’ शब्द. देखो ‘अप्पाबहुअ-य’ शब्द. Vide ‘अप्पाबहुअ-य.’ भग० २०, १०;

अप्पाबहुत्त. न० ( अल्पबहुत्व ) जुओ। ‘अप्पाबहुअ-य’ शब्द. देखो ‘अप्पाबहुअ-य’ शब्द. Vide ‘अप्पाबहुअ-य.’ अणुजो० ८०; अप्पावय. त्रि० ( अप्रावृत ) दाँडेख नहि; वंध न करेल. बिना ढँका हुआ; बंद न किया हुआ. Not covered; सूय० २, ६, ३;—दुवार. पुं० ( -द्वार-अप्रावृत-मस्थगितं द्वारं यृहसुखं यस्य स तथा ) ६६ सभकितवाणो। शावक, के जेष्ठे धरनां ६२

मुख्लां भुझ्या छे अपेटला भाटे ३ डोध पशु दुःखी, लाचार रहाय लेवाने आवे अथवा डोध पंछ वाढी वाद करवाने अवे तेने उत्तर अपावाने सामर्थ्य छे. इद सम्बन्ध वाला श्रावक, जिसने अपने घर के द्वार इसलिये खुले रखे हैं कि, कोई दुःखी सहायता लेने को आवे तो उसे सहायता देने का सामर्थ्य है यह प्रकट हो इसी तरह कोई वादी विवाद करने आत्र तो उसे भी विदित हो कि, उत्तर देने की सामर्थ्य है. an enlightened Srāvaka with his doors wide open for the helpless or for religious controversialists. सूय० २, ६, ३;

अप्पाविडं. सं० कृ० श० ( अपेयित्वा ) अर्पण॑ करीने. अर्पण करके. Having given or presented. सु० च० ४, १२६;

\*√अप्पाह. धा० I. ( सम+दिश ) सभाचार कहेवा; संदेश। पहेचाउवेवा; वात कहेवी. समाचार कहना; संदेश भेजना; वात कहना. To convey a message.

अप्पाहति. वव० १, ४;

अप्पाहे. ओघ० नि० २४३;

अप्पाहिडण. सं० कृ० पिं० नि० ५७६;

अप्पाहद्दु. सं० कृ० श० ( आत्मनि+आहृत्य ) आत्मभामां-मनभां व्यवस्थापन करीने; मान-सिक्त निश्चय करीने. आत्मा में-मन में निश्चय करें. Having decided in mind. सूय० २, १, १२;

\*अप्पाहणि. पुं० ( सन्देश ) संदेशी; सभाचार. संदेश; समाचार. Message; news. पिं० नि० ४३०;

अप्पाहरण. न० ( अप्राधान्य ) अप्रधानपयुं; भुज्यपयुं नहि. अप्रधानता; सुख्यता नहीं. Subordinate position; subsidiary position. पंचा० ६, १३;

\*अप्पाहित. त्रिं० (सन्दिष्ट) संदेशो भेद्योऽला. संदेश दिया हुआ. Communicated through message. विं० निं० ४३०; अप्पित. व० कृ० त्रिं० (अर्पयन्) देतो; अप्पितु  
कृतो. देता हुआ; अर्पण करता हुआ. Giving; presenting. सु० च० १, १७३; अप्पिय. त्रिं० (अर्पित) अप्पितु करेत; ता-  
भामां सेवेत; धनादे करेत. अर्पण किया  
हुआ; कठजे में दिया हुआ; सुरुद किया हुआ.  
Given; consigned; presented.  
“अप्पिया देवकामाण्य” उत्त० ३, १५;  
अणुजो० २७; (२) विशेषे मुख्यता  
चापेक; विशिष्ट करेत. विशेष को मुख्यता दी  
हुई. with the particular made  
prominent. “अप्पियमयं विसेसो ”  
सामग्रमणप्पियमयस्स ” विशेष० ३४८;  
ठा० १०। जं० प० २, ३;—घवहार. पुं०  
(-घवहार-अर्पित हृति घवहारो यस्मिन् स-  
तथा) ‘आजाना आनुजान’ भृत्यादि वयन-  
क्षे वक्ताण्य स्थापित करेत व्यवहार. यह  
‘ज्ञाना और इसका ज्ञान’ इत्यादिस्तप से वहा ढारा  
स्थापित घवहार. particular arised  
speech; e. g. this is the knower,  
he has a knowledge of this  
particular thing etc. उत्त० ठा० १;  
अप्पिय. त्रिं० (अप्पिय) अनिष्ट; अर्पितकर;  
ज्ञेयाथी प्रेमने वृद्धे दूष उपर्युक्ते तेवुं; ना-  
पसंद. अप्रिय; अचिकित; जिसे देखने से प्रेम  
के बदल द्वेष उत्पन्न हो वह. Evil; unpleas-  
ant; exciting disgust. “आर्णदा आ-  
कंता अप्पिया अमणुजा अमणा एगद्वा” विवा०  
१, १; “कोइं असच्च कुछिजा, धारिजा  
पियमप्पियं ” उत्त० १, १४; जीवा० १; ठा०  
८; नाया० १; ८; भगा० १, ५; ७; ३, २;  
१, ३; ६, ३३; पञ्च० २८;—कारिणी. छाँ०  
(-कारिणी) अनिष्ट समाचार-डैठना भृत्युना।

समाचारवाणी भाषा; सामने अप्रिय लागे  
तेवी ऐक्षी. अनिष्ट समाचार-मृत्यु आदि के  
समाचार वाली भाषा; सामने वाले को जो  
अप्रिय लगे ऐसा बोली. unwelcome  
language; speech conveying unwelcome news. “.....अप्पिय-  
कारिणी च, भासं न भासेज सथा स पुज्जो ”  
दस० १, ३, ६;—वह. त्रिं० (-वध) वध-  
भार या भरण्य नेने अप्रिय होते. जिसे वध  
या मरण अप्रिय है वह. one who fears  
death). “सब्दे पाणा पियाडया सुहसाया  
दुखपडिक्का अप्पियवहा ” आया० १, ३,  
३, ८०;—स्वर. त्रिं० (-स्वर-अप्रिय: स्वरो  
येषां ते तथा) नेनो ज्ञानाङ् दरेक्के अप्रिय  
लागे ते. जिसका स्वर प्रयेक को अप्रिय लगे  
वह. of harsh or jarring voice भग०  
१, ७; ठा० ८;—संघास. पुं० (-संघास-  
अप्रियेषु संघासो निवासः) दुश्मनोभा-  
नसनुं ते. शत्रुओं में रहना. residence  
among enemies. सूर्य० २, २, ८२;  
अप्रियता. छाँ० (अप्रियता) अप्रियपृष्ठ.  
अप्रियता. Unpleasantness; dislike.  
भग० ६, ३;

अप्पियत्व. न० (अप्रियत्व) अप्रीति; नेहोनो  
अभाव. अप्रीति; स्नेह का अभाव. Dislike;  
absence of affection. विं० निं०  
२६७;

अप्पियाणप्पिय. न० (अर्पितानर्पित-अर्पित  
विशेषित अनर्पित सामान्यं, अर्पितं च तदन-  
र्पितं चेत्यपितानर्पितं) द्रव्य सामान्य अने  
विशेष उक्षयरूप हो अभ प्रतिपादन करनुं ते;  
द्रव्यानुयोगनो ऐक प्रकार. ‘द्रव्य सामान्य और  
विशेष उभयरूप है’ इस प्रकार प्रतिपादन  
करना; द्रव्यानुयोग का एक भेद. Declaring  
substance (Dravya) to be two-

fold viz. general and particular; a variety or an aspect of Dravyā-nuyoga. ठा० १०;

**अप्पीइकारय.** त्रि० ( अप्रीतिकारक ) अप्रीति कृनार; प्रेमरहित. अप्रीति करने वाला; प्रेमरहित. Exciting dislike or displeasure; devoid of affection.

भग० ५, ६;

**अप्पीकय.** त्रि० ( आत्मीकृत-आत्मना गाढ़न-रमागूहितं तनुलग्नतोयवदासप्रदेशैश्चिभूतम् ) आत्मप्रदेशसाथै भिन्न थेक्ष-ऐक्षता पामेद. आत्मप्रदेशों के साथ मिला हुआ. Struck to the soul; made a part of the soul. 'पुद्दं रेणुं व तणुम्म बद्धमप्पीकयं' विशें० ३३७;

**\*अप्पेगइय-अ.** त्रि० (\*अप्पेक ) डॉई एक; गमे ते एक; डेटला एक. कोई एक; कोई भी एक. Some; any; some one. नाया० १; ५; ८; ११; १३; १४; भग० १५, १; जं० प० १, ११; ५, ११५;

**\*अप्पोल्ह.** त्रि० ( अपोल्ह ) पोक विनानुं; नक्षर. ठोस. Without hollows; solid. प्रव० ६८१;

**अप्पोलंभ.** पुं० ( आसोपालम्भ-आपेन गुरुणा दत्त उपालम्भ आसोपालम्भः ) अविधिए चालता शिष्यने डेक्खें लावताने गुरुओं आपेक उद्देश्य-दृष्टान्त, युक्ति अने १५५ासाथै शिखामध्य. अविधिपूर्वक चलने वाले शिष्य को ठिकाने लाने के लिये गुरु ने दिया हुआ उपालंभ-दृष्टान्त, युक्ति और उपालंभ के साथ शिक्षा. Admonition administered by a Guru to a disciple. 'अपोलंभनिमित्तं पठमस्स शायज्ञक्यणस्स अयमद्देपणासेत्तिवेमि' नाया० १;

**अप्पाल.** धा० II. ( आ+स्काल ) पीठ थापडी जनावरने सज्ज-सावधान फँटुं;

थापेटा भारवा. पीठ पर थपकी मारकर पश्चु को सावधान करना. To pat e. g. an animal on the back.

अप्पालेह. दसा० १०, १; ओव० ३०;

अप्पालसु. आ० म० ए० सु० च० ३, ५७;

अप्पालिस्मह. सु० च० ७, १६६;

अप्पालिङ्गत. गिं० व० कृ० 'अप्पालिङ्गं-तीरं भंभारं होरंभारं' राय० ८८;

**अप्पालण.** न० ( आस्कालन ) हाथेकरी थापेटा भारवा; थापडुं-उत्तेजित फँटुं ते. हाथ से थपकी मारना; उत्तेजन देना. Pattting with the hand; encouraging by patting. ओव० ( २ ) भंभा, होरंभ वगैरह बाजों का बजाना. playing upon a musical instrument. राय०

**अप्पुडिअ य.** त्रि० ( अस्फुटित ) पूटेल नहि; अपृंड; अकृंध. न फूटा हुआ; सावित. Unbroken; entire. नाया० ७; ओव० १०; ( ३ ) सर्व विराधनानो त्याग करवार्थी अनियांद्रहित करेत; अपृंड राषेल. सब प्रकार की विराधना का त्याग करने से निरतिचार-निर्दीप किया हुआ. preserved in tact. 'अखंडप्पुडिअ कायच्चा, तं सुरेह जहा तहा' दस० ६, ६;—दंत. त्रि० ( -दन्त ) नर्वरित के वेखावाणीं दांतवाणी नहि; मूल्यनु दांतवाणी. मज़बूत दाँतों वाला; जिसके दांत जर्जरित-सड़े गले या छिद्र वाले न हों वह. having strong teeth; having teeth unimpaired. जं० प० ओव०

**\*अप्पुरण.** त्रि० ( आकान्त-केनाप्पुरणादय इति सूत्रेणाक्रान्तस्याप्पुरणादेशः ) व्याम; आकृत. व्यास; आकान्त. Pervaded by; overpowered by. अगुजो० १४३ जं० प० राय०

**अप्फोआया.** ला० ( अस्फोता ) ये नामनीं  
भेद वेळ-लता; वनस्पति विशेष. इस नाम की  
एक वनस्पति; एक जाति की लता. Name of  
a creeper; a variety of vegeta-  
tion. पञ्च० १; जीवा० ३, ४; जं० ५०

**अप्फोड.** धा० II. ( आ + स्फुट-स्फाल )  
थाप्फुटुं; थापोटा भारवा; थपेटा भारवा.  
थपकी देना; थपड़ी मारना. To pat; to  
stroke gently with the hand.  
अप्फोडेह-ति. भग० ३, २; अंत० ५, १;  
अप्फोडेति. राय० १८२; जीवा० ३, ४; जं०  
प० ५, १२१;

**अप्फोडेहता.** सं० क० भग० ३, २;

**अप्फोडंत.** व० क० नाया० ८; उवा० २, ६५;  
**अप्फोडिआ.** न० ( आस्फोटिं ) दाथना थापो-  
टा-थपेटा. हाथ की थपकी. Patting. जं०  
प० ७, १६६; ( २ ) पछाड़ुं. पछाड़ना.  
causing to dash against; fling-  
ing against. कप० ३, ३५;

**अप्फोच.** पुं० (\*अप्फोच) वृक्ष, गुच्छ, गुद्ध, लता  
वर्गेरथी व्यास भ्रेश; गीथ जाईगाँव। भ्रेश.  
बृक्ष, गुच्छ, लता आदि से व्यास प्रदेश; भाङ्गी  
से भरा हुआ प्रदेश. A region covered  
with thickets of trees; a woody  
region. उत्त० १८, ५;—मंडब्र. पुं०  
( -मध्दम ) नागवेल, द्राघि आदि धट लता-  
वर्गेरथी विटावेल भंडप-भांडवै. नागवेल, दाख  
आदि की सघन लताओं से घिरा हुआ मंडप.  
a bower densely covered with  
creepers. “ अप्फोचमंडब्रिम, भायह  
मावियासवे ” उत्त० १८, ५; राय० ३७७;

**अफल.** त्रि० ( अफल ) अझ्ल; इब वगरनुं;  
निष्ख. फल रहित; निष्फल. Fruit-less;  
unsuccessful. इसा० ६, ४;

**अफास.** त्रि० ( अस्पृश्य-न विक्षते स्पशेऽष्ट-  
द्विष्ठी यज्ञ तत्था ) २५८२हित; २५८१

विनातुं. स्पर्श रहित. Untouched;  
without a touch. भग० २, ५; १०;  
११, १;

**अफासाइज्जमाण.** व० क० त्रि० ( अस्पृश्य-  
मान ) २५८१. न कराते. स्पर्श न कराता हुआ.  
Being untouched. भग० १, १;

**अफासुय-अ.** त्रि० ( अप्रासुक-न प्रगता अस-  
बोऽसुमन्तो यस्मात्तदप्रासुकम् ) सल्लव; स-  
थित; प्रासुक-अथित नहि. सर्जाव;  
सचित्त; साहु के न लेने योग्य. Con-  
taining living beings; unworthy  
of being received by a Sādhu.  
आया० ३, १, १, १; दस० ८, २३; भग०  
५, ६; ८, ६; नाया० ५;—पडिसेवि. त्रि०  
( -प्रतिसेविन् अप्रासुकं सचित्तं प्रतिसेवितुं  
शीलमस्येति तथा ) सथित वरतुना भेग-  
नार. सचित वस्तु का उपभोग करने ब्राला.  
using or enjoying things con-  
taining sentient beings. अफासुय-  
पडिसेवी य, शामं भुज्जो य सीलवाशी य ’  
सूय० नि�० १, ५, ८६;

**अफुडिय.** त्रि० ( अस्फुटित ) सर्व विराधना-  
रहित. सर्व प्रकार की विराधना रहित. Not  
injuring in any way. “ अस्फं-  
फुडिया कायब्दा तं सुणेह जहातहा ” दस०  
६, ६; ओव० १०; नाया० ७;

**अफुस.** त्रि० ( अस्पृश्य ) २५८१ कराने अ-  
थेष्ट. स्पर्श करने के अयोग्य. Untouch-  
able. “ अफुसं वृक्षं ” ठा० ३, २; भग०  
१, १०;

**अफुसमाणगह.** पुं० (\*अस्पृशद्विति-अस्पृशन्ती  
सिद्धयन्तरालप्रदेशान् गतिरथस्य स तथा )  
अंतरालना आकाशप्रदेशने २५८१ विना  
उधर्वगति ४२नार ७८; सिद्ध भगवान्,  
अंतराल के आकाशप्रदेशों का स्पर्श किये बिना  
ऊर्ध्व गति करने ब्राला जीव; सिद्ध भगवान्,

A Siddha ; a soul that ascends to the region of Siddhahood without touching the intervening space. “ उज्जूसेडिपिद्वज्जे अफुस-माण्यगई उडुं एकसमएण्यं अविगहेण उडुं गता सागारोवउत्ते सिञ्जिहित्ति ” श्रोव०  
**अफेणग.** त्रिं ( अफेनक ) इत्यु विनातुं. फेन विना का. Having no froth or foam; frothless. प्रव० ८०२;  
**अबंध.** पुं० ( अबन्ध ) कर्मना बंधने। अभाव. कर्मबंध का अभाव. Absence of Karmic bonds. क० गं० २, ५; ५, ५७; —ठिक्. छी० ( -स्थिति ) कर्मना बंध न हो। उरा समय की स्थिति. condition or state at the time when there is no Karmic bondage. क० गं० ५, ५७;  
**अबंधग.** त्रिं ( अबन्धक ) कर्मने न आधिनार; आठ कर्म पैक्षीये, ऐ अथवा सर्वने न आधिनार. कर्मबंध न करने वाला; आठ कर्मों में से एक, दो या सब कर्मों को न बांधने वाला. Not incurring the bondage of Karma partially or wholly. भग० ८, ८; ६; ११, १; २१, १; २५, ३; ६; क० गं० ४, ६२;

**अबंधव.** त्रिं ( अबान्धव ) अंधुज्जनरहित; अनाथ; निराधृ० २. बन्धुजन रहित; अनाथ; आप्रय रहित. Having no friends and relatives; helpless. परह० १, १; नाया० ६; पि० नि० ४४६;

**अबंधित्ता-** चु. सं० क० ३० अ० ( अबध्वा ) न आधिने. न बांधकर. Without having tied or fastened. क० प० २, १०४; १०५;

**अबंभः** न० ( अबद्धन ) अथल्यर्थ; मैथुन; विषय सेवन. मैथुन; ब्रह्मचर्य का अभाव;

विषय सेवन. Absence of chastity; sexual intercourse. ‘ अटारसविहे अबंभे ओरालियं च दिवं ’ परह० १, ४; “ जंबु । अबंभं च चडर्स्यं सदेव मयुषासुरस्त्वं लोयस्त्वं परथयिज्जं पंकपणगपासजाक्षभूयं ..... चउत्थं अहम्मदारं ” परह० १, ४; आव० ४, ७; प्रव० १००२; पंचा० १, ४६; १०, ३; परह० १, ३;—**बज्जणा.** न० ( -वर्जन ) मैथुन-विषय सेवनो त्याग २२वे ते; श्रावकनी छृदी परिभा॒। मैथुन-विषय सेवन का त्याग करना; श्रावक की छठी प्रतिमा. abstention from sexual enjoyment; the sixth vow of a Jaina. परह० १, १;—**सेवण.** न० ( -सेवन ) अथल्य-मैथुन सेवनुं ते; विषय सेवन २२वुं ते. विषय सेवन करना. sexual enjoyment. ‘ तहेव हिंसं अलियं, चोउजं अबंभसेवणं ’ उत्त० ३५, ३;  
**अबंभचरिय.** न० ( अबद्धाचर्य ) अल्यर्थने। अलाव; मैथुन सेवन. ब्रह्मचर्य का अभाव; मैथुन सेवन. Absence of chastity; sexual intercourse. ‘ अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्यं ’ दस० ६, १६;  
**अबंभयारि.** त्रिं ( अबद्धाचारिन् ) अथल्यारी; अल्यारी नहि. अबद्धाचारी; ब्रह्मचर्य से रहित. Not abstaining from sexual intercourse. दसा० ६, ११;  
**अवज्ञभमाणी.** छी० ( अबध्यमाना ) न आधिने तेवी कर्मप्रृति; जेनो उद्य थाय पशु बंधन थाय, जेवी के समक्तिमोहनीय, भिश्मेहुनीय वजेरे. न बंधने वाली कर्मप्रकृति; जिसका उदय होता है परन्तु बन्ध नहीं होता, समक्ति मोहनीय, मिश्रमोहनीय आदि. Karmic nature i. e. Karma which has got no Bandha (bondage with soul) but which has got Udaya

( i. e. maturity); e.g. Samakita Mohaniya, Miśra Mohaniya etc. क० प० २, ८;

**अबजमा.** ली० ( अबध्या ) जुओ। “अबजमा-मार्णी” शब्द. देखो ‘अबजममार्णी’ शब्द.

Vide ‘अबजममार्णी.’ क० प० २, ६६;

**अबजमा.** ली० ( अबध्या ) गंधिलाविजयनी भुप्य राजधानी. गंधिलाविजय की मुख्य राजधानी. The capital city of Gandhilavijaya. दो अबजमाओं । ठा० २, ३; ( २ ) अयोध्या नगरी। अयोध्या पुरी. the city of Ayodhyā. जं० प०

**अबद्ध.** न० ( अबद्ध ) पद्यांधरहित ग्रंथ. पद्यबंध से रहत ग्रंथ. A non-metrical work. विशेष० ३३५५;

**अबद्धिय.** पुं० ( अबद्धि-जीवेन कर्म स्पृष्ट-मेव नतु बद्धं तन्मतमेपामस्तीत्यबद्धिका. ) ‘तुव अने कर्मना व्यध थने नशी पथ् स्पृश्य थाय छे’ अभ माननार अङ्क निन्हव; जोधामादिकना अनुयायी। ‘जीव और कर्म का बंध नहीं होता किन्तु स्पृश्य होता है’ ऐंगा मानने वाला एक निन्हव; गोष्ठामाहिल का अनुयायी। One believing that Karma touches but does not bind the soul; a follower of Gosthāmāhila. ठा० ७; औब्र० ४१; विशेष० २३००;

**अबल.** त्रि० ( अबल-नास्ति बलं येषां ते तथा ) अणरहित; दुर्जीग; अशक्त; अस-भृथ. निर्बल; दुर्बल; शाह्न रहित. Feeble; powerless. विवा० १, ३; उत्त० ४, ६; १०, ३३; भग० १, ३; ७, ६; नाया० १; ८; १३; १६;

**अबहिमण्ण.** त्रि० ( अबहिमनस्-न विद्यते बहिमनो यस्यासौ तथा ) सर्वज्ञ प्रभुना उपदेश अतुसारे वर्तनार; भनने ज्यां त्यां उटकायनार नहि. सर्वज्ञ प्रभु के उपदेश के

अनुसार चलने वाला; मन को इधर उधर न भटकाने वाला. ( One ) not allowing the mind to wander outside the teachings of the omniscient. आया० १, ५, ६, १६७;

**अबहिलेस्स.** त्रि० ( अबहिलेश्य-नास्ति संयमाद्वाहिलेश्या मनोवृत्तिर्यस्यासौ तथा ) संयमभां भनोवृत्ति राखनार; निरंतर आभ-संयमभां रभी रहेक. संयम में मनोवृत्ति रखने वाला; निरन्तर-सदा आत्मसंयम में रत. (One) absorbed in self-restraint. आया० १, ५, ६, १६५; भग० २, १;

**अबहुचाइ.** त्रि० ( अबहुचादिन्-न बहु वदितुं शीलमस्येति ) अङ्क योद्दो नहि; वधारे ऐं-लनार नहि. इयादह न बोलने वाला. Not prolix; not flippant. आया० १, ६,

२, १०;

**अबहुचादि.** त्रि० ( अबहुचादिन् ) जुओ। ‘अबहुचाइ’ शब्द. देखो ‘अबहुचाइ’ शब्द.

Vide ‘अबहुचाइ.’ आया० १, ६, २, १०;

**अबहुसंपद्ध.** त्रि० ( अबहुसंपद्ध-न बहुभ्यः सम्पन्न दर्शितं यत्तत्था) धण्डा अपुने दर्शवेक्ष नहि ते. बहुतसों को न दिखाया हुआ. Not shown to or exposed to the view of many persons. काप्प० ६, २५;

**अबहुस्सुय-आ.** पुं० ( अबहुश्रुत-बहुश्रुतं यस्य स बहुश्रुतः; न बहुश्रुतोऽबहुश्रुतः) जेष्ठे अ. या॒अ॒प्र॒क्त्ये नामे निर्धायना अध्ययननो। अभ्यास नशी डेंगे। अने नीयेनां सुनो। सांख्या नशी ते; अङ्कशास्त्रवेता नहि. जिसने आचारप्रकल्प नामक निशीथ का अध्ययन नहीं किया और नीचे के सूत्र नहीं सुने वह; बहुत शास्त्र न जानने वाला. Not profound in the study of scriptures. ‘अविशीए अबहुस्सुए’ उत्त० ११, ३; सम० ३०; दसा० ६, २२;

**अबाधा.** श्री० ( अबाधा ) ज्ञाये ' अबाहा ' श॒४६. देखो ' अबाहा ' शब्द. Vide ' अबाहा. ' क० गं० ५, ३४; जीवा० २;

**अबाहृ.** पु० ( अबाधा ) अभाधा काणि; कर्मनो अनुदय काणि. अबाधा काल; कर्म का अनुदय काल. Time preceding the ripening of Karma into fruit. क० गं० ५, ३६;

**अबाहा.** श्री० ( अबाधा—ब्राधत इति वाचा कर्मण उदयः; न वाधाऽवाधा ) कर्मना अन्ध अने उद्य वच्येनो काणि; कर्म अन्धाया पश्चि उद्यमां न आवे तां सुधीनो वभन; अभाधा काणि. कर्म के बन्ध और उदय के बीच का समय; वर्ष बन्धाने के बाद उदय में न आने तक का समय; अबाधाकाल. The interval between the incurring and the maturing of Karma. भग० ६, ३; जीवा० ३; सम० क० प० १, ७८; ३, १; ( २ ) ऐ प्रदेश ते ऐ वस्तु वच्येनु अवधान; अन्तर; थंडु. दो प्रदेशों या दो वस्तुओं के बीच का व्यवधान; अन्तर. intervening space between two places or objects. "मंद्रस्सं यं भते ! पव्वयस्स केव्यया पु अबाहापु जोइसं चारं चरंति " ज० प० १, ६; ७, १२८; स० प० १८; सम० ६; भग० ६, ५; विशेष० ७७२; ( ३ ) अ—नहि भाधा—पीड़ा; भाधा—पीड़ा न कर्वी ते; आक्रमण अभाव. बाधा—पीड़ा का न करना; आक्रमण का अभाव. absence of trouble; not causing obstruction. भग० ६, ३; १४, ८; ज० प०—काल. पु० ( —काल ) कर्मन्ध अने कर्मना उद्य वच्येनो काणि. कर्मबन्ध और कर्मोदय के बीच का काल. the time between the incurring of Karmic bondage

and the maturity of Karma. प्रव० १२६६;

**अबाहृणिया.** श्री० ( अबाधोनिका—अबाधया जनिका न्यूना अबाधोनिका ) अभाधा काणि गिणी कर्मस्थिति; अबाधाकाल से ऊनी—न्यून कर्मस्थिति. Karmic stage in a condition of the imperfection during the interval of birth and maturity of Karma.

' अबाहृणिया कमठिई परणता ' जीवा० २; भग० ६. ३;

**अवितिज्ज.** त्रिं० (अद्वितीय) ज्ञाये 'अबीय-अ' श॒४६. देखो ' अबीय-अ ' शब्द. Vide ' अबीय-अ ' पराह० २, २;

**अबीय-अ.** त्रिं० (अद्वितीय) धीज्ञु डेह साथे नहि; एकले; एकाकी; डेवण एक. दूसरा कोई भी साथ नहीं; अकेला; एकाकी. One; without a second. भग० ३, २; नाया० १;

**अबीय-अ.** न० ( अबीज ) धीज्ञरूप नहि; उत्पन्निंज कारण नहि; धीजतारहित. बाजत्व रहित; जो बाजरूप न हो वह; उत्पत्तिकारण-रूप न हो वह. Anything non-germinating; any thing without a germ or seed of growth or creation. ठा० ३, १; भग० ६, ७;

**अबीयत्त.** न० ( अबीजत्व ) अभीजपत्तु; धीज्ञरूपनो अभाव. बाजत्व का अभाव. State of being without seed; state of not being seed. प्रव० १०१०;

**अबुइत्ता.** सं० कृ० अ० ( अनुक्त्वा ) कल्पा विना; न कहीने. विना कहे. Without having spoken. ठा० ३, २;

**अबुञ्जम्.** सं० कृ० अ० ( अबुध्वा ) समज्या विना; न समझने. विना समझे. Without

having understood. सूय० १, १२; २०;

**अबुद्ध.** त्रि० ( अबुद्ध ) अभुजः; अविवेकी; तत्त्वने न जाणनार. मूर्खः; बुद्धि रहितः; अविवेकी; तत्त्व को न जानने वाला. Ignorant; incapable of knowing right from wrong. 'जे अबुद्धा महाभागा, वीरा समत्तदंसिणो' सूय० १, ८, २२;—जागरिया. श्ली० (—जागरिका—अबुद्धानामकेवलिनां छग्स्थानामिति यावत् जागरिकाऽबुद्धजागरिका) छग्स्थनी नगरका—पियारथु। छग्स्थ का विचार. the thought of those who are not Kevali or omniscient. भग० १२, १;

**अबुद्धिय-**अ. त्रि० ( अबुद्धिक ) तत्त्वज्ञानरहितः; अभुजः; शुद्धिलीन. तत्त्वज्ञान रहित; बुद्धि रहित. Ignorant; devoid of intelligence; not possessed of philosophical knowledge. सूय० १, १, २, ४; नाया० १७;

**अबुध.** त्रि० ( अबुध ) अज्ञायुः; अभुजः; भूष्म. मूर्खः; बुद्धि रहित. Ignorant; foolish. परह० १, १; —जण. पुं० (—जन) अज्ञायु भाष्युसः; भूष्म. मूर्खः; बेवकूफः; बुद्धिलीन मनुष्य. a fool; an ignorant fellow. सम० १०;

**अबुह.** त्रि० ( अबुध ) अभुद्धः; शुद्धिरहित. बुद्धि रहित. Ignorant; devoid of intellect. भग० ६, ३३;

**अबोहि.** श्ली० ( अबोधि—न वौधिश्चनमवोधिः) समज्ञने। अभावः; अज्ञानः; भग० धर्मनी अप्राप्तिः. बुद्धि का अभाव; समझ का अभाव; सत्य धर्म की अप्राप्ति; अज्ञान. Ignorance; ignorance of true religion. 'अबोहिं वरियायामि' आव० ४, ८; दस० ४, १; २०; २१; ८, २१; ६, १, ५; सूय० १, ३,

४, १; २, ६, २५; २, ७, ३८;—कलुस. त्रि० (—कलुष) भिष्याहृष्टिः; अज्ञानी. विद्याहृष्टिः; अज्ञानी; ज्ञान रहित. ignorant; deluded in the matter of true religion. 'अबोहिकलुसं कर्त्त' दस० ४, ११;—बीय. न० (—बीज) सम्यग् भार्जना अभावतुं करणु; अज्ञानतुं भीज. सम्यग् मार्ग के अभाव का कारण; अज्ञान का बीज. the root-cause of the ignorance of the right path. पंचा० ४, १२; ७, १५; अबोहिय-अ. त्रि० ( अबोधिक ) भोधिरहित; अज्ञानी. ज्ञान शून्य; बोध रहित. Ignorant; devoid of true knowledge. 'निच्छ्वायत्थं न यायांति, मिलकसुष्प अबोहिय' सूय० १, १, २, १६; ३, ७, ३८; अप्ययो य अबोहिय, महामोहं पक्ववद्द' सम० ३०; दस० ६, ५७; ( ३ ) धर्मप्राप्तिभां लंगायु पाठनार. धर्मप्राप्ति में बाधा डालने वाला. causing hindrance in spiritual progress. दसा० ६, ४; ६, २५;

**अबोहिया.** श्ली० ( अबोधिता—अबोधि—अबोध ) अपेक्षित; सन्भार्जनी अप्राप्ति. सन्मार्ग की अप्राप्ति. Ignorance; non-attainment of the right path. आव० ४, ८;

✓**अब्बवी.** श्रू धा० प्र० ५० ( अब्बवीत ) ऐतानुं. बोलता हुआ. He said.

अब्बवी. श्रू० सूय० १, ५, १, २;

**अब्भ.** न० ( अभ्र-अपो विभर्तीति अभ्रम् ) वाद्या०; भेद॑. बादल; मेघ. A cloud. जीवा० ३, ३; ठा० ३, ३; अखुजो० १२७; ओव० १०; विश० १६२६; भग० ३, ७; जै० ४० ५, ११३;—मुक्ष. त्रि० (—मुक्षत) वाद्यारहित. बादल रहित; मेघ रहित. cloudless. दस० ६, १, १५;—राग. पुं० (—राग) संभानो। राग. संध्या का राग—रंग; संध्या की लालिमा.

colour of twilight. पश्च. १७;—कुकुरुं (—कुकुरु) वादणांनुं आऽ; आऽने आकारे परिखुमेल वादण. आकार के आकार में परिणामित बादल. a tree-shaped cloud. अणुजो. १२७; भग. ३, ७; द, ६; जीवा. ३;—वद्वलय. न० (—वार्दलक—वारो जलस्य दलकं वार्दलकं अभ्ररूपं तत्तथा) पाणीवाणां वादण. पानी बाला बादल. clouds filled with water. “अब्भवद्वलय विउव्वह” शय. २४; भग. १५, १; ठा. ३, ३;—संघटृ. पुं० (—संघटृ) वादणांनी धटा. बादलों की घटा. thick or dense clouds. ठा. ४, ४;—संजभा. ली० (—संध्या) संध्या समये रंग ऐरंगी वादण हृभाय ले ते; वादणानी संध्या. संध्या समय जो रंग बेरंग बादल दिखते हैं वह; बादलों की संध्या. party-coloured, chequered clouds at the time of twilight. जीवा. ३;—संथडृ. न० (—संस्तृ) वादणाथी आकाशनु छवाई जरुं ते. बादलों से आकाश का छा जाना. being overcast with clouds ( e. g. the sky ). ठा. ४, ४;

/ अध्यंग. धा० II. ( अभि+अच्छृ ) भर्दन करुं; तेल वगेरेथी श्रीरे चेणुं. मालिश करना; तेल आदि से शरीर मलना. To rub the body with oil etc.

अठमंगेहृ. नाया. ६; १६;

अध्यंगंति. सु० च० २, १७१;

अध्यंगेति. जं० प० ५, ११४;

अध्यंगिजा. वि० आया. २, १३, १७३;

अठमंगेजा. वि० निसी. १, ५;

अठमंगेता. सं० कू० ठा० २, १;

अठमंगित्ते. हे० कू० वेय० ५, ४०;

अध्यंगंत. व० कू० निसी. १, ५;

अध्यंगावेहृ. गि० सु० च० ४, ७४; विवा० ६;

अध्यंग. पुं० ( अभ्यङ्ग ) तेल आदि भर्दन

करुं ते. तेल आदि से भर्दन करना. Rubbing the body with oil etc. विशे० १६४१;

अध्यंगण. न० ( अभ्यङ्गन ) तेल वगेरे चेणाने भर्दन करुं ते. तेल आदि लगाकर मालिश करना. Rubbing the body with oil etc. नाया. १; पश्च. २, ४; आया. १, ६, ४, २; ओषध. नि० ५४६;

अध्यंगावय. त्रि० (\*अभ्यङ्गापक) तेल चेणनार; भर्दन करनार. तेल चुपडने बाला; मालिश करने बाला. One who rubs the body with oil etc. निसी. ४, १४;

अध्यंगिय. त्रि० ( अभ्यङ्गित ) तेल आदि भर्दन करेल. तेल आदि से भर्दन किया हुआ. ( One ) with body smeared or rubbed with oil etc. ‘अध्यंगिष्ट समाजे’ नाया. १; १६; कप्प. ४, ६१; पि० नि० ४२३;

अध्यंतर. त्रि० ( अभ्यन्तर ) अंदर; भाँड़; भालिली डैर; अंदरने। भाग. अंदर; भीतर; भीतरी हिस्सा. Internal; interior. जीवा. ३, १; सू० प० १; भग. ११, ११; ओषध. अणुजो. १३२; निर० १, १; पंचा. १३, ४८; जं० प०—ठाष्वाणिजा. पुं० (—स्थापनीय) अंगत नोऽकृ; अंगत भाषुस; हलुरी. निजी नोकर; खास आदमी. a personal attendant. ‘अध्यंतरठाष्वाणिजे पुरिसे सहावेहृ’ विवा० ६; नाया० १२; १४;—तच. न० (—तपस—अन्तरस्यैव हरीरस्य तापनात्सम्बग्दृष्टिरेव तपस्याय प्रतीयमानत्वादाव्यन्तरं तच तपस्यं तथा) भेष्मने। अंतरंग लेतुभूत प्रायक्षित आदि ७ प्रकार तप; आंतरिक तप. मोक्ष का अन्तरंग हेतुभूत प्रायक्षित आदि छः प्रकार का तप; अन्तरंग तप. sixfold austerity leading to Mokṣa; e.g. expiatory

practices, reverence etc. छविवह  
अध्येतरिषु तत्र पं० तं० पायच्छ्रुतं विणश्चो  
देयावस्थं सउभाग्नो उभाणं विडस्सग्नो १  
ठा० ६; पराह० २, ५; ओब०—परिसा.  
. ली०(—परिषद्) अंदरनी सभा; समिति  
नामे देवेन्द्रनी आंतरिक सभा; मित्रमंडली.  
अन्तरंग सभा; देवेन्द्र की समिति नामक  
आन्तरिक सभा; मित्रमण्डली. inner circle  
of friends; a private assembly  
of Devendra styled Samiti.  
जं० प० ५, ११६; नाया० ८; १४; राय०—  
पारणीय. त्रि०(—पानीय-अभ्यन्तरे पानी-  
यं यस्य तत्तथा) जेनी अंदर पाखी छे ऐना  
चोरपल्ली आदि स्थग. जिसके भीतर पानी  
है ऐसा चोरपल्ली आदि स्थान. ( places  
like Chorapalli ) containing  
water in the interior. नाया० १८;  
—पुक्खर. पु० (—पुक्ख) पुँकरद्वापेना  
अंदरनो भाग. पुक्ख द्वीप का भीतरी हिस्सा.  
सू० प० ८;—पुक्खरद्व. न० (—पुक्खरार्द्व)   
भानुषोत्तर पर्वतनी अंदरनो पुँकरद्वापेना  
अर्द्ध भाग; अटी द्वीप अंतर्गत पुँकरार्द्व द्वीप.  
मानुषोत्तर पर्वत के भीतरवाले पुक्खरद्वाप  
का आधा भाग; अद्वाई द्वीपान्तर्गत पुक्खरार्द्व  
द्वीप. half of Puṣkaradvīpa in  
the interior of the mountain  
Mānuṣottara. भग० ८, २; जावा०  
३;—पुष्टफल. त्रि० (—पुष्टफल-अभ्यन्तरा-  
णि अभ्यन्तरभागवर्तीनि पुष्टाणि फलानि च  
येषां ते तथा) जेनां दूष्क दृष्क, पत्रे दांडिक्ष हेवाथी  
भानुर न देखातुं वृक्ष. जिस वृक्ष के फूल  
फल पत्तों से ढँके होने के कारण नहीं  
दिखते ऐसा वृक्ष. (trees) with fruits  
and flowers hidden by foliage.  
राय०—वास. पु० (—वास) अंदरनो निवास;  
आंतरिक निवासस्थान. आन्तरिक निवास-

स्थान. residence in the interior  
parts. नाया० ८;—संचुक्षा. ली०  
(—शम्बुका-अभ्यन्तराभ्यन्तरया०) शम्बुका  
शंखशृंगस्तगत्या भित्तमाणस्य बहिर्निस्तरये  
भवन्ती गोचरशम्बुमिरभ्यन्तरशम्बुका ) गा॒भनी॑  
अंदरथी शंखना आवर्तननी भाइ॒ गौचरी॑  
कृतां भानुर नीक्षातुं ते, अथवा भानुरथी  
तेवी रीते गौचरी कृतां अंदर ओपतुं ते;  
गौचरीनी। एक प्रकार गाँव के भीतर से शंख  
के आवर्त के समान गोचरी करते हुए बाहिर  
निकलना, अथवा बाहिर से उसी प्रकार गोचरी  
करते हुए भीतर आना; गोचरी का एक भेद.  
coming out of or going into  
a town after begging alms or  
to beg alms, in a zigzag course  
like the lines in a conch. ठा० ६;  
—सगुद्धिया. ली० (—शकटोद्धिका)  
अंगुष्ठा ऐ लेंगा अने पेनीने पेणीगी करी  
क्राउस०ग डरवे। ते; क्राउस०गनो एक  
दो। दोनों परां के अंगुष्ठे एकत्रित करके और एडी  
को चौड़ा करके कायोत्तर्ग करना; कायोत्तर्ग  
का एक दोष. a fault in the perfor-  
mance of Kausagga viz.  
joining the toes together and  
extending apart the heels.  
प्रव० २५६;

अध्यं-विभ-तरश्च. त्रि० ( आभ्यन्तरक )  
अंदरनु; आंतरिक. भीतर का; आन्तरिक.  
Internal; interior. ओब० १८; जं०  
प०

अध्यं-विभ-तरश्चो. अ० ( अभ्यन्तरत्म )  
अंदर भाने; भध्ये. मध्य में; बीच में. In  
the midst; in the interior.  
नाया० १;

अध्यं-विभ-तरग. त्रि० ( आभ्यन्तरक )  
अंतर भानुस; नश्चक्नो भानुस; भंत्री प्रभूति.

नज़दीकी सम्बन्ध रखने वाला मनुष्य—मंत्री आदि. ( A person ) remaining in constant touch e. g. a minister etc. विवा० १, ३;

**अध्यं-धिं-तरतो.** अ० ( अभ्यन्तरतस् ) जुआ। “ अविभतरओ ” शब्द. देखो “ अविभतरओ ” शब्द. Vide “ अविभतरओ. ” निर० २, १;

**अध्यं-धिं-तरभूआ.** त्रि० ( अभ्यन्तरभूत ) अंतर्गत; अंदर समायेत्वं. भीतर समाया हुआ; अन्तर्ब्याप्त; अन्तर्गत. Internal; forming the interior. विशे० ६;

**अध्यंतरिय.** त्रि० ( आभ्यन्तरिक ) अंदरनो; अंदर रहेनार; आंतरिक. भीतर का; भीतर रहने वाला; आंतरिक. Internal; interior. नाया० १; २; ७; ८; भग० ६, ३३; ११, ११; दसा० ६, ४;

**अध्यक्ष्यात्तेज़ा.** त्रि० ( अभ्यात्यात्तेज़ ) डेढ़ना। उपर जाए। आरोप भुझेवे; चेतन छोड़ते तेज़ चोर करना। किसी पर झूठा आरोप करना; चोर न होने पर उसे चोर कहना आदि. False accusation; false imputation. आया० १, १, ३, २२;

✓**अध्यक्षा.** धा० I. ( अभि+आ+ख्या ) कलंक यथावतुं; ज्ञाए। आरोप भुझेवे. कलंक लगाना; मिथ्या आरोप करना. To accuse falsely; to charge falsely with guilt.

अध्यक्षाह. भग० ५, ६;

**अध्यक्षाण.** पुं० न० ( अभ्याख्यान—अभिसुख्येन आख्यानं दोषाविज्ञरणं अभ्याख्यानम् ) डेढ़ना। उपर प्रगटीते ज्ञाए। आरोप भुझेवे—आग्न यथावते. किसी पर प्रकटीति से आरोप करना. False public imputation of guilt. “ परे अध्य-

कस्ताणे ” ठा० १, १; ओव० ३६; सूय० २, १, ५१; परह० १, २; पञ्च० २२; नाया० १; भग० १, ६; ६; ५, ६; दसा० ६, ४; कप्प० ५, ११७; प्रव० १३६६;

**अध्यगुणरणा.** ली० ( अभ्यनुज्ञा ) कर्तव्यानुशासनी अनुमति देवी ते; अनुशासन विधयक आज्ञा. करने योग्य अनुशासन की आज्ञा देना. Giving permission to or ordering the performance of religious duties etc. पंच ठाणाहूं समयेण भगवद्या महावीरेण समणाणेण निगमंथाण.....गिर्वामवभगुणरणाहूं भवंति तं खंती मोक्षी अज्ञवे महावे लाघवे ” ठा० ५, १; भग० २, १; ५, ४; विवा० १;

**अध्यगुणरणाय.** त्रि० ( अभ्यनुज्ञात ) कर्तव्यरूपे आज्ञा आपेक्षा; कर्तव्यरूपे अनुमति. कर्तव्यरूप से आज्ञास—आज्ञा दिया हुआ; कर्तव्यरूप से अनुमति. Ordered or permitted to perform as a duty. नाया० १; २; ५; ८; ६; १२; १३; १४; १६; भग० ६, ३३; ठा० ५, १; कप्प० ३, ४६; ४, ८६; ५, १०४; विवा० ७;

✓**अध्यस्थ.** धा० I. ( अभि+अर्थ ) प्रार्थना कर्त्ती; भाग्यशी कर्त्ती. मांगना. To pray for; to request; to solicit.

**अध्यतिज्ज.** त्रि० प्रव० ७६६;

**अध्यस्थ.** त्रि० ( अभ्यस्त ) अभ्यास करेक्ष; वारंवार अधित्ति करेक्ष. अभ्यस्त; वार वार आश्रिति किया हुआ. Studied; revised again and again. सूय० १, २, २, १६; ( २ ) युणाद्वार करेक्ष; युणेक्ष. युणाकार किया हुआ; युणा हुआ. multiplied. विशे० २६८;

**अध्यत्थेणा.** ली० ( अभ्यर्थना ) परम्पर प्रकृति करावी ते; आप्रहृथी निष्ठि भथु तेनै इत्यापूर्वक कार्ये करावानुं करेत्वं ते. परस्पर प्रवृत्ति करना; आप्रहृष्टक नहीं किन्तु स्वेच्छा-पूर्वक कार्य करने के करना. Mutual

encouragement of activity; a request to a person to do an act without exerting pressure on him. पंचा० १२, ४:

**अध्यात्मित्यय.** वि० ( अभ्यर्थित ) प्रार्थना—याचना करेत्र. मंगना किंवा हुआ. Requested; solicited. काप० २, १६; ४, १०३; प्रब० ७७:

**अध्यापडल.** न० ( अप्रदल ) अन्त्रे॒; स्थिति कहिन पृ॒स्ति॑। ऐक प्रकार. अत्रक; सदित्त कठिन पुङ्गा का एक भैर. Tale; inica. उत्त० ३६, ७५; ( २ ) वादगृहीते॑ समृ॒द्ध वादजों का गम्भ. a group of clowns; “अद्यापडलप्रियकुजलेश” ओव० पञ्च० १,

**अध्यावत्तुया.** न० ( अश्रवलुक ) अन्त्रे॒ धनुकिण्ठा॑ मिलि। रैसी. अद्यु आदर पृ॒स्ति॑। ऐक प्रकार. अत्रक से मिलित रहना; कठिन स्थिति पर्याप्त दा रहना. Mixed with mixed. उत्त० ३२, ७६; पञ्च० १;

**अध्यात्मित्य.** वि० ( अध्यात्मिक ) प्रस्तुति॑; अप्रदल क्रिया. उत्तर० निरोप. Additional; in excess. ‘अध्यात्मित्यभीमिभेरवप्पगारेण’ नाया० १; भग० १, ५; ७, ३; ८, १; ६; १२, ४; २८, १; १२; २५, १; ६; जावा० २; ओव० ३१; ३८; अणुजो० १४३; उत्त० ३६, ३५; सम० १; कप्प० ४, १२; नाया० ध० ५; ८;

**अध्यात्मित्यतरण.** वि० ( अध्यात्मिकतर-क ) अतिशय अधिक; अत्युपरि॒ वधुत. बहुत ज्यादह. Much in excess; excessive. नैदा०

✓ **अध्यात्माइक्स.** धा० १. ( अभि+आ+ख्या ) जोटा आरोप गुक्षेत्र; आण यथावेत्र. मिथ्या

आरोप करना. To accuse falsely; to impute guilt falsely.

अध्यात्माइक्सह. आया० १, १, ३, २२;

अध्यात्माइक्सांति. स्य० ३, ७, ७; .

✓ **अध्यात्माइक्स्व.** धा० १. ( अभि+आ+च्व ) अपत्ताप करेत्र; सत्य वात छुपावनी. सच्चा बात छिपाना. To suppress a fact.

अध्यात्माइक्सज्जा. आया० १, १, ३, २२;

**अध्यागमित.** वि० ( अभ्यागत ) आंग-तु॒क; भेमान. मिहमान; अतिथि. A guest. स्य० १, २, ३, १७;

**अध्यावगासिय.** न० ( अभ्रावकाशिक ) अंगावग्नेर जाइना भूगनी नीचेनुं धर; जाइनी नीचे जाउथी छापेदी अगारी. आम बगैरह माड के नीचे बना हुआ घर; जिस घर की छत माट रे छाई हुई हो वह. A house situated below the roots of trees like mango trees etc.; a terrace covered with dense trees वेय० २, १०;

✓ **अध्यात्म.** पुं० ( अध्यास ) अध्यास करेत्र; पारंपार आगति करेत्री. अध्यास करना; बार बार आगृति करना. Reading over and over again. अणुजो० ६७; १३०; ओव० २०; क० गं० ४, ८६; क० प० १, ४; ओव० निं०६६; पंचा० ६, ३७; ( २ ) सभी४. सर्वाप. near; in the vicinity. सम० ६१;—**आसण.** न० ( -आसन ) पासे भेसनुं ते. सर्वाप बैठना. sitting near. सय० ६१;—**करण.** न० ( -करण ) धर्मथी पनित थथेल पासथादिने, पुन: धर्मभाँ स्थापन करी, तेनी सथेआदारपाणीनो व्यवहार करेत्रा ते; संभोगनो ऐक प्रकार. धर्म रे पतित हुए पासत्थे आदि को धर्म में पुनः स्थापितकर, उनके साथ आहार, पानी का व्यवहार करना; संभोग का एक भेद. १७०-

establishing an apostate in true religion and then entering into social relations ( e. g. eating and drinking ) with him; a variety of Sambhoga. सम० ६;—गुण. पुं० (-गुण) पूर्वता अभ्यासजन्य संस्कारथी उत्पन्न थेष्व गुणे—नेम व्याप्ति जन्मतां, शीघ्रता दिता पशु स्तनपान करै छे धृत्यादि. पूर्व के अभ्यासजन्य संस्कारों से उत्पन्न गुण, जेस बिना सिखाये यालक उत्पन्न होते ही स्तनपान करने लग जाता है. यह उमके पूर्व अभ्यास का संस्कार—गुण है. intuitive qualities; qualities born of impressions in a past birth. आया० नि० १, २, १, १७२;—वत्तिय. न० (—वत्तिव—अभ्यासो गुर्वादिसामधिष्ठ तत्र वत्तितुं शीलमस्येति तद्वावस्तत्त्वम् ) गुर्वादिकी पासे नष्टुङ्क ऐसनुं ते; लंडा-पचार विनयने ऐड प्रकार. गुरु आदि के समीप—नज़रीक बैठना; लोकोपनार विनय का एक भेद. sitting in the proximity of a preceptor etc; a kind of formal reverence paid to a Guru etc. भग० २५, ७;—वत्तिय. त्रि० (—प्रत्यय—अभ्यासो हेवाको वर्णनीयास-ज्ञाता वा प्रत्ययो निमित्तं यत्र तत्तथा) अभ्यास-वर्जुनीय पुरुषोनी पासे रहेतु, ते निभित छे नेमां ऐतुं सद्युषेतुं हीपावतुं वर्गे. अभ्यास वर्णनीय पुरुषों के पास रहने का निमित्त है जिसमें ऐसे सद्गुणों को प्रकाशित करना इत्यादि. adorning or illuminating virtues by coming into contact with saints and sages. ‘चउहिं ढाणेहि संते गुणे दीवेजा तंजहा—अध्यास-वत्तियं परछंदाणुवत्तियं कज्जहेउं कयपटिकए-

हवा ” ठा० ५, ४;—वत्तिय. न० (—ग्रीतिक ) गुरु आदिनी पासे ऐस-वामां प्रानि शभ्दी ते; लंडा-पचार विनयने ऐड प्रकार. गुरु आदि के समीप बैठने से ग्रानि रखना; लोकोपनार विनय का लक्ष खेद. delight in the company of a Guru; fondness for sitting near a preceptor भग० २५, ७;

विन्दन शो० ( वृत्ति ) नदैः आदिनी पासे ऐसनुं ते. नंदन्द्र-राजा आदि के पास बैठना; sitting or remaining in the proximity of a king ए० रज० ६, १;

अध्याहय. त्रि० ( अभ्यास ) पात्र भवेत्व; दृष्टि दृष्टियत वृत्तित. हुख मे सनाया हुया. Struck with pain; afflicted with misery. “ अध्याहयंमि लोग्नमि, सख्यां परिवर्त्तु ” उत० १८, २९

अधिभग. पुं० ( अभ्यङ्ग ) तेज अर्द्धही भट्टन दर्तु ते. तेल आदि स मर्दन करना. Rubbing the body with oil etc. ओन० ३१; नाया० १८; विव० १;

अधिभगिय. त्रि० ( अभ्यङ्गित ) युः० ‘ अध्यं-गिय ’ शब्द. देखो ‘ अधिभगि ’ शब्द. Vido ‘ अधिभगिय ’. नाया० १;

अधिभतर. त्रि० ( अभ्यन्तर ) युः० ‘ अध्यं-तर ’ शब्द. देखो ‘ अधिभतर ’ शब्द. Vido ‘ अधिभतर ’. नाया० १; १८; भग० २, ६; ५, १; १८, २; मु० च० १, ३६१; पञ्च० १५; भत० १३१; कम्प० ३, ३३; प्रव० २७२;

अधिभतर. त्रि० ( आभ्यन्तर-अभ्यन्तरे भवमा-भ्यन्तरस् ) अंदरनु; आंतरिक. आन्तरिक; भीतर का. Inward; internal. ‘ सब्द-भंतरायंतरं मंडलं उवमंकमित्ता ’ जं० ५० ७, ११६; (२) पुं० न० आंतरिक तप; प्राय-

श्रींत्, विनय, वेयावच्य, सज्जाय, ध्यान अने  
क्षुडिसम्भ एवे ७ प्रकारनु अभ्यंतर तप.  
आन्तरिक तप; प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य,  
स्वाध्याय, ध्यान आर कायोत्सर्ग ये छः प्रकार  
के तप. internal austerity of six  
kinds e. g. expiatory perfor-  
mance, reverence etc. 'तवो य दु-  
विहो दुत्तो, बाहिरठिभतरो तहा' उत्त० २८,  
३४; सम० ६; भग० २५, ७;—दुवार. न०  
( द्वार ) अब्दरनु भारत्य. भानर का दरवाजा.  
inner door; inside door. प्रव०  
६३;—संबुक्ता. द्वी० ( -सम्बूका ) लुट्टी।  
‘अब्दमंतरसंबुक्ता’ शब्द देखो ‘अब्दमंतर-  
संबुक्ता’ शब्द. vide ‘अब्दमंतरसंबुक्ता’.  
प्रव० ७५६;

आवृत्तिरथो. अ० (अभ्यन्तरतम्) अंदर. भानर.  
In; inside. क० प० १, ८२;  
आवृत्तिरथि. त्रिं० ( आभ्यन्तरिक ) आन्तरिक-  
तप वर्णे; प्रायश्चित्त आदि ७ प्रकारनु आन्तरिक तप.  
आभ्यन्तरिक तप आदि; प्रायश्चित्त  
आदि छः प्रकार का आन्तरिक तप. Internal  
austerity etc; sixfold internal  
austerity e.g. expiation etc.—  
भग० ११, ११; २५, ७; विवा० २: कष्ठ०  
४, ६३;

आवृत्ति. पुं० ( आन्तर ) द्वाई पछु अपूर्व वस्तु  
नेवाथी ते सांख्यवाथी आश्र्यंत्र४ रस  
उत्पन्न थाप ते; नव रसमनो एक रस.  
कोई भी अपूर्व वस्तु देखने या सुनने से जो  
आश्र्यस्प रस उत्पन्न हो वह; नव रसो में  
से एक रस. One of the nine sentiments  
viz the sentiment of wonder. अणुजो० १३०; ( २ ) त्रिं०  
आश्र्यै० जन८ आश्र्य जनक. wonderful.  
चउ० ३;

‘आवृत्ति. वा० II. (अभि+उक्त्) पाणीथी

सिंचवु; उपरथी पाणी रेडुनु. पानी से  
सिंचना; ऊपर से पानी का छिक्काव करना.  
To sprinkle with water.

आब्दभुक्तेह-ति. जीवा० ३, ४; नाया० ३;  
जं० प० ३, ४३;

आब्दभुक्तिवत्ता. सं० क० नाया० १६; नाया० ८०  
आब्दभुक्तेहत्ता. सं० क० नाया० ३;

आब्दभुक्तवावेह. गिं० अंत० ३, ८;  
आब्दभुगय. त्रिं० ( अभ्रोद्रूत ) आकाशमां पहुंचे  
तेट्टु उंचु. आकाश में पहुंचे इतना ऊँचा.  
Touching the sky; so tall as to  
touch the sky. भग० १३, ५;

आब्दभुगय. त्रिं० ( अभ्रोद्रूत-अभिमुखमुद्रूत०-  
भ्रयद्रूत०) सर्व तरङ्गी उडार निकेल; उपी  
भ्रवेद; अंदुरनी भाइक अत्रभाग उंध उन्नत  
थमेक. चारों ओर से बाहर निकला हुआ;  
ऊगा हुआ; अंकुर के समान कुछ उन्नत अप्रभाग  
वाला. Shot up; sprouted up. भग०  
११, ११; १४, ६; १५, १; सम० प० २१२;  
ओव० ३१; नाया० १; ६; १६; जं० प०  
१, १४; ( २ ) नेनारने रमणीय लागे तेवी रीते  
रेहुक. देखने वाले को रमणीय प्रतीत हो इस  
तरह से स्थित. of a charming situation;  
beautifully situated. ‘अब्दभु-  
गयमउलमहियाविमलधवलदंत’ उत्ता० २,  
१०१; ‘अब्दभुगयमउलमहियाधवलसरिस-  
संठाण’ जं० प० १, १४; भग० ६, ३३;  
राय० ५८; ( ३ ) उपाडेल. ऊपर उठाया हुआ.  
lifted up; raised up. ओव०—भिं-  
गार. पुं० ( -भुजार-अभिमुखमुद्रूत उत्पा-  
टितो भुजारो यस्य स तथा ) नेनी आगण  
देवा० उपाडी ग्रेक भाष्यस चाले, तेवो भाष्य-  
शाली भाष्यस. जिसके आगे लोटा उठाकर  
एक मनुष्य चले, ऐसा भाष्यशाली मनुष्य.  
a person favoured of fortune  
whose pot is borne for him by

another walking in front. ओव० दसा० १०, ३;—सुस्थिय. त्रिं(—उच्छ्रृत-अभ्युद्रुतश्चासावृच्छ्रृतश्चेत्यभ्युद्रुतोच्छ्रृतः ) अत्यंत उंचु. बहुत ज्यादह ऊना. very tall; very lofty. ‘अबसुगप्रसुस्थिय पहसिया’ भग० २, द; जं० प० १, १४; ७, १६५;

अब्मुगम. उं० ( अभ्युगम ) उ८४; अडती; उग्नुं ते. उदय; चढ़ती; ऊगना. Rise; prosperity. सूर्य० १, १४, १३;

अब्मुज्जय. त्रिं ( अभ्युद्यत ) वैधवा भाँडेल; वृद्धिगत. वृद्धिगत; बढ़ने को उद्यत. Attained to growth; in a state of growth. नाया० १; ( २ ) उधन-सहित; उधनविहारी; जिनकल्पी, परिहार-कल्पी अने यथालंकरणी औ त्रजुमांने गमे ते ऐक. उदय सहित; विहार के लिये उद्यत; जिनकल्पी, परिहारकल्पी और यथालंकरणी इन तीनों में से कोई भी एक. full of industry; one of the three viz Jinakalpi, Pariharakalpi and Yathalandakalpi. नाया० ५; भत्त० द;—मरण. न० (—मरण ) जिन-कल्पी आदि अभ्युद्यतविहारीनुं भरणु-पादपोपगमनादि. जिनकल्पी आदि अभ्युद्यत-विहारा का मरण-पादपोपगमनादि. the death of Jinakalpi ascetics etc. caused by the vow Santhara etc. संथा० १

✓ अब्मुड. धा० II. (अभित्तु+उद्द+स्था) उ८५; उभा थनुं; तैयार थनुं; संज्ञ थनुं. उठना; खड़े होना; तथ्यार होना; सज्जित होना. To rise up; to stand up; to be ready or prepared.

अब्मुट्टे. भग० २, १; ३, २; सूर्य० २, २,

२०; राय० २२, २०८; ओव० १२; जं० प० ५, ११५; नाया० १; २; ५; १४; दसा० १०, १;

अब्मुट्टेति. भग० ५, ४; अब्मुट्टेमि. भग० ३, १; द, ६; ६, ३३; नाया० १; राय० २२२;

अब्मुट्टामो. सूर्य० २, ७, १५;

अब्मुट्टेज्ञा. वि० वेय० १, ३३; ४, २५;

अब्मुट्टेहि. आ० नाया० १४;

अब्मुट्टित्ता. सं० कृ० दसा० ४, ८३; १०४; १०५;

अब्मुट्टेहता. सं० कृ० भग० ३, १; ६, ३३; १५, १; नाया० ३; द, १४;

अब्मुट्टित्तए. हे० कृ० ठा० २, १; वव० १, ३७;

अब्मुट्टाण. न० ( अभ्युथान ) गुर्वादिक पासे आव्ये उभी उभा थनुं ते; गुरुसेवामां उधत रहेनुं ते; दश प्रकारनी सामाचारीमांने नवभी प्रकार. गुरु आदि के रामाय आनं पर उठकर खड़े होना; गुरुसेवा में उदय रहना; सामाचारी के दस भेदों में से नौवां भेद. Revering a preceptor etc. by rising up from one's seat; being prompt and ready for the service of a preceptor etc.; the ninth of the ten varieties of Sāmāchārī. अब्मुट्टाणं नवमं दसमा उवसंपथा' उत्त० २६, ४; भग० १४, ३; उत्त० २, ३८; ओव० २०; सम० १२; सु० च० १, ८०; प्रव० १८३;

अब्मुट्टिय. त्रिं ( अभ्युथित ) उधत थथेल; तैयार थथेल; संज्ञ थथेल. उदयत; तथ्यार. Ready; prepared.‘अब्मुट्टिएसु मेहेसु’ नाया० १; ‘अब्मुट्टियं रायरिसि, पञ्चजाठाण-मुत्तमं’ उत्त० ६, ६; ओव० १७; वेय० १,

३३; जं० प० ओष्ठ० नि० ५३७; आव० ४,  
द; निती० १०, ४४;

**अवधुट्टा.** वि० ( अभ्युत्थात् ) शुर्वादिके  
सन्मुख भन २ गुह आदि के सन्मुख जाने  
वाला. ( One ) going forward to  
receive a preceptor etc. ठा० ५, १;

**अवधुट्टेयव्व.** वि० ( अभ्युत्थात्त्व ) २६५मे  
७८ स्त्रीकार करनाने थेबा० सामने जान  
योग्य; सन्मुख जाकर स्त्रीकार करने  
योग्य. Worthy of a reception  
by going forward to receive.  
ठा० ८;

**अवधुण्णय.** वि० ( अभ्युच्चत ) उन्नन; ७६२  
निकेल. उच्चत; बाहिर निकला हुआ.  
Rised up; prominently coming  
out. “ अवधुण्णयरह्यतलिण्णतंवसुइनि-  
द्धनखा ” परह० १, ४; अवधुण्णयपीणरह्य-  
संठियपयोहरा ” जावा० ३; नाया० १; जं०  
प० ७, १६६;

**अवधुदश्च.** वि० ( अवधुनक ) अद्भुत ५२५;  
आर्थी० ज्ञन०. आर्थित उत्पन्न करने वाला.  
Wonderful; astonishing. ‘ अच्छ-  
रगमवसुदए ’ उत्त० ६, ५१;

**अवधुदय.** पु० ( अभ्युदय ) उद्य०; यडती०  
उदय; चढ़ती०. Rise; prosperity. नाया०  
१; २; परह० १, ३; —हेतु. पु० ( -हेतु )  
कल्याणनो हेतु—कारण. कल्याण का कारण.  
cause of prosperity. पंचा० ८, १६;  
‘ **अवधुव.** धा० II. ( अभि०+उप०+इ० ) प्राप्त  
करनु; पासे आवनु; भेगनु. प्राप्त करना;  
समीप आना. To obtain; to acquire;  
to go to.

अवधुवेति. सम० ६;

**अवधुवगच्छ-य.** वि० ( अभ्युपगत-अभि०-आभि०-  
सुख्येनोपगतः ) प्राप्त थयेल; २६५मे आवेल;

उद्यप्राप्त. उदयप्राप्त; सन्मुख आया हुआ; प्राप्त.  
Obtained; attained to; come  
to; come towards. सूय० २, ७, ११;  
आया० २, ३, १, ११;

✓ **अवधुवगच्छ.** धा० I. ( अभि०+उप०+गम० )  
स्त्रीकार करने। स्वीकार करना. To-accept.  
अवधुवगच्छेज्जामि. नाया० १६;

अवधुवगंतु. सं० कृ० विशे० ३१४;  
अवधुवगम. पु० ( अभ्युपगम ) अंगीकार; स्त्रीकार  
करने। ते. स्वीकार करना; अंगीकार करना.  
Acceptance; acknowledgement.  
ठा० २, ४;

**अवधोवगमिया.** धी० ( आभ्युपगमिकी-  
अभ्युपगमेनाङ्काकरणेन निर्वृत्ता तत्र भवा  
वाभ्युपगमिकी ) पोनानी० ४२७धी० स्त्रीकारेल  
शिरोलुच्चन, भूमिशयन, अल्पवर्य, उपवास  
पगेरे य रित्रिना० कृष्टी थती वेदना० अपनी  
इच्छा से स्वीकार किये हुए शिरोलुच्चन, भूमि-  
शयन, ब्रह्मचर्य, उपवास आदि चारित्र के कष्टों  
द्वारा उत्पन्न वेदना. Pain caused by  
the voluntary acceptance of  
the hardships of right conduct  
such as pulling out hair, fasting  
etc. ‘ दुविहा वेयणा प० तं० अवधो-  
वगमिया य उवक्षमिया य ’ पञ्च० ३४; ३५;  
ठा० २, ४; भग० १, ४;

**अभश्च-य.** न० ( अभय-न भयमभयम० ) अभयने।  
अभाव; निर्भयपछु० निर्भयता; भय का अभाव.  
Fearlessness; absence of fear.  
‘ अभश्चो परिथिवा तु बर्भं, अभयदाया भवाहि य ’  
उत्त० १८, ११; परह० २, १; सम० १;  
नाया० १६; राय० २३; ( २ ) पु० अेखिक  
राजनी नंदा राखीनो पुत्र अभयकुमार, डे  
ने भद्रावीर स्वामी पासे दीक्षा लाई, ११ अंग  
क्षणी, शुण्यरथयु तप तपी, पांच वर्षसी  
प्रत्यन्या पूणी, विपुल पर्वत उपर एक मासने।

संथारो करी, विन्यत नामे अनुत्तरविभानभां उत्पन्न थया, त्यांथी एक अवतार करी भेषज प्राप्त करशे. श्रेणिक राजा की नंदा रानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र अभयकुमार, जो कि महावार्हास्वामी से दीक्षा लेकर ११ अंगों का अभ्यास कर गुणरायण तप करके पांच वर्ष तक प्रवज्या का पालनकर अंत में विपुल पर्वत पर एक मास का संथारा धारणकर अनुत्तरविभान में उत्पन्न हुआ, वहां से एक भव धारणकर मोक्ष को प्राप्त होगा. Abhayakumāra the son of Nandā the queen of Śrīṇika who took Dikṣā from Mahā-vīra Svāmī, studied eleven Āṅgas, observed Guṇarayaṇa penance entered the order of asceticism for 5 years and breathed his last on the Vipula mountain after remaining without food and drink for one month and was born in Anuttara heavenly abode named Vijaya. Therefrom after one birth he will get salvation. अणुत्त० १, १०; नाया० १; (३) अणुत्तरोनवाई सूत्रना प्रथम वर्गना दशभा अध्ययननुनाम. अणुत्तरोपातिक सूत्र के प्रथम वर्ग के दशवें अध्याय का नाम. name of the tenth chapter of the first section of Anuttaroravavāi Sūtra. अणुत्त० १, १०; (४) प्राणिरक्षा; संयम. प्राणिरक्षा; संयम. protection of living beings; self-control. आया० १, १, ५, ३६; सूय० १, ६, २३;—दद्य. पुं० (—दक-अभयं ददाती-त्यभयदः) सर्वे उपने अभयदान आपनार अपावनार तीर्थकर भगवान् सम्पूर्ण जीवों

को अभयदान देने और दिलाने वाले तीर्थकर भगवान्. Tirthankara, the giver and admonisher of the blessing of freedom of fear to all living beings. ‘अभयदयाणं चक्षुदयाणं भग० १, १; ओव० नाया० १; आव० ६, ११; कण० २, १५;—प्ययाण. न० (—प्रदान) जुओ। ‘अभञ्च-य-दद्य’ शब्द० ६. देखो ‘अभञ्च-य-दद्य’ शब्द. vide “अभञ्च-य-दद्य”. ‘दायाण-सेठुं अभयप्पयाणं’ सूय० १, ६, २३; अभंगक. त्रिं० (अभङ्क) जुओ। ‘अभंगय’ शब्द० ६. देखो ‘अभंगय’ शब्द. Vide “अभंगय.” भग० ६, ४; अभंगय. त्रिं० (अभङ्क) जेमां लांगो—विक्ल५ न उठेते; लांगा विनातुं. इसमें शंका न उठें वह. Free from any kind of doubt or mis-giving, भग० १, ५; ६, ४; अभंगसेस. पुं० (अभङ्कसेन) विन्यत नामे यारना सेनापतिनो पुत्र, के ने पुरिमताल नगरने दृश्यान खुले आवेदी साक्षात्वी नामे यारपत्तीमां पांचसे यारनी साथे रहेते होते. पुरिमतालना भद्रायग राज्यमे तेने पकड़याने लकड़र भेड़लयु पशु ते पकड़ल्लो। नहि, आधर भेड़ोत्सव प्रसंगे सत्कारपूर्वक तेने गाम्भां घोवावी, हो। करी, राज्यमे ते यारने पकड़ानी इंसीओ यडायो। २७वरसनी उभरे भरणु पामी पहुली नरडे गये। विजय नामक चोर के सेनापति का पुत्र, जो कि पुरिमताल नगर के दृश्यान कोन की ओर सालाट्वा नामक चोरपक्षी में पांच सौ चोरों के साथ रहता था. पुरिमताल नगर के राजा महाबल ने उसे पकड़वाने के लिये अपनी सेना भेजी, परन्तु वह नहीं पकड़ा जा सका, अन्त में महोत्सव के अवसर पर राजा ने उसे सत्कारपूर्वक ग्राम में बुलवाया और कपट से उसे फांसी पर

चढ़ा दिया. वह २७ वर्ष की अवस्था में मरकर पाहिले नरक में गया. The son of Vijaya the leader of thieves who was staying with 500 thieves in a place called Sālātavī in the North East of Purimatāla city. Mahābala the King of Purimatāla sent a great army to arrest him but he escaped. At last he was invited to a festival and was hanged treacherously. He went to the first Hell after his death at the age of twenty-seven years. विवा० १, ३;

**अभंड.** त्रि० ( अभाषण ) भांड-उपगरण विनानो. पात्र-उपकरण रहित; उपकरण बिना का. Not possessed of necessary materials like vessels etc. भग० ८, ४;

**अभक्ख.** त्रि० ( अभक्ष्य-म भक्षितुं योग्यम-भक्ष्यम् ) खावा योग्य नहि; अक्षण् करवा योग्य नहि. न खाने योग्य; न भक्षण करने योग्य. Unfit to be used as food. नाया० ५; भग० १८, १०;

**अभक्खय.** त्रि० ( अभक्षक ) जुआ। “अभक्ख” शब्द. देखो “अभक्ख” शब्द. Vide ‘अभक्ख’. नाया० ५; भग० १८, १०;

**अभग्न.** त्रि० ( अभग्न ) आगेल नहि; अपंड. जो श्रखंड हो-टूटा फूटा न हो वह. Not broken; whole “एवमाइशुहि आगारेहि”; अभग्नो अविराहिशो ” आव० १, ५; भग० ६, ३३; कप्प० ५, १०८; ( २ ) विपाक्सुत्रना प्रथम श्रुतस्कंधना त्रीज अध्ययनन्तु नाम. विपाक्सुत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के तीसरे अध्याय का नाम. name of the third chapter of the second

Śrutaskandha of Vipāka Sūtra.  
विवा० १, १;

**अभङ्गप्रवेस.** त्रि० ( अभटप्रवेश-न विद्यते भटानां राजाज्ञादायिनां पुरुषाणां प्रवेशः कुरुम्बिगृहेषु यत्र तत्था ) “४४० अभुक वप्तमाटे डेई पछु गृहस्थने धर डेई लुक्म लधने ज्य नहि ” अभ भनाई करवामां आवी छे तेवुं नगर वगेरे. जहाँ अमुक समय के लिये इस प्रकार हुक्म दिया गया हो कि “कोई भी राजकर्मचारी किसी गृहस्थ के घर पर किसी भी प्रकार का हुक्म लेकर न जाय ” ऐसा नगर वगैरह. ( A city etc. ) where the visit of an official carrying any order to a citizen's house is prohibited. नाया० १; भग० ११, ११; जं० ८० कप्प० ५, १०१;

**अभणिअ.** त्रि० ( अभणित ) न भणेल-कहेल. न कहा हुआ. Not said; unsaid; unspoken. गच्छा० ८६;

**अभक्त.** न० ( अभक्त ) अक्ता-अक्तो. त्याग; उपवास. A fast. आव० ६, ६;

**अभक्तहु-पुं०** ( अभक्तार्थ-भक्तेन भोजनेनार्थः प्रयोजनं भक्तार्थः, न स तथा यदा न विद्यते भक्तार्थो यस्मिन् प्रत्याख्यानविशेषे स तथा) भोजनो त्याग करवाना पर्युक्ताशु; उपवास. भोजन का त्याग करने का प्रत्याख्यान; उपवास. Vow to give up food; fasting. “स्त्रे उगणे अभक्तहु पञ्चक्षाहु” प्रथ० १६१; वव० १०, २; पंचा० ५, ६;

**अभक्ति. ली०** ( अभक्ति ) अक्तिनो अलाव. भक्ति का अभाव. Absence of devotion. नाया० १६; ( २ ) त्रि० अक्तिरहित; अक्ति विनानो. भक्ति रहित; भक्ति बिना का. devoid of devotion. नाया० १६;

**अभक्तिमंत.** त्रि० ( अभक्तिमत् ) अक्ति वि-

नानो. भक्ति रहित. Void of devotion.  
भृत० ७२;

**अभयंकर.** पुं० ( अभयङ्कर-अभयं प्राणिरक्षा-रूपं स्वयं हिंसानिवृत्तचेन परतश्च हिंसा मा कार्यारित्युपदेशदानेन करोतीत्यभयङ्करः ) सर्वं श्रुते ऐते अखयदान आपी थीजनी पासे अखय अपावनार भडात्मा. सम्पूर्ण जीवों को स्वयं अभयशान देकर दूसरों से भी अभय दलाने वाला महात्मा. A great person protecting living beings against injury personally and through others. “अभयंकरं विरे अग्न्यंतचक्षु” सू० १, ६, २५;

**अभयंकरा.** ली० ( अभयङ्करा ) १७मा तीर्थ-कृ-कुथुनाथस्व.भी प्रब्रह्मता देती वधुते वे पाणीभी ऐसा हुा ते पाणीनु नाभ. सग्रहवें तीर्थकर कुथुनाथस्वामी दाक्षा लेते समय जिस पालका मे बैठे थे उस पालका का नाम. Name of the palanquin used by Kunthunātha Svāmī, the seven-eleventh Tīrthāṅkarā, at the time of his Pravrajyā. सम० प० २३१;

**अभयकुमार.** पुं० ( अभयकुमार ) श्रेणिः राजनी पुत्र; विशेषमाटे जुओ ‘अभय-य’ शब्दनो थीने अर्थ. श्रेणिक राजा का पुत्र; विशेष जानने के लिये देखो ‘अभय-य’ शब्द का दूसरा अर्थ. Son of king Śreṇika; vide ‘अभय-य’ नाया० १;

**अभयण्दा.** ली० ( अभयनन्दा ) नंदा राणीनो पुत्र; खुद्दिनिधान अभयकुमार. नंदा रानी का पुत्र; खुद्दिनिधान अभयकुमार. Abhayakumāra the son of queen Nandā. अयुत्त० १;

**अभया.** ली० ( अभया ) ६२३. दर्श; हरीतकी.

Name of a plant; the myrobalan tree or its fruit. प्रव० १०१६; ( २ ) दधिवाहन राजनी अलया नामे ऐक राणी. दधिवाहन राजा की अभया नाम की एक रानी. Abhayā, a queen of king Dadhivāhana. तंड०

**अभवत्थ.** पुं० ( अभवस्थ-भवे संसारे न तिष्ठतीत्यभवस्थः ) भव-संसारभावं न इत्यनारः सिद्धभगवान्. संसार में न किरणे बाला; सिद्ध भगवान्. An emancipated soul; a Siddha. भग० ८, २;

**अभवसिद्धि.** त्रि० ( अभवसिद्धि ) जुओ ‘अभवसिद्धिय’ २०८. देखो ‘अभवसिद्धिय’ शब्द. Vide ‘अभवसिद्धिय’ क० प० ५, ७०;

**अभवसिद्धिय-आ.** पुं० ( अभवसिद्धिक-न भवसिद्धिकोऽभवसिद्धिकः)सिद्धि पागवाने अपेत्य; अभव श्रृ॒. सिद्धि पाने के अयोग्य; अभव्य जीव. A soul not fitted to get absolution. “योद्धा दुविद्वा प० तं० भवसिद्धिया चेव अभवसिद्धिया चेव” ठा० १, १; राय० ७३; अयुजो० १६५; भग० १, ६; ३, १; ६, ३; ४; १०८, ८, २; १६, १; २५, १०;

✓**अभविसु.** धा० भृत० प्र० व० ( अभूवन ) भू धातुना भूतात्ताना प्रथम पुरुपतु अङ्गवयन. भू धातु के भूतकाल का प्रथम बहुवचन. They became; they were. सू० १, ३, ३, १६;

**अभविय.** पुं० ( अभव्य ) जुओ ‘अभव्य’ शब्द. देखो ‘अभव्य’ शब्द. Vide ‘अभव्य’ दसा० १०, ३; क० प० १, ६३;

**अभव्य.** पुं० ( अभव्य ) सिद्धि भेणवाने अपेत्य; अभव्य श्रृ॒. सिद्धि प्राप्त करने के अयोग्य; अभव्य जीव. A soul not fitted

to get salvation. विशेष ४११; क० गं० ३, २३; ४, २२; क० प० १, १८; पंचा० ३, ६; ४६;

**अभ्यवत्त.** न० ( अभ्यवत्त ) अभ्यपायुः; भौक्ष पाभयाने अथोग्यपायुः. अभ्यता; संक्ष पाने की अयोग्यता. Unfitness for attaining to final bliss. क० गं० ४, ६६;

**अभाव.** पुं० ( अभाव ) इक्सित भाव; निन्द्य भाव. Bad or wicked thought. “सुशिंगा भावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य” उत्त० १, ६; ( २ ) अभाव; निपेत्. अभाव; निपेत्; गैर मौजूदगी. absence; negation. भग० ४२, १; पिं० नि० २०८; विश० २८६; पंचा० ३, २३; .

**अभावित.** त्रिं० ( अभावित ) ऐध न पाभेत्. बोध न पाया हुआ. Not enlightened. प्रव० ८४२;

**अभाविय-श्र.** त्रिं० ( अभावित ) समग्रत्वाने योग्य नहि; अयोग्य; अनुभवरहित. समग्राने के अयोग्य; अनुभव रहित. Unfit; inexperienced. “अभाविया परिसा” ठा० १०; पिं० नि० ६११; शोष० नि० ५५६;

**अभावुग.** त्रिं० ( अभावुक- न भावुकमभावुकम्) यीश्व वस्तुनो योग पाभाने पञ्ज तेना युशुमां परिण्यत न थतां पोताना स्वरूपमान् अपरिथित रहे ते. दूसरा वस्तु का संयोग मिलने पर भी जो उसके गुणों मे परिणामित न होकर निज स्वरूप मे ही स्थित रहे वह. Maintaining one's own quality inspite of contact with another object and its qualities. ओष्ठ० नि० ७७३;

**अभास.** पुं० ( अवभास ) अभा; अग्नि. प्रभा; मालक; आभास. Lustre; light. पञ्च० २;

**अभासअ.** पुं० ( अभासक ) जुओ ‘अभासग’ शृणु. देखो ‘अभासग’ शब्द. Vide ‘अभासग’. विशेष १४८; भग० १, १०; ६, ३;

**अभासग.** त्रिं० ( अभासक ) भाषापर्याप्ति विनानी; अडेन्ड्रिय, अयोगी, सिद्ध, वाटेव्हेतो शुव वर्गेरे. भाषापर्याप्ति रहित; एकेन्द्रिय, अयोगी, सिद्ध आदि जीव. Having no speech development; e.g. a one sensed being etc. जीवा० ८;

**अभासा.** द्वी० ( अभासा ) भृपा अने सत्कृ भृपा ये ऐ प्रकारती भाषा; ज्ञातुं अथवा। भिश योलवुं ते. मृषा और सत्यमृषा यह दो प्रकार की भाषा; भूठ अथवा भूठसच मिला हुआ बोलना. False or half-false speech; untrue or half-true words. भग० २५, १;

**अभासित्ता.** सं० कृ० अ० ( अभासित्ता ) ऐस्या विना; भापायुः कर्या विना. विना बोलें; विना भाषण किये. Without speaking; without having spoken. ठा० ३, ३;

**अभासिय.** त्रिं० ( अभासित ) न भाषेत्; न कहेत्. न कहा हुआ. Not said; unsaid; unspoken. क० प० ७, २६;

**अभासिय.** त्रिं० ( अभासिक ) दीमि-प्रकाश विनाना. पदार्थ-भूमि आदि. प्रकाश रहित पदार्थ-भूमि आदि. (Things like earth etc.) without light or lustre. क० प० ७, २६;

**अभि. उप०** ( अभि ) अभिमुख. अभिमुख. In front. राय० ५७;

**अभिआवरण.** त्रिं० ( अभ्याप्त ) सन्मुख आवेत्. सामने आया हुआ. Come towards or in the direction सूय० १, ४, २, १४;

**अभिइ.** न० ( अभिजित् ) अल्प ऐनो हेता। छे ऐनुं नक्षत्र; अभिजित्-अभिय नामे नक्षत्र। जिसका देवता ब्रह्म है वह नक्षत्र; अभिजित् नामक नक्षत्र। Name of a constellation styled as Abhijit. “दो अभिर्ह” घा० २, ३; अणुजो० १३१; जीवा० ६; जं० प० ७, १५१; सू० प० ६; ( २ ) वीतभय नगरना उदायन राजना पुत्र-अभिजितकुमार, के ऐने पिताने राज्य न आपवाथी तेना उपर देव पर्वते हुतो, तेथी आपकपथुं लीधा अतां पिराधक थध ते असुरकुमारमां उपन्मो। वीतभय नगर के उदायन राजा कु पुत्र अभिजितकुमार, जिसे कि पिता के राज्य न देने से उस पर कोध उत्पन्न हुआ था, जिससे धावक के ब्रत ग्रहण करने पर भी विश्वकरण होकर वह असुरकुमार जाति के देवों में उत्पन्न हुआ। Abhijitatkumāra, the son of king Udayana of the city of Vitabhaya. His father did not give him the throne and so he bore grudge towards him. The result was that inspite of having accepted the Jainalayman's vow, he violated them and consequently had to take birth as Asurakumāra. भग० १३, ६;

✓**अभिउंज.** धा० I. ( अभि+युंज् ) व्याख्युं; वात यीन कृत्वा बोलना; बात चीत करना। To speak. ( २ ) वशीकरण करनुं। वशीकरण करना। to enchant; to fascinate. ( ३ ) आलिङ्गन करनुं। आलिङ्गन करना। to embrace.

अभिउंजे। वि० ‘अग्नाहसुद्धं वययं भिउंजे’ सू० १, १४, २४;

अभिउंजिता। सं० कृ० विवा० २;

अभिओग. पु० ( अभियोग-अभियोजनमभि-

योगः ) दबाण; अक्षात्कार; उत्परदस्ती। दबाव; ज्वरदस्ती। Pressure; force. सू० २, ६, १७; प्रव० ६५३; ( २ ) आज्ञा; हुक्म। हुक्म; आज्ञा। command; order. ओव० घा० १०; ( ३ ) भंत्र, नंत्र वशीरेथी वशीकरणो वशीरेथी वशीकरणो। प्रयोग करवा ते; ऐथी आभियोगिक जनतना हुक्म। हेताभां उत्पन्न थनुं पडे तेवी भावना। मन्त्र, तन्त्र आदि वर्णाकरण का प्रयोग करना; जिससे आभियोगिक जाति के नाचश्रेणी के देवों में उत्पन्न होना पड़े ऐसी भावना. fascination by charms and incantations; thought activity leading to birth among lower gods like Ābhiyogika. उत्त० ३६, २६४;

**अभिओगिय.** पु० ल्ली० ( आभियोगिक ) तापेदार-नोक्ति देवता; हुक्मी जननुं काम करनार हेता। हलवी श्रेणी के काम करने वाला देव; तापेदार-नोकर देव। A subordinate kind of gods; a lower class or order of deities. जीवा० ३, ३;

**अभिओगी.** ल्ली० ( आभियोगी-था समन्ता-दाभिमुख्येन युज्यन्ते प्रत्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्या: किङ्करस्थानीया देवविशेषास्तेपास्यमाभियोगी ) आभियोगिक हेताभां उत्पन्न थनुं पडे तेवी भावना; भंत्र, नंत्र, वशीकरण आदि प्रयोग। ऐसी भावना जिससे आभियोगिक देवों में उत्पन्न होना पड़े; मन्त्र, तन्त्र, वर्णाकरण आदि प्रयोग। Practice of fascination by charms and incantations, leading to a birth among lower deities called Ābhiyogika. उत्त० ३६, २६४; प्रव० ६४८;

✓**अभिकंख.** धा० I. ( अभि+काङ्क्ष )

धृष्णुः; धृष्णा कृवी, इच्छा करना; चाहना.  
To wish; to desire.

अभिकंखण्. दस० १०, १, १२;  
अभिकंखसि. आया० २, १, ६, ३३;  
अभिकंखज्. वि० सूय० १ २, २, २६;  
अभिकंख. वि० सूय० १, ३, २, २७;  
अभिकंखत्. सं० कृ० आया० २, ४, १, १३३;  
अभिकंखमाण्. व० कृ० दस० ६, २, २;  
अभिकंखि. त्रि० ( अभिकाङ्गकृ० ) आकृंक्षा  
राखनार; धृष्णा कृनार. आकृंक्षा रखने  
बाला; इच्छा करने बाला. (One) desiring;  
(one) having a desire. उत्त० ३२,  
१७;

अभिकंकंत. त्रि० ( अभिकान्त ) जुवानी  
उद्धृंदी गर्वेत्; भैतनी नश्च क्वायेत्. जुवानी  
को उलांघ चुका हुआ; मृत्यु के समाप पहुंचा  
हुआ. Past the period of youth;  
nearing death. आया० १, २, १, ६३;  
( २ ) पराभव पार्वेत्; अनन्तर्दित. पराभव  
पाया हुआ; चैतन्य रहित. overpowered;  
deprived of consciousness. आया०  
२, १, १, २; ( ३ ) प्रवृत्त थयेत्.  
प्रवृत्त; काम में लगा हुआ. Not to work;  
engaged in working. सूय० २, २,  
५६;—किरिया. श्ली० ( क्रिया ) य॒क्त  
आदि पंथना साधुओं न सेवेती ज्ञाया; ने  
भड़ानमां भीज डैर्छि भतना त्यागियों। उत्तर्या  
न होय ते भडान. चरक आदि संग्रहाय के  
गाथुओं द्वारा रोयन न की हुई जगह; जहां दूसरे  
किसी मत के साथु न उतरे हों वह स्थान. a  
house in which ascetics of  
other religious orders are not  
lodged. आया० २, २, २, ८०;—कूर-  
कर्म. त्रि० ( -कूरकर्मन् ) कूरकर्म-हिंसादि  
हिंसामां प्रवृत्त थयेत्. कूरकर्म-हिंसादि किया

में प्रवृत्त. (one) engaged in cruel  
acts, e. g. killing etc. सूय० २, २,  
३२;

✓ अभिकम. धा० II. ( अभि+कम् )  
सन्मुख आवृत्तु; रद्दमेआवृत्तु. सन्मुख आना;  
सामने आना. To come towards.  
अभिकमेह. सूय० २, १, ६;

अभिकम्माय. सं० कृ० सूय० १, १, २, २६;

अभिककमण्. न० ( अभिकमण ) सन्मुख  
७८५; रद्दमेआवृत्तु ते. सन्मुख जाना; सामने  
आना. Act of coming or going  
towards. सूय० १, ८, ८;

अभिकखण्. अ० ( अभीक्षणम् ) निरंतर; पुनः  
पुनः; पारंवार. सदा; बार वार. Frequently; continually. “एं समुप्प-  
ज्जेजा अभिकखण इत्थिकहं भक्तकहं” ठा०  
२, ४; नाया० १; २; ८; १३; १४; १६; भग०  
१, २; ७; ९; १२; १; उत्त० ११, २; २७,  
४; ११; आया० २, २, ३, ७७; सूय० १,  
४, १, ३; ठा० ६, २; सम० २०; पण्ह० ३,  
४; जं० प० १, १०; दस० ५, १, १०; पिं०  
नि० ३८७; ५८५; पञ्च० १७; निरी० १२, ३;  
दग्म० १, ११; २, ८; ६; ६, १; कप्प० ६,  
४६;—णाणोवओग. पुं० ( -ज्ञानोपयोग )  
वारंवार ज्ञानमां उपयोग लगाहवे। ते; तीर्थकृ  
नाभगात्र यांवाना २० प्रकारभाने। एक  
वार वार ज्ञान में ध्यान लगाना; तीर्थकर  
नामगोत्र को वांधने के २० भेदों में से एक भेद.  
repeated contemplation of know-  
ledge; one of the twenty varie-  
ties of attaining to the Tir-  
thaṅkara Nāma-gotra. नाया० ८;

अभिक्षा. श्ली० ( अभिरूपा ) नाम; संरा.  
संज्ञा; नाम. Name; appellation;  
denomination. विशे० १०४८;

**अभिक्षालाभिय.** पुं० ( अभिक्षालाभिक )

गोयरी संग्रांधी अभिग्रहनिशेष धरनार स धु.

भिक्षा-गोचरी सम्बन्धी अभिग्रहविशेष धारणा

करने वाला साधु. An ascetic observing a particular vow as regards

begging of alms or food. ओत्र०

**अभिगंतु.** हे० कृ० अ० ( अभिगन्तुम् ) जाण-

वाने. जानने को. In order to know.

क० प० १, १०३;

✓ **अभिगच्छु.** धा० I. ( अभि+गम ) सन्मुख

जै॒. सन्मुख जाना. To go towards.

( २ ) जोड़ै॒. जोड़ना. to join. ( ३ ) वांधै॒.

बांधना. to acquire ( ४ ) वाँै॒त करै॒.

प्राप्त करना. to obtain.

**अभिगच्छुहृति.** नाया० १; दस० ४, २१;

२२; ६, २, २; २२; सूय०

१, १, २, २७; राय० २३५;

**अभिगच्छुति.** भग० २, ५;

**अभिगच्छुज्ञा.** वि० दग० ५, १, १४;

**अभिगच्छुहिति.** भ० नाया० १८;

**अभिगच्छुत.** व० कृ० प्रि० ( अभिगर्जत् ) सन्मुख

गर्जना करते. सामने गर्जना करता हुआ.

Roaring in front of. नाया० ८; १८;

**अभिगम.** पुं० ( अभिगम ) सन्मुख जै॒; रूपै॒

जै॒. सन्मुख. जाना; सामने जाना. Going

in front of; going towards. भग० २, ५; ६, ३३; नाया० १; ( २ ) उपदेश

सांख्यवाची थतो ऐ॒ध. उपदेश मुनने से

जो बोध हो वह. knowledge acquired

by hearing a religious sermon.

प्रव० ६६३; ज्ञावा० १; ठा० २, १; दस० ६, ४,

२; ३; भग० १, ६; ( ३ ) साधुओनी पासे

जैतां उपाश्यनी हृदमां दाखल थती वर्खते

आनंदाए सचित वस्तुनोत्याग करवें, खेरेख

वस्त्रो व्यवस्थित भर्यादामां राखवां, अभी

उपर ऐस-दुपट्टानो उत्तरासंग करवें, ऐहाथ

जोड़ी अंजलि वांधनी अने मननी वृत्तिए।



अभिगम इत्यादि शब्दों का पांच नियम साचयवा ते; श्रावकनां पांच अभिगमन. साधुओं के समाप्त जाते समय उपाश्य की सामा में प्रवेश करते ही श्रावकों का सार्वत वस्तु का त्याग करना, पर्हरे हुए वहाँ को व्यवस्थित मर्यादा में रखना, दुष्टे का उत्तरासंग ( मुंह पर ) करना, दोनों हाथ जोड़ना और मनोश्रूतयों को एकाग्र करना इन पांच नियमों का पालन करना; श्रावक के पांच अभिगमन. observance by a layman of the five rules(e.g. abandoning things with life or livingbeings in them, covering the mouth with a garment, folding of hands etc. while entering an Upāśraya and approaching an ascetic. राय० २७८;—**रूद्ध.** लौ० (-रुचि) उपदेश सांख्यी थयेल तत्त्वस्थि; समक्षितनो ऐक प्रकार. उपदेश मुनने से जो तत्त्वस्थि हुई हो वह. सम्यक्त्व का एक भेद. desire for right knowledge engendered by listening to a religious sermon.

पञ्च० १; उत्त० २८, १६; प्रव० ४६४;  
—सम्मदंसण. न० (—सम्यग्दर्शन) नव-  
तत्त्वनी परीक्षापूर्वक समझित प्राप्त थाय ते;  
नव तत्त्वनी समझुपूर्वकनुं सम्यक्त्व. नव  
तत्त्वों की परीक्षापूर्वक जो सम्यक्त्व प्राप्त हो वह;  
नव तत्त्व का ज्ञानपूर्वक सम्यक्त्व. right  
belief after due examination of  
the nine categories. “ अभिगम-  
सम्मदंसये दुविहे प० तं० पडिवाई चेव  
अपडिवाई चेव ” ठा० २, १;

**अभिगमण.** न० ( अभिगमन ) सन्मुख ज्ञान;  
पासे ज्ञान; नग्नक ज्ञान. समीप  
जाना. Act of going towards;  
approaching. भग० २, १; ६, ३३; राय०  
६७; दसा० १०, १; जं० प० ५, ११७;—अट्ट.  
न० (—अर्थ) रहमे ज्ञाने भावे. सामने जाने  
के लिये. in order to go towards or  
to approach. नाया० १२; ( २ ) ऐध-  
शानभावे. बोध-ज्ञान के लिये. in order  
to acquire knowledge. नाया० १२;  
—जोग्य त्रि० (—योग्य) सन्मुख ज्ञाने  
योग्य. सन्मुख जाने के योग्य. worthy of  
being approached. राय०

**अभिगमणया.** छी० (\*अभिगमनता-अभि-  
गमन) रहमे ज्ञान. सामने जाना. Going  
towards; approaching. ओव० २७;  
**अभिगमणिज्ज.** त्रि० ( अभिगमनीय ) याकीने  
रहमे ज्ञान योग्य. चलकर सन्मुख जाने योग्य.  
Worthy of being honoured  
by going forward to meet. राय०

**अभिगय.** त्रि० ( अभिगत ) जाणेद्दुः; सम-  
ज्ञेद्दुः; जाना हुआ; समझा हुआ. Known;  
comprehended. ओव० ४०; नाया०  
५; द; १२; १४; भग० २, ५; ७, ६; १८,  
१०; ( २ ) प्राप्त करेद्दुः; सन्मुख आवेद्दुः.  
आप किया हुआ; सन्मुख आया हुआ.

obtained; approached; come  
towards. ओव० ४०;—अट्ट. त्रि०  
(—अर्थ) जेणे अर्थ जाएये छे ते; अर्थनो  
निश्चय करनार. जिसने अर्थ जाना है वह; अर्थ  
का निश्चय करने वाला. (one) who has  
comprehended the meaning.

नाया० १; भग० २, ५; कप्प० ४, ७१;  
—जीवाजीव. पुं० छी० (—जीवाजीव)  
जेणे अनेभ्युनुं स्वरूप जाएयु छे ते.  
जिसने जीव और अजीव का स्वरूप जाना है  
वह. ( one ) who has com-  
prehended the nature of the  
soul and the non-soul विवा० १;  
नाया० १२; दसा० १०, ७; द;

**अभिगहिङ्गा.** न० ( अभिगृहीत ) युग्म, अवयुग्म  
जाण्या विना इमतनो आग्रह करवे। ते.  
गुण, दोष को जाने विना अपने मत का आग्रह  
करना. Obstinate persisting  
in one's own belief or opinion  
without regard to merits or  
demerits. क० गं० ४, ५४;

✓ **अभिगाह.** धा० I. ( अभिगाह ) सेवदुः;  
भोगदुः. सेवन करना; भोगना. To resort  
to; to enjoy; to experience.

अभिगाह. आया० १, २, २, ७४;

✓ **अभिगिज्जम.** धा० I. ( अभिगृह्य ) गृह्य-  
थदुः; लोभी भनदुः. लोभी बनना; किसी विषय  
में आसक्त होना. To be greedy of; to  
covet. ( २ ) रवीकारदुः. अंगीकार करना.  
to accept.

अभिगिज्जक्ति. सूय० २, २, ५७;

अभिगिज्जम. सं० कृ० ठा० २, १; दस० ७, १७;

✓ **अभिगिरह.** धा० II. ( अभिगृह ) अभि-  
ग्रह धारणु करवे; नियमविशेष धारवे;  
आहारादि लेवामां दृव्य, क्षेत्र, काण अने भावथी  
अमुक छै खांधनी. अभिग्रह धारण करना;

नियमविशेष का धारणा करना; आहारादि लेने में द्रव्य, त्वेत्र, काल या भाव के अनुसार अमुक सीमा बांधना. To take a vow; to observe certain restrictions in the matter of food etc. ( २ ) अदृशु करनुं; स्थीकारनुं. ग्रहण करना; स्वाकार करना. to accept.

अभिग्रेणहृ. भग० ७, ६;

अभिगिरहृ. नाया० १३; १६; भग० ३, १;

अभिगिरिहस्सामि. भग० ३, १;

अभिगिरहेस्सामि. भग० ११, ६;

अभिगिरहइत्ता. सं० कृ० भग० २, १; ७, ६; नाया० १६;

**अभिग्रह.** पुं० (अभिग्रह) आहारादि ब्लेडवाभां दुःखी भयादा भांभनी ते; अमुक वेष दे रंगनो भाषुस अमुक स्थितिमां आपे तेज लेनुं धृत्यादि नियमधारवे ते. आहारादि ग्रहण करने में मर्यादा बांधना; अमुक वेष या वर्ण का मनुष्य अमुकस्थिति में देवे तोही आहारादि लेना इस प्रकार का नियम धारणा करना. Imposing various kinds of voluntary restrictions upon oneself in the matter of accepting food etc. e. g. to accept food from a person of a particular colour etc. नाया० १३; १६; ओव० १६; भग० ३, १; ७, ६; उत्त० ३०, २५; कप्प० ४, ६४; निर० ३, ३; पिं० नि० १३८; ( २ ) स्त्री लेनो। अर्थ व्यराख२ स-भू शक्ति तेवी भाषा. जिसका अर्थ वरावर समझ में आ सके ऐसी भाषा. clear and intelligible language पञ्च० ११; ( ३ ) अदृशु करनुं; द्वाथमां लेनुं ते. प्रहण करना; हाथ में लेना. accepting ; act of undertaking. ओव० १६; ( ४ ) आग्रह; पकड़. ज्ञाप्रह; पकड़, obstinately holding

fast to anything; insistence.

प्रव० ६०२;

**अभिग्रहिय.** त्रि० (अभिग्रहिक) कुमतनी पकड़ करना; दुराग्रही; अभिग्रहिक भिथ्यात्ववागो। कुमत की पकड़ करने वाला; दुराग्रही; अभिग्रहिक मिथ्यात्व वाला. (One) obstinately holding fast to a wrong doctrine or heretical belief. ठा० २, १; ( २ ) न० कुमतनी पकड़ करनी ते; अभिग्रहिक नामे भिथ्यात्व. कुमत संबन्धी हठ करना; अभिग्रहिक नामक मिथ्यात्व. stubborn maintenance of heretical faith. ठा० २, १; ( ३ ) लां० लेनो। अर्थ स्पष्ट समझ शक्ति तेवी भाषा. ऐसी भाषा, जिसका अर्थ स्पष्टता से समझ में आ सके. lucid and perspicuous language. भग० १०, ३;

**अभिग्रहिय.** त्रि० (अभिगृहीत-अभि-आभिसुख्येन गृहीतः) ने आभतनो। अभिग्रह लींधक होय ते. जिस बाबत अभिग्रह लिया हो वह. (An object, a matter) in connection with which a vow is taken or a restriction is imposed. 'नो कप्पह निर्गंधाण वा निर्गंधीण वा अण्णभिग्रहियसिजा-सणिण् ण हुत्तण्' कप्प० ६, ५४; —सिज्जासणिण. त्रि० (—शस्यासनिक) लेणे शेजन, आसन अदृशु कर्या छे ते (साधु). जिसने शस्या और आसन प्रहण किया हो वह (साधु). ( an ascetic ) who has accepted a seat and a bed. कप्प० ६, ५५;

**अभिघट्टियमाण.** व० कृ० त्रि० (अभिघट्टियमाण) वेगथी देउतो। वेग से-शीघ्रता से दौड़ता हुआ. Running fast; scampering. राय० १३०;

**अभिधिडिज्जमाण.** ब० कृ० त्रि० ( अभिधव्यमाण ) जुओ ‘अभिधिडियमाण’ १३६. देखो “अभिधिष्ट्यमाण” शब्द. Vide ‘अभिधिष्ट्यमाण.’ राय० १३०;

**अभिधाय.** पुं० ( अभिधात ) लाकडी वज्रेरेथी प्रदार भारता ते; गोक्षु वज्रेरेथी गोणा देंडवा ते. लकड़ी वगैरह से प्रहार करना; गोफन वगैरह से गोला फैकना. Act of giving blows with a stick etc; throwing missiles by a sling etc. पण्ह० १, १; कप्प० ३, ४३;

**अभिचंद.** पुं० ( अभिचंद्र ) अंधकृष्ण राजनी धारण्यु राजनी पुत्र, उन्ने नेमनाथ भक्षु पासे दीक्षा लध, गुणुरयणु तप करी, साग वरसनी प्रवन्धन्या पाणी, एक भासनो संथारे करी, शनुंजय उपर निर्वाणु पद पाया। अंधकृष्ण राजा की धारणी नामक रानी का पुत्र, जिसने नेमिनाथस्वामी से दीक्षा ली और गुणुरयण तप किया तथा सोलह वर्ष तक प्रत्रज्या पालनकर अंत में एक मास का संथारा कर शशुज्य पर निर्वाण प्राप्त किया. Name of the son of Dhāraṇī the queen of king Andhakavṛipī. He took Dikṣā from Lord Neminātha, practised Guṇaryuṇ penance, observed ascetic vows for sixteen years and after one month's Saṁthāra got salvation on Śatruñjaya. अंत० २, ८; ( २ ) अंतगड सूत्रना धीज वर्गना आटमा अध्ययन नाम. अंतगड सूत्र के दूसरे वर्ग के आठवें अध्याय का नाम. name of the eighth chapter of the second section of Antagadā Sūtra. अंत० २, ८; ( ३ ) दिव्यसना ७५। मुहूर्तनु नाम. दिन के छठे मुहूर्त का नाम. name of

the sixth Muhūrta of a day. सू० प० १०; सम० ३०; ( ४ ) यातु अवसर्पिणीमां भरतक्षेत्रना पंद्रभाना दशभाने सातभाना योआ दुलगरनु नाम. वर्तमान अवसर्पिणी काल के पंद्रह कुलकरों में से दसवें और सात कुलकरों में से चौथे कुलकर का नाम name of the tenth of the fifteen and the fourth of the seven Kulagaras of Bharatakṣetra, in the present Āvasarpinī. जं० प० २, २८; सम० १५६; ( ५ ) भद्रायग राजने एक अभियंद नामधी प्रसिद्ध भिन्न. महाबल राजा का अभिचंद्र नामक एक प्रिय मित्र. name of a beloved friend of king Mahābala. नाया० ८;

**अभिजयंत.** न० ( अभिजयन्त ) भाणुव गण्युथी नीकेल दुणनु नाम. माणव गण से निकले हुए कुल का नाम. Name of a family descended from Māṇavaganya. कप्प० ८;

✓**अभिजा.** धा० I. ( अभि+या ) नगरथी उद्धार उनु. नगर से बाहर जाना. To go out of a town.

**अभिजाहिति.** भ० भग० १५, १;

**अभिजाइ.** र्खा० ( अभिजाति ) दुलीनपाणी; खानदानी. कुर्लानता; खानदानी. Nobility. उत्त० ११, १३;

**अभिजाइआ.** त्रि० ( अभिजातिग ) जुओ “अभिजाइग” १३६. देखो ‘अभिजाइग’ शब्द. Vide ‘अभिजाइग’. उत्त० ११, ११;

**अभिजाइग.** त्रि० ( अभिजातिग-अभिजाति कुर्लीनतां गच्छतीत्यभिजातिगः) दुलीन; खानदान. कुर्लान; उच्च कुल का. Noble; born in a high family. कलहडगरवज्जप, छुदेय अभिजाइगो’ उत्त० ११, १३;

✓ अभिजाण. धा० I. ( अभि+ज्ञा ) ज्ञानुं; समज्ञुं. जानना; समझना. To know; to understand.

अभिजाणति. सूर्य० १, १, २, १३;

अभिजाणामि. उत्त० २, ४०;

✓ अभिजाय. धा० I. ( अभि + जन् ) जन्मतुं; उत्पन्न थुं; उपज्ञुं. जन्मना; उत्पन्न होना; To be born.

अभिजायह. उत्त० ३, १०;

अभिजाय-आ. त्रि० ( अभिजात-अभि-प्रशस्तं जातं जन्म यस्य स तथा ) डुक्लीन; खानदान दुग्धमां जन्मेति. कुलीन; उच्च कुल में जन्मा हुआ. Noble; born in a high family. भग० ६, ३३; उत्त० ३, १८; ( ३ ) अगीयारसनुं नाम; पक्षना अगीयारसा दिवसनुं नाम. यारस का नाम; पखवाड़े की एकादशी तिथि का नाम. name of the eleventh day of a fortnight. जं० प० ७, १५१; सू० प० १०; ( ३ ) उत्पन्न. उत्पन्न. born; produced. उत्त० १४, ६; — सङ्कु. त्रि० ( - अद्व ) ज्ञेने श्रद्धा-तत्त्वस्यि उत्पन्न थै हेतु ते. जिसे अद्वा तत्त्वस्यि उत्पन्न हुई हो वह. ( one ) in whom a desire for right knowledge has been excited. “अभिजायसङ्कु तातं उवागम्म इमं उदाहु” उत्त० १४, ६;

अभिजायन. न० ( अभिजातत्व ) भूभिक्षने अनुसरवारूप सत्यवचनना। ३५ अतिशय-भानो ऐड. भूमिका में कहे हुए वचनों के अनुसार वचन; सत्य वचन के ३५ अतिशयों में से एक अतिशय। One of the thirty-five Atisayas, of truthful speech making a man conform to what he has stated in the introduction. सम० ३५;

✓ अभिजुंज. धा० I. ( अभि + युज् ) योज्ञुं; जोड़ना. To unite. ( २ ) जोड़वनुं; कामे लगाऊनुं. काम में लगाना; जमाना. to arrange; to employ. ( ३ ) ज्ञेने; आदिंगन देनुं. मिलना; आलिङ्गन करना. to embrace. ( ४ ) वश करनुं; वशीकरण वशीकरण. प्रयोग करना; वश करना. to enchant; to fascinate. ( ५ ) विद्यादि सामर्थ्यी प्रवेश करने। विद्यादि सामर्थ्य से प्रवेश करना. to make an entrance by the power given by knowledge or science.

अभिजुंजिति. परह० १, २;

अभिजुंजितए. हे० कृ० भग० ३, ५;

अभिजुंजिय. सं० कृ० या० ३, १; भग० ३, ५; दसा० १०, ६;

अभिजुंजिया. सं० कृ० सूर्य० १, ५, २, १५; आया० १, २, ३, ८०;

अभिजुन्त. त्रि० ( अभियुक्त ) पंडित; प्राप्त. पणिडत; विद्वान्; प्राज्ञ. Learned; wise. नंदी० ( २ ) अपराधी; गुणेगार. अपराधी; दोषी. guilty; accused. नाया० १४; अभिजेतुं. हे० कृ० अ० ( अभिजेतुम् ) यारै तरक्ष अत मेषिवनाने. चारों ओर विजय प्राप्त करने के लिये. In order to be victorious everywhere. जं० प०

अभिजभा. ली० ( अभिध्या ) असंतोष; दोष. असन्तोष; लोभ. Discontent; avarice; greed. सम० ५२; ( २ ) विषय वित्तन; रौद्रध्यान. विषयों का निरन्तर चिन्तन; रौद्र ध्यान. contemplation of sensual pleasures; wicked concentration. परह० १, ३; भग० १२, ५;

अभिज्ञिभयसा. ली० ( अभिज्ञेयसा-अभिध्यातुं योग्योदभिध्येयोऽतृस्तया पुनः पुग्न-

भिलषणीयस्तज्जावस्तथा ) अनुभिः परतु  
भेणववाने वारंवार उद्भवती धृष्णि. वस्तु-  
विशेष को प्राप्त करने के लिये बार बार उत्पन्न  
होने वाली इच्छा; असन्तोष. Restless  
longing after an object; want  
of contentment. “अभिजिभयत्ताए  
अहत्ताए नो उङ्हत्ताए दुःखत्ताए नो सुहत्ताए  
पुतेसि भुजो भुजो परिणमंति” पञ्च २८;  
भग १, १; ६, ३;

**अभिहड्डय.** त्रिं ( अभिहृत ) गर्भाधानादि  
दुःख्यी भैषज्येत. गर्भाधानादि दुःखों से  
पांडित. Troubled with the pain of  
pregnancy etc. सृय १, २, ३, १८;  
नाया ६; ( २ ) अध्यवसायरूपे व्याप्त.  
अध्यवसायरूप से व्याप्त. pervading  
through or by the instrumentality  
of thought activity. सृय ०  
१, २, ३, १८;

✓ **अभिण्द.** धा० I. ( अभि+नन्द ) सुनि  
कृती; अभिनंदन आपृ. सुर्ति करना; अभि-  
नंदन करना. To praise; to congrat-  
ulate. ( २ ) अनुभेदन आपृ; भुशी  
थंवु; संभिति आपृ. अनुमोदन करना; सम्मान  
देना; खुश होना. to support; to give  
consent to; to be delighted.

अभिण्दह. संत्था० २६;

अभिण्दंति. भग ६, ३३;

अभिण्दिजा. वि० उत्त ० २, ३३;

अभिण्दंत. व० कृ० ओव० ३२; भग० ६, ३३;  
जं० प० २, ३०; नाया० १; द;

अभिण्दमाण. व० कृ० कप्प० ५;  
१०४;

अभिण्दिजमाण. क० वा० व० कृ० ओव०  
३२; नाया० १;

अभिण्द. पुं० ( अभिनन्द ) श्रावण भजिनानुं  
लोकेतर नाम. श्रावण मास का लोकोत्तर  
नाम. The celestial name of the  
month of Śrāvāna. स० प० १०;

अभिण्दण. पुं० ( अभिनंदन-अभिनन्दते  
देवेन्द्रादिभित्यभिनन्दनः ) यात्रु अवसर्पि-  
शुभां भरतक्षेत्रना यथा तीर्थकरनुं नाम.  
वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरतक्षेत्र के चौथे  
तीर्थकर का नाम. Name of the fourth  
Tīrthaṅkara of Bhartakṣe-  
tra in the present Avasarpinī.  
अणुजो० ११६; भग० २०, ८; सम० २४;

✓ **अभिण्चच.** धा० I. ( अभि + नृत ) नृ-  
युं; नृत्य करना; नृत्य करना. To  
dance.

अभिण्चेज्ज. वि० निसी० १७, ३३;

अभिण्य. पुं० ( अभिनय-अभिनयति बोध-  
यत्यर्थमित्यभिनयः) ओगणीसभा. भक्तिनाथ  
तीर्थकरना गणधरनुं नाम. उल्लीखने तीर्थकर  
मल्लिनाथ के गणधर का नाम. Name of the  
Ganadhara of the nine-  
teenth Tīrthaṅkara Mallinātha,  
सम० प० २३३; ( २ ) अभिनय; भाव० ४८  
येषुविशेष; नाश्वरानुं प्रधान अंग. अभिनय;  
नाट्यकला का एक प्रधान अंग. dramatic  
gestures; acting. ‘चउबिहे अभिण्यए  
परणाते, तंजहा-दिहेतिए पाढिसुए सामंतो-  
वणिए लोगमज्जवासिए’ जं० प० राय०  
६६; जीवा० ३, ४;

अभिणव. त्रिं ( अभिनव ) नवीन; नृतन;  
नंतु. नवीन; नया. New; novel. जीवा० ३;

अभिणाइय. पुं० ( अभिनादित ) श्रावण भा-  
सुं लोकेतर नाम. श्रावण मास का लोकोत्तर

नाम. The celestial name of the month of Śrāvanya. जं० प०

**अभिशिक्ष**. त्रि० ( अभिनिष्कान्त )

आयारांगादि शास्त्राना अर्थनु भनन करवाई चारित्ररूप परिणाम ज्ञेने पूर्विगत थये। हे ते. आचारांगादि शास्त्रों के अर्थका मनन करने से जिसका चारित्ररूप परिणाम वृद्धि को प्राप्त हुआ है वह. Developed in right conduct on account of the study of and meditation upon Śastras like Āchārāṅga etc. आया० १, ६, १, १७६;

**अभिशिगच्छ**. धा० I. ( अभि+नि+गम् )

भुजुर नीकर्णु. बाहिर निकलना. To go out; to stir out.

**अभिशिगच्छति**. नाया० १६;

अभिशिगच्छइत्ता. सं० कृ० नाया० १६;

**अभिशिगिउभ**. सं० कृ० अ० ( अभिनिगृह्य )

रैक्षीने; अटकावीने; निरोध करने. रोककर; अटकाकर. Having stopped; having restrained. आया० १, ३, ३, ११८;

**अभिशिवारिया**. छी० ( अभिनिचारिका-आभि-

सुख्येन नियता चारिकाऽभिनिचारिका )  
ऐक्षट्टा थधने दियरुनु ते; समुदायरूपे चालनु ते. इक्षट्टे होकर विचरण करना; समुदायरूप से चलना. Moving about slowly in a group. वब० ४, १६;

**अभिशिज्ज**. धा० I. ( अभि+नी- )

अभिनय करेणा; ऐक्षट्टीग करनी; भाव० यंज्ञक येष्ठा कर्त्तवी. अभिनय करना; रंगभूमि पर खेलना. To act as in a dramatic performance.

अभिशिज्ज. क० वा० राय० २७६;

**अभिशिबुद्भ**. धा० I. ( अभि+नि+बुध्-य )

अर्धने निश्चित रीते जाणुनु. अर्थ का निश्चित रीति से जानना. To know a meaning definitely.

अभिशिबुद्भइ-ए. विशे० ८१; ६८; नंदी० २४;

**अभिशिवोह**. पुं० ( अभिनिबोध-अर्थाभेमुखो नियतः प्रतिनियतस्वरूपे बोधो बोध-विशेषोऽभिनिबोधः, अभिनिबुध्यतेऽनेना-स्मादिस्मन् वाऽभिनिबोधः ) भनिशान; आभिनिषेधिक ज्ञान; पांच ज्ञानों में से प्रथम ज्ञान. Matijñāna; knowledge acquired by the five senses and the mind. नंदी० ( २ ) भनिशान-परबुद्धि कर्मनो क्षयोपशम. मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम. destruction and subsidence of Karmas which obscure Matijñāna. नंदी०

✓ **अभिशिवट्ट**. धा० I. ( अभि+नि-वृत् )

प्रार्थना करनु. व्यावर्तन करना. To separate; to interrupt.

अभिशिवट्टिजा. त्रि० आया० १, ३, ४, १२५;

अभिशिवट्टिजा. सं० कृ० भग० ५, ४;

**अभिशिवट्ट**. त्रि० ( अभिनिविष ) आश्रदी;

पक्ष करनार; ऐक निश्चयवाणी. आग्रही; हठी; एक निश्चय वाला. Determined; determinate; holding fast to. 'वहिं विहाराभिशिवट्टचित्ता' उत्त० १४, ४; ( २ ) व्याप थधने प्रवेश करेत; व्यापपाये-भज्यात रीते ऐकता पामेत. व्याप होकर प्रवेश किया हुआ; मजबूत रीति से मिला हुआ. strongly and thoroughly assimilated; entered through and through. भग० १, ३; १२, ४;

**अभिशिवेस**. पुं० ( अभिनिवेश ) ऐटी वातनी

पक्ष; हुराश्व; ऐटो। आश्रह करेणा. अपत्य

बात का आग्रह करना; भूंठा आग्रह करना;  
दुसग्रह. Obstinacy in a wrong  
cause; perverseness. ओव० ४१;

**अभिशिक्षणवगडा.** छी० ( अभिनवगडा—अभि-  
प्रयेकं नियतो वगडः परिक्षेपो यस्थां साऽभि-  
निवगडा ) ज्यां दैरेकनी खधु—उली—योक—  
वाड—जुडा जुडा छे ऐवी ज्या—वसति.  
जहाँ प्रयेक—हरएक का चौक पृथक् २  
है ऐसी जमह—वस्ती. A residence  
with a separate courtyard to  
the habitation of each person  
or family. वव० ६, १६; ६, १३;

**अभिशिक्षणवट्ट.** त्रि० ( अभिनिर्वृत्त ) संगो-  
पांग निपन्नवेतुं; पेशीभांथी अंगोपांगरूपे  
परिषुत थयेक. संगोपाङ्ग उत्पन्न किया  
हुआ; पेशी में से अंगोपाङ्गरूप परिणात.  
Developed, produced with all  
parts in tact. आया० १, ६, १, १७६;

**अभिशिक्षुड.** त्रि० ( अभिनिर्वृत्त ) क्लाधादि  
कपाथने टाणी शीतला थयेल; परम शान्ति  
प्रभेक. कोर्धादि कवायों को नष्टकर शीतलता  
को प्राप्त; परम शान्ति पाया हुआ. Calm  
and happy on account of the  
banishment of passions. 'खंतेभि-  
शिक्षुडे दंते, वीतगिर्दी सदा जए' सूय० १,  
८, २५; सूय० १, २, १, १२,( २ ) पेशी-  
भांथी अंगोपांगरूपे परिषुभ प्रभेक. पेशी  
में से अंगोपाङ्गरूप से परिणामित. with all  
limbs fully developed. आया० १,  
६, १, १७६;

**अभिशिसड.** त्रि० ( अभिनिःसट—अभिविधिना  
निर्गताः सटास्तदवयवरूपाः केशरिस्कन्धसटा  
वा यस्य लतथा ) नेमो अवयव झहार  
नीकणेक छे ते. जिसके अवयव बाहर निकले

हुए हैं वह. With limbs come out,  
shot out; having limbs come  
out. भग० १५, १;

**अभिशिसिज्जा.** छी० ( अभिनिष्ठा—अभि-  
दिवसमभिव्याप्य स्वाध्यायनिमित्तमागत  
निषीदन्त्यस्यामित्यभिनिष्ठा ) ज्यां ऐसीने  
मुनि दिनसे स्वाध्याय करे ते वसति;  
स्वाध्यायभूमिका. जहाँ बैठकर मुनि दिन  
में स्वाध्याय करें वह बस्ती; स्वाध्याय भूमि.  
A place of study for an ascetic  
during day time. एगंतओ अभिशि-  
सिज्जं अभिनिसीहिं वा चैहृत्तेऽ वव०  
१, २३;

**अभिशिसिट्ट.** त्रि० ( अभिनिसृष्ट ) झहार  
नीकणितुं ज्ञावेल. ऐसा बनाया हुआ जो बाहर  
निकला हो. Made in a way to put  
out or appear prominently.  
ज्ञावा० ३; राय०

**अभिशिसेहिया.** छी० ( अभिनैयेधिकी—निषेधः  
स्वाध्यायं दिना सकलव्यापारप्रतियेधस्तेन  
निर्वृत्ता नैयेधिकी, अभिमुख्येन संयतप्रायो-  
ग्रयतया नैयेधिकी अभिनैयेधिकी ) दिनसे  
स्वाध्याय करने रात्रे मुनि ज्यां रहे ते वसति.  
दिन में स्वाध्याय करके रात्रि में मुनि जहाँ रहें  
वह बस्ती. A night-residence  
of an ascetic after his study.  
during day time. वव० १, २३;

**अभिशिस्सड.** त्रि० ( अभिनिस्सृष्ट ) झहार  
नीकणितुं. बाहर निकलता हुआ. Project-  
ing; coming out prominently.  
बहिया अभिशिस्सडओ पभासेति ' भग०  
१४, ६;

✓ **अभिशिस्तव.** धा० I. II. ( अभि+शि+सृ )  
झहार नीकणितुं; अरवुं; टपक्तुं; पसरवुं.  
बाहर निकलना; भरना; टपकना; फैलना.

To ooze; to come out; to spread.

अभिशिस्सवति. जीवा० ३; भग० २, ५;

अभिशिस्सवेति. भग० १५, १;

अभिशिस्सवंति. राय० ५७;

**अभिशुमकड़.** त्रि० ( अभिशुमकृत-आभिशुम्बेन नूमेन मायथा कर्मणा वा कृतमभिनूमकृतम् ) भाया के क्रमेभी अलिभुभ्य करेन्तु. माया या कर्म से सन्मुख किया हुआ. Made to incline towards by deceit or any other action. ' अभिशुमकड़ोऽहमुच्छिष्ट, तिष्ठं से कर्मोऽहं किञ्चाति ' सूय० १, ३, १, ७;

**अभिशुण.** त्रि० ( अभिज्ञ ) भेदेनुं नहि; अशुभेद; अभ्यं; आभ्यु. अखंड; विना भेदा हुआ. Not pierced; whole; entire; not broken. वेय० १, १; ३, ८; नाया० ८; निसी० २, २४; ६, ११; दसा० ३, ३०; (२) ज्ञुदुं नहि; अभिभूत. भिन्नता राहित; एकमेक same; not separate. वव० ६, १०; १३; सम० ३३;—**आयार.** पुं० (—आचारन भिन्नो न केनचिदप्यतिचारविशेषण खण्डित आचारो यस्यासौ तथा) अभ्यं आचार-शानायःराहिनो पालन करनार. अखंड आचार-ज्ञानाचारादि को पालने वाला जीव. a soul observing right conduct in all respects. वव० ३, ३;—**गंठि.** पुं० (—ग्रन्थि ) ज्ञेषु ग्रन्थिभेद करी अेक वार पशु सभकित प्राप्त कर्यु नथी ते श्व. जिसने ग्रन्थि भेद करके एक वार भी सम्यकत्व प्राप्त नहीं किया वह जीव. a soul that has not even once acquired right belief, cutting off the knot that binds him. पंचा० ११, ३८;—**मुहराग.** त्रि० (—मुखराग ) जेना भैरानो-च्छरानो. रंग भेदाणु नथी ते, जिसके मुख का रंग बदला न गया हो वद्. (one) with the

colour of face unaffected, unchanged. नाया० ८;

**अभिशाय.** सं० कृ० अ० ( अभिज्ञाय ) ज्ञानीने; समझने; निर्णय करने. जान करके; समझ करके; निर्णय करके. Having known; having decided. आया० १, ६, २, १८३; १, ६, १, १३;

**अभिशाय.** त्रि० ( अभिज्ञात ) ज्ञानाभां आवेद. जानने में आया हुआ. Known; understood. भग० ३, ७;

**अभितज्जेमाण.** व० कृ० त्रि० ( अभितर्जयत् ) यारे तरङ्गथी तर्जना करते. चारों ओर से तर्जना भर्त्यना करता हुआ. Threatening from all sides. नाया० १८;

**अभितत्त.** त्रि० ( अभितस ) अग्निथी तपावेद. अग्नि से तपाया हुआ. Heated by fire. सूय० १, ४, १, २७;

**अभितप्यमाण.** त्रि० ( अभितप्यमान ) तद्धर्थना पामतो; परिताप पामतो. परिताप पाता हुआ. Being troubled; being afflicted with pain. सूय० १, ५, १, १३;

**अभिताव.** पुं० न० ( अभिताप ) तापनी रुद्धमे; सूर्यनी सन्मुभ्य. ताप के सन्मुख; सूर्य के सामने; In front of the sun. आया० १, ६, ४, ४; (२) संताप; दुःख; दाह. संताप; दुःख; दाह; जलन; कष्ट. agony of mind; distress. सूय० १, ५, १, १७;

**अभितासेमाण.** व० कृ० त्रि० ( अभित्रासयत् ) त्रास उपजनतो; भय पभातो. त्रास देता हुआ; भय उत्पन्न करता हुआ. Frightening; terrifying. नाया० १८;

✓ **अभितुर.** धा० I. ( अभि + त्वर् ) उतावधि कर्त्ता; वेगथी ज्ञानु. शीघ्रता करना; वेग से

जाना. To make haste; to hasten:  
अभितुर. धा० “अभितुर पारं गमित्तण्”  
उत्त० १०, ३४;

/ अभितोस. धा० I. ( अभि + तुष + शि० )  
संतेषु उपनवये। संतोष देना. To  
satisfy; to cause satisfaction.  
अभितोसइत्ता. वि० दस० ६, ३, ५;

/ अभित्थुणा. धा० I. ( अभि + स्तु ) स्तुति  
कर्त्ती; गुणगान करना; सन्मुख रही तारी॥  
कर्त्ती. स्तुति करना; सन्मुख रहकर प्रशंसा  
करना. To praise any body in his  
presence.

अभित्थुणांति. भग० ६, ३३;

अभित्थुणामि. विशेष० १०५४;

अभित्थुणांत. व० कृ० “एवं अभित्थुणांतो”  
उत्त० ६, ५५; जं० प० २, ३०;  
नाया० १; ओव० ३२;  
अभित्थुणमाण. व० कृ० नाया० ८;  
अभित्थुञ्चवमाण. क० वा० व० कृ० ओव०  
३२; कप्प० ५, १०४;

अभित्थुय. वि० ( अभिष्टुत ) विशिष्ट गुण  
कीर्तन करके वर्णित. Mentioned with  
appreciation and praised.  
“एवं मए अभित्थुया” आव० २, ५;

अभिदुग्ग. वि० ( अभिदुर्ग ) अतिविप्रम; गहन.  
अतिविषम; गहन. Very difficult of  
access; very dense. सू० १, ५,  
१, ८;

अभिदुय. वि० ( अभिदुत ) दुःख से अध्य-  
वसायरूपे व्याप्ति. दुःख के अध्यवसाय द्वारा  
ब्यास. Pervading in the form of  
painful thought activity. ( ३ )  
अर्जुवास आदि दुःखी भीषणेति. गर्भा-

वासादि के दुःख से पीड़ित. troubled by  
the pain of having to stay in  
the womb. सू० १, २, ३, १८; जीवा०  
१, १;

✓ अभिधार. धा० I. ( अभि + धृ + शि० )  
निन्दानी धारणा राखी डेढ़ना छिद्र उधारा।  
पाइया; शतुरी स्थामे छाती ठोकी लड़वुं.  
निन्दा के भावों से किसीका दोष प्रकट करना;  
शत्रु के सन्मुख छाती ठोककर लड़ना.  
To disclose the foibles or weak  
points of others with a view  
to cast censure on them;  
to fight bravely against an  
enemy.

अभिधारयामो. सू० २, ६, १३;

अभिधारण. वि० उत्त० २, २१; दस० ५, २, २५;

अभिधारण. न० ( अभिधारण ) भनमां धारणा  
धारनी ते; अभुक्तनी पासे प्रवन्ध्या लधश  
ऐम भनमां धारवुं ते. मन में धारणा करना;  
असुक के पास से दीक्षा लंगा ऐसी मन में  
धारणा करना. Contemplating in the  
mind; e. g. upon taking Dikṣā  
from a certain preceptor. ओव०  
न० १६६;

अभिधारणा. त्री० ( अभिधारण ) गोप्य;  
अरोग्या; पवन आवत्ताने भारी. भरोखा;  
हवा आने की खिड़की. A sheltered  
window jutting out from a  
building generally below the  
roof; a lattice window. आया० १,  
१, ७, १७०;

अभिनन्दण. पुं० ( अभिनन्दन ) जुओ। “अभि-  
ण्दण” शब्द. देखो “अभिण्दण” शब्द.  
Vide ‘अभिण्दण.’ सम० २४;

अभिनंदिय. वि० ( अभिनन्दित ) अभिनन्दन-  
आनंद पामेति. अभिनन्दन-आनंद पाया हआ.

Delighted; congratulated.

सम० ५;

अभिनव. पुं० ( अभिनव ) जुओः ' अभिनव ' शब्द. देखो ' अभिनव ' शब्द. Vide " अभिनव." क० गं० २, ३;

अभिनिक्षम्बन्त. व० कृ० त्रि० ( अभिनिक्षमत् ) संसार छोड़ी भूत्तर नीकृणोः; प्रवृत्त्या-दीक्षा लेतो। संसार छोड़कर बाहर निकलता हुआ; दीक्षा लेता हुआ. (One) who has abandoned the world and taken to asceticism. " चिच्छा अभिनिक्षम्बन्तो, एषंतमहिट्ठिओ भयवं " उत्त० ६, ४; आया० १, ६, १, १७६;

✓ अभिनिक्षम. धा० I. ( अभि + नि + क्षम् ) संसार छोड़ी भूत्तर नीकृणुः; प्रवृत्त्या लेवी. संसार छोड़कर बाहर निकलना; दीक्षा लेना. To take to asceticism, abandoning the world.

अभिनिक्षमाहि. आ० " आयाणहेऽं अभिनिक्षमाहि " उत्त० १३, २०;

✓ अभिनिघट्. धा० I. ( अभि + नि + वृत् ) घेची भूत्तर कृकृतुः; जुहुं पाउनुं खेचकर बाहर निकालना; पृथक् करना. To draw out; to sever.

अभिनिविद्विता. सं० कृ० सूय० २, १, १६; राय० २६८;

अभिनिवदेता. सं० कृ० भग० ५, ४; ६, १०;

अभिनिवृद्धमाण. व० कृ० सूय० २, ३, २२;

अभिनिविद्वि. त्रि० ( अभिनिविष्ट ) जुओः " अभिणिविद्वि " शब्द. देखो ' अभिणिविद्वि ' शब्द. Vide ' अभिणिविद्वि ' भग० १,

७; कण्ठ० ५, १०७;

✓ अभिनिवेस. धा० II. ( अभि + नि + विश् + णि० ) आप्रहूर्वैक५ करुः. आप्रहूर्वैक

करना. To act with great ardour or attachment.

अभिनिवेसए. " विसप्तु मण्डेसु, पेमं नाभिनिवेसए " दस० ८, २६;

अभिनिवेसिअ-न० ( अभिनिवेशिक ) पैतानुवयन रथापवाभाटे कुयुक्ति लगाई सूत्रनो विपरीत अर्थ करवो ते; अभिनिवेशिक भिधात्व. अपने वचन को स्थापन करने के लिये कुयुक्ति लगाकर सूत्र का विपरीत अर्थ करना; अभिनिवेशिक मिथ्यात्व. Sophistical twisting or distorting of scriptural meaning in order to establish one's own preconceived notion; the heresy called Abhinivesika. क० गं० ४, ५४;

अभिनिवृद्ध. त्रि० ( अभिनिवृत्त ) जुओः " अभिणिवृद्ध " शब्द. देखो " अभिणिवृद्ध " शब्द. Vide ' अभिणिवृद्ध ' सूय० १, २, १, १३; १, ८, २५;—अच्छ. त्रि० (—अर्ज—अभि निवृत्ता अर्चा-शरीरं यस्य तत्त्वथा ) शरीर संतापरहित. शरीर के संताप से रहित. free from physical pain. आया० १, ७, ६, २२१;

अभिनिस्सड. त्रि० ( अभिनिःसृत ) जुओः " अभिणिस्सड " शब्द. देखो " अभिणिस्सड " शब्द. Vide ' अभिणिस्सड ' भग० १४, ६;

अभिन्नाण. न० ( अभिज्ञान ) धूपाणु; निशानी, निशानी. चिन्ह. A mark or token of recognition. ओघ० नि० ४३६;

✓ अभिपत्थ. धा० I. ( अभि + प्र + अर्थ ) धायनुः; भागनुः; प्रार्थना करवी; धृभ्या करवी. मांगना; प्रार्थना करना; इच्छा करना. To request; to ask for; to pray for. अभिपत्थए. उत्त० २, ६;

**अभिष्पृष्ठुङ्**. त्रि० ( अभिप्रवृष्ट ) वरसेथ; परसः६ थथेद. बरसा हुआ. Rained. 'बासावासे अभिष्पृष्ठुङ् बहवे पाणा' आया० २, ३, १, १११;

**अभिष्पाइयणाम्**. पुं० न० ( आभिप्रायिक-नामन् ) अभिप्राय प्रभाषु पाडेल नाम; युथु निरपेक्ष भरणु मु०५ पाडेल नाम; ज्ञेभ आं-धो, क्यरो धत्यादि. अभिप्राय के अनुसार रखा हुआ नाम; गुणों की अपेक्षा न कर इच्छापूर्वक रखा हुआ नाम; जैसे आम, कचरा आदि. A name given without reference to the qualities of a thing simply at one's will. 'से किं तं अभिष्पाइयणामे अभिष्पाइयणामे अंत्रए निष्पुण बकुलए' अणुजो० १३१;

**अभिष्पाय**. पुं० ( अभिप्राय ) भाव; आशय; धृष्टि; मननी धारणा. भाव; अभिप्राय; आशय; इच्छा; मन की धारणा. Intended meaning; intention; aim; purpose. आया० २, १५, १७६; विशे० २६; पिं० निं० भा०४; सु० च० १, ११४;

**अभिष्पेश**. त्रि० ( अभिप्रेत ) धारेण्; धृष्टेणु. चाहा हुआ; धारा हुआ. Desired; wished; intended. 'तओ काले अभिष्पेए' उत्त० ५, ३१;

✓ **अभिभव**. धा० I. ( अभि + भू ) जितनुं; ०४५ भेगवती. जीतना; विजय प्राप्त करना. To conquer; to overpower. ( २ ) अभिभव-तिरस्कार कर्वे०. तिरस्कार करना. to insult; to hate; to scorn. अभिभवे. वि० "सूरो अभिभवे परं" उत्त० २, १०;

अभिभविय. सं० कृ० भग० ६, ३३;

✓ **अभिभास**. धा० I. ( अभि + भाष ) भिक्षुं; वातचीत कर्वी०. बोलना; वात चीत करना. To talk; to speak.

अभिभासे. आ० आया० १, ६, १, ८; अभिभूय. सं० कृ० अ० ( अभिभूय ) अभिभव-तिरस्कार करने. अभिभव-तिरस्कार करके. Having despised. आया० १, १५, २३;

१, ५, ६, १६७; सूय० २, १, २६; दस० १०, १, १४; परह० १, ३; उत्त० २, १८;

**अभिभूय-आ**. त्रि० ( अभिभूत ) जितायेथ; पराभव यामेथ; हारी गयेथ. पराजित; पराभव को प्राप्त; हारा हुआ. Defeated; vanquished; overpowered. दस० ६, ६०; विवा० १, १; ५; ७; ठा० ३, १; उत्त० ३३, ३०; ( २ ) दुःखी पीडित. दुःख से पीडित. afflicted with pain or misery. भग० १५, १; नाया० १; ( ३ ) व्याप्त थयेथ. व्याप्त. p e r v a d e d ; occupied. भग० ६, ३३; १३, ६; नाया० १; २; ८; ६; १२; १३; १६; १८;

**अभिभूयज्ञाणि**. पुं० ( अभिभूयज्ञानिन्-अभिभूय परिप्यहादीन् मत्यादीनि चत्वारि ज्ञानानि वा यद्वत्तते ज्ञानं केवलाख्यं तदस्यास्तीत्यभिभूयज्ञानी ) डेवणि ज्ञानी. केवल ज्ञानी. One possessed of perfect knowledge; a Kevali; an omniscient person. "से सच्चदंसी अभिभूयज्ञाणी" सूय० १, ६, ५;

**अभिमय**. त्रि० ( अभिमत ) संभत; धृष्ट. सम्भत; इष्ट. Desired; wished; acceptable. नाया० १; -अट्ट. पुं० (-अर्थ) अभिमत अर्थ; धृष्ट अर्थ. अभिमत-स्वातुकल अर्थ; इष्ट अर्थ. acceptable meaning; desired meaning. नाया० १;

**अभिमाण**. पुं० ( अभिमान ) अभिभान; अहंकार. अभिमान; अहंकार; घर्मड. Pride; conceit. सूय० १, १३, १०; -बद्ध. त्रि०

(-बद्ध) अभिभाननुं धर; धरेण् अभिभानी.  
अभिभान का खजाना; बहुत अभिभानी.  
extremely proud; highly  
conceited. सूय० १, १३, १०;

अभिसुहृ. त्रि० ( अभिसुख-अभि भगवन्तं  
खपथीकृत्य मुखमस्थेति अभिसुखः ) सन्भु-  
ध धरेण्डा; रहेन्मे; मैदा। आगम। सन्मुख;  
सामने; मुंह आगे. In front of; with  
the face turned towards.  
भग० १, १; ३, २; ५, ४; ७, १; ६; ६,  
३३; ११, १०; नाया० १; द; ओव० १२;  
२२; २६; राय० २२; विश० १८४;  
कप० २, १४; जं० प० ५, ११५; पिं० नि०  
३५४;

अभियागम. पुं० ( अभ्यागम ) आगमन;  
आपवुं ते.आगमन; आना. Coming;  
arrival. सूय० १, १, ३, २;

अभियावरण. त्रि० ( अभ्यावर-अभिसुख्येन  
भोगानुकूलयेनापश्च व्यवस्थितोऽभ्यापश्चः )  
सावध अनुष्ठानमां तप्तपर थरेक. पाप कर्मों  
में तप्तर. Bent on, intent upon  
sinful performances. सूय० १, ४,  
२, १४;

अभियोग. पुं० ( अभियोग ) आभियोगिक  
देवता; आडर देवता; ताभेदार देवता. आभियो-  
गिक जाति का देव; नौकरी करने वाला देव.  
An attendant deity; a subordi-  
nate deity. भग० ३, ७;

अभियोगित्ता. त्रि० ( आभियोगिक ) अभि-  
योग-आता-हुक्म उडावनार; ताभेदार. हुक्म  
.बजाने वाला; सेवक; नौकर. Subordi-  
nate. विवा० ३;

✓ अभिरक्षण. धा० I. ( अभि + रक्ष ) रक्षण  
करुं; धर्यावुं. रक्षा करना; बचाना. To  
protect; to save.

अभिरक्षणड. भग० ११, ६; निर० ३, ३;

अभिरक्षण. त्रि० ( अभिरक्षण ) रक्षा करने वाला. ( One ) who saves  
or protects. भग० ११, ६;

अभिरक्षणज्ञमाण. व० कृ० त्रि० ( अभिरक्षण-  
माण ) रक्षण कराता हुआ. Being  
saved or protected. नाया० ८;

✓ अभिरम. धा० II. ( अभि + रम् ) रति-  
कीडा करना; लीला-विलास करना. कीडा  
करना; लीला-विलास करना. To enjoy  
amorous sport; to enjoy  
dalliance.

अभिरमह-ति. भग० ५, ४; नाया० ३;

अभिरमयंति. दस० ६, ४, १;

अभिरमउ. आ० सु० च० १, १६;

अभिरमेत्था. भ० कृ० नाया० १३;

अभिरममाण. व० कृ० “ अभिरममाण  
हुहा ” परह० १, १; भग० १३, ६; जं०  
प० ५, १२३; नाया० ३; ४; ६; १३; १८;

अभिराम. त्रि० ( अभिराम ) रमशुभी४;  
सुंदर; भेनाम; भेनोहर. रमणीय; भेनोहर; खूब-  
सुरत; सुंदर. Charming; beautiful:  
“ बाला भिरामेसु दुहावहेसु ” उत्त० १३,  
१७; जंवा० ३, ३; नाया० १; १३; सू०-  
प० २०; सम० ३४; पञ्च० २; ओव० ३०६;  
३४; कप० ३, ४२; जं० प० ५, ११५;.

अभिरहय. त्रि० ( अभिरहयित ) रुचेद्धुं; गमेद्धुं;  
मनपर्दं थरेद्धु. चाहा हुआ; मन पसंद  
रुचिपूर्ण. Agreeable; liked. नाया० १;  
५; भग० ६, ३३; १८, २; नाया० ८०

अभिरुज्ज्ञ. सं० कृ० श० ( अभिरुज्ज्ञ ) आरे  
तरक्षी रोक्षने. चारों ओर से रोककर.  
Having obstructed from all  
sides. आया० १, ६, १, ३;

अभिरुच. त्रि० ( अभिरुच-अभि-प्रतिरूपं  
नवं नवमिवरुपं चस्य तत्, दृष्टारं दृष्टारं

प्रत्यभिसुखं न कस्यचिद्विरागहेतुरुपमाकारो  
यस्य तत् ) क्षणे द्वाशे नवं नवं देख्य तेऽनु  
सुंदरः ज्ञेनां ज्ञेनां डैधने डैधने न आवे  
तेऽनु भनोदुरः प्रनिक्षण नया नया इति  
ऐसा सुंदर; जिसे देखते देखते थकावट या  
आरुचि न हो ऐसा गजोद्धर. Perpetually  
charming; ever pleasing; never  
growing stale. “ अभिरूचं अभिरूचं  
पडिरूचं पडिरूचं ” आया० २, ४, २,  
१३६; नाया० १; ५; ६; १२; भग० २, ५;  
१८, ५; रथ० २; २२७; धोव० जं० प०  
१, ३;

**अभिरू-ह-वा.** र्णा० ( अभिरू-भ-वा )  
भैथमभ्रामी सानभी भूर्याई. मध्यम  
ग्राम की सातवीं मूर्च्छना. ( A term in  
music) the seventh modulation of a musical  
instrument. ठा० ३, १; अगुजो०  
१२८;

✓ **अभिरोय.** धा० I. ( अभि + रुच् ) रचि-  
कृशी; धृष्टा॒ कृशी. इच्छा करना; चाहना;  
र्णा॑ करना. To desire; to wish; to  
like.

अभिरोयए. वि० उत्त० ३५, ६;

**अभिरोहिय.** वि० ( अभिरोहित ) रैकापै  
ग्रेपै; रैकावाभां आवेत्. रुक गता हुआ;  
रोका हुआ. Obstructed; stopped.  
नाया० ६;

**अभिलंघमाण.** व० कृ० वि० ( अभिलङ्घमान )  
उल्लंघन करने. उल्लंघन करता हुआ. Trans-  
gressing. नाया० १;

**अभिलप.** वि० ( अभिलाप्त-अभिलपितुं  
योग्यमभिलाप्यम् ) वाणीथी न्द्रेऽनु कथन थम्  
श्वेते तेऽनु. वाणी से जिसका कथन हो सके ऐसा.  
Expressible in speech. विशे० १५२;  
४५३;

✓ **अभिलस.** धा० I. ( अभि + लष् ) धृष्टा॒  
कृशी; अभिलापा॒ कृशी. इच्छा करना;  
अभिलाषा करना. To desire; to long  
for.

अभिलसइ. दसा० १०, १; उत्त० २६, ३३;  
नाया० ६;

अभिलप्ति. ओव० ११;

अभिलसमालू. व० कृ० विवा० १;

**अभिलससारित्तज.** वि० ( अभिलप्तीय )  
त्तज्ज्या योग्य; अभिलापा॒ कृशी. योग्य.  
इच्छा करने योग्य. Desirable; fit to  
be desired. दसा० १०, ५; ६;

**अभिलाप.** पु० ( अभिलाप-अभिलप्ते आ-  
भिलुप्तेन व्यक्तमुच्यते इतेनार्थे हत्यभिलापः )  
शब्दभैरवी: तत्रपाठ; अवावेत्. शब्दसन्दर्भ;  
सत्रपाठ; आत्माप. Words expressive  
of a meaning; words as distinguished from the meaning  
or sense they convey. नाया० १;  
भग० ५, १; ६, १; १३, ५; १७, १; ३२,  
२; काम० ६, १५१; (८) कृष्णेऽनु; कथन कर्त्तु.  
कथन: कथन करना to tell; to speak.  
जीया० १० नाया० ८; भग० ६, ३१; पञ्च०  
१५; अगुजो० ४६; विशे० २०६०; ओव०  
३४; जं० प० ७, १६१; ग० प० १८; १६;  
—पुरिस. पु० ( -पुरुष ) तत्त्वात्तिना॒ शब्द,  
वैभ-धट् यत्; धत्यादि. नरजाति वाचक पुर्वाक्षर  
शब्द, यथा-घट, पट आदि. a word in the  
masculine gender. ठा० ३, १;

**अभिलास.** पु० ( अभिलाप ) धृष्टा॒; प्रार्थना;  
कृशना; अभिलापा॒. इच्छा; चाह; कामना. A  
wish; a desire; a prayer; a  
longing. ठा० ४, ३; नंदी० नाया० ६;  
अगुजो० १३०; पंचा० १, १६;

✓ **अभिवंद.** धा० I. ( अभि + वदि ) वाईद्यू

जरुं; दर्शन कर्ता जरुं; पूजे लागता जरुं.  
वंदन करने को जाना; दर्शन करने जाना;  
पाँव पड़ना. To go to bow to; to go  
to prostrate at the foot of.  
अभिवंदण. है० कृ० “ निजाइस्सामि.....”

महायीरं अभिवंदण् ”

ओव० १६;

अभिवंदिनण्.” दसा० १०, १;  
अभिवंदया. , “ महायीरं अभिवंदया ”  
ओव० ३०;

अभिवंदित. , भस० २०;

अभिवंदण. न० ( अभिवंदन ) नमस्कार;  
स्तुति. नमस्कार; प्रणाम; स्तुति. A bow;  
a salutation; praise. राय० ४२;  
अभिवंदिता. नि० ( अभिवंदिता ) स्तुति  
करार्थेत; नेते वंदन। करेतात्यते. निराकारु-  
ति की गई हो; जियता आभवादन किया गया  
हो वह. ( One ) praised; ( one )  
saluted. “ नरित्येविदिभिवंदिषु ”

उत्त० १३, २१;

अभिवर्गणत. व० कृ० त्रि० ( अभिवर्गणत )  
नमीत आदेता. ज़मीन खोदना हुआ. Digging-  
ing the ground; scratching the  
earth. नाया० ८;

✓ अभिवड्ड. वा० II. ( अभि + वृध् ) अद्वि-  
पाभी; आगाद थरुं; वर्धयू. वृद्धि पान;  
आवाद होना; बढ़ना. To increase; to  
prosper; to grow.

अभिवड्डमि. भग० ३, १;

अभिवड्डमो. कप्प० ५, १०३;

अभिवड्डमाण. व० कृ० जै० प० ७;

अभिवड्डय-आ. त्रि० ( अभिवड्डत ) अधिक  
भास; ऐक्तीरी हिवस अने ऐक से ऐकी-  
स या १२१ लागनो भड़ितो. अधिक मास;  
इकतीस दिन और एक सौ चाँचीत या १२१  
भाग का महीना. An intercalary

month. ( २ ) अधिक भासवाणु वरस, ऐ  
वरसमां तेर चंद्रभास होय ते; ३४३ हिवस अने  
इष्ट लागनु वरस. जिरा वर्ष में तेरह चन्द्र  
मास हों वह वर्ष; अधिक मास वाला वर्ष;  
अर्थात् ३६३ दिन और इष्ट भाग का एक  
वर्ष. an year having an in-  
tercalary month. “ तेरस उ चंद्रमास  
एमो अभिवड्डिओ उ नायब्बो ” जै० प० २;  
ठा० ५, ३; सू० प० १२; प्रव० ६०६;  
६०८;

अभिवयण. पु० न० ( अभिवचन ) पर्याय शब्द;  
अनेते अर्थनो थिनेशब्द, नेम-धट, कलश  
धत्यादि. पर्याय वाची शब्द; उमी अर्थ का  
दूसरा शब्द, जैम-घट, कलश आदि. An  
other word of the same mean-  
ing; a.m., synonym. “ अडम्प्रथिकायस्सर्वं  
भो! लेइया अभिवयणा प० त० अहम्मेति  
दा अवम्प्रथिकागुति वा पाणपति वा ”  
भग० २०, २;

अभिवारुद्धण. सं० कृ० य० ( अभिवाच ) प्रश्नाभ  
इर्नि. प्रणाम करना. Having saluted.  
भु० च० ८, ३०३;

अभिवारुद्धण. न० ( अभिवादन ) जुओ. “ अ-  
भिवायण ” श० ८. देखो ‘ अभिवायण ’  
शब्द. Vide ‘ अभिवायण.’ उत्त० २, ३८;

अभिवायण. न० ( अभिवादन ) वचनथी  
स्तुति इर्नि. वान से स्तुति करना. Praising  
in words. उत्त० २, ३८; ( २ )  
मस्त॑ नमीत वरण॒ सपर्य॑ इर्वोते. मस्तक  
नमाकर चरण छूता. touching the  
feet ( of a Guru etc. ) by bow-  
ing down the head. उत्त० २, ३८;

अभिवायमाण. व० कृ० त्रि० ( अभिवादयत )  
अभिवादन इर्नो. प्रणाम करना हुआ. Salut-  
ing; bowing to. आया० १, ६, १, ८;

**अभिव्याहरणा.** ली० (अभिव्याहरणा) गुरु शिष्यनी उक्ति प्रत्युक्ति-संवाद ज्ञान; संवाद. गुरु शिष्य की उक्ति प्रत्युक्ति; प्रश्नोत्तर; संवाद. A dialogue or discussion between a Guru and his disciple पंचा० २, २६;

**अभिव्याहार.** पुं० (अभिव्याहर-अभिव्याहरण-मभिव्याहारः) कालिकशुतपरत्वे शिष्य रुनो गुसंवाद-संवाद ज्ञान. कालिक शुत सम्बन्धी गुरु शिष्य का संवाद. A religious discussion between a Guru and his disciple. विशेष ० ३४१२;

**अभिविहि.** पुं० (अभिविधि) डेईवस्तुनी सर्व तरङ्ग; चारे भाग्य. किसी भी वस्तु के सब तरफ़; चारों ओर. Complete comprehension or inclusion. “आलोपयं अकिञ्च, अभिविहिणा दंसयं तिलिंगोहि” पंचा० १५, २;

**अभिवृहिंद.** पुं० (अभिवृदि) उत्तरभादपद नक्षत्र. उत्तरभादपद नक्षत्र. The constellation named Uttarā Bhādrapada. जं० प० ७;

**अभिवृद्धिदक्षा.** सं० कृ० अ० (अभिवर्ध्य) वृद्धि करीने; वधारीने. बढ़ाकर. Having increased; having caused to increase. सू० प० १;

**अभिसंका.** ली० (अभिशङ्का) आशंका; संशय. आशंका; संदेह. Doubt; suspicion. “भूयाभिसंकाइ दुगुच्छमाये” सूय० १, १४, २०;

**अभिसंकि.** त्रि० (अभिशङ्कित्) शंका राखना॒. शंका रखने वाला. (One) doubting or suspecting. “उज्जू माराभिसंकी मरणा पमुच्छति” आया० १, ३, १, १०६;

**अभिसंग.** पुं० (अभिष्वङ्ग) भाव राग; द्रव्यादि प्रतिअंध. भाव राग; द्रव्यादि प्रतिबंध. Attachment to wealth etc. ठा० ३, ४;

**अभिसंजाय.** त्रि० (अभिसञ्जात) कलल अवस्थामें से पेशीरूप बना हुआ. Formed in the shape of a womb. आया० १, १, १, १७६;

✓**अभिसंधार.** धा० II. (अभि + सम् + ध + यि०) संकृत भांधवे; भनमां धृत्या करवी; विचार धांधवे. संकल्प करना; विचार करना; मन में धारणा करना. To conceive; to imagine; to think. अभिसंधारेह. निसी० ६, ८; १६, १७; १७, ३३;

**अभिसंधिज.** न० (अभिसन्धिज) भुद्धि के धृताधृत्यक उत्तरामां आवती द्विधारूपे परिणुभन्नार वीर्य; वार्द्धनो। एक प्रकार वीर्य का एक प्रकार; बुद्धिपूर्वक की जाती हुई किया के रूप में परिणमने वाला वीर्य. The vital power which finds expression in a volitional act; a variety of vital power. क० प० १, ३;

**अभिसंबुद्ध.** त्रि० (अभिसम्बुद्ध) विज्ञान भेण-वेल; भाध पामेल. बोध को प्राप्त; विज्ञान को प्राप्त. Enlightened; instructed. आया० १, ६, १, १७६;

**अभिसंभूय.** त्रि० (अभिसम्भूत) प्रादुर्भाव पामेल; प्रगट थमेल. जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो वह; उत्पन्न; प्रकटीभूत. Manifested; come to light. आया० १, २, १, १; (२) वीर्य अने संविरला भिश्रुथी कललरूपे थमेल. वीर्य और संविर के मिश्रण से कललरूप बना हुआ. formed

into an embryo by the blending of blood and semen. आया० १, ६, १, १७;

**अभिसंबृद्ध.** त्रि० ( अभिसंबृद्ध ) प्रसूती पाभी वधवा भावेद्; जन्म पाभी उभृत्वा भावेद्. प्रसूत होकर—जन्म पाकर बढ़ने लगा हुआ. Growing and developing in body after birth. आया० १, ६, १, १७६;

**अभिसमग्रणागय.** त्रि० ( अभिसमग्रणागत—अभि-अभिसमुख्येन सम्यगिष्टानिष्टावधारणतया अन्विति—शब्दादिस्वरूपावगमात् पश्चादावगतो ज्ञातः परिच्छिङ्गोऽभिसमग्रणतः ) सन्मुख रहेक ईश्वरिणिष्ठ पदार्थोन्तु अवधारण्यु कुरी शब्दानुसारे जण्णायेद्; शब्दस्वरूप समग्रने अवधारण्यु करैक. सन्मुख रहे हुए हइ, अनिष्ठ पदार्थों का अवधारणकर शब्दानुसार जाना हुआ. Known after a proper comprehension of words; (anything) understood after a due and critical knowledge of the words that convey its sense.

जं० प० ३, ४५; आया० १, ७, ४, २१३; नाया० १४; (२) भगेल; प्राप्त यथेत्; परिभेग पछी उपभेदभां आवेद; सन्मुख आवेद. प्राप्त; मिला हुआ; परिभेग के पश्चात् उपभोग में आया हुआ; समुखीभूत. obtained; got; come towards or in front of; come to Upabhoga after Pari-bhoga. नाया० २; ४; ८; १२; राय० ७८; भग० १, ८; ३, १; ३; ५, ४; १२, ४; १६, ५; १७, २; ( ३ ) न० ( अभिविधिना समन्वागतानि सम्प्राप्तानि जीवेन रसानुभूतिं समाधित्योदयावलिकायामागतानि अभिसमन्वागतानि ) वांध्या पछी सर्व तरक्षी उद्यावलिकाभां आवेद; पिपाक यथाउताने सन्मुख यथेत्. बाधने के बाद चारों ओर से उदयावलि-

का में आये हुए कर्म; फल देने को उश्त. on the point of maturing; in readiness to mature. भग० १, ७; ठा० ४, ३; पञ्च० २०;

**अभिसमागच्छ.** धा० I. ( अभि + सम् + आ + गच्छ ) सन्मुख आवतुं; रहामे आवतुं. सन्मुख आना; सामने आना. To come towards; to come in front of. (२) युणु देख जानुवा; समज्जुं. गुण दोष जानना; समझना. to understand; to come to know the merits and demerits of a thing.

**अभिसमागच्छइ.** भग० ५, ६; ७; ६, १३; नाया० ८;

**अभिसमागच्छेजा.** वि० भग० ६, ५;

**अभिसमागम्म.** सं० कृ० आया० १, ६, ४, १६; दसा० ५, ४१; ६, ३२;

**अभिसमागम.** पु० ( अभिसमागम—अभि-अर्थभिसुख्येन सम्यक् संशयाभावेन आमर्यादया गमो ज्ञानमभिसमागमः ) अभि-अर्थात्मुख्येन, सम्-सम्यक्-संशयरहित, आ—मर्यादासहित, गम—ज्ञान; अर्थात् अर्थनिष्पयक संशयरहित भर्यादापूर्वक ज्ञान; वस्तुपरिच्छेद—निर्णय. संशय रहित अर्थविषयक मर्यादापूर्वक ज्ञान; वस्तुनिर्णय. A due and full comprehension of meaning freed from all doubts. “ तिविहे अभिसमागमे प० तं० उड्ड अहं तिरियं जयाणं तहारुवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अहसेसे याणांसेये समुपज्ञै से ब्लं तप्पदमयाए उड्डमभिसमेह तथों तिरियं तथों पच्छा अहे अहोलोगेण दुरभिगमे पक्षते समणाउसो ! ” ठा० ३, ४;

**अभिसमागय.** त्रि० ( अभिसमागत ) सन्मुख आवेद. सामने आया हुआ. Come towards; come in front of. भग० ७, १; अभिसमे. धा० I. ( अभि + सम् + इ )

सारी शीते संशयरहित भाष्यम्; समज्ज्वलं.  
अच्छी तरह से निःसंशयपूर्वक जानना; समझना.

To grasp; to understand fully.

( २ ) सन्मुख गति करना; पासे लगाना;  
सन्मुख जाना; समाप्त जाना. to go to;  
to go towards.

अभिसमेह-ति. “ददुँथलं नाभिसमेह तीरं”

उत० १३, ३०; नाथा० १; भग०  
११, ११;

अभिसमेच्छ. सं० कृ० ठा० २, १;

अभिसमेच्छा.” आथा० १, १, ३, २१;  
अभिसमिच्छा.,, आथा० १, ३, ४, १२४; १,  
६, ३ १२५:

अभिसरण. न० ( अभिसरण ) सन्मुख लगाना;  
सन्मुख जाना; सामने जाना. To go  
towards; to go in front of.  
परह० १, १;

अभिसरमाण. व० कृ० वि० (\*अभिसरमान-  
अभिसरत्) सरक्ते; गांड धसडीया करा  
यावतो. सरकता हुआ; सरककर चलता हुआ.  
Creeping; crawling; moving on  
slowly or feebly. नाथा० २; विवा० ७;

अभिसिच्च. था० १. ( अभिसिच्च )  
राज्याभिषेक करना; पदवी धारण निभिरे  
प. यि सिंचयुं राज्याभिषेक करना; पदवी  
धारण करने के निमित्त जल छिटकना.  
To sprinkle with water on the  
occasion of coronation

अभिसिच्छ-ति. भग० ६, ३३; नाथा० १२;  
१४; १६; विवा० ६, जं०  
प० २, ३०;

अभिसिच्छंति. नाथा० १; ५; ८; १८; विवा०  
३; जं० प० ५, १२१;

अभिसिच्छामि. नाथा० १६;

अभिसिच्छामो. नाथा० १४;

अभिसिच्छेह. आ० नाथा० ८; १४;

अभिसिच्छेहिति. भग० १५, १;

अभिसिच्छित्ति. ह० कृ० नाथा० १८;

अभिसिच्छ-इत्ता. सं० कृ० नाथा० १६; १६;  
भग० ६, ३३;

अभिसिच्छित्ता.” कप्प० ७, २१०;


अभिसिच्छमाण. त्रि० ( अभिच्छमान )  
अभिषेक करना हुआ. अभिषेक किया जाता हुआ.  
Being sprinkled with holy  
water at the time of coronation,  
installation etc. कप्प० ३, ३६;

अभिसेक. त्रि० ( अभिषेक ) अभिषेक करना  
योग्य; मुण्ड्य; नाथ॑; पाटवी. अभिषेक करने  
योग्य; मुख्य; नायक; उत्तराधिकारी. Fit to  
be crowned; to be crowned  
in course of time, e. g. an heir-  
apparent, a leader etc. “अभिसेकं  
हथिथरयणं” नाथा० १६; निर० १, १;  
निरा० ६, २०;

अभिसेश-य. पु० ( अभिषेक ) सर्व ओषधि  
सहृदृत तीर्थना पवित्र जलाथी भंत्रोच्चारपूर्वक  
राज्य आदि पदवीनु आरोपण्य करनाने भ-  
स्न॑ कुपर भिंचन करनु ते; राज्याभिषेकना  
छिया; राज्यगाहामें ऐसवानी छिया-भाषेत्सव.  
सब ओषधियों साहत तीर्थ के पवित्र जल से  
मंत्रोच्चारपूर्वक राज्य आदि पदवी का आरोपण  
करने के निये मस्तक सिंचन करने—मस्तक पर  
जल छिड़कने का क्रिया; राज्याभिषेक की क्रिया;  
राज्यगार्दा पर बैठने का महोत्सव. Coronation  
ceremony; coronation festivity; sprinkling holy and  
medicated water on the head  
at the time of coronation. भग०  
३, ७; १०, ६; ११, ११; नाथा० १; ८;  
अंत० ५, १; जं० प० ४, ६०; ५, १२१;  
ओंव० ३८; राय० ६५; नंदी० ५६; कप्प०  
१, ४;—आरिह. त्रि० (-अर्ह) राज्य, आ-  
र्यार्य, उपाध्याय आदि पदवीनो अभिषेक  
करनाने योग्य—लायक. राज्य, आचार्य, उपा-  
ध्याय आदि पदवीयों का अभिषेक करने के  
योग्य. fit to be installed as king,

religious head etc. नाया० १४;—जल.  
न० (—जल) राज्य आदिनो अभिषेक करवानुं  
पवित्र पाणी. राज्यादि का अभिषेक करने योग्य  
पवित्र जल. holy water for corona-  
tion ceremony. “ अभिसेयजलशूष्र-  
णा ” श्वोव०—ठाण. न० (—स्थान) रा-  
ज्यादि अभिषेक करवानी जगा०। राज्यादि  
अभिषेक करने का स्थान. the place of  
coronation. निसी० १२, ३२;—ऐड.  
पु० (—पीठ) अभिषेकमंडपनी अंतर रहेके  
अभिषेक करवानुं आगेके. अभिषेकमंडप के  
भीतर स्थित अभिषेक करने का पाट-चौका.  
a square-stool used at the time of  
coronation ceremony. जं० प० ३,

६८;—भंड. न० (—भारण) राज्याभिषेकमां  
भए लागे तेचां उपगरण. राज्याभिषेक का  
किया के उपयोग में आने लायक उपकरण.  
materials used in coronation  
ceremony. राय०—महिमा. पु०  
(—महिमन) अभिषेकनो उत्सव. अभिषेको-  
त्तरव. coronation festivity; in-  
stallation or coronation  
festivity. कथ० ५, ६८;—सभा. छी०  
(—सभा) जगा० राज्याभिषेक थाय ते सभा-  
स्थान. जहां राज्याभिषेक होता है वह स्थान.  
the place of coronation. “ जेणामेव  
अभिसेयसभा तेणामेव उवागच्छति ” राय०  
१६८; ठा० ५, ३; जंवा० ३, ४;—सिला. छी०



(-शिला) भेर पर्वतना पॅउ वन उपर आवेली यार अलिषेक शिला, के जेना उपर इद्रो तीर्थकर भाराजन्नो। अलिषेक-नवणु करे छे. तेमां दक्षिण तरफनी पांडुकंबल शिला उपर भरतक्षेत्रना तीर्थकरनो, उत्तर तरफनी रक्तांबल शिला उपर धरवतक्षेत्रना तीर्थकरनो। पूर्व दिशानी पांडुशिला उपर पूर्व महाविदेहना तीर्थकरनो। अने पश्चिम दिशानी रक्त शिला उपर पश्चिम महाविदेहना तीर्थकरनो। जन्मालिषेक उत्तरामां आवे छे. मेरु पर्वत-के पंडग वन की चार अभिषेक शिलाएं, जिनके ऊपर इन्द्र तार्थकरों का जन्माभिषेक करते हैं, उनमें से दक्षिण तरफ का पांडुकंबल शिला ऊपर भरतक्षेत्र के तीर्थकर का, उत्तर तरफ की रक्तकंबल शिला ऊपर धरवतक्षेत्र के तीर्थकर का, पूर्व दिशा की पांडुशिला ऊपर पूर्व महाविदेह के तीर्थकर का और पश्चिम दिशा की रक्तशिला ऊपर पश्चिम महाविदेह के तीर्थकर का जन्माभिषेक करने मे आता है। Four celestial slabs of stone namely Pāndukambala in the south, Raktakambala in the north, Pāndu in the east and Rakta in the west, on which the birth ceremony of the Tirthankaras of Bharatakṣetra, Iravatakṣetra, eastern Mahāvideha respectively is celebrated by Indras. These slabs are situate in the Pandaga forest on the mountain Meru. “चत्तारि अभिसेयसिलाश्चो प० तं० पंडुकंबलसिला अतिपंडुकंबलसिला रक्त-कंबलसिला अतिरक्तकंबलसिला” ठा० ४, २; जं० प० ५, ११७;

अभिसेज्जा. छी० ( अभिशब्द्या ) अलिषेक-शीमां हिवसनी के रात्रिनी सधाय की रात-वासी। २३१ सवारमां भुनि जे जग्यामां आवे ते जग्या। अभिषेविकी में दिन या रात्रि का स्वाधाय करके रात्रि में रहने के बाद प्रातः-काल सुनि जिस स्थान में आवे वह स्थान

A place a monk comes to in the morning after spending his night in A bhinaisedhiki in study during day or night. विशे० ३४६ १-

अभिसंसंग. पु० ( अभिष्वङ्ग ) जुओ। “अभिसंसंग” ३४६. देखो ‘अभिसंग’ शब्द. Vide “अभिसंग.” ठा० ३, ४; पंचा० २, ३४; ६, १८;

अभिहट्टु. सं० क० अ० ( अभिहृत्य ) भद्र-त्राय करीने; जप्तरदस्ती करीने. बलात्कार करके; जप्तरदस्ती करके. Forcibly; violently; by main force. ‘सेवं वृद्धितस्स परो अभिहट्टु अतो पदिग्गहन्सि’ आया० २, १, १०, ५८;

अभिहड. त्रि० ( अभिहत ) स-भुप्य आणेडुं; गाभमांथी के उत्तर गाभथी लध सहभे आणेल. सन्मुख लाया हुआ; गाँव में से या गाँव के बाहिर से लाकर सन्मुख किया हुआ. Carried towards; taken to. ( २ ) न० साधुने भाटे धेरथी के दुकानेथी उपाश्रमभां लध आवेल आहारादि आपवाथी साधुने लागतो। दोप०; उद्गमनना। ११ दोपमांनो। ११ भो दोप०. साधु के लिये घर से या दुकान से लाकर उपाश्रम मे आहारादि देने से साधु को जो दोष लगे वह; उद्गमन के १६ दोषों में से ११ वाँ दोष. a kind of fault incurred by a Sādhu by food being brought to him in Upas h r a y a from a house or a shop. ‘ठेसियं कायगडं, नि-यांग अभिहट्टाणि य’ दस० ३, २; भग० ६, ३३;

आया० १, ७, २, २०२; मृग० १, ३, ३, १५;  
ओव० ४०; लिसी० ३, ५; ६, ४; ११, ८; १६,  
४; १६, ४; विं० नि० ६३: ३०६; पंचा० १२, ६;

अभिहण. धा० I. (अभिहड़) सन्मुख  
आपता प्राणीने भारद्युः धात इर्षी. मनुष्य  
आते हुए प्राणी को मारना; धात करना. To  
kill a living being coming in  
front; to kill.

अभिहण॒. भग० ५, ६;

अभिहण॑त. पञ्च० २६;

अभिहणामो. भग० ८, ७;

अभिहणिज्ज. वि० आया० २, १, ७, ३७,

अभिहणज्ञा॒. वि० भग० १६, ३;

अभिहणह. आ० भग० ८, ७; १८, ८;

अभिहणमाण. व० कू० भग० ८, ८;  
१६, ३;

अभिहणण. न० (अभिहनन) सन्मुख आप-  
ताने द्वारा प्राणी का मारना; उन्मे लाता  
भारद्युः धात इर्षी. गामने धाते हुए को  
मारना; गामने लाते मारना; धात करना.  
To strike, kick or kill any living  
being coming in front. पगह० ११;

अभिदृश. त्रि० (अभिडृश आभिसुक्ष्येन हठो-  
अभिहात) पर्याप्तप्रयोगः धात भारेत.  
पैरों में दबाया हुआ; लातों में भारा हुआ,  
kicked; trodden under foot.  
“अभिहया वत्तिप्रखेत्परा” आव० ४, ३;  
भग० १४, ८;

अभिहाण. न० (अभिघान-अभिव्यये वेन  
तदभिघानम्) नाम; सेना. नाम; संज्ञा.  
Name; appellation. नाया० ७; विशे०  
२०; प्रव० ६८; —वद्वा॒. तु० (-वर्ण) नामना  
वर्ण-अक्षर. नाम के अक्षर. one of the  
constituent letters of a word  
or name. पंचा० ३, २२;

अभिहिय. त्रि० (अभिहित) उक्त; क्षेत्र.

कहा हुआ. Said; expressed. प्रव०  
६७६;

अभीइ. पु० (अभिजित) जुँगाइ॑  
दस्तों अभीइ॑ शब्द. A name of  
भग० १३, ६; सम० ३; कृ० ११, १;  
ज० १० २, २३; —पंचम० १० ११, ११  
अभियन्त्रक्षयी॒ पांचयुं (उत्तराभ्युपदे०) १८-  
त्र. अभिज्ञ॑ से पांचवाँ नक्षत्र; उत्तराभ्युपदे०  
( a constellation ) fifth in order  
from Abhijit; the constella-  
tion named Uttarābhādrapada.

कप० ७, २०४;

अभीय॒ अ. त्रि० (अभीत) भयरहित; ५२  
विवाही॒; निःर॒ निःय॒; उग रहित॒; निःर॒.  
Fearless. उवा० २, ६६; १०३; १०६;  
नाया० १; दृ॒ दृ॒;

अभीर॒. त्रि० (अभीर) निःर॒; सात प्रकारना  
भय विवाही॒. गात प्रवाह के भयों से रहित;  
भिर्य. Fearless आया० २, १५, १; (१)  
भृथम ग्रामनी और भृथमना. मध्यम ग्राम  
का एक मृद्युला. a modulation in the  
middle scale of a musical  
instrument. गा० ७;

अभुंजप्राण॒. व० कू० वि० (अभुंजान) खानना न  
करना. जो जनन करता हुआ. Not eating  
or dining. पंचा० १६, १२;

अभुंजिता॒. म० कू० अ० (अभक्ता)  
अभुंजागरीने; खाना खाये; विना भोग.  
Without having enjoyed  
or suffered. गा० ३, २;

अभुत्ता॒. म० कू० अ० (अभुक्ता) खाना  
विना; खाना विना. विना खाये; विना भोग.  
Without having eaten or  
enjoyed. आया० १, ६, १, ११;

\*अभुल्लिर. त्रि० (अभंशनशील) भुवनार  
नदि; अभृतित. जो भूल करने वाला या

चूकने वाला न हो वह; धर्सर्वात्मत.  
Infallible; not likely to commit  
a mistake. सु० च० ४, २६०;

**अभूत्य-**य. त्रिं (अभूता) असद्भूत; न अनेकं.  
य बना हुआ; अमउभूत. Not taken  
place; not come into existence.

सम० ३०; दमा० ६, ६; विश० १८६;

**अभूद्**. ती० ( अथृति ) भूत-संपदाता असाव.  
रोपात् का असाव. Absence of wealth  
or prosperity. इग० ६, १, १;—भाव.  
पुं० ( भाव ) मानवी संपदाता असाव  
नहि. ज्ञानस्थीर्ण-संपदा असाव. absence  
of wealth of knowledge. “सा चेव  
आ तस्म अभूदभावो ” इग० ६, १, १;

**अभूयाग्निरुद्धरण**. पुं० ( अशूतानिरुद्धरण-  
न भूतान्वर्मणद्वान्ते यस्तात्त्वं तथा )  
भूतोने भय न अप्यनार; वेनादी प्राणीया  
भीजे नहुं तेः प्रशस्तानाम्भूतिरुद्धरण  
एष प्रदार. किंसो प्राणी न उरे वहः प्रशस्त  
वारीनिव का एक भद्र. ( One ) who  
is not a source of fear to living  
beings; a variety of reverential  
speech. दा० ७; रुग० २५, ७;

**अभेज्ज.** त्रिं ( अभेद्य ) न केति शशाय तेः;  
धृतुं भवति; अनेद्य. अनेद्य; जो भेदा न  
जा सके वह; वहुत मनुवृत. Very strong;  
impenetrable. भग० २०, ५; दा० ३, २;  
—क्षयय. पुं० ( कदच अनेद्यः कवचो  
जस्य स तथा ) अनेद्य भवति उपयोगेऽ।  
अमेव-भजतुत कवच वाला. (one) having  
an impenetrable armour. जं०  
प० ३, २२; ५५; भग० ७, ६;

**अभेय**. पुं० ( अभेद ) क्षमतुं उत्खंधन न करनुं ते;  
अनतिक्षम. अनतिक्रम; क्रत का उत्खंधन न  
करना. Sameness; non-transgres-  
sion. विश० ६४३;

**अभेल.** त्रिं ( \*अभीह ) निर्भय; निः॒. भय  
रहित; निर. Fearless. जं० प० २, ५७;

**अभोज्ज.** त्रिं ( अभोज्य ) भोगवत्वायोग्य नहि.  
न भागने योग्य. Unfit to be enjoyed.  
नाया० १६;

**अमइ.** द्वा० ( अमति ) भनि शुद्धिनो अभाव.  
शुद्धि का अभाव. Lack, absence  
of intellect. विश० १०६;

**अमइल.** त्रिं ( \*अमलिन ) स्वच्छ; निर्भूल; भेद  
विनानुं. मलिनता रहित; स्वच्छ; साक; बिना  
मैल का. Free from dirt; pure;  
clear. नाया० ११; परह० १, ४;

**अवंगत.** न० (अमङ्गल) अमङ्गल-अनिष्ट. मंगल-  
शुभ का अभाव; अगुम; अनिष्ट. Inausp-  
icious; evil. परह० १, २;—निमित्त.  
त्रिं ( -निमित्त ) अमङ्गल-अनिष्ट  
सूचक अंगस्फुरणादिक. अमङ्गलसूचक;  
अशुभसूचक अङ्गस्फुरणादिक निमित्त. of  
evil omen ( throbbing of limbs  
etc.) indicative of an evil. परह०  
१, २;

**अभंगलसाता.** द्वा० ( अमङ्गलता ) अमङ्गलपथः;  
अमङ्गलपता; अगुमपता. Inauspici-  
ousness. विश० १५;

**असग्ग.** पुं० ( अमार्ग ) भिर्यात्व, क्षय आदित्य-  
भावि. भिर्यात्व, क्षय वर्गरह; आमा का अहित  
करने वाला सार्ग. A wrong path,  
e. g. of heresy; evil passion etc.  
“अमग्गं परियाणामि सग्गं उवसंपञ्चामि”  
आव० ४, ८;

**अमरवाय**. पुं० ( अमाघात ) लुध्ये ‘अमाघाय’  
शब्द. देखो ‘अमाघाय’ शब्द. Vide  
‘अमाघाय.’ उवा० ८, २४१; पश्च० ३, १;

**अमच्छ.** पुं० ( अमात्य ) प्रधान; भंत्री; दिवान;  
राज्यनो डारखार अलावनार. संत्री; दीवान;

प्रधान; राज्य का मुख्य कारोबार करने वाला।  
A minister; an administrator  
of a state. नाया० १; दृ० १२; १६; विवा०  
४; ६; राय० २५३; ओव० अगुजा० ६६;  
परह० १, ४; संत्या० द०; विंश० ६२८;  
कण० ४, ६२; सु० च० ११, ५२;

**अमच्छुर.** त्रि० ( अमत्सर ) भृत्यर- ईर्षी  
विनाशी; पारका युण्ठने स्वदेन करनार. मन्त्रार  
ईर्षी के अभाव वाला; दसरे के गुणों को नहन  
करने वाला. Free from jealousy.  
सम० प० २३६;

**अमच्छुरि.** त्रि० ( अमत्यरिक् ) मत्सर  
रहित; परगुण विहृत. मत्सर रहित; दूसरों के  
गुणों को प्रहण करने वाला. Free from  
malice or jealousy परह० १, ४;

**अमच्छुरियता.** ईर्षी० ( अमत्यरिकता ) जुआ  
'अगच्छरियथा' श०८. देखो 'अगच्छरियथा'  
शब्द. Vide "अमच्छुरियथा". ओव० ३८;  
सम० दृ० ६;

**अमच्छुरियथा.** ईर्षी० ( अमत्यरिकता ) भात्यर-  
ईर्षीना अभाव; पारका युण्ठन करना ते.  
मत्सरता-ईर्षी का अभाव; दूसरे के गुणों को  
सहन करना. Absence of malice or  
jealousy. ओव० ३८; सम० दृ० ६;

**अमज्जमंसासि.** त्रि० ( अमद्यमांसाधिन )  
भृत्या अने मांस न पापरनार. मदिशा और  
मांस का सेवन न करने वाला; मध्य और मांग का  
ध्वनहार में न लाने वाला. ( One )  
abstaining from wine and flesh.  
सू० २, २, ३८;

**अमञ्जभ.** त्रि० ( अमध्य-मासि मध्यं यस्मिन्  
तत् ) भृ४ विनाशु; एभां अ॒ भ॒ श॒ न थ॒  
श॒ तेवुं. मध्य रहित; जिसमें दो भाग न हो  
सके ऐसा. Having no middle part;  
incapable of being divided into  
two or more parts. " तओ अमञ्जभा

प० तं० समए पृष्ठे परमाणु " ठा० ३, २;  
भग० ५, ७; २०, ५;

**अमण.** न० (\* अमन ) जाणुनु ते; आंतरिक  
निर्जय. जानना; आन्तरिक व्यवहा भासिक  
निर्णय. Knowing; mental decision.  
ठा० ३, ४: ( २ ) अंत; अवसान. अन्त;  
आयिर; अवनान. उन्द. विशेष० ३४५३;

**अमण.** न० (-अमनम्) विचारशन्य भन.  
विचारशन्य भन. Vacant mind; mind  
void of thought. " तिविहे अमणे  
प० तं० शोत्तमरणे शोत्तवज्ञमणे अमणे " ठा०  
३, ३: ( २ ) अमनी; भन विनाशु. असंज्ञा; मन  
रहित. devoid of the possession  
of a mind. क० प० १, १६; क० ग० ५,  
२०; प्रद० ११२७;—**निरिय.** त्रि०  
( निर्दित ) अमेनी निर्दित. अर्गशी निर्दित.  
sub-human living beings devoid  
of consciousness. प्रद० ११२७;

**अमञ्जका.** त्रि० ( अमनका ) भनना प्रवृत्ति  
सहन. मन का अकृत गृहन. Devoid of  
mental activity गृथ० २, ४, २;

**अमगाम** त्रि० ( अमाम-अमनआप- न कदा-  
विर्द्विव ग्राइनया उन्नी मनासि आमेसी-  
लमनज्ञाम ) भनने ग्राइन शाय ते; द्वेष  
भनने अप्रिय वाने तेवुं; भनने प्रतिकृत. मन  
को जो प्राय न हो वह; जो सदा मन को अप्रिय  
लगे. मन के प्रायकृत. Disagreeable to  
the mind; distasteful. नाया० १;  
१६; जीवा० १: पथ० २८; भग० १, ५; ७;  
३, २; ७, ६; ६, ३३; ज० प० २, ३६;

**अमगाम.** त्रि० ( अमनोम न अमगा अम्यम  
गायत युसु पुनः म्यरण्तो यस्तद्यनेमस् )  
भनने अन्यत आपाट. मन को अप्रिय अनिष्ट.  
Most disagreeable to  
the mind. भग० १, ५;—**स्मर-**  
गु० ( -स्वर ) अप्रिय स्वर-अभाव;

भनने अछुगभतो स्वर. मनोहरता सहित स्वर; अप्रिय स्वर; मन को न सुनने वाला स्वर. unpleasant sound; harsh voice. भग० १, ७;

**अमण्डलमतर.** त्रि० (अमनश्चापतर) भनने अतिशय अणभाभयुः. मन को अत्यंत अप्रिय. Highly displeasing to the mind. नाथा० १२; १६;

**अमण्डलमता.** छां० ( अमनोमता ) भनने अनिष्टपयुः; भननी प्रतिभृता. सन का प्रतिकूलपना; मन का अनिष्टपन. Disagreeableness to the mind; mental disrelish. भग० ६, ३;

**अमण्डलण.** त्रि० ( अमनोज्ज-मनोऽनुकूलं मनोज्ज न मनोज्जमनोज्जम्, यथया न मनया श्वायतेऽसुन्दरतया इत्यमनोज्जम् ) भनते गम्भुं नदिः; भनते आत्मददायुक तदिः; अदोभतः अगुण्डः; अनिष्टः; भनते प्रतिभृतः. यन को जो अप्रिय हो वह; मनोहरता गम्भीर; अनिष्ट; अशोभन; मन के प्रतिकूल. Not agreeable to the mind; not charming; ugly. पद्म० २८; ओद० २०; निर्णा० ७, २७; सूर्य० १, १, ३, १०; नाथा० १; १२; १६; जीवा० १; भग० १, ४; ७; ३, २; ६, ३; ६, ३३; २५, ७; ज० प० २, ३६; —पाणियग. न० ( -पानीयक ) अनिष्टभराय पाणी; न पीना योग्य पाणी. सराय पानी; न पाने योग्य जल. Bad water; water unfit for drinking purposes. भग० ७, ६; —स्वर. पुं० ( -स्वर ) भराय स्वर; अभवुर अभाव. अनिष्ट-स्वर व्याप्त स्वर. bad voice; harsh voice. भग० १, ७;

**अमण्डलणतर.** त्रि० ( अमनोज्जतर ) अतिशय, अमनोज्ज-अनिष्ट. अव्यव्लत अनिष्ट अमनोज्ज.

Highly disagreeable; highly unpleasant. विवा० १, १;

**अमण्डलस्स.** पुं० (अमनुष्य) भतुष्य नदि ते; देवता आदि. जो मनुष्य न हो वह; देव व्यैरह. Not man, i. e. gods etc. नंदी०(२)नपुंसक. नपुंसक. an impotent. भग० ८, ६;

**अमत.** न० ( अमृत ) भुपा; अभृत. अमृत. Nectar. नाथा० १; (२) क्षीरोदधि समुद्रन् जग. क्षीरोदधि समुद्र का जल. water of the Kṣirodadhī ocean. जीवा० ३, ४;

**अमत.** त्रि० ( अमत ) संभत नदि; अभान्य. असम्मत; अमान्य. Not assented to; not acceptable. भग० १८, ७;

**अमनि.** छां० ( अमति ) इमति; इमुदि. कुरुद्धः इमति. Wickedness of thought. “ समाययंति अमतिं गहाय ” उत्त० ४, २:

**अमत्त-व०** (अमत्र) खात; भाजन. पात्र; वरतन; भाजन. A vessel; a utensil. सूर्य० १, ६, २०; ओव० १७;

**अमन्न.** त्रि० (अमन-नास्ति मम ममत्वं यस्य स तथा ) ऐर्ह पञ्च वस्तु उपर नने भारायन् नशी ते; ममत्वरहित; निर्वासी. किंमा चा वस्तु पर जिनका ममत्व नहीं है वह. Selfless: free from attachment to any object: free from greed. ओद० १०; १७; दस० ६, ६६; ८, ६४; भग० ६, ७; ( २ ) जंबूद्वीपना भरतक्षेत्रमां च्यापती च्यावीसीमां थनार आरभा तीर्थकूर. जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र में आगमी चौर्वासी में होने वाले वारहवें तीर्थकर. the would-be twelfth Tirthankara in the coming Chovisi in the Bharatakṣetra of Jambūdvīpa. अंत० ४, १; सम० प० २४१; प्रव० २६६; ( ३ ) दिवसना २५८। भुद्दर्त्तु नाम. दिवस के

२५ वें सुहृत्ति का नाम. name of the twenty-fifth Muhūrta of a day.  
जं० प० २, २५; ७, १५२; स० प० १०;  
( ४ ) देवदृढ़, उत्तरदृढ़ना जुगलिया भनुप्पन्नी  
ऐक ज्ञात. देवकुरु, उत्तरकुरु के युगलिया  
मनुष्यों की एक जाति. a species of the  
Jugaliyās of Devakuru, Uttarakuru. ज्ञावा० ३, ६;

अमरमायमाण. व० क० प्र० (अमरीकुर्वत) भारं  
भारं न कृतोऽप्युत्पर भभत्व न राखतोऽ  
किसी भी वन्नु पर ममत्व न रखना हुआ; “यद  
वस्तु मर्माहै, वद वस्तु मर्माहै” इत्यादि कहता  
हुआ. Not saying “mine, mine,”  
not attached to any thing.  
आथा० १, २, ५, ८;

अमरमलाता० (अमरमना) अरण्डित २५२  
वाली; देखा अन्याय नहि. अन्याय न आप-  
भभभ था। नहि नहि॥ वाली. अन्यायनित-मला-  
दारी; धारा प्रवाह दारी; जिसमें अटके नहीं  
ऐसी वाली. Uninterrupted clear  
speech; distinct, unstammering  
speech. ओव० ३६;

अमय. प्र० ( अमत ) जुग्गा. ‘अमत’ शब्द.  
देखो ‘अमत’ शब्द. Vide ‘अमत.’  
प्र० लि० १६८;

अमय. न० ( अमृत ) जुग्गा. ‘अमत’ शब्द.  
देखो ‘अमत’ शब्द. Vide “अमत.”  
उन० १७, २१; नाया० १; राय० २२;  
भत्त० १६७; गंचा० ३, १२;—कलश. पु०  
. (कलश) अमृते लैये थे। अमृत में भरा  
हुआ घड़ा. a pot full of nectar.  
नाया० ६;—फल. न० (फल) अमृतोपम  
इक; अनिश्चाहिष्ट इक. अमृत के मामान फल;  
अतिशय स्वादिष्ट फल. a nectar like  
fruit a very delicious fruit.

नाया० ६;—मेह. पु० (मेघ) भरत आहि  
क्षेत्रमां उत्सर्पिष्युनो जीने आरो ऐसतां  
सात हिंस सुधी चौथी वरसाह वरसे तेनुं  
नाभ. भरत आदिक्षेत्रों में उत्सर्पिला के दूसरे  
आरे का दूसरे कालविशेष का प्रवेश होते हाँ  
सात दिनों तक जो जोथी वर्षा हो उसका नाम.  
the fourth shower of rain lasting seven days at the commencement  
of the second acon of Utsarpinji in Bharataक्षेत्रा  
etc. जं० प० २, ३८; —गस. पु० (—स)  
अमृतरस. अमृतरस. neetar. पञ्चा० १६, १०;  
—रसायण. न० (—रसायन—अमृतमिव  
रसायनं जराः राधिनरोपसमृतरसायनन् )  
अमृतरसप्रसाध्यजुटिकारी. अमृतमिव रसायन  
जितक्षेत्र an elixir prolonging youth  
and life like nectar; anything  
wholesome. गच्छा० ४२;—दही. स्त्री०  
(—वर्णी) आभरेत. गमरवेत; एक लता-  
विरेप. a kind of creeper. प्रश० २५०;  
—ब्राह्म. पु० ( ब्रह्म ) तीक्ष्णश्च॥ ब्रह्म  
आहि प्राणिहसा गृह्ण इते ते. निर्विकर  
के जन्माद के गमय दंकगङ्ग जो वृश्च करनहैं  
बठ. a shower of rain sent by  
gods at the time of the birth  
of a Tirthankara. आथा० ३, १२, १६६;  
अमयव्रोग. पु० ( अमृतव्रोग ) काकडी  
नगरीना। अक्षयग्रामीन राजा, के ने संतम  
लाज परम पद पायें थे। काकडी नगरी का  
एक प्राचीन राजा, जो कि संतम लेकर परम  
पद-मोक्ष के प्राप्त हुआ. Name of an  
ancient king of a city named Kākāndī who became a monk  
and attained to Mokṣa. संथा०  
७४;  
अमर. पु० ( अमर ) देवता०; हैर. देवता०; देव.  
God. क० गं० १, १८; प्रव० १३३३;

पञ्च०२; पराह० १, ४; आव० २१;  
 ( २ ) ऋषभदेवस्वाभीना तेरभा पुत्रनुं  
 नाम. ऋषभदेवस्तार्मी के १३वें पुत्र का नाम.  
 the name of the thirteenth son of Riṣabhadeva Svāmī. कप०७; (३)  
 सिद्ध भगवान्. सिद्ध परमर्थः सिद्ध भगवान्.  
 soul that has obtained salvation.  
 “इमस्स चेय पदिवृहश्चाणु अमराय महा-  
 सङ्क्षी” आया० १, २, ५, ६४; आव०—इदं.  
 पुं० ( -इन्द्र ) देवताना ईश्वर; देवताना राजा.  
 देवों का इन्द्र—राजा, a king of gods. चउ०  
 १०;—ईसर. पुं० ( -ईश्वर ) देवताना ईश्वर-  
 ईश्वर. देवों का ईश्वर—इन्द्र, the lord of gods;  
 viz Indra. प्रव० १ ४६;—नारिश्चाउ.  
 न० ( -तिर्यगायुष ) देवता अनंतिर्यगायुष, देवता और तिर्यच का आयुष. the life period of gods and sub-human living beings. क० गं० ५, ५२;—भ-  
 वण. न० ( -भवन ) देवताना विमान; स्वर्गलैंक. देवों का विमान; स्वर्गलौक. abodes of gods; heaven. दस० ४, ८८;—वह. पुं० ( -पति ) देवताना ईश्वर. देवों का इन्द्र, king of gods; Indra of gods. भग० ३, ८; पञ्च० २; जं० ४०—द्वर.  
 पुं० ( -वर ) भद्रद्विद्वेष. मद्दद्विद्वेष. a god of great wealth and power. तंड०—सुह. न० ( -सुख ) देवतानुं सुख. देवताओं का सुख; happiness of gods. आव० ४;

अमरकंका. स्त्री० ( अमरकंका ) ईपदीनुं  
 हरणु करनार धातकी घंडना पद्मेतर  
 राजनीं मुख्य राजधानी। द्रौपदी का  
 हरण करने वाले धातकी खंड के राजा  
 पश्चोत्तर राज्य सुख्य राजधानी। The capital of Padmottara king of Dhātu-

kī Khaṇḍa who had kidnapped Draupadi. नाया० १; १६;  
 अमरजित्र. पुं० ( अमरजीव ) अमरद्विभारते  
 शुभ, ३ वे आवती चापीसीमा त्रेवीसभा  
 अनंतवीर्यनामे तीर्थेऽरथे. अमरकुमार का जीव, जो आगामी चौबीसी में अनन्तवीर्य नाम का २३वाँ तीर्थकर होगा। The soul of Amarakumāra which will take birth as the 23rd Tirthankara Anantaviryā by name, in the coming Chovisī (cycle of time). प्रव० ४०५;

अमरवहृ. पुं० ( अमरपति ) जातवेशनो  
 अंकु द्विभार, ३ वेणु भद्रानाथ प्रभु साथे  
 प्रवज्या लीधी। जातवंश का एक कुमार,  
 जिसने महानाथ प्रभु के साथ दीक्षा ली थी। A prince of Jñāta dynasty who entered the order of asceticism with Mallinātha. नाया० ८;

अमरसेण. पुं० ( अमरसेन ) जातवेशना अंकु  
 द्विभार, ३ वेणु भद्रानाथनी साथे प्रवज्या  
 लीधी। जातवंश का एक कुमार, जिसने कि  
 महानाथ के साथ दीक्षा ली। A prince of the Jñāta race who entered monkhood with Mallinātha. नाया० ८;

अमरिस. पुं० ( अमर्ष ) ईर्ष्य; असृष्टि; अहे-  
 खात. ईर्ष्या; अदेवाई. Jealousy; envy.  
 भग० ३, २; १५, १; ( २ ) केप०; रोप०; अ-  
 सदृशीशता. कोपः रोषः सहनशीलता  
 का अभाव. anger; impatience,  
 पराह० १, ३; विश० १६०६; ( ३ ) भद्र-  
 कट्टायद. बहुत अधिक फगड़ा. deadly  
 strife. “ ईसा अमरिस अतवा ”  
 उत्त० ३४, २३;

अमरिससण. त्रिं० ( अमर्षण ) अपराध छठना  
 नहि करनार; अपराधी उपर क्षमा न राख-

नार. अपराध सहन न करने वाला; अपराधी के ऊपर क्षमाभाव न रखने वाला. Unforgiving. पगह० १, ४; सम० ८० २३६;

**अमल.** त्रि० ( अमल ) निर्भणः, स्वर्गः, निर्मलः; साफ. Pure; clear. राय० ४७; ( २ ) पुं० ( न विद्यते मलं कर्म यस्यासावमलः ) सिद्ध भगवान्. सिद्ध भगवान्, one free from the bondage of Karma; a Siddha. प्रब० १२५४; ( ३ ) ऋषभदेवस्वामीना सातभा पुत्रनुं नाम.ऋषभदेवस्वामी के रातवे पुत्र का नाम. name of the seventh son of Rishabhadeva. कप्प० ७;

**अमला.** छाँ० ( अमला ) शुक्रेन्द्री पांचभी अग्रभिष्ठीनुं नाम. शकेन्द्र की पाँचवी पट्टर्नी का नाम. Name of the fifth principal queen of Sakrendra. ठा० ४, २; भग० १०, ५;

**अनवस्सा.** स्थ० ( अमायस्या ) अमायास; दृष्ट्यु पद्मो छेदो हित्स. अमायासः कृष्ण पञ्च कर्म अन्तिम तिथि. The 15th day of the dark half of every lunar month. “ अमवस्सपडिवयाहि ” पंचा० १६, २०;

**अमहृषय.** त्रि० ( अमहर्धक-महती अध्यात्मूल्यं यस्यासौ महाध्यः; न महाध्योऽमहाध्यः स एवमहावृक्षः ) अहु भृत्याणुं नदिः भस्तुः; थाड़ि डिभतनुः इत्कुं. सस्ता; थोड़ी कीमत वाला; इतका. Cheap; of small value or price. “ अमहृषय इह हु जाणएसु ” उत्त० २०, ४५;

**अमहृद्धर्ण.** त्रि० ( अमहृषयन ) जुआ। ‘ अमहृषय ’ शब्द. देखो ‘ अमहृषय ’ शब्द. Vide “ अमहृषय. ” पंचा० १७, १३;

**अमाइ.** त्रि० ( अमायिन्-न मायाऽस्यास्तीत्य-मायी ) भाया—कुटिलतारहित; सरद; विश्वासपात्र. माया-कुटिलता रहित; सरल; विश्वासपात्र. Free from guile; guileless. “ अलोकुण्ड अकुहप अमाई ” दस० ६, ३, १०; भग० ३, ४; ५; उत्त० ११, १०; पंचा०

१५, १२;—क्लद. त्रि० (-रूप-अमायि रूपं यस्यासावमायिरूपः) सर्वथा भायारहित. सर्वथा माया-कपट से रहित. perfectly free from guile; perfectly guileless. “ एगंतदिटी य अमाइरूप ” सू० १, १३, ६;

**अमाइल्ल.** त्रि० ( अमायाविन् ) भायारहित. छल कपट रहित. Free from guile or deceit. आया० १, ६, ४, १६;

**अमाइल्लया.** छाँ० ( अमायाविता ) भायानो अभाव; भायानो त्याग इरवे. माया-छल कपट का अभाव. Guilelessness; freedom from deceit. टा० १०, १०;

**अमाघाय.** पुं० ( अमाघात-मा लक्ष्मीः साच द्वेषा धनरूपा प्राणरूपा च तस्या धातो हननं तस्याभावोऽमाघातः ) येरी न इरवी ते; इरने भारवुं नदि ते; अभारी. चोरी का न करना; किसीको न मारना. Absence of killing or stealing or both. “ तप्त्यं रायगिंहं नयेर श्रश्याकयाइं अमाघाए धुडे याविहान्था ” उत्त० ८, २४१; पगह० २, १;

**अमागत्त.** न० ( अमानत्त ) अभनिपृष्ठं; भाननो अभाव. मान का अभाव. Absence of conceit. भग० १, ६;

**अमाणुस.** त्रि० ( अमानुप ) भनुप्य संबंधी नदिः भनुप्य शिवायन्. जो मनुष्य सम्बन्धी नहा वह. Not human; pertaining to things; not human. “ अमाणुसासु जोणिमु, विणिहम्मनि पणियो ” उत्त० ३, ६;

**अमाणुस्मन्न.** त्रि० ( अमानुपक ) भनुप्य संबंधी नदिः भनुप्य शिवायन्. जो मनुष्य सम्बन्धी नहा वह; मनुष्यतर. Pertaining to things not human. सम० १०;

**अमाय.** त्रि० ( अमाय ) भायारहित. माया रहित; छल कपट रहित. Free from guile or deceit. आया० १, १, ३, १८;

**अमायंत.** व० कृ० त्रि० ( अमात् ) न भातो; न सभातो. न समाता हुआ. Incapable of being contained. सु० च० ३, ६८;

**अमायत्.** न० ( अमायत्व ) अभायिपङ्क्तुः  
भायानो अभाव. माया का अभाव. Absence  
of guile or deceit. भग० १, ६:  
**अमायि.** त्रि० ( अमायिन् ) जुओ ‘अमाइ’  
शब्द, देखो ‘अमाइ’ शब्द. Vide “अमाइ”.  
भग० ५, ४; १८, ५; २५, ७; —सम्मदिदिः  
पुं० ( -सम्यग्दिष्टि ) भायारक्तिं सम्यग्  
द्विष्टयाऽन्यः दुष्टिलतारक्तिं सम्भिती. माया-  
द्वयं कर्मण राहून सम्यग्द्वयं जीव. a soul  
full of guileless right faith. भग०  
१, २; ३, ६; १६, ५:

**अमावस्या.** त्री० ( अमावस्या ) अमावस्य.  
अमावस्य. The last day of the  
dark half of a month. प्रय० १५६६;  
ज० प०—चंद्र. पुं० ( -चन्द्र ) अमासंगा  
चंद्रमा. अमावस्या का चंद्र. a moon on the  
fifteenth day of the dark half  
of a month. नाया० १०: प्रय० १५६६:

**अमावासा.** त्री० ( अमावास्या ) अमावास;  
दृष्टुपद्मनो छेदलो दिवस. अमावस्या: अमा-  
वस; कृष्ण पद्म का अन्तिम दिन. The last  
day of the dark half of a month.  
“दुवालस अमावासाऽत्रो प० तं० सावर्णी  
षोटुवती जाय आसादी” सू० प० १०:  
“जयाणं भेने! सादित्पुरिणमा भवइ तयाणं  
माही अमावासा भवइ” ज० प० ७,  
१५३; वच० १०, २; कथ० ५, १२७;  
**अमित्त.** न० ( अमेय ) जुओ ‘अमंज्ज’ शब्द.  
देखो ‘अमंज्ज’ शब्द. Vide “अमेज.”  
कथ० ५, १०१;

**अमिमेज्ज.** त्रि० ( अमेय ) डोम्प याग वस्तु  
भायानी आपवानी-कृत्य विकृत्य करवानी अमंज्ज  
सम्पत्तारे नयां भनाई करवामां आदी छे  
ऐवं नगर वर्गरे. ऐसा नगर वर्गरह, जहाँ किरी  
भा वस्तु को नापकर क्रय विक्रय करने का  
अमुक समय तक के लिये मनाहाँ की गई हो.  
( A city etc.) prohibited from  
buying or selling any thing by

a measure of capacity. ज० प० ३;  
भग० ११, ११:

**अमिमेज्जम.** न७ ( अमेध्य ) विथि; अशुचि.  
विष्टा: मत; अशुर्पि. Filth; dirt. तंड०  
—पूरण. त्रि० ( -पूर्ण ) अशुचिश्च भेरेद.  
अशुचि से भरा हुआ. full of filth;  
filthy. तंड०—रस. पुं० ( -रस )  
प्रवाली विथि; अशुचि रस. वहने वाली विष्टा;  
अशुचि रस. liquid excrement. तंड०  
—संभूय. त्रि० ( -सम्भूत ) विथामांथी उत्पन्न  
थमेत्वा. विष्टा में से उत्पन्न. produced from  
excrement or filth. तंड०

**अमिमेज्जमय.** न० ( अमेध्यमय ) विथामय; अशु-  
चिमय. विष्टामय: अशुचियुक्त. Filthy; full  
of filth. तंड०

**अमित्त.** न० ( अमित्र ) अहित करनार;  
दुष्मन. अहित करने वाला; शत्रु; दुष्मन.  
An enemy; a foe. या० ४, ४; नाया०  
१४;

**अमिय.** पुं० ( अमृत ) ज्ञेनो भरवाने  
धर्म नयी ते; सिद्ध भगवान्. जिसका  
मरण का धर्म नहीं है वह; सिद्ध भगवान्.  
A Siddha; one not subject to  
death. पच० २: ( २ ) न० अमृत; सुधा.  
अमृत: सुधा. nectar. भग० ६, ३३; सम०  
प० २३२; गच्छा० ४३:

**अमिय.** त्रि० ( अभिन-न मितं परिभितममितम् )  
अपरिमत; परिभाषुरहित; असंख्येय वा  
अनंत. अर्थम: परिमाण रहित; असंख्य;  
अनन्त. Unlimited innumerable.  
“किवर्गा...मियपि जाणाद् अमियपि जाणाद्”  
भग० ५, ४; ६, १०; उत्त० ३२, १०४;  
कण्ठ० २, ३४; ( ३ ) दक्षिण तरेश्ना  
दिशाकुमार देवतानो धन्द. दक्षिण की ओर के  
दिशाकुमार देवों का इन्द्र. the Indra of  
the Dīśākumāra gods of  
the south. पक्ष० २; —आसाणिय. पुं०  
( -आसनिक ) वारंवार डेक्खाँ  
वैद्यत्वन्तार-

उपेस करनार. बार बार ठिकाना बदलाने वाला; एक स्थानपर न रहने वाला. one changing his seat frequently. कण० ६, ५०; —याणि. पुं० (-शमिं) अनंतशानी; सर्वस; देवगतानी. अनंत शान वाला; सर्वस; केवली. one having perfect knowledge. सम० ४० २४०; —मेह पुं० (-मेघ) जुओ। 'अमयमेह' शब्द. देखो 'अमयमेह' शब्द. vide "अमयमेह." "एथाण अमियमेह याम महामेह पाउडभविस्तइ" ज० ४०

अमियग्रह. पुं० ( अमितगति ) दक्षिण दिशाना दिशाकुभार जनिना। देवताने ४८८; भवनपतिना २०१ ४८८भानो। एक दक्षिण दिशा के दिशाकुमार जाति के देवों का इन्द्र; भवनपतियों के २० इन्द्रों में से एक इन्द्र. The Indra of the Disākumāra gods of the south; one of the twenty Indras of Bhavanapatnis. ठा० २, ३; पञ्च० २; सम० ३२; भग० ३, ८; ज० ४० ७, १६६;

अमियभूय. त्रि० ( अमृतभूत ) अमृत पुरुष. अमृत के समान. Nectarious.

'जियवयणसुभासियं अमियभूयं' आउ० ६३; अमियवाहण. पुं० ( अमितवाहन ) उत्तर दिशाना दिशाकुभार देवताने ४८८; भवनपतिना २०१ ४८८भानो। एक उत्तर दिशा के दिशाकुमार देवों का इन्द्र; भवनपतियों के २० इन्द्रों में से एक इन्द्र. The Indra of the Disākumāra gods of the north, one of the twenty Indras of Bhavanapatnis. सम० ३२; ठा० २, ३; पञ्च० २; भग० ३, ८;

अमिल. न० ( अमिल ) अभिल देशी अनावटनु वज्ञ; उन्तु वज्ञ. अमिल देश का बना हुआ वस्त्र; जन का कपड़ा. A cloth made in the Amila country; a woolen cloth. आया० २, ५, १, १४५;

अमिलक्षु. पुं० ( अमेच्छ ) अनेक भाषा न

जानुनार; आर्य. म्लेच्छ भाषा न जानने वाला; आर्य. A civilized man; an Ārya. सू० १, १, २, १५;

अमिला. ली० ( अमिला ) २१ भा. नमिनाथ तीर्थकर्ता भुज्य साधी. इकीसवें नमिनाथ तीर्थकर की मुख्य साधी. The chief female ascetic of the twenty-first Tīrthaṅkara Naminātha. सम० ४० २३४;

अमिलायण. त्रि० ( अम्लान ) ५२भाई ग्रेक्ष नहि; मलिन थथेक्ष नहि; तालुं ताजा; जिना सुरक्षाया हुआ; जो मलिन न हुआ हो वह. Unwithered; fresh. ओढ़।

अमिलाय. त्रि० ( अम्लान ) जुओ। 'अमिलाय' शब्द. देखो 'अमिलाय' शब्द. Vide "अमिलाय." भग० ११, ११; ज० ४० —मल्लदाम. न० (-माल्यदामन्) न ५२भाईक्ष फूलनी भाण। न सुरक्षाये हुए फूलों कीमाला. a garland of unwithered flowers. भग० ११, ११; कण० ५, १०१;

अमिलित्र. त्रि० ( अमिलित ) एक सूत्रभां धीमं संतो भेणवी—लेण संभेण करी ऐक्षुनु ते भिलित देष्ट, ते देष्ट लेभां नथी अनुं॒ एक सूत्र में दूसरे सूत्रों को भिलाकर—गठ पट करके बोलना मिलित दोष कहलाता है, यह दोष जिसमें नहीं है ऐसा. Free from the fault of causing confusion by intermixing one Sūtra with another. आणुजो० १३; भग० ४३, १; विशेष० ८५४;

अमुद. त्रि० ( अमोचित ) लीधेक तर्थने न छेडनार—अध्यवय न मुडनार. उठाये हुए काम को बीच में न छोड़ने वाला. (One) not leaving a work half done. विशेष० ३४०३;

**अमुच्छो.** व० क० त्रिं० (अमुच्चतः अमुच्चत्)

( ‘अमुच्चत्’ शब्दनी पढ़ीनु ऐक वचन, ‘अमुच्चतः’ ऐ संस्कृत शब्दनो अनुवाद छे). न मुक्तो; न छेड़ो। “अमुच्छत्, शब्द की बष्टा विभक्ति का एक वचन” नहीं ढाँड़ता हुआ; स्थापन करता हुआ। Not abandoning; not leaving off. उत्त० ३६, ५१;

**अमुग.** त्रिं० (अमुक) अमुक; इकायेहा; भगे ते डेख ऐक. अमुक; फलाँ; कोई एक. Certain; some one. वव० २, २२; ७, ५; नंदी० ३५; दस० ७, ६; ५०; विशेष० १५६०;

**अमुच्चयमाण.** व० क० त्रिं० (अमुच्चयमान) न छेड़ाते। नहीं छूटता हुआ। Not being abandoned. भग० ६, ३३;

**अमुच्छा.** लां० (अमुच्छा) भून्धनी अलाप. मूच्छा का अभाव. Absence of attachment. भग० १, ६;

**अमुच्छिआ-य.** त्रिं० (अमुच्छिआ) मुच्छि-आसक्तिरहित. मूच्छी रहित; ममत्व रहित; आसक्ति रहित. Free from attachment. दस० ५, १, १; ५, २, २६; १०, १, १६; उत्त० ३५, १७; नाया० १७; १६; भग० १४, ७; आया० २, १, ५, २६;

**अमुण्ठन.** व० क० त्रिं० (\*अज्ञानत) न जानो। नहीं जानता हुआ। Not knowing. विशेष० ३३२;

**अमुण्ठिय.** त्रिं० (\*अमुण्ठित-अज्ञात-नास्ति मुण्ठितं ज्ञानं यत्र तदमुण्ठितम्) अनपथी; ज्ञानरहित. नहीं जाना हुआ; ज्ञान रहित. Ignorant; devoid of knowledge. पराह० १, २; प्रव० २४८; उत्त० १२४; —नाम. त्रिं० (-नामन) नेनु नाम जानवामां नथी तेवीपस्तु. अज्ञानाम की वस्तु. ( a thing )

of unknown name. प्रव० २४८; —संख. त्रिं० (-संख्य) नेनी संख्या। ज्ञानवामां नथी ते; अपरभित. संख्या रहित; जिसकी संख्या की जानकारी न हो वह; परिमाण रहित. of unknown measure or quantity; unlimited in quantity सु० च० २, ६४१;

**अमुत्त.** त्रिं० (अमुकत) संसारथी मुक्त नथी थये ते; संसारी. जो संसार से मुक्त नहीं हुआ वह; संसारी. Not liberated from worldly existence. या० ४, ४; १०; जं० प० ५, ११२;

**अमुत्त. त्रिं०** (अमूर्त) अमूर्त; वर्ण, गंध, रस आने रपरीरहित धर्मास्तिकाय वगेरे. अमूर्त; मूर्ति रहित; वर्ण, गंध, रस आंग स्वर्ण रहित धर्मास्तिकाय आदि अमूर्त इव्य. ( Substance like Dharmastikaya ) devoid of colour, smell, taste and touch. विशेष० ६८८; —भाव. पुं० (-भाव) अमूर्तपञ्च. अमूर्तता. state of being devoid of colour, smell, taste and touch. “अमुत्तभावा विय होइ यिच्छो” उत्त० १४, १६;

**अमुत्ति.** लां० (अमुकित) भेक्षनो अभाव. मोक्ष का अभाव. Absence of salvation. (३) लेख. लोभ. greed; avarice. पराह० १, ५;

**अमुय.** त्रिं० (अमुक) जुओ। ‘अमुग’ शब्द. देखो ‘अमुग’ शब्द. Vide ‘अमुग.’ पि० नि० ५२८;

**अमुय.** त्रिं० (अस्मृत) अस्मृतिमां नहि आवेद. स्मृति में नहीं आया हुआ। Not remembered; unrecalled. सू० २, ७, २८; भग० ३, ७;

**अमुयंत.** व० क० त्रिं० (\*अमुच्चत) न छेड़ते;

न भुक्तोऽनहीं छोड़ता हुआ; न त्यागता हुआ.  
Not abandoning; not giving up. भग० ६, ३२;

**अमुय-द-ग. त्रि०** ( अमृतक ) व्याख्या अने  
आभ्यन्तर पुण्यगति दीर्घा विना वैष्णवशरीर  
भनावनार. बाह्य और आभ्यन्तर पुण्यगति प्रहरण  
किये जिना वैकियशरीर बनाने वाला. (One)  
who makes or creates a Vai-  
kriya body (i.e. one which can  
be made large or small at will)  
without taking particles of  
matter either from inside the  
body or outside it. ठा० ७;

**अमुचा.** अ० ( अमृता ) सत्य; सत्त्व; सचाई.  
Truly; not falsely. सूर्य० १, १०,  
१२;

**अमुह.** त्रि० ( अमुख ) निरुत्तर; ज्ञान न आपी  
रहे ते. जो उत्तर न दे सके वह. Having no  
answer to give; tongue-tied.  
भग० ८, ६;

**अमुहरि.** त्रि० ( अमुखरिक् ) वाचाण नहि ते;  
भुजेदो नहि ते; जो बातून न हो वह;  
जो ज्यादह नहीं बोले वह. Not loqua-  
cious; not flippant. “निसंते सिथा  
मुहरी” उत्त० १, ८;

**अमूढ.** त्रि० ( अमूढ ) भूद नहि ते; तत्त्वने  
ज्ञानुनार; सन्मार्ग ज्ञानुनार. जो मूढ न हो  
वह; तश्चक्ष; सन्मार्ग जानने वाला. (One)not  
a block-head; (one) who knows  
the reality; (one) knowing the  
true path. नाया० १७; दस० १०, १, ७;  
—दिटि. छाँ० (-हृषि) अन्य दर्शनीयी  
धार्म धुम तरक्ष भोख वगरनी दृष्टि-युक्ति;  
समक्षितना आठ आचारभाना योथा आचार.  
अन्य धर्मों की ओर माह रहित दृष्टि; सम्यक्त्व  
के आठ आचारों में से चौथा आचार. sight

or view uninfatuated by the  
pomp etc. of other creeds; the  
fourth of the eight practices of  
right faith. पञ्च० १; उत्त० २८, ३१;  
प्रब० २६६; पंचा० १५, २४; —लक्ख.  
त्रि० (-लक्ष्य-अमूढः सुनिर्णयो लक्ष्यो बोध-  
विशेषो यस्य स तथा ) परस्तुना स्वरूपेने  
यथार्थ ज्ञानुनार. वस्तु के स्वरूप को यथार्थ  
रूपति से जानने वाला. (one) knowing  
the real nature of things;  
possessed of a correct know-  
ledge of the reality of things.  
पंचा० १४, २८; —हृत्थ. त्रि० (-हस्त )  
हृथनी कृषिमां हुशीयार; हुरतकृषि कुशल.  
हाथ की कारिगरी में कुशल. proficient in  
handicrafts ; skilful in  
manual arts. नाया० ६;

**अमूढ.** त्रि० ( अमूढ ) लुओ ‘अमूढ’ शब्द. देखो  
‘अमूढ’ शब्द. Vide ‘अमूढ’. नाया० ६;  
**अमेज्ज.** न० ( अमेय ) डेढ़मे अमुक प्रभत  
सुधा डेढ़ वर्षुत भ.पीन डेढ़में येचाती  
आपनी नहि अवेदा नीकेल ६५म.  
‘कोई भी अमुक समय तक किसी वस्तु के  
नापकर न बेचे’ इस प्रकार की निकली  
हुई आज्ञा. Temporary prohibition  
of sale by measurement ज० प०  
भग० ११, ११;

**अमेझम.** त्रि० ( अमेध ) अपवित्र. अपवित्र;  
पवित्रता रहित. Impure; unfit for  
religious purposes. विश० ३४०५;  
न० पिशा; नरग. विषा; मल. excreta;  
faeces. तंडु०

**अमोसलि.** न० ( अमुसलि-न मुसली  
किया यस्मिन् प्रत्युपेक्षणे तदमुसलि )  
पड़िलेदृश्य उत्तां वर्जने मुश्कल-साधेलानी  
भाइ५ उच्च नीचुं फरी उपरि के नीये

७भीनने न अडाउनु ते; पडिलेहुनुनो। ऐक शुणु। पडिलेहन करते समय वस्त्र को मूसल के समान ऊंचा नीचा करके ऊपर या नीचे ज़र्मान से न छुआना; पडिलेहन का एक गुण। A virtue in the examination of clothes or garments; not raising up or lowering down like a pestle the cloth to be examined and so preventing it from touching the ground etc. उत्त० २६, २५; ठा० ६, १;

**अमोह.** त्रि० ( अमोघ ) अवन्ध्य; सद्गत; जो वन्ध्य न हो वह; जो कभी असफल न हो वह. Unfailing; sure of effect. विशेष० १८४; ३०१६; विवा० ४; उत्त० १४, २१; दस० ८, ३३; ( २ ) पुं० डेई वधुते सूर्यना विष्णुनी नीये गाडानी उध-घोरीआने आकारे काली डेणीगत रंगनी रेखादेखाय छेते. कर्मा कर्मा सूर्य के नीचे गाढ़ा के ऊद के आकार की काली या दूसरे किसी रंग की जो रेखा दिखलाई पढ़ती है वह. lines which sometimes appear under the disc of the sun resembling the front narrow pole of a cart. श्रणुजो० १२७; जीवा० ३, ३; भग० ३, ७; ( ३ ) वाद्यां पगरनी विजगी। बिना बादलो की बिजली. lightning without clouds in the sky. जीवा० ३; —दंसि. त्रि० (-दर्शन्) यथार्थ ज्ञेनार. यथार्थ देखने वाला. of uninfatuated sight or vision; ( one ) knowing the real nature of things. विवा० ३; दस० ६, ६८—वयण. न० ( -वचन ) सार्थक-सरणी वयन. सार्थक वचन; सरल वचन. sensible or straight

forward speech; speech productive of proper effects. ठा० ४, ३;

**अमोह.** त्रि० ( अमोह ) भोहरहित. मोह रहित. Free from delusion or infatuation. भग० १७, २; ( २ ) पुं० जंभू भंदरना रुचक पर्वतनो। ऐक दूट -शिखर। जंबू मंदर के रुचक पर्वत के एक शिखर का नाम. name of a summit of the Ruchaka mountain of Jambū Mandara. ठा० ८;

**अमोहा.** क्षी० ( अमोहा ) जंभू सुदर्शनातुं अपर नाम. जंबू सुदर्शना का दूसरा नाम. Another name of the Jambū Sudarśanā. जं० ८० जावा० ३, ४; ( २ ) पश्चिमहिशाना अंजनक पर्वतनी दक्षिण तरफ़नी ऐक वावडीतुं नाम. पश्चिमोद्य अंजनक पर्वत की दक्षिण ओर की एक वावडी का नाम. name of a well in the south of the western Anjanaka mountain. जीवा० ३, ४; ठा० ४, २; प्रव० १५०२;

**अम्म.** ज्ञा० ( अम्मा ) भाता; भा. मा; माता. Mother. नाया० ८;—आश्र. पुं० ( -तात ) भाआप; भातापिता. मावाप; माता पिता. father and mother; parents. नाया० ६;—ताआ-य. पुं० ( -तात ) जुओ। 'अम्मआश्र' शब्द. देखो 'अम्मआश्र' शब्द. vide 'अम्मआश्र'. उत्त० १६, ११; भग० ६, ३३;—धाई. ज्ञा० ( -धात्री ) धावभाता; धाई. धाय. a wet-nurse; a nurse who suckles a child for its mother. भग० ६, ३३; नाया० ८; १४; १६;—याआ. पुं० ( -तात ) जुओ। 'अम्मआश्र' शब्द. देखो 'अम्मआश्र' शब्द. vide 'अम्मआश्र.' अत० ६, ३; नाया० ८;

**अस्मगा.** ली० ( अस्मा ) भाता; भा. माता; मा.

Mother. भग० ६, ३३;

**अस्मड़.** पुं० ( अस्मद् ) ए नाभनो ऐक संन्यासी, डे जेणे भद्रावीरस्वाधीना शासनभां तीर्थकरनाभगोत्र उपार्जन कर्यु. इस नाम का एक संन्यासी, जिसने कि महावीरस्वामी के शासन में तीर्थकरनामगोत्र उपार्जन किया. A hermit so named who attained Tirthankara Nāmagotra during the rule of Mahāvīra. भग० १४; द; ठा० ६, १; ओव० ३६;

**अस्मया.** ली० ( अस्मिका ) भाता; भा. मा; माता. Mother. विवा० २; नाया० ३;

**अस्मा.** ली० ( अस्मा ) भाता; भा. माता; मा.

Mother. अंत० ३, ८; सम० प० १७६;

भग० १, ७; द, ५; ६, ३३; १५, १;

कल्प० ५, १०२; नाया० १; ६; १८;

—पिद्समाण. पुं० (-पितृसमान)

भाता पिता समान; साधु-मुनिने ऐकांत हितकारी श्रावक. माता पिता के समान; साधु-

मुनि के जिये एकान्त हितकारी श्रावक. (any body) equal to or in the place of parents; a Jaina householder devoted wholly to the interests of ascetics. ठा० ४, ३;—पितृ.

पुं० (-पितृ) भातापिता; भाआप. माता पिता;

माबाप. parents. राय० २८६; ठा० ३, १;

ओव० ३८; नाया० १;—पिति. पुं० (-पितृ)

भातापिता; भाआप. माता पिता, माबाप.

parents. अंत० ६, ३;—पितिसमाण.

पुं० (-पितृसमान) जुओ। 'अस्मापिह-

समाण' १७८६. देखो 'अस्मापिहसमाण'

शब्द. vide 'अस्मापिहसमाण.' ठा० ४, ३;

—पियर. पुं० (-पितृ) भातातान; भा-

आप. माबाप; माता पिता. parents.

निर० १, ३; भग० ६, ३३; ११, १०; १५,

१; सु० च० ३, ३६३; दसा० १०, ३; नाया० १;

द; ६; १६; १८; ठा० ३, १; अंत० ६, ३;

कल्प० ५, १०२;—पेतृय. त्रिं० (-पैतृक)

भातापिता संबंधी. माता पिता सम्बन्धी. of

parents. "अस्मापेहपण भते ! सरीरए

केवहर्य कालं संचितह" भग० १, ७;

अस्म. त्रिं० ( अस्मद् ) हु; पेते. मैं; खुद व-

खुद; स्वयं. I; the first person singular.

अहं. प्र० ए० ठा० ५, १; आया० १, १, १, २;

मं. प्र० ए० विशे० २४;

अस्मं. प्र० ब० नाया० १; २; ४; द; १४;

१६; भग० ३, १; २; ५, १०;

११, ११; १५, १;

अहं. प्र० ब० नाया० १; ३; ५; द; ६;

१४; १६; भग० १, ३; ६; १, १; ५,

४; ७, १०; द; ७; ६, ३३; १२, १;

१८, २; द; १४, ३; अंत० ६, १५;

राय० ३०; २४१; पंचा० ६, २७; जं०

प० ५, ११३;

मे. द्वि० ए० नाया० १; द; १६; नाया० ध०

भग० ३, २; दस० ५, २, ३७;

६, १, १३;

मम. द्वि० ए० भग० ३, २; १३, ६; १५, १;

नाया० १; ५; द; ६; १४; १५;

१६; १८;

मम. द्वि० ए० नाया० १; ७; १६; भग० १५, १;

अस्मं. द्वि० ब० नाया० १; ३; ५; द; ६; १४;

१६;

अस्महे द्वि० ब० नाया० ३; ६; १४;

अस्मं. तृ० ए० ठा० ४, १; निर० १, १;

आया० १, १, १, १;

मे. तृ० ए० नाया० १; द; भग० १४, ७;

दस० ४; ५, २, ३१; ६, ४, १;

मए. तृ० ए० भग० १, ४; २, १; ३, २; ७,

६; द; १०; १५, १; १७, ३;

३४; १; नाया० १; २; ५; ७; ८;  
६; ११; १२; १३; १४; १६;  
अग्नेहि. तृ० व० नाया० १; ८; १६; भग० २,  
१; ६, ३३; १५, १; जं० प० २, २४;  
ममाहिंतो. पं० ए० भग० १५, १; नाया० १६;  
मम. प० ए० भग० ३, २; ६; ५; ४; ६, ३३;  
१८, ८; २०, ८; नाया० ४; ७; ६;  
१२; १४; १६; १८;  
मउक्-उक्कं. प० ए० नाया० ६; दसा० ६, २४;  
२५; विशे० १६१; पिं० निं०  
३७६; सु० च० १, २;  
महं-अम्हं. ष० ए० नाया० १२; १६;  
आया० १, ६, २, १८३;  
मम. प० ए० भग० २, १; ३, २; ५, ४; ७,  
६; १५, १; ४२, १; नाया० १;  
२; ५; ७; ८; ६; १२; १४;  
१५;  
मे. प० ए० भग० १, ३; २, १; ३, १; २;  
५, ४; ८; ८; ११, ११; १८, १०;  
नाया० १; ५; ८; ६; १३; १६;  
दस० ४; ५, १, ५२; ७६; ६४;  
५, २, ३१; २७; ६, ४; ८; ८, १;  
वब० १, ३७; निसी० १४, १२;  
अम्हं. प० व० नाया० १; २; ३; ४; ५; ७;  
८; ६; १४; १५; १६; १८; भग०  
७, १०; ६, ३३; ११, ११;  
१५, १; १८, २; विवा० ६; पिं०  
निं० ४८६;  
अग्ने. प० व० नाया० ७; ६; १०; १४; १६;  
भग० १२, १; ओव० ३८; विया०  
५; जं० प०  
अम्हाण्. प० व० नाया० ५; ८; भग० ३, १;  
अम्हारिस. त्रि० ( अस्मादश ) अभारा  
नेवा। हमारे जैसा; हमारे समान। Similar to us; like us; resembling us.

“जे दुज्या आजो अम्हारिसेहि” उत्त० १३,  
२७; सु० च० १, १६;  
अय. पु० (अज) पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रनेन अधिष्ठाता।  
देवता। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अविष्टातु देव।  
The presiding deity of the Pūrvā Bhādrapada constellation.  
“दो अया” ठा० २, ३; अणुजो० १३१; (२)  
४५२३। बकरा। a goat. पञ्च० १; जं० प०  
५, ११४;—ककरभोइ. त्रि० (—करकरभोजि-  
न्-अजस्थ कर्करं कर्करायितं मांसं भोक्तुं  
शीलमस्येति) ४५२३। एक२ मांसनु अक्षय  
४२२। बकरे के कर्कर मांस का भज्ञण करने  
वाला। (one) eating the crisp flesh  
of a goat. ‘अयककरभोई या, तुंदिल्ले चिय  
सोणिए’ उत्त० ७, ७;—करग. पु० (—करक)  
अक्षयारी अहमानें १७ भे। भद्राभद्र। अव्यासी  
ग्रहों में से १७ वाँ महाग्रह. the seventeen-  
teeth major planet of the ८८ planets. ‘दो अय-  
करगा’ ठा० २, ३; सू० प० २०; जं० प०  
७, १७०;—गर. पु० (—गर-अजं गिरती-  
त्यजगर:) अज-४५२३ने पञ्च० गणीजनार;  
सर्णी। एक जल; मेहुटो। सर्पे। बकरों को  
भी लील जो। वाला। सर्प की एक जाति;  
बड़ा भारी सर्प; अजगर। a huge kind  
of serpent swallowing even a goat; a boa-constrictor. जावा०  
१; पञ्च० १; सूर्य० २, ३, २४; जं० प० ३,  
२४;—पोसथ. त्रि० (—पोषक) ४५२३ने  
पाणनार-पो४५६। बकरों को पालने वाला。  
a shepherd; herdsman.  
निसी० ६, २३;—बीहि. ली० (—बीधि)  
हुस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। अने अनुराधा  
ए पांच नक्षत्रनी चाल-गतिविशेष। हुस्त,  
चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा हन  
पांच नक्षत्रों की चाल-गतिविशेष। the  
motion of (peculiar to) the five

constellations viz Hasta,  
Chitrā, Svāti, Viśākhā and  
Anurādhā. ग० ६, १;

आय. न० ( अयस् ) लोहुः धातुविशेषः लोहुः  
लोहा. Iron. जीवा० ३, १; राय० २५३;  
पञ्च० १; ओव० ३८; उत्त० ३६, ७३; दस०  
५, १, २३; द, २३; भग० ३, ३; ५,  
२; १६, १; १८, ६;—आगर. पुं०  
(-आकर) लोहानी खाण. लोही. लोहे की  
खदान. iron-mine. निसी० ५, ३७;  
ठा० ७;—कवल्ल. न० ( -कवल्ल० )  
लोहानी तपेः लोही. लोहे का तपा. an iron  
pan. ' केहु पुरिसे तत्त्वंसि अयकवल्लंसि '—  
भग० ६, १;—कुण्डिया. छी० (-कुण्डिका)  
लोहानी कुंडी. लोहे की कुंडी. an iron  
vessel resembling a large or a  
small tub. विवा० ६;—कोहुय. न०  
(-कोष्ठक) लोहु तपावनानी कोही-भट्टी.  
लोहा तपाने की भट्टी. an oven to heat  
iron; a furnace. भग० १६, १;—गोल.  
पुं० (-गोल) लोहानी गोलै. लोहे का गोला.  
an iron-ball. गा० ४, ४; सूर्य० २, २,  
६५; पिं० निं० ४६०;—गिर्वत्तिय. त्रि०  
(-निर्वत्तित) लोहानु भेन्दु, लोहुथी निष्ठेन्दु.  
लोहे का बना हुआ; लोह से उत्पन्न. made of  
iron. भग० १६, १;—पाय. न० (-पात्र)  
लोहानु भात्र-वास्थु. लोहे का बरतन. an iron  
vessel. आया० २, ६, १, १५३,  
निसी० ११, १;—बंधण. न० (-बन्धन)  
लोहानु भंधन-भंध. लोहे का बंध; लोहे का  
बंधन. an iron band or fetter.  
निसी० ११, २;—भार. पुं० (-भार)  
लोहानी भार. लोहे का भार-वज्जन. load  
of iron. भग० १३, ६;—रासि. पुं०  
(-राशि) लोहानी राशि. लोहे का ढेर.  
a heap of iron. भग० १६, ६;—लोह.

पुं० (-लोभ) लोहने. लोभ-पंचलृति.  
लोहे का लोभ; लोहा संग्रह करने का लोभ.  
g r e e d to store up iron.  
निसी० ७, ५; १७, ६;—हारि. त्रि० (-हारि-  
न) सेनुं रूपुं वगेरने भुमि लोहानेज उपा-  
उनार; लोहालिपे। सोना चांदी वगैरह छोड  
कर लोहे को ही उठाने वाला; लोहाह्या-लोहे  
का व्यापारी. ( one ) carrying away  
iron leaving aside gold, silver  
etc. सूर्य० १, २, ४, ७;

अयं. पुं० ( अयम्-हदम्-प्र०ए० ) आ; रहमे.  
नजर अग्नि। यह; सन्मुख; निगाह के आगे.  
This. नाया० ८; १४; १६; १८; भग० १, ४;  
२, ५; ६; ७, १०; १६, १; दस० ५, २, ३४;  
अणुजो० १६; वव० ४, १३;

अयंतिय. त्रि० ( अयन्त्रित ) राजनी भेद०-  
७५५ विनानु; नेना उपर राजनी भुमि नथी  
अवे: सिंहेण वगेरे. राजा की मुद्रा रहित  
सिंहा वगैरह. ( A coin etc.) not bear-  
ing the seal of the king. पोङ्गेव  
मुट्ठी जह से असारे, अयंतिए कूड़कहा वगे-  
रा " उत्त० २०, ४२;

अयंपुल. पुं० ( अयंपुल ) अयंपुल नामे गो-  
शलानो गोड सेवक. गोशला का अयंपुल  
नाम का एक सेवक. A devotee of Go-  
salā by name Ayampula. भग०  
३, ७;

अयंपुलय. पुं० ( अयंपुलक ) लुभ्या उपले।  
शास्त्र. देखो ऊपर का शब्द. Vide the  
above word. भग० द, ५; १५, १;

अयंसंधि. त्रि० ( अयंसन्धि-अयं सन्धिर्यस्य  
साधोरसावयंसन्धिः-यथाकालमनुष्ठानविधा-  
यी, यो यस्य वर्तमानः कालः कर्तव्यतयो-  
पस्थितस्तस्य तत्करणतया तमेव सन्धत्त हृति  
छान्दसत्वाद्वभक्तेरलुक् ) ने वभत्तुं शा-

भयाय, पडिलेहुय आदि ने काम होय ते वर्ख.  
तेज ते काम करनार; वर्खतसर काम करनार.  
स्वाध्याय, पडिलेहन आदि जो काम जिस  
समय का हो वह काम उसी समय पर करने  
वाला; समय पर काम करने वाला. Punctual in the performance of  
religious and other actions.  
आया० १, २, ४, ८७;

अथणा. पुं० ( अथन ) सूर्य अंदरने भाँड़लेथी  
भङ्गर नय के भङ्गरने भाँड़लेथी अंदरने भाँड़ले  
आनी एक आश्रिति पुरी करे तेटले। वर्खन;  
त्रिष्णु अंतु अथवा ७ मास प्रभाषे एक अथन  
थाय छे, एक वर्षमां ऐ अथन थाय. पोपथी  
आपाठ सुधी उत्तरायण अने आपाठी पोपा-  
सुधी दक्षिणायन. सूर्य की अन्तरंग या बात्य  
मंडल की एक पूरी आवृत्ति में जो समय व्यतीत  
हो वह; एक वर्ष में दो अथन होते हैं. एक दक्षि-  
णायन दूसरा उत्तरायण. पौष मास से आशाढ  
तक उत्तरायण होता है और आशाढ से पौष  
तक दक्षिणायन. यह अथन का समय सूर्य की  
गति पर अवलंबित है. The duration required for the sun  
to make a complete revolution from outer to the inner orbit or  
vice versa. जीवा० ३, ४; जं० प० २, १८;  
अण्युजो० ११५; ओव० १७; सू० प० ३४०  
२, ४; भग० ५, १; ६, ७; २५, ५; विश०  
२०७१; ओध० निं० २८२; ( २ ) ए नाभनुं  
एक शास्त्र. इस नाम का एक शास्त्र. a  
science of this name. ओव० ३८;  
अथण. न० ( अतन - अत्सातस्यगमने, भावेकुञ्ज,  
अतनमनादिकालात्सातत्यभवनप्रवृत्तम् ) अ-  
नादि काण्ठी निरंतर उत्पन्न यथाभां प्रवर्तेत्वं.  
अनादि काल से निरंतर उत्पन्न होने में जो  
प्रवृत्त हो वह. Being eternally and  
ceaselessly produced. अत्सातस्यगमने-

महवा सावजमर्ह य जोगांसि' विश० ३५७८;  
अथण. न० ( अदन ) अभ; भोराक. खुराक;  
अज. Food; food-stuff. प्रव० १३६;  
अथल. त्रि० ( अथल ) ज्येष्ठा विनानुं; यतना.  
रहित. यस्ताचार रहित. Without inspection  
in the matter of living beings. दसा० ६, ४;

अथर. पुं० न० ( अतर ) सागरोपभू४ काणा०  
परिभाषितिरेप. सागरोपम प्रमाण काल  
विभाग. A period of time measured  
by or equal to a Sāgaropama.  
“ तीक्ष्णं अयरेहि रथरहिओ ” प्रव० ४०१;  
१०४७; विश० ३३३५;

अथल. पुं० ( अचल ) अंधकृष्णिना० पुत्र-  
छढ़ा दशार्ह, ते नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा लध,  
भार वरसनी प्रवल्लभा पाणी, शंतुञ्जय उपर  
एक मासने संथारो करी, सिद्ध थया. अन्धक-  
वृष्णि का पुत्र-छढ़ा दशार्ह, जो कि नेमिनाथ प्रभु  
के पास से दीक्षा लेकर, बारह वर्ष तक प्रवज्या  
का पालन करके, शंतुञ्जय पर्वत पर एक मास  
का संथारा कर, सिद्धगति को प्राप्त हुआ. The  
sixth Dasārha, son of Andhaka-  
vṛiṣṇi. He took Dikṣā from  
Neminātha, observed asceticism for twelve years, practised  
Santhārā for one month on mount Śatruñjaya and became a  
Siddha. अंत० १, ६; ( २ ) अंतगड सूत्रना०  
पहुळा वर्गना० छढ़ा अध्ययन-नुंनाम. अंतगड सूत्र  
के पहुळे वर्ग के छठे अध्याय का नाम. name  
of the sixth chapter of the first  
section of Antagada Sūtra. अंत०  
१, ६; ( ३ ) त्रि० निश्चक; स्थिर. निश्चल;  
स्थिर. steady; motionless. जं० प०  
३, ५३; भग० १, १; कप्प० ३, १५; ५,  
१०३; ( ४ ) प्रथम वर्णदेवतुं नाम. प्रथम

बलदेव का नाम. name of the first Baladeva. प्रद० १२२५;

अथलभाया. पुं० ( अचलभात् ) जुओ। ‘अचलभाया’ शब्द. Vide ‘अचलभाया. विरो० १६६५; अथला. ली० ( अचला ) जुओ। ‘अचला’ शब्द. देखो ‘अचला’ शब्द. Vide ‘अचला’. नाया० ध० ६;

अयस. न० ( अयशस् ) अप्पयशः; अपशीर्ति. अपयशः; बुराई. Infamy; ill fame. “ अप्रसो य अणिच्चाणः ” दस० ५, २, ३८; ओव० ४१; भग० १४, ८; क० प० ४, ३७; —कर. त्रि० ( -कर ) अप्पयश करनार. बुराई करने वाला. defaming; bringing on ill fame; scandalous. भग० ६, ३३; —कारय. त्रि० ( -कारक ) अपशीर्ति करनार. बुराई करने वाला. scandalising; defaming. भग० १५, १; —दहुल. त्रि० ( -बहुल ) जेनी अपशीर्ति. धृष्टि थमेली छे अवो. जिसकी बुराई बहुत हुई है वह. highly infamous; notorious. दसा० ६, १;

अयसी. ली० ( अतसी ) अक्षरी; अ॒॑ ज्ञातुं तेजवाणुं धान्य. अलसी; एक तरह का तेज वाला धान्य. A kind of oily seed; linseed. नाया० ८; ६; भग० ६, ७; २१, ३; ओव० २२; जीवा० ३, ४; उत्त० ३४, ५; पञ्च० १; जं० प० प्रव० १०१३; (२) अक्षरीं अ॒॑ ज्ञातुं अ॒॑ छेऽवो. अलसी का फाइ. a plant of the above seed. पञ्च० १७; ओध० नि० ४०६; —कुसुम. न० ( -कुसुम ) अक्षरीं अ॒॑ फूल. अलसी का फूल. the flower of the Alasi plant. नाया० ५; —पुण्ड. न० ( -पुण्ड ) जुओ। उपो० शब्द. देखो ऊपर का शब्द. Vide the above word.

उत्त० ३४, ६; —क्षेत्र. न० ( -क्षेत्र ) अक्षरीं जीनुं वन. अलसी का वन. a forest of Alasi plants. भग० १, १; —दरण. पुं० ( -दरण ) अक्षरीं फूलते रंगः स्याम् वर्णु. अलसी के फूल का रंग; स्याम् वर्ण. bluish colour of the flower of the Alasi plant. (२) त्रि० अक्षरीं जेना रंगायो; काणा रंगते. अलसी के समान रंग वाला. black; of the colour of the Alasi plant or flower. उत्त० १६, ५६;

अया. ली० ( अजा ) अ॒॑करी. बकरी. A she-goat. भग० १२, ६; पि० नि० १३२; —कुचिछि. त्रि० ( -कुचि-अजायाः कुचिरिदं कुचिर्भवत तथा ) अ॒॑करीनी भाईं नाना पेटायो। बकरी के समान छोटे पेट वाला. having a small belly like that of a she-goat. उत्त० ३, १०१; —वज. पुं० ( -मज ) अ॒॑करीनो वाडो। बकरियों का बाड़ा. a fold or pen in which goats are enclosed. “ केह-पुरिसे अयासप्सस पूर्गमहं अयावयं करेजा ” भग० १२, ७;

अयाणंत. व० कृ० त्रि० ( अजानत ) अग्नाशः न० ज्ञानुतो. अजान; नहीं जानता हुआ. Not knowing, ignorant. पञ्च० १; सूर्य० १, १, ६; १, १, २, ४; उत्त० ८, ७; पि० नि० ४९६; पञ्चा० ११, ३७;

अयाणग. त्रि० ( अपशायक-अजानान ) अरा; न० ज्ञानुन॒॑रन जानने वाला; अज्ञ. Not knowing; ignorant. पञ्चा० १७, २५;

अयाणमाण. व० कृ० त्रि० ( अजानान ) न० ज्ञानुतो; अग्नाशु. अजान; न जानता हुआ. Not knowing, ignorant. “ पावस्सस फलविवागं अयाणमाणा वद्वत्ति ” परह० २, ४४

अयावणिङ्ग. त्रि० ( अयापद्मीय ) ज्ञेन्यथौ

कार्य न सरे तेवुं; प्रयोजनं पुरतुं नहि.  
जिससे काम न हो सके ऐसा; जिससे प्रयोजन  
पूरा न हो वह. Not capable of ac-  
complishing one's purpose; falling  
short of one's requirements.  
भग० ७, ६; —उद्ग. न० (-उद्ग) प्रयोजन  
न सरे तेवुं आशी. उतना जल जिससे कार्य  
भाग न हो सके. water not enough to  
serve the purpose. भग० ७, ६;  
**अथावद्यटु.** त्रि० ( अथावदर्थ—न यावदधौं-  
यत्र तत्त्वा ) अपरिपूर्णः लेखम् नेटनुं नहि;  
अधुं. अपूर्णः; जितना चाहिये उतना नहीं;  
अधूरा. Inadequate; insufficient;  
incomplete. “ अथावद्यटा भोज्ञाणं, जइ  
तेण न संथरे ” दस० ५, २, २;

**अयुत.** न० ( अयुत ) लुंगा. “ अउअ ” श०८.  
देखो ‘ अउअ ’ शब्द. Vide “ अउअ ”.  
जावा० २, ४;

**अयो.** न० ( अयस् ) लोडुं; लोडै. लोहा. Iron.  
भग० १६, ४; —कवरल. न० ( \*-कवल )  
तवैः; लोट्टी; कुचाल. तवा; लोह की कडाई.  
iron pan; iron caldron. भग० १६,  
४; सूय० १, ५, १, १७; —कुम्भी. लो०  
( -कुम्भी ) लोट्टी कुची-कुची. लोह की  
कुंडा. an iron vessel resembling  
a large or small tub. सूय० २५३;  
—गोल. पुं० ( गोल ) लोट्टों लोंगा.  
लोह का गोला. an iron ball. दसा०  
६, १; —घण. न० ( -घन ) लोडुं इट्टोंयुं  
धूष. लोह पाटने का घन. a sledge-  
hammer. सूय० १, ५, २, १४;

**अयोमय.** त्रि० ( अयोमय ) लोडुमयः;  
लोडानुं. लोहमय; लोह का. Iron; made  
of iron; consisting of iron.  
भग० १६, १; दस० ६, ३, ६; राय० २५३;  
**अयोमुह.** पुं० ( अयोमुख ) लवण् सभुद्भां  
म् वायव्यू मुखभां प्रायसो नेत्रन् विप्र

आवेद एक अंतरद्वीप; प५; अंतरद्वीपभांते।  
११ भो अंतरद्वीप. लवण् सभुद् के बायव्य  
कोन में पांच सौ योजन पर स्थित एक अंतर  
द्वीप; प६ अन्तरद्वीपों में से ११ वाँ अन्तरद्वीप.  
The eleventh of the 56 Antara-  
dvipas; an Antara-dvipa in  
the Lavaṇa ocean in the  
north-west at a distance of  
500 Yojanas. ठ ४, २; ( २ ) त्रि०  
अयोमुह अंतरद्वीपभां रहेनार भनुष्य. उक्त  
अन्तरद्वीप में रहने वाले मनुष्य. the  
people residing in the  
A y o m u k h a Antara-dvipa.  
पञ्च० १;

**अर.** पुं० ( अर ) यातु अवसर्पिणीभां लंसत  
क्षेत्रना सातभा चक्रवर्ती अने १८ भा  
तीर्थकृ. वर्तमान अवसर्पिणी के भरतक्षेत्र  
के यात्रें चक्रवर्ती और १८ वे तीर्थकर.  
Name of the eighteenth Ti-  
rthaṅkara and the seventh  
Chakravarti of Bharataksेत्र  
in the present Avasarpinī.  
“ अरोय अरयं पत्तो ” उच्च १८, ४०; भग०  
२०, ८; सम० २४; अगुजो० ११६;  
**अरअ.** पुं० ( अरक ) पैदानी वच्यं चक्रनी नाभि  
अने नभि वच्यनां आडां लाकडां; आरा.  
आरा. A spoke of a wheel. जं० प०

**अरअ.** पुं० ( अरजस ) दद भद्रायुभांते।  
७० भो भद्रायु. दद महाप्रहों में से ७० वाँ  
महाप्रह. The seventieth of the  
eighty-eight major planets.  
सू० प० २०;

**अरअ.** न० ( अरत ) पांचभा अल्पदेवलोडेनो  
अरत नभे एक पाथडो. पांचवें ब्रह्मदेव-  
लोक के एक पाथडे (परत) का नाम. Name  
of a layer in the fifth Brahma

Devaloka. ठा० ६, १; ( २ ) रागरहित; प्रति विनामो. राग रहित, बिना प्राप्ति का. unattached; free from attachment. आया० १, ३, २, ११४;

**अरद.** ली० ( अरति-न रति: संयमविषया धृतिररति: ) संयममां उद्गेग; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप अने वीर्य एव पांच आचारमां घेचेनी; मोहनीयना उद्यथी थतो उद्गेगरूप चित्तविकार. संयम में उद्गेग; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन पांचों आचारों में बैचैनी; मोहनीय के उदय से होता हुआ उद्गेगरूप चित्तविकार. Discomfort experienced in the practice of self-restraint; feeling of uneasiness in ascetic practices leading to right knowledge etc. “प्रहृं आउट्टे से मेहावी” आया० १, २, २, ७२; १, ३, २, ११७; जं० प०नाया० १; दस०८, २७; सूर० २, १, २६; उत्त० १०, १७; ३२, १०२; प्रव० ४५७; क० प० २, १०३; भन० १०६; क० गं० २, ७; ५, ३१; ठा० ६, १; ( २ ) वार्षीस परिषद्भानी ऐक परिषद्. २२ परिषदों में से एक परिषद्. one of the twenty-two varieties of sufferings. उत्त० २, १४; भग० ८, ८; ( ३ ) धृष्ट विषेष के अनिष्ट संयोगशी थंजु भानसिंह दुःख. इत्यवियोग या अनिष्ट संयोग से होता हुआ मानसिक दुःख. mental distress caused by an unfavourable event. भग० १, ६; —कर्म. न० ( कर्मन् ) जेना उद्यथी छवने संयम वगेरेभां अरति उत्पन्न थाय तेवी ऐक नोक-पायं मोहनीयनी प्रकृति; अरतिमोहनीय कर्म. जिसके उदय से जीव को संयम आदि में अरति उत्पन्न हो एसी एक नोकषाय मोहनीय की प्रकृति; अरतिमोहनीय कर्म. a variety of Karma known as Nokasyaya Mohaniya the maturing of which

produces distaste for ascetic practices; Arati Mohaniya Karma. ठा० ६, १; ---परि-गी-सह. धु० (-परिषद्) साँधुता २२ परिषद्भानी ऐक; अरतिनामे परिषद्. साँधु के २२ परिषदों में से एक अरति नामक परिषद्. one of the twenty-two varieties of sufferings; a suffering known as Arati. उत्त० २, १४; भग० ८, ८; —मोहणिड्ज. न० (-मोह नीय) अरति नामे मोहनीय कर्मनी ऐक प्रकृति. अरति नामक मोहनीय कर्म की एक प्रकृति. a variety of Karma known as Arati Mohaniya. क० गं० १, २१; ---रह. ली० (-रति) अरति रति; धर्मभां अरति अने पापभां रति ‘अरति रति’ धर्म में अरति और पाप भं रति. dislike for virtuous actions and inclination towards evil deeds “एवा अरतिरती” ठा० १, १ —रहसह. त्रि० (-रति-सह) अरति अने रतिने सहन इन्द्रनार. अरति और रति का सहन करने वाला. one who can remain indifferent to the feelings of attachment or dislike towards an object. आया० १, ३, १, १०८;

**अरंजर.** धु० ( अरञ्जर ) लंजर तरीके प्रसिद्ध पाखीनो धंडा. लंजर के नाम से प्रसिद्ध पानी का घडा. A pot of water known by the name of Lanjara. ठा० ४, ४; अरक्षुरी. ली० ( अरक्षुरी ) जिनचंद्र-धर० राजनी ऐक नगरी; सूर्यनी अग्रम-दिनी—सूर्यप्रभाती पूर्वलघनी जन्मनगरी. जिनचंद्र धर राजा भी एक नगरी; सूर्य की अग्रमहिंसे सूर्यप्रभा की जन्मपुरी. A town belonging to king Jina-chandra Dhava; a town in

which the previous birth of Sūryaprabhā the principal queen of Surya took place. नाया० ७; अरण. पुं० (अरक) पैडानां वचनेन् आउ लाक्षणः; आरा. आरा. The spoke of a wheel. भग० २, १; ३, ५; ५, ५; राय० १२६; —आउत्त. त्रिं० (—आङुक-अरक्करमियिद्विना युक्तोऽरकायुक्तः) सर्वं तरेण आराथी युक्ता. चारों ओर आराओं से युक्ता. furnished with spokes on all sides. भग० ३, १; —उत्तासिय. त्रिं० (—उत्तासित-श्रका उत्तासिता प्रासकाज्ञिना यत्र) ऐयां पैडाना आरा अद्वितीयां आव्याप्ते ते। जसम आर हिते हो वह. with the spokes of the wheel caused to shake. भग० ३, १; अरजंत. व० कु० त्रिं० (अरज्यत) २५१—आसक्ता न थते; रागथी न रंगाते. आसक्त न होता हुआ. Being unattached; not affected by passions. “ विसाएऽनु अरजंतो रजंतो संज्ञस्मिय” उत्त० १६, १०; अरज्जुय. त्रिं० (अरज्जुक) २८४ द्वे॒२५ विनानु. डोर दिना का. Devoid of a rope. तंड०—पास. पुं० (—पाश) द्वे॒२५ वगरनो पाश-पंधन. डोरा दिना का बन्धन. bondage without a rope. तंड० अरणि. पुं० (अरणि) अरणिः लाक्षुः; अनेभाँभांडि धसवारी अभि अरै तेनु लाक्षुः. आपन में घिसने पर अरिन को उत्पन्न करने वाली श्रिंगिन की लेंकइ। A fire-producing wooden stick; wood of Aranī tree used to kindle fire by friction. “ जहा य अग्नो अरणी असंतो ” उत्त० १३, १८; नाया० १८; राय० २६४; सूय० २, १, १६; भग० ११, ६; १८; ७; भत्त० १२३; जं० प० ५, ११४; अरणिया. ली० (अरणिका) लेनो। अंध भीजूक्य छे अवी एक वनरपति. एक

बनस्पति; जिसका स्कंध ही बीजलूप है वह. A variety of vegetation growing out of the branches of the original stem. आया० १, १, ५, १३०; अरणण. न० (अरणण) निवैन नंगक्ष; वसति विनानी अटवी. निर्जन वन. A forest; a tenantless forest. उत्त० २५, २६; भग० ७, ६; परह० २, २; ओघ० निं० १६६; सूय० १, १, १, १६; जं० प० २, २१; विश० १४२५; अरणणवार्डिसग. पुं० (अरणणवातंसक) अगीनारभा देवलोकानु अरण्यावतंसक नामे एक विभान, इनेना देवतानी २१ सागरनी स्थिति छे. यारहवेदेवलोक का अरण्यावतंसक नामक एक विनान, जहां के निवासी देवों की २१ सागर की स्थिति—आयु है। A heavenly abode of the eleventh Devaloka, Aranyavatamsaka by name; the gods of this abode live for twenty-one Sagaras of time. सम० २१; अरति. ली० (अरति) जुओ ‘अरइ’ शब्द. देखो ‘अरइ’ शब्द. Vide ‘अरह’. सम० २१; ठा० १, १; ओव० २१; भग० १, ६; पक्ष० २३; —परिसह. पुं० (परिपह) जुओ ‘अरइपरिसह’ शब्द. Vide ‘अरहपरिसह’. सम० २२; —रति. ली० (—रति) जुओ ‘अरहरइ’ शब्द. देखो ‘अरहरइ’ शब्द. Vide ‘अरहरइ’. पक्ष० २२; अरय. पुं० (अरक) पैडाना आरा. पहिये का आरा. A spoke of a wheel. नंदी० ५; अरय. पुं० (अरजस्) कर्म०२०८रहित; सिद्ध लगवान्. कर्मरूपी रज रहित; सिद्ध भगवान्. Free from Karmic dust; a Siddha. भग० ३, १; (२) ८८ अठमानो। एक महाग्रह. दूष ग्रहों में से एक महाग्रह. a major planet out of eighty-eight planets. अ०

३, ३; सू० प० २०; ( ३ ) पांचमा देवलोकना विभाननो एवं पाथडो. पांचवे देवलाक के विमान का एक पायः—परत. a layer of the heavenly abode of the fifth Devaloka. ठा० ६; ( ४ ) त्रि० २८-भेदरहित. रज राहित; निर्मल. free from dirt. कप्प० २, १३;—अंबर. न० (-अम्बर) २८रहित वस्त्र. स्वच्छ वस्त्र; रज राहित वस्त्र. cloth or garment free from dust. जं० प० ५, ११८; कप्प० २, १३;—अंबरवत्थ. न० (-अम्बरवस्त्र) २८रहित आङ्कुश गंगां श्वस्त्र॑ वस्त्र; निर्मल लुगडां. रज रहित आकाश के समां; स्वच्छ वस्त्र; निर्मल वस्त्र. a clean cloth; cloth as clean as the sky. भग० ३, २; जं० प०

अरयणि. पुं० ( अरनि ) विस्तृत आंगणि सहित हाथ. विस्तृत-युली अंगुली सहित हाथ. A hand with the fingers stretched. ठा० ४, ४;

अरया. स्त्री० (\*अरजा-अरजस्) कुमुद विजयनी मुख्य राजधानी. कुमुद विजय का मुख्य राजधानी. The capital city of Kumuda Vijaya. जं० प०

अरवग. त्रि० ( अर्वंक ) अर्व देशमां रहेनार भगुप्य गेने. अर्व देश के रहने वाले मनुष्य वर्गेरह. ( A resident etc. ) of the Arva country. पञ्च० १;

अरविंद. न० ( अरविन्द ) कमल. कमल; पश्च. A kind of lotus. 'पुष्केषु या जह अरविंदमाहु ' सू० १, ६, २२; २, ३, १८; पञ्च० १; परह २, ४;—लोआण. त्रि० (-लोचन) कमल सभान नेत्रवाणी. अरविन्द-कमल के समान 'हैं नेत्र' जिसके, वह. lotus-eyed. कप्प० ३, ४७;

अरस. त्रि० ( अरस ) हिंग आहि दृश्यता

संस्कारैत नहिः रस वितानुं; नीरस. हींग आदि द्रव्य से संस्कारत न किया हुआ: रस राहित, नीरस. Inisipid; tasteless; juice-less. " अरस विरसं वाच, सूर्यं वा असूर्यं " दस० ५, १, ६८; ओव० १६; नाया० १६; भग० २, १०; ६, ३३; ११, १, २०, ५;—आहार. पुं० (-आहार) रस विनानो आहार. रस राहित आहार. in-sipid food; tasteless food. ठा० ५, १; ( २ ) नीरस आहार देवानो अभिग्रह धारणु करनार साधु. नीरस आहार प्रहण करने का अभिग्रह धारण करने वाला साधु. an ascetic who has vowed to receive tasteless food. ठा० ५, १; परह० ३, १;—जीवि॒. पुं० (-जीविन्-अरसंन जीवितुं शरीलमस्येति) अरस आहारथी इवनः॒; अभिग्रह धारी भुनिनिशेऽ॒. रसहीन आहार से जीवन वाला; अभिग्रहधारार्थ मुनि विशेष. an ascetic living on tasteless food. ठा० ५, १; भग० ६, ३३;—मेह. पुं० (-मेघ) रस विनानो वरसाद; जेने। धेणु तेह न रहे तेवो वरसाद. रस राहित वर्षा. unsubstantial rain. जं० प० २, ३६; भग० ७, ६;

अरह० पुं० (अरहृ- न विद्यते रहो गुसं यस्या-सावरहा:) कंध पण्॒ रङ्गस्य जेनो जाणुऽहार नथीते; अरिहंत भगवान्. कोइं भी रहस्य जिस से डिगा नहीं है वह; अरिहंत भगवान्. One to whom nothing can be a secret; an Arihanta. ठा० ४, १; ८, १;—स्सर. त्रि० (-स्वर) जेने। प्रगट स्वर-अवाज छे ते; खेटा अवाजवाणी; खुल्की वात करनार. उच्च स्वर वाला; वही आवाज वाला. (one) having a loud voice; frank. " अरहस्सरा केह चिरहितीया " सू० १, ५, २, ११;

अरह० पुं० ( अरहृ ) दृढ़ आहिना पूर्णता;

तीર्थકર; અરિહંત ભગવાન्, ઇન્દ્રાદિકો કા  
પૂજ્ય; તીર્થકર; અરિહંત ભગવાન्. One  
worthy of worship by Indra etc;  
a Tirthankara. ( ૨ ) અવધિજ્ઞાની અને  
મનુઃપર્યેવજ્ઞાની. અવધિજ્ઞાની આં ર  
મનુઃપર્યેવજ્ઞાની. one possessed of Avadhijñāna  
and Manuḥparyavajñāna.  
“ તથો અરહા પ૦ તં ઓહિનાણઅરહા  
મણપજવનાણઅરહા કેવલનાણઅરહા ” ઠા૦  
૩, ૪; નંદી૦ ૪૩; ઉત્તો ૬, ૧૮; સૂ૦  
પ૦ ૨૦; ઓવો ૧૦; નાયા૦ ૫; દ; ૧૬;  
ભગ૦ ૧, ૪; ૨, ૧; ૭, ૧; ૬, ૩૨; જે૦  
પ૦ ૨, ૩૦;—પ્રલાચિ. પુંઠ ( -પ્રલાપિન્ )  
પોતે અરિહંત નહિ છન્હ પોતાને અરિહંત  
તરીકે એલાનાર; ‘દુઃ અરિહંત દુઃ’ એમ ભિથ્યા  
પ્રચાપ્ય કરનાર. અરિહંત ન હોતું હુણ ભી ‘ મે  
અરિહંત હુણ ’ એસા મિથ્યા પ્રલાપ કરને વાલા.  
one vainly pretending to call  
himself Arihanta; one hypocritically  
calling himself an  
Arihanta. ભગ૦ ૧૫, ૧;

**અરહાણ્ય-** પુંઠ ( અર્હત ) જુએ ‘અરહ’. શાખા.  
દેખો ‘અરહ’. શાબ્દ. Vide ‘અરહ’ નાયા૦  
દ; ૧૬; નાયા૦ ધો ૧૦; ભગ૦ ૫, ૬; ૭, ૬;  
અરહાણ્યો. ષ૦ ઎૦

**અરહંત.** પુંઠ ( અર્હત ) જુએ ‘અરહ’ શાખા.  
દેખો ‘અરહ’ શાબ્દ. Vide ‘અરહ’. ભગ૦ ૩,  
૨; ૭, ૬; ૧૨, ૨; ૧૫, ૧; ૨૦, દ; આયા૦  
૧, ૪, ૧, ૧૨૬; દસા૦ ૬, ૪; વવો ૧,  
૩૭; નાયા૦ ૧; દ; ૧૩; ઓવો ૨૦;  
ઓઘો નિ૦ ૧; જે૦ પ૦ ૨, ૩૪; ૫, ૧૧૫;  
—લદ્ધિ. લ્લી૦ ( -લભિ ) લગ્નિધિવિશેષ;  
નૈથી અરિહંતપણું પ્રામથાય તેવી લભિધ.  
લભિધવિશેષ; જિસસે અરિહંતતા પ્રાપ  
શો એસી લભિધ. a spiritual acquire-  
ment leading a man to the

state of an Arihanta. પ્રવ૦ ૧૫૦૭;  
**અરહણ્ટ.** પુંઠ ( અરઘણ્ટ ) પાણી કાઢવાનું રેટ;  
ધરીયંત્ર; ધર્તમાળ. પાણી નિકાલને કા ધરીયંત્ર;  
રહણ. A water-wheel with pots  
fixed in it to draw water from  
a well. “ જમ્મમરણારહણે ભિસ્તુણ ભવા  
વિમુદ્ધિહિસિ ” આઉ૦ ૫૬; પરહ૦ ૧, ૧;  
પિ૦ નિ૦ ૮૩;

**અરહાણ્ય.** પુંઠ ( અરહજ્ઞક ) ચંપા નગરી  
નિવાસી એક બહુખુલટી થાવક, કે જેને  
સમુદ્રમાં દેવતાએ પરિપણ આપ્યો, વતથી  
ચલાવવાને બહાણને કુલાણા જેવો દેખાવ  
કરો. તો પણ તે ચલિન થયો નહિ; ત્યારે  
દેવતા તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ એક કુંડળની જોડ  
ભેટ આપી ચાલ્યો ગયો. અરહણ્ટકે તે કુંડળ  
મહિનાથને ભેટ આપ્યા. ચંપા નગરી નિવાસી  
એક જહાજ થાવક, જિસે સમુદ્ર મેં દેવતા ને  
કષ દિયા ઔર બ્રત સે ચલિત હોને કે લિયે  
જહાજ કો ડુબા દેને કા દશ્ય દિખલાયા; તો ભી  
વહ ચલિત નહીં હુઅા. તબ દેવતા ને પ્રસન્ન હોકેર  
ઉસે એક જોડી કુંડલ ભેટ મેં દિયે. અરહજ્ઞક  
ને વે કુંડલ મહિનાથ કો ભેટ મેં દિયે. A  
Srāvaka living in Champā city  
and also a seafaring merchant;  
he was greatly troubled by a  
god in the ocean; the god in  
order to tempt him to give up  
his vows threatened to sink  
his vessel but in vain. The god  
then became pleased and pre-  
sented him a pair of golden  
earrings. Arhannaka presented  
them to Mallinātha. નાયા૦ ૮;  
( ૨ ) તારી નગરીના દાટનો પુત્ર, કે જેણે  
પોતાના ભાયાપ સાથે અર્દુનિમત્ત આયાર્દ  
પુસે દીક્ષા, લભિધી, આપનો સ્વર્ગધ્યાસ થયા

पछि अरण्णिक मुनिने जोयरी जरुं पड़युं।  
तडें सहन न थवाथी ते खातत थयो, पछु  
तेथी तेनी भा ने आर्या थया छे, तेने यहु  
दुःख लायुं, ते गांडा थध गया। अ.भर  
ओगमां इसाएव अरण्णिक मातानी अवश्या  
जेहु त्यारे इरी वैशाय धारणु कर्मुं। भान।  
कुलेवाथी इरी हृक्षा लीधी, धगधगती शिला  
उपर संथारो करी, तापनो परिपुर सहन  
कर्यो। तारा नगरी के दत का  
पुत्र, जिससे कि अपने माता पिता के  
साथ अर्हनिमित्र नामक आचार्य से दंका ली।  
पिता के स्वर्गनास हो जाने के पश्चात् अरण्णिक  
को भिजार्थ जाना पड़ा, परन्तु धूप सहन न  
होने से वह दीक्षा से पतित हो गया और  
भोग में फँस गया, इससे इसकी माता को  
बहुत दुःख हुआ और इस दुःख से वह पाग-  
लसी हो गई। माता की यह दशा देखकर भोग में  
फँस हुए अरण्णिक को वैशाय हुआ और माता  
के कहने से फिर दीक्षा धारणा की, तथा तस  
शिला ऊपर संथारा कर ताप का पारप्रह  
सहन किया। the son of Datta of the  
city of Tārī. He along with his  
parents took Dikṣā from the  
Āchārya Arhanmitra. After  
the death of his father he  
(Araṇika Muni) had to go out  
to beg alms. He could not  
bear the heat of the sun and  
fell off from his ascetic vows.  
The mother, greatly distressed  
at this became mad. At length  
Araṇika pitying her again  
became a monk at her request  
and performed Santhārā on a  
hot slab of stone and endur-  
ed the pain caused by

heat. उत्त० टी० २; —समणो-  
वासग. पुं० (—श्रमणोपासक) अ॒  
दु॒भ॒क् न.मे व्रभणोपासक-श्रावक. अरह-  
णक नाम का साधुओं का उपासना करने वाला  
श्रावक. a Jaina layman of the  
name of Arahannka. नाया० ८;  
अरहस्स. न० ( अरहस्य-नास्ति रहस्य-  
मपरं यस्मात्तदरहस्यम् ) युभमां युभ छेद  
शास्त्रनुं तत्त्व-रहस्य। छेद शास्त्र का युस से  
युस तत्त्व-रहस्य। The most abstruse  
and deep meaning of Chheda  
Sāstra। टा० ६;—भागि. पुं० (—भागिन्  
(—रहस्यस्थाभावोऽरहस्यं तद्वाजते यःस तथा)  
नेनाथी इदृशस्य-युभ नथी ते ; सर्व-  
अरिहंत भगवान्। जिससे कोई रहस्य छिपा  
न हो वह; सर्वज्ञ; अरिहंत. omniscient;  
Arihanta. टा० ६;

अरहा पुं० ( अहैत् ) युभो 'अरह' श०८.  
देवो 'अरह' शब्द। Vide 'अरह' भग०  
१६, ५; १८, २; २०, ८; २४, ६; निर०  
३, १; अणुजो० १२७; सू० २, ३, २२;  
टा० ३, ४; कप० ५, १२०; जं०  
प० ३, ३०;

अरहिय. त्रि० ( अरहित ) निरंतर; विरु-  
द्धिना। निरंतर; सदा Ceaseless; conti-  
nuous. "अरहियाभितावा तहवि तविंसि"  
सू० १, ५, १, १७;

अराग. त्रि० (अराग) रागरहित। राग रहित।  
Free from passion or attachment.  
भग० १७, २;

अरि. पुं० ( अरि ) दुश्मन; वेरी; शतु, शतु;  
दुश्मन। An enemy. जावा० ३, ३; नाया०  
२; जं० प० २; —छवग्ग. पुं० (—चह्वर्ग-  
षरसांवांसमुदाय; षह्वग्गः) क्रम, झेध,  
लेल, मान भद्र अनेभोइ(हुर्प) ऐ छ अंतरिक

द्वृभन्ते। समुदाय. काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, और मोह इन छः आन्तरिक शत्रुओं का समुदाय. the collection of the six internal enemies. viz lust, anger, greed, pride, intoxication and rapture. स्व० टी० १, १, ४, १;

**आरिद्व.** पु० न० (अरिष्ट) लिंगात्मु अ॒. नोम का फाल. the Nimb tree melia azedirachta. पञ्च० १; २; (२) अरीहानु दृश्य अने इल; जेना द्वैषुथी वस्त्र धावायुष्ठे ते. अर्णठे का वृक्ष और फल, जिसका भाग से दृश्य धोये जाते हैं वह. the soap berry tree. पञ्च० १; ६; राय० ५०; (३) पंद्रभा धर्मनाथ-तीर्थकरना प्रथम गण्डपरन्तु न.भ. पन्द्रहवें तीर्थकर धर्मनाथ के पांहले गणाधर का नाम. name of the first Gaṇadhara of the 15th Tīrthaṅkara Dharmānātha. सम० प० २३३; (४) वृषभासुर. वृषभासुर. Vṛiṣabhaśura; name of a demon. परह० १, ४; (५) यादु योनीसीना योनीसीना भावीसमा तीर्थकर नेमिनाथ अपर नाम. वर्तमान चारीसीन के वारीसीने तार्यकर नेमिनाथ का दूसरा नाम. another name of the twenty-second Tīrthaṅkara Neminātha of the present Chovīsi. सम० १०; ठा० २, ४; (६) पांचमादेव-लोकना त्रीज पाथडात्मु नाम. पांचवें देवलोक के तीसरे पाथडे (परत) का नाम. name of the third layer or stratum of the 5th Devaloka. प्रव० १४५५; (७) यादमा अनंतनाथ तीर्थकरना प्रथम गण्डपरन्तु नाम. १४ वें तीर्थकर अनन्तनाथ के पहिले गणाधर का नाम. name of the first Gaṇadhara (apostle) of Anantānātha the 14th Tīrthaṅkara. प्रव० ३०७;

**आरिद्वनेमि.** पु० (आरिष्टनेमि) यादु योनीसीना भरतक्षेत्रना भावीसमा तीर्थकर; यदुवंशमां उत्पन्न थगेल नेमिनाथ तीर्थकर, हे ने परथुवा ज्ञान पशुओंनो पोकार सांख्यार्थी शञ्जुलने परथ्या विना पाणा वज्या संज्ञम लीये अने भावीसमा तीर्थकर थथा. वर्तमान चारीसीन के वारीसीने तार्यकर; यदुवंशी नेमिनाथ तीर्थकर, जो कि विवाह के लिये जाते समय रास्ते में पशुओं की पुकार सुन राजुल से विवाह किये बिना रांझे लौटे और दीक्षा धारण कर वारीसीने तीर्थकर हुए. The twenty-second Tīrthaṅkara of the Bharataksētra of the present Chovīsi; the Tīrthaṅkara Neminātha born in the Yaduvamśa. While on his way for marriage, he heard the piteous cries of animals, as a result of which he turned back without marrying Rajulā (the proposed bride) and became a monk. He became the twenty-second Tīrthaṅkara. “तेण का० ते० स० अरहा अरिद्वनेमी पंच चित्ते होत्था ” कप्प० ६, १६६; ठा० २, ४; सम० १०; नाया० ५; उत्त० २२, ४; अणुज० ११६; निर० ५, १; अंत० १, १;

**आरिद्वपुरा.** ली० (अरिष्टपुरी) कुरुक्षेत्रपृष्ठ विजयनी भुज्य राजधानी. कच्छकावती विजय की मुख्य राजधानी. The principal capital of Kachchhakavati Vijaya. जं० ४०

**आरिद्वा.** ली० (अरिष्ट) भद्राकृष्णा विजयनी भुज्य राजधानी. महाकच्छ विजय की मुख्य राजधानी. The principal capital of Mahākachchhā Vijaya. जं० ४०

**आरेता.** लो० (अरिता) दुश्भनायट; शत्रुभाव.  
दुरमनी; शत्रुता. Enmity; hostility.  
भग० १२, ७;

**आरिदमग.** पुं० (अरिदमन) श्रीकृष्णभट्टस्या-  
भीनाशीतेरभापुत्रजन्माभ. आशृतमनंदवस्यागी  
के ७०व पुत्र का नाम. Name of the  
seventieth son of Sri Kṛiṣṇa-  
deva Svāmī. कठा० ७; (२) वसंतपु-  
रने थे; राजा, डे जेनी राज्ञी थे. रने  
अभयदान आप्युं हुं. वसन्तपुर का एक  
राजा, जिसका रानी ने चार को अभय  
दान दिया था. an ancient king of  
Vasantapura whose queen had  
given an assurance of safety  
to a thief. सूश० टी० १, ६, २३;

**आरिस.** न० (अर्शन) दूरस; पुड़ना भसा;  
ऐक जलने. रोग. बवासार: मस्स की व्यापि.  
Piles; hemorrhoids. जीवा० ३, ३;  
भग० ३, ७; नाया० १३; जं० प० २, २४;  
ओष्ठ० नि० भा० १५४;

**आरिला ल्ला०** (अर्णस) दूरस; अद्य प्रदानो  
रेष. मस्से का रोग. Piles; hemorrhoids. प्रव० १३६०;

**आरिसल्ल.** त्रि० (अर्णोवत) दूरसन: रोगादो.  
बवासीर की बीमारी वाला. (One) suffer-  
ing from piles. विवा० ७;

**‘अरिद.** धा० I. (अर्ह) योग्य अनुं; लायक  
थुं; पूज्य थुं. योग्य बनना; लायक हो।;  
पूज्य होना. To deserve; to be  
deserving of worship.

**अरिहंति.** सूश० १, ३, २, ७; दस० ८,  
२०; भग० २५, ७;

**अरिहण.** आया० १, ३, २, ११३;  
**अरिहसि.** भग० १५, १;

**अरिहंति० (अर्ह)** योग्य; लायक. योग्य;  
लायक. Deserving; fit; worthy.  
नाया० द; ओव० ८०; भग० ३, १; सू० च०  
१, ३५६; (१) आचार्य शास्त्री पदी  
योग्य; पूज्य. आचार्य आदि की पदवीयोग्य;  
पूज्य. possessing the qualities  
of a preceptor. सम० द; नाया० ५;  
पंचा० १५, द; प्रव० १३५;

**अरिहंत.** पुं० (अर्ह) भूक्ष्य; उभत. मूल्य;  
कीमत. Price; cost; value. राय० ८०;

**अरिहंत.** पुं० (अर्हत्-अर्हन्ति सिद्धिसोधशि-  
खरात्तेष्यं चेत्यर्हन्तः) भेद्य ज्वने लायक;  
तीर्थक; अर्हत् भगवान्. मोक्ष ज्वन के योग्य;  
तीर्थकर; अर्हत् भगवान्. One worthy of  
final liberation; a Tirthankara.

“ अरिहंति वंशणमंसणाणि अरिहति पूर्य-  
सकारं सिद्धिगमणं च अरिहा सेण बुद्धंति ”  
जं० प० ८० भग० १, १; ३, १; १८, ७; २५,  
७; नाया० १; द; १६; पञ्च० १; आय० ३४;  
अगुजा० ४२; दस० ६, ४, २; कप्त० १, १;  
आव० १, २; प्रव० ४;

**अरिहंत-पु०**(अरिहन्त अरीनष्टहर्माणिं हन्तीत्य-  
मिहन्ता) उर्ज्ज्वा० दुश्भनने भारनार; अरिहंत  
उ.गवान्. कर्महर्षी दुश्भनों का मारने वाला;  
अरिहत भगवान्. Destroyer of ene-  
mies in the form of Karmas; Ari-  
hanta. ओव० १२; भग० १, १; अगुजा०  
१३१; नाया० १६; दसा० १, १;—**चेहरा.**  
पुं० न० (-चत्व) अरिहंत संप्रभी कंध पछु  
२८ २५ चिन्ह-स.धु, साधुने। वेष, थुभ-स्तपू  
वगेरे.अरिहंत समन्वयी के ही भी रामारक चिन्ह-  
साधु, साधु का वेष और स्तपू आदिक. any  
of the marks by which an  
Arihanta is brought to mind,  
e. g. an ascetic, the gar-  
ments of an ascetic etc.

भग० ३, २; ओव० ३६;—भासिय.  
त्रि० (—भाषित) अरिहंतना भाषेत्-  
परुपेत्. अरिहंत कथित; अरिहंत का कहा  
हुआ. told by or explained by  
Arihanta. सूय० १, ६, २६;—मण्ण-  
ण्णाय. त्रि० (—अनुज्ञात) अरिहंते कर्तव्य  
रूपे ज्ञानेत्. अरिहंत द्वारा कर्तव्यरूप बत-  
लाया हुआ. prescribed as a duty  
by Arihanta. पच० १२;—वंस. पु०  
(—वंश) अरिहंतनो पंश. अरिहंत का वंश. the  
genealogy of Arihanta. ठा० ३,  
१;—सासण. न० (—शासन) अरिहंत-  
तीर्थकरुं शासन-दर्शन; जैन दर्शन. अरिहंत-  
तीर्थकर का शासन; जैन दर्शन. the canon  
of Arihantas; the Jaina canon  
or church. परह० २, ५;

अरिहंत. पु० ( अर्हंत ) आर्य सुस्थित  
अने सुप्रतिभुद्धा पाचमा शिष्यनुं नाम.  
आर्य सुस्थित और सुप्रतिभुद्ध के पांचवे शिष्य  
का नाम. Name of the fifth disciple  
of Ārya-Susthita and Supratibuddha. कप्प० ८;

अरिहंदिरण. पु० ( अर्हंत ) आर्य सिंहगिरिना  
योथा शिष्य. आर्य सिंहगिरि का चौथा शिष्य.  
The fourth disciple of Ārya-  
Simhagiri. कप्प० ८;

अरिहंदिग्न. पु० ( अर्हंत ) जुओ ' अरिहं-  
दिग्न ' शब्द. देखो ' अरिहंदिरण ' शब्द.  
Vide ' अरिहंदिरण '. कप्प० ८;

अरिहंया. झी० ( अर्हंत ) अरिहंतपछुं;  
तीर्थकरपछुं. अरिहंतपना. Status of an  
Arihanta; Tirthankara-hood.  
पंचा० ८, ४०;

अरुण. त्रि० ( अरुण ) रेतरहित; निरोगी. रोग

रहित; निरोगी. Free from disease;  
healthy. भग० १, १; ओव० १०; कप्प०  
२, १५; सम० १; नाया० १;  
अरुण. पु० ( अरुण ) हरिवासक्षेत्रना विभाग-  
वध नामे वाटला वैताद्य पर्वतो अधिकाता  
देवता. हरिवर्ष क्षेत्र के वियडावइ नामक वाटला  
वैताद्य पर्वत का अधिकातु देव. The presi-  
ding deity of Vāṭalā Vaitādhyā  
mountain called Viyarhāvai  
in Harivarṣa Kṣetra. जं० ५० ठा०  
२, ३; ( २ ) ८८ भुवनेश्वरमाने ५४ भौमेषु  
८८ महाग्रहों में से ५४ वाँ प्रह. the  
54th of the 88 great planets.  
सू० प० २०; ठा० २, ३; ( ३ ) सूर्यनी प्रभा  
दृष्टवाने समय. सूर्य की प्रभा फूटने का समय.  
dawn. ओघ० नि�० २६६; ( ४ ) नन्दी-  
श्वरवर समुद्र अने अस्त्रेश्वर उभानी  
वैत्येनुं द्वीप. नन्दीश्वरवर समुद्र और अरुणो-  
दग समुद्र के बीच का द्वीप. the  
island between the two oceans  
viz Nandīśvaravara and Aruṇo-  
daga. सू० प० १६; जं० प०

अरुणप्पम्. पु० ( अरुणप्रभ ) अनुवेदंधर  
देवोना योथा नागराजानुं नाम. अनुवेलधर देवों  
का चौथा नागराजा. The fourth king of  
the Anuvelandhara gods. जीवा०  
३, ४; ( २ ) लवण्य समुद्रमां उत्तर दिशामे ४२  
हजार लोजन उपरे आवेल अनुवेदंधर देवोनो  
आवास पर्वत. लवण्य समुद्र की उत्तर दिशा में  
४२ हजार योजन की दूरी पर अनुवेलधर देवों  
का आवास पर्वत-निवास स्थान. the  
mountain-bode of the Anuve-  
landhara gods in the north of  
Lavaṇa ocean at a distance of  
42 thousand Yojanas. ठा० ४, २; ( ३ )  
राजुनां लालकान्तिवाणां पुष्टगण. राजु के साक्ष

कान्ति वाले पुद्गल. the red particles of matter of the body of Rāhu.  
चं० प० २०;

अरुणप्रभा. ली० ( अरुणप्रभा ) ६ भातीर्थ॑-  
२नी प्रवर्ज्या ५.७ भीतुं नाम. ६ वें तीर्थकर  
की प्रवर्ज्या पालकी का नाम. Name of the  
Pravrajyā palanquin of the  
ninth Tirthankara. सम० प० २३१;  
अरुणभद्र उं० ( अरुणभद्र ) अरुणवर समुद्र-  
द्रोनो। अधिपति देवता। अरुणवर समुद्र का  
अधिपति देव. The presiding deity of Aruṇavara ocean. सू० प० १६;  
जीवा० ३,

अरुणमहाभद्र. उं० ( अरुणमहाभद्र ) ज्ञुओ  
उपवी। श०८. ज्ञुओ ऊपर का शब्द.  
Vide the above word. सू० प०  
१६; जीवा० ३;

अरुणवर. उं० ( अरुणवर ) ऐ नामनो एक  
द्वीप अने एक समुद्र. इस नाम का एक द्वाप  
और एक समुद्र. An ocean of that  
name; an island of that name.  
पद० १५; सू० प० १६; जीवा० ३, ४;  
अग्निजो० १०३;—दीव. उं० (-दीप) ऐ  
नामनो एक द्वीप. एक द्वीप का नाम.  
an island of that name.  
भग० २, ८;—समुद्र. उं० (-समुद्र)  
ऐ नामनो एक समुद्र, डे ने भार्ती तमस्काय  
नीक्षेत्र छे. एक समुद्र का नाम, जिसमें से  
तमस्काय निकला हुआ है. name of an  
ocean from which Tamaskāya  
has emanated. प्रव० १४१२;

अरुणवरभद्र. उं० ( अरुणवरभद्र ) अरुणवर  
द्वीपनो। अधिपति देव. अरुणवर द्वाप का  
अधिपति देव. The presiding deity  
of Aruṇavara island.  
जीवा० ३, ४;

अरुणवरमहाभद्र. उं० ( अरुणवरमहाभद्र )  
अरुणवर द्वीपनो। अधिपति देवता। अरुणवर  
द्वीप का अधिपति देव. The presiding  
deity of Aruṇavara island.  
जीवा० ३, ४;

अरुणवरोभास. उं० ( अरुणवरोभास )  
ऐ नामनो एक द्वीप अने एक समुद्र.  
एक द्वीप और एक समुद्र का नाम. Name  
of an ocean; also the name of  
an island. जीवा० ३, ४;

अरुणवरोभासभद्र. उं० ( अरुणवरोभास-  
भासभद्र ) अरुणवरभास द्वीपना अधिपति  
देवता। अरुणवरभास द्वाप का अ-  
धिष्ठात्र देव. The presiding deity of  
Aruṇavarabhāsa island.  
जीवा० ३, ४; सू० प० १६;

अरुणवरोभासमहाभद्र. उं० ( अरुणवरभा-  
समहाभद्र ) अरुणवरभास द्वीपनो। अधिपति  
देवता। अरुणवरभास द्वाप का अधिष्ठात्र देव.  
The presiding deity of Aruṇavarabhāsa island. जीवा० ३, ४;  
सू० प० १६;

अरुणवरोभासमहावर. उं० ( अरुणवरभा-  
समहावर ) अरुणवरोभास समुद्रनो।  
अधिपति देवता। अरुणवरोभास समुद्र  
का अधिपति देव. The presiding  
deity of Aruṇavarabhāsa ocean. सू० प० १६; जीवा० ३, ४;

अरुणवरोभासवर. उं० ( अरुणवरभा-  
सवर ) अरुणवरोभास समुद्रनो। अधिपति  
देवता। अरुणवरोभास समुद्र का अधिपति  
देव. The presiding deity of  
Aruṇavarabhāsa ocean. जीवा०  
३, ४; सू० प० १६;

अरुणाम. उं० (अरुणाम) राहुनां लालकृतिवाणी  
पृष्ठगण. राहु के लालकान्ति वाले पुद्गल. The

red material particles of Rāhu.  
सू० प० २०; ( २ ) १८म्. देवता का अरुणोदार्दिसग नाम से विभान्. पांचवं देवलोक का अरुणोदार्दिसग नामक विमान. the heavenly abode of the fifth Devaloka, Aruṇādaka by name. सम० ८; भग० ७, ९; १८, ७; सू० प० १६;

अरुणोदार्दिसग. पुं० ( अरुणोदार्दिसग ) अग्नि-आरभ. देवताकानुरूप नामनु अंड विभन्, के जेना देवता नु आयु-य अंडवीस सागरोपमनु छे. म्यारहयं देवलोक के एक विमान का नाम, जिसके निवासी देवों की आयु २१ सागरोपम का है. The name of an abode of the eleventh heavenly region; the resident gods of which have a duration of life for twenty-one Sāgaropamas. सम० २१;

अरुणुत्तरवर्द्धिभग. पुं० ( अरुणोत्तरवर्द्धिभग ) अरुणोत्तरवर्द्धिभग नामनु अंड विभान्. पांचवं देवलोक का एक विमान का नाम. A heavenly abode of the fifth Devaloka, Aruṇottaravatamisaka by name. सम० ८,

अरुणोद. पुं० ( अरुणोद ) अरुणोद नामे अंड द्वीप अने अंड समुद्र. अरुणोद नाम का एक द्वीप और एक समुद्र. An island of that name; an ocean of that name. सू० प० १६;

अरुणोदग. पुं० ( अरुणोदक ) अरुण द्वीपने इरता अरुणोदग नामना समुद्र. अरुण द्वीप को घेर हुए अरुणोदक नामक समुद्र. An ocean named Aruṇādaka encircling the Aruṇādvīpa. सू० प० १६; भग० १३, ६;

अरुणोदय. पुं० ( अरुणोदक ) लुओ। “ अरुणोदग ” शब्द. देखो “ अरुणोदग ” शब्द. Vide “ अरुणोदग ”. भग० ६, ५; —समुद्र. त्रि० ( -समुद्र) लुओ। “ अरुणोदग ” शब्द. देखो “ अरुणोदग ” शब्द. vide “ अरुणोदग ”. भग० २, ८; ६, ५;

अरुणोववाय. पुं० ( अरुणोपपात ) ७२ सूत-भानु अंड कृतिकृत सूत, के बेमां अरुण देवता की उत्पाते संबंधी हुकीकत हती. हाथ ते विच्छेद थर्ह गंयत्र छे. ७२ सूतों में से एक कालिक सूत्र, जिसमें अरुण देवता की उत्पात के सम्बन्ध में वर्णन था. इस सूत्र का अविच्छेद हो गया है. A Kalika Sūtra, forming one of the seventy-two Sutras. It contained an account of the origin of Aruṇa god. It is at present not in existence. नंदा० ४३; वब० १०, २८; अरुण. न० ( अरुण ) अभ्यम्; प्रण; धा. जलम; घाव; व्रण. A wound, a cut. “ नाति-कंद्रहं संयं अथस्सावरुद्धर्त्त ” सू० १, ३, ३, १३;

अरुहृ. पुं० ( अरुहृ ) अरुहृ तीर्त्तिकृ; अरिहृत. आरुहंत; तीर्त्तिकृ. Arihanta; Tirchau-kara. विशेष० २०८५;

अरुहृ. त्रि० ( अर्ह ) योग्य; लक्ष्यक. योग्य; लक्ष्यक. Worthy; deserving. विशेष० ३३६८;

अरुहृ पुं० ( अरुहृ-न रोहति भूयः संसारे समुत्पत्त इत्यरुहृः ) ज्ञ-भरहित; सिद्ध-भगवन्. जन्म रहित; सिद्ध भगवान्. Free from birth; a Siddha. भग० १, १;

अरुहंत. पुं० ( अरुहृ-न रोहति संसारे भूयो दग्धशीजत्वा दित्यरुहृन् ) अरिहृत भगवान्. अरिहृत भगवान्. Arihanta. भग० १, १;

अरुद्ध. त्रिं (अरुप-न विद्यते रूपं यस्यासावरुपः  
रूपरहितः; वर्णुरहितः. रूप रहित; वर्ण रहित.  
Formless; colourless. भग० ७, १०;  
—काय पुं० (-काय) धर्मास्तिकाय, अध-  
भार्मास्तिकाय, अ.काशास्तिकाय अने जीवास्ति-  
काय. धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा-  
स्तिकाय और जीवास्तिकाय. the four  
substances viz Dharmāstikāya, Adharmāstikāya,  
Ākāśastikāya and Jīvāstikāya भग० ७, १०;  
अरुवि. त्रिं ( अरुपिन्-रूपं मूर्तिर्वर्णादिमत्वं  
तज्जास्ति यस्येत्यरुपी ) रूपरहित; रूपवगरन्.  
अर्मते; रूप रहित; अरुपी. Formless;  
colourless. उत्त० ३६, ४; ६५; टा०  
३, १; ४, १; भग० ३, १०; ७, ७; ११, १०;  
१३, ७; १६, ८; १७, २; आया० १, ५, ६, १७०;  
—अजीव. त्रिं (-अजीव) धर्मास्तिकाय  
आहि चार अशुभ द्रव्य. धर्मास्तिकाय आदि  
चार अजीव द्रव्य. the four material  
substances viz Dharmāstikāya etc. भग० १०, १; ११, १०;  
अजीवद्रव्य. न० (-अजीवद्रव्य) अरुपी अशुभ पदार्थ;  
धर्म, अधर्म, आकाश अने काण ये चार द्रव्य.  
रूप रहित अजीव पदार्थ; धर्म, अधर्म, आकाश  
और काल ये चार द्रव्य. the four  
formless material substances viz Dharma, Adharma, Kāla  
and Ākāśa. भग० २५, २;  
—अजीवपण्णवणा. लां० (-अजीवप्रक्षा-  
पना) अरुपी अशुभनी परुपथा-निरुपथ.  
रूप रहित अजीव पदार्थों का निरुपण.  
explanation of the formless  
material substances. पञ्च० १;  
—काय. पुं० (-काय) जुओ “अरुवकाय”  
शब्द. देखो “ अरुवकाय ” शब्द. vide  
“ अरुवकाय.” भग० ७, १०;

अरोग. त्रिं ( अरोग ) पीड़िरहित; रैगरहित.  
पीड़ा रहित; रोग रहित; नीरोग. Free  
from disease or pain. भग० १८, १;  
अरोगि. त्रिं ( अरोगिन ) जुओ ‘अरोग’शब्द.  
देखो “अरोग”शब्द. Vide “अरोग.” दस०  
६, ६१; पिं० निं० ४१३; निसी० १३, ३७;  
अरोग. त्रिं ( अरोग ) जुओ “अरोग”शब्द.  
देखो “अरोग”शब्द. Vide “अरोग.”  
आया० २, १५, १७६;  
अरोय-ए-माण. व० कू० त्रिं ( अरोचयत ) न  
रे. अनन्तो. नहीं रुचता हुआ. Not pleasing.  
भग० ३, १; ६, ३३; नाया० १५; १६;  
अल. त्रिं ( अल ) पृष्ठ कार्य इरव भाँ समर्थ.  
इष्ट कार्य करने में समर्थ. One able to  
perform a desired work. आया०  
२, ५, १, १४७; ( २ ) अलादेवीनुं  
सिंहासन. अलादेवी का सिंहासन. the  
throne of Alādevī. नाया० ४० ३;  
अलं अ० ( अलम् ) परिपूर्णः पर्याम परिपूर्णः;  
पर्यास. Full; full of perfection.  
भत्त० ५; पंचा० ६, ५०; आग्रा० १, ३, २,  
१११; १, ७, ५, २१६; ( २ ) समर्थ. समर्थ-  
able; capable. दस० ७, २७; ८, ६२;  
भग० ११, ११; १५, १; नाया० १; ८; १४;  
१६; निसी० १४, ७; उत्त० ६, ३; ( ३ )  
प्रतिनिधि; निर्विधि; निर्विधि. प्रतिवेत्र; निर्विधि;  
नामज्ञ. an indeclinable showing  
prohibition; no more. सूय० निं०  
टा० २, ७, २०४; ( ४ ) अनि; धृष्टः;  
अत्यन्त. बहुत; अत्यंत. enough; too  
much. ओव०  
अलंकरण त्रिं ( अलङ्करण ) शोभा॒कार॒क.  
शोभाकारक. Adorning; beautify-  
ing; embellishing. कृप० ३, ३६;  
अलंकार. पुं० ( अलङ्कार ) आभूषणः डेशादं-  
कार, माणादंकार, वस्त्रादंकार अने आभरण-

लंकार एवं चार प्रकारना। अंडाकारभानो गर्भे  
ते अंड प्रकार। आमूषण, गद्धा; केशालंकार,  
मालालंकार, वस्त्रालंकार और आमूषणालंकार  
इन चार प्रकार के अलंकारों में से काई भी एक  
प्रकार का अलंकार। Any one of the  
four kinds of embellishment, viz  
those for the hair, those con  
sisting of garlands, rich clothes,  
and gold and silver ornaments.

“ तपर्ण से सूरियामे देवे केसालंकारेण  
मालालंकारेण वस्त्रालंकारेण आभरणालंकारेण  
चउधिष्ठिण अलंकरेण अलंकिण् विभूषिण  
समायं ” राय० १८६; नाया० १; २; १४; १६;  
१८; दस० २, २; भग० ३, १; ७, ६, ६, ३३; १५,  
१; घा० ६, ४; दसा० ६, ४; कप्प० ४, ८, ८;  
जं० प० ५, ११७;—सभा. ली० (-सभा)  
अंडाकार-धरेणुं पहुरेवानी सभा—भेद्य-धर.  
गहने पहिने का घर. a chamber  
reserved for putting on orna  
ments. जीवा० ३, ४;

अलंकारिय. पु० ( अलङ्कारिक ) हजाम; नाई;  
वाहुं; नापित. नाई. A barber. विवा०  
६; नाया० १३; ( २ ) अंडाकार; धरेणुं.  
अलंकार; गहना. an ornament. नाया०  
१३; घा० ५, १; जं० प० ४; ८,—कम्म. न०  
( -कर्मन् ) केश आदि सभारवानुं कर्म; क्षुरकर्म;  
नभ्यादि उतारवा ते. केश-बाल वगैरह बनाने  
का कर्म; चौरकर्म; बाल नख आदि कटना.  
shaving, hair-cutting etc. विवा०  
६; नाया० २; १६;—सभा. ली० (-सभा)  
न्यां ऐसी अंडाकार-धरेणुं पहेराय तेवुं स्थान;  
आभूषणु पहुरेवानी सभा—धर. जहां बैठकर  
आभूषण पहिरे जाँय वह घर. a chamber  
reserved for putting on orna  
ments. जं० प० ४, ८; राय० १६; ठा० ५, ३;  
( २ ) हजामत करावथानी ७४॥। हजामत कर-

बाने की जगह. a room set apart for  
shaving purposes. नाया० २; १३;—  
सदा. ली० (-सभा) जुओ। उ५॥। शाम०.  
देखा ऊपर का शब्द. vide the above  
word. नाया० १३; ठा० ५, ३;  
अलंकारिय. त्रि० ( अलङ्कारित ) अभूषण  
वर्गरथी अंडाकृत करेत. आभूषण-गहनों से  
अलंकृत. Adorned; ornamented.  
भग० ६, ३३;

अलंकिञ्च-य. त्रि० ( अलङ्कृत ) अंडाकृत;  
निष्पूषित; मुद्रुट आदिथी शश्यगारेत; शीबा-  
वेत; अंडाकारयुक्त. अलंकृत; सुशाभित; मुकृट  
आदि से संग्राहा हुआ; अलंकार युक्त. Adorn-  
ed; ornamented. ओवा० ११; ३१;  
आया० २, २, ४, १७०; अगुजो० १२८; ठा०  
७, १; उत्त० ३०, २२; नाया० १; भग० ६,  
३३; १८, ५; निसी० १२, ३४; कप्प० ४,  
६२; ६७; ( २ ) न० स्पष्ट-अन्तर अक्षण-स्वरथी  
गावुं ते; गायनो एक गुण. गायन का एक  
गुण; स्पष्ट स्वर से गाना. Singing in  
distinct tunes or strains, re-  
garded as a merit in music.  
अगुजो० १२८; जीवा० ३;

अलंघणिज्ज. त्रि० ( अलङ्कवनीय ) उद्धंधन  
करवा योग्य नहि. उद्धंधन करने के अयोग्य.

Intransmissible. सु० च० २, ४४४;

अलंब. त्रि० ( अलम्ब ) लांगु नहि; दुः. जो  
लंबा न हो वह; छोटा. Not long; short.

“ अयाकुचिंच्छ अलंबकुचिंच्छ ” उवा० २, १०१;  
—कुकिल. त्रि० ( -कुचि ) लंभाधरित दुक्षि-  
कुंभ छे जेनी ते; जेनी दुक्षि वधारे लांभी  
नथी ते. जिसकी कुच्छी-कोख बहुत लंबी न  
हो वह. ( one ) of small womb;  
having a womb not very long.  
नाया० १;

अलंबुसा. ली० ( अलम्बुषा ) उत्तरकृष्ण पर्वतउपर  
वसनारी आहमानी पहेली दृश्याकुभारिका. उत्तर

रुचक पर्वत पर रहने वाली आठ दिशाकुमारियों में से पहिली दिशाकुमारी। The first of the eight Dīśākumāris residing on Uttara Ruchaka mountain.

जं० प० ५, ११४;

**अलंभिता.** सं० कृ० अ० ( अलंध्वा ) न पामीने; नेपाल्या वगर. बिना पाये; बिना प्राप्त किये। Without getting; without having obtained. ठ० ३, २;

**अलंभोगसमर्थ.** त्रि० ( अलंभोगसमर्थ ) बोग भेगवनाने पुरती रीते समर्थ थमेक; उर जुनानीभाँ आवेद. भोग भोगने में पूर्ण रीत से समर्थ। Fully capable of worldly enjoyments; in the full spring of life. अंद० ०

**अलकापुरी.** ल्ला० ( अलकापुरी ) लैटिक शास्त्र प्रथाणु शुभेन्ती नगरी। लौकिक शास्त्र के अनुसार कुबेर की नगरी। The city belonging to Kubera according to popular mythology. जं० प० ३, ४१;

**अलक्ष.** पुं० ( अलक्ष ) वाराणसी नगरीनो। श. वाराणसी नगरी का राजा। A king of the city of Vārāṇasī. अंत० ६, १६;

**अलक्षण.** पुं० ( अलक्ष ) अंतगड सूत्रना छटा वर्गना सोगभा अध्ययनतनु नाम। अन्तगड सूत्र के छठे वर्ग के सोलहवें अध्याय का नाम। The sixteenth chapter of the sixth section of Antagadā Sūtra. अंत० ६, १६; (२) महावीरस्वामीना समयभाँ डाशी-पथारी ( वाराणसी ) नगरीनो एक राजा, डै लेखे भेटा पुत्रने राज्य सोपी भगवान् अनामी प.से दीक्षा लीधी; अगीयार अंगेना अक्ष्यास करी, धथा वर्सनी प्रवक्ष्या पाणी, विपुल पर्वत उपर संथारे। करी सिंहि भेष्यामी।

महावीरस्वामी के समय का काशी ( वाराणसी ) नगरी का एक राजा, जिसने अपने बड़े पुत्र को राज्य दे, महावीर स्वामी से दीक्षा ली और ग्यारह अंगों का अभ्यासकर बहुत वर्षों तक दीक्षा का पालन किया, तथा अन्त में विपुल पर्वत के ऊपर संथाराकर सिंहि प्राप्त की। a king of Benares contemporary with Mahāvīra Svāmī, who resigned his kingdom in favour of his eldest son, took Dikṣā from Mahāvīra, studied eleven Āṅgas, practised asceticism for many years performed Saṅthāra on Vipula mount and became Siddha. अंत० ६, १६;

**अलक्षण.** न० ( अलक्षण ) अपदक्षय। कुलक्षण; खराव चिन्ह। A bad sign; a bad habit. ( २ ) त्रि० सारां लक्षण् रहित। अच्छे लक्षणों से रहित। devoid of good signs. नाया० ३;

**अलक्षणग्या.** ल्ला० ( अलक्षणता ) असम्भूत भाषण्; यदा तदा घोषयन्ते। असमजस भाषण; यदा तदा बोलना। Reckless, wanton speech. विश० ३४७;

**अलगापुरी.** ल्ला० ( अलकापुरी ) जुओ। “अलकापुरी” श.८६. देखो “अलकापुरी” शब्द। Vide “अलकापुरी”。 अंत० १;

**अलग्न.** त्रि० ( अलग्न ) असंबद्ध; न लागेक। न लगा हुआ; असमबद्ध। Unconnected; not joined together. पंचा० ३, २१;

**अलक्त.** पुं० ( अलक्त ) लाक्षा २स; अलतो। लाक्ष का रस; लाक्षारस। Lac; a dark-red trans-parent substance. निर० ३, ४;

**अलत्तम्भ-व-** अलत्तम्भ-व- अलत्तम्भ-व- अलत्तम्भ-व-

पुं० ( अलक्तक ) अलतो। लाक्ष। Lac; a dark-red trans-

parent substance. (२) त्रि० लाखथी रंगेदेह; लाख. लाख से रंगा हुआ; लाल. dyed with lac; of scarlet colour. “जे इत्यु ते अलत्तपु” अणुजो० १३१;

**अलस्तग.** न० ( अलवतक ) अक्षतोः; लाल रंगनुं ऐ६ ५४५. लाल; लाल रंग का एक द्रव्य.

Lac; a dark-red transparent substance. अणुत्त० ३, १;

**अलख.** त्रि० ( अलब्ध ) नहि भगेख; प्राप्त न थंगल. नहीं मिला हुआ; अप्राप्त. Unobtained; not obtained. ठा० ५, २; नाया० ५; भग० १८, १०; —पुव्य. त्रि० (-पूर्व) पूर्वे प्राप्त-नहि क्लेख; आधु वप्त नहि भगेख. पहले कर्मा न मिला हुआ. not obtained before; never obtained before. आया० १, ६, ३, ८;

**अलद्विजुत्त.** त्रि० ( अलविधयुक्त ) अक्षमिध-अप्रभवाण्युं; ऐने आःङा॒रादिक्नो॑ लः॒न भगेते. अलविध साहृत; जिस आहारादिक का लाभ न हो वह. (One) with non-attainment of e. g. food etc. पंचा० १८, ३६;

**अलद्विधि.** त्रि० ( अलविधिक ) अक्षमिधवाण्युं; लाभ वगरनुं; लभिधरहित. लविध राहत; लाभ बिना का. (One) having no attainment or acquirement of. भग० ८, २; ओव०

**अलद्व्युञ्च.** सं० कृ० अ० ( अलध्वचा ) भेण्या० विना॑; न भेण्वीने. बिना प्राप्त किये; बिना पाये. Without having obtained; having not obtained. “अलद्व्युञ्च नो परिद्वेषजा” दस० ६, ३, ४;

**अलभमाण.** व० कृ० त्रि० (अलभ्यमान) न प्राप्त थतुं; न भगतुं. प्राप्त न होता हुआ; न मिलता हुआ. Being not obtained; not

being obtained. नाया० ६; १६;

**अलभमाण.** व० कृ० त्रि० (अलभमान) न पापतो थड़ा. प्राप्त न करता हुआ. Not obtaining. निर्सो० १०, ४४; नाया० २; ८; ६; १६; ओव० ३६;

**अलभसिरी.** त्रि० ( अलभश्री ) अलादेवीनी पूर्वनी भाता. अलादेवी की पूर्वकी भाता. The former mother of Alādevī. नाया० ४० ३;

\***अलमंथु.** त्रि० ( अलमस्तु-समर्थ ) समर्थ; शक्तिभान्. समर्थ; शक्ति वाला. Powerful; strong. ठा० ४, २;

**अलमत्थु.** त्रि० ( अलमस्तु ) अस क्ले॒-भ क्ले॒. ऐवी रीते निषेध क्लेनार. ‘वस, समाप्त, अब न करो’ इस प्रकार निषेध करने वाला. Enough of it; don't do it. भग० ७, ८; ठा० ४, २;

**अलय.** न० ( अलक ) विष्णो॑ कंटो॒. बिच्छू का डंक. A scorpion's sting. “अलए भंजावै॒” विवा० १, ६;

**अलया.** स्त्री० ( अलका ) जुओ॑. “अलकापुरी” श०८. देखो ‘अलकापुरी’ शब्द. Vide “अलकापुरी”. नाया० ४;

**अलयापुरी.** लां० ( अलकापुरी ) जुओ॑ “अलकापुरी” श०८. देखो “अलकापुरी” शब्द. Vide “अलकापुरी” अंत० १, १; नाया० ५;

**अलव.** त्रि० ( अलय-लपन्तीति लपा वाचाला॑; न लपा अलया मौनवतिनः ) भैनवनधारी. मौन व्रत धारण करने वाला. (One) with a vow of silence. सूय० २, ६, १५;

**अलस.** त्रि० ( अलस ) आःासु॑; प्रभाद॑. आलसी; प्रमादी. Lazy; idle; negligent.

त्रि० निं० २६५; ओव० भा० ४८; (२) भन०८; धीभु॑. मंद; ठंडा; सुस्त. slow; not quick; dull ओव० निं० ४८; (३) पुं०

अग्नियो। एक प्रकार का बरसाती दो इन्द्रिय वाला जीवविशेष; अलसीया. the snake-like worms that originate in the rainy season mostly in Aslesā constellation i. e. about the beginning of July. “अलसा मा हवाह्या” उत्त० ३६, १२७; ( ५ ) उत्तर भरतभानी ऐक देश। उत्तर भरत चेत्र में का एक देश. name of a country in Uttara ( northern ) Bharata. जं० प०

**अलसग.** त्रि० ( अलसक ) आग्ने॒. आलसी॑. Lazy; idle; inert. सू॒श० २, २, ५४; अलसमाण. व० कृ० त्रि० ( अलसायमान-अनलसोऽलसो भवतीन्यलसायते, अलसायत इत्यलसायमानः ) आलस्य करते। आलस्य करता हुआ। Remaining idle; keeping lazy. गच्छा० ४;

**अलसय.** त्रि० ( अलसक ) निश्चिकाविशेष॑; आडानो ऐक रोग. विशूचिकाविशेष; दस्त का एक रोगविशेष. A disease connected with stools; a disease affecting stools. “एवं खलु तुमं श्रंतो सत्तरत्स्म अलसपुणं वाहिणा अभिभूया समाणी”उद्वा० ८, २५५;

**अलसिअ.** त्रि० ( आलस्यिक ) आग्ने॒; प्रभाद॑। आलसी; प्रमादी। Idle; lazy; negligent. उत्त० २७, १०;

**अलसिरी.** छाँ० ( अलश्री ) वाराण्यसी नगरीना अल गाथापतिनी छ्वी; धरण्येन्द्रीनी अद्या नामनी अग्रभहिधीनी पूर्वभवनी माना। वाराणसी नगरी के अल गाथापति की छ्वी; धरण्येन्द्र की अला नामक पट्टरानी की पूर्वभव की माता का नाम। The wife of the Gāthāpati Ala, of the city of

Vārāṇasī; the mother of Alā the crowned queen of Dharaṇendra in her previous birth. नाया० ध० ३;

**अलसी.** छाँ० ( अलसी ) अलसी; धान्यविशेष। अलसी। धान्यविशेष। A kind of corn. आया० निं० दी० १, १, ५, १२६; भग० २२, २;

**अलहुय.** त्रि० ( अलघुक ) अत्यन्त सूक्ष्म; जेनाथी भाने डेई लघु नथी ते। अत्यन्त सूक्ष्म; जिससे दूसरा कोई लघु न हो वह। Very minute; infinitesimal. घा० १०;

**अला.** त्रि० ( अला ) धरण्येन्द्रीनी ग्रथम् अग्रभहिधीनुं नाम। धरण्येन्द्र की प्रथम पट्टरानी का नाम। Name of the first principal queen of Dharaṇendra. भग० १०, ५; नाया० २; ( २ ) विद्युत्कुमार भतनी भेडी देवी। विद्युत्कुमार जाति की बड़ी देवी। a great goddess of the Vidyutkumāra class. घा० ६;

—वर्णसय. न० ( अवतंसक ) अद्या देवीनुं भवन। अलादेवी का भवन. the palace of Alā Devī. नाया० २; नाया० ध० ३;—सीहासण. न० ( सिंहासन ) धरण्येन्द्रीनी पट्टराणी अलादेवीनुं सिंहासन। धरण्येन्द्र की पट्टरानी अलादेवी का सिंहासन. the throne of Alā Devī the crowned queen of Dharaṇendra. नाया० ध० ३;

**अलाअ-य.** न० ( अलात ) उंभाई॒; सण्गतुं-धुधवातुं छाणुं अथवा लाक॑; सिलगता-धुंधकता हुआ कंडा अथवा काष्ठ। A burning piece of fuel. विशे० २२४; २४३३; दस० ४; द, द; नंदी० १०; पञ्च० १; नाया० १६; श्रोध० निं० भा० २१; जीवा० ३, १; घा० ५, १;

**अलाउ.** न० ( अलाउ ) तुंभुः. तूबा. A gourd. अणुजो० १३१; आया० २, ६, १, १५२; सूय० १, ४, २, ४;—**च्छेद.** न०(—च्छेद) तुंभुः छेदयानुः द्यथियास्-यपुवगेरे. तूबा छेदने का हथयार. an instrument (e. g. knife) to cut or bore a gourd. ‘ अलाउच्छेदं पेहहिं ’ सूय० १, ४, २, ४;—**पात्र.** न० ( पात्र ) तुंभाणुः पात्र. तूब का पात्र. a vessel or receptacle made of gourd. आया० २, ६, १, १५२;

**अलाउय.** न० ( अलाउकु ) तुंभुः. तूबा. A gourd. आया० २, ६, १, १५२;

**अलाघवया.** ल्लां० ( \*अलाघवता—अलाघव—अविद्यमानं ल्लाघवं लघुता यस्य स तथा तज्जावो—ज्ञाघवता ) लघुतानो अभाव. लघुता का अभाव. Absence of lightness or smallness. प्रव० ८१३; पंचा० १७, १८;

**अलादेवी.** ल्लां० ( अलादेवी ) जुओ. ‘अला’ शब्द. देखो ‘अला’ शब्द. Vide ‘अला.’ नाया० ४० ३;

**अलावु.** न० ( अलाकु ) जुओ. ‘अलाउ’ शब्द. देखो ‘अलाउ’ शब्द. Vide ‘अलाउ’. विश० २३७७; जं० ४०

**अलाभ.** पुं० ( अलाभ ) अलाभ; आदारादिनी अप्राप्ति. अलाभ; आहारादि की अप्राप्ति. Non-acquisition e. g. of food etc. “अलाभो तं न तज्जण्” उत्त० २, ३१; इस० ५, २, ६;—**परिसह.** पुं० ( —परिषह ) आदारादिनी अप्राप्ति। परिषह. आहारादिक की अप्राप्ति का परिषह. bearing calmly pain arising from not obtaining food etc. सम० २२; भग० ८, ८;

**अलाहि.** अ० ( अलम् ) निवारण्; निषेध. निवारण; निषेध; मनाहि. An indeclinable meaning “enough,” “don’t do”

( २ ) संपूर्णु; पर्याप्त. सम्पूर्ण; पर्याप्त. fully; perfectly. भग० ६, ३३; १५, १; नाया० १; १६;

**अलाहि.** धा० ( अलामि ) लभ धातुं एक रूप; जुओ ‘लम्’ धातु. लभ धातु का एक रूप; देखो ‘लम्’ धातु. A form of the root “ लभ ” q. v. कप्प० ६, १६;

**अलिआ.** ल्ला० ( अलीका ) जुहाणुवाणी भाषा; असत्य भाषा. झूठ भरी भाषा. False speech; falsehood. प्रव० १३३५;

**अलिजर.** पुं० ( अलिजर ) धडी; भालीयै; पाणी भरवानु धाम. घडा; पानी भरने का बरतन. A pot of water; a vessel in which water is kept. जीवा० ३; ठा० ४, २;

**अलिजररय.** पुं० ( अलिजरक ) जुओ “अलिजर” शब्द. देखो “अलिजर” शब्द. Vide “अलिजर” “कलसए य अलिजरए य जंबूलए य” उवा० ७, १८४;

**अलिंद.** न० ( अलिन्द ) ओट्टो॒; चोतरौ॑, ओट्ला॑; चबूतरा॑. Verandah. ( २ ) कुँड़ी. कूडा. a round tub-like vessel. औघ० निं० ४७६;

**अलिंदअ-य.** न० ( अलिन्दक ) जुओ ‘अलिंद’ शब्द. देखो ‘अलिंद’ शब्द. Vide “अलिंद.” अणुजो० १३२;

**अलित्त.** त्रि० ( अलिप्त ) लेपायेक-भरणायेक नहि. विना लीपा हुआ. Unsmeared; not bespattered. उत्त० २५, २६;

**अलित्त.** न० ( अरित्रि ) हुलेसुं; नावने हुलाववानु वांसुं. नाव चलाने का बांस-झांड. An oar. “अलित्तेण वा पीढ़इय वा” आया० २, ३, १, ११६;

**अलित्तश.** न० ( अरित्रि ) जुओ “अलित्त” शब्द. देखो “अलित्त” शब्द. Vide “अलित्त.” निसी० १८, १६;

**अलिपत्त.** पुं० ( अलिपत्र ) विश्वीनि पुंछीना। आङरे नेनां पाँडां छे अेवुं वृक्ष. वृक्षविशेष; जिसके पत्तों का आकार विच्छू की पूँछ के समान होता है। A tree with leaves of the shape of the tail of a scorpion. विवा० १, ६;

**अलिय-अ.** न० ( अलीक ) जुँदु; खोटु; भिथ्या; असत्य. झूठ; मिथ्या; असत्य. Falsehood; untruth. “नापुटो वागरे किंचि, पुटो वा नालियं वा।” उत्त० १, १४; ३४, ३; भग० ५, ६; सम० १० सु० च० १३, ३३; ओव० निं० ७८७; ठा० ६, १; परह० १, २; ओव० ३४; पंचा० १, ११, भत्त० १०१;—घयण. न० (—वचन) असत्य-जुँदु वथन; असत्य वचन; झूठ वचन. falsehood; false speech. प्रव० ४५७; भग० ८, ६; वय० ६, १;

**अलिसंद.** पुं० (अलिप्यन्द) योगानीअेक जात; धान्यविशेष. चोला; धान्यविशेष. A kind of corn. पञ्च० १;

**अलुकिखि.** त्रि० ( अलुकिन् ) निन०४-स्नेहयुक्त २५र्थायो। दुधुं नंडि ते. स्खापन रहित; चिकना. Sticky; not dry. भग० १४, ४;

**अलुग.** न०(आलुक) आलु-झटाटा; कंदविशेष. आलू; कंदविशेष. A bulbous root; e.g. a potato. पञ्च० १;

**अलुद्ध.** त्रि० ( अलुव्य ) लेख वगरना; संतोषी. लोभ रहित; संतोषी. Free from greed; contented. “लदूरूणं सर्थं न अत्तटे एस अलुद्धो” परह० १ ५;

**अलूसंश.** त्रि० ( अलूक ) अ-नंडि ल०५३-विशेष; जरा ५७ु संयमनी विरापना। न करनार. संयम की अलुमात्र भी विराधना; न करने वाला। (One) not in the least violating the vows of asceticism. सूय० १, ३, २, ६;

**अलूसंश.** व० क० क० त्रि० (अलूसंश) परितापना-पीडा न उपजावतो; केघना प्राणु न लुट्टे। किसीको पांडा न देता हुआ; किसीके प्राण न लेता हुआ। (One) not troubling others; one not depriving anybody of life. आया० २, १६, ४;

**अलेच.** पुं० ( अलेप ) लेपनो अभाव; अलिम पाणु. लेप का अभाव; अलिसपना. State of being unsmeared, unbespattered. आव० ६, १०;—कड़-त्रि०(कृत) नेनाशी पात्र भरणाय-लेपाय नंडि तेवी वस्तु; दाणीआ, बण्णा, वटाणा वगेरे. जिससे पात्र न लिप हो ऐसी वस्तु; चना, बटला वगैरह. ( anything ) which does not bespatter the vessel in which it is put; e. g. grams etc. पंचा० १८, ६;

**अलेवड.** त्रि० ( अलेपकृत ) जुआ। “अलेव-कड़” श०८६. देखो “अलेवकड़” शब्द. Vide ‘अलेवकड़’ पिं० निं० भा ३७; प्रव० ५८५;

**अलेवाड.** त्रि० (अलेपकृत ) जुआ। ‘अलेव-कड़’श०८६. देखो ‘अलेवकड़’ शब्द. Vide ‘अलेवकड़’ नाया० ८; अंत० ८, १; प्रव० ७५९;

**अलेसि.** पुं० ( अलेश्यन् ) लेश्यारहित श्व; सिद्ध लगवान् तथा अथेगी-ज्ञात्मा गुणुडाणा वाणा श्व; दृष्टि आदि ७ लेश्याभानी। केघ पाणु लेश्या वगरना. लेश्या रहित जीव; सिद्ध भगवान् तथा चादहवें गुणास्थान वाला अयोग्य जीव; जिसमें कृप्या आदि छः लेश्याओं में से कोई लेश्या नहीं होती ऐसा जीव. A soul free from thought-tint or thought colours; a Siddha or a soul in the 14th Guṇasthāna. ठा० ३, ४;

**अलेस्स. पुं०** ( अलेश्वर ) लेश्वारहित शृः; शैद्धमा गुणु ठाणुवाणा। तथा सिद्ध भगवान्। लेश्या रहित जीव; चाँदहवे गुणस्थान वाला जीव तथा सिद्ध भगवान्। A soul free from Leśyā or thought-tint e. g. a soul in the fourteenth spiritual stage and a Siddha. भग० ६, ४; ८, ८, २; १७, २; १८, १; २५, ६; २६, १; जीवा० १;

**अलोश्च-य.** पुं० ( अलोक ) लोक-०४८त ०५२२ने प्रदेश; अलोक. लोक-जगत् के बाहर का प्रदेश; अलोक. Place outside the world; place beyond the universe. ठा० ५; उत्त० ३६, १; नंदी० १५; ओव० ३४; सूय० २, ५, १२; भग० १, ६; २०, २; प्रव० ६६३;

**अलोग.** पुं० ( अलोक ) जुओ। 'अलोश्च-य' शा० ८. देखो 'अलोश्च-य' शब्द. Vide 'अलोश्च-य' दसा० ५, ३३; भग० २, ४; १४, ८;—**अन्त.** पुं० (-अन्त) अलोकने। अंत-०४१। अलोक का अंत. the end of Aloka ( i. e. region beyond the universe). प्रव० ६१६;

**अलोगकाश.** पुं० ( अलोकाकाश ) लोकाकाशनी ०५२२ अलोकाकाश। अलोकाकाश; लोक के बाहर का आकाश; Akāśa or space beyond the universe. भग० २५, ३;—**सेढी.** छां० (-श्रेणी) अलोकाकाश की श्रेणी-पंक्ति. the line of space beyond the universe. भग० २५, ३;

**अलोभ.** त्रि० ( अलोभ ) लोभरहित. लोभ रहित. Free from greed. ( २ ) पुं० लोभनो अभाव. लोभ का अभाव. absence of greed. सम० ३२; क० गं० ४, ६१;

**अलोभत्त.** न० ( अलोभत्त ) लोभनो। अभाव. लोभ का अभाव. Absence of greed. भग० १, ६;

**अलोभया.** छां० ( अलोभत्त ) लोभनो। अभाव; ३२ योगसंत्रै६मानो। आठमो योग-संग्रह. लोभ का अभाव; ३२ योगसंग्रहों में से आठवाँ योग संग्रह. Absence of greed; the eighth of the thirty-two Yoga-Saṅgrahas. सम० ३२;

**अलोयंत.** पुं० ( अलोकान्त) अलोकने। अन्त-०४१। अलोक का अंत. End of the space beyond the universe. भग० १, ६; ११, १०;

**अलोयागास.** पुं० ( अलोकाकाश ) जुओ। 'अलोगकास' शा० ८. देखो 'अलोगकास' शब्द. Vide 'अलोगकास.' भग० २, १०; २०, २;

**अलोल.** त्रि० ( अलोल ) अलु०४८; लोलुपता रहित; डैर्हनी पासे प्रार्थना करनार नहि. लोलुपता रहित; किसीसे भी प्रार्थना न करने वाला. Not greedy; not soliciting anything from anybody. दस० १०, १, १७;—**भिक्खु.** पुं० (-भिज्ञ) डैर्हनी पासे प्रार्थना करने भिक्षा नहि भाग-नार ( साधु ). किसीसे प्रार्थना करके भिक्षा नहीं मांगने वाला ( साधु ). a Sādhu not asking food by solicitation.

“अलोलभिक्खु न रसेषु गिजके” दस० १०, १, १७;

**अलोलुआ-य.** त्रि० ( अलोलुप ) लोलुप-१२३ लं४८ नहि; भावनो गृह्णि नहि. लोलुपता रहित. Not greedy of sensual pleasures, of food etc. उत्त० ३, ३६; २५, २७; दस० ६, ३, १०;

**अलोलुप.** त्रि० ( अलोलुप ) जुओ। 'अलो-

लुञ्च-य' शण्ठ८. देखो “ अलोलुञ्च-य' ” शब्द.  
Vide ' अलोलुञ्च-य. ' उत्त० २, ६६;

\*अस्त्र. त्रि० (आर्द्ध) लींगु; सञ्चिः; भींगु. गीला;  
सजल. भींगा हुआ. Wet; damp. “ अलं  
चम्मं दुरुहइ ” नाया० १२; १८; निर० १, १;  
प्रव० २३८;—कच्छूर. पुं० ( -कर्चूर ) ऐ८  
ज्ञतनी आर्द्ध वनस्पति; लींगे। क्षूरै. एक जाति  
की हरी वनस्पति; कच्छूर. a kind of green  
vegetation. प्रव० २३८;—चम्म. न०  
( -चर्मन् ) आलुं चाम०. आर्द्ध चर्म;  
गीला चमड़ा; wet leather. विवा०  
३;—मुतथा. छाँ० ( -मुस्ता ) नागरभेथ.  
नागरमोथा. a kind of fragrant  
grass. प्रव० २४०;

अस्त्रई. ली० ( अस्त्रकी ) युद्ध ज्ञतनी ऐ८  
वनस्पति; दूधी. एक जाति की गुच्छ वनस्पति;  
दूधी. A kind of vegetation growing  
in bunches. राय० ५४; पञ्च० १७; भग०  
२२, ४;—कुसुम. न० ( -कुसुम ) दूधींगु इल.  
दूधी का फूल. a flower of अस्त्रई (q. v.).  
पञ्च० १; राय० ५४;

\*अस्त्रक. न० ( आर्द्धक ) अ८दु. अदरख.  
Ginger. जं० प०

\*अस्त्रग. पुं० ( आर्द्धक ) युञ्मे। 'अस्त्रक' शण्ठ८.  
देखो ' अस्त्रक ' शब्द. Vide ' अस्त्रक. '  
प्रव० २३८;

अस्त्रियावण. त्रि० (\*अस्त्रायन-सन्धि) क१॥४४  
नहि तेवे। सांधे।—ऐ ८०४नो परस्पर भेणाप.  
मालूम न हो ऐसा जोड़; दो वस्तुओं का पर-  
स्पर मेल. Union of two substances  
without the dividing line  
being visible. भग० ८, ६;—बन्ध. पुं०  
( -बन्ध ) ऐ८ ८०५ने भील ८०४नी साथे  
योटाइनु ते; सांधे। क१॥४४ नहि तेवा। रीते गुंद  
वंगरेथी योडिनु ते. एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के

साथ चिपकाना; जोड़ न मालूम हो इस रीति से  
गोंद वगैरह से जोड़ना. joining two sub-  
stances in such a way that the  
joint is not visible. “ से किं ते  
अस्त्रियावणबंधे ? अस्त्रियावणबंधे चउविहे  
परणते, तंजहा-लेसणाबंधे उच्चयबंधे  
समुच्चयबंधे साहणणाबंधे ” भग० ८, ६;

✓ अस्त्रीश्र. धा० I. ( आ+ली ) आश्रय  
करवे. आश्रय करना. To resort to.  
( २ ) धृदिये ग्रापवी-वश करवी. इन्द्रियों  
को वश करना. to restrain or  
control the senses.

अस्त्रिए. वि० गच्छा० ४६;

अस्त्रियावेह. ग्यि० नाया० २;

अस्त्रियावेहता. सं० क० नाया० २;

अस्त्रीण. त्रि० ( आलीन ) गुर्वाटिकने आश्रि-  
रहेल. गुह आर्दि के आश्रित रहा हुआ. (One)  
relying or depending upon a  
preceptor etc. नाया० १६; राय० २६६;  
भग० १, ६; आव० १०; ३८; अंत० ३,  
१; ( २ ) आ-समन्तात् सर्वे कियामां  
लीन-गुप्त; गंभीर येष्टा करना २. सम्पूर्ण कियाओं  
में लीन-गंभीर चेष्टा करने वाला. seriously  
or solemnly performing  
all actions. जं० प० २, २०; ( ३ ) भन,  
वयन अने कायाथी युप्त थमेल. मन, वचन  
और काया से गुप्त. controlled in mind;  
speech and body. उत्त० २३, ६; भग०  
२, १; २५, ७; नाया० १; कप्प० ४, ६१;  
अगुत्त० ३, १; ( ४ ) उत्पन थमेल; वृद्धि  
पमेल. उत्पन्न; वृद्धि को प्राप्त. born;  
developed. नाया० १६; ( ५ ) भनोहर;  
सुन्दर; खूबसूरत. charming;  
beautiful. नाया० १; ( ६ ) न० शरीर.  
शरीर. body. नाया० १; ( ७ ) त्रि० निःसंग;

लेपरहित. निःसंग; लेप रहित. free from attachment; unattached. कप्प० ७, २१०;—पङ्गीणगुत्त. त्रि० (-प्रलीनगुत्त) अंगोपांश वज्रेने सारी शीते संयमभाँ राखनार. अंगोपांश वगैरह को अच्छी तरह से संयम में रखने वाला. well-controlled in the actions of the limbs and sub-limbs of the body. दस० ८, ४१;—प्रमाण. न० (-प्रमाण) शरीर प्रभाष्. शरीर प्रमाणः शरीरानुसार. the measure of the body. नाया० १; जं० प० २, २०;

**अङ्गीण.** त्रि० ( अङ्गीन ) गुप्त नहि ते. जो गुप्त न हो वह. Not secret; open. जीवा० ३, ३;

**अङ्गीण्या.** स्त्री० ( आलीनता ) गुप्तेन्द्रियपृष्ठ. गुप्तेन्द्रियपना. Restraint of the senses. भग० ६, ३१;

**अङ्गेस्ता.** स्त्री० ( अङ्गेश्या ) लेश्यानो. अभाव. लेश्या का अभाव. Absence of Lesiyā (i. e. thought tint or thought colours). क० गं० ४, ५३;

**अव.** अ० ( अव ) अधिकपृष्ठ. अधिकता. A prefix showing addition, excess. सम० १;

**अवझण.** त्रि० ( अवतीर्ण ) उत्तरेन्दुः; तरीने पार गमेन्दुः. उत्तरा हुआ; तिरकर पार गया हुआ. Crossed; descended. सु० च० १, २२८; ४, ३५;

**अवउज्जिय.** सं० कृ० अ० ( अवकुञ्ज्य ) नीचे नभीने; नीचे शरीर संक्षेपीने. नीचे झुककर. शरीर नीचे को सिकोइकर. Bowing down; contracting the body and lowering it. आया० २, १, ७, ३७;

✓**अवउज्जम.** धा० I. ( अप+उज्जम ) त्याग उज्जेह; तज्जुं; मुझी द्वेषुं. त्याग करना; छोड़ना. To abandon; to give up. अवउज्जमह. 'अवउज्जमह पायकंबल' उत्त० १७, ६; पंचा० १६, ६;

**अवउड.** न० (\*अवकोट-ग्रीवाभञ्जन) ग्रीवा-डोँड भरही ते. गर्दन मरोड़ना. To turn or twist the neck. नाया० २;

**अवउडग.** न० (\*अवकोटक) जुओ। उपदेह शम्भ०. देखो ऊपर का शब्द. Vide the above word. विवा० २;—बंधण. न० (-बन्धन) भरतक्ने भरतीने भुजा साथे पीड़ना। लागभाँ आंधवुं ते; मुक्षेटाट आंधवुं ते. मस्तक को मरोड़कर भुजा साथ के पीठ पर बांधना. to bind fast e.g. by twisting the arms and the head and tying them to the back. विवा० २; ६; अंत० ६, ३; राय० २५३; परह० १, १;

**अवउडय.** न० (\*अवकोटक) जुओ। “अवउड” शम्भ०. देखो “अवउड” शब्द. Vide “अवउड.” विवा० १, २;

**अवऊसास.** न० (\*अपवसन-अवजोषण) उपवास. उपवास. A fast; fasting.

“अवऊसगा उ जेचित्ता” पंचा० १६, २५;

**अवऊसणग.** न० (अपवसनक) वस्त्र विना रही टाठ वगेरे सहन करवां ते; तपविशेष सेवनुं ते. वस्त्र रहित होकर ठंड आदि का सहन करना; तपविशेष करना. Endurance of cold etc. without putting on clothes; a kind of austerity. पंचा० १६, ३७;

**अवंक.** त्रि० ( अवक ) अ-नहि वड-वांडुः; सीधुः; सरल. वक्रता रहित; सीधा; सरल. Straight; straightforward; not tortuous. राय० ८६;

**अवंग.** पुं० ( अपाङ्क ) आंभने। भुषेण। आंख का कोना। The corner of the eye. राय० ११२; जं० प० (२) त्रि० अंगनी ऐऽ भापेषुवाणे। शास्त्रिक एव वाला। ( one ) having a physical defect. जं० प० जीवा० ३, ३;

\***अवंगुय.** त्रि० (अपाङ्कत) उधां॒ मुड्ख॑; भु॒ खु॑ मुड्ख॑। उघडा रखा हुआ; बिना ढंका हुआ। Kept open; open. भग० २, ५; पराह० २, ४; वय० १, १४; राय० २२५; ओव० ४०; —**दुवार.** त्रि० (—द्वार) उधां॒ मुड्ख॑ द्वा॑-भा॑-री भु॒ रण्डु॑ छे॑ ने॑ नु॑ ते॑। जिसका द्वार या खिड़का खुली हुई हो वह. with door open; with the gate open.“**अवंगुयदुवारा**” भग० २, ५;

**अवंजणजाय.** त्रि० (अव्यञ्जनजात-व्यञ्जनान्यु-पस्थरोमाणि न जातानि यस्य स तथा) ने॑ ने॑ दृढी, भु॒ च्छ वे॑रै उ॒ यां॑ न॒ थी॑ ए॑वै। जिसकी डाढ़ी और मूँछ उगी न हो वह। ( One ) having beard, moustaches etc. not yet grown. वव० १०, २०; कण० ६, २०;

**अवंभ.** त्रि० ( अवन्ध्य ) वं॒ध्य नहि॑; स॒क्षण॑ कृ॒थिकृता॑। जो वन्ध्य न हो; सफल कार्यकर्ता॑। Not barren; unfailing in doing work. सू० ०२, १, २२; (२) स॒क्षल॑। सफल.fruitful; bearing fruit in due season. विशेष० ११०३; (३) पुं० स॒क्षण॑-शुलाशुल॑ कृ॒भना॑ विवेचनवाणे॑ ११ भे॑ पूर्व॑। शुभाशुभ कर्म का विवेचन करने वाला ग्यारहवाँ पूर्व॑। the eleventh Pūrva discussing knowledge etc. and so fruitful in result. सम० १४; नंदी० ५६; प्रव० ७२३;

**अवंभा.** ब्रा० ( अवन्ध्य ) गंधिलाविज्ञयनी भु॒ध्य॑ राजधानी। गंधिलाविज्य की मुख्य राजधानी। The principal capital city of Gandhilavijaya. जं० प०

**अवंतिसुकुमाल.** पुं० ( अवन्तिसुकुमार ) उ॒ज्ज्य॑नी नगरी निवासी भद्रा सेहाशुनो पुत्र, के नेषु आचार्य भासे दीक्षा ली॑, तरत संथारे। क्यों; वनमां ऐक सियालशुभे तेनी जंधानुं भास भाधु॑; तथापि ते॑ सभाधि परिणुमधी॑ पतित न थां। काग्धं भ॑ पाभी सद्वि॑ पाभ्या। उज्जयिनी नगरी निवासी भद्रा सेठारी का पुत्र, जिसने कि आचार्य से दीक्षा लेकर तुरत संथारा किया। वनमें एक लोंबड़ी ने उसकी जंधा का मांस खाया तो भी वह समाधि से च्युत न हुआ और मरकर सद्वि॑ को प्राप्त हुआ। The son of Bhadrā the wife of a merchant of Ujjain. He took Dīksā from his preceptor and immediately performed Santhārā. The flesh of his thigh was eaten by a she-jackal but he got absolution as a result of his Samādhi, after his death. संथा०

**अवंतीगंगा.** ब्रा० ( अवन्तीगङ्गा ) गोशालाना भतने अनुसार ऐक काणविभाग। गोशाला के मत के अनुसार एक कालविभाग। A division of time according to the tenet of Gosālā. भग० १५, १;

**अवंदंत.** व० कृ० त्रि० ( अवन्दमान ) वं॒दना॑ न कृतो। वन्दना न करता हुआ। Not saluting; not bowing to. प्रव० ६२८;

**अवंदणिज्ञ.** त्रि० ( अवन्दनीय ) न वांदवा योग्य; न मन करवा योग्य नहि॑। वन्दना करने योग्य नहीं। Unworthy of be-

ing saluted; not deserving salutation. प्रव० १०३;

✓ अवकंख. धा० I. ( अव+काङ्क्ष ) आकांक्षा कृत्वी; अभिलाषा कृत्वी. आकांक्षा करना; अभिलाषा करना. To desire. ( २ ) पाञ्चांगे नेत्रे. पाञ्चे देखना. to look behind or backward.

अवकंखइ. भग० १, ६;

अवकंखति. आया० १, १, ७, ५७; १, २, २, ७५;

अवकंखमाण. व० कृ० नाया० ६;

अवकंखा. स्त्री० ( अवकाङ्क्षा ) उत्सुकपण्ठ; उत्सुकता. उत्सुकता. Longing; yearning. ठा० ४, ३;

अवकर. पु० ( अवकर ) कृत्यरै. कचरा. Refuse; dirt. भग० १५, १;—रासि. पु० ( -राशि ) कृत्यरानो. टगदो. कचरे का ढेर. heap of dirt or refuse. भग० १५, १;

अवकरच. पु० ( अवकरक ) अवकरक-कृत्यरा नामने कोई भाष्यक. किसी मनुष्य का नाम.

Name of a person. अणुजो० १३।

अवकास. पु० ( अवकाश ) आश्रयविशेष. आश्रयविशेष. A place of shelter of a particular kind. परह० २, ४;

अवकिरियव्व. त्रि० (\*अवकिरणीय) छोड़वा लायक; त्यागना योग्य. छोड़ने लायक. त्यागने योग्य. Worth being cast away or thrown away. परह० १, ३; ५;

अवकोटग. न० (\*अवकोटक) भायुं नभाडी हाथ साथे पछाडे भायुं ते. सिर नमाकर हाथों के साथ पाञ्चे बांधना. Lowering or bending the head backward and tying it to the hands. परह० १, १;

अवकंत. त्रि० ( अपकान्त ) सर्व शुभ भावथी

भ्रष्ट थम्बेल-पतित थम्बेल. सम्पूर्ण शुभ भावों से भ्रष्ट-पतित. Utterly sinful or degenerate. “रथणप्पभाए पुढवीए छ अवकंतमहानिरया प० तं० लोले लोलुए उद्देहे निद्देहे जरए पज्जरए ” “ पंकप्पभाए पुढवीए छ अवकंतमहाणिरया प० तं० आरे वारे मारे रोरे रोरुए खाडखडे ” ठा० ६;

अवकंति. स्त्री० ( अपकान्ति ) परित्याग; जल्दुं ते. छोड़ना; त्यागना. Abandonment; leaving off. नाया० ८;

✓ शवकम्म. धा० I. II. ( अप+कम् ) गति कृत्वी; जल्दुं गमन करना; जाना. To go; to move. ( २ ) पाश। जल्दुं. पाञ्चे हटना. to retreat; to turn back.

अवकम्मह. राय० ४४; नाया० १; २; ६; १२; १३; भग० १, ४; २, १; ३, ३;

७, ६; दसा० १०, १;

अवकम्मेह. नाया० १;

अवकम्मंति. जं० प० ५, ११२; नाया० ४; द; १७; भग० ३, १; १५, १;

अवककमामि. नाया० २; ७;

अवककमामो. नाया० २;

अवकमिज्जा. वि० आया० १, ७, ६, २२२; २, १, १, १; दसा० ६, १, ६;

अवकमेज्जा. वि० भग० १, ४;

अवकमित्ता. सं० कृ० नाया० २; १६; आया० ३, १, १, १; दसा० १०, १;

चउ० १४;

अवकम्म. सं० कृ० वेय० ४, १५; वव० १, २६;

अवकमहत्ता. सं० कृ० नाया० १; ७; ६; १३; भग० २, १; ३, २; ७, ६;

६, ३३; ११, ६;

अवकमंतित्ता. सं० कृ० भग० १५, १;

अवकममाण. व० कृ० विवा० ६;

**अवकाश.** न० ( अपकाश ) नीड़गिरु. निकलना.  
To come out; to go out. भग० ६,  
१३; ठा० ७; (२) पाणि हटनुं; प.आ सरकनुं.  
पांछे हटना; पांछे सरकना. to retreat;  
to turn back. भग० १५, १; पिं० निं०  
१११;

**अवकास.** पुं० ( अप्रकाश ) अभिभावन्था  
अन्ध थनुं ते; भेदहनीयकर्मनोः एक लेद.  
अभिभावन से अन्धा हो जाना; मोहनीय कर्म  
का एक लेद. Being blinded with  
pride; a variety of Mohaniya Karma. सम० १२; भग० १२, ५;

**अवकाश.** पुं० ( अपकर्ष ) ऋद्धि आहिनोः  
अत्यन्त प्रकाश करवे ते; सभृद्धिनुं अत्यन्त  
अभिभाव राखनुं ते. ऋद्धि आहिं का अत्यन्त  
प्रकट करना; संपत्ति का बहुत ज्यादाह आभेमान  
रखना. Trumpeting forth one's  
opulence or prosperity; bound-  
less pride of one's prosperity.  
भग० १२, ५;

**अवकोश.** पुं० ( अरक्षण ) घीजनुं धस्तु घेवक्षि  
ते. नि-दा. निक्षा; दूसरे को चुभता हुआ बोलना.  
Casting obloquy or censure  
upon others. सम० ५२; भग० १२, ५;

✓ **अदक्ष.** दा० I. ( अप+इक्ष ) अपेक्ष;  
राखी; राख लेवी. अपेक्षा रखना, बाट जोहा. I.  
To expect; to wait with eager-  
ness.

**अवसरह.** आ० नाया० ६;

**अवस्कार.** पुं० ( अवस्कार ) विष्णा; भग०.  
विष्णा; मत्त. Dirt; excrement. विशे०  
३४०५;

**अवकाशारण.** न० ( अपकाशण ) अग्रशम्भ  
घेवकरा ते. अवशब्द बोलना. Speaking  
indecent words. परह० १, ३;

**अवकाशारण.** न० ( अपकाशण ) सानिध्य न  
इस्तु ते; प्रसन्न न थनुं ते संगति न करना;  
प्रसन्न न होना. Not to be associated  
with; not to be pleased with.  
परह० १, २;

**अवक्षेपण.** न० ( अपकाशण ) नीधे इकनुं  
ते; उत्स्तेपथ्यादि पांच कर्मोः पैदी थी तुं कर्म.  
नीचे फैकना; उत्स्तेपणादि पांच कर्मोः मे से  
दूसरा कर्म. Flinging, throwing  
down; the second of the five  
varieties of action viz throwing  
up etc. विशे० २४६२;

**अधम.** न० ( अवक ) खाथीभां उत्खन थली  
एक जलतारी वनस्पति. फाली में उत्स्त होने  
वाली एक जाति की वनस्पति. A kind of  
aquatic plant. सूय० ३, ३, १८;

**अवग्रह-य.** त्रि० ( अपगत ) भरी गवेषु; दूर  
थंगेनु. मर गया हुआ; दूर हो गया हुआ. Dead;  
removed. ओब० ३१; नाया० १; २; राय०  
२२५; भग० ८, ८; उत्त० २८, २०; दस० ७, ५७;  
८, ६४; प्रव० ६३७; करण० ४, ६१;—यंथ.  
त्रि० ( -वद ) पुरुषवद, लोकेऽन्ये नपुंसक  
वेद, ये लक्ष्य वेदश्चैव सिद्धि. पुरुषवद, लोकवेद  
और नपुंसक वद, इन तानों वेदों से रहित.  
having no sex,either, masculine  
feminine or neuter. प्रव० १४३४;  
भग० ८, ८;

**अवग्रह-**य. त्रि० ( अपगत ) भरेद्दुः;  
अवधारण् करेद. जाना हुआ; अवधारित.  
Know u; understood. आया० टी०  
१, १, १, ३;

**अवगिण्य.** त्रि० ( \*अपकर्णित-अवकाशित )  
अवगिणुना करेद; अनादर करेद. अनादर किया  
हुआ. Despised; disrespected.  
जीवा० १;

**अवगत.** त्रि० ( अपगत ) नष्ट घेवेत; क्षीभ्यु

थँडेल. नाश को ग्रास. Destroyed; faded; decayed. पंचा० १०, ७६;

अवगम. पुं० ( अपगम ) विनाश. विनाश.

Destruction. विशे० २७६;

अवगम. पुं० ( अवगम ) निश्चय. निश्चय.

Determination. विशे० २७६;

अवगर. पुं० ( अवकर ) ज्ञाये. 'अवकर' शब्द.

देखो "अवकर" शब्द. Vide 'अवकर'.

भग० ८, ६;—रासि. पुं० (—राशि)

क्षयरानो राशि-हगदी। कुस्तित पदार्थों की

राशि-हेर. heap of worthless

things, भग० ८, ६;

अवगाढ. त्रि० ( अवगाढ ) अवगाहने रहेल;

आश्रीने रहेल. आश्रय में रहा हुआ;

पकड़कर रहा हुआ. Resorting to;

dependent upon. नंदी० स्थ० १२;

विशे० १८२२; भग० १, ६; ओव०

अवगारि. त्रि० ( अपकारित ) अपकारि करनार.

अपकार करने वाला. ( One ) who

does an ill turn; ( one ) who

injures. पंचा० १४, ३७;

अवगास. न० ( अवकाश ) उत्पत्ति स्थान.

उत्पत्ति स्थान. Place of origin;

source of birth; place of pro-

duction. सूय० २, ३, १;

अवगाह. पुं० ( अवगाह )\* अवगाहना; क्षेत्र

स्पर्शना. अवगाहना; क्षेत्रस्पर्शना. Per-

vasion or occupation of space.

क० गं० ५, ७६;

अवगाहणा. ज्ञ० ( अवगाहना ) शरीरादिनी

डियाई; शरीरादि वे आकाशप्रदेशने अवगाहने

रहेल छे ते आकाशप्रदेशनु परिभाष्य. शरी-

रादि की ऊँचाई; आकाश के जितने प्रदेश में

शरीरादि रहे हुए हैं उतने आकाशप्रदेश का

धूरिमाण. The height of a body

etc; the measure of space occupied by a body etc. which remains in it. प्रव० ११; भग० २, १; विशे० ३८१; ( २ ) अवकाश आपवै. ते. अवकाश देना; जगह देना. giving room or space to. भग० १३, ४; ( ३ ) अंदर प्रवेश करवै. ते. भीतर प्रवेश करना. entrance into. विशे० १०२६;—गुण. पुं० (—गुण ) अवकाश आपवानो गुण. अवकाश देने का गुण. the attribute of giving room or space to. ठा० ५, ३; भग० २, १०;—लक्खण. न० (—लक्खण ) अवकाश आपवानु लक्खण छे जेनु ते; आका-शास्त्रिताय. अवकाश देना ही जिसका लक्खण है वह; आकाशास्त्रिताय. that of which the property is to give room or entrance into viz Ākāśā-स्त्रिताय. भग० १३, ५;

अवगाहिया. सं० क० अ० ( अवगाह ) प्रवेश करने; प्रवेश करके; घुसकरके. Having entered. उत्त० १०, ३३;

अवगिजिभय. सं० क० अ० ( अवगृह्ण ) उद्दे-शीने; लक्षीने. उद्देश करके; लक्ष करके. Alluding to; aiming at. क्षण० ६, ६१;

✓ अवगृह. धा० II. ( अव+गृह ) कभाइ उधाइना. किवाह खोलना. To open the doors.

अवगृणेह. नाया० १६;

अवगृणति. भग० १५, १;

अवगृणेहत्ता. सं० क० नाया० १६;

अवगृणतित्ता. सं० क० भग० १५, १;

अवगृणस. व० क० भग० १५, १;

अवगृह०. त्रि० ( अवगृह ) व्याप्ति; व्यापेतुं. व्याप्ति.

Pervading; pervasive. नाया० ६;

अवगृहितं. सं० क० अ० ( अवगृह ) आपवै.

अन दृधने. आँलेगन देकर; भेंट करके. Having embraced. सु० च० १०, १६;  
अवचय. पु० ( अपचय ) धर्माड़ा; हानि. घाटा;  
नुकसान. Decrease; loss. भग० ११, ११;

**अवचिअ-य.** त्रि० (अपचित) धरेतुं; कृश थयेतुं;  
शेषायेतुं. कृश; घटा हुआ; सूखा हुआ. Decreased; weakened; attenuated.  
नाया० १; भग० ३, १; ११, ११; ओब० ५३; ( २ ) त्रि० उत्प्रेदेशरहित; अनित. जीवप्रदेश रहित; अचित. insentient.  
विशेष० द६७;—मंससोणिय त्रि० (—मंस-  
शोणित ) ऐनां मांस अने लोही शेषायेकां  
छे ते. जिसका मांस और रुधिर सूख गया हो  
वह. ( one ) whose flesh and  
blood have been dried up.  
“ तवस्तियं किंसं दंतं, अवचियमंससोणियं ”  
उत० २५, २२;

**अवचिज्ज.** धा० I. ( अप+चिय ) अपचय  
पामवेत; धर्मज्ञं. घट जाना; कम हो जाना.  
To decrease; to be diminished.  
अवचिज्जह. क० वा० सूय० १, २, ३, १;  
अवचिज्जति. क० वा० भग० २५, २;

**अवचुक्ष्म.** पु० ( अवचुक्ष्म ) चुक्खानी पासेनो  
ऐणो। चूलहेके पास का आला-ताक. A niche  
behind an oven. पिं० निं० भा० ३४;  
**अवचुक्ष्मी.** ली० ( अवचुक्ष्मी ) युयो। ‘अवचुक्ष्म’  
शण०. देखो “अवचुक्ष्म” शब्द. Vide “अवचुक्ष्म”.  
पिं० निं० भा० ३४;

**अवचूलग.** न० ( अवचूलक-अवचूलमघोमुखी-  
कृता चूडा यथा भवति तथा कृतमवचूलकम् )  
चैट्टी निये रहे तेवी रीते भस्तड  
नभाइनु ते. इस प्रकार मस्तक नमाना, जिस से  
कि चोटी नीचे हो. Bending down the  
head in such a way that the

tuft of hair on it also becomes lowered in the act. नाया० १६;  
अवज्ञा. त्रि० ( अवचय ) न कहेता येअ॒;  
अकृथनी॒; अर्धुनी॒. न कहने योग्य;  
अकथनीय. Inexpressible; unworthy of being said or spoken.  
विशेष० ६१;

**अवच्च.** न० ( अपत्य-न पतन्ति यस्मिन्नुत्पत्ते  
दुर्गतौ अयशःपक्षे वा पूर्वजास्तदपत्यम् )  
संतान; पुत्र-पुत्री. सन्तान; पुत्र-पुत्री.  
Issue; progeny ठा० ४, ४; अणुजो०  
१३१; भग० ३, ७; विशेष० ३००७;—नेह.  
पुं० (—स्नेह) पुत्र, पैतृ आदिको॒ स्नेह॑. पुत्र,  
पौत्र आदि का स्नेह. parental affection.  
सु० च० ४, ३१८;

**अवच्छेय.** पु० ( अवच्छेद ) विभाग; भाग;  
अंश. विभाग; दुकड़ा; अंश; हिस्सा. A  
part; a portion; a division. ठा० ३, ३;

**अवजाग्र-य.** पु० ( अपजात ) पिताना  
इतरा और गुणुपागो। पुत्र, जेम भरत  
चक्रवर्ती। पुत्र आदित्यशा. पिता की  
ओपेक्षा कम गुणों वाला पुत्र, जैसे भरत  
चक्रवर्ती का पुत्र आदित्यशा. A son in-  
ferior in qualities to his father;  
e. g. Ādityayasyā the son  
of Bharata Chakravarti. ठा० ४, १:

✓ **अवजाण.** धा० I. ( अप+ज्ञा ) अपवाप  
इवेता; नाक्षुत्र यंत्रु; वात छु पात्री. नामज्जर  
करना; बात छिपाना. To hide or  
suppress a fact; to deny a fact.  
अवजाणइ. सूय० १, ४, १, २६;

**अवज्ञ.** न० ( अवचय ) पाप; निन्द्य कर्म-अनु-  
पत्ति. पाप; निन्द्य कर्म. A sinful deed  
or performance. सूय० २, ३, ६५;

**आपृष्ठः** निं० ६४७;—इयर. त्रि० (-इतर) पापुर्थी भिन्न. पाप से भिन्न. different from, opposed to sin. पंचा० १, २५; —कर. त्रि० (-कर-अवश्यं पापं तत्करण्य-शक्षः) पापी; पाप करनार दारा. sinful; given to sin. “तज्जातिका हम कामा बजकरा य एवमस्ताए” सूर्य० १, ४; ३, १६;—भीरु. त्रि० (-भीरु) पाप करनामां भीक्षु. पाप करने में भीरु-डरपोक. timid in the matter of sinfulness; afraid of sin. उत्त० ३४, २८;—विरह॒. ल्लां० (-विरति) अवश्य-पापनी निवृत्ति. पाप की निवृत्ति. cessation of sin. क० १० ४, २८;

**अवजुझः** त्रि० ( अवश्य ) नै४ करना योग्य नहि. वश न करने के योग्य. Unworthy of being killed. नाया० १६;

**अवश्यकत्वः** न० ( अवश्यगत ) भावुँ ध्यान; दुष्ट ध्यान; आर्त अने रैद्र ध्यान. बुरा ध्यान; आर्त और रौद्र ध्यान. Evil meditation viz painful and revengeful meditation. श्रोव० ४०; पंचा० १, २३;

**अवज्ञाणया**. ल्ली० ( अवश्यानता ) आर्त अने रैद्र ध्यान ध्यावुँ ते. आर्त और रौद्र ध्यान का करना. Act of meditating painfully or revengefully. ठा० १, ३;

**अवज्ञानय**. त्रि० ( अवश्यान ) दुष्ट चिंतनना करनार; दुष्ट ध्यान धरनार. दुष्ट-क्षमता विकल्प करने वाला. ( O . B ) who performs an evil kind of meditation. नाया० १४;

**अवज्ञानश्च व० कू० त्रि० ( अवश्यानश्च ) न रहते। न अवश्यानहुआ. Not present; not existing. भग० ३, ३;**

**अवज्ञुभः** पुं० ( अवश्यम ) भित, थांकण्य।

द्वेरेने टेका आपवो ते. दिवाल, स्तम्भ आद को जो सहारा दिया जाता है वह. Supporting; leaning upon a wall, a pillar etc. for support.

**आपृष्ठः** निं० २६३; ३२३;

**अवद्वैभिय**. सं० क० अ० ( अवश्य )

अरेलीने; टेका इधने. टेका देकर. Leaning against; supporting oneself on or against. प्रव० २५३;

**अवद्वावधारणा**. ल्ली० ( अवस्थापना ) भद्रावतनुं

आरोपणु करनुं ते. महाव्रत का आरोग्य

करना. Investing ( a disciple ) with Mahāvratas i. e. full vows.

पंचा० १७, २६;

**अवद्विश्वस्य**. त्रि० ( अवश्यत ) रिथर रहेक;

वधृष्ट न थाय तेवुँ. स्थिर; न्यूनाधिक न होने वाला. Steady; unchanging; remaining fixed. नाया० ५; श्रोव० १०;

३४; सम० ३४; प० २०४; सू० प० ८; भग०

२, १०; ५, १; ८; ६, ३३; १६, १०;

२०, ८; २५, ७; पंचा० १०, १३; जं० प० १,

१५; ( २ ) शाश्वत; नशनभेअवुँ. शाश्वत;

नित्य. eternal; imperishable. अ० ३, ३; नंदी० ५७; ( ३ ) पुं० अप्रतिपाति ( जेवुँ पतन न थाय ते ) अवश्यत अवश्यितान; पावज्ञ्य धर्मत रहे तेवुँ अवश्य गान.

अवश्यत अवधिश्वान; जीवन पर्यन्त रहने वाला अवधिश्वान. steady Avadhi-Jñāna supported by proper circumspection and spiritual power. एज० ३३; विशे० ५७७;

( ४ ) प्रथम सभये जेटदी भ्रकृति खांधे तेवुँ. भीजे त्रीजे अ.हि सभये खांधे ते अवश्यत बंध. प्रथम समय में प्रकृति का जितना बंध हो उतना हाँ बंध दूसरे तासरे आदि

समयों में होना वह. अवश्यत बंध.

Karmic bondage uniformly increasing or rising with every Samaya, beginning with the first (Samya). क० गं० ५, ७६; क० प० ७, ५१;—परेणाम पु० (—परिणाम) स्थिर परिष्वभ. स्थिर परिणाम. steady thought-activity. भग० २५, ६;—बंध. पु० (—बन्ध) पड़ुले सभये लेटली प्रकृति अधे तेक्कीज जीले नीले अ.हि सभये आधे ते; प्रकृतिभंधो अ॒ प्रकृ॒ति. पहिले समय में जितना प्रकृति बाधे उतना ही दूसरे और तोसरे आद समय में बाधने वाला; प्रकृतिबंध का एक भेद. steady bondage of Karmic matter, i. e. the same amount in every unit of time; a variety of Prakṛiti-bandha. क० गं० ५, ७६; क० प० ७, ५१;

**अवद्विह. ला०** (अवस्थिति) भावाः ६६. सम्मा; मर्दास. Limit; boundary. ठा० ३, ४;

**अवड.** पु० (अवट) दुवो. कूण; कुआ. A well. पि० नि० १६१; ठा० ३, ४;

**अवडिस.** पु० (अवतंस) भूषय. भूषण; गहना. An ornament. स० प० १८; —कूड. पु० (—कूट) भेरुना भद्रसाल यनना आ॒ दिग्दिश्चित् कृमानु सातमु कृत-शिखर. मे॒ य पर्वत के भद्रसाल वा के आठ दिग्हस्ती कूटों में से सातवाँ कूट. the seventh of the eight Dighastī summits of the Bhadrasāla forest of mount Meru. जं० प०

**अवडिसम.पु०** (अवतंसक) शिखर. रिखर. A summit; a pinnacle. जीवा० २; (२) भेरु पर्वत. मे॒ य पर्वत. mount Meru. जं० प०

**अवांडसम.** पु० (अवतंसक) भुग्ट; शिखर. सुख्ट; शिखर. A diadem; a summit.

पण० २, ४; जीवा० ३, ४;

**अवडु.** पु० (\*अवडु-कृष्णाटिका) अविद्या-डेंडो; अ॒ जीवो भाग. ग्रीवा; गर्दन का रिक्कला भाग. The back part of the neck. भग० १५, १;

**अवद्द.** शि० ( अवर्द्द—अवगतमद्द वस्त तदगद्दन) अर्धु; अ॒ अधा. Half. आ॒ १६; भग० २५, ६; ओष० नि० भा० ६६; पज० १८; (२) अर्धै दिवस. आधा दिन. half of a day. भग० १६, १;

—उमेयारेया. ली० (—अवमोदरिका) उषेदरी तपो. अ॒ लेद; अर्धै घे॒ राक लेवे ते. ऊनेदरी नामक तप का एक भेद; नित्य के भोजन से आधा भोजन करना. a variety of Ünodari kind of austerity viz taking half the amount of food required. वद० ८, १५; भग० ७, १;—ज्ञेत्त. न० (—ज्ञेत्र) अर्धै क्षेत्र-पॆ॒ भुर्दै सुधी चंदनी जेडेयोग करनार नक्षत्र. अर्धै ज्ञेत्र अर्थात् पंद्रह मुहूर्त तक चंद्र के साथ योग करने वाला नक्षत्र. a constellation which remains in conjunction with the moon for Ardhakṣetra i. e. 15 Muhūrtas. च० प० १०; ठा० ६;—गोल. पु० (—गोला) अर्धै गोला; गोला नो अर्धै भाग. आधा गोला; गोल का आधा हिस्परा. half of a globe; hemi-sphere. स० प० ८;—गोलगोल. पु० (—गोलगोल) अर्धै गोलाभां सभाभेद भील अनेक गोला. आधे गोले में समाये हुए दूसरे अनेक गोले. several other spheres contained in a hemi-sphere. च० प० ८;

—अन्तर्संठाण. न० (—अन्तर्संस्थान) अर्धै

अन्नाकार; हाथीना हातनो आकार. अर्धं चंद्राकार; हाथो के दांत का आकार. shape of the half-moon; shape of the tusk of an elephant. ठा० २, ६; —दिवस. पुं० (—दिवस) अर्धं दिवस. आधा दिन. half a day. भग० १६, ३; —पोदगलपरियहृ. पुं० (—पुदगलपरिवर्तन) अर्धं पुदगलपरावर्तन; पुदगलपरावर्तन-काणविलागविशेष, तेने। अर्धं भाग. पुदगल परावर्तन; अर्थात् कालविभागविशेष के आधे भाग को अर्धं पुदगलपरावर्तन कहते हैं. half the time required for Pudgala change. पंचा० ३, ३२; भग० ८, ६; १२, ६; जीवा० १; अवण. न० (अवन) शमन करवुं ते; गति करवी ते. गमन करना; गति करना. Act of going; motion. (२) जाणवुं ते. जानना. act of knowing. नंदी० अवणद्ध. त्रि० (अवनद) वांधेकुं. बांधा हुआ. Bound; fastened. भग० २, १; अवणमत. व० कू० त्रि० (अवनमत) नीयुं नभतुं. नीचे नमता-नम होता हुआ. Bending low. राय० अवणय. पुं० (अपनय) दूर करवुं ते; निषेध करवे। ते. दूर करना; निषेध करना. Removal; prohibition. ठा० ८; —बयण. न० (—बचन) द्वैपदर्शीक वयन; निन्दा वयन. दोषदर्शक वचन; निन्दा वचन. words of censure; fault-finding speech. प्रव० १०३; अवणयण. न० (अपनयन) निषेध करवे। ते; दूर करवुं ते; निषेध करना; दूर करना. Act of removing; act of forbidding. विशे० १८५; १०२८; पिं० नि० ४७३; पंचा० १६, १४; अवणि. ली० (अवनि) पृथ्वी. पृथ्वी; जमीन. Earth; land. पिं० नि० ११६;

✓ अवणी. धा० I. (अप+नी) दूर करवुं; काढ़ी भुक्खुं. दूर करना; निकाल डालना. To remove; to drive out. अवणेह. नाया० ८; पंचा० १७, ४; अवणेह. आ० पिं० नि० २२३; अवणेजा. वि० “एंगंतमवणेजा” दस० ४; अवणीत्तु. सं० कू० ओघ० नि० ४०१; अवणिज्ञत. व० कू० विशे० १२६६; अवणीय. न० (अपनीत) निन्दा सूचक. Slanderous; scandalous. पञ्च० ११; दस० ६, २, २२; (२) वि० दूर करेल. दूर किया हुआ. removed; forbidden. सु० च० २, ६; —उवणीयवयण. न० (—उपनीतवचन) निन्दा साथे स्तुति सूचक वयन लेम ‘आ स्त्री रूपमां भराख पछु आयरखुमां सारी छे; वयनना सोण प्रकार-मानो भारभो प्रकार. निन्दा के साथ साथ स्तुति सूचक वचन, जैसे ‘अमुक ली कुरुपा है परंतु है सदाचारारणी;’ वचन के सोलह भेदों में से बारहवाँ भेद. an expression combining praise with censure; e. g. this woman is not fair but she is well-behaved. आया० २, ४, १, १३२; —चरण. त्रि० (—चरक) क्यांक भोड़वामां आ०युं हेय, एक रथानेथी भीने स्थाने राखवामां आ०युं हेय, तेनी गवेषथा करनार; अभिअष्टु पिशेषधारी, कहीं भेजे हुए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखे हुए की गवेषणा करने वाला; अभिग्रहविशेष का धारी. (one) who searches after a thing transferred from one place to another; (a person) with a particular kind of vow. ओव० १६; अवणोय. न० (अपनोद) दूर करवुं ते. दूर करना. Removal. विशे० ६८६;

**अवरण-** त्रि० ( अवर्ण-न विवते वर्णः पंच विधः सिन्नादिरस्येत्यवर्णम् ) वर्णुरहित; रंगरहित; अभूतं दृष्ट्य. वर्णं रहित; बिना रंग का; अनुरूप दृष्ट्य. Colourless; having no colour; formless (substance). भग० २, १०; ११, १; २०, ५; (२) निन्दा. censure; obloquy. त्रि० नि० भा० २७;—कर. त्रि० (—कर) अवगुण घोलनारायो; निन्दा करना; निन्दा करने वाला. ( one ) who detracts or censures. भग० ६, ३३;—कारअ-य. त्रि० (—कारक) अवगुण घोलनार; अवर्णवाद घोलनार. अवरण करने वाला. ( one ) who detracts or censures. भग० १५, १;—वाह. पुं० (—वादिन् अवर्ण वादितुं शीलमस्येत्यवर्णवादी) अपकीर्ति करना; निन्दक. अपकीर्ति करने वाला; निन्दक. (one) who detracts or censures. “माई अवरणवाई, किविस्मियं भावणं कुण्ठ” उत० ३६, २६३; दसा० ४, १०१; प्रव० ६६५०;—वाय. पुं० (—वाद) अवर्णु घोलना ते; निन्दा करनी ते. निन्दा करना; अवरणवाद घोलना. detracting; censuring. “अवरणवायं च परंसुहस्स” प्रव० ११७; ६४५;

**अवरणवर्त.** त्रि० ( अवर्णवत् ) निन्दक. ( One ) who detracts or censures. दसा० २, १८;

**अवरणवर्त.** त्रि० ( अवर्णवत् ) अवर्णुवादने। घोलनार; निन्दक. अवरणवाद घोलने वाला; निन्दा करने वाला. ( One ) who detracts or censures. सम० ३०;

**अवरणा.** शी० ( अवज्ञा ) अपमान; अनादर. Insult; dis-respect. शी० ४१; पंचा० १, ३५; प्रव० ८७२;

**अवराहाण.** न० ( अपस्तान ) तथाविधभंडा॒-रित ज्याथी स्नान करनु ते; शरीरनी विकाश दूर करनार दृष्ट्यमिश्रित ज्याथी स्नान करनु ते. तथाविध संस्कारित जल से स्नान करना; शरीर की चिकित्साहट दूर करने वाले द्रव्यों के मिश्रित जल से स्नान करना. A bath with water mixed with a dirt-removing substance. विवा० १; नाया० १३;

**अवतट.** त्रि० ( अवतट ) छोलीने खाताणुं करेणुं. छोलकर पतला किया हुआ. Made slender by chopping off the outer parts. सूय० १, ५, २, १४;

**अवस्त.** पुं० ( अवस्त ) आठ वर्षसनी अंदरनो। आणुक; अपरिषुत-काची वयनो। आणुक. आठ वर्ष से कम उम्र का बालक; अपरिषुत अवस्था का बालक. A boy under eight years of age; a boy of immature age. ओघ० नि० ४६७;

**अवक्तव्य.** त्रि० ( अवक्तव्य ) कहेन्या योऽय नहि; अनिर्वचनीय. न कहने योग्य; अनिर्वचनीय. Inexpressible; indescribable; unspeakable. दस० ७, ४३; पञ्च० १०; अगुजो० ७४; भग० १३, १०; प्रव० १२१३; क० प० ७, ५२;—बंध. पुं० (—बंध) अवक्तव्य बंध; वे कर्मप्रकृतिनो अवन्ध थया पशी पुनः बंध थाय ते प्रथम सभये अवक्तव्य बन्ध कहेन्या. जिस कर्मप्रकृति का अवन्ध होने के बाद पुनः बंध हो वह प्रथम समय में अवक्तव्य बंध कहलाती है. that Karmic nature which binds a man again after once freeing him from bondage is at its initial stage called 'Avaktavya-bandha. क० प० ५, २२;

**अवस्तुवगः.** न० ( अवस्तुवक्-न कर्ति नाशम्-कर्तीति वक्तुं शक्यते यस्तद्वक्तव्यकमेऽभिस्थयः ) कर्ति के अकर्ति शब्दार्थी कहेवा योऽप्यनहु ते; एकनी संभ्या। कर्ति अथवा अकर्ति ( कितने हैं ? या कितने नहीं हैं ? ) शब्द के द्वारा न कहने योग्य एक का संख्या। The numerical figure one in speaking about which we can not say " how many ? or how many not? ". ठा० ३, १; भग० २०, १०;

—**संचित्य. त्रि०** (—सम्बित-अवस्तुवक्तव्यकर्त्तव्यकर्त्तव्यस्थाः) एक सभ्ये एकल उपन थाय-एक संभ्यार्थी गण्याय तेवा न रक्षी वग्रे। एक समय में एक ही उत्पत्ति हो जायत् एक ही संख्या से गिरा जाय ऐसा नारकी आदि. Nir-kis ( hell-beings ) etc. that are born one at a time or that can be counted one at a time ठा० ३, १; भग० २०, १०;

**अवस्तुवा.** ली० ( अवस्तुवा ) न कहेवा योऽप्यआ॥। न कहने योग्य भाषा. Speech unworthy of being expressed or uttered. " जाय सक्ता अवस्तुवा " दस० ७, ३;

**अवस्थ. त्रि०** ( अवस्थ-अस्तित्वस्थित्यवस्थाः ) रहेनार. रहने वाला. ( One ) who resides. " सरण्यविकुम्भवद्वौ, वालाद्वांसो सासयावस्था " वर्ण० १७५६;

**अवस्थगः.** न० ( अपार्थक ) पूर्वापरना संभ-प्रविनानी वक्त्यरन्ता; सूत्रनो एक दोष। A fault in the construction of a Sutra; faulty grammatical construction of a sentence. परद० १, २;

**अवस्था.** ली० ( अवस्था ) दशा; स्थिति. दशा; स्थिति. Condition; state; plight.

पंच० १६, २६; १८, २६; प्रव० ६६;  
 ( २ ) छहभरथ, तेवणी अने सिद्धपत्तुं एव  
 नशु अवस्थः। छयस्थ, केवली और सिद्धमना  
 यह तीन अवस्थाएँ। The three states  
 viz that of a Chhadumastha, a  
 Kevali and a Siddha. प्रव० ६६;  
 —**अवस्था.** न० (—अवस्था) दशाविशेष। दशा  
 विशेष. a particular, specified state  
 or condition. ( २ ) पर्याप्तान्तर-एक  
 पर्याप्तमध्ये वीज पर्याप्तमां जहु ते। एक  
 पर्याप्तमें से दूसरे पर्याप्तमें जाना. passing  
 from one modification to  
 another. पंच० १८, २१;—**आभरणः.**  
 न० (—आभरण) अवस्थाने उचित आभरण-  
 धरेणुं। अवस्था के योग्याभूत्या—गहना, an  
 ornament befitting a particular  
 condition. ठा० ८, १;—**उचित्य. त्रि०**  
 (—उचित ) अवस्थाने उचित; अवस्था योऽप्य.  
 अवस्था के योग्य. befitting a particular  
 stage or condition. पंच० ४, ६;  
 —**तिगः.** न० (—त्रिक) छहभरथ, तेवणी अने  
 सिद्ध एव नशु दशा। छयस्थ, केवली और सिद्ध  
 ये तीन दशाएँ। the three conditions  
 viz that of a Chhadumastha, a  
 Kevali and a Siddha. प्रव० ६६;  
**अवस्थात्.** न० ( अवस्थान ) स्थिति; एक  
 देहाश्रे स्थितः रहेदु ने. स्थिति; एक स्थानर  
 स्थिर रहा। Steady residence in  
 a place; steady condition. विद्वा०  
 ११०; प्रव० २७५;  
**अवस्थित.** त्र० ( अवस्थृत ) प्रसारेत्; विभं-  
 वेत्. केलाया हुआ; विडा हुआ. Spread;  
 extended. नाया० ८;

**अवस्थु.** न० ( अवस्थु-न विज्ञते वस्तवजिह्वे-  
 योऽथां यत्र तद्वस्थु ) निरर्थः; अर्थ  
 शब्द-निरर्थ; अर्थ रहता। Meaningless;

fruitless; purposeless. परह० १, २;

अवदग्न. न० ( अवदग्न ) अंत; छेत्रो; पर्यन्त.

अन्त; आखिरी सिरा; पर्यन्त. End. सूय०

२, ५, २;

अवदल. त्रि० ( अपदल-अपदलमपसदं द्रव्यं

कारणभूतं मृत्तिकादि यस्याऽसावपदलः )

द्रव्यार नहि ते; तड़काई. बिना तह का; नाजुक.

Not solid; fragile. ठा० ४, ४;

अवदहण. न० ( अपदहन ) अभुक्त प्रकारे।

अंल. किसी प्रकार की डाह. A brand or  
burn of a particular kind. नाया०

१३;

अवदात. त्रि० ( अवदात ) निर्मल; शुद्ध;

स्वच्छ. निर्मल; साफ़; स्वच्छ. Pure; clean;

clear. “ संखिंदुपुंगंतवदातसुकं ” सूय०

१, ६, १६;

अवदाय. त्रि० ( अवदात ) उप०; सह०. गोरा;

सफेद. White; spotless. परह० १, ४;

✓ अवदाल. धा० II. ( अप+दल ) विद्वारण्

क्षरन्; गैरन्; धृतन्. चीरना; काढना; विदारणा

करना. To cut; to tear; to cut  
into two or more pieces.

अवदालेह. भग० १६, ४;

अवदालिय. सं० कृ० भग० १३, ६;

अवदारिय. त्रि० ( अवदारि-लि-त ) विकसित;

प्रधुक्षित. विकसित; फूला हुआ. Opened;

budded. जंबा० ३, ३; ओव० १०; नाया०

१; उदा० ३, ६५;

अवदार. न० ( अपदार ) नानी भारी; छोटी.

छोटी खिड़की. A small window; a

back-door. “तेण अवदारेण सो अतिगतो

‘ असोगविश्याए ’ ” नाया० २; १४;

✓ अवदाल. धा० II. ( अप+उद्+दल ) उधा-

न्. खोलना. To open.

अवदालेह. पञ्च० ३६; भग० ६, १०;

अवदालेता. सं० कृ० भग० ६, १०;

अवदहण. न० ( अपदहन ) लुभेत. ‘अवद-  
हण’ शब्द. देखो ‘अवदहण’ शब्द. Vide  
‘अवदहण’. विवा० १;

अवद्धंस. पुं० ( अपधंस ) आस्त्रित तथा तेन।

इन्हेन निःसार अन्तःवनार भावना, के जे भाव-  
नाथी असुरादिकमां उत्पत्ति थाय ते. आरित्र

और उसके कल को निःसार बनाने वाली भावना,  
जिससे असुरादि पर्याय में उत्पत्ति होती है.

A thought showing right conduct and its fruits as useless;  
this sort of thought causes a man to be born among demons  
etc. “ चउविहे अवद्धंसे प० तं० आसुरे  
अभियोगे संमोहे देसकिविसे ” ठा० ४, ४;

अवद्धंसि. त्रि० ( अपधंसिन ) धृंस २२नार॒;  
नाश २२नार॒. धृंस करने वाला; नाश करने  
वाला. A destroyer; a killer. “ पच्छा  
परिणाय मलावदंसी ” उत्त० ४, ७;

अवधृष्ट. त्रि० ( अवधृष्ट ) तृभ थथेत. तृस.  
Satisfied; h a v i n g enough.

नाया० १८;

अवधारियव्य. त्रि० ( अवधारितव्य ) अव-  
धारण् २२नु॒ ते. अवधारण करना. Thinking;  
considering. पंचा० ३, २५;

अवनमिय. सं० कृ० अ० ( अवनम्य ) नीथा

थधने; नभीने. नम्न-नीचा होकर. Having  
bent low; bowing down. आया० ३,

१, ६, ३२;

✓ अवपंगुर. धा० I. ( अव+अप+गु ) कभा॑  
उधारना-भेदवान्. किवाइ खोलना. To  
open a door.

अवपंगुर. वि० ‘ अप्पणा नावपंगुरे ’ दस०  
५, १, १८;

अवपुष्ट. द्रि० ( अवस्पृष्ट ) स्पृश्य करेत. स्पर्श  
किया हुआ. Touched. सु० च० १, २२;

अवपेक्ष. धा० I. (अव + प्र+र्हृष्) चेतर२५  
दृष्टिथि लेवुं; तपासतुं; निरीक्षणूं करवुं. चारों  
ओर देखना; जांच करना; निरीक्षण करना.  
To examine; to investigate.

अवपेक्षलह. आ० उत्त० ६, १२;

अवबुज्ञ. धा० I. (अव+बुध्) ज्ञानुपुं;  
समज्ञुं. जानना; समझना. To know;  
to understand.

अवबुज्ञति. विशेष० १६७;

अवबुज्ञसि. उत्त० १८, १३;

अवबोह. पुं० (अवबोध) स्मृति; स्मरणूं.  
स्मृति; याद; स्मरण. Recollection;  
remembrance. आया० ठा० १, १, १;

अवभास. पुं० (अवभास) देखाव. दिखाव; दश्य.  
Show; manifestation; appearance. जीवा० २, १; (२) तेज अने ज्ञानने  
प्रकाश. तेज और ज्ञान का प्रकाश. lustre  
of knowledge and power. जीवा० ३, १;

अवभासय. त्रि० (अवभासक) ज्ञानार॒;  
पदार्थने अवभास करनार. जानने वाला;  
पदार्थों का ज्ञान करने वाला. (One) who  
knows or understands. विशेष० ३१७;

अवम. त्रि० (अवम) हीन; ओछुं. हीन;  
हलका. Less. आया० २, १, ३, १७;

अवमण्ण. धा० II. (अप+मन्) अपमान  
करुं; अनादर करवेा; तिरस्कार करवेा.  
अपमान करना; तिरस्कार करना. To insult;  
to disregard.

अवमण्णति. सूय० २, २, १७;

अवमण्णति. भग० ३, १; नाया० ध०

अवमण्णह. आ० उत्त० १२, ३६; भग० ५, ४;  
१२, १;

अवमाणिता. सं० कृ० ठा० ३, १;

अवमणिता. सं० कृ० भग० ५, ६;  
अवमण्णत. व० कृ० सूय० १, २, ४, ७;  
२, ४, ७;

अवमह. पुं० (अपमर्द) भसणुं-भर्दन  
करवुं ते. मलना; मर्दन करना. Act of rubbing.  
“अवमह अप्पणो परस्सय करेति”  
परह० १, २;

अवमाण. न० (अपमान) अपमान; अनादर;  
तिरस्कार. अपमान; तिरस्कार. Insult;  
disregard. भग० ३, २; राय० २६४;  
ओव० २१;

अवमाण. न० (अवमान) अवमान—हाथ,  
गज, ५८ परेशी वस्तुने भरवी ते;  
भरपविशेष. अवमान—हाथ, गज, फुट  
वगैरह से वस्तुविशेष का माप करना.  
Measurement of a thing  
by the hand, by a yard etc; a  
kind of measurement. ठा० ४,  
१; अणुजो० १३२; (२) भाननीय  
पूरुषने तुंकारे भेदावनुं ते; अपमान  
करवुं ते. मान्य पुरुष को तू तडाक से  
बुलाना; अपमान करना. insulting;  
showing disrespect to a worthy  
person. परह० २, ५; ओव० २१;

अवमाणित्रि. त्रि० (अपमानित) अप-  
मान पालेत. अपमानित. Insulted. सु०  
च० १२, ५; पिं० नि० ४६५; भग० ३, २;  
११, ११; ओघ० ५२८;

अवमार. पुं० (अपस्मार-अपस्मर्यते पूर्ववृत्तं वि-  
स्मर्यते नेत्यपस्मारः) रैषविशेष; जेभां  
पूर्वी हडीकतनुं विस्मरण थध जय एवीं  
जातने एक रोग, वाध; मृगी; हिरटेरीया. एक  
रोगविशेष, जिसमें पूर्व की स्मृति नष्ट हो जाय  
वह रोग; मृगी. A disease such as  
hysteria, epilepsy etc. in which  
a person becomes unconscious

of his former condition. आया० १,  
६, १, १७२;

**अवमारिय.** त्रि० ( अपस्मारित—अपस्मारः संजातो यस्येति ) अपरमारौग्वागे; वाध—भूगी रौग्वागे। अपस्मार—मृगी रोग वाला. Suffering from epilepsy etc. आया० १, ६, १, १७२;

**अवय.** न० ( अवक ) ऐक साधारण वनस्पति; सेवाणि. एक साधारण वनस्पति; सिवार. A kind of vegetation; moss. पञ्च० १;

**अवय.** न० ( अब्ज ) कमल. कमल. A lotus. पञ्च० १;

✓ **अवयक्ष.** धा० I. ( अप+इक्ष ) अपेक्षा राख्यी; आकांक्षा ५२६। अपेक्षा रखना; आकांक्षा रखना. To expect; to desire. ( २ ) ज्ञेय; आगणपाणि निरीक्षणु ५२५। देखना; आगे पीछे निरीक्षण करना. to observe.

अवयक्षह. नाया० ६;

अवयक्षंति. नाया० ६;

अवयक्षसि. नाया० ६;

अवयक्षमाण. व० क० भग० १०, १;

अवयक्षंत. व० क० नाया० ६; ओघ० नि० भा० १८८;

**अवयग.** पुं० (\*अवदग्न—पर्यन्त) अन्त; छेत्रै; पर्यन्त. अन्त; आखिरी. End; limit. ठा० २, १; भग० १, १;

**अवयण.** न० ( अवचन ) निन्द्य वयन; अयोग्य वयन. निन्द्य वचन; अयोग्य वचन. Improper speech; censurable speech. वेय० ६, १; ठा० ३, ३;

**अवयमाण.** व० क० त्रि० ( अवदत्त ) युद्ध न घेलतो; घेदुन न घेलतो. मूँठ न बोलता हुआ. Not telling a lie. आया० १, ५, २, १४६;

✓ **अवयर.** धा० I. ( अप+कृ ) अपकार करना; करने; अपमान ५२५। अपकार करना;

अपमान करना. To injure; to insult.

अवयरह. सम० ४०;

**अवयरण.** न० ( अवतरण ) उत्तरुं; नीचे आवतुं. नीचे उत्तरना. Act of descending; coming down. प्रव० ८६२;

**अवयरिस.** त्रि० ( अपकर्ष ) थोड़ू. थोका. Small; little. विशेष० १५०३;

**अवयव.** पुं० ( अवयव ) अवयव; अवयविनो ऐक विभाग. अवयव; अवयवी का एक विभाग. A limb; a part of a body.

अण्णजो० १३१; विशेष० २८; प्रव० १५११; क० गं० १, ४८;—**फरिस.** पुं० (-स्तरी) अवयव—ऐक देशनो २५८. एक देश का छुना. touch or contact of a part. “जस्त वरसासणावयवफरिसियविमलमहकिरणा” क० प० ७, ५७;

**अवयवि.** त्रि० ( अवयविन् ) अवयववाणु; जेना भाग पड़ी शेषे ऐनुं. अवयवों वाला; जिसके भाग हो सके वह. Having limbs or parts; divisible into parts or limbs. ठा० १, १; सम०

**अवयार.** पुं० ( अपकार ) अपकार. अपकार. Damage; hurt; injury. विशेष० ३२६;

**अवयार.** पुं० ( अवतार ) समावेश; अन्तर्भाव. समावेश; अन्तर्भाव. Inclusion; state of being included. प्रव० ६६६;

\***अवयास.** त्रि० ( मत्त ) गाँड़ै. पागल. Mad. पिं० नि० ५८१;

**अवयास.** न० ( :अवकाश—आलिङ्गन ) आलिङ्गन; जेटुन ते. आलिङ्गन; भेट करना. Embrace. ओघ० नि० भा० २४४;

**अवयासाविद्.** त्रि० ( \*अवकाशित—आश्लेषित ) आलिङ्गन आपेक्षा. आलिङ्गन किया हुआ. Embraced. विवा० १, ४;

अवधासेउरण्. सं० कृ० अ० ( \* अवकाशय-  
आलिंग्य ) आविंगन दृष्टे. आलिंगन देकर.  
Having embraced. तंडु०

अवर. त्रि० ( अपर ) अन्यः भीज्ञु. अन्य;  
दूसरा. Another; other. पि० नि०  
२१५; ४१५; नाया० १; भग० ३, ७; सू०  
प० १८; प्रव० ५२७; विशे० ३४६; चं० प० ३;  
(२) पश्चीनुः पाष्ठैतुः पांचे का; आखिर का.  
following; next. सूय० २, ६, २; (३)  
पश्चिम दिशा. पश्चिम दिशा. the west;  
the western direction. सम० १४;  
(४) पूर नहि ते; पेते. जो दूसरा न हो  
वह; स्वयं; खुर. self. विशे० ३३५२;  
—उत्तर. पुं० (—उत्तर) उत्तर अने पश्चिम  
दिशा. वच्येनो प्रदेश; वायव्य प्रदेश. उत्तर और  
पश्चिम दिशा के बाच का प्रदेश; वायव्य प्रदेश.  
the region between the north  
and the west; the north-west.  
राय० ६४; जं० प०४, ७३; ५, ११६; —उत्तरा.  
ब्री० (—उत्तरा) वायव्य भुष्णे; पश्चिम अने  
उत्तर वच्येनी विदिशा. वायव्य कोण; पश्चिम  
और उत्तर के बीच की विदिशा. the  
north-west. प्रव० ६०; —रह. पुं०  
(—अहु) हिवसनो पाष्ठो. भाग. दिन का  
पिछला पहर—पिछला हिस्सा. the latter  
part of the day. “पुष्वावररण-  
कालसमयसि” निरी० १६, ७; ८; ठा०  
४, २; अखुजो० २५; पि० नि० २२५;  
प्रव० ५६८; —दक्षिणणा. ब्री० (—दक्षिणा)  
नैऋत्य भुष्णे; पश्चिम अने दक्षिण वच्येनी  
विदिशा. नैऋत्य कोण. the intermediate  
point of the compass called the south-west. प्रव०  
७६०; —द्वारिय. न० (—द्वारिक) पश्चिम  
तरकृ रही नंदनी साथे ज्वेग ज्वेडनार

नक्षत्रे. पश्चिम की ओर रहकर चंद्र के साथ  
संयोग करने वाला नक्षत्र. constellations  
causing a conjunction with the  
moon, remaining in her west.  
“पुस्साइयाणं सत्त गाम्भेत्ता अवरदारिया  
परणत्ता, तंजहा—पुस्सो असिलेसा मधा पुष्वा  
फगुणी उत्तरफगुणी हत्थो चित्ता” ठा० ४,  
४; —दाहिणा. पुं० (—दक्षिण) पश्चिम अने  
दक्षिण वच्येनो प्रदेश; नैऋत्य भुष्णे. पश्चिम  
और दक्षिण के बाच का प्रदेश; नैऋत्य कोन.  
the region between the west  
and the south i. e. the south-  
west. पंचा० २, १६; —पश्चोगज. त्रि०  
(—प्रश्चोगज) स्वाभाविक; भीजना। प्रयोग-  
वापारथी उत्पन्न थमेल नहि. स्वाभाविक;  
प्राकृतक; अकृत्रिम. natural; naturally  
produced. विशे० ३३५२; —मर्मवे-  
हित्त. न० (—मर्मवेधित्व) भीजना। मर्म  
विधाय नहि थमेल भीलनुं ते; सत्य वच्यननो  
२० भो अतिशय। मर्मभेदी वचन न बोलना;  
सत्य वचन का २० वाँ अतिशय। inoffen-  
sive speech; speech not wound-  
ing the feelings of others; the  
twentieth Atisaya of truth-  
ful speech. सम० ३५; —मय. त्रि०  
(—मत) भीजना। मत. दूसरे का मत.  
another's opinion or judg-  
ment. विशे० ६८४; —राय. पुं० (—रात्र)  
पाष्ठी रात. पिछली रात. the latter  
part of a night. ‘पुष्वावररायं जयमाणे’  
आया० १, ५, ३, १५३;  
अवरकंका. ब्री० (—अपरकङ्का) धातकी भ-  
ृडना भरतक्षेननी पदभेदातर राजनी राज-  
धानी, ज्यां द्रैपटीनुं हरण थमुं लंतुं. शाता  
धर्म कथाना। १६ भा अध्ययनभां तेनो विस्तार  
छे. धातकी खंडान्तर्गत भरतक्षेन के पद्मोत्तर

राजा की राजधानी, जहां द्रौपदी का हरण हुआ था। ( इस का वर्णन ज्ञाता धर्म कथा के १६वें अध्याय में है ) . The capital of the Padmottara king of the Bharataक्षेत्र of the Dhātakikhaṇḍa where Draupadī was kidnapped. This is described in the 16th chapter of Jñātādharma-kathā सम॰ १६; नाया॰ १५;

**अवरच्छ.** न० ( अपरोक्ष-आवेद्यमानानि परेषामल्लिणि द्रष्टव्यतया यत्र तदपरोक्षम् ) असमक्ष शेरी करती ते; शेरानुं ग्रीषमं नाभं गैर मौजूदगी में चोरी करना; चोरी का तीसवाँ नाम. The thirtieth kind of theft; stealing in the presence of the owner or others when inattentive. पराह १, ३;

✓ **अवरज्ञभ.** धा॰ I. ( अपराध ) अपराध करते; अपराधी थे। अपराध करना; अपराधी होना. To offend; to commit a crime. ( २ ) नाश पामनुं नाश पाना. to be destroyed; to be ruined. **अवरज्ञह-ति.** विवा॰ २; नाया॰ २; राय॰ २६६; उत्त॰ ७, २५; ३३, २५; सूय॰ १, १, २, ११; १, ३, ३, १३;

**अवरज्ञस्ति.** नाया॰ २;

**अवरण्ण.** न० ( अवरण्ण ) शाकविशेष। शाकविशेष. A kind of vegetable. जं॰ प० अंवरस्त. पुं॰ ( अपरात्र ) रात्रीने पाठले। भाग; पाठ्वी रात. रात्रि का पिछला भाग; पिछली रात. The latter part of a night. “पुञ्चावरस्तकालसमयंसि” विवा॰ १, ६—कालसमय. पुं॰ ( -कालसमय ) पाठ्वी रातने। काण-वर्षत. पिछली रात का

समय. time after midnight. कप्प॰ ६, १५०;

**अवरच्छ.** न० ( अपराध ) अपराध करते; विज्ञने भीड़ उपलब्धि ते. अपराध करना; दूसरे को कष्ट पहुँचाना. Act of offending others. वव॰ १, ३७; विवा॰ ४; सु० च० १, ८१; ( २ ) विनाश करेत. विनाश किया हुआ. destroyed; ruined. नाया॰ १;

**अवरद्विय.** पुं॰ ( अपराद्विक-अपराधनं अपराद्वं पीडाजनकतया तदस्यास्तीत्यपराद्विको लूताविस्फोटः सर्पादिदंशो वा) सर्पदंस. सर्पदंश. Snake-bite. ( २ ) लूता रोगनो द्वालो. लूता रोग का फोड़ा. an insectbite. पिं॰ निं॰ भा॰ १४;

**अवरद्विगा.** ल्ला॰ ( अपराद्विका ) खसनी द्वाली. खुजली की फुन्सी. A tumour of itches. ओध॰ नि॰ ३४१;

**अवरविदेह.** पुं॰ ( अपरविदेह ) पश्चिम भाविदेह-भेरथी पश्चिम तरक्षने। भाविदेह क्षेत्रने अधीं भाग. पश्चिम महाविदेह-मेरु से पश्चिम की ओर के महाविदेहक्षेत्र का आधा भाग. The western Mahāvideha in the west of Meru mount. ‘दो अवरविदेहाङ्ग’ घा॰ २, ३; अग्नुजो॰ १३४; पञ्च॰ १६; जं॰ प० जीवा॰ १—**कूड.** न० ( -कूट ) निषध पर्यतनुं आठमुं तथा नीलवंत पर्यतनुं सातमुं शिखर. निषध पर्वत का आठवाँ और नीलवंत पर्वत का सातवाँ शिखर. the eighth summit of Niṣadha mount and the seventh summit of Nilavanta mountain. जं॰ प० —वास. पुं॰ ( -वर्ष ) जुओ “अवरविदेह” शब्द. देखो ‘अवरविदेह’ शब्द. vide ‘अवरविदेह.’ नाया॰ ८;

**अवराविदेहश्च.** त्रि० ( अपरविदेहक ) पश्चिम भाष्यमिदृष्ट क्षेत्रमां ज्ञ-भेद. पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में जन्मा हुआ. Born in the western Mahāvideha region. अगुजो० १३१;

**अवरा.** स्त्री० ( अपरा ) नविना विजयनी मुख्य नगरी. नालिना विजय की मुख्य नगरी. The chief city of Nalinā Vijaya. घा० २, ३; ( २ ) पश्चिम दिशा. पश्चिम दिशा. the west. प्रव० ७६०;

**अवराइश्चा.** स्त्री० ( अपराजिता ) पश्चिम भाष्यमिदृष्टना दक्षिण भांडवानी पांचवी वप्रा विजयनी मुख्य राजधानी. पश्चिम महाविदेह के दक्षिण भाग की पांचवी वप्रा विजय की मुख्य राजधानी. The capital of the fifth Vaprā Vijaya of the southern part of western Mahāvideha. ज० १०

**अवराजिया.** स्त्री० ( अपराजिता ) शंख विजयनी मुख्य नगरी. शंख विजय की मुख्य नगरी The capital of Saṅkha-Vijaya. घा० २, ३;

**अवराह.** पुं० न० ( अपराध ) अपराध; गुन्हेः; क्षुर; भूत. अपराध; गुनाह; भूल. Fault; offence. ‘अवराहसहस्रधरणीओ’ तंड० नाया० ६; दस० ६, २, १८; सु० च० ४, १२४; वव० १, ३७; दसा० ६, ४; पिं० निं० १२७; प्रव० ७३६; पंचा० १५, १७; ( २ ) अतिचार; व्रत लांगवानी डार्शीश. अतिचार; व्रत भंग करने का प्रयत्न. an attempt to violate a vow. पंचा० १६, १४; —खामणा. स्त्री० ( -खामणा ) अपराधनी क्षमा भाग्यी ते. अपराध की ज्ञामांगना. asking pardon for a sin or a fault. प्रव० ६६; —पथ. न० ( -पद ) धृतिय क्षण्य आदि-भैक्ष भाग्यने रोकनार. इन्द्रियविषयक कषाय आदि; मोक्ष

को रोकने वाला. an obstacle in the path of salvation; e. g. passion etc. भत्त० ४६; —वण. पुं० ( -वण ) अपराधरूपी प्रणु-धा. अपराधरूपी व्रण. a wound or a scar in the form of a sin. पंचा० १५, ४०; —सल्ल. त्रि० ( -शल्य ) अतिचाररूप शल्य. अतिचार रूप शल्य. a fault rankling in the heart like a thorn. पंचा० १६, १४; —सल्लप्पभव. त्रि० ( -शल्य-प्रभव ) सचित्पृथ्वीना संसर्गरूप अतिचार-भूत शल्यथी उत्पन्न थथेक. सचित्पृथ्वी का संसर्ग रूपी जो अतिचार उससे उत्पन्न. born of, arising from A tichāra ( partial violation ) incurred by touching animate earth i. e. earth-bodied sentient being. पंचा० १६, १४;

**अवराहि.** त्रि० ( अपराधिन् ) गुन्हेगार; अपराधी. अपराधी. Guilty; criminal. राय० २४७;

**अवरिल्ल.** त्रि० ( अपरत्य ) पश्चिम तरक्तुं. पश्चिम की ओर का. Western. “अवरवणसंड” नाया० ६;

**अवरहृ.** पुं० ( अपरहृ ) नारकीना हाथपग लांगनार परभाधामी. नारकी के हाथ पैरों को तोड़ने वाला परमाधामी. One who breaks off the hands and feet of Nārakīs; the Paramādhāmī. सम० १५;

**अवरोप्तर.** न० ( परस्पर-प्राकृतत्वादादि रकारः) अन्येऽन्य. अन्योन्य. Mutual. विशे० २५१; पिं० निं० २३४;

**अवरोह.** पुं० ( अवरोह ) अन्तःपुर. अन्तःपुर; ज्ञान खाना. A harem. सु० च० २, ४०३; ( २ ) आवरण. आवरण; अटकाव. absence of obstruction. विशे० १०३;

✓ अवलंब. धा० I. ( अव+लम्ब् ) आश्रय करने; अवलंभन करना. आश्रय करना अवलंभन करना. To lean upon; to resort to.

अवलंबियाण. सं० कृ० आया० १, ६, १, २२;  
अवलंबिष्य-य. सं० कृ० आया० २, १, ६,  
३२; सु० च० ५, २३२;

अवलंबित. भत्त० १६३;  
अवलंबित्तण्. हे० हृ० दसा० ७, १;  
अवलंबमाण. व० कृ० ठा० ५, २;

अवलंब. त्रि० ( अवलम्ब ) पगुथा अने भायु नियुं करी लटकनार. पाँव ढँचे ओर तिर नीचे करके लटकने वाला. (One) in a topsy-turvy posture of the body; one suspending him-self head over heels. ओवा०

अवलंबण. न० ( अवलम्बन ) वस्तुना सामान्य तथा विशेष अंशनो अवग्रह. वस्तु के सामान्य तथा विशेष अश-भाग का अवग्रह-अवलम्बन. Grasping the general and particular parts of a thing. नंदी० ३०; ( २ ) आश्रय; आधार; टेका. आश्रय; आधार; टेका. support. जीवा० ३, ४; जं० प० १; निसी० १, १२; ( ३ ) ओटलो. ओटला. a verandah. ( ४ ) भरतड नभावनुं ते. मस्तक नमाना; सिर झुकाना. act of lowering the head. ठा० ५, २; —बाहा० खी० ( \*बाहु ) कठोड़ा; कठोरा. कठहरा. A railing. जं० प०

अवलंबण्या. ली० ( अवलम्बनता ) अवग्रह; भविज्ञाननो एक भेद. अवग्रह; भविज्ञान का एक भेद. A variety of Matijñāna; perception, apprehension of an object. Here the state of mind

is such that it has a vague idea of an object. नंदी० ३०;

अवलंबिआ-य. त्रि० ( अवलम्बित ) निरंतर; हमेशा०. निरन्तर; हमेशा०. सदा. Always; eternally. नाया० १; ( २ ) त्रि० अवलंभन करेत्र. अवलम्बन किया हुआ. re-sorted ( to ). दस० ५, २, ६;

अवलद्ध. त्रि० ( अपलब्ध ) अपभानपूर्वक भगेनु. अपभानपूर्वक मिला हुआ. Obtained with insult. “परघरपपवेसे लद्धावलद्धाइ” अंत० ५; भग० १, ६;

अवलविज्जंति. व० कृ० त्रि० ( अपलप्त ) अङ्गतो; अङ्गउतो. बकता हुआ; बड़वड़ता हुआ. Prattling; talking nonsense. सु० च० ५, ६०;

अवलिंब. पुं० ( अवलिम्ब ) एक देशनुं नाम. एक देश का नाम. Name of a country. ठा० २, ४;

अवलित्त. त्रि० ( अवलिस ) व्याम. व्यास. Pervaded by. सूय० १, १३, १४;

✓ अवलिप्प. धा० I. ( अव + लिप् + क० वा० ) लेपावुं; भरडावुं. लेप का किया जाना. To be smeared; to be bespattered.  
अवलिप्पइ. क० वा० उत्त० २५, २८; भग० ६, ३३;

अवलिय. त्रि० ( अवलित ) नहि वजेलुं; धडी पाउड नहि; वागेल नहि. बिना सुबा हुआ; न सुकाया हुआ. Not folded; not bent. उत्त० २६, २५;

अवलुय. न० ( \*अवलुक-नौकादण्ड ) हुलेसा० विशेष; नावाने यथानवानुं एक उपकरण. एक प्रकार का बांस; नाव चलाने का एक उपकरण. A kind of oar. आया० २, ३, १, १११;

**अवलेहणिया.** स्त्री० (\*अवलेखनिका-वंशव्वर्ग) वांसनी उपकी छाल-छोड़। बांस के उपर की छाल। The outer bark of a bamboo. घा० ४, २; निसी० २, २६;

**अवलेहिया.** स्त्री० ( अवलेहिका ) चाटणु। अवलेह; चटनी। Semi-fluid medicine to be licked. प्रव० २२८;

**अवलेही.** स्त्री० (\*अवलेहिका-वंशवलक्ष) वांसनी छोड़। बांस के ऊर की छाल; जो बांस पर पत्ती के आकार में होती है। The outer bark of a bamboo tree. क० गं० १, २०;

**अवलोपमाण.** व० कृ० त्रि० ( अवलोकयत् ) अवलोकन करता हुआ। Observing; inspecting. नाया० १; १६; भग० १०, १;

**अवलोध.** पुं० ( अवलोप ) वस्तुना सहजावने छुपावें ते; असत्यनु वीशमुं नाभ। वस्तु के सद्ग्राव को छिपाना; असत्य का तीसवाँ नाम। Concealing the real nature of a thing; the thirtieth variety of untruth. परह० १, २;

**अवव.** न० (\*अवव-अवयव) ८४ लाख अववंग प्रमाणु काणविशेष। ८४ लाख अववंग प्रमाण काल विशेष। A period of time, measuring eighty-four lacs of Avavaṅgas. घा० २, ४; भग० ५, १; २५, ५; अणुजो० ११५; जीवा० ३;

**अववंग.** न० (\*अववाङ्ग-अवयवङ्ग) ८४ लाख अट्ट प्रमाणु काणविशेष। ८४ लाख अट्ट प्रमाण कालविशेष। A period of time measuring eighty-four lacs of Atataśas. जीवा० ३; ठा० २, ४; भग० ५, १; २५, ५; अणुजो० ११५;

**अववक्का.** स्त्री० ( अवपाक्या ) तवी; तवे। तवा। A pan; a metal or earthen vessel to bake bread. भग० ११, ११; अववट्टणा. स्त्री० ( अवर्तना-अपवर्त्यते दृश्वी-कियते स्थित्यादि यथा सा ) ऐ अध्यवसायथी कर्मनी दीर्घ स्थिति अने तीव्र रसभां धटाडे करवामां आवे-स्थितिधात या। रसधात कराय ते अध्यवसायविशेष। जिस प्रयत्न से कर्म की दीर्घ स्थिति और तीव्र रस में कर्म की जा सके वह प्रयत्नविशेष। Thought activity lessening the duration, and intensity of Karma. क० प० १, २;

**अववरोवित्ता.** स्त्री० (\*अव्यवरोपिता-अव्यवरोपण) व्यपरोप-नाशनो अभाव; अविनाश। नाश का अभाव। Non-destruction. eternal existence. “जिद्भामयाऽमो सोवश्वाशो अववरोवित्त भवद्” ठा० ६३; अववाग्र. पुं० ( अवगत ) आगमन; आवर्तु ते। आगमन; आना। Act of coming; arrival. “साहृणमण्णुवाऽमो किरिया णासो उ अववाए” पंचा० ७, ११;

**अववाय.** पुं० ( अपवाद ) भीजनुं भराय ऐवर्तु ते; निन्दा; खराब बोलता। A censure; scandal. परह० २, २; पंचा० ५, १६;

**अवविह.** पुं० ( अवविध ) गोशालाने। एक श्रावक-उपासक। गोशाला ( एक मतप्रवर्तक ) का एक श्रावक-अनुवायी। A follower of Gosālā. भग० ८, ५;

**अवस.** त्रि० ( अवश ) परवश; परतंत्र; कर्मवश; अस्यतंत्र। परवश; कर्मवश; पराधीन। Dependent; not free; under the controlling influence of Karma. भग० ३, २; नाया० ६; सूय० १, ३, १, ५७; उत्त० ७, १०; १३, २४;

**अवसाक्षण.** न० ( अवश्वकण ) पाणी जुन्ते.  
पीछे जाना. Act of following; pursuit. पंचा० १३, १०;

**अवसक्षि.** त्रि० ( अवश्वकिन् ) दूर रहेनार; पाणी हृदनार. दूर रहने वाला; पीछे हटने वाला. Remaining at a distance; retreating backwards. सूय० २, ६, ६;

**अवसाक्ष.** त्रि० ( अवसाक्ष ) निभन्न; तक्षीन थमेल; उभी गमेल. निमग्न; तक्षीन; हृबा हुआ. Plunged in; absorbed in; drowned in. उत्त० १३, ३०; ३२, ७६;

✓ **अवसाप्य.** धा० I. ( अप + सृप् ) दूर भागी जुन्तु; सटकी जुन्तु. दूर भग जाना; सटक जाना. To escape; to run away.

**अवसाप्यन्ति.** सूय० १, ३, २, १४;

**अवसर्पिणि.** त्रि० ( अवसर्पिन् ) छोड़ने वाणी-जनार; तजनार. छोड़कर भाग जाने वाला. ( One ) who abandons and flies away. “अपदिङ्गस्स लवावसर्पिण्णा” सूय० १, २, ३, २०;

**अवसर्पिणी.** ली० ( अवसर्पिणी ) दृश डेढ़ा क्वाडि सागरोपम भ्रमाणु उत्तरतो काणि; समये समये हानि दर्शायनार छ आरापरिभित काणि-विभाग. दस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण काल; जिसमें हर समय अवर्नति ही होती रहती है वह छ: आरा पारंमित कालविभाग. The æon of decrease, measuring six Ārās; the time of descent equal to ten Kodākodi Sāgaropamas; a Kodākodi=( a crore x a crore ). भग० ३, २; ५, १;

**अवसय.** त्रि० ( अपसद ) तुच्छ. हलका; तुच्छ. Mean; low; base. ठा० ४, ४;

**अवसधस्त.** त्रि० ( अपस्ववरा ) परवथ; स्वतंत्रता. रहित. परवरा; पराधीन. Not free; dependent. नाया० १६; ११;

**अवसव्य.** न० ( अपसव्य ) अहनी चालविशेष. ग्रहों की गतिविशेष. A particular kind of the motions of the planets. जीवा० ३, ३;

**अवसह.** पुं० ( अवसुध ) धर; आश्रय; आश्रम. A place of shelter; a house; an ascetic's abode. उत्त० ३२, १३; परह० १, १;

**अवसान.** न० ( अवसान ) छेड़ै; अंत; पर्वतसान; समाप्ति. पर्यवसान; अन्त; समाप्ति. End; conclusion. पिं० लि० ११३; ओष्ठ० नि०भा० ४५; ओष्ठ० लि० ७६०; ओक्ट० ३१; जीवा० ३, ४; विश० ८८; अणुजो० १२८; निसी० २०, ११; नाया० १; प्रव० १३४८; कप्य० ४, ६३;

**अवसिद्धंत.** पुं० ( अपसिद्धान्त ) अपसिद्धांत; असत्य सिद्धांत; असत्य सिद्धान्त. A false principle or doctrine. विश० २४५७;

✓ **अवसीञ्चि.** धा० I. ( अव+ञ्चू ) सीधानु; उलेश पामवे. दुखी होना; झेश पाना. To be afflicted; to feel pain.

**अदसीमद्द.** उत्त० २७, १५;

**अवसेस.** पुं० ( अवशेष ) आड़ीनु; शेष रहेलुनु; वधेनु. शेष रहा हुआ; बचा हुआ. A remnant. भग० ३, १; ४, ८; ६, ३; ४; ७, ६; १२, ६; २०, ८; २४, १; २०; नाया० १; ४; ८; १६; विवा० ६; वव० २, ५; ओव० ३४; सम० १० २३१; उत्त० २६, २०; वेय० २, १२; जं० प० २, २३; ५, ११७; राय० ७३; ठा० ७; उवा० १, १६; प्रव० ८६६;

**अवसोहिय.** सं० कृ० अ० ( अवशोध्य ) दूर करने; परिहरने. दूर करके. Having removed or abandoned. “अवसोहिय कंठयापहं” उत्त० १०, ३२;

**अक्षोहिय.** त्रि० ( अक्षोभित ) शेखतुं;  
शेखनीक. सुशोभित. Beautiful;  
charming. नाया० १;

**अवस्थ.** न० ( अवश्य ) अवश्य; नक्षी; जरूर;  
निश्चे. अवश्य; जरूर; निश्चय. Certain;  
unavoidable. अणुजो० २८; नाया० १;  
भग० ६, ३३; पिं० निं० ३५२;—कायब्द.  
त्रि० (—कर्तव्य ) अवश्य करवा येऽप्य. अवश्य  
करने योग्य. necessarily to be done.  
गच्छा० १२;—विष्णजहिय. त्रि० (—विप्रहेय )  
अवश्य त्यागवा येऽप्य. अवश्य त्यागने योग्य.  
necessarily to be given up or  
abandoned. नाया० १८;

**अवस्थय.** पुं० ( \*अवश्य-अवश्वावण )  
ऐटिंग्यु-आवंपन आपवानुं साधन.  
अवलम्बन-सहारा देने का साधन. A means  
to lean upon; a support.  
वेय० ५, ३२;

**अवहद्दु.** सं० कृ० अ० ( अपहन्त्य ) अपदीने;  
दूर करने; छोड़ा दृष्टी; अग्नु मुझने. दूर  
करके; अलग करके; छोड़ करके. Having  
abandoned; having removed.  
सूय० १, ४, १, १७; ओव० निं० भा० १७२;  
ओव० १२; ३२; भग० १, ६;

**अवहद्दुलेस्स.** त्रि० ( \*अपदृत्यलेश्य-अपहन्त-  
लेश्य ) ऐले लेश्या दूर करी छै ते. जिसने लेश्या-  
ओंका नाश किया हो वह. One who has  
removed thought-tint. दसा०  
५, ३०;

**अवहद्दुसंजम.** पुं० ( अपहसंयम-अपहत-  
संयम ) उभ्यादृष्टि अविधिये परठवनाथी  
लागतो असंज्ञम; असंज्ञमना १७ प्रकारभा-  
नो एक. मल मूत्रादि अविधि से डालने से होने  
वाला असंयम; असंयम के १७ प्रकारों में से एक  
भक्तार. A sin arising from laying

down excreta etc. in improper  
ways; one of the seventeen  
kinds of Asamyama or lack of  
asceticism. सम० १७;

**अवहड.** त्रि० ( अपहत ) लधनेभीने भुडेका;  
लेकर दूसरी जगह रखा हुआ. Carried to  
another place. “वालमां अवहाय अव-  
हडे विसुद्धे ” भग० ६, ७;

**अवहथिथआ.** त्रि० ( अपहस्तित ) हाथ पक-  
ड़ीने भुडार काढी भुडेका. हाथ पकड़कर  
बाहर किया हुआ. Pushed out by  
holding the hand; turned out  
by holding the hand. नंदी०

**अवहर.** धा० I. ( अप+ह ) हरवुं; हरयुं;  
दूरवुं; येवुं. हरण करना; चुराना. To  
remove; to take away; to steal.  
( २ ) स्वीकार करवे. स्वीकार करना. to  
accept.

**अवहरह.** सु० च० १५, ५४; नाया० १६; १८;  
दसा० ६, १६; भग० १०, ३; निसी०  
१०, १०;

**अवहरि-रे-जा.** त्रि० भग० ५, ६; ८, ७;

**अवहरिसु.** भू० ठा० १०;

**अवहरिमाणा.** व० कृ० भग० ३५, १;

**अवहरिअ.** त्रि० ( अपहत ) अपहार करेका;  
लध लीपेक. चुराया हुआ या छीना हुआ.  
Taken away; removed; robbed.  
प्रव० ६१; नाया० २; १८;

**अवहस.** धा० I. ( अप+हस् ) हसवुं; हास्य  
दूरवुं. हसना. To laugh,

**अवहसइ.** ठा० ५, १; नाया० १८;

**अवहसिय.** सं० कृ० नाया० ८;

**अवहाण.** न० ( अवधान ) साक्षात् अर्थात्  
परिष्ठेन-शान. वास्तविक अर्थ का बोध.  
Knowledge of the actual or  
true meaning. विशे० ८३;

**अवहाय.** सं० कृ० अ० ( अपहाय ) तथा; छोड़ करके; त्याग करके. Having abandoned. भग० ६, ७; १३, ६; १५, १; जं० प० २, १८;

**अवहाय.** सं० कृ० अ० ( अपहत्य ) अपहरण करने; उपासी लहने. अपहरण करके. Having carried away; having taken away. अणुजो० १३६;

**अवहार.** पु० ( अपहार ) जर्जुन् अपहरण करने ते. गर्भ का अपहरण करना. Act of removing an embryo by causing miscarriage etc. भग० १८, ४; २१, १; २३, १; ३१, १; ३५ १; ४१, १; प्रब० १०४०; ( २ ) आरी; दूरण्. चोरी; हरण. theft. परह० १, ३; ( ६ ) जलयर प्राणीविशेष. एक प्रकार का जलचर प्राणी. a kind of aquatic animal. परह० १, २;

**अवहारण.** न० ( अवधारण ) अवधारण करने ते; निश्चय करने. Deciding; determining. विशे० २५६; ६८७;

**अवहारवं.** त्रि० ( अवधारवत् ) अवधारण वालो; निश्चयवान्. निश्चयवान्; दृढ़. ( One ) who has made a determination or decision; determined. ठा० १०;

**अवहि.** पु० ( अवधि—अव—अधो विस्तृत वस्तु धीयते परिच्छयते नेन्त्यवधिः; यदा अवधिमर्यादा रूपिवेव वस्तुपु इव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपतया तदुपलक्षित मानस्यवधिः ) अवधिज्ञान; पांच ज्ञानभाँतु त्रीवृं ज्ञान. अवधि ज्ञान; पांच ज्ञानो में से तीसरा ज्ञान. The third of the five kinds of knowledge; visual knowledge. क० गं० ४, १४; पञ्च० २८;

( २ ) भर्यादा. मर्यादा; हद. limit. सु० च० ३, ५५;

**अवहिअ.** त्रि० ( अवधत ) नियमित; व्याप्ति संतुष्टिका. नियमित; निश्चित किया हुआ. Settled; fixed. विशे० २६३३;

**अवहिअ.** त्रि० ( अव्यथित ) ज्ञेयु भन दीन नथी ते. जिसका मन दीन न हो वह. Of unaffected mind. दस० ८, २७;

**अवहिअ.** त्रि० ( अपहत ) आकृष्टिका; खेल; खेल. आकर्षित; खोना हुआ. Drawn; attracted. उत्त० ३२, ८६; ( २ ) अपहार करेत; लै लीखेत. चुराया हुआ या छोना हुआ. taken away; removed; robbed. प्रब० १०३७; नाया० १६;

**अवहिठ.** न० (\*अवहिठ—अवहृष्ट) भैथुन; स्त्रीपुस्त्रसमागम. मैथुन; लोष्टुष्टसमागम. सूय० १, ६, १०; Sexual intercourse.

\***अवहित्तप.** हे० कृ० अ० ( चालयितुम् ) चक्षापवाने. चलाने को. In order to cause to move. नाया० १७;

**अवहिय.** त्रि० ( अवहित ) कहा हुआ. Said; related. पञ्च० १५;

**अवहियमण.** ति० ( अवहितमनस् ) सावधान; शान्त. सावधान; शान्त. Attentive; calm. सु० च० १, १०४;

**अवहिरिय.** त्रि० ( अपहृत ) अपहरण करेत; लै लीखेत. चुराया हुआ; लूटा हुआ. Snatched; robbed. भग० ११, १; १२, २; ३५, १;

**अवहीय.** न० ( अवधीक ) उलझी भुक्षिथी आवायदुर्वस्त्र. तुच्छ बुद्धि से कहा हुआ वचन. Speech proceeding from mean motives. परह० १, ३;

अवहीर. धा० II. (अप+ह) अपहरुं; भाली  
करुं. खाली करना; अपहरण करना. To  
clear away; to take away.

अवहीरह. भग० १२, ३; २३, १;  
अवहीरंति. अगुजो० १४५; पञ्च० १२;  
भग० ११, १;

अवहीरेति. भग० २५, १;

अवहीरमाण. व० कृ० अगुजो० १४५; भग०  
११, १; १२, २; २३, १; ३१,  
१; ४१, १; जीवा० ३, १;  
नाया० १८;

अवहीरेमाण. व० कृ० भग० १८, ४;

अवहीरिज्ञ. सं० कृ० अ० ( अवशीर्य ) धी२०८  
आपीने; धैर्य दृष्टि. धीरज बंधाकर; धैर्य  
देकर. Having calmed; having  
consoled. सु० च० १४, ४६;

अवहेडिअ-य. त्रि० (\*अवहेडित-अवहेलित )  
भायुं नीचे नभावेत; पीड़ितुं नभावेत.  
नीचे सिर किया हुआ; पीठ तक मस्तक नमाया  
हुआ. With the head bent as far  
as the back; with head lowered  
down. “ अवहेडियपिण्डिसउत्तमंगे ”  
उत्त० १२, २६;

अवहेरी. ली० ( अवहेला ) भग१५; हांसी.  
हँसी. मज़ाक. Joke. सु० च० १४, ७४;

अवहोलंत. त्रि० ( अवबोलयत ) देलायमान;  
यत्यायमान. चलायमान; चक्षित; हलचल  
सहित. Moving; swinging; waving;  
unsteady. नाया० ८;

अवाश्च-य. पु० ( अपाय ) रागादिथि उत्पन्न  
थथेत देष्प; अनर्थ. रागादि से उत्पन्न  
हुआ दोष; अनर्थ. Sin arising from  
passion etc. ओव० २०; ठा० ४, १;  
३; क० गं० १, ५;—अगुणपेहा. ली०

(—अनुप्रेक्षा—अपायाना माश्रवजन्म्यामर्थानाम-  
तुप्रेक्षानुचित्वनमपायानुप्रेक्षा ) आश्रव  
आदि देष्पेतुं चित्वन करुं ते; शुक्ल  
ध्याननो। ऐक भेद; आश्रव आदि दोषों का  
चित्वन करना; शुक्लध्यान का एक भेद.  
a variety of Śukla Dhyāna  
viz meditation upon the  
influx of Karma etc.  
ओव० ठा० ४, १; भग० २५, ७;—दंसि.  
पुं० (—दर्शन ) अनर्थ वगेरे देष्प अतावनार;  
देष्पदर्शी. अनर्थ आदि दोष बताने वाला; दोष-  
दर्शी. one who points out fault;  
fault-finding. भग० २५, ७; ठा० ८,  
१; पंचा० १५, १४;—भीय. त्रि० (—भीत )  
अपाय-पापदेष्पथि भय पामेत. पापदोष  
से डरा हुआ. frightened or terri-  
fied by sin; fearful of  
sin. पंचा० ७, ३६.—विजय. न०  
(—विचय—अपाय रागादिजनिता अनर्थः;  
विचयन्ते निर्णयन्ते पर्यालोऽद्यन्ते वा  
यस्मैस्तदपायविचयम्) रागदेष्प आदि देष्पतुं  
चित्वन करुं ते; धर्मध्याननो पहेलो भेद.  
रागदेष्पादि दोषों का चिन्तवन करना; धर्मध्यान  
का प्रथम भेद. meditating upon  
faults arising from passions etc;  
the first variety of Dharina  
Dhyāna. भग० २५, ७; ठा० ४, २;

अवाश्च-य. पु० ( अपाय ) उष्णपोह करी  
परतुनो। निश्चय करवे। ते, नेम के आ  
ध्यमाल छे; मतिशाननो। त्रिज्ञे भेद. ऊहापोह  
( तर्कवितर्क ) के द्वारा वस्तु का निश्चय  
करना, जैसे यह ध्वजा ही है; मतिशान का  
तीसरा भेद. Specific determination  
of a thing by the process of  
thinking and mental reasoning,  
e. g. this is a banner and

nothing else; the third variety of Mati-Jñāna. दसा० ४, ४५; नंदी० २६; पञ्च० १५; विशेष० १७८; सम० २८; नाया० १५; भग० ८, ३; १२, ५; १७, २;—मह. ली० (—मति) धृष्टाथी वस्तुने। निश्चय कुर्याते; भतिज्ञानो त्रिले भेद; इहा से वस्तु का निश्चय करना; भतिज्ञान का तीसरा भेद; the third variety of Mati-Jñāna; determining the nature of a thing by exertion or dealing with perception to arrive at judgment. ठा० ४, ४; ६, १;

**अवाईद्ध.** त्रिं० ( अव्यादिग्रन्थ ) वृक्ताथी रहित; अवृक्त. वक्ता से रहित; अवक; सीधा. Not crooked; free from crookedness. भग० १६, ४;

**अवाईण.** त्रिं० ( अवातीन—वातीनानि वातो-पहतानि, न वातीनानि—अवातीनानि) वायुथी न पडे एवा। ६६ भूत्यापाणुं. वायु से न गिर-सकने वाला; दृढ़ मूल वाला. Firmly, deeply rooted; not to be uprooted by wind. राय०

**अवाउड़.** त्रिं० ( अप्रावृत ) वस्त्ररहित; नभ. वस्त्र रहित; नम्न; नंगा. Naked; devoid of clothes. प्रब० ५२६; ओष्ठ० • नि० भा० २५३; दस० ३, १२; ( २ ) न० वस्त्रनो अभाव. वस्त्र का अभाव. absence of clothes; nudity. भग० २, १;

**अवाउड़च्च.** त्रिं० ( अप्रावृतक ) वस्त्र एवाद्या विना रिपाणामां टाठ अने उनाणामां तउडें सेननार; नभ अथ आतापना लेनार; बिना वस्त्र पहिने शीतकाल में ढंड और ग्रीष्म छश्तु में गर्मी सहने वाला. ( One ) enduring cold and heat without putting

on clothes; one practising austerity in a condition of nudity. नाया० १; ठा० ५, १; ओष्ठ० १६;

**अवाउड्याईय.** पुं० ( अवायुकायिक ) वायुकाय नहि; वायुकायथी लिन. वायुकाय से भिन्न. One not an air-embodied soul. भग० ८, १; ६;

**अवाएत्ता.** सं० कृ० अ० (अवाचयित्वा) अशुद्धां-रूपो; वाच्या विना. विना पढ़े; विना जाने. Without having read. निसी० १६, १६;

**अवायणिज्ज.** त्रिं० ( अवाचनीय ) वाचना आपा योअ नहि; भण्डावना लायड नहि. बंचाने के अयोग्य; पढ़ाने के अयोग्य. Unfit to be taught; unfit for teaching. “ चत्तारि अवायणिज्जा प० तं० अविशीए विगहपद्धिबद्दे अविउसवियपाहुडे माई ” ठा० ४, ३;

**अवायाण.** न० ( अपादान ) ऐ वस्तुभांनी ऐक वस्तु, जेनाथी छुट्टी पडे ते अपादान; पांचभी विलक्षितो अर्थ. जिससे हो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथक् हो जाय वह अपादान; पांचवीं विलक्षिका अर्थ. Taking away from; separation of one thing from another; the meaning of the ablative case. पिं० नि० भा० २६; अणुजो० १२६; ठा० ८, १;

**अवारिय.** त्रिं० ( अवारित ) निवारण नहि क्रैल; क्रैलमे अटकवेल नहि; निरंकुश. निवारण न किया हुआ; किसीसे न अटकायारोका हुआ; निरंकुश. Unhindered; uncheckered. ‘ ‘अज्ञा अवारियाज्ञो, हस्थीरज्जुं न तं गच्छं ” गच्छा० ६५;

**अवावकहा.** ली० (\*अवापकथा—पापकथा) शाक, धी वगेरे भोजन संबंधी वातयीत कर्ती ते. शाक, धी वगैरह भोजन के संबंध की बात

चीस करना. Talk about the articles of food such as ghee, vegetables etc. ग्रं ४, २;

**अवावड.** त्रिं ( अप्रावृत् ) पञ्चरहित; नग्न. वस्त्र रहित; नंगा. Naked; devoid of clothes. प्रव० १५८।

**अधि.** अ० ( अपि ) प५७. भी; ही. Also; but also. दसा० १, ४; ३, ३१; निसी० २०, १०; १५; ओव० ११; नाया० १; २; १२; १६; १८; अणुजो० ३; सूय० १, १, ३, १; वेय० १, ४४; वव० १, ६; १६; विशे० ४१३; दस० ५, १, ६८; क० प० १, २१; ( २ ) संलापना. संभावना; मुमकिन्. a particle showing possibility. प्रव० ८१४;

**अविअ.** अ० ( अपि च ) समुच्चय. समुच्चय. An indeclinable meaning "moreover." ज० प० ४;

**अविआरि.** त्रिं ( अविचारिन् ) ऐ स्थितिमां शम्भूथी अर्थमां अने अर्थधी शम्भूमां तेमां भन वर्गेरे योगेन्द्रियानु परिवर्तन-हलन चलन नथी ते; शुक्लध्याननो भीने भेद. जिस स्थिति में शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में उसी प्रकार भन आदि योगों का भी परिवर्तन-हलन चलन नहीं होता वह स्थितिविशेष; शुक्लध्यान का दूसरा भेद. The second variety of Sukladhyāna; the condition of mind in which the thought-process is stopped and there is no passing of the mind from word to meaning and meaning to word. ओव० २०;

**अविइश्च.** त्रिं ( अविदित ) अःन५४४ुं; नहि ज्ञेण्युं. विना जाना हुआ. Not known; unknown. पिं० नि० ३३६;

**अविइश्य.** त्रिं ( अद्वितीय ) जेती साथे भीने नथी ते; अेकले. जिसके साथ दूसरा न हो वह; अकेला. Alone; unaccompanied by a second. भग० ३, २;

**अविउकंतिश्च.** त्रिं ( अव्युत्क्रान्तिक ) युक्तान्ति-भृत्युने न प्राप्त थयेल; जेभां ज्ञव भरी गया नथी ते; सचिता. विना सत्ता हुआ; सचित; जीव सहित. Sentient; full of sentient beings. भग० १, ७;

**अविउट्टमाण.** व० कृ० त्रिं ( अविशुद्धमान ) पीडतो; दुःख पापते. दुःख पाता हुआ. Suffering pain; being afflicted. सूय० २, २, २०;

**अविउप्पगडा.** ली० ( अव्युत्पकटा-न विशेषत उत् प्रावल्यतश्च प्रकटा अव्युत्पकटा ) विशेषे कुरीने प्रगट नहि ते. विशेषता से अप्रकटित. Not conspicuous; not prominently visible. भग० ७, १०;

**अविउप्पगडा.** ली० ( अविद्वत्प्रकृता ) अंधि-दृष्टेन्द्रे शरू करेल.-क्षेत्र. अविद्वानोंके द्वारा कहा हुई ( कथा ). Told by those who are not learned. “ अरहे हमा कहा अविउप्पगडा ” भग० १, १; १८, ७;

**अविउसरण्या.** ली० (\*अव्युत्सर्जनता-अव्युत्सर्जन) अधित वस्तु-वस्त्र वर्गेरेने व्यवस्थित राख्यां ते; आवडना पांच अभिगम्भन्मानो भीने अभिगम्भन. अचित वस्तु-वस्त्र आदि को व्यवस्थित रखना; आवक के पांच अभिगम्भनों में से दूसरा अभिगम्भन. The second of the five Abhigamanas of a Jaina layman; orderly arrangement of inanimate objects such as clothes etc. नाया० १;

**अधिउत्सविता.** सं० कृ० श० ( \*अब्युपस्थाप्य-  
अब्युपशास्य) उपशमाव्या विना. विना उपशम  
किये. Without having calmed or  
quieted. वेय० १, ३३;

**अधिउत्सविय.** त्रिं० ( अब्युपशमित ) उप-  
शभावेत् नहि. न उपशम किया हुआ. Not  
calmed; not quieted. वेय० १,  
३३;—पाहुड. श्रिं० ( -प्राभृत ) ऐषु क्लाधने  
शान्त नथी क्यों ते. क्लाध को जिसने शान्त न  
किया हो वह. ( one ) who has  
not assuaged or calmed his  
anger. निसी० १०, १४; ग्रा० ४, ३;

**अधिउत्सिय.** सं० कृ० श० ( अब्युत्सज्य )  
नहि छोड़िने; नहि तरुने. न छोड़कर; न  
त्यागकर. Without having aban-  
doned; without giving up. सूय०  
३, ६, २३;

**अधिओग.** पुं० ( अवियोग ) विमेषनो अभाव;  
पुत्र, मित्र आदिनो अविरह. वियोग का  
अभाव; पुत्र, मित्र आदि का अविरह. Ab-  
sence of separation, e. g. from  
sons, friends etc. परह० १, ५;

**अधिओसिय.** त्रिं० ( अव्यवसित ) अनुप-  
शान्त; उपशमाव्या नहि. अनुपशान्त; न  
उपशमाया हुआ. Not calmed; not  
assuaged. ठा० ३, ४;—पाहुड. श्रिं०  
( -प्राभृत ) ऐषु क्लाध उपशमाये नथी ते.  
जिसने क्लाध का उपशम नहीं किया वह.  
( one ) who has not calmed his  
anger. “बहुसो उद्दीरयंतो, अधिओसिय-  
पाहुडो सखंदु” ठा० ३, ४;

**अधिदमाण.** व० कृ० श० त्रिं० ( अविन्दमान ) न भेज-  
. वारो. प्राप न करता हुआ. Not getting;  
not obtaining. विवा० १, २;

**अधिकंप.** श्रिं० ( अधिकम्प ) अचल; स्थिर;  
अचल; स्थिर. Immoveable; steady;  
firm. पंचा० १८, १५; प्रव० ५६१;

**अधिकंपमाण.** त्रिं० ( अधिकम्पमान ) छोड़ी-  
न क्लाधते; न छुलते. क्लाध से न कॉपता  
हुआ. Not trembling, e. g. with  
anger. “ विगिच्च कोहं अधिकंपमाणे ”  
आया० १, ४, ३, १३५;

**अधिकत्थण.** पुं० ( अधिकत्थन ) अतिरधारे  
न भेदनार; हिनकारी अने परिभित भेदनार.  
बहुत ज़्यादह न बोलने वाला; हितकारी और  
परिभित बोलने वाला. One, not given  
to speak too much; one mea-  
sured and beneficent in speech.  
प्रव० ५५६;

**अधिकल्प.** पुं० ( अधिकल्प ) निक्लै-संदेहने।  
अभाव; निःशंकपालु. संदेह का अभाव; निः-  
शंकपना. Freedom from doubt;  
absence of misgiving. “ अधिक-  
प्लेण तहकारो ” प्रव० ७७१;

**अधिकल.** श्रिं० ( अधिकल ) परिपूर्ण; विकल-  
्पित नहि ते. परिपूर्ण; अखंडित. Perfect;  
entire; complete. पिं० निं० ७१;  
भग० ६, ३३; पंचा० ६, ३६;

**अधिकार.** पुं० ( अधिकार ) विकारनो अभाव.  
विकार का अभाव. Absence of modi-  
fication or change. अणुजो० १३०;

**अधिकारि.** त्रिं० ( अधिकारिन् ) ऐतुं रूपान्तर  
न थाप ते; अधिकारी. जिसका रूपान्तर न  
हो सके वह; अधिकारी. Unchangeable;  
constant. पिं० निं० २७६;

**अधिक्रिअ.** त्रिं० ( अधिक्रेय ) वेचवा योग्य  
नहि. न बेचने योग्य. Unworthy of  
sale; unfit to be sold. दस० ०,  
४३;

**अधिकरण.** पुं० ( अपेक्षक ) अपेक्षा करनार. अपेक्षा करने वाला. (One) who desires or expects. विशे० १७१६;

**अधिकारण.** न० ( अपेक्षण ) अपेक्षा. अपेक्षा. Desire; expectation. विशे० १७०६; अधिकारणिज्ञ. त्रि० ( अपेक्षणीय ) अपेक्षा। करवा योऽय. अपेक्षा करने योग्य. Worth desiring; worthy of being desired. विशे० १७१६;

**अधिकिलस्त.** त्रि० ( अव्यासिष्ट ) अंचलता-रहित; विक्षेपरहित. चंचलता रहित. Free from distraction; free from instability. ( २ ) उपयोगपूर्वक गमन करने वाला. (one) who walks attentively. दस० ५, १, २; ६०;

**अधिकिलय.** त्रि० ( अवेक्षित ) न० रे लोर्येसुं; दृष्टिंगायर करेद्यु. खुद का देखा हुआ. Seen; seen with one's own eyes. पि० नि० ४१७;

**अधिगृह्य.** त्रि० ( अविकृतिक ) विग्रह-धी आहि विकारी वस्तुनो त्याग करनार. धी आदि विकारी वस्तुओं का त्याग करने वाला. (One) abstaining from things increasing passions, e. g. ghee etc. सूय० टी० २, २, ३८;

**अधिगप्त.** पुं० ( अविकल्प ) निश्चय; विकल्प-भंडनो अभाव. निश्चय; विकल्प का अभाव. Absence of doubt or difference of opinion; determined principle; settled principle. क० ग० ६, ३६;

**अधिगय.** त्रि० ( अविगत ) अभ्रष्ट; भ्रष्ट नहि ते. जो अष्ट न हो वह. Not contaminated; unpolluted. नाया० ६; १६;

**अधिगत.** त्रि० ( अविगत ) दृश्य; दृश्य. Clever; skilful. विशे० १४३६;—कुल. त्रि० ( -कुल ) ऋद्धिथी परिपूर्णु हुणि. ऋद्धि से भरपूर कुल. a well-to-do, opulent family. भग० ६, ३३;

**अधिगढ़.** त्रि० ( अविकृष्ट ) छट्ठी अंदरनुतपे करनार. छट्ठ के अंदर का तप करने वाला (लगातार दो उपवासों से अधिक उपवास न करते हुए तप करने वाला). ( One ) not practising the austerity of more than two consecutive fasts. पंचा० १२, ४७,

**अधिगह.** त्रि० ( अविग्रह ) सरण; अवृक्ष. सरल; सीधासादा. Straight; straight-forward. ओव०—गह. ली० ( -गति ) सरल गति; वांड विनानी गति. सरल गति. straightforward gait; motion which is not crooked. भग० १४, ५;

—गहसमावरण. त्रि० ( -गतिसमाप्तज्ञ ) ऋजु गति संपादन करेल; सरल गति पाखेल. ऋजु गति—सरल गति को प्राप्त. one who has acquired a straightforward gait. भग० १४, ५; २५, ४;—गहसमावरण. पुं० ( -गतिसमाप्तक ) ऋजु गति—सरल गति प्राप्त करेल जून. सरल गति पापा हुआ जीव. ( a soul ) that has acquired a straightforward gait. भग० १, ७;

**अधिगद.** न० ( अविद्या ) विध्ननो अभाव; निर्विधनपूर्ण; अंतराखनो अभाव. विद्यन का अभाव; निर्विद्यन; अन्तराखय का अभाव. Absence of or freedom from obstacles. विशे० १३; ओव० ३८; नाया० १; ५; ८; भग० ४३, १; भत्त० १४८; जं० ४० २, ३०;

**अविषुद्ध.** न० ( अविषुष्ट ) ऐसुर न थथ,  
तेवी रीते गानुं ते; गायननो एक गुण. बेसुरा  
न होने पावे, इस रीति से गाना; गाने का एक  
गुण. Singing without discordance; a merit in singing.  
अणुजो० १२८; ठा० ७, १;

**अविचिंतिय.** त्रि० ( अविचिन्तित ) चिंतन  
न करेत् न विचारा हुआ. Not thought  
upon. विरो० १११;

**अविच्चरण.** न० ( अविच्यवन ) विच्यवन-  
विनाशनो अभाव; अविनाश. विच्चरण-  
विनाश का अभाव. Absence of  
destruction. विशे० २६१;

**अविच्छुद्द.** स्त्री० ( अविच्छुति ) रम्भित;  
धारणा. स्मृति; याद. Remembrance;  
recollection. विशे० १८०;

**अविच्छुरण.** त्रि० ( अविच्छिन्न ) विच्छेद न  
पामेत्; अनुटित; यातु. विच्छेद न पाया हुआ;  
चालू. Continuous; uninterrupted  
ed. ठा० ४, १; (२) ऐभां प्रतिपक्षीना संदेह-  
छेदवाभां नथी आव्यो ते. जिसमें प्रतिपक्षी  
का सन्देह दूर न किया गया हो वह. (that)  
in which the doubt or objection  
of an opponent has not  
been set at rest. सूय० २, ७, ३८;

**अविच्छेद्य.** पु० ( अविच्छेद ) विच्छेदनो  
अभाव; निरंतरपृष्ठ. विच्छेद का अभाव;  
झगातार. Continuity; absence  
of break. प्रव० ६२;

**अविज्ञाणश.** त्रि० ( अविज्ञानक ) अज्ञान;  
अध्युक्त; विज्ञानरहित. अज्ञान; विज्ञान  
रहित. Ignorant; devoid of know-  
ledge. आया० १, १, २, १४;

**अविजाणश.** व० कृ० त्रि० ( अविज्ञानत ) न  
जाणतो. नहीं जानता हुआ. Not know-  
ing. जैसिगुहाए जलये तिउहे, अविजाणओ  
डजमह लुतपरणो ” सूय० १, ५, १, १२;

**अविज्ञा.** स्त्री० ( अविद्या ) भिक्षात्वसहित  
अज्ञान; दुश्शास्त्र. भिक्षात्व सहित अज्ञान; कुशास्त्र.  
Ignorance accompanied with  
false belief. उत्त० ६, १; ३४, २३;

**अविणय.** पु० ( अविनय-विशिष्टो नयो विनयः  
प्रतिपत्तिविशेषः; तत्प्रतिषेधोऽविनयः )  
ऐव्यधी; अविनय. बेअदर्बा; आवनय  
Immodesty ‘अविणयु तिविहे परण्णत्ते,  
तंजहा-देसच्छाई णिरालंबणया याणपेम्म-  
दोसे ” ठा० ३, ३; पि० निं० ५०४;—प्प-  
हाण. त्रि० (—प्रधान ) अविनय ऐभां  
प्रधानपछे छे ते. जिसमें अविनय की प्रधानता  
है वह. ( that ) in which false  
principles insolence etc. are  
predominant. नाया० १६;

**अविणिज्ञानश.** व० कृ० त्रि० ( अविनीयमान )  
पूर्ण न थतो. पूर्ण न होता हुआ. Not being  
complate. विवा० २; ३; नाया० १;

**अविणीश.** त्रि० ( अविनीत ) अविनियवान्;  
विनियरहित; अविनीत; अविवेकी. विनय  
रहित; अविनीत. Immodest; insolent.  
दस० ६, २, २२; उत्त० ११, २; ६; ठा० ४,  
३; वेय० ४, ६;—प्प. पु० (—आत्मन् )  
विनियरहित आत्मा. विनय रहित आत्मा.  
a soul devoid of modesty. पञ्च०  
३:—प्पा. पु० (—आत्मन् ) निन्द आत्मा;  
विनियरहित आत्मा. निन्द आत्मा; विनय  
रहित आत्मा. soul deserving cen-  
sure; soul devoid of politeness.  
दस० ६, २, ३;

**अविद्या.** त्रि० ( अविज्ञा ) अनुपयेदोष सेवये। ते. बिना जाने दोष का सेवन करना. Unconsciously resorting to sin. सूय० निं० टी० १, १, १; —उवद्द्यय. न० ( -उपचित-अविज्ञानयविज्ञा तयोपचितम् ) अलाभुपदे. करेल कर्म. बिना जाने किया हुआ कर्म. Karma done unconsciously. सूय० निं० टी० १, १, १;

**अविद्याय.** त्रि० ( अविज्ञात ) न ज्ञानाभेदः; अविद्वित. अविदित; न जाना हुआ; वे मालूम. Unknown; not known. भग० १, ६; ३, ७; १५, ७,—कर्म. त्रि० ( -कर्म-अविज्ञातमविद्वितं कर्म क्लिकावशास्तरो मतो-वाक्यायलक्षणो वस्त्वासो ) नेने भन, वयन अने कायानी प्रवृत्तिनु जान नथी ते. भन, वचन और काय की प्रवृत्ति के ज्ञान से रहित. ( one ) who has no knowledge of the processes of mind, speech and body. आया० १, १, १, ८; —धर्म. त्रि० ( -धर्म ) धर्मज्ञानरहित; धर्मनु ख्यात नेना ज्ञानाभान नथी ते. धर्म ज्ञान रहित; धर्म का स्वरूप जिसने नहीं जाना वह. ignorant of the real nature of religion. भग० ८, १९;

**अविदिक.** त्रि० ( अवितर्क-न विद्यते वित-कोऽश्रद्धानक्षियाकलं देहरूपो यस्य भिशोः सोऽवितर्कः ) कुर्तर्करहित; भराभ विचार रहित. कुतर्क रहित; अच्छे विचारों बाला. Free from bad or irreligious thought. “ सुसमाहितज्ञेसस्स, अवितर्कस्स भिक्षुणो ” दसा० ५, ३१; ३२;

**अविद्या.** त्रि० ( अवितर्थ ) सत्य; सामुं; भरुं; वास्तविक; यथार्थ. सत्य; सच्च; वास्तविक. True; correct; proper. ज० प० २, ११; शु० च० ४, २४०; ओव० १६; ३२;

नाया० १; ३; १२; भग० ६, ३३; ११, ११; परह० २, ३; आव० ४, ८; कप्य० १, १२; ३, ५५; पंचा० १२, १५; ( २ ) न० सत्यः॒ सत्याई॑ सत्यता. truth, आव० १६; ३३;

**अवितिरण.** त्रि० ( अवितीर्ण ) संसारने नहि तरेल; संसार सागरने काहि नहि पहुँचेल. रांसारही सागर के किनारे न पहुँचा हुआ; जन्म मरण में फँसा हुआ. ( One ) who has not crossed the worldly ocean. सूय० १, २, १, ६;

**अवितिगह.** त्रि० ( अवितृप्त्य न-विगता तृष्णा यस्यासो ) ज्ञेने काम भोगनी तृष्णा भटी नथी ते. जिसकी काम भोग की इच्छा नहीं मिटी वह. ( One ) whose thirst for sensual pleasure is not quenched. नाया० १;

**अवितित्त.** त्रि० ( अवितृप्त ) अतृभ. तृप्ति से रहित. Unsatisfied; not satisfied. परह० १, ४;

**अवितिय.** त्रि० ( अद्वितीय ) ज्ञुओ ‘ अविद्य ’ शब्द. देखो ‘ अविद्य ’ शब्द. Vide “ अविद्य. ” भग० १२, १;

**अविदलकड़.** त्रि० ( अद्विदलकृत ) कटका नहि करेल; छड़ा वगरनु; ज्ञेनी दाणि करवाभां आपी नथी ते. ढुकडा न किया हुआ; जिसके दो भाग न किये गये हों वह. Not reduced to pieces; not ground, e. g. pulse etc. आया० २, १, १, २;

**अविदिरण.** त्रि० ( अविदत्त ) अलाभीपेक्ष. नहीं दिया हुआ. Not given. व० १, २३; ६, १; निसी० ४, २७; १६, ३५; भल० १०२;

**अविद्यकरण.** त्रि० ( अविद्यकरणंक ) कान विध्या वगरने. बिना विधे-छिदे हुए कानों बाला. ( One ) with ears unperforated. भग० १५, १;

**अविद्यतथ.** त्रि० ( अविद्यस्त ) ऐभां श्व  
नाश पामेत नथी ते; अयेत नहि ते; सयेत.  
सचित्; सजीव. *Sentient; living;  
having life.* निसी० १७, ३०; आया०  
२, १, ७, ४१; २, १, ८, ४६;

**अविधूणिता.** सं० कु० अ० ( अविधूय )  
भंधर्या वगर; दूर कर्या विना. खदेके विना;  
विना दूर किये. *Without shaking off;  
without removing.* सूय० ३, ४, १०;

**अविपश्चओग.** पुं० ( अविपश्योः ) विप्रयोग-  
विग्रहनो अभाव; रक्षायु. वियोग का अभाव;  
संरक्षण. *Absence of separation;  
protection.* “सुखसारणं अविपश्चोगणं”  
ठा० ४, ४; भग० २५, ७;

**अविपकट्ट.** त्रि० ( अविपक्ष्ट ) नश्च; दूर  
नहि ते. नज़दीक; समीप; पास. *Near; in  
the vicinity.* नाया० १;

**अविपगड.** त्रि० ( अविप्रकट ) अप्रकट;  
झुल्हु नहि; छुप्ते. अप्रकट; छिपा हुआ. *Not  
open; secret; hidden.* भग० ७, १०;  
**अविपमुक्त.** पुं० ( अविप्रमुक्त ) नहि छुप्तेदेः;  
विशेषे करी न मुक्तेदेः. विशेषतया न  
छुटा हुआ. *Unemancipated;  
not released.* भग० १७, ३;

**अविभज्ज.** त्रि० ( अविभाज्य ) जेनो. विभाग  
न थई शके अनुः; अवयव विनानुः. अविभाज्य;  
विभाग रहित; अवयव रहित. *Not divisible  
into parts.* ठा० ३, २; तंडु०

**अविभन्त.** त्रि० ( अविभक्त ) विभाग नहि  
करेत; भाग न पाडेत. अविभाजित; जिसके  
विभाग न किये गये हों वह. *Undivided;  
not divided into parts.*  
वेय० २, १८;

**अविभाइम.** त्रि० ( अविभागिम—अविभागेन  
निर्वृत्तोविभागिमः ) भागश्चन्य; भागरहित;

ऐक रूप. भाग शून्य; एक रूप. *Having  
no parts; homogenous; whole.*  
ठा० ३, २;

**अविभाइय.** त्रि० ( अविभाज्य ) लुओ. ‘अवि-  
भज्ज’ शब्द. देखो ‘अविभज्ज’ शब्द. Vide  
“अविभज्ज.” “तथो अविभाइया पश्चात्ता,  
तंजहा—समय पएसे परमाणु” ठा० ३, २;

**अविभाग.** पुं० ( अविभाग ) विभागनो अ-  
लाव; अन्तररहितपछु. विभाग रहितता.  
*Absence of division into parts.*  
भग० २०, ५; क० प० १, ५; ( २ ) जेना  
ऐकना ऐ भाग न थाय ते; निर्विभाज्य अंश.  
जिसके दो भाग न हो सकें वह अंश. an  
indivisible portion, क० प० १, ३०;  
—उत्तरिय. त्रि० ( उत्तर ) रसना ऐके  
अंशे उत्तरोत्तर वधुं. रस के एक एक अंश  
से उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ. progressively  
increasing in intensity. क० प०  
१, ३०;—पलिच्छेय. पुं० ( -परिच्छेद-प-  
रिच्छियन्त इति परिच्छेदाग्रंशाः; से च सवि-  
भागा भवन्त्यतो विशेष्यन्ते, अविभागाश्च ते  
परिच्छेदाश्चेत्यविभागपरिच्छेदाः ) जेना  
विभाग न पडि शके तेवा अंश. ऐसा अंश  
जिसका विभाग नहीं किया जा सके.  
an indivisible part of a thing,  
भग० ८, १०;

**अविभाव.** त्रि० ( अविभाव्य ) पराभव अव्य  
योग नहि. पराभव न करने योग्य. Un-  
worthy of being overpowered;  
defeated etc. परह० १, १;

**अविभावणिज्ञ.** त्रि० ( अविभावनीय ) अ-  
प्रशंसनीय; अप्रशंसापात्र. अप्रशंसनीय.  
Not praise-worthy; not com-  
mendable; blameworthy. सु० च०  
२, ३४६;

**अविभूतिय.** त्रि० ( अविभूतित ) विभूषण-रहित; शाशुभास्त्ररहित. विभूषण रहित; शृंगार रहित. Devoid of ornaments; not adorned. प्रव० ६४६;—प्प. त्रि० (—आत्मन्) विभूषणरहित हेह छे नेनो ते. जिसका देह आभूषणों से रहित हो वह. ( one ) with body devoid of ornaments. प्रव० ६४६;

**अविमण.** त्रि० ( अविमनस् ) शून्य चित वगरनु; अशून्य चितवागो. शून्यता रहित चित वाला. Not absent-minded; not vacant-minded. अणुत्त० ३, १; ( २ ) लोगादि विषयमां नेनु भन वागेहुं छे ते. भोगादि विषयों में आसक्त मन वाला. ( one ) longing after sensual pleasures. आया० १, ४, ४, १३७;

**अविमाणिय.** त्रि० ( अवमानित ) लुग्नो 'अवमाणिय' शब्द. देखो 'अवमाणिय' शब्द. Vide " अवमाणिय." कप्प० ४, ६५;

**अविमाणियदोहला.** ल्ली० ( अविमानितदोहला ). नेनो दोहलो—भनोरथ पूर्ण थयो. छे ते ल्ली. जिसका दोहला—गर्भावस्था का मनोरथ पूर्ण हुआ हो वह ल्ली. A woman with her cravings during pregnancy fulfilled. भग० ११, ११;

**अविमुक्तशा.** ल्ली० ( अविमुक्ता ) परिग्रह वृत्ति; परिग्रह राखवो ते. परिग्रह का रखना. Attachment to worldly possessions. टा० ४, ४;

**अविमुक्ति.** ल्ली० ( अविमुक्ति ) लोभवृत्ति; लोभ करना. Avarice: greed. पंचा० १७, १८; ( २ ) न मुक्तुं ते. न छोड़ना. not giving up; non-abandonment. प्रव० ८१३;

**अविमोयण्या.** ल्ली० ( :-अविमोचनता—अविमोचन ) वस्त्रादिनो अत्याग. बस्त्रादि का

त्याग न करना. Not giving up or abandoning clothes etc. भग० ६, ३३;

**अविय.** अ० ( अपि च ) वणी; धीजुं; पशु. परन्तु; और भी. Moreover; also. भग० १, ७; ३, २; १५, १; पिं० नि० ३७६;

**अविय.** पुं० ( अविक ) मेठो; धेठो. मेठा. A ram.आया० टी० १, १, ६, ४८;

**अवियत्त.** त्रि० ( अव्यक्त ) अस्पष्ट. अस्पष्ट. Not clear; obscure. सूर्य० १, १, २, २५; ( २ ) मुख्य; सदसद् विवेकरहित; ज्ञान अने परमां अपरिपक्व. मुख्य;सदसद् विवेक शून्य; ज्ञान और वय में अपरिपक्व. young and inexperienced; raw. आया० १, ५, ३, १५६; सूर्य० १, १, २, ११;—जंभग. त्रि० (—जंभक) जंभक देवतानी ऐक जन. जंभक देवों की एक जाति. a kind of gods called Jambhaka. भग० १४, ८;

\***अवियत्त.** त्रि० ( अप्रीतिक ) अप्रीति कारक. Unpleasant; exciting disgust. परह० १, ३; २, ३; —उवधाय. पुं० (—उपधात ) प्रेमना अभावने लाभने विनयनो उपधात—नाश. प्रेम के अभाव के बारण विनय का नाश. destruction of modesty due to absence of love; lack of politeness arising from lack of love or affection. टा० १०; —विसोहि. पुं० (—विशोधि ) प्रेम वगर विशोधि थवी ते; विशोधिनो ऐक भेद. ज्ञिना प्रेम के विशुद्धता का होना; विशुद्धि का एक भेद. purity without love; a variety of purity. टा० १०, '१:

**अवियाई.** अ० ( अपि च ) वणीपशु; संलावना. और भी; संभावना. Moreover;

an indeclinable showing probability. नाया० १६; आया० २, १, ६, ४६;  
तंडु० २४; सूय० २, ७, ५; (२) समये; अवसरे. अवसर पर. on an occasion; at a proper time. राय० २३७;

\* अवियाउरी. स्त्री० ( अविजनित्री ) पंथा॑;  
वांजशी. वंधा; बांक. A barren woman. नाया० २;

अवियाणग्र. व० कृ० त्रि० ( अविजानत ) नहि॑  
ज्ञातो; अज्ञानी. अज्ञानी; न. जानता हुआ.  
Not knowing; ignorant. आया० १, १, ६, ४६;

अवियार. न० ( अविचार-न विद्यते विचारे-  
अर्थात् अनयोरितरस्मादितरत्र तथा गनः प्रभृति-  
नामन्यतरस्मादन्यत्र यस्य तदविचारम् ) ऐक  
योगभांधी भीज योगभांडे अर्थभांधी व्य-  
वनभांजनु आवनु ज्ञान नथी ते; शुद्धेष्या-  
ननो ऐक प्रकार. एक योग में से दूसरे योग में या  
अर्थ में से व्यंजन में जहाँ मन की शृति का आना  
जाना नहीं होता वह ध्यान; शुद्धेष्या का एक  
भेद. A variety of Śukladhyāna; meditation in which one does  
not pass from one thought activity into another or from  
the meaning of a word to other notions suggested by it. “एगत  
वितक्के अवियारे” ठा० ४, १; (२) निश्चेष्ट;  
दुखन चक्षन वितानो—पादपोपगमन संथारै।  
चेष्टा रहित—हलचल रहित—पादपोपगमन  
संथारा. motionless; Santhārā known as Pādapopagamana.  
“सवियारमवियारा, कायचिंडं पई भवे” उत्त०  
३०, १२; ( ३ ) त्रि० विर्यार्था वगरनु;  
असंगत; अशोलन. विना विचार किया हुआ;  
असंगत; असंबद्ध. disconnected in

thought; inconsiderate thoughtless सूय० २, ४, १;

\* अवियासिय. स० कृ० अ० ( आलिङ्गय )  
आलिङ्गन दृष्टि. आलिङ्गन करके. Having  
embraced. नाया० २;

अविरइ. स्त्री० ( अविरति ) पापनी अनिवृत्ति-  
अपश्यक्खाणु; असंज्ञम; आश्रवतुं भीजुं  
६२. पाप की अनिवृत्ति; अपश्यक्खाणु; असंयम;  
आश्रव का दूसरा द्वारा. Non-cessation  
from sin; not giving up sin; lack  
of ascetic practice; the second  
opening for Āśrama. सूय० २,  
२, ३६; सम० ५; ठा० ५, २; नाया० ६;  
भग० १, ६; ७, ८; पिं० नि० ६३; क० प० २,  
६१; ओघ० नि० ४६; ( २ ) अश्वक्खये.  
अवद्यचये; मैथुन. incontinence; sexual  
intercourse. ठा० ६;—वाद. पुं०  
(—वाद-अविरतिरब्लृहत्तद्वादो वार्ता ) मैथुन  
संभंधी यर्था. मैथुन संबंधी चर्चा. talk  
about sexual intercourse. ठा० ६;

अविरहय. त्रि० ( अविरतिक ) पापनी निवृत्ति  
विनाने। पाप की निवृत्ति से रहित. (One)  
not free from sinfulness. ओघ०  
नि० ६००;

अविरहया. स्त्री० ( अविरतिका-न विद्यते विरति-  
र्यस्या: सा अविरतिका ) वनरहित स्त्री. व्रत  
रहित स्त्री. A woman not observing  
vows. ठा० ६; वेय० ६, २;

अविरति. स्त्री० ( अविरति ) जुओ “अविरइ”  
शब्द. देखो “अविरइ” शब्द. Vide  
“अविरइ.” भग० १, १;

अविरत्त. त्रि० ( अविरक्त ) विरक्त थयेल नहि;  
रागी; अनुरक्त। जो विरक्त न हुआ हो वह;  
रागा. Not free from attachment.  
ओव० नाया० १४; भग० १२, ६; १६, १;

अविरत-आ.त्रि०(आविरत)सावधनेगथीनिवृत्ता  
थथेव नहि; पापस्थानकथीनिवृत्ति पामेव नहि.  
सावद्योग-पापकर्म से अनिवृत्त. ( One )  
not free from sinful practices.  
भग० १, १; ८, ६; ११, १; १७, २; ३५,  
१; ४०, १; पञ्च० ३; नाया० ५; १६; ठा०  
२, १; ओव० ३८; उत्त० ३४, २१; पंचा०  
६, ४२; भज्ज० ६७; ( २ ) अविरति;  
सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थान. आविरति;  
सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थान. non-cessation  
of attachment to worldly objects; the Guṇasthāna  
called Avirati Samyagdṛisti etc. क० गं० १, ५६; २, २; ५, ४२;  
—भाव. पुं० ( -भाव ) अविरतपञ्चुः आरं-  
भनी अनिवृत्ति. आविरतता; पाप कर्म से  
अनिवृत्ति. non-cessation of  
sinful activity; non-abstinence  
from a sin. प्रव० १३२०;—मरण. न०  
( -मरण ) अवश्तीपञ्चु भरवुं ते; भाणभरण.  
ब्रतहीन अवस्था में मरना; जिसे जैन परिभाषा  
में बालमरण कहते हैं. death in a state  
of vowlessness. ( this is called  
Bālamarāṇa, lit. death in child-  
hood). प्रव० १०२७;—वाह. पुं० ( -वा-  
दिन-वदनशीलो वाही, आविरतस्य वाही  
आविरतवाही ) ‘अविरत धूं’ एम ऐ. खनार;  
परिग्रहधारी. परिग्रहधारी; अपने को आविरत  
कहने वाला. one who declares  
himself to be not free from sin;  
(one) having worldly possessions  
आया० नि० १, ४, १, २२४;—सम्मत.  
पुं० ( -सम्यक्त्व ) अविरत सम्यग्दृष्टिवायो;  
योथा गुणदाण्डायायो शू. अविरत सम्यग्दृष्टि;  
चौथे गुणस्थान वाला जीव. a soul in  
the fourth Guṇasthāna or spiri-

tual stage of evolution; a soul  
with vowelless right belief. क० गं०  
५, ४२;—सम्मदिद्वि. पुं० ( -सम्यग्दृष्टि )  
विरति विनानोडेवण सभित्तदृष्टिवायो; योथे  
गुणदाण्डे वर्तते शू. ब्रत रहित सम्यग्दृष्टि;  
चौथे गुणस्थान वाला जीव. a soul in  
the fourth Guṇasthāna, with  
right belief but without  
abstention from sin. सम०  
१४;—सम्मदिद्विगुणदाण्ड. न० ( -सम्यग्दृष्टि-  
गुणस्थान ) अविरतिसम्यग्दृष्टि नामे  
योगुं गुणदाण्डुः. अविरत सम्यग्दृष्टि नामक  
चौथा गुणस्थान. the fourth Guṇasthāna so named. क० गं० २, २;  
आविरयं. अ० ( आविरतम् ) सतत; निरंतर.  
हमेशा; निरन्तर; सदा. Constantly;  
incessantly. प्रव० ४८३;

अविरल. त्रि० ( आविरल ) छुटां छायां  
नहि; धाटुं; धृ. विरलता रहित; जो तिर  
बितर न हो; मिला हुआ; गाढा. Not  
scattered; thick; dense. “आविरल-  
समसहियचंदमंडलसमप्पमेहि” परह० १,  
४; ओव० १०; ( २ ) निरंतर; आंतरा  
रहित. निरंतर; अंतर रहित. perpetual;  
having no intervening substance. ओव० १०; जीवा० ३, ३;—दंत.  
त्रि० ( -दन्त ) छिद्र वगरना तथा सरभी पंक्ति-  
मां रहेदा. दांतवायो. अंतर रहित समभेदी में  
रहे हुए दांतों वाला.(one) with regular  
and closely set teeth. तंडु०—पत्त.  
त्रि० ( -पत्र ) धाटां पांडांवाणां आड वगरे.  
सघन पत्तों वाला फाड वगैरह. ( trees  
etc. ) with densely growing  
leaves. “आविरलपत्ता आविरलपत्ता ”  
जीवा० ३;

**अविरह.** पुं० ( अविरह ) विरहने। अभाव; निरंतर रहें ते. विरह का अभाव. Absence of separation; continuous stay or existence. “ अंतोमुहुस्त विरहो ” आया० नि० १, १, ६, १५६;

**अविरहित्र.** त्रि० ( अविरहित ) विरहरहित; निरंतर. विरह रहित; निरन्तर. Having no separation; continuous. पंचा० ४, ५९; ६, ५०; भग० १, १; १०, १; १२, १; २४, १२; १६; ४१, १; दश० ८, ५;

**अविराहणा.** त्री० ( अविराधना ) विराधना-संज्ञभृप्तनाने। अभाव. विराधना—संयम के खंडित होने का अभाव. Absence of breach of ascetic conduct. भग० २५, ६; ७;

**अविराहित्य-**य. त्रि० ( अविराधित—न विराधितोऽविराधितः ) सर्वथा विराधना करेत नहि. सर्वथा विराधना—खरडन न किया हुआ. Not wholly violated; partially violated; (e. g. ascetic conduct). परह० १, ३; प्रव० ११३३; —संज्ञम्. पुं० (-संयम) अभृप्ति संज्ञभवान्; भराभूर पूर्णेत्व छे संज्ञम लेखे अथवा साधु। अखंडित संयम वाला; संयम को यथा शीति से पालने वाला साधु. an ascetic fully observing the rules of right conduct. भग० १, २; —संज्ञमासंज्ञम्. पुं० (-संयमासंयम) अभृप्ति श्रावकपत्र०; भराभूर पूर्णेत्व श्रावकपत्र०. अखंडित श्रावक मन; यथार्थाति पाला हुआ श्रावकचार. flawless, complete observance of the rules of right conduct prescribed for a Śrāvaka. भग० १, २; —सामरण. त्रि० (-श्रामण) लेखे अरिन भराभूर अराधेत्व छे ते. चारित्र का विधिवत्

आराधन—पालन करने वाला. (one) who has perfectly practised the rules of right conduct. भग० १५, १;

**अविरिय.** त्रि० (अवीर्य) वीर्य—सामर्थ्यरहित. सामर्थ्य रहित. Powerless; devoid of powers. विवा० १, ३;

**अविरुद्ध.** त्रि० ( अविरुद्ध ) पूर्वापर विरोध रहित; संगतियुक्त। पूर्वापर विरोध रहित. Not involving contradiction; having proper connection of parts. पंचा० १७, ३; (२) विनयवादी; देवता, मनुष्य, तिर्थय, पशु, पक्षी वगेरे सर्वनो विनय करनार. विनयवादी; देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सबका विनय करने वाला. (one) having reverence for all viz gods, men, lower animals etc. ‘अविरुद्धो विण्यकारी देवाईणं पराए भस्तए’ नाया० १४; ओव० अणुजो० २०; (३) पुं० न० ५२८५२ विरोध न हेय अेवां राज्यनां आभादि. परस्पर विरोध रहित राज्य के ग्राम आदिक. villages of kingdoms which are not mutually at variance. प्रव० १३१०; (४) वीलोनी मर्यादातुं उक्तं धन न करनार. बड़े बूढ़ों की मर्यादा का उल्लंघन न करने वाला. obedient and respectful to elders. प्रव० १३१०; —वेणाह्य. पुं० (-वैनयिक) भाता आदि सर्वनो अविरोधपत्रे विनय करनार. भाता, पिता आदि सब का अविरोधो भाव से विनय करने वाला. one invariably respectful to parents etc. अणुजो० २०;

**अविरोह.** पुं० ( अविरोह ) विरोधने। अभाव. विरोध का अभाव. Absence of hostility. विशे० ६३; पंचा० १, १७; ४, ८;

**अविल.** न० ( आविल ) अस्वच्छ; औरुं; भक्तीन. अस्वच्छ; मर्लिन. Not clear; turbid. जीवा० ३, ४;

**अविलंभिय.** त्रि० ( अविलम्बित ) विकल्पभृति; उनावगो. विलम्ब रहित; फुर्तला; उतावला. Bearing no delay; hasty. नाया० १; भग० ७, १; ११, ११; परह० २, १; कण्ठ० १, ५;

**अविला॒ता.** ब्री० ( अवीती ) घेटी; गाड़ी. भेड़ी. A ewe. पिं० नि० भा० ५०; पिं० नि० १६४;  
**अविवश्चास.** त्रि० ( अविवर्यास ) विपर्यास-विपरीततारहित. विपरीतता रहित. Free from a contrary state of things. उत्त० २६, २८; भग० ३, ६;

**अविवज्जय.** पुं० ( अविवर्यय ) विपरीत भुद्धिने। अभाव. विपरीत बुद्धि का अभाव. Absence of a contrary inclination of the intellect. ( २ ) तत्त्वना अध्यवसाय-रूप सम्भिन्. तत्त्व का अध्यवसायरूप सम्यक्त्व. right faith consisting in a settled conviction about reality. विशे० २७८४;

**अविवरिय.** त्रि० ( \* अविवरित-अविवृत ) विवरण इरेखुं नहि; अर्थरूपे व्याख्यान न करेत. जिसका विवरण न किया गया हो. Not explained. विशे० १३६६;

**अविविचित्ता.** सं० कृ० अ० ( अविविच्य ) विवेचन-पृथक्करण ईर्या॒ विना; जुहा॒ कर्या॒ विना. बिना पृथक्करण किये, विवेचन किये बिना. Without having distinguished; without having separated or analysed. सू० ३, ४, १०;

**अविसंधि.** पुं० ( अविसन्धि ) नेतो साध्ये। विधेटे नहि ते; पूर्वापूर्व विरोध आवे नहि तेनु. पूर्वापूर्व विरोध रहित; जिसका जोड़ देटे नहीं वह. Anything not in-

volving its parts in mutual contradiction. ओव० ३४;

**अविसंवाह.** त्रि० ( अविसंवादिन ) विसंवाही नहि; अवर्थार्थ नहि. विसंवाद-बकवाद न करने वाला; अवर्थार्थता रहित. Not inconsistent; not incongruous. परह० २, २;

**अविसंवादणजोग.** पुं० ( अविसंवादनयोग ) यथार्थ ऐक्षुं; ऐक्षीने इरी न जनु अने यथार्थ प्रवृति करवी ते. यथार्थ कहना और चलना-कहकर बदल न जाना. Consistency in speech and action. ठा० ४, १; भग० ८, ६;

**अविसंवादि.** त्रि० ( अविसंवादिन ) जुओ। “ अविसंवाह ” शब्द. देखो “ अविसंवाह ” शब्द. Vide ‘ अविसंवाह ’ परह० २, २;

**अविसंवायणजोग.** पुं० ( अविसंवादनयोग ) जुओ। ‘ अविसंवादणजोग ’ शब्द. देखो ‘ अविसंवादणजोग ’ शब्द. Vide ‘ अविसंवादणजोग ’ भग० ८, ६, ठा० ४, १;

**अविसम.** त्रि० ( अविषम ) समनगा॒; सपाठ; उन्मु नीयु नहि ते. समतल; ऊंचाई रहित. Level; no having ups and down. तंडु॒

**अविसय.** न० ( अविषय ) निविष्य ज्ञान; ज्ञान-नो। अविष्य. ज्ञान के विषय से रहित. Objectless knowledge; (anything) not a province or object of knowledge. पंचा० ५, ४६;

**अविसाह.** त्रि० ( अविषादिन ) ऐटरहित. खेद रहित; विषाद रहित. Free from dejection; undejected. परह० २, १;

**अविसाति.** त्रि० ( अविषादिन ) जुओ। ‘ अविसाह ’ शब्द. देखो “ अविसाह ” शब्द. Vide ‘ अविसाह ’ परह० २, १;

**अविसारशब्द-**य. त्रि० ( अविशारद ) अस्तुर॒; अकुशक्त. चातुर्य रहित. Not clever; not

skilful; not proficient. उत्त० २८,  
२६; प्रव० ६७३;

**अविशुद्ध.** त्रि० ( अविशुद्ध ) अविशुद्ध; शुद्ध नहि; विशुद्ध वर्ण आदिथी रहित. अशुद्ध; विशुद्ध वर्ण आदि से रहित. Not clear; devoid of pure tint. पंचा० ४, १३; क० गं० १, १४; ठा० ३, ४;  
क० प० २, २;—लेस्ट. त्रि० ( -लेश्य )  
झृणुदि अशुद्ध लेश्यावागेः; ३५६ लेश्यारहित.  
झृणादि अशुद्ध लेश्या वाला; शुद्ध लेश्या रहित. having black etc. thought-tint; devoid of pure thought-tint; भग० १, २; ( २ ) विभंगज्ञानीः विभंग ज्ञानी. one having wrong visual knowledge. भग० ६, ६;

**अविसेस.** त्रि० ( अविशेष ) विशेषरहित; साभान्य. विशेष रहित; सामान्य. Common; devoid of particularity. ठा० २, ३; भग० १४, ८; ३४, १;

**अविसेसण.** न० ( अविशेषण ) अविशेष; सभान. अविशेष; समान. Absence of particularity. विशेष० ११५;

**अविसेसिय.** त्रि० ( अविशेषित ) साभान्य; विभागरहित. सामान्य; साधारण; विभाग रहित. Common; not specified or particularised. विशेष० ११४; ४५८; नाया० ध० ३; ठा० १०; क० प० १, २४;

**अविसोहि.** पुं० ( अविशोषि ) विशुद्धिने। अभाव. विशुद्ध का अभाव. Absence of purity. पंचा० १३, १६; ( २ ) अतिथार; चारित्रने भक्तीन कर्तव्य ते. अतिचार; चारित्र को मलिन करना. violation of rules of right conduct; sullyng one's conduct. प्रव० ५७८;—कोडि. ली० ( -कोटि ) संयमने अविशुद्ध करनार आधा-

कर्मादि छहोषेनो समूह; पेते हथुवुं, धीजननी पासे हथुवावुं, हथुताने अनुमेदवुं, पेते रांधवुं, धीजनी पासे रंधावावुं अनेरांधनारने अनुमेदवुं, ए छनो वर्ग. संयम को अशुद्ध करने वाले आधाकर्मादि छः दोषों का समूह; स्वयं मारना, दूसरे से मरवाना, मारने वाले का अनुमोदन करना, स्वयं पकाना, दूसरे से पकवाना और पकाने वाले का अनुमोदन करना, इन छः दोषों का समूह. the collection of six faults like अधाकर्म etc. which pollute ascetic conduct. These are as follows:—to kill, to cause another to kill, to approve of an act of killing on the part of another; to cook, to cause another to cook and to approve of cooking on the part of another. आया० नि० टी० १, १, १;  
**अविस्ससारणि.** त्रि० ( अविश्वसनीय ) विश्वास कर्त्त्वा योग्य नहि. विश्वास न करने योग्य. Unworthy of trust. तंडु०

**अविस्साम.** न० ( अविश्वाम ) विसामे लीधा विना; नर० पथु डेर्या विना; निरन्तर. विश्वाम का न लेना; ज़रा भी न ठहरना; निरन्तर; लगातार. Without rest; without stopping; ceaseless. श्रोव० २५; उत्त० १६, २५;—वेयणा. ली० ( -वेदना ) विश्वान्तिरहित वेदना; निरन्तर-चालु वेदना. विश्वान्ति रहित वेदना; निरन्तर होने वाली पीड़ा. ceaseless pain; perpetual pain. परह० १, १;

**अविस्सास.** त्रि० ( अविश्वास्य ) विश्वास कर्त्त्वाने अयोग्य. विश्वास न करने योग्य. Unworthy of trust. “ अविस्सासो य भूयायं ” दस० ६, १३; ( २ ) न० अविश्वाम; अशान्ति; दुःख. अशान्ति; दुःख.

pain; restlessness जीवा० ३, १;

**अविहगणमाणः.** त्रि० ( अविहग्नमान ) विविध परिषुद्ध, उपसर्गीयथे न हुशुतो. जो विविध परीषुह और उपसर्गों से न मारा जा सके वह. Not sinking under various sufferings; not succumbing to various kinds of pain. “अविहगणमाणः कलगावतद्वि” आया० १, ६, ५, १६६;

**अविहवा.** ली० ( अविहवा ) पतिवाणी श्री; सधवा. सधवा ली० A woman whose husband is alive; a woman in coverture. भग० ११, ११; —चहू. ली० (-चू) सधवा; विधवा नर्ते. सधवा ली० a woman whose husband is alive. नाया० १; भग० १२, ३;

**अविहार.** पुं० ( अविहार ) विहार न करने ते; विहार न करना. Absence of or cessation from pilgrimage ( Vihāra ). पंचा० १७, ३६; —पक्ष. पुं० (—पक्ष) विहार न करना पक्ष—अभिप्राय. विहार न करने का पक्ष—अभिप्राय. the tenet that there should be no pilgrimage. पंचा० १७, ३६;

**अविदि.** पुं० (—अविदि) अविधि; शास्त्रविदिन विधिः अभाव। शास्त्र विहित-शास्त्रागुकूल विधि वा अभाव. Absence of ceremony prescribed by Śāstras. निर्सी० १, २४; ४, २०; पंचा० ७, १७;

**अविहिस.** त्रि० ( अविहिस-न विद्यते विहिस ) येषां हेऽविहिसाः ) दिक्षा वग्रनो; द्याणु. द्यालुः हिसा से रहत. Kind; merciful; not injuring others. आया० १, ६, ५, १६३;

**अविहिसाः.** ली० ( अविहिसा-विविधा हिसा विहिसा, न विहिसा अविहिसा ) हिसाने। अभाव; अहिसा. अहिसा; हिसा का अभाव. Absence of different kinds of injury, e. g. killing, etc. “अविहिसामेव पञ्चए, अगुणमो मुणिणा पत्रेदितो” सूय० १, २, १, १४; अगुजो० १३०;

**अविहिसियः.** त्रि० ( अविहिसित-नास्ति विहिसा यस्मिस्तदविहिसितम् ) सारी रीते निर्झव थरेक; अवित. सम्यक् अचित; जीव रहित. Lifeless; insentient. सूय० २, १, ५६;

**अविहेडङ्गा-य.** पुं० (\*अविहेठक-अविहेठक) डेढ़ने भाघः—पीछा उपग्रन्थनार नहि; भीजने दुःख उपग्रन्थनार नहि. किसीको पीड़ा न देने वाला; दूसरे को दुःख न देने वाला. One, not giving pain or trouble to others. “उवसंते अविहेड़ए जो स भिक्षू” दस० १०, १, १०; उत्त० १५, १५; अवीद्धि. त्रि० ( अवीचि ) क्षण्यना तरंगथी रहित. क्षण की तरंगों से रहित. Free from the waves or billows of passion. भग० १०, १; —द्रव्य. न० (—द्रव्य-न वीचिद्रव्यमदीचिद्रव्यम्) सम्पूर्ण आहार द्रव्य; आहार की सर्वोत्कृष्ट वर्गणम्. substance excellent for being used as food. भग० १३, ६; १४, ६;

**अवीद्धकंतः.** त्रि० ( अव्यतिक्रान्तः ) अतिक्रमण नहि करेक; उंधन न करेक. न उलांघा हुआ; आतिक्रमण किया हुआ. Not violated; not transgressed. भग० ८, ७;

**अवीद्धमंतः.** त्रि० ( अवीचिमद् ) क्षण्यना संबंध वग्रना. क्षण के संबंध से रहित. Free from any contact with passions. भग० १०, ३;

**अवीहय.** सं० कृ० श० ( अविविद्य ) जुदा  
पाइया विना. बिना जुदा किये. Without  
having separated or discrimi-  
nated. भग० १०, २;

**अवीहय.** सं० कृ० श० ( अविचिन्त्य ) नहि  
विचारीने; विकल्प कर्त्ता विना. बिना विचारे;  
विकल्प किये विना. Without having  
thought. भग० १०, २;

**अवीय.** श्रिं० ( अद्वितीय ) अज्ञनी सदाय  
विनाने; अेकलो; अेकल. दूसरे की सहायता से  
रहित; अकेला. Alone; solitary; one  
without a second. विग० १, २;  
( २ ) अनुभम; नेना नेने. बाने न हेतु  
ते. अनुभम; जिसके रामान दूसरा न हो यदू  
matchless;unrivaled. उत्त० २०, २२;

**अवीयराग.** पुं० ( अवीतराग ) वीतराग-डैटा  
नहि ते; छहभस्थ. जिसका राग नहीं गगा वह;  
छहस्थ. One who is not a Vitarā-  
ga or an omniscient; one who is  
Chhadmaстha ( i. e. in the 11th  
or 12th stage of the spiritual  
ladder). पंचा० ६, ४३;

**अवीरिय.** पुं० ( अवीर्य ) भननी शक्ति विना-  
ने; वीर्यहीन. मन की शक्ति से रहित; वीर्यहीन.  
Devoid of mental strength;  
devoid of power. नाया० ८; १३; १६;  
भग० १, ८; ७, ६;

**अवीसंभ.** पुं० ( अविश्वस्म ) अविश्वास; प्राणा-  
तिपातनु नींगु गैरु ताम्. विश्वारा का अभाव;  
प्राणातिपात का तीसरा गौण नाम. Distrust;  
want of confidence; the third  
subordinate description of Prā-  
ṇatipāta ( killing etc. ). परह० १, १;

**अवीसत्थ.** श्रिं० ( अविश्वस्त ) विश्वासरहित.  
विश्वास रहित. Lacking in con-  
fidence. गच्छा० ६७;

**अवुक्षंत.** श्रिं० ( अवुक्कान्त ) अपेत नहि थयेद;  
समेत. सजीव. Living; sentient. निसी०  
१७, ३०; —जीव. पुं० (-जीव) समेत;  
नेमाथी लून नीकी गया। नर्थी ते. सन्ति;  
सजीव. sentient or living matter.  
निसी० १७, ३०;

**अवुग्राहठाण.** न० ( अविग्रहस्थान ) अविग्रह  
स्थान; कुद्दुनु स्थान नहि. अविग्रह स्थान; जो  
स्थान कलह की न हो वह. Anything not  
a proper abode or object for  
quarrel. “आवश्यितव्यमत्वस्तु यं  
गणसि पंच अवुग्राहठाण परायता, दंजङ्ग-  
आवश्यितव्यमत्वस्तु यं गणसि द्वाणं वा धारयं  
वा सम्म पड़ंजिता भवइ १, एवं महाराह  
गणाय सम्म २, आवश्यितव्यमत्वस्तु यं  
गणसि जे सुषज्जवजाए धारेइ ते काले सम्म  
३, एवं गिजाणासेहवेयावर्णं सम्म ४, आ-  
वश्यितव्यमत्वस्तु यं गणसि अपुच्छियवारी  
यावि भवइ यो अगानुच्छियवारी” ठा० ५ १;

**अवुच्छित्ताण.** श्रिं० ( अव्यञ्जित्त ) उत्त-  
रहित नहि; उत्सहित. सजीव. Living;  
sentient. आया० २, १, १, २;

**अवुत्त.** श्रिं० ( अनुकृत ) डैधथी न प्रेरायेद.  
किसांसे प्रेरित न किया हुआ. Not directed  
or instructed by anybody. ठा० ८;

✓ **अवे.** घा० I. ( अप+इण् ) नु. जाना. To  
go. ( २ ) नाश पामनु. नाश पाना. to be  
destroyed.

**अवेति.** पंचा० १५, ७; पञ्च० २८; विश० ७०;  
**अवेश.** पुं० ( अवेश ) वेदरहित; अवेदी.  
वेद ( ही वेद, पुरेव और नपुंक वेद ) रहित.  
( One ) free from or devoid  
of sex-feeling. क० १० ५, ४८;

**अवेहय.** श्रिं० ( अवेदित ) नहि वेदेद; नहि  
अनुभवेद; अनुभव न किया हुआ. Not  
felt or experienced. क० १० ३, १८;

**अवेदविवरीर.** पुं० ( अवेदविवरीर ) अदंकारहित शरीर. अलंकार रहित शरीर. Body devoid of ornaments. भग० १८, ५;

**अवेक्खमाण.** व० कृ० त्रि० ( अवेक्खमाण ) निरीक्षण् करते। निरीक्षण करता हुआ. Looking into; observing. नाया० ६; **अवेक्खयंत.** त्रि० (\*अवेक्ख-अवेक्खमाण) जुओ। “अवेक्खमाण” श॒८८. देखो ‘अवेक्खमाण’ शब्द. Vide ‘अवेक्खमाण.’ नाया० ६;

**अपेक्षा.** श्री० ( अपेक्षा ) अपेक्षा; आशय; दृष्टि, क्षेत्र, काग, भाव आदिनो अभिप्राय. अपेक्षा; आशय; द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का अभिप्राय. Expectation; desire; aim; intention. विशेष० २५५; १७१६; पंचा० ५, ४२; पिं० निं० ४४२;

**अवेत.** त्रि० ( अपेत ) जुहु; भिन्न. जुदा; भिन्न; पृथक्. Different from; separated from. विशेष० २२१३;

**अवेद.** पुं० ( अवेद ) पुरुषवेद, स्त्रीवेद आदि वेदरहित श्रव; दसमा शुण्डाण्याथी भाँटी सिद्ध पर्यंत श॒८८. पुरुषवेद, स्त्रीवेद आदि वेद रहित जीव; दसवें गुणस्थान से सिद्ध पर्यन्त जीव. A soul free from Puruṣa-Veda, Strī-Veda etc; a soul between the tenth Guṇasthāna and final emancipation; a soul free from sex-feeling. ठा० २, १; पञ्च० २; जीवा० १; भग० १७, २;

**अवेदग्र-य.** पुं० ( अवेदक ) जुओ। ‘अवेद’ श॒८८. देखो “अवेद” शब्द. Vide “अवेद.”

**अवेदग.** पुं० ( अवेदक ) जुओ। “अवेद” श॒८८. देखो “अवेद” शब्द. Vide “अवेद.” ठा० २, १; ४, ४; परह० १, २; भग० ६, ३; ४; ८, २; ११, १; २६, १; ३०, १;

**अवेयहस्ता.** सं० कृ० श० (अवेदविवरीर) वेदा वग्र॒; लोग॒४१ वग्र॒. अनुभव किये बिना; बिना भोगे. Without having experienced. भग० १, ४; सम० १० १६४; परह० १, १;

**अवेयग.** पुं० ( अवेदक ) जुओ। “अवेद” श॒८८. देखो “अवेद” शब्द. Vide “अवेद.” ठा० ४, ४; क० गं० ६, ५१; क० प० ५, ६५;

**अवेयण.** त्रि० ( अवेदन-न विद्यते वेदना यस्य सोऽवेदनः ) साता, असाता वेदनारहित; सिद्ध. साता, असातारूप वेदना से रहित; सिद्ध. (The soul) free from the feeling of pain and pleasure; (the soul) that has obtained salvation. विशेष० २१२७; पञ्च० २;

**अवेरमणजभाण.** न० ( अविरमणध्यान-न विरमणमविरमणम्, तस्य ध्यानम् ) पापथि न निष्टृत थवानुं ध्यान. पाप से निष्टृत न होने का ध्यान. Meditation upon non-abstention from sin. आउ०

**अवेहिया.** सं० कृ० श० ( अवेक्षय ) जेघने; आलोचना न करके. Having seen or observed. सूर्य० १, २, ३, ८;

**अवोगड.** त्रि० (अव्याकृत) विभाग नहि पाडेख; भायातोमे वहेंयी न लीघेतुं. अविभाजित; सगा संबन्धियों द्वारा न बांटा हुआ. Not divided into shares. सम० ३३; व॒० ७, २२; ( २ ) त्रि० विशेषण्याथी जेद न पाडेख. विशेषणों द्वारा जिसका भेद न किया गया हो वह. not distinguished by adjectives; not, differentiated by adjectives सम० ३३;

**अवोगडा.** श्री० ( अव्याकृता ) गंभीर अर्थ-वाणी भाषा अथवा अव्यक्त-अव्यपृष्ठ अक्षर-

दाणी भाषा. गम्भीर अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट अद्वारों वाली भाषा. Language with deep and profound meaning; language with obscure or illegible letters. “अवोच्छिरणगण अवोगडाए” सम० ६; परह० २, १;

**अवोच्छिरण.** त्रि० ( अव्युच्छिष्ठ ) व्यवच्छेद रहित; पृथक्त्वरहित; जिन लिम नहि थयेल; जुहुं नहि पाउल. व्यवच्छेद रहित; पृथक्त्व रहित. Not scattered; not separated. दसा० ६, २; वव० ७, २२; सम० ३३; बय० २, १८; भग० ७, १; ८, ५; पंचा० ४, ८;

**अवोच्छित्तिनय-** अव्यवच्छित्तिप्रतिपादनपरो अवोच्छित्तिनयः ) ५०्यास्तिक नय; वरतुनुं निरन्तर अस्तित्व अतावनार नय. इव्यास्तिक नयः वस्तु का निरन्तर अस्तित्व बताने वाला नय. Logical standpoint showing the eternal and continuous existence of things. नंदी०—टु. पु० ( -अर्थ ) ५०५; शाश्वत पदार्थ. इव्य; शाश्वत पदार्थ. eternally existing substance; substance. नंदी०—टुया. ली० ( -अर्थता ) ५०्यनी अपेक्षा. इव्य की अपेक्षा. standpoint of substance or matter. नंदी०

**अवोच्छेद.** पु० ( अव्यवच्छेद ) व्यवच्छेद-पृथक्त्वरण्यो अभाव. पृथक्करण का अभाव. Absence of separation. भग० २०, ८;

**अवोह.** पु० ( अपोह-अपोहनमपोहः ) निश्चय. निश्चय. Decision; determination.

सम० १;

**अव्याईभाव.** पु० ( अव्ययीभाव ) अव्ययी-भाव समास; समासनो अेक प्रकार. अव्ययी-

भाव समास; समास का एक भेद. Avyayī-  
bhāva compound; a kind of compound adverbial in meaning. अणुजो० १३१;

**अव्यक्तिवत्त.** त्रि० ( अव्याक्षिप्त ) विक्षेप वगरनुं; रिथः; विक्षिप्त वृत्तिवाणो नांड. रिथर; विक्षेप रहित; बिना विक्षिप्त वृत्ति का. Undistracted in mind; steady. दस० ५, १, २; उत्त० १८, ५०;

**अव्यवग.** त्रि० ( अव्यग्र ) स्वस्थ; चिन्ता वगरनुं. स्वस्थ; चिंता रहित. Calm; free from anxiety or distraction. उत्त० १५, ३; —मण. त्रि० ( -मनस् ) स्वस्थ चित्तवाणो; प्रफुल्लित चित्तवाणो. स्वस्थ चित्त वाला; प्रफुल्लित चित्त वाला. ( one ) having a calm and undistracted mind. उत्त० १५, ३;

**अव्यद्वृद्धभाग.** त्रि० ( अपार्द्धभाग ) अर्ध भाग. अर्ध भाग; आधा हिस्सा. A half; half. निसी० २, ३४;

**अव्यवस्त.** त्रि० ( अव्यवस्त ) निर्देश-नाम, जाति आहिथी कथन करवा येाय नहि. नाम, जाति आदि के द्वारा कथन करने के अयोग्य. Indistinct; incapable of being indicated by name, kind etc. सूर्य० २, ६, ४७; विशेष० १६६; २१२; पिं० निं० ५६८; नंदी० ३५; प्रव० २६३; ( २ ) ज्ञान अने उमरभां नहींनो; आठ वर्ष सुधीनो भागक. ज्ञान और उम्र में छोटा; आठ वर्ष की अवस्था तक का बालक. immature in age and knowledge; a boy up to eight years of age. निसी० १६, २१; ( ३ ) अव्यपरा; छेद सूत्रना. २६२४नो अज्ञान. अल्पज्ञ; छेद सूत्र के रहस्य को न जानने वाला. shallow in knowledge; igno-

rant of the real deeper meaning  
 of Chhedā Sūtra. भग० २५, ७; (१)  
 साधुतामां संटेष्ट राजनार अव्यक्तवादी ऐक  
 निहृव. साधुत्व में संदेह रखने वाला अव्यक्त  
 वादी एक निहृव. a Nihnav known  
 as Avyaktavādī, having  
 misgivings about asceticism.  
 विशेष २३००;—गम. त्रि० (-गम) नाथवाने  
 असमर्थ. भगने में असमर्थ.incapable of  
 making an escape. (२) पुं० गमननो  
 अभाव. गमन का अभाव. absence of  
 going away or escape. (३) अस्पष्ट  
 गतिवायो. अस्पष्ट गति वाला. (one) with-  
 out clearly defined motion; (one)  
 with indistinct gait. सूय० १, १४,  
 २;—इंसरण. पुं० न० (-दर्शन-अव्यक्तमस्य एवं  
 दर्शनं स्वप्नार्थं तु च यत्रासावद्यक्तदर्शनः) )  
 अस्पष्ट दर्शन-हेषाव; स्वप्न दर्शननो ऐक भेद.  
 अस्पष्ट दर्शन; स्वप्न दर्शन का एक भेद. a dim,  
 dreamlike sight or appearance;  
 a variety of dreamy appear-  
 ances. भग० १६, ६;—रूप. त्रि० (-रूप-  
 अमूर्तत्वादव्यक्तरूपमस्याऽसावद्यक्तरूपः) )  
 अव्यक्तरूपी शृङ्; आत्मा. अव्यक्तरूप वाला  
 जीव; आत्मा. soul, so called because  
 it is formless. “ अव्यक्तरूपं पुरिसं  
 महंतं ” सूय० २, ६, ४७;—लिंग. न०  
 (-लिङ्ग) अव्यक्त लिंग, लिङ्गक्लिप्तो वेष.  
 जिनकल्पी साधु का वेष. the dress of a  
 Jaina ascetic. प्रब० ७६३;

अव्वत्तव्वगसंचियं पुं० ( अव्वकृपकसञ्चित )  
 जुआ॥ “अव्वत्त” शि०८. देखो “अव्वत्त” शब्द.  
 Vide “अव्वत्त.” भग० २०, १०;  
 अव्वभिचारि. पुं० ( अव्वभिचारिन् )  
 अव्वभिचारी हेतु; साध्यने छोडी धीरे  
 न जनार हेतु. अव्वभिचारी हेतु; साध्य

को छोड़कर अन्यत्र घटित न होने वाला हेतु।  
 (In logic) the middle term that  
 invariably accompanies the Sā-  
 dhya ( i. e. major term); invariably  
 concomitant middle term.  
 पंचा० ३, ३७;

आद्वय. त्रिं ( अस्य ) नाशरहित; अभू-  
षित. नाश रहित. अव्यय-अखलेण्डत.  
Indestructible. नंदी० ५७; सम० १३;  
भग० ६, ३३; १८, १०; नाया० ५; सुय० २,  
६, ४७; जं० प० १, १५; ( २ ) पुं० आत्मा.  
आत्मा. soul. “धुवे गियए सासए अक्षलए  
अद्वय” भग० २, १; ( ३ ) आश्वारांग आदि  
भार अंग शःख-प्रवचन. आचाराह्न आदि  
बाहर अङ्ग शास्त्र. 12 *Āngasāstras*  
viz *Āchārāṅga* etc. नंदी०

अध्वर्वसित्रा. चि० (अध्यवसित) ५२। कभ वगरनो; निश्चय वगरनो. पराक्रम रहित; निश्चयसहित. Not heroic; not decisive; not firm 'तओ ठाणा अध्वर्वसियस्स अहियाए असुहाए अखलमाए अशिसेसाए' ठा० ३, ४; अध्वर्वसण. पुं० ( अध्यवसन ) लेंडिआतर रीते पक्षनो १२ भे. दिवस; भारसनुं नाम. पक्ष का बारहवाँ दिन; द्वादशी का लोकोत्तर नाम. The name of the twelfth day of a fortnight. जं० प० ७;

अव्यहृ. त्रिं ( अव्यय ) पीड़ित; देव  
वगेरेना उपसर्गथी न धीमे तेवे। पीड़ि  
रहित; देवादि के उपसर्ग से न डरने वाला।  
Free from affliction; fearless of  
troubles caused by deities etc.  
( २ ) न० व्यथाने अभाव; शुक्रद  
ध्यानतुं एक आदर्भ्यन्, व्यथा का अभाव;  
शुक्रल ध्यान का अवलम्बन. absence of  
or freedom from mental pain;  
practice of pure concentration

on the soul. भग० ४, १; ओव० २०;  
भग० २५, ७;

**अवधिकार-य.** त्रि० ( अवधित ) उदात्  
दिक्षिवाणी; धीर. उदार मन बाला; धीर.  
Lofty or courageous in heart.  
“ अहिया से अवधिको ” दस० ८, २७;  
“ ( २ ) जेने के मुँहुँभ न आपेते. जिसे कोई  
दुःख न दे वह. (one) not troubled by  
anybody. भग० ३, २; जीवा० ३, ३;  
पंचा० ५, १०६; जं० प० २, २५;

**अवधाइक्ष.** त्रि० ( अव्याविद्ध ) अविपरीत;  
उल्कुं झुकुं नहि ते. अविपरीत; जो  
उलटा सुलटा न हो वह. Not topsy-  
turvy; not turned upside down.  
अगुजो० १३;

**अवधाघात.** पुं० ( अव्याघात ) व्याधात-विघ्नो  
अभाव. व्याघात-विघ्न का अभाव. Absence  
of obstacles; absence of obstruction.  
विशेष० ५६६;

**अवधाण.** त्रि० ( आम्लान ) थ्रां दिनभ अने  
वधारे करभाईं. कुछ लिंग और अविक  
मुरझाया हुआ. More withered than  
fresh. ओष० नि० ४८८;

**अवधावाह-**न० ( अवधावाध-न विद्यते व्यावाधा  
यत्र तदव्यावाधम् ) जेमां द्रव्यथी शरीर धीर  
अने भावथी भिक्षात्वादि दोपनी आधा-धीर  
नथी ऐतुं सुभ-स्वास्थ्य गुर्वादिके वन्दना  
करती वभते पुश्टुं ते. जिसमें द्रव्य से शरीर  
पीड़ा और भाव से मिथ्यात्वादि दोष की पीड़ा  
नहीं ऐसा सुख-स्वास्थ्य गुरु आदि को वंदना  
करते समय पूछना. A question about  
health and comfort to a preceptor etc. at the time of saluta-  
tion. प्रव० ६६; ( २ ) शरीरनी धीरनो  
अभाव. शारीरिक पीड़ा का अभाव. absence  
of physical-pain. ‘किंते भंते’ अवधावाह-

सोमिका। जंते वातियपितियसंभिमसजिवाहय  
……सरीरगथा दोसा उव्रसंता’ भग० १८,  
१०; नाया० १; ५; ( ३ ) निविध आधा-धीरविनातुं  
सुभ. विविध प्रकार की बाधाओं से राहिन सुख.  
happiness unalloyed with various kinds of troubles. ‘अवधावाहम-  
व्यावाहेण्य’ भग० ५, ४; ११, ६; १२; नाया०  
५; ओव० १०; सम० १; दसा० १०, ८; ६;  
आव० ६, ११; कप्य० २, १५; २७; ( ४ )  
व्य. आधा-रहित सिद्धिस्थान; भोक्ष. बाधा रहित  
सिद्धिस्थान; भोक्ष. absorption. पच०  
३६; परह० २, ३; ( ५ ) इष्टुराण्णुनी वन्ये  
आवेद सुप्रतिष्ठाभ नामक विमान वासी लोका-  
न्तिक देवों की एक जाति. a kind of  
Lokāntika deities residing in the Supratiṣṭhābh Vimāna  
situated between the Kṛiṣṇa-  
rājīs. प्रव० १४६२; नाया० ८; भग० ६, ५;  
१४, ८; या० ६; परह० २, ३;

**अवधामोह.** पुं० ( अव्यामोह ) व्य. भोक्ष-भ्राति-  
नो अभाव. भ्रान्ति का अभाव. Absence  
of delusion or infatuation. विशेष०  
८०६;

**अवधार्य.** त्रि० (\*आम्लात-आम्लान) करभाईं  
नहि. न मुरझाया हुआ. Not faded or  
withered. नाया० १;

**अवधावड.** त्रि० ( अव्यापृत ) व्यापार करने के अयोग्य वस्तु.  
( A thing ) unfit for trade  
purposes. “ सदियपठियं न कीरइ जहिय  
अवधावडं तयं वस्तु ” वेय० ३, २७;

**अवधावज्ज.** त्रि० ( अव्यापृज ) लेटेख नहि; नाश  
पामेल नहि. न भेदा हुआ; नाश न पाया हुआ.

Not pierced; not destroyed. भग०

अच्याहय. त्रिं (अच्याहत) न हथुमेलो.  
नहीं मारा हुआ. Not killed; not  
struck or beaten. नंदीः

आव्वाहयपुब्बावरत्त. न० ( अव्याहतपूर्वा-  
 परत्व) पूर्वापर वाक्यनो विरोध न आवे, तेवी  
 रीते ऐकात्मु ते; सत्यव्यतना ३५ अतिशय-  
 भानो ऐक. पूर्वापर विरोध रहित बोलना;  
 सत्य वचन के ३५ अतिशयों में से एक अति-  
 शय. Speech without inconsisten-  
 cy; one of the thirty-five Ati-  
 shayas of truthful speech. राय०  
 सम०

**अव्याहित.** त्रि० (अव्याहृत) न ऐकावेद्.  
बिना बुलाया हुआ. Not called or  
spoken to. “**अव्याहित कसाइत्य**”  
आया० १, ६, २, ११;

**आव्वोऽय०** (\*अव्वो-हा!) ऐह-सेह सूचक अव्यय  
खेद सूचक अव्यय. An interjection expressive of sorrow. सु० च० ७, ३०५;  
**अव्वोक-ग-ड.** त्रिं ( अव्याकृत ) जुगे।  
अव्वोगड ” श॒८६. देखो ‘ अव्वोगड ’ शब्द.  
Vide ‘ अव्वोगड.’ वेय० २, १८; ३, २७;

**अवोगडा.** स्थी० ( अव्याकृता ) लुअे 'अवो-  
गडा' शब्द. देखो "अवोगडा" शब्द. Vide  
‘अवोगडा’ दसा० ३, ३०; सय० ३, ५, ३५

**अब्दोच्छुरण.** त्रि० (अन्यवच्छिका) ६६ वगरन्  
भाप विनानुं. सीमा रहित; माप रहित.  
Unlimited; immeasurable. आया०  
१, ४, ४, १३८; (२) अभिडत; छेदन  
कर्या। विनानुं. अखारिडत; विना क्षेदा हुआ.  
whole; unbroken. आया० २, ७, २,  
१५०; जं० ५० ३, ४२;

अवोच्छिति॑ त्रि० ( अवच्छिति॑ ) ने  
नुष्टित न थतां निरन्तर प्रवाहूङ् पे चायं आवे  
ते. जो बिना हृदे निरन्तर प्रवाहूङ् से चला आ  
रहा हो वह. Continuing ceaseless-  
ly or without a break. विशेष १४;  
४६१; ( २ ) द्वी० व्यवच्छेदनो अभाव.  
व्यवच्छेद का अभाव. absence of break  
or separation. भग० ७, ३;—एयहु  
युं ( -नयार्थ ) जुआ॥ “ अवोच्छितिण्यहु ”  
शब्द. देखो “ अवोच्छितिण्यहु ” शब्द.  
vide ‘ अवोच्छितिण्यहु ’ भग० ७, ३;

**अवोयडा. ली०** (अव्याकृता) जुआ० “अवो-  
गडा” ३५६. देखो “अवोगडा” शब्द.  
Vide “अवोगडा.” भग० ७, ३; १०,  
३; प्रव० ६०२;

✓ अस. धा० I. (अस्) हेतु; थतु. होना.  
To be.

अथि. अणुजो० ८१; आया० १, १, १, ३;  
वेय० १, ३३; दस० ५, २, २६;

संति. सूर्य० १, १, १, ७; आया० १, १, २, १५;  
अंसि. सूर्य० २, १, ६; आया० १, १, १, २;  
मो. व० उ० ब० भग० १५, १;

१, १, २, १३;

આસી. ભૂ આયાં ૧, ૧, ૧, ૩; ઉત્ત. ૨૫,  
૧; અરગુજો ૧૬;

आसिमो. उत्त० १३, ५;

✓ अस. धा० I. (अश) भातुः भोजन करतुं.  
खाना; भोजन करना. To eat; to dine.  
असह. पिं० नि० ११४; सु० च० १०, ३७;

असह. स्त्री० (असृति) अनाज भापवानुं ऐक  
भाप; हथेली जेवडु भाप; पसलि. अनाज  
नापने का एक माप; हथेली के बराबर माप.  
A measure of capacity for-

corn equal to the palmful of the hand. अणुजो० १३२;

**असहं.** अ० ( असङ्कृत ) वारंवार; अनेक पार. बार बार; अनेक बार. Often; frequently. 'असहं तु मणुस्सेहि, मिच्छादंदो पञ्जङ्ग' उत्त० ६, ३०; भग० ६, ५; ३५, १; जीवा० ३, १; दस० १०, १, १२; आया० १, २, ३, ७७;

**असहै.** श्री० ( असती ) डुकटा; असती. कुलग्रा; व्यभिचारिणी. A strumpet; an unchaste woman. प्रब० २६७; ( २ ) दासी. दासी. a maid-servant. भग० ८, ४; —पोखणे. न० ( \*पोखणे-अमर्यो हुःशी-क्षास्तासा॒ दासीसारिकादीनां पोखणं पालन-मसतीपोखणम् ) द्विसंक अथवा डुकर्मी प्राणीनुं व्यापार अर्थे पोखण् करतुं ते; श्रावकना॒ सातभा॒ प्रतनो॑ छेद्ये॑ अतिचार. हिंसक अथवा कुकर्मी जीव का व्यापार के लिये पांखण करना; श्रावक के सातवें व्रत का अन्तिम कर्मादानरूप अतिचार. feeding and keeping a cruel animal for the purposes of trade; the Atichāra of the last vow of a layman, styled its fifteenth Karmādāna. प्रब० २६७; —पोखण्या. श्री० ( \*पोखण्ना-पोखण ) दासी, वेश्या वर्गेरेतुं पोखण्-पालन करतुं ते; सातभा प्रतनो॑ एक अतिचार. दासी, वेश्या आदि का पालन-पोखण करना; सातवें व्रत का एक अतिचार. maintenance of maid-servants, prostitutes etc; an Atichāra ( partial violation ) of the seventh vow. भग० ८, ५; उवा० १, ५१; \*

**असं.** त्रि० ( असत ) अविद्यमान; असत्. अविद्यमान. Not existing; not being. सूय० १, १, १, १६;

**असंक.** त्रि० ( अशङ्क-न विद्यते शङ्का यस्य तदशङ्कम् ) निःशंक; शंका वग्रमेत्. निःशङ्क; शंका रहित. Having no doubt; free from doubt. आया० १, ३, ३, ८०; —मण. त्रि० ( -मनस्-अशङ्कं मनो यस्यासादशङ्कमनाः ) इणी शंका न राखनार; तपना इग्नो॑ संदेह न करनार. फल की शंका न करने वाला; तप के फल का संदेह न करने वाला. free from any doubt about the efficacy of penance. आया० १, ३, २, ८०;

**असंकपिय.** त्रि० ( अशङ्किति ) आलोचन न करेत्; मनमां संकल्प न करेत्. मन में संकल्प न किया हुआ. Not even thought of. विशे० २४४; भग० ७, १;

**असंकमाण.** व० कृ० त्रि० ( अशङ्कमान ) शंका न करते॑. शंका न करता हुआ. Not doubting or suspecting. नाया० १;

**असंकि.** त्रि० ( अशङ्कित्र ) शंका नहि॑ करनार. शङ्का न करने वाला. One who does not suspect or doubt. सूय० १, १, २, ६;

**असंकिय.** त्रि० ( अशङ्क्य ) शंका करना ये॒ नहि॑; शंकानु॑ स्थान नहि॑. शङ्का न करने योग्य; शंका का जिसमें स्थान न हो. Not worthy of suspicion. "असंकियाह॑ संकंति, संकियाह॑ असंकियो॑" सूय० १, १, २, ६;

**असंकिलिट्ट.** त्रि० ( असंकिलिष्ट ) संकिलिष्ट-दृष्ट नहि॑; अदृष्ट; विशुद्ध परिणामभवाण॑. दुष्ट परिणाम रहितः विशुद्ध परिणाम वाला. Not wicked; not impure in mind. "असंकिलिट्ट वरथाह॑" ओव० ३८; पराह० २, १; —आयार. त्रि० ( -आचार-असं-किलिष्ट इहपरलोकाशंसारूपसंक्लेशविम्रममुक्त आचारो॑ यस्य सोऽसंकिलिष्टाचारः ) ज्ञेन॑।

आयार सर्व दोपरहित छे ते; नःव दोपने। परित्याग इनार. सम्मूर्या दोष रहित आनार वाला; समस्त दोषों का परित्याग करने वाला। ( one ) who has abandoned all sorts of sins. यव० ३, ४;

**असंक्लेश.** पुं० (असंबलेश) संक्लेशनो अभावः परिष्णाभनी विशुद्धि. संबलेश का अभावः परिष्णाम की विशुद्धि. Absence of impurity of thought; purity of thought-activity. “ दसविहे असंक्लेशे परण्णते, तंजहा—उवहिअसंक्लेशे जाव चरित्तअसंक्लेश ” ठा० १०;

**असंक्य.** त्रि० ( असंस्कृत ) संस्करितः असंक्षरितः. संस्कार रहित; अलङ्घार रहित. Devoid of purifying impressions; not civilized; devoid of embellishments परग० १, २;

**असंख.** त्रि० ( असंख्य ) संख्यातीत; नेनी गण्यनी न थभ शें तेनुः; असंख्यात. संख्यातीत; जिसका संख्या न का जा सके ऐसा. Incalculable; countless. क० गं० ४, ४०; नाया० १; ७; क० प० १, ६;—अंश. पुं० ( -अंश ) असंख्यातमे। अंश-भाग। अरांख्वातवाँ अंश-हिस्सा. an infinitesimal portion. क० गं० ५, ७६;—आउय।

त्रि० ( -आयुक्त ) असंख्यात वर्तना आयुष्यवागा; जुगलीया वर्गेरे। असंख्यात वर्ष की आयु वाला; जुगलिया आदिक. having a life of countless years ( e. g. the Jugaliyās etc. ). प्रव० १३६६; —कोडि. पुं० ( -कोटि ) असंख्य हेडि। असंख्य करोड़. countless crores; an infinite number of crores. प्रव०

६१०;—चुर्गण्य. त्रि० ( -णित ) असंख्य गण्यु. असंख्य गुणा. multiplied countless times; infinitely multiplied. क० प० १, १६; प्रव० १०६५;—बल. न० ( -बल ) असंख्य वर्गा: असंख्य-अभरिभन सेना। असंख्य बल; असंख्य अपरिमित सेना. a countless host; an innumerable army. सु० च० ३, ६४;—दास. त्रि० ( -वर्ष ) असंख्यात वर्षना। आयुष्यवागा जुगलीया वर्गेरे। असंख्य वर्षों का आयु वाला जुगलिया आदिक. having a life of countless years ( e. g. the Jugaliyās etc. ). क० प० ४, १६;

**असंख्यगुण.** त्रि० ( असंख्यगुण ) असंख्यात गण्यु; संख्याशी गुण्यु नहि तेटदुः। असंख्यात गुणा; संख्या से गुना न जा सके उतना। Of countless multiples. क० गं० ४, ४२;—विस्तिः. त्रि० ( -वर्ष ) असंख्यात गण्यु वीर्य-प्रेग्यागो। असंख्यात गुण वीर्य-योग वाला। ( one ) whose power extends to incalculable multiples; of incalculably multiplied power. क० गं० ४, ४२; **असंखड.** पुं० ( \*असंखड-असंखृत-मैखिक-कलह ) भोढानो। कुछओः। शब्दनो। क्षेत्र। वारों की लडाई. शब्दकलह। A wordy quarrel; quarrel by exchange of angry words. गच्छा० ११७;

**असंखडि.** पुं० ( \*असंखृति-कलह ) क्षेत्र; कुछओ। झगडावाजी। Quarrel; strife. प्रव० ७६२;

**असंखतम.** त्रि० ( असंख्यतम ) असंख्यातमे। असंख्यातवाँ। Infinitesimal. क० प० १, ६;

**असंखय.** त्रि० ( असंखृत ) संस्कार थभ शें नहि तेनुः; कायना वासथुनी ऐडे नुट्युः कौध पथ्

रीते संधाय नहि तेवुं, जिसका संस्कार न हो सके वह; काच के बर्तन के समान दृढ़ने पर पुनः न जोड़ा जा सके वह. Incapable of being restored to its original condition like a vessel of glass when it is broken. “असंख्यं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्त हु नवित ताण्य” उत्त० ४, १; (२) उत्तराध्ययन सूत्रना योथा अध्ययनतु नाभि. उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्याय का नाम. the name of the 4th chapter of Uttarādhyayana. अणुजो० १३१;

असंख्य. त्रिं ( असंख्य ) संभ्यातीत; ऐनी गण्यन्ति न थए शें तेटका; अपंभ्यात. संख्यातीत; जिसकी गिनती न हो सके; असंख्यात. Innumerable; countless. उत्त० ६, ४८;

असंखिज्ञ. त्रिं ( अंखेय ) ऐनी संभ्या थए न शें अंगु; संभ्याने उंदी अंगुं; संभ्यातीत. जिसका संख्या न की जा सके वह; संख्यातीत. Innumerable; countless. अणुजो० ४८; राम० १; क० गं० ५, ६५; जं० प० २, १८; ५, ११७; कप० ३, २७; —अंख. पुं० (—अंग) असंभ्यातमे। भाग. असंख्यातवाँ भाग. an infinitesimal portion क० गं० ५, ६५; —परसिअ. पुं० (—प्रदेशिक) असंभ्याप्रदेशिक अंकुध; असंभ्यान परभाष्य भणी अनेक अंक चीज. असंख्य प्रदेशिक स्कंध; असंख्यत परमाणुओं से मिलकर बना हुई एक वस्तु. a thing made up of countless atoms. अणुजो० १३२; —समयाहिय. त्रिं (—समयाधिक) असंभ्यात समये द्वीर्घाधिक-वधारे. असंख्यात समय की अपेक्षा अधिक. exceeding by an incalculable period of time. भग० १, ५;

असंखियभाग. पुं० ( असंख्यभाग ) असंभ्यातमे। भाग. असंख्यातवाँ भाग. An infinitesimal portion. क० प० १, १०; असंखियमित्त. त्रिं ( असंख्यमत्र ) असंभ्यात परिमाणागुं. असंख्यात परिमाण वाला. Occupying an infinitesimal portion of space. क० प० १, ८; असंखेज्ञ. त्रिं ( असंखेय ) जुआ। “असंखिज्ञ” शब्द. देखो “ असंखिज्ञ ” शब्द. Vide “ असंखिज्ञ.” भग० १, ५; २, ८; १०; ३, १; ५, ७; १३, १; १६, ८; १६, ७; २५, २; ३२, १; ४१, ३; ठा० १, १; जं० प० ३, ३१; नंदा० १०; विशेष० १६६; —काल. पुं० ( —काल ) असंभ्याते। काणि; पव्योपभ, सागरोपभ, उत्सर्पिष्यी, अवसर्पिष्यी वगेरे. असंख्य समय; पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी वगैरह. incalculable period of time. भग० ५, ७; जं० प० ३, ४२; —कालसमय. पुं० ( —कालसमय ) असंभ्यात कालरूप समय. असंख्यात कालरूप समय. period of time incalculable in its extent. ठा० २, ३; —कालसमयद्वाइ. पुं० ( —कालसमयस्थिति ) असंभ्याता कालरभानी स्थितिवागा। अ४; नारकी आदि. असंख्यात रामय का स्थिति वाला जीव; नारकी आदि. souls like Nārakī etc. whose life ( in hell etc. ) extends over incalculable periods of time. “ दुष्प्रिया खोरहया परणता, हंजहा-संखेज्ञकालसमयद्विहया चेव प्रसंखेज्ञकाल-समयद्विहया चेव ” ठा० २, २; —जीविय. पुं० (—जीवित) असंभ्याता अ४ न्येभाँ छं ते. जिसमें असंख्य जीव हैं वह. ( anything ) containing countless lives. “ से किं तं असंखेज्ञजीविया ? असंखेज्ञजीविया दुष्प्रिया परणता, हंजहा-प्रगटिहया बहुष्टिहया य ”

भग० ८, ३; ठा० ३, १; पञ्च० १;—  
दीवसमुद्र. पुं० (-द्वीपसमुद्र) असंभ्याता।  
द्वौप अने समुद्र. असंख्यात द्वौप और  
समुद्र. countless islands and  
oceans. भग० ६, ८; जं० प० १, १४;  
—पप्साहिय. त्रि० (-प्रदेशाधिक) असं-  
भ्याता प्रदेशों की अविक. असंख्यात प्रदेशों  
की अपेक्षा से अधिक. exceeding by  
incalculable units of space. भग०  
१, ५;—पप्सिअ- पुं० (-प्रदेशिक)  
जुआ। “ असंखिजपएसिअ ” शब्द. देखो  
“ असंखिजपएसिअ ” शब्द. vide  
“ असंखिजपएसिअ ”. भग० २, १;—पप्सोगाढ़. त्रि० (-प्रदेशावगाढ़)  
आकाशना। असंभ्याता प्रदेशों अवगाहीने रहेक.  
आकाश के असंख्य प्रदेशों को अवगाहन  
करके ठहरा हुआ. interpenetrating  
the incalculable units of space.  
भग० २, १;—पदेसिय. पुं० (-प्रदेशिक)  
जुआ। “ असंखिजपएसिअ ” शब्द. देखो  
‘असंखिजपएसिअ’ शब्द. vide “ असंखिज-  
पएसिअ ”. भग० १८, ६;—विस्त्थड़. त्रि०  
(-विस्तृत) असंभ्याता ज्ञेनना विस्तार-  
पाणुं; असंभ्यात ज्ञेननु लांचुं अने पहेणुं.  
असंख्यात योजन के विस्तार वाला. असंख्यात  
योजन का लंबा और चौड़ा. of the  
length and breadth of countless  
yojanas. भग० ६, ५; जंवा० ३;—सम-  
यसिद्ध. पुं० (-समयसिद्ध) ज्ञेने सिद्ध  
थयाने असंभ्याता समय थध गया छे ते.  
जिसे सिद्ध हुए असंख्य समय हो गया है वह.  
one after whose Siddhahood  
countless units of time have  
elapsed. पञ्च० १;

असंख्येज्जाइ. त्रि० ( असंख्येय ) जुआ। “ असं-

खिज ” शब्द. देखो “ असंखिज ” शब्द.  
Vidē “ असंखिज. ” भग० १८, ३;  
असंख्येज्जगुण. त्रि० ( असंख्येयगुण ) असं-  
भ्यातगणुं; ऐकने असंभ्याते गुणुओं तेष्टुं.  
एक को असंख्यात से गुणा करने के समान.  
Multiplied innumerable times.  
भग० २५, ६;—हीण. त्रि० (-हीन)  
असंभ्यात गुणुहीणु; ऐक व्यीरनी अपेक्षा एये  
असंभ्यात गुणु एयाहुं. असंख्यात गुणा हीन;  
एक दूसरे की अपेक्षा असंख्य गुणा-भाग हीन.  
falling short to an incalculable  
extent. भग० २५, ६;

असंख्येज्जभाग. पुं० ( असंख्येयभाग ) असं-  
भ्यातमो भाग-अंश; ऐक वस्तुना असंभ्यात  
अंश कीरीते तेभाने। ऐक अंश. असंख्यातवाँ  
भाग; एक वस्तु के असंख्यात भागों में से एक  
भाग. An infinitesimal part of a  
thing. भग० १, १; ५; २, ७; १०;  
५, ७; ८, ६; १८, ३; २४, १; ३६, १;  
—हीण. त्रि० (-हीन) असंभ्यातमो भाग  
हीन-एयाहुं. असंख्यातवाँ भाग हीन-कम-  
less by an infinitesimal part.  
भग० २५, १; ६;

असंख्येज्जग. त्रि० ( असंख्येयक ) असंभ्य.  
असंख्य. Countless; innumerable.  
क० प० १, ६;—पप्पस. पुं० (-प्रदेश)  
असंभ्यात प्रदेश. असंख्यात प्रदेश. an infi-  
nitesimal particle of matter  
occupying a unit of space. क०  
प० १, ६;

असंख्येज्जगुण. पुं० ( असंख्येयगुण ) असंभ्यात  
गुणु; असंभ्यात गणुं. असंख्य गुणा; असंख्यात  
गुणा. Multiplied innumerable  
times. भग० ५, ७; १८, ३; २०,  
१०; २५, १; ४; ६;—परिहीण. त्रि०

(—परिहीण-असंख्येयगुणेन परिहीणो यः स तथा) असंभ्यातगुणुद्दीणु; असंभ्यात गणु ऐच्छ. असंख्यात गुण हीन; असंख्यात गुणा कम. falling short to an incalculable extent. ओव०—हीण. त्रि० (—हीन) जुये। “असंखेज्जगुणपरिहीण” श०६. देखो “असंखेज्जगुणपरिहीण” शब्द. vide “असंखेज्जगुणपरिहीण.” भग० २५, १;

असंखेज्जभगमेत्. पु० ( असंख्येयभगमात्र ) असंभ्यातभी भागमात्र. असंख्यातवाँ भाग मात्र. The infinitesimal part of a thing. भग० ६, ५;

असंखेज्जहा. अ० ( असंख्येयधा ) असंभ्याता प्रकारनु. असंख्यात प्रकार का. In countless varieties. भग० १२, ४;

असंग. पु० ( असङ्ग—न विद्यते सङ्गो मूर्तत्वादस्य स तथा ) परिभ्रह तथा कथायनी उपाधिरहित आत्मा. परिग्रह तथा कषायरूप उपाधि से रहित आत्मा. Soul free from the troubles of worldly possessions and impure passions. ओव० (२) भेक्ष. मोक्ष. absolution. पञ्च० ३; (३) सिद्ध भगवान्; मुक्ता आत्मा. सिद्ध भगवान्; मुक्त आत्मा. the soul that has obtained salvation; a Siddha. ओव० (४) त्रि० भाव्य अने आश्यन्तर संगरहित. बास्यभ्यन्तर संसर्ग से रहित. free from physical and mental attachment. पञ्च० २;

असंगह. पु० ( असंग्रह ) संग्रह न करना. संग्रह न करने वांता. (One) who does not collect. विशेष० ५०६; (२) विवाहनो अभाव. विवाह का अभाव. absence of marriage; celibacy.

पच्छाविय तं कर्जं असंगहो माय नासिज्ञा” पिं० निं० ५०६;—रहू. पुं० (—हस्ति—न विद्यते संग्रहे रुचिर्यस्य स) उपग्रह आदिनी सचि न करनार; लोक वृत्तिवाणे नहि. उपकरण आदि की रुचि न करने वाला; लोभवृत्ति रहित. one free from the desire of such materials as alms-bowl etc. परह० २, ३;

असंगहिय. त्रि० ( असङ्गहीत ) अश्रय विनानो; क्षेत्रिक संग्रह करनेवाले नहि. अश्रय रहित; किसीके द्वारा भी जिसका संग्रह न किया गया हो वह. Not supported or harboured by anybody. ठा० ८;

असंघयण. न० (असंहनन) वज्र॑ ऋषभनाराय आदि संधयणनो अभाव. वज्र॑, ऋषभ, नाराच आदि संहनन का अभाव. Absence of such physical constitutions of bones as Vajra, Rishabha, Naracha etc. ( adamantine structure ). भग० १, ५;

असंघयणि. त्रि० ( असंहननिन् ) संधयण वगरनो; नारकी, देवता प्रभूति. संहनन रहित; नारकी, देव आदि. Having no physical constitution consisting of bony joints like adamantine bony joints etc; Narakī, gods etc. भग० १, ५; २४, १२;

असंजम. पु० ( असंयम ) संयमनो अभाव; पापनी प्रवृत्ति; प्राणातिपात आदि सावद्य अतुश्वान. संयम का अभाव; पाप की प्रवृत्ति; प्राणातिपात आदि सावद्य अनुष्टान. Absence of ascetic conduct; sinful conduct, e. g. killing injuring etc. आव० ४, ७; परह० १, ३; उत्त० ३१,

२; भग० २, ५; २५, ६; ७; दस० ५, १, ६६; ६, ५१; प्रब० १३०७; ( २ ) संयमी विराधना. संयम की विराधना—नाश. destruction of right or ascetic conduct. एंगिदियाणं जीवा समारंभ-माणसपंचविहे असंजमे कज्जइ” ठा० ५, २; ७, १; —कर. त्रि० (-कर) असं-ज्यम् करनार—सेवनार; सावध प्रवृत्ति करनार. असंयमी; पाप करने वाला. (one) acting sinfully; (one) acting against the rules of right conduct. दस० ५, १, २६; —जोग. पुं० (-योग) सावध जोग-पापनो व्यापार. पापकर्म. sinful operation. पिं० निं० ४६०;

**असंज्य.** त्रि० ( असंयत ) जुओ। ‘अविरय’ शब्द. देखो ‘अविरय’शब्द. Vide ‘अविरय’. ओव० ३८; सूय० १, १, २, २८; आया० २, १, २, १३; ठा० ४, ४; भग० १, १; २; ६, ३; १७, २; नाया० १६; दस० ७, ४७; नंदी० १७; प्रब० ८६३; —पूया. छी० (-पूजा) असंज्य—अविरत—अन्यथा आदि भित्या-त्विनी पूजा, के जे नवमा अने दशमा तीर्थ-करना आंतरामां यातु थध ही; दश अच्छेरामाने। ऐक अच्छेर। अविरती—ब्राह्मण आदि मिथ्याविद्यां की पूजा, जो नवे और दसवें तीर्थकर के बीच के रामय में शुल्क हुई थी; दश अच्छेरों में से एक अच्छेरा-आर्थ्य. worship done of Brāhmaṇas and other heretics, not accompanied with restraint of senses etc. It commenced in the time that passed between the ninth and the tenth Tirthankaras. कप० २; —भवियद्वयदेव. पुं० (-भव्य-द्वयदेव) अभव्य ज्ञव तथा व्यारित-शृन्य भव्य ज्ञव, के जे ने यातु भनुष्यलव

पूर्ण करी देवतापथे उपर्युक्ते ते. अभव्य जीव तथा व्यारितशृन्य भव्य ज्ञव, जिस वर्तमाम मनुष्यपर्याय पूरकर देवपर्याय में उत्पन्न होना है. an Abhavya soul and a Bhavya soul without right conduct to be born amongst gods after their death in their human existing birth. भग० १, ३;

**असंजल.** पुं० ( असंज्जल ) भरतक्षेत्रनी यातु अवसर्पिणीना आहमा अनंतनाथ स्वामीना सभकालीन धरयत क्षेत्रना तीर्थ-कर. भरतक्षेत्र का वर्तमान अवसर्पिणी के आठवें तीर्थकर अनन्तनाथस्वामी के समकालीन ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकर. The Tirthankara of Iravata Kṣetra, the contemporary of eighth Anantanātha Svāmī of the present Avasaripiṇī of Bharata Kṣetra. सम्।

**असंजोपत्ता.** त्रि० ( असंयोजयित्र ) संयोग न करनार. संयोग न करने वाला. (One) who does not cause union with. “सोयागण्यं दुक्षेण्यं असंजोपत्ता भवद्” ठा० १०;

**असंजोगि.** त्रि० ( असंयोगिन् ) संयोगरहित. संयोग रहित. Devoid of union with. (२) पुं० स८ ७१. सिद्ध जीव. a soul that has attained to salvation. ठा० ३, १;

**असंठाविय.** त्रि० ( असंस्थादित ) संस्कार वगरन्. संस्कार रहित. Devoid of ceremony performed or impressions made. नंदी० ४६;

**असंत.** त्रि० ( असंत ) अविद्यमानः ऐरुः; असंत्. अविद्यमानः भूयः; असंत्. Non-existent; untrue. अणुजो० १४६;  
उत्त० ६, ५१; पंचा० १, ३५; ६, २१; १२,  
३८; प्रव० १२१३;

**असंत.** त्रि० ( अशान्त ) शान्त न थथेकः;  
द्वाधारिके न उपरभावेत्. अशान्त; शान्ति  
रहित; क्रोधादि सहित With passions  
unassuaged. पराह० १, २;

**असंतश्च.** पुं० ( असंक्त ) असंत्; अविद्यमानः.  
असंतः अविद्यमान. Non-existent.  
सूक्ष्म० २, ४, २;

**असंतकः.** न० ( असंक्त ) ज्ञूः; असंत्य. भूष्ठः;  
असल्य. Alie; falsehood. पराह० १, ३;  
( २ ) अभुद्व. सुन्दरता रहित. devoid  
of beauty. पराह० १, २;

**असंतकः.** न० ( अशान्तक ) ज्ञेना द्वाधारि  
कपाय शान्त थया नथी ते. जिसके कांध आदि  
कषय शान्त न हुए हो वह. ( One ) with  
unassuaged passions like anger  
etc. पराह० २, ३;

**असंतयः.** न० ( असंन्तत ) रागादिनि  
प्रवृत्ति. रागादि की प्रवृत्ति. Active condition  
of attachment, passion etc. पराह० १, २;

**असंतोसः.** पुं० ( असंतोष ) असंतोषः;  
परिग्रहतुं अंग्रेज नाम. असंतोषः; परिग्रह का  
एक नाम. Discontentment. पराह०  
१, ५;

**असंथडः.** त्रि० ( असंस्तुत ) अशक्तः; असंभर्थः;  
निर्वाह पुरुं नहि. अशक्त; असंभर्थ; निर्वाह के  
अयोग्य. Insufficient; incapable;  
powerless. “ असंथडा हमें अंगा ” दस०  
७, ३३; आया० २, ४, २, १३८;

**असंथडिङ्गा.** त्रि० ( असंस्तुत ) असंभर्थ  
अशक्त. असंभर्थ; अशक्त. Incapable;  
powerless. वेय० ५, ८;

**असंथरंत.** व० कृ० त्रि० ( असंस्तरत् )  
निर्वाह पुरुं न थता. निर्वाह योग्य न होता  
हुआ. Insufficient for meeting the  
required purpose. ओघ० निं० १८१;  
निसी० १०, ४५;

**असंथरमाणः.** व० कृ० त्रि० ( \* असंस्तरमाण-  
असंस्तरत् ) जुग्मे। “ असंथरंत ” शब्द.  
देखो ‘ असंथरंत ’ शब्द. Vide “ असंथ-  
रंत ”. ओघ० निं० १८१; निसी० १०, ४५;  
**असंथुयः.** त्रि० ( असंस्तुत ) असंथुः; संथुः नहि.  
असंबद्ध; जो संबद्ध न हो वह. Irrelevant.  
“ असंथुया यो वितिगिर्द्धुतिन्ना ” सूक्ष्म० १,  
१२, २;

**असंदिद्धः.** त्रि० ( असन्दिग्ध ) संदेहरहित. संदेह  
रहित. Devoid of doubt. भग० २, ११;  
३३; ११, ११; नाया० १; ६; ठां ६, १; दस०  
७, ३; दसा० ४, ४१; ५३; निर० १,  
१; कप० १, १२; ३, ५५; —फुडवयण.  
त्रि० ( -स्फुटवचन ) संदेहरहित २५८ वयन  
ऐतनार. संदेह रहित स्फुट वचन बोलने वाला.  
( one ) who speaks clear words  
devoid of doubt. दसा० ४, २७;  
—वयण्या. ली० ( -वचनता ) संदेहरहित  
२५८ वयन ऐतनार ते. संदेह रहित स्पष्ट  
वचन बोलना. speaking clear words  
devoid of doubt. ठा० १, १;

**असंदिद्धता.** न० ( असन्दिग्धत्व ) संहेद न करवे।  
ते; निःशंकपातुः; सत्यप्रयननो ११ भौ। अतिशय.  
संहेद न करना; निःशंकपना; सत्य वचन का  
ग्यारहवाँ अतिशय. Freedom from  
doubt; eleventh अतिशय of  
true speech. सम० ३६; ओव० राम०

**असंदिधा.** त्री० ( असन्दिधा ) शंकारहित२५८

लापा. शंका रहित स्फुट भाषा. Clear speech devoid of doubt. दस० ८, ४६;

**असंदीण.** त्रि० ( असन्दीन ) पंदर हिंस सुधी जगमां भुसाइरी करवी पडे ऐटला छेटानुं स्थान; सिंहण्डीप आदि. इतनी दूरी का स्थान, जिसके लिये पन्द्रह दिनों तक जल में यात्रा करना पड़े; सिंहलद्वीप बगैरह. ( A place ) requiring fifteen days' voyage to reach; Simhala-Dvīpa etc. आया० १, ६, ३, १८७; ( २ ) सभुनी वेण यउये पछु पाणीमां दुभे नदि तेवे। द्वीप. समुद्र की भर्ती-चढ़ाव के समय भी पानी में न ढूबने वाला द्वीप. ( island ) not covered under water even by the waters of the tide. जं० ५०

**असंपश्चोग.** पुं० ( असम्पश्चोग ) विप्रेग; अप्रेग; संप्रेगने। अभाव. संयोग का अभाव; वियोग. Separation; absence of union. भग० २५, ७;

**असंपग्ह.** पुं० ( असम्प्रग्रह-समन्वात् प्रकर्षेण जात्यादिप्रकृतलक्षणेन ग्रहणमात्मनोऽवधारणं सम्प्रग्रहः; तद्भावोऽसम्प्रग्रहः) नति आहिना भद्रो अभाव. जाति आदि के मद का अभाव. Absence of pride of caste etc. ठ० ८;

**असंपग्हहिय.** त्रि० ( असंप्रगृहीत ) भान-भद्रहित. मान रहित. Free from pride or conceit. दसा० ४, १२; १३; १४;

**असंपत्त.** त्रि० ( असम्प्राप्त ) असंक्षेप-लागेक नहि; वणेक नहि. न लगा हुआ; न मिला हुआ. Not joined or attached. राय० ६३; ( २ ) प्राप्त नहि थगेक; न पहेंगेक. अप्राप्त; न पहुँचा हुआ. not obtained; not reached. पञ्च० १; १६;

ओव० २२; नाया० १; १८; भग० ३, २; द, ६; ७; १४, १; ( ३ ) खी आहिना संगम थया पहेलानी कामनी दशा; खीनुं चिन्तन-२भरणु वगेरे. खोसङ्गम होने के पूर्व की कामदशा; खी का चिन्तवन आदि. mental condition of a lustful person before the actual fruition of desire, e.g. meditating upon a woman etc. प्रव० १०७७;

**असंपहिहृ.** त्रि० ( असम्प्रहृष्ट ) खीज्ञे पिष्ठा-रथाभां दुर्घ वगरनो. दूसरे को धिक्कार देने में हर्ष न करने वाला. Not rejoicing in hating others. “अवगमये असंपहिहृ जे स भिक्खु” उत्त० १५, ३;

**असंपुदिय.** त्रि० ( असम्पुदित ) परस्पर न भगेक; भुख्युं. परस्पर न मिला हुआ; खुला हुआ. Not mutually attached or joined. नाया० १; २;

**असंपुराण.** त्रि० ( असम्पूरण ) अपूर्ण; संपूर्ण-नहि. अपूर्ण; अधूरा. Incomplete; imperfect. नाया० १; भग० २५, ७; प्रव० ५३५; पंचा० १४, ४८;

**असंबद्ध.** त्रि० ( असम्बद्ध ) सम्बन्ध-नहित; शम्भादि जोगभां सम्बन्ध विनानो; परिशेष आहिकभां अभूहित. सम्बन्ध रहित; शब्दादि भोग में विना सम्बन्ध वाला; परिश्रद्धादिक में सूच्छा रहित. Not connected; not attached to worldly possessions and pleasures. “मुहाजीवी असंबद्धो, हविज्ञा जगण्यिस्तिषु” दस० ८, २४; भग० १२, ६; विशेष० २०८;

**असंबुद्ध.** त्रि० ( असम्बुद्ध ) अ-नहि सम्भुद्ध-समज्ञयावोगो; तत्ववेता नहि; समज्ञयावोगो नहि; दाधारीगो। समझ रहित; ज्ञान रहित; तत्वों को न जानने वाला. One

lightened; ignorant. अंत० ६, १५;  
उत्त० १, २;

**असंभवत.** त्रिं ( असम्भावत ) भ्रमरहित;  
भ्रान्तिरहित. ग्रम रहित. Free from  
delusion. कप्य० १, ५; दस० ४, १; ५,  
१, १; नाया० १; ८; ६; भग० २, ५; दिवा०  
१, १; राय० ३३;

**असंभव.** उं० ( असम्भव ) न होतुं; असंभवा-  
वना. असंभव; होने की आशा तक का अभाव.  
Impossibility; improbability. पि०  
नि० भा० २०; नाया० ३;

**असंभवित.** त्रिं ( असम्भवित ) ऐने क्यारे  
पृथु सम्भव न होय ते; शून्य. जिसका कभी  
अस्तित्व न हो वह; शून्य. Impossible  
at all times; non-existent. “जोया  
बीसं असंभविणो ” प्रव० १२१०; क० गं०  
४, ७१;

**असंमुच्छिक्षा.** सं० कृ० अ० ( असमुच्छिक्ष )  
उच्छेदन कर्या विना. विना उच्छेदन किये.  
Without eradicating; without  
destroying. स्य० २, ५, १०;

**असंमुच्छिय.** त्रिं ( असमूच्छिय ) भू-र्धा न  
पामेत. मूल्या रहित; मोह रहित. Not  
enticed; not infatuated. भग० ७, १;

**असंमोह.** त्रिं ( असमोह ) ऐने हेता  
वगेरैनी भाषाथी भोड़ लागे नहि ते. देवादिक  
की माया से मोहित न होने वाला. ( One )  
not thrown into delusion by  
the supernatural powers of  
gods etc. ठा० ४, १; भग० २५, ७;  
( २ ) उं० भूतानो अभाव; शुक्लध्याननु  
भेड़ लक्षण. मूढ़ता का अभाव; शुक्लध्यान  
का एक लक्षण. absence of delusion;  
a mark of pure concentration.  
ओव० २०;

**असंमोहय.** त्रिं ( असमोहक ) उपयोगशब्द;  
अनुपयुक्त। उपयोग शून्य; उपयोग रहित.  
Devoid of attention towards  
the soul. भग० ६, ६;

**असंलग्न.** त्रिं ( असंलग्न ) ऐदी न शक्य  
तेवुं; वाणीगेचर न थाय तेवुं. कहा न जा  
सकने वाला; वचनातीत. Inexpressible;  
incapable of utterance. अखुजो०  
१५०;

**असंलेघ्य-**य. उं० ( असंलेघ्य ) अभक्षा.  
प्रकाश का अभाव. Absence of light;  
darkness. आया० २, १०, १६७; ( २ )  
त्रिं अभक्षाशनाणु; अधारावाणु. प्रकाश  
रहित स्थान; अंधेरा वाला. dark; full of  
darkness. आया० २, १०, १६७; ( ३ )  
न० ज्यां दूर रहेल भाषुसनी नजर न पडे  
तेवुं रथगी. ऐसा स्थान, जो दूरी पर के मनुष्य  
को न दिख सके. a place not within  
range of sight from a distance.  
उत्त० २४, १६; प्रव० ७१६;

**असंघन्याया.** ली० ( असम्पन्नता ) अरक्षपरस  
अनाभ्युपणु, अर्थात् ऐक क्लिया भीलु.  
क्लियाने भाषा-विभ्रूप थवा न पामे ते.  
परस्तर कृतवाधा रहितता, अर्थात् एक क्लिया  
का दूसरी क्लिया को बाधालूप न होना.  
Non-collision of one per-  
formance with another;  
harmony. विश० ३४७१;

**असंबर.** उं० ( असंबर-संबरणं संबर, न  
संबरोऽसंबर ) आश्रव; संबरनो. अभाव.  
आश्रव; संबर का अभाव. Absence of  
stoppage of karma; influx of  
Karma. “ पंचविहे असंबरे परण्णले, तं-  
जहा-सोइंदियअसंबरे ” ठा० ५, २; “ छविहे  
असंबरे परण्णते, तंजहा-सोइंदियअसंबरे  
फासइंदियअसंबरे ” ठा० ६;

असंवलिय. त्रि० ( असंबोक्षित ) न वणेक.  
न मोक्ष-बलयाकार किया हुआ. Not  
curved or bent. तंडु०

असंविग्न. त्रि० (असंविग्न-न संविग्नोऽसंवि-  
ग्नः) शिथिल आचार वाला. Lax in spiritual  
discipline; Pāsatthās etc. प्रब० ७१७;—पक्षिक्य. पुं० (—पक्षिक)  
सुसाधुनी लुगुप्सा करनारे; पास्तथा अद्वितीया  
पक्षिकी. सुसाधु की जुगुप्सा-निन्दा करने वाला.  
( one ) who is partial to well  
behaved Sādhus etc. प्रब० ७१७;  
असंविभाग. पुं० ( असंविभाग ) संविभागो  
अभाव; सरभा भाग न पाइवा ते. संविभाग-  
समान भाग का अभाव. Unequal divi-  
sion. दस० ६, ३, २३;

असंविभागि. पुं० ( असंविभागिन् ) आहारा-  
दिक्भां सरपें। भाग न करनारे; विज्ञनी  
साथे विषमता राखनारे. आहारादिक में एक  
समान भाग न करने वाला. ( One ) not  
dividing equally, e.g. food etc.  
“ असंविभागी न हु तस्स मोक्षो ” दस०  
६, २, २३; उत्त० ११, ६;

असंखुड. त्रि० ( असंवृत ) पापना निरैध-  
रहित; धृतियनियुक्ति रहित; जेष्ठे आश्रवनां  
द्वार रोक्यां नथी ते. पाप के निरोध से रहित;  
झन्दियनियुक्ति से रहित; आश्रव के द्वारों को न रोकने  
वाला. Unrestrained in senses;  
( one ) who has not stopped  
the gates of Āśrava. भग० १, १;  
७, १; २; ८; १६, ६; ओब० ३८; ( २ )  
अद्युश नियंत्रणो. अेक प्रकार; दोष जाष्ठे तेवी  
जीते भगटपछे दोष लगाडी संयमने भवीन  
करे ते. ‘बकुशनियङ्ग’ दोष का एक प्रकार;  
जिसमें झुझमझुझा दोष लगाकर संयम को

मालिन किया जाय. an ascetic who  
sullies his right conduct openly;  
a variety of Bakuśa Niyañ-  
ga. प्रब० ७११;—बउस. (—बकुश )  
भगट रीते दोष लगाइनार साधु. प्रकटतया  
दोष लगाने वाला साधु. an ascetic  
openly (shamelessly) incurring  
sin. ठा० ५, ३; भग० २५, ६;

असंसहृ. त्रि० (असंसृष्ट) भीजना पित॒-आहारभां  
नहि भगेहुं. दूसरे के आहार में न मिला हुआ.  
Not mixed up with another's  
food. वेय० २, १३; ( २ ) नहि भरडायेक;  
नहि देपायेक. न लिपा हुआ. not  
bedaubed; not smeared. ओब०  
१६; दस० ५, १, ३५;—चरञ्च-य. पुं० ली०  
(—चरक) विना भरडायेक हथे अपाय तेज  
लेनुं अवी गवेषणा करनार; अभिग्रहविशेष-  
धारी साधु. बिना लिपे हुए हाथों से लेने की  
प्रतिशा करने वाला साधु; अभिग्रहविशेषधारी  
साधु. A Sādhu who has made up  
his mind to accept only that  
( food ) which is given with  
an unsmeared hand. ओब० १६;  
असंसहा. ली० ( असंसृष्टा ) हाथ तथा पात्र  
न भरडाय तेवी रीते भिक्षा लेनी ते; पित॒-  
पृष्ठानो पहेलो प्रकार. इस प्रकार से भिक्षा  
लेना जिससे हाथ तथा पात्र लिप न हों; पिरडे-  
षणा का पहिला भेद. Accepting food  
without smearing the hand or  
the alms-bowl; the first point  
of carefulness in begging food.

प्रब० ७४६;

असंसरण. न० (\*आशंसन—आशंसत्त) विनाश.  
विनाश. Destruction; ruin. परद० १, ३;

**असंसर्त.** वि० ( असंसर्त ) संसर्गे-संबंध-परिचयरहित. सम्बन्ध रहित; जान पहिजान रहित. Having no contact or connection. उत० २, १६; २५, २७; ( २ ) अप्रतिष्ठ; आंसक्ति-भमत्वरहित. आसक्ति रहित; ममत्व बिना का. unattached to worldly things. दस० ५, १, २३; ८, ३३; परह० २, ३;

**असंसार.** शु० ( असंसार ) संसारनो अलाव; भेद्य. संसार का अभाव; मोक्ष. Absolution; salvation. भग० १, ८; जीवा० १; —समावरण. शु० ( -समाप्त-न संसारेऽ-संसारो मोक्षस्तं समाप्तोऽसंसारसमाप्तः ) संसारलभ-भेद्य. पामेद शूव; मुक्त शूव; सिद्ध. मोक्ष गया हुआ जीव; मुक्त जीव; सिद्ध. a liberated soul. पञ्च० १; टाँ० २, १;

**असङ्क्षय.** त्रि० ( असंस्कृत-न विद्यते संस्कृतं संस्कारो यस्थ सोऽसंस्कृतः ) संस्कृत-रहित. संस्कार रहित. Unrefined; unenlightened. परह० १, १; —मसङ्क्षय. त्रि० ( -असंस्कृत ) अत्यन्त संस्काररहित; भुद्व संस्कृत वगरनु. सर्वथा संस्कारों से रहित. altogether unrefined or unenlightened. परह० १, ४;

**असङ्कार.** शु० ( असंकार ) असंकार; अनादृ; अप्रभान. अपमान; अनादर. Insult; disrespect. ( २ ) त्रि० संकाररहित. संकार रहित. full of disrespect. भग० १५, १;

**असङ्कारित.** त्रि० ( असंकारित ) अनादृ कुरामेल; संकार न कुरामेल. अनादर पाया हुआ; संकार न पाया हुआ. Dishonoured; disrespected. निर० १, १;

**असङ्कारिय.** त्रि० ( असंकारित ) संकार नहि कुरेल. संकार न किया हुआ. Disrespected; dishonoured. नाया० १२;

**असक्कारिय.** सं० कृ० श० (\*असंकारिय-असंकृत्य) संकार न करीने; अनादृ करीने; असंकार करीने. संकार न करके; अनादर करके. Having dishonoured or disrespected. नाया० ८;

**असक्किरिया.** ली० ( असंक्रिया ) भेदी किया; भराप चेष्टा. दुष्ट चेष्टा; खराब किया. A wrong action; a wicked action. पंचा० १०, १०; —रहित. त्रि० ( -रहित ) भेदी किया—पापना व्यापारी रहित. खराब किया—पाप के व्यापार से रहित. free from sinful actions. पंचा० १३, ४१;

**असगंहंह.** शु० ( असद्ग्रह ) भेदी आश्रह; दुराधर; आम वयनथी वाधित थमेल वापत्ती। पथु पक्ष भेद्ये ते. दुराधर; आप वचन से बाधित विषय का भी पक्ष लेना. Perverseness; obstinately maintaining things proved to be false by the words of competent authorities. विशेश० २३८३; पंचा० १, १;

**असग्ध.** त्रि० ( अश्लाद्य ) न प्रशंसया योऽप्य; श्लाधा न करवा योऽप्य. प्रशंसा न करने योग्य. Unworthy of praise. विशेश० ३५७८;

**असच्च.** त्रि० ( असत्य ) भिथ्या—भेदुं; निष्कृति; परिणामभृत्य. मिथ्या; झूठा; निष्कल; परिणाम रहित. Futile; false. “कोहं असच्च कुविवज्ञा” उत० १, १४; ( २ ) न० असत्य जुहु. असत्य; झूठ. falsehood; lie. भत० ६७; सम० ११; परह० १, ३; —मणजोग. शु० ( -मनोयोग-नास्ति जीव एकान्त-सदभूतो विश्वव्यापी-त्यादिकुविकल्पचिन्तनपरो मनोयोगः ) भनभां भेदी रीते वित्तवन करनु ते; असद्भूत के विभीत भद्रार्थनु वित्तवन करनु

रे. मन में भिन्ना विन्दवन करना; असद्भूत चा विपरीत पदार्थ का चित्तवन करना. false and perverse thought-activity. क० गं० ४, २७; —वृहज्ञोग. पुं० (-वारयोग) असत्य-भिन्ना वचनयोग—वचनयापार; वचन योगनो एक भेद. असत्य वचनयोग—असत्य वचनव्यापार; वचनयोग का एक भेद. false speech-activity; a false speech; a variety of speech-activity. क० गं० ४, २७; —दाह. त्रि० (-वादिन्) असत्य घोलनार. असत्य घोलने वाला. a liar. दसा० ६, ८; —संधृतण. न० (-सन्धृत्व) असत्य संडेत; जुटनुं २६ भुं नाभ. असत्य संडेत; झूठ का २६ वाँ नाम. the twenty-sixth variety of falsehood; a false Saṅketa. परह० १, २;

**असत्यमोस.** त्रि० ( असत्यमृषा—नास्ति सत्यं मृषा च यत्र तदसत्यमृषम् ) सत्य नहि तेभ असत्य पशु नहि तेनु; व्यवहारभात्र. सत्यता और असत्यता रहित. Neither true nor false; practical stand-point. विशेष० ३७५; दस० ७, ३; —भासा. ली० (-भाषा—न विद्यते सत्यं मृषा च यत्र सा चासौ भाषा चासत्यमृषाभाषा) सत्य नहि तेभ असत्य नहि अथी भाषा; व्यवहारभाषा. सत्यता और असत्यता रहित भाषा; व्यवहारभाषा. speech which is neither true nor false; practical speech. भग० १६, ८; —मणज्ञोग. पुं० (-मनोयोग) सत्य नहि तेभ असत्य पशु नहि अथे। व्यवहार-भेदो योग—भननो। व्यापार; भनोयोगनो एक भेद. सत्यता और असत्यता रहित भनोव्यापार; भनोयोग का एक भेद. practical thought-activity neither wholly true nor wholly false; conventional

thought. भग० २५, १; सम० १३; क० गं० ४, २७;

**असत्यमोसा.** ली० ( असत्यमृषा ) सत्य नहि तेभ असत्य नहि अथी भाषा; व्यवहार भाषा. Language which is neither wholly true nor wholly false; practical speech; conventional speech. उत्त० २४, २०;

**असत्या.** ली० ( असत्या ) असत्य भाषा. असत्य भाषा. False, untruthful speech. प्रव० ८६७;

**असत्यमोस.** त्रि० ( असत्यमृषा ) जुओ। “असन्च्यमोस” शब्द. देखो “असन्च्यमोस” शब्द. Vide ‘असत्यमोस’. भग० १६, ८; —भासा. ली० (-भाषा) व्यवहार भाषा; सत्य और असत्य रहित भाषा. conventional speech; language which is neither wholly true nor wholly false. भग० १६, ८; —मणज्ञोग. पुं० (-मनोयोग) जुओ। “असन्च्यमोसमणज्ञोग” शब्द. देखो “असन्च्यमोसमणज्ञोग” शब्द. vide “असत्यमोसमणज्ञोग.” भग० २५, १; —मणनिवृत्ति. ली० (-मनोनिवृत्ति) न सत्य तेभन न असत्य अथे। भनना व्यापारी निष्पत्ति. सत्यता और असत्यता रहित भनोव्यापार की निष्पत्ति. conventional thought neither wholly true nor wholly false. भग० १६, ८; —मणप्रयोग. पुं० (-मनःप्रयोग) जुओ। “असन्च्यमोसमणज्ञोग” शब्द. देखो “असन्च्यमोसमणज्ञोग” शब्द. Vide “असत्यमोसमणज्ञोग”. भग० ८, १; सम० १३; —वृहज्ञोय. पुं० (-वारयोग) व्यवहार वचननो योग—प्रवृत्ति; वारयोगनो एक भेद.

सत्याऽसत्य वचनव्यापार; वचनयोग क्य एक भेद. practical, conventional thought-activity neither wholly true nor wholly false. भग. २५, १;

**असच्चामोसा.** ली० (असत्यमृषा) जुओ।

“असच्चमोसा” शब्द. देखो “असच्चमोसा” शब्द. Vide “असच्चमोसा.” “जं येव सच्च येव मोसं येव सच्चमोसं असच्चमोसं यामतं चउरथं भासज्जातं” अथ्या० २, ४, १, १३३; भग्न० १३, ७; १६, २; १८, ७; पञ्च० ११;

**असज्जमाण.** व० क० न्नि० (\* असज्जमाण—  
असज्जत) रुपा न थतो; संग न करते। संग

न करता हुआ; अनुरक्त न होता हुआ.  
Remaining unattached;  
free from attachment. “ ते काम-  
ओगेसु असज्जमाणा, माणुस्सएसु जे यावि  
दिष्ठा” उत्त० १४, १४; १४, ६; ३२, ६;

असउभू. त्रिं ( असाध्य ) असाध्य; अशक्य;  
 आधी न शकाय ऐनुं. असाध्य; सिद्ध न हो  
 सकने वाला. Impossible to be  
 accomplished. विशें २५६; सु० च०  
 ६, ४०;

અસરાજીભાન્ધક. પુંચ. ( અસ્વાધ્યાય ) સંખ્યા-  
 યનો અભાવ. સ્વાધ્યાય-શાસ્ત્ર કે પઠન પાઠન  
 કા અભાવ. Absence of the study  
 of Sāstras. વચ્ચે ૭, ૧૨; ૧૩; નિસીંહ  
 ૧૬, ૧૪; ૧૫;

अस्तु माहात्मा न० ( अस्वाध्यायिक-आ मर्या-  
दया सिद्धान्तोक्तन्यायेन पठनम् आध्यातः;  
भुष्टु शेभत्त आध्यातः स्वाध्यायः स एव  
स्वाध्यायिकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्या-  
यिकम् ) सञ्जयने अटकायनारा कारणेः;  
द्वेषी, परू, भास वगेते; भवतीसु असञ्जयना-  
कारणेः भासु गमे ते ऐड. स्वाध्याय को रोकने  
बाला शारणः लोही, मांस बगैरह; बत्तीस अस्वा-

ध्याय के कारणों में से कोई एक कारण Any one of the thirty-two obstructions to the study of Śāstras; flesh, blood, puss etc. ठा० ४, २; १०; प्रव० १४८१; आव० ४, ७;

અસઢ. ત્રિ० ( અશઢ ) શાંતારહિત; સજ્જન;  
 રાગદેપરહિત; શુદ્ધ અંતઃકરણયાળે. સજ્જન;  
 રાગદ્વેષ રહિત; શુદ્ધ અન્ત:કરણ વાલા. (One)  
 not a rogue or a rascal; ( one )  
 of pure heart. સુ० ચ૦ ૧, ૬૦; પિ०  
 નિ० ૩૬૬; વિશે० ૩૪૧૦; પ્રવ૦ ૭૮૫;  
 ૧૩૭૦;

असणा. न० (अशन) भोजन; खोराक; अन्न;  
 खावातुं. भोजन. Food. दस० ५, १, ४७;  
 ५०; ५७; ९०, १, ८; उत्त० २, ३; ३२, १२;  
 राय० २६२; आया० १, ७, १, १६७; ३,  
 ११, १७०; पिं० निं० १३४; १६०; ६५०;  
 परह० २, १; भग० २, १; ५; ७, १; पश०  
 १; सम० २१; ३३; वंय० १, १६; नाया० १;  
 ५; १६; कप्प० ४, ८२; प्रव० १३५; पंचा०  
 ५, २५; (२) अधिकानुं जाँड. एक विशेष  
 प्रकार का वृक्ष. a kind of tree. उत्त०  
 ३४, ८; —पाण. न० (-पान) अन्न पाणी.  
 अज्जल. food and water. दस०६, ५०;  
 —वणा. न० (-वन) अशन-अधिकाना जाँडनुं  
 वन. एक विशेष जाति के वृक्षों का वन. a  
 forest of Ásana trees. भग० १, १;

असणक्. पुं० ( अशनक ) भीयडांतु जाँड. एक जाति का वृक्ष. A kind of tree. ओढ़० असणि. पुं० ( अशनि ) वज्र; इन्द्रने आयुध. वज्र; इन्द्र का आयुध. Indra's thunder-bolt. उत्त० २०, २१; ( २ ) आकाशमांथी भरते अभिनो ठेणु. आकाश से गिरता हुआ अग्नि का कण. particles of fire dropping from the sky. प्रष्ठ० १;

( ३ ) विशेष. विशेष. particularity सू० १० २०;—मेहुं पुं० ( -मेघ ) इराने। परसाद. ओलों की वर्षा. a shower of hail. भग० ७, ६;

असर्णी. श्री० ( अशनी ) अलेन्द्रना लोकपाल सोभनी चौथी पट्टराणी. बलेन्द्र के लोकपाल सोम की चौथी पट्टराणी. The fourth principal queen of Soma the Lokapāla of Balendra. भग० १०, ५; ठा० ४, १; ( २ ) वैरोचनेन्द्रनी चौथी पट्टराणी. वैरोचनेन्द्र की चौथी पट्टराणी. the fourth principal queen of Vairochana-nendra. भग० १०, ५;

असरिणि. पुं० ( असंक्षिक् ) भनती संज्ञारहित छव. मन रहित जीव; असंज्ञी. A soul devoid of consciousness of mind. ठा० २, २; पङ्ग० १७; भग० १, २; ७, ७; ८, २; २४ १; ३६, १; क० १० ४, ३५;—आउय. न० ( -आयुष्क ) असंज्ञियो भावैर्दु परजननु आयुष्य-आउभुं. मन रहित जीव द्वारा बांधा हुआ परभव का आयुष्य. period of life for the next birth incurred by a soul without mind-consciousness. भग० १, २;—पंचदिव्य. पुं० ( -पञ्चेन्द्रिय ) असंज्ञा पंचेन्द्रिय लुप्त; संभूर्त्तिभ मनुष्य, सभूर्त्तिभ तिर्थ्य वगेरे. मन रहित पंचेन्द्रिय जीव. a soul having five senses but without mind-consciousness. भग० २५, १; ३६, १;—मणुस्स. पुं० ( -मनुष्य ) भन विनाना-संभूर्त्तिभ मनुष्य. मन रहित सम्मूर्च्छिम मनुष्य. a Sammūrachchima human being devoid of mind. भग० २४, १; २०;—सुय. न० ( -श्रुत ) भिथ्याद्धिनुं श्रुत-स्थान. मिथ्या-

द्वषि का शास्त्र. a heretical Śāstra, नंदी०

असरिणभूय. त्रि० ( असंज्ञीभूत ) भिथ्या-द्वषि. मिथ्याद्वषि. Heretical; having a false faith. ( २ ) असंसि-भनरहित तिर्थ्य पंचेन्द्रिय वगेरे. मन रहित तिर्थ्य पंचेन्द्रिय वगैरह. devoid of mind, e. g. animals with five senses. भग० १, २;

असरिणहिसंचय. पुं० ( असंज्ञिविसञ्चय ) जेनी पासे वासी खावानुं नथी ते; सदा तानुं खानार; जुगलिया भनुष्य. जिसके पास बासी भोजन आदि न हो वह; जुगलिया का मनुष्य. One who always eats fresh food, e.g. Jugaliyā. जं० प०

असर्ति. अ० ( असहृत ) जुओ। 'असइ' शब्द. देखो 'असइ' शब्द. Vide 'असइ'. भग० ३, ३; ११, १; उत्त० ५, ३; १२, ७;

असतो. अ० ( अस्वत्स ) अस्व-परभतमां. पर मत में. In another faith; not in one's own faith. सूय० २, ६, १२;

असत्त. त्रि० ( अशक्त ) अशक्त; शक्ति वगरतुं; सामर्थ्य वगरनुं. शक्ति रहित; सामर्थ्य रहित. Incapable; powerless. उत्त० १३, ३२; पिं० निं० ६६४; विश० २२६३;

असत्त. त्रि० ( असक्त ) निःसंग; अनासक्त. अनासक्त; परिग्रह रहित; निर्मही. Free from attachment. “जे असत्ता पावेहि कम्मेहि” आया० १, ५, २, १६७;

असत्त. न० ( असत्त ) पारडेस्पे अविद्यमानपञ्चुं, ज्ञेम-भाटीनुं सुवर्णस्त्रपे असत्त, सुवर्णनुं भाटीरूपे असत्त. 'दूसरे' की अपेक्षा अस्तित्व का अभाव, जैसे सुवर्ण की अपेक्षा मटी का और मटी की अपेक्षा सुवर्ण का अभाव. Mutual non-exist-

ence, e. g. of earth in gold and of gold in earth. नंदी०

**अस्त्थ.** न० ( अश्व ) निरवध-निरोष आ-यारूप संज्ञ. निरोष आचारलूप संयम. Asceticism consisting in faultless conduct. आया० १, ३, ३, १२४; (२) अग्नि आदि शस्त्रों अभाव. अग्नि आदि शस्त्रों का अभाव. absence of weapons such as fire etc. आव० ६, १०; दस० ५, २, २३;—परिणय. त्रि० ( -परिणत ) अग्नि आदि शस्त्रों के परिणाम न पापेत; अन्येत थथेत नहि; सम्येत परस्तु. अग्नि आदि शस्त्रों से परिणाम ( विकार ) न पाया हुआ; सचित्. a living, sentient thing not deprived of life by fire etc. दस० ५, २, २३; नाया० ५; भग० १८, १०;

**अस्तथामा.** पुं० ( अश्वथामन् ) अस्तथामा। नाभे ऐक यादवकुमार. अश्वथामा नामक यादवकुमार. Asvathāmā of Yādava family. नाया० १६;

**असदारंभ.** पुं० ( असदारम्भ ) हिंसाकारक-कृपि आदि आरंभ. खोटा आरंभ. An evil activity ( such as agriculture etc. involving killing ). पंचा० ४, ४३;—पचस. त्रि० ( -प्रवृत्त ) ऐती आदि आरंभमां प्रवृत्त थथेत. खोटे आरम्भों में लगा हुआ. ( one ) engaged in an evil activity, e. g. agriculture etc. पंचा० ४, ४३;

**असह.** त्रि० ( अशब्द ) शब्दरहित. शब्द रहित. Speechless; wordless. भग० ५, ७;

**असहण.** न० ( अश्रद्धान् ) निरोष आहिनी हुईकृत उपर भरोंसा न राखवो ते;अश्रद्धा; अश्रित्यासु. निरोष आहिके वर्णन पर श्रद्धा

न रखना; आविश्वास; अश्रद्धा. Want of trust; lack of faith in the account given about Nigoda etc. पंचा० १५, ३४;

**असहमाण.** व० क० त्रि० (\*अश्रद्धान्-अश्र-हृष्ट) श्रद्धा न करतो—राखते. श्रद्धा न रखता हुआ. Not putting faith in. भग० ३, १; ६, ३२; ११, १२; १५, १; नाया० १२; १५; १६; उवा० ३, ११३;

**असहाण.** त्रि० ( अश्रद्धत् ) श्रद्धा न राखते. श्रद्धा न रखता हुआ. ( One ) having no faith in. प्रव० ८२३;

**असचेय.** त्रि० ( अश्रद्धेय ) श्रद्धा करवा ये अनहि. श्रद्धा न करने योग्य. Unworthy of faith; incredible. नाया० १४;

**असशिष्ट.** त्रि० ( असंशिष्ट ) जुओ। 'असरिण' शब्द. देखो "असरिण" शब्द. Vide 'असरिण'. भग० ६, ३; ३१, १; ठा० २, २; क० प० १, ६८; क० गं० ३, २४;—पंचिदिय. पुं० ( -पञ्चेन्द्रिय ) मन विनाना पाच्य हुँन्हृय वागा। उ०. असंक्षि पञ्चेन्द्रिय जीव. a living being with five senses but having no mind. क० गं० ४, ५;

**असबल.** त्रि० ( अशबल ) २१ संपर्क। दोषथी दूर रहेनार; यारिनना अतिचार टाणों शुद्ध संयम पाणीनार. २१ शब्द दोषों से दूर रहने वाला; अतिचार रहित शुद्ध जारित्र का आराधक. One avoiding twenty-one Śabala faults; ( one ) leading an ascetic life avoiding violations of the rules of right conduct. ठा० ५, ३; परह० ३, १; भग० २५, ७;—आयार. पुं० ( -आयार ) विशुद्धाचार; निरोष चारित्र. शुद्धाचार; निरोष चारित्र. faultless, unblemished conduct. उव० ३, ३;

**असभ्य.** त्रिं ( असभ्य ) असभ्य; विवेकरहित. असभ्य; विवेक शून्य. Impolite. ओव० —वयण. न० ( -वचन ) असभ्य वयन; विवेकरहित वाक्य; दुर्व्यवहार. असभ्य वचन; दुर्वचन; खराब वचन. impolite words. “ असभ्यवयणेहि य कलुणाविवज्ञदा ” वस० ८, २; ६, २, ८;

**असभ्याव.** त्रिं ( असभ्याव ) आकाशकुसु-  
भनी पेड़ असहजान-पर्याथ; न बोक बनाव. आकाश कुसुम के समान पदार्थ के अस्तित्व का अभाव. A non-existing thing, e. g. a sky-flower. जीवा० ३, १; ओव० ४१; अणुजो० १५१; क० प० ५, २४; —उडभा-  
वणा. ली० ( -उडभावना ) असत् पर्याथं तु प्रतिपादन करवुं ते. असत् पदार्थ का प्रतिपादन करना. act of propounding false, non-existing things. नाया० १२; भग० ६, ३३; —ठवणा. ली० ( -स्थापना ) ते आकार न होय छां तेमां तेनी स्थापना करवी ते; जेम लाकडीनो धोडा बनावेह—धोडानी कहना। करवी ते. वह आकार न होने पर भी उसमें उसकी स्थापना करना, जैस लकड़ी का घोड़ा बनाना अथवा लकड़ी के ढंडे में घोड़े की कल्पना करना. imagining a thing to be that which it is not, e. g. to imagine a stick to be a horse. अणुजो० १५१; —पञ्चव. पुं० ( -पर्यव ) प॒ पर्याथनी अपेक्षाये अस-  
दृ॒प पर्याप्य. पर पर्याय की अपेक्षा से असदृ॒प-नास्तिरूप पर्याय. false from the standpoint of the higher form of modification. भग० १२, ११०; —पठवणा. ली० ( -प्रस्थापना ) असत् अर्थनी० ५६५ना। असत् अर्थ की कल्पना. imagining a false, non-existent meaning or thing. भग० ११, १०;

**असभ्यावणा.** ली० ( असद्भावना ) असत्य भावना. असत्य-मौँठ भावना. Meditation on an unreal thing. भग० १५, १;

**असब्मूय.** न० ( असद्भूत-न सद्भूतमौँठ-  
भूतमू) असत्य; लुक. असत्य; मौँठ. Un-  
truth; falsehood. भग० ५, ४; ६;

**असमंजस.** त्रिं ( असमञ्जस ) असंगत; अधृति; अशोभन. असंगत; अधृति. Unbecoming; improper; ungraceful. उत्त० ४, ११; आया० १, ६, १,  
१७२; गच्छा० ७३; —चैट्टिय. न० ( -चैट्टिय ) अधृति येष्ठा करवी ते; ग्राणीनो वध आदि. अयोग्य चेष्ठा का करना; प्राणी का वध आदि. improper action, e. g. killing etc. पंचा० १, ४८;

**असमण.** पुं० ( अशमण ) असाधु; साधु नहि. असाधु; साधुत्व का अभाव. One, not a Sādhu. “ गंतुं ताय पुणो गच्छे, या य तेणासमणो सिया ” सूय० १, ३, २, ७; —पाउगग. त्रिं ( -प्रायोग्य ) साधुने आय-  
रवा योग्य नहि. साधु के आचरण न करने योग्य. unworthy of practice for an ascetic. निसी० ८, १;

**असमणुज.** त्रिं ( असमनोज ) अनिष्ट. अनिष्ट; हानिकारक. Evil. ठा० ४, १; ( २ ) शाक्यादि ३६३ पांडी. शाक्यादि ३६३ पांडी. the 363 heretics like Śākyā etc. आया० १, ६, १, २;

**असमत्त.** त्रिं ( असमाप्त ) अपूर्ण; अपर्याप्त. अपूर्ण. अपूर्ण; अपर्याप्त; अधूरा. Incomplete. क० गं० ५, ५४; क० प०१, १५;  
६६; प्रव० ६२६; ( २ ) असभाप्त विधि. अधूरी विधि. incomplete ceremony. वद० ४, ११; पंचा० ११, २७; —कफ्प. पुं०

(—कल्प) अपूर्ण विधि. अधूरी विधि. incomplete ceremony. पंचा० ११, २७;

**असमता.** न० ( असम्यक्त्व—न सम्यक् असम्यक् तत्त्व भावस्थथा ) असम्यक्त्वात्; सम्यग् नहि. सम्यक्त्व का अभाव; यथार्थता का न होना. The quality of not being right. सूय० १, ८, २२;—दंसि. त्रि० (—दर्शन्) सम्यग्दर्शी नहि; भिन्ना दर्शनी. मिथ्यादृष्टि; असता दर्शनों को मानने वाला. ( one ) having wrong belief; ( one ) who does not see things rightly. सूय० १, ८, २२;

**असमर्थ.** त्रि० ( असमर्थ ) असमर्थ; अशक्त; कुर्वी आं खर्थी पछु थीनार. अशक्त; कमज़ोर; कड़ी नज़र से भी डर जाने वाला. Feeble; weak; timid. सूय० नि० १, ४, १, ६१;

**असमय.** पुं० (\*असमय—असम्यक्) असम्यग् आयार; जुड़नुं पच्चीसमुं नाम. खराब चालचलन; भूँठ का पच्चीसवाँ नाम. Bad conduct; 25th name of falsehood. परह० १, ३;

**असमाण.** त्रि० ( असमान ) असाधारण; भर्तौदृष्ट. असाधारण; सब से बेष्ट. Extraordinary; the best or highest of all. “असमाणं चरे भिक्खू” उत्त० २, १६;

**असमाणिय.** त्रि० ( असमानित ) ऐने। सन्मान नहीं थयो। ते; तिरस्कृत. जिसका सन्मान नहीं हुआ वह; अपमानित. Hated; unhonoured. नाया० १६; निर० १, १;

**असमारम्भ.** पुं० ( असमारम्भ ) समारभने। अभाव; अवनी हिंसा न करनी ते. समारम्भ.

का अभाव; जीव की हिंसा न करना. Absence of killing or injuring sentient beings. “सत्तविद्वे असमारम्भे परणते, तंजहा—उडवीकाहय असमारम्भे जाव अजीवकाय असमारम्भे” ठा० ७;

**असमारम्भमाण.** व० कृ० त्रि० ( असमारम्भमाण ) समारभन करने। समारम्भ न करता हुआ. Not killing or injuring sentient creatures. गा० ५, २; भग० ३, ३; प० १;

**असमाहड.** त्रि० ( असमाहत ) अथुद्ध; शुद्धिथी रुहित. शुद्ध रहित; अशुद्ध. Impure; full of dirt. “वितिगिर्छसमावश्येण अप्पाश्येण असमाहडाए लेस्ताप” आया० २, १, ३, १८; (२) स्वीकारेत नहि; भ्रष्ट नहि करेत. स्वीकार न किया हुआ; ग्रहण न किया हुआ. not accepted or taken. सूय० २, २, २०;

**असमाहि.** पुं० ( असमाधि ) समाधिथी. निपरित; भेदभार्गथी विपरीत भार्ग—असमाधि; वितनी अस्वस्थता. समाधि से विपरीत; मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग; चित्त की अस्वस्थता. Distraction of mind; lack of concentration of mind opposed to the path of salvation. ‘दसविहा असमाहि परणता, पाणाहवाद’ ठा० १०; सूय० १, ८, ३, १८; उत्त० २७, ३; सम० ३०;—कर. त्रि० (—कर) असमाधि-वितनी अस्वस्थता। करनार. असमाधि-चित्त की अस्वस्थता करने वाला. causing distraction of mind. नाया० १६; परह० २, ३;—कारच. त्रि० (—कारक) पोताने अथवा भीजने असमाधि उपलब्धनार. अपनी अथवा दूसरे की असमाधि-चित्त की अस्वस्थता उत्पन्न करने वाला. ( one )

-causing distraction to himself or others. दसा० १, २; २१; २२;—द्वारण् त्रिं ( -स्थान ) असभाधिना २० स्थानक. असमाहिय के २० स्थान. the twenty causes or sources of distraction of mind. परह० २, ५; ठा० १०; दसा० १, ३; आव० ४, ७;—पत्त. त्रिं ( -प्राप्त ) असभाधिने पामेत. असमाहिय माया हुआ. ( one ) who has not got a concentrated, peaceful mind. “ असमाहिपत्ता कालमासे कलं किछ। ” उत्रा० ८, २५५;—मरण्. न० ( -मरण ) आश्वभरण्. बालमरणः premature death; death in infancy. आउ०—मरणज्ञकाण्. न० ( -मरणध्यान ) ‘सामेभाष्युस असभाधिभे भरे एभ यितव्युं ते, एभ पालक अभये षष्ठिभुनिना संबंधमां यितव्युं तेम. किसी दूसरे मनुष्य का समाधि रहित मरण चिन्तन करना, जैसे पालक नामक अभवय ने खंधक मुनि के सम्बन्ध में चिन्तन किया था act of meditating that a particular person may die in a distracted condition of mind; the Abhavya Pālaka, wished this sort of death to Khandhaka Muni. आउ०

**असमाहिय.** त्रिं ( असमाहित ) भीजत्स; लुंडु. बीभत्स; भयानक. Indecent; obscene. सूर्य० १, ३, १, १०; ( २ ) भौक्षमार्गरूप भाव सभाधिथि हूर वर्तनार; शुभ अध्यवसायरहित. मोक्षमार्गह क्षाव-समाधिके अनुसार बर्ताव न करने वाला; शुभ अध्यवसाय रहित. devoid of the good thought-activity of meditation leading to salvation. सूर्य० १, ३, ३, १३;

असमिक्षय. त्रिं ( असमीक्षित ) विचार्या निनाँु. विना विचारा-सोचा हुआ. Not properly thought of or considered. कथ० ६, ५३;

**असमित.** त्रिं ( असमित ) लुभे। ‘असमिय’ शब्द. देखो ‘असमिय’ शब्द. Vide “ असमिय. ” पंचा० १६, १६;

**असमिति.** ली० ( असमिति ) श्रोतवाभाँ, चालवाभाँ, वस्तु लेना, मुक्ति॑, के परहव्याभाँ यत्ना ( ज्यतना ) न राख्यी ते; समितिनो अभाव. बोलने, उठने, चलने, वस्तु लेने, रखने अथवा परासने में यत्नाचार का न रखना; समिति का अभाव. Carelessness in speech, movement, taking up and laying down things or in laying down the filth of the body. भग० २०, २;

**असमित्र.** पुं० ( असमित्र ) क्षणिकवादने भाननार अश्वभित्र नामनो चेथे। निह्व. क्षणिकवाद को मानने वाला अश्वभित्र नामक चौथा निह्व ( मत प्रवर्तक ). The fourth Ninhava named Aśvamitra; a follower of the doctrine of Kṣaṇīka-vāda. विशे २३०१;

**असमिय.** पुं० ( असमित ) भ्रात्वा, चालवा, आवा, पीवा वगेरेभाँ उपयोगशून्य ( ज्ञन ). बोलना. चलना, खाना, पीना इत्यादि में उपयोग न रखने वाला ( जीव ). A soul devoid of carefulness in speech, gait etc. परह० १, २;—कारि. त्रिं ( -कारिक ) वगर विचार्यु उरनार. बिना विचारे करने वाला. ( one ) acting thoughtlessly or rashly. इसा० ६, ४;—प्पलाचि. त्रिं ( -प्रसाधिन् ) वगर विचार्यु भ्रात्वनार. बिना विचारे बोलने

बाला. ( one ) speaking thoughtlessly or rashly. परह ० १, २; —भासि. त्रिं ( -भाषिन् ) विचार्या विना घोलनार बिना विचारे बोलते बाला. (one) speaking thoughtlessly or rashly. परह ० १, २;

**असमिय.** अ० ( असम्यक् ) अयुक्त. अयोग्य; अयुक्त. Improper; not right. 'असमियंति मरणमाणसस पुगदा सभिया होइ समियंति मरणमाणसस पुगदा असमिया होइ " आया० १, ५, ५, १६३;

**असमिय. त्रिं** ( अशमित ) शान्त न थथेल. अशान्त; शान्त रहित. Not calmed; not quieted. आया० १, २, ३, ८१; १, २, ६, १०४; —दुःख. त्रिं ( -दुःख ) जेनुं दुःख उपशम्युं नथी ते; दुःखनी शानि वगरनो. जिसके दुःख का उपशम न हुआ हो वह; दुखी. ( one ) whose pain or misery is not subsided; ( one ) still troubled with misery. आया० १, २, ३, ८१; १, २, ६, १०४;

**असमिया.** अ० ( असम्यक् ) स.रुं नहि; अयथार्थ. अयथार्थ; अयुक्त. Improper; not right. भग० २, ५;

**असमुपरणपुव्व.** त्रिं ( असमुत्पन्नपूर्व ) पूर्वे उत्पन्न न थथेल. जो पहिले उत्पन्न न हुआ हो वह. Not existing before; unprecedented. दसा० ५, १६; १८; ७, १२;

**असमोहय.** त्रिं ( असमवहत ) भूत्य वथते सभुद्धात कर्या विना अंदुडना लडाकानी भाइक ऐकी स.वे जे छुवना ब्रह्मेश शरीरने छाई परलोइ तरक प्रयाणु करे ते; असमोहय। भरणे भरनार छुव. मृत्यु के समय में समुद्धात किये बिना बंदूक की आवाज़ के समान

एक साथ जिस जीव के प्रदेश शरीर को छोड़ जाँय वह; असमोहय। नामक मृत्यु से मरने वाला. Simultaneous departure of all the soul-particles from the body at the time of death; a soul thus dying. भग० ११, १; १६, ३; २४, १; —मरण. न० ( -मरण ) भूत्य वथते सभुद्धात कर्या विना अंदुडना लडाकानी भाइक ऐकी स.वे छुवना ब्रह्मेश शरीरने छाई परलोइ तरक प्रयाणु करे ते; असमोहय। भरणे. मृत्यु के समय समुद्धात बिना किये बंदूक के भड़के के समान जीवप्रदेशों का एक साथ शरीर से निकल जाना; असमोहय। नामक मरण। death known as Asamohaya; simultaneous departure of all the soul-particles for good, from the body like the report of a gun. जावा० १;

**असम्म.** त्रिं ( असम्यक्-दृष्टि ) सम्यक् दृष्टि-रहित; समझित विनानो। गम्यक्व बिना का. Devoid of right faith. क० प० २, ५६;

**असम्माणिय.** त्रिं ( असन्मानित ) सन्मान-रहित। सन्मान रहित। Not honoured or respected. नाया० १; ८; १६; निर० १, १;

**असयं.** अ० ( अस्वयम् ) गोताना विना। खुद के विना; अपने विना। Not oneself; any body else than oneself. भग० ६, ३३;

**असयारंभ.** पुं० ( असदारम्भ ) जुओ। 'असदारंभ' शब्द। देखो 'असदारंभ' शब्द। Vide 'असदारंभ.' पंचा० १, १७;

**असरण.** त्रिं ( अशरण ) आधाररहित;

शरणरहित. आधार रहित; शरण रहित. Helpless. ठा० ४, १; परह० १, १; विवा० ६; ( २ ) न० जेमां शरण-धर न थी ते; संयम. ऐसा संयम जिसमें शरण-धर न हो. houselessness; asceticism. ‘सोगे अद्वक्षु एताइं सोउलाइं गच्छति शायपुसे असरणाइ’ आया० १, ६, १, १०; (३) अशरण भावना; संसारमां धर्म सिवाय अन्य केऽध शरण न थी ऐम चित्तवनु ते. ‘संसार में धर्म के सिवाय कोई शरण नहीं’ इस प्रकार चिन्तवन करना. the meditation that excepting right religion there is nothing to help the soul. प्रब० ५७६; —अग्नुपेहा. ली० (-अनुग्रेहा) ‘संसारमां जन्म भरणु वगेरेमां अग्नु रक्षणु केऽनार धर्म सिवाय भीजुं केऽथ न थी’ ऐम चित्तवनु ते; अग्ने जिन भगवान् सिवाय केऽध शरण न थी ऐवी भावना. ‘संसार और जन्म मरण से जीव की रक्षा करने वाला सिवाय धर्म के दूसरा कोई नहीं है’ ऐसा भावना. meditation upon the soul's helplessness in the world. ओव० २०; भग० २५, ७; ठा० ४, १;—भावणा. ली० (-भावना) ‘भरणु समये अरिहंत देव सिवाय केऽध शरण आपे तेम न थी’ ऐम चित्तवनु ते; भार भावनामांनी भीजु भावना. ‘मृत्यु के समय अरिहंत देव के सिवाय दूसरा कोई शरण नहीं दे सकता’ ऐसा चित्तवन करना; बारह भावनाओं में से दूसरी भावना. the meditation that at the time of death nobody can afford any help or shelter to the soul except Arihanta; the second of the 12 Bhāvanās or meditations. प्रब० ५७६;

असरमाण. व० ह० अ० ( असर्वमाण ) न संभारतो; जेने संभारवामां न आपे ते. याद न किया जाता हुआ. ( One ) not being remembered. वब० ४, १६;

असरिस. त्रि० ( असदृश ) असमान; समान पशुथी रहित. समानता से रहित. Dissimilar; not similar. भग० १२, ६; परह० १, २;

असरीर. त्रि० ( अशरीर ) शरीररहित; सिद्ध. शरीर रहित; सिद्ध. Disembodied; a Siddha. “असरीरा जीवघणा दंसणनाणोवउत्ता” भग० १७, २; १८, ४;—पडिवद्ध. त्रि० (-प्रतिवद्ध) सर्व उदारिक आदि शरीररहित. औदारिक आदि शरीरों से रहित. devoid of all kinds of bodies such as physical etc. भग० १६, ३;

असरीरि. पुं० ( अशरीरिन् ) शरीररहित अव; सिद्ध भगवान्. शरीर रहित जीव; सिद्ध भगवान्. A disembodied soul; a Siddha. भग० १, ७; २, १; १६, १; १८, १; जीवा० १०; ठा० ६, १;

असलेसा. ली० ( अश्लेषा ) अश्लेषा. नक्षत्र. अश्लेषा नक्षत्र. The constellation Aslesā. सम० ६;

असवण्या. ली० (\*अश्रवणता-अश्रवण) न सांखणु ते; अवणुने अभाव. न सुनना; अवण का अभाव. Not hearing; absence of hearing. सू० २, ७, ३८; भग० १, ६;

असवधारणा. त्रि० ( असर्वज्ञ ) असर्वज्ञ; छद्मस्थ. असर्वज्ञ; छद्मस्थ. ( One ) not omniscient; ( one ) in the stage of Chhadmastra. भग० १४, १;

**असह.** श्री० ( असह ) असह-टेवटुर अने उत्तरकुरुक्षेनना भनुभ्यनी ऐड जाति. असह-देवकुरु और उत्तरकुरु के मनुष्यों की एक जाति. A species of human beings residing in Devakuru and Uttarakuru. जीवा० ३, ४;

**असहत.** व० कृ० त्रिं० ( असहत ) सहन न करते. सहन न करता हुआ. (One) not enduring. नाया० १७;

**असहण.** न० ( असहन ) सहन न करने ने. सहन न करना. Not enduring; non-endurance. नाया० ११;

**असहमाण.** व० कृ० त्रिं० ( असहमान ) सहन न करते; सहन न करता हुआ. (One) not enduring. भग० ३, १; १६, ५; नाया० १६;

**असहिज्ज्ञ.** श्री० ( असहाय्य ) सहायनी अपेक्षा-धृच्छा न करनार. सहाय की इच्छा न करने वाला. (One) not wishing, expecting help. भग० ३, ५;

**असहु.** श्री० ( असह-न सहत इत्यसहः ) चारित्रिनुं कृ४ सहन कर्त्तव्याने असमर्थ राज्यकुभारादि; तकलाहि-सुउडभवशारीरवाणो. चारित्र का कष्ट सहन करने में असमर्थ राजकुमारादि; कोमल शरीर वाला. Delicate in body; ( one ) unable to endure the hardships of right conduct, e. g. a prince etc. ठा० ३, ३; शोध० नि० भा० ६८;

**असहेज्ज.** श्री० ( असहाय्य-अविद्यमानं साहाय्यं परसाहायिकमस्यन्तसमर्थत्वाद् येषां तेऽसाहाय्या अपयपि देवादिसाहाय्यावपेक्षकाः स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भोक्तव्यमित्यः दीनमनोबृत्यः ये पालणिहिमः प्रारक्षाः सम्यकूत्साद् विचक्षनं प्रति न परसाहायिकम-

पेषन्ते किन्तु स्वयमेव तत्प्रतिष्ठातसमर्थत्वां-जिनशासनात्यन्तभवित्वात् ते सुआवकाः ) भीमनीसहायनी धृच्छा न राखनार; हुःभां पथु देवतानी सहायनी धृच्छा न करनार; आपथा कीधिला कर्म आपथे-पेतेज भोगवां ऐवी अदी भनेवित्वाणा शावक. दूसरे की सहायता की इच्छा न रखने वाला; दुःख में देवों की भी सहायता न चाहने वाला; स्वयं किये हुए कर्मों को स्वयं ही भोगना है ऐसी अदीनमनोवृत्त वाला शावक. (One) who does not desire the help of others even in distress; a high-spirited Śrāvaka prepared to endure the results of his own Karma. भग० २, ५;

**असाडभूद्.** पुं० ( आपाडभूति ) प्राचीन-समयमां धर्मसंघि सूरिना शिष्य आपाडभूति नामे ऐड साधु हुता; ते ऐक्षदा विश्वकर्मा नामे राजनटने धरे वहेऽरवा गया. त्याथी ऐक्षदा भोद्दक-लाडवो भज्ये; भद्दार नीडल्या पछी 'आ ऐड तो युरु लेशे, भने नहि भजे' ऐम विचारी रूप परावर्तन करी भीष वार नटने धरे गया. वणी 'आ तो उपाध्याय लेशे' ऐम विचारी रूप भद्वावतां भद्वावतां फ्री फ्री ज्वा भाँड़ु; डोध वभते सुंदर तो डोध वभते ऐडोण, डोध वभते काष्ठो। तो डोध वभते डोढी, ऐम रूप भद्वावतां वहेऽरवां आवता विश्वकर्मा नटे जेया. तेषु पोतानी अति सौंदर्यवती ऐ पुत्रीओने कुल्ल, डे डोर्प पथु प्रकारे आ भाल्युसने लश करो। तो ते आपथुने वहु उपेयां थर्द पडे. पुत्रीओये तेने धामे धामे लालयमां नाभी लश कर्यो। चारित्र-थी पतित थर्द गुरने छोडी नटनो वेष पहेयो। नटकणामां प्रवीण थर्द नटनो सरदार अन्यो। २४वाडाने रीजनी द्रव्य लाल भेगवां लाभ्यो। तेने भद्विरा उपर धष्ठो तिरस्कार होतो,

तेथी नटनी जलाभुव्यधी तेनी पुनीम्यामे  
महिरनो त्याग कर्ये होतो, एकदा के.६ राज्ये  
स्थाये। विना भान नटेयेज राज्यसभामां  
आणी नाटक करुन अेनुं इरभायेलुं हुं.  
आपाठभूतिनी ऐ स्थायेये विचार कर्ये, के  
व्याप्त राते पति नहि आवे भाटे मदिरा पान  
कुरीये, तेम करी वस्त्ररुति थध भेडी  
उपर सुती... राज्ये कंई कारणु पडवायी  
नाटक पाडवानुं सुक्षतवी राख्यु; तेथी  
आपाठभूति धेर आवतां, ऐ स्थायेनी  
डेशी दशा नेई, विरक्त थयो अने पाणे  
पल्यो. आ अभर विश्वकर्माने पउतां पुर्णीने  
इपडा आपा तेने सभजवा भेडली, आपाठ-  
भूतिने पगे पडी विनववा लागी, के कांतो !  
पाण धरू अने कांतो ! अभारी उविक्तानो  
बंदेवस्त करो. आपाठभूतिये एक राष्ट्रपाल  
नाटक रच्युं. राज्यगृह नगरना सिंहरथ राज्ये  
तें ते नाटक भज्यवा मुक्तर२ कर्यु. पांचसे  
राज्यकुमारेनी भागण्यु करी; राज्ये ते  
आप्या, त्यारे पोते भरतयक्षयती बन्ये  
अने ५०० राज्यकुमारेने सामंतो भनानी  
घेल लज्जयो. आपेहुं त्यार रत्न, नव-  
निधान, अरीसाधर वगेरेनो देखाव करी,  
आभर अरीसा भवनमां ५०० राज्यकुमारे-  
एकरौनी साथे घोष पाभी साधु थाय छे  
अने आल्येहु. वगेरे पोतानी ऐ स्थायेने  
उविका अर्थं सोंपी दीक्षा द्ये छे. आ २१४-  
पाल नाटक एटलु तो सरस रचायुं, के त्यार  
पठी पश्य विश्वकर्माये ज्यारे लज्जयुं त्यारे  
त्यारे क्षत्रियकुमारो भवनित थध गया. क्षत्रिय-  
मा वधा विरक्त थध जरो अेथी देशतथी  
पाण्या आ २१४पाल नाटक अनिभां भागी  
देवामां आव्यु. प्राचीन समय में धर्मसूचि  
सूरी का आशाढभूति नामक शिष्य था । यह  
एक बार विश्वकर्मी नामक राजनट के घर  
पर मिळा लेने गया । वहां भिज्ञा में उसे एक

लड्डू मिला, बाहिर आने पर उसने विचार  
किया कि 'यह लड्डू तो गुरु ले लेगे, मुझे  
नहीं मिलेगा' तब रूप बदल कर फिर नट के  
यहां भिज्ञाठर्थ गया । दूसरी बार फिर लड्डू  
मिला, फिर उसने विचार किया कि 'यह तो  
उपाध्याय लेगे' फिर रूप बदल कर गया ।  
इस प्रकार बार २ जाने लगा कभी सुंदर रूप  
धारण करता तो कभी कुरुप हो जाता कभी  
काने और कभी कोङी का रूप धारण करता ।  
विश्वकर्मी नट ने उसकी यह बेष्टा जानकर अपनी  
अतिसौंदर्यवती दो पुत्रियों से कहा कि, किसी  
भी प्रकार इस पुरुष को वश में करें तो यह अपने  
बहुत काम आयगा । पुत्रियों ने उसे वश में किया,  
और चारित्र से पतित होकर वह नट के यहां रहने  
लगा । नाव्य कला में प्रवीण होकर नटों  
का सरदार बना तथा राजाओं को प्रसन्नकर  
द्रव्य लाभ करने लगा । यह मदिरा का कट्टर  
विरोधी था । इस लिये नट की दोनों पुत्रियों  
ने भी अपने पिता के कहने से मदिरा का  
त्याग किया । एक बार किसी राजा ने विना  
स्थी के केवल नटों-पुरुषों को ही राजसभा में  
नाटक करने की आज्ञा दी । तब आशाढभूति  
की दोनों लियों ने विचार किया कि आज रात  
को पति नहीं आवेगा अतः मदिरा पान करना  
ठीक होगा और इस विचार के अनुसार मदिरा  
पानकर वस्त्र रहित अवस्था में मकान की  
छतपर सो गई । उधर राजा ने किसी कारण  
से नाटक करना बंद करवा दिया । अनः आशाढ-  
भूति घर पर आया और दोनों लियों को  
नशे की हालत में देखकर वह पीछे फिर गया  
और विरक्त होगया । विश्वकर्मी को जब यह  
विदित हुआ तब उसने पुत्रियों को फटकारा  
और आशाढभूति को फिर 'समझाने के लिये  
मेजा । वे लियाँ आशाढभूति के पास आईं  
और पैरों पर पढकर कहने लगी कि 'या तो  
आप घर चलें या हमारी आजीविका का प्रबन्ध

करे'। तब आषाढभूति ने राष्ट्रपाल नामक एक नाटक की रचना की और राजगृह नगरी के राजा सिंहरथ की राजसभा में उस नाटक का खेलना निश्चित कर राजा से ५०० राजकुमार मांगे। राजा ने देना स्वीकार किया तथा नाटक खेला गया। आषाढभूति ने भरतचक्रवर्ती का रूप किया और ५०० राजकुमार सामन्त बने। इस नाटक में चौदह रत्न, नव निधान, अरीसा भवन आदि का दृश्य दिखाया। फिर अरीसा भवन में ५०० राजकुमारों के साथ विरह होकर दीक्षा ली और आभूषण वैरह अपनी छियों को जीविका के अर्थ दे दिये। यह राष्ट्रपाल नामक नाटक हतना सुंदर रचा गया था कि, विश्वकर्मी नट जब जब उसे खेलता तब तब चात्रिय राजकुमार दीक्षित होते थे। अतः सम्पूर्ण चात्रिय राजकुमारों के दीक्षित होने के भय से यह नाटक अग्नि में जला डाला गया। In ancient times Āṣāḍhabhūti was the disciple of Dharmaruchiśūri. Once he went to Viśvakarmā, a royal actor to ask for food. He got one sweet-ball from that place. While coming out from the house he thought that the Guru would take the ball and he would get nothing; so thinking he changed his form and went to the actor a second time. Thinking that the priest would take the second ball, he changed his form and went again. Viśvakarmā saw him coming with different forms—some times beautiful, some

times awkward, some times one-eyed, some times leprous. He told his two beautiful daughters that if the man were fascinated, he would be useful to them. The daughters after enticing, fascinated him. Having given up his asceticism, he abandoned his Guru and put on the dress of an actor. He became the leader of actors after becoming proficient in the art of acting. He used to earn a mass of wealth by propitiating princes. He disliked wine and so the two daughters of Viśvakarmā gave it up through his advice. Once a king had ordered that only the actors, without any woman, should perform a play at the court. The two wives of Āṣāḍhabhūti thought that their husband would not be at home that night and so they could take wine. They did accordingly and slept upstairs quite naked. The king postponed the performance owing to some circumstances; so Āṣāḍhabhūti returning, saw the drunken plight of the wives, lost all attachment for the world and returned. When Viśvakarmā came to know about this, he reproached his daughters and

sent them to conciliate him. They bowed down before Āśādhabhūti and requested him either to return or to arrange for their maintenance. Āśādhabhūti composed a drama named Rāṣṭrapāla and settled to perform the drama before Siṁharatha, the king of Rājagṛīha city. He asked for 500 princes to act as players and the king consented. He took the part of Bharata, the suzerain and making the princes his tributary kings, performed the drama. He showed the actual scene of 14 jewels, 9 Nidhānas, house of looking-glasses etc. At last in the house of looking-glasses he, together with the 500 princes, became a Sādhu after getting knowledge, and entered the order of asceticism, giving all ornaments to his wives as the means of their support. The Rāṣṭrapāla drama was so nicely composed that whenever Viśvakarmā performed it, the Kṣatriya princes entered the order of asceticism. Afterwards the Rāṣṭrapāla drama was burnt in the fire through the fear that all Kṣatriyas would renounce the world by witnessing it. पि० नि० ४७४;

**असाठ.** पुं० ( आषाढ ) अपाइ भास. आषाठ मास-आषाढ महीना. The month Āśādha. नाया० ५; ( २ ) एक ज्यतनी पर्व-गांडवाणी वनस्पति. एक प्रकार की गाँठ बाली वनस्पति. a kind of vegetation with joints. पञ्च० १;

**असाता.** स्त्री० ( असात ) असातावेदनीय कर्म भोगन्तु ते. असातावेदनीय कर्म का भोगना. Act of bearing painful Karma. पञ्च० ३५;—वेदग्रन्थि० (—वेदक). असातावेदनीय कर्म भोगनारुप. असाता वेदनीय कर्म भोगने वाला जीव. a soul bearing painful Karma. पञ्च० ३; भग० २४, १, ३५, १;

**असाय.** न० ( असात ) वेदनीय कर्मनी एक प्रकृति, डे जेना। उद्यथी शुद्ध असाता-दुःख-पीड़ा पामे. वेदनीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव असाता-दुःख पाता है. A variety of Vedaniya Karma maturing of which the soul by the experiences pain. भग० ६, १; ठा० २, ३; उत्त० ३३, ७; परह० १, १; पञ्च० ३४; क० गं० १, १२; २, २३; ३३; ५, १६; क० प० १, ६१; २, १०३;

**असायण.** पुं० ( आश्वायन ) अथ ऋषिना वंशजे. अश्व ऋषि का वंशज. A descendant of Ashva Rishi. जं० ५०

**असाय-या-वेयगिरुज.** न० ( असातवेदनीय ) वेदनीय कर्मनी एक प्रकृति, डे जेना। उद्यथी शुद्ध दुःख पामे छे. वेदनीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव दुःख पाता है. A variety of Vedaniya Karma by the maturing of which the soul experiences pain. ठा० ७; सम० ३७; भग० १, १; ७, ६; ८, १;

**असार.** त्रिं ( असार ) शाररहित. सार हीन; सार रहित. Worthless; un-substantial. प्रब ० ७३०;

**असारश्च.** त्रिं ( असारक ) साररहित. सार रहित. Worthless; un-substantial. “ साहारणं अयाणंतो, साहु होइ असारश्चो ” ओघ ० निं ५६७;

**असारंभ.** पुं० ( असारम्भ ) प्राणीना वधने संकल्प न करये। ते; प्राणातिपातरूप संकल्पने। अभाव. जीवों के वध का संकल्प न करना; प्राणातिपातरूपी संकल्प का अभाव. Absence of thought about killing etc. of sentient beings. “ सत्तनिहे असारंभे परणात्तं, तंजहा-पुढ़वीकाइय-असारंभे ” ठा० ७; भग० ३, २; ८, १;

**असारंभमाण.** व० कृ० त्रिं ( असारम्भमाण - असमारम्भमाण ) प्राणीना वधने संकल्प न करतो। प्राणी के वध का संकल्प न करता हुआ. Not meditating on killing or injuring sentient beings. भग० ३, २;

**असारहिय.** त्रिं ( असारथिक ) सारथिरहित. सारथी रहित. Devoid of a charioteer. भग० ७, ६;

**असालिया.** ली० ( आसालिका ) आसारीआ जनने। ऐक सर्प. आसारीया जाति का एक सर्प.

A kind of serpent. सू० २, ३, २४;

**असावज्ज.** त्रिं ( असावद्य ) पापरहित; निर्दोष. पाप रहित; निर्दोष. Sinless; faultless. “ अहो जियेहि असावज्जा वित्तो साहुकृ देसिया ” दस० ५, १, ६२; भग० २५, ७; उत्त० २४, १०;

**असावज्जा.** ली० ( असावद्य ) निर्दोष भाषा; पापरहित-निरवद्य भाषा. निर्दोष-भाषा; पाप

रहित भाषा. Sinless speech; harmless speech. भग० १८, ७;

**असासत्य.** त्रिं ( अशाश्वत ) नाशवंत; अनित्य; अस्थिर; नश्यत. नाशवान्; अनित्य. Perishable; evanescent. उत्त० ८, १; १३, २०; ठा० २, १; आया० १, १, ५, ४६; १, ५, २, १४७; दसा० १०, ६; दस० १०, १, २१; नाया० १; भग० १, ६; ७, ८; ८; ८, ३३; १४, ४; १८, ७; जं० ४० ७, १७५;

**असाहारण.** त्रिं ( असाधारण ) साधारण नहि; ऐनानेजु भीजु नहि ते. असाहारण; जिसके समान दूसरा न हो वह. Extraordinary; having no parallel. विशे० ८६; —कारण. न० ( -कारण ) असाधारण-मुख्य कारण; उपादान कारण. principal or material cause. विशे० १७४;

**असाहु.** त्रिं ( असाहु ) अविनीत-डुटिसेत साधु. अविनीत-विनय रहित साधु. A Sādhu lacking in reverence; a disobedient Sādhu. दस० ७, ४८; उत्त० १, २८; ( २ ) अमंगल; असुंदर. अमंगल; असुंदर. inauspicious; bad. सू० २, ५, १२; ( ३ ) अनर्थकर; अनर्थहेतु. अनर्थकारक; अनर्थहेतु. cause of evil or calamity. सू० १, २, २, १८; ( ४ ) गोशाला आदि डुर्दीनना साधु. गोशाला आदि कुर्दर्शन का साधु. ascetics of false faith like Gosālā etc. दसा० ६, ४; ( ५ ) असंयति; अप्रती; अअल्पारी. अप्रती; व्रत रहित; अब्रह्मचारी. vowless; incontinent. ठा० ७, १०; —कर्म्म. पुं० ( -कर्म्म ) ईर्ष ईर्ष; जन्मान्तरमां करेखं अशुल अतुधान. कूर

कर्म; पूर्व जन्म में किया हुआ अशुभ कर्म.  
cruel deed; evil deed done in past life. सूय० १, ५, ९, ६; (२) पुं० ३२२ कर्मवाण। परमाधारी. क्रूर कर्म करने वाला परमाधारी. Paramādīhāmīs who do cruel deeds. सूय० १, ५, ९, ६;—दंसण. न० (—दर्शन) असाधु दर्शन; दुर्दर्शन. असाधु दर्शन; कुर्दर्शन; मिथ्यादर्शन. false faith; wrong belief. नाया० १३;—धर्म. पुं० (—धर्म) स्थान करनुं, तर्पणुं करनुं धर्मादि असंयतिएओ अथवेत् धर्म. असंयतियों का बताया हुआ—स्नान, तर्पण करने रूप धर्म. religion of the unrestrained in senses, e. g. bathing, performing Tarpana etc. “असाधुधर्माणि ण संबप्ता” सूय० १, १४, २०;

**असाधुया.** ली० ( असाधुता ) साधुतानो अक्षात्; असाधुपृष्ठुं साधुता का अभाव. Absence of goodness; absence of asceticism. दस० ५, ३, ३८;  
**असाहुयं.** अ० ( असाधुत् ) असाधुनी ऐडे. असाधु के समान. Like a man who is not a Sadhu. उत्त० २, २७;

**असाहेमाण.** व२ क० त्रिं० ( असाध्यत् ) कार्य न साधते. कार्य न साधता हुआ. Not accomplishing any purpose. भग० १५, १;

**असि.** पुं० ( असि ) खड़ग; तखवार. खड़ग; तलवार. A sword. सम० १४; भग० १, ८; ३, ५; ६, ३३; १४, ८; नाया० १; ८; ६; १५; १६; जीवा० ३, ३; जं० प० (२) पुं० न० तखवार बांधी तोड़ी करवी ते; हुथीयार कर्म. असि कर्म; शब्द आदि धारण करने का कर्म. military service. जीवा० ३, ३; जं० प० ( ३ ) नारकीना छुवने तखवार वडे छेदनार परमाधारी.

नारकी जीव को तलवार से छेदने वाला परमाधारी. a Paramādīhāmī who hacks the Nāraki beings with a sword. भग० ३, ६;—खड़ग. न० (—खेटक) तखवारसहित भ्यान. तलवार सहित भ्यान. a scabbard with a sword in it. परह० १, १; नाया० ६;—खेचणी. ली० (—खेपणी—असि: खिप्प्यते यस्यां साऽसिक्षेपणी) ६५. ढाल. a shield. जं० प०—चरमपाय. न० (—चर्मपात्र) भ्यान; तखवारसहित भ्यान. भ्यान; तलवार सहित भ्यान. a scabbard “असिचर्मपायहस्थकिङ्गगद्यं अपायोगेणति” भग० ३, ५;—धारव्यय. न० (—धाराक्रत) तखवारनी ( भांडनी ) धार पर याक्षया लेनुं व्रत; अतिकृद्धिन व्रत. तलवार की धार पर चलने के समान व्रत; अतिकठिन व्रत, an austere vow; a vow as difficult as the act of walking on the edge of a sword. नाया० १;—धारा. ली० (—धारा) तखवारनी धार. तलवार की धार. the edge of a sword. भग० ५, ७; १८, १०; उत्त० १६, ३७; नाया० १; १४;—धाराग. न० (—धाराक—असेधारा यस्मिन् व्रते आक्रमणीयतया तदसिधारकम्) जुओ। “असिधारव्यय” शब्द. देखो “असिधारव्यय” शब्द. video “असिधारव्यय.” “असिधारागं दयं चरियं” भग० ६, ३३;—धारागमण. न० (—धारागमन) खड़ग—तखवारनी धारपूर याक्षनुते. तलवार की धार पर चलना. the act of walking on the edge of a sword. उत्त० ४६, ३८;—पंजर. न० (—पञ्जर) तखवारनुं पांजरुं; इरटी तखवारथी बनेनुं पांजरुं. तलवार का पिंजरा; किरती हुई तलवार से बना हुआ पिंजरा;

a cage of swords. परह० २, २;—पंज-रगभ. त्रिं (—पञ्जरगत) इत्यात् तरवारवाणा। भाषुसोथी धेरमेल. तलबार घुमाते हुए मनुष्यों से घिरा हुआ. surrounded by men bearing swords. परह० २, २;—पत्त. न० (—पत्र) तरवारनी धार जेवा पांदांवाणु आः; शालभली नामे नरकनुं ऐक आः. तलबार की धार के समान पत्तों वाला झाड़; नरक में होने वाला शालमली नामक झाड़. a tree in hell named Sālmali; a tree having leaves like the edge of a sword. उत्त० १६, ६०; भग० ३, ७; नाया० १६; ठा० ४, ४; जीवा० ३, १; विवा० ६; (२) तरवारनी जेवा पांदांवाणु शालभली नामे दृश्य विकुर्वी तेनी नामे ऐसाईने नारकीना; तलबार नंवडा कटका करी नापे ते; परभधामी हैततानी नवभी जत. तलबार के समान पत्तों वाले शालमली नामक वृक्ष को देवमाया से प्रकटकर उसके नाचे नारकीयों को बैठाकर उनके टुकड़े २ कर डालने वाला; परमाधामी देवताओं की नवीं जानि. the ninth kind of Paramādhāmis seating Nārakis under supernaturally created Sālmali tree with its sword-like leaves and hacking them to pieces. सम० १५; सूय० नि० १, ५, १, ७६;—रथण. न० (—रत्न) चक्रवर्तीनुं ऐक रत्न; खड्गरत्न. a jewel of a Chakravarti ( a paramount king; ) a sword-jewel. ठा० ७, १; पञ्च० २०; जं४ प० ४, ६७;—लक्षण. न० (—खड्ग) तरवारना लक्षण जानने की कला. the act of knowing the marks of

a sword. सूय० २, २, १०; जं० प० ३; नाया० १;—लहिं ली० (—यष्टि) तरवारनी वाणी लाङडी; युभी. तलबार की लकड़ी; गुति. a sword-stick. विवा० १, ३; ओब० भत्त० ५८;—चण. न० (—चन) खड्गना। आकारे पांदांवाणां वृक्षनुं वन. तलबार के आकार के समान पत्तों वाले वृक्षों का वन. a grove of trees having leaves of the form of a sword. परह० १, १;—चर. पुं० (—वर) श्रेष्ठ खड्ग. श्रेष्ठ खड्ग—तलबार. the best sword; an excellent sword. नाया० ६;

असिद्धु. त्रिं (अशिष्ट-अकथित) न क्षेत्रु. न कहा हुआ. Not told. परह० २, १; असिणाह. त्रिं (अस्तायिन) स्नान नहि करना. स्नान न करने वाला. One who does not take a bath. सम० ११;

असिणाण. त्रिं (अस्तान) स्नानरहित; स्नान रहित. Unbathed; bathless. दस० ६, ६३; (२) न० स्नान नहि करनुं ते. स्नान का न करना. absence of a bath. पंचा० १०, १८;—महिंद्रग. त्रिं (अधिंहत) गेमा स्नाननो। प्रति भेद भेद अनुग्रान करना. जिसमें स्नान का नियंत्र-मताही है ऐसा अनुग्रान करने वाला. one who practises religious performance in which a bath is prohibited. “जावजीव वयं धोरं असिणाणमहिंद्रगा” दस० ६, ६३;

असिणाणग्र. त्रिं (अस्तानक) स्नानरहित; स्नान न करना. स्नान रहित; स्नान न करने वाला. Bath-less; one who does not take a bath. दस० ६, २; असित. त्रिं (असित) पुत्र क्षत्रियादि अभद्र; मुनिविशेष। जो पुत्र आंदि से न बंधा हुआ; मुनिविशेष. Not tied to or

fettered by wife, children etc.  
name of a saint. आया० १,५,५,१६१;

**असित्थ.** न० ( असिकथ ) प्रवाही आहार;  
दैणीचा वणी न शडे अवेषा आहार. प्रवाही  
आहार; जिसका कवल-प्रास न बंध सके ऐसा  
भोजन. Liquid food. कप्प० ६, २५;  
**असिद्ध.** पु० (असिद्ध) संसारी शृङ्. संसारी जीव.  
A worldly soul; a soul not  
liberated. भग० १, ६;

**असिद्धत्व.** न० ( असिद्धत्व ) असिद्धपाणु;  
सिद्धपाणुनो अभाव. सिद्धपन का अभाव.  
Absence of Siddhahood i. e  
state of final emancipation.  
प्रव० १३०७;

**असिद्धि.** ली० ( असिद्धि ) सिद्धिनो अभाव;  
मेहक्षिनो अभाव. सिद्धि का अभाव; मोक्ष का  
अभाव. Non-liberation from world-  
ly existence; absence of salva-  
tion. भग० १, ६; सूर्य० २, ५, १२; —मग्ग.  
न० (-मार्ग—न विद्यते सिद्धमोक्षस्य विशिष्ट-  
स्थानोपलक्षितस्य मार्गो यस्मिन्नासाव-  
सिद्धिमार्गः) जेभां मेहादमार्ग नथी ते; मेहक्ष  
मार्गथी विपरीत अतुष्ठान. मोक्ष मार्ग से  
विपरीत मार्ग. a performance which  
does not lead to salvation. सूर्य०  
२, २, ३२;

**असिप्पजीवि.पु०** ( अशिल्पजीविन् ) शिल्प-  
कारीगरी आहि धंद्ये करी गृहन चलावनार  
नहि; कारीगरी वेगे सावध व्यापारने  
तज्जनार. शिल्पादि से आजीविका न चलाने  
वाला; कारीगरी आदि पाप व्यापार को न करने  
वाला. One who does not main-  
tain himself by mechanical  
arts involving sinful opera-  
tions. “असिप्पजीवी अगिहे आमित्ते” उत्त०  
१५, १६;

**असिय.** न० ( अशंस् ) हुरसनो। देव. बवासीर;  
मस्तं का रोग. The disease known  
as piles. “जे भिक्खु अध्ययो कायंसि गंडं  
वा पलियं वा अरियं वा असियं वा” निसी०  
२, ३४;

**असिय.** त्रि० ( असित ) डृष्टु; काणु; अशुभ.  
काला; अशुभ. Black; inauspicious.  
सु० च० २, ३५; जीवा० ३, ४; नाया० ८;  
पञ्च० २; जं० १० परद्व० १, ३; (२) विष-  
यादिकभां न व्यंधायेत्. विषयादिक में न बंधा  
हुआ. not entangled in sensual  
pleasures etc. आया० १, ५, ५, १६१;  
—केश. त्रि० (-केश) काणा भेवाणा—केश  
वाणा. काले केशों वाला. black-haired.  
जीवा० ३; —सिरय. पु० (-शिरोज) काणा  
रंगना डेश. काले रंग के केश. black hair.  
नाया० ८;

**असिय.** न० ( असिक ) नानी तखपार; दातरडु.  
छोटी तलवार; हँसिया. A small sword;  
a seythe. नाया० ७; भग० १४, ७;

**असियग.** न० ( असितक ) दातरडु. हँसिया;  
दर्रांत. A scythe. भग० १४, ७;

**असिलाहा.** ली० ( अशलाघा ) अझीर्ति;  
श्वाधा नहि ते. अकीर्ति; अशलाघा. Ill  
fame; disrepute. ठा० ४, १;

**असिलिट्ट.** त्रि० ( अशिलष्ट ) छुकुं; चोटेलुं नहि.  
पृथक्; न चिपका हुआ. Loose; not  
stuck. नाया० ८;

**असिलेस.** पु० ( अश्लेष ) अभ्यंधन; अधननो  
अभाव. बंधन का अभाव. Absence of  
bondage. गच्छा० ७०;

**असिलेसा.** ली० ( अश्लेषा ) अश्लेषा नाभनुं  
नक्षत्र. अश्लेषा नामक नक्षत्र. The  
constellation Aslesā. “असिलेसा  
यक्षत्ते छ तारे परणते” ठा० ६;

**आसिलोग्र.** पुं० ( अश्लोक ) अपथश; अप्रशंसा. अपयश; बदनामी. Ill-fame; disrepute; dishonour. प्रव० १३३३; —भय. न०(—भय) अपथशनु लय. बदनामी का डर. fear of dishonour. प्रव० १३३४, **आसिलोग.** पुं० ( अश्लोक ) अपकीर्ति; अपथश; अप्रशंसा. अपकीर्ति; निन्दा; अपयश. Obloquy; ill reputation; disrepute. सम० ७; विशेष० ३०५२; —भग्न-य. पुं० ( —न्य ) अपकीर्ति—अपथशनो लय. अपकीर्ति—अपयश का भय. fear of infamy or disrepute. ठा० ७, १; सम० ७;

**आसिव.** त्रि० ( अशिव ) अमंगल; अशुभ. अमंगल; अशुभ. Inauspicious; evil; bad. सु० च० २, ३१०; अण्णुजो० १३१; ( २ ) देवताकृत उपद्रव; भार, भरकी, ताव वर्गेरे. कुद्र देवो द्वारा किया हुआ उपद्रव; मरी, बुखार आदि. trouble caused by lowdeities. वब० २, ४;

**आसी.** ली० ( अशीति ) ८०; अंशी. असी; ८०. Eighty; 80. पञ्च० २; भग० ३, १;

**आसीइ.** ली० ( अशीति ) ८०; अंशीनी संग्घ्या. असी की संख्या; ८०. Eighty; 80. नाया० ८; भग० १, ५; सम० ८०; जं० प० २, २३; ५, ११८;

**आसीइम.** त्रि० ( अशीतिम ) अंशीभें; ८० भें. असीवाँ; ८० वाँ. Eightieth; 80 th. कल्प० ७, २२७;

**आसीति.** ली० ( अशीति ) ८०; अंशी. असी; ८०. Eighty; 80. पञ्च० ४; भग० ११, १; २०, ५; २१, ८;

**आसील.** त्रि० ( अशील ) शीघ्र वगरनो; दुश-

यारी. दुराचारी. Loose in character; vicious. उत्त० ५, १२;

**आसीलया.** ली० ( अशीलता-अशील ) शीघ्रनो अभाव; मैथुन सेवनु ते. शील का अभाव; मैथुन का सेवन करना. Absence of chastity; sexual intercourse. ( २ ) चारित्रनो अभाव. चारित्र का अभाव. absence of right conduct. परह० १, ४;

**आसीलवं.** त्रि० ( अशीलवत् ) सावध योगथी निवृत थयेल नहि; चारित्रदीन. पाप से निवृति न पाया हुआ; चारित्रहान. Devoid of character; not free from sinful practices. “आसीलमंत” भग० ८, १०;

**आसीविय.** त्रि० ( असीवित ) सीवेदुं नहि ते. बिना सिला हुआ; बिना सिलाई का. Unsewn; unstitched. प्रव० ५४१;

**आसुअ.** त्रि० ( असुत ) पुत्ररहित. पुत्र रहित. Having no son; sonless. “जहा न होह असुआण लोगो ” उत्त० १४, ८;

**आसुइ.** त्रि० ( अशुति ) शास्त्ररहित. शास्त्र रहित. Devoid of Sāstras; bereft of Sāstras. भग० ७, ६;

**आसुइ.** त्रि० ( अशुचि ) अपवित्र; अशुद्ध. अपवित्र; अशुद्ध. Impure; unholy. पिं० निं०भा०३२; पिं०नि०१६५; निर०३, ४; सु०च० ४, २८३; भग० ६, ३३; जं० प० २, ३६; वव० ३, २७; राय० २६; पञ्च०१; २; नाया० १२; भत्त०३६; ( २ ) न० अपवित्रता; अशुद्धता. impurity; filth. जीवा० ३, ३; नाया० १; ६; भग० ७, ६; ११, ११; दस० १०, १, २१; ओव० ३८; अण्णुजो० १३०; —कुणिम. न० ( —कुणिम ) अपवित्र भास.

अपवित्र मांस. impure flesh; filthy flesh. तंडु०—जायकम्मकरण. न० (-जातकम्मकरण) जन्मती वधते नाड़-च्छेदन वगेरे कर्म करनु ते; अशुद्धि-जन्म-कर्म. जन्म के समय नालच्छेदन वैग्रह अशुद्ध कर्म करना; अशुद्धि-जन्मकर्म. the act of cutting the umbilical cord at the time of birth; an impure ceremony performed at the birth of a child. भग० ११, ११; —विल. न० (-विल) अशुद्धि नीकणवाने छिद्; शरीरभाँथी अशुद्धि वहेवाना० ६२. अशुचिद्वार; मलमूत्र निकलने का द्वार. a hole or aperture in the body to discharge its filth. तंडु० —वेस. त्रिं० (-विश्र) भग भूतादिए करी लिम थथेनु अथवा भीमत्स थथेनु. मल मूत्रादि से लिप्त अथवा बीमत्स. smeared and made dirty with filth. दसा० ६, १; —संकिलिङ्ग. त्रिं० (-संकिलिष्ट) अपवित्र पदार्थाथी दूषित थथेनु ( शरीर ). अपवित्र पदार्थों से दूषित ( शरीर ). (body) polluted with impure things. भग० ६, ३३; —समुपपरण. त्रिं० (-समुत्पन्न) अपवित्रताभां उत्पन्न थथेक. अपवित्रता में उत्पन्न. born in the midst of impurities. तंड०—सामन्त. त्रिं० (-सामन्त) अपवित्र वस्तुनी सभीप रहेनु ( शरीर ). अपवित्र वस्तु के समीप रहा हुआ ( शरीर ). ( body ) remaining in the vicinity of filthy things. ठा० १०;

असुहत्त. न० ( अशुद्धित्व ) अशुद्धि भावना; 'आ शरीर अशुद्धितु लाजन छे, ऐम चिंतवनु ते. 'यह शरीर गन्दा है' ऐसा सोचना. The meditation that the body (one's

body ) is full of impurities. प्रब० ५७६;—भावणा. ची० (-भावना) 'आ देह अशुद्धिभय छे' ऐम चिंतवनु ते; भाव भावनाभाँनी छटी भावना. देह की अशुद्धिता का चिंतन करना; बारह भावनाओं में से छठी भावना. meditation upon the filthiness of the body; the sixth of the twelve Bhāvanās or meditations. प्रब० ५८०;

असुहत्ता. सं० कृ० अ० ( असुप्तवा ) अशुसुधने; सुता वगर. बिना सोये; शयन न करके. Without having slept; without sleeping. ठा० ३, २;

असुहय. त्रिं० ( अशुचिक ) अशुचिरूप; भगभूतादि. अशुचिस्प; मल मूत्र आदिक. Filthy; impure; urine etc. तंड० ठा० १०;

असुक्त. त्रिं० ( अशुष्क ) न सुक्तायेनु; सुक्तु नहि ते; लीनु. बिना सूखा हुआ; हरा. Not dry; green. पिं० निं० २७६;

असुजम्माण. व० कृ० त्रिं० (\*अशुद्धमान-अशुद्धत) थुद्धि न पामतो; अशुद्ध थतो. शुद्धि को प्राप न होता हुआ; अशुद्ध होता हुआ. Not getting purity; becoming impure; not being purified. “ असुजम्माणे छेयविसेसा विसोहंति ” पंचा० १६, १८;

असुरणकाल. पुं० ( अशून्यकाल ) विवक्षित-स्थानमां डेअध बहारथीनवे। ऊन आपी उत्पन्न न थाप अने तेमांथी भरीने डेअध बहार ज्य नहि-ऐटला वधत सुधी। विवक्षित नारङ्गी आहिनी आपी स्थिति रहे तेटलो काग; अविरह काग। जितने समय तक विवक्षित नारङ्गी की आदि की ऐसी स्थिति रहे कि, विवक्षित

अस्थान में उससे बाहर का कोई नया जीव उत्पन्न न हो और न वहाँ का मरकर बाहर जाय उतना समय; अविरह काल. The period of time during which Nāraki and other such souls remain compactly together, no new soul coming in and no old soul going out of a particular area. भग० १, २;

**असुद्ध. त्रि०** ( अशुद्ध ) अशुद्ध; दोषसंहित. अपवित्र; शुद्धता रहित; दोष सहित. Impure; faulty. प्रव० ३०; सम० ५० १६८; परह० ५, २; (२) सावधानुदृष्टि करनार. पाप करने करने वाला. ( one ) doing a sinful performance. "असुद्धपरिशामसंकिलिष्ट भरण्ति" परह० १, १; सूत्र० १, ८, २३; —भाव. पु० ( -भाव ) अशुद्ध अध्यवसाय. अशुद्ध अध्यवसाय; अशुद्ध-दुष्ट भाव. impure thought-activity. पंचा० १८, ३८;

**असुन्न. त्रि०** ( अशून्य ) शून्य नहि ते. अशून्य; शून्यता रहित. Not void; not blank; not solitary. क० प० १, १६;

**असुभ. त्रि०** ( अशुभ ) अशुभ; अभंगल; भराय. अशुभ; अमंगल; बुरा. Inauspicious; bad. अल्लजो० १२७; सम० २५; दसा० ६, ४, ७, १३; नाया० ८; पिं० निं० ५२; जीवा० १; भग० १, ७, ३, २, ५, ६; ८; ७, ६; जं० प० ५, १२३; सूत्र० २, २, ३६; क० प० १, ६०; ( २ ) न० अशुभ-पापकर्म. अशुभ-पाप कर्म. sinful Karma. ठा० ५, १; क० गं० १, ४२; —अशुभवसाण. न० ( -अध्यवसान ) अशुभ. परिखाभ. असुभ-खराब परिणाम.

undesirable thought-activity. पंचा० १६, २८; —अशुद्धेहा. लो० ( -अशुद्धेहा ) संसारनी अशुभतातुं चित्तवन् करनु ते. संसार के अशुभपन्न का चित्तवन करना. meditation upon the evils of worldly existence. भग० २५, ७; ठा० ४, १; ओव० २०; —कर्म. त्रि० ( -कर्मन् ) अशुभ कर्मवाणी. अशुभ कर्म वाला. ( one ) having evil Karmas. परह० १, १; —किरिया. लो० ( -क्रिया ) अशुभ-अभंगल चेष्टा-क्रिया. अभंगल क्रिया; अशुभ चेष्टा. an evil action, a pernicious action. पंचा० १३, ४०; —गंध. पु० ( -गन्ध ) अशुभ-भराय गंध; दुर्गंध. दुर्गंध; बदबू. bad smell; odious smell. नाया० ६; —णाम. न० ( -नामन् ) अशुभ नामकर्म; नामकर्मनी अशुभ-अनिष्ट प्रकृति. नामकर्म की अशुभ-खराब प्रकृति. an evil variety of Nāma-Karma. ठा० २, ४; —णामकर्म. न० ( -नाम-कर्मन् ) नामकर्मनी अशुभ प्रकृति. नाम कर्म की अशुभ प्रकृति. An evil variety of Nāma-Karma. भग० ८, ६; —दुखभागि. त्रि० ( -दुःखभागिन् ) अशुभ प्रकृतिन्य दुःखनो. भागी. अशुभ प्रकृति से उत्पन्न दुःख का भागी. ( one ) sharing in the misery arising from a variety of evil Karmas. भग० ७, ६; जं० प० २, ३६; —पोगल. पु० ( -पुद्गल ) अशुभ पुद्गल; भराय पुद्गल. अशुभ पुद्गल; खराब परमाणु. matter or substance bad in its nature. नाया० ८; ६; —खरण. पु० ( -खरण ) भराय वर्ण-रूप. अशुभ वर्ण-रूप. bad or repulsive colour or appearance. क० प० १, ५७; —विचार.

न० (-विपाक ) असातावेदनीयादिरुपे  
परिणाम आपनार कर्म. असातावेदनीयादि  
रुप से फल देने वाला कर्म. misery or  
pain-entailing Karma; Karma resulting in pain. ठा० ४, ४;  
—स्वर. पुं० (-स्वर) अशुभ-भराथ स्वर-  
अवाज. अशुभ स्वर; कक्ष-अप्रिय आवाज़.  
bad voice; harsh voice. भग० ३, ७;

**अशुभतर.** त्रि० ( अशुभतर ) अति अशुभ.  
अति अशुभ; बहुत ज्यादह अशुभ. Highly  
inauspicious; very bad. नाया० ८;  
**अशुभत्त.** न० ( अशुभत्त ) अशुभपत्त;  
अशुभपत्ता. Inauspiciousness; bad-  
ness. भग० ६, ३;

**अशुमण.** त्रि० (अशुमनस्) शुक्ष मन विनानो;  
अप्रसन्न. खराब मन वाला. Evil-minded;  
cynical in mind. प्रव० १५४;  
**अशुय.** त्रि० ( अशुत ) नडि सांख्येतुं. न  
सुना हुआ. Not heard; unheard. भग०  
१, ६; ३, ७; १८, ७; नाया० १; राय० ४२;  
पिं० निं० २३६; ठा० ८, १;—रिस्तिस्य.

त्रि० (-निश्चित ) सांख्या-अनुबन्धा  
विना उत्पातकी आदि युद्ध-तर्कथी  
थतुं गान; उत्पातकी, वैनिकी, कार्मिकी अने  
पारिणामिकी ऐ चार युद्ध. बिना सुने या  
अनुभव किये उत्पातकी आदि (उत्पातकी, वैनिकी  
की, कार्मिकी और पारिणामिकी ये चार प्रकार  
की) बुद्धि से होने वाला ज्ञान. knowledge  
derived from spontaneous thought; there are four kinds of  
intellect viz Utpātakī, Vainikī,  
Kārmikī and Pāriṇāmikī.  
नंदी० २६; ठा० २, १;—पुब्व. त्रि० (-पूर्व )  
पूर्वे कही नहि सांख्येत. पहिले कभी न सुना

हुआ. not heard before; unheard before. भग० ६, ३३;

**असुयक्खरपरिणामा.** त्रि० ( अश्रुताहरपरि-  
णामा-न श्रुतानुसार्यहरपरिणामो यस्या: सा )  
श्रुतानुसाररहित शब्दमात्र परिणामवाणी  
भति. श्रुतानुसार न होकर केवल शब्दमात्र  
परिणाम वाली बुद्धि. Intellect depending  
on words without following the Śāstras for its develop-  
ment. विशे० १५७;

**असुयवं.** त्रि० ( अश्रुतवत् ) ज्ञानधी रहित.  
ज्ञान से रहित. Devoid of knowledge; ignorant. भग० ८, १०;

**असुर.** पुं० ( असुर ) अवनपति अने वाण-  
वंतर ए ऐ ज्ञानना देवता. अवनपति और  
वाणवंतर इन दो जातियों के देव. The two  
kinds of subordinate gods viz Bhavanapati and Vāṇavyantara.  
(२) असुरकुमार देवता; असुरकुमार देव.  
the Asurakumāra kind of gods.  
नाया० ८; जीवा० १; ३, ४; भग० २, ५; १८,  
७; नंदी० स्थ० ३; ठा० १, १; सम० ३४; उत्त०  
१२, २४; ३६, २०४; ओव० २२; अशुजो०  
१३०;—ठिह. त्रि० (-स्थिति ) असुर-  
कुमारनी स्थिति—आयुष्य. असुरकुमारों की  
आयु. the life period of Asura-  
kumāra gods. भग० २४, १;—दार.  
न० (-द्वार) सिद्धायतननुं दक्षिण॑ ६१२, ५  
०४। असुरों वसे थे. सिद्धायतन का दक्षिण  
द्वार, जहाँ असुर निवास करते हैं. the  
southern door of the abode of  
Siddhas where Asuras reside.  
ठा० २, २;—रणण. पुं० (-राज ) असुर-  
कुमारने। राजा. असुरकुमारों का राजा. the  
king of Asurakumāra gods. सम०

३३;—राया. पुं० (-राज) जुओ।  
‘असुरकुमारराया’ ३०६. देखो “असुर-  
कुमारराया” शब्द. vide “असुरकुमार-  
राया.” भग० ३, १; ज० प० ५, ११६;

**असुरकुमार.** पुं० ( असुरकुमार ) भवनपति  
देवतानी ऐक भूति. भवनपति देव की एक  
जाति. A kind of Bhavanapati  
gods. स० प० २०; भग० १, १; ८, १; पञ्च०  
१; ओव० २२, सम० १; ( २ ) भारभा  
तीर्थ॑२ वासुपूज्यना यदनुं नाम. बारहवें  
तीर्थकर वासुपूज्य के यज्ञ का नाम. a  
name of the Yakṣa ( a kind of  
demi-god ) of Vāsupūjya the  
12th Tirthaṅkara. प्रव० ३७५;  
—आवास. पुं० (-आवास) असुरकुमार-  
ना आवास-महेल-लग्न; असुरकुमार  
देवतानुं निवासस्थान. असुरकुमारों का निवास-  
स्थान. the residence of Asura-  
kumāra gods. भग० १, ५; १८, ५;  
—भवन. न० (-भवन) असुरकुमार  
देवताने रखेवानु स्थान. असुरकुमार देवों के  
रहने का स्थान. the residence of  
Asurakumāra gods. भग० २४, १२;  
—राया. पुं० (-राज) असुरकुमारनों राज.  
असुरकुमारों का राजा. the king of  
Asurakumāra gods. भग० ७, ६;

**असुरकुमारत्त.** न० ( असुरकुमारत्व ) असु-  
कुमारपृष्ठ. असुरकुमारपन. The state  
of being an Asurakumāra god.  
भग० ६, ५; २०, ३;

**असुरसुर.** त्रि० (-असुरसुर) ‘सुरसुर’ ३०६.  
रहित; ‘सुरसुर’ ऐसा आवाज विनामो. ‘सुरसुर’  
ऐसे आवाज रहित; Free from the  
hissing sound like “ Sur,Sur.”  
परह० २, १; भग० ७, १;

**असुरिंद.** पुं० ( असुरेन्द्र ) असुरकुमार  
देवताना धन्द; अमरेन्द्र अने भलेन्द्र. असुर-  
कुमार देवों का इन्द्र; चमरेन्द्र और बलेन्द्र.  
Indra of the Asurakumāra  
gods; Chamarendra and  
Balendra. भग० ३, ८; ३, १७, ६; १८, ७;  
ओव० २३; ठा० २, ४; ३, १; सम० ३३; नाया०  
८; कण्ठ० ५, ११५; ज० प० ३, ३३; ५,  
११८;—चज्जय. त्रि० (-वजिंत) असुरे-  
न्द्ररहित; असुरकुमारना धन्दनी गेरहाजरी-  
वाङ्. असुरेन्द्र रहित; असुरकुमारों के इन्द्र की  
अनुपस्थित-गैर मौजूदगी वाला. devoid  
of the presence of the Indra of  
Asurakumāra gods. भग० १४, ६;

**असुस्वस्त्रणा.** त्री० (\*अशुश्रूपणा-अशुश्रूपण)  
युर आहिनी शुश्रूपण-सेवाभिनि न करी  
ते. गुरु आदि की सुश्रूपा-सेवा न करना.  
Omission of proper services to  
elders etc. नाया० १३;

**असुह.** न० ( असुख ) दुःख. Misery;  
pain. ठा० ३, ३;

**असुह.** त्रि० ( अशुभ ) जुओ. ‘अशुभ’ ३०६.  
देखो “ अशुभ ” शब्द. Vide ‘असुभ.’ भग०  
१, ५; त्रि० निं० १०६; उत्त० १०, १५;  
कण्ठ० २, २७; ( २ ) अशुभ नाभकर्म.  
अशुभ नामकर्म. bad or evil Nāma-  
Karma. क० गं० १, ४२; ५, ६;—गह.  
त्री० (-गति) अशुभ गति; नाभक आहि अशुभ  
गति. नरक आदि अशुभ गति. bad or  
miserable condition of existence;  
e. g. that of hell-beings etc. क०  
गं० ५, ६१;—ज्ञोग. पुं० (-योग) अशुभ  
योग. अशुभ योग. evil thought-acti-  
vity. भग० १, १;—नवग. न०(-नवक)

झोला, नीला, ए ऐ वर्षे, दुरभिगंध, तीजो, कुडवो ए. ऐ रस, गुरु, भरभरौ, लुणो अने शीत ए यार स्पर्श, ए नाम-कर्मनी नव प्रकृतियों। सभूँ. काला और नीला ये दो रङ्ग, दुर्गंध, तीखा और कडवा ये दो रस, भारी, खुर्दरा, रुखा और ठंडा ये चार स्पर्श इस प्रकार नामकर्म की नौ प्रकृतियों का समुदाय. the group of the following nine varieties of Nāma-Karma viz the two colours (viz black and blue) the three tastes ( viz pungent, bitter and sticking ) and the four kinds of touch (viz heavy, rough, dry and cold ). क० प० १, ४२; —नाम. न० (—नामन्) जुआ 'असुभयाम' शब्द. देखो 'असुभयाम' शब्द. vide 'असुभयाम.' उत्त० ३३, १३;

**असुहत्.** न० (—अशुभत्व) अशुभपत्तु. अशुभपत्ता. Evil; badness. सूय० १, ८, ११;

**असूइश्र. त्रि०** (असूचित) सूचना नहि करेत. सूचित न किया हुआ; बिना सूचना दिया हुआ. Not instructed; not suggested. ( २ ) व्यंजनातिथि रहित. व्यंजनादि से रहित. devoid of unseasoned eatables. दस० ५, १, ६८; ( ३ ) कृष्ण। बिना आपेक्षु अन्न दिये. बिना कहे दिया हुआ अन्न कैरह. food etc. given without being asked for. दस० ५, १, ६८;

**असूया.** छी० (\*असूचा-असूची-अङ्गद्वाराचेष्टा सूची न सूची असूची-स्फुटवचनम्) २४२ वस्तु. स्फुट वचन. Frank speech; clear speech. पिं० निं० ४३७;

**असूरिय.** त्रि० (असूर्य) नेमा सूर्य नथी ते; नरकवासे. जहां सूर्य नहीं है ऐसा स्थान;

नरकायास. Sunless; e. g. hell. "असूरियं नाम महाभितावं, अंगंतमं दुष्पतरं महंतं" सूय० १, ५, १, ११;

**असेहियगय.त्रि०**(अशेषिगत) उपशम शेषितथा क्षपक शेषिये येतेव नहि ते. श्रेणी (उपशम-श्रेणी और क्षपकश्रेणी) में नहीं पहुँचा हुआ. (One) that has not attained to the stage called Upasama (subsidence) and Kṣapaka (wearing off). क० प० ५, ४१;

**असेलेसिपडिवन्नग.** पुं० ( अशैलेशीप्रतिपञ्चक) अपेऋी अवस्थानं प्राप्त न थेलेव; चैद्भा युजुहाणुनी शैलेशी अवस्थाने न पामेव. अयोगी अवस्था को न पाया हुआ; चौदहवें गुणस्थान की शैलेशी अवस्था को न पहुँचा हुआ. One who has not attained to the stage of complete cessation of physical and mental activity known as Śaileśī stage in the 14th Guṇasthāna. भग० २४, ४; पञ्च० २२;

**असेस. त्रि०** (अशेष) निःशेष; सर्व; सभय; संपूर्ण. निःशेष; सर्व; सम्पूर्ण. Whole; entire; complete. सूय० १, ६, १७; दसा० ५, ३४; ३५; पंचा० १६, ३६; क० गं० ४, ७२; —सत्तहिय. न० (—सत्त्वहित) सभरत प्राणिने हितकरनार. सम्पूर्ण प्राणियों का हित करने वाला. that which is beneficial to all living beings. "जिणिदवयं असेपसत्तहियं" पंचा० १६, ३६; .

**असेहिय. त्रि०** (असैद्धिक) अ-नहि सैद्धि-भैक्तिक; सांसारिक; मोक्ष संबंधी नहि. जो सुक्ल संबन्धी न हो वह; सांसारिक; जिसका मोक्ष से संबन्ध न हो वह. Temporal; not

spiritual; not pertaining to absolution. सुहं वा जइ वा दुक्खं, संहितं वा असेहियं ” सूय० १, १, २, २;

**असोग.** पुं० ( अशोक ) कंडेली नामनु ऐक हणीचावाणुं-आसोपालवनुं आ॒। एक वृक्ष-विशेष; अशोक वृक्ष. Name of a tree; the Asoka tree. सम० ३४; ओव० अणुजो० १६; नाग० ६; भग० २३, २; जीवा० १; पञ्च० १; कप्प० ३, ३७; जं० प० ५, १३२; राय० ५७; (२) जेनी नीचे १६भा तीर्थकृ मल्लीनाथ स्वाभाने केवल ज्ञान उपत्यका ते आ॒। वह वृक्ष जिसके नीचे १६वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्वामी को केवल ज्ञान उपत्यका हुआ था. the tree under which Mallinātha the 19th Tirthankara attained to omniscience. सम० प० २३३; (३) चोथा व्यदेवतुं नील पूर्वभवनुं नाम. चौथे बलदेव के तीसरे पूर्वभव का नाम. name of the third previous birth of the fourth Baladeva. सम० प० २३६; (४) अशोक नामे७२ मे। महाग्रह. अशोक नामक ७२ वाँ महाग्रह. the 72nd great planet named Asoka. ग्रा० २, ३; सू० प० २०; (५) सूर्यांश विमानना अशोकवनने। देवता। सूर्यांश विमान के अशोकवन का देव. the deity of the Asoka forest of Suryabha राय० १४०; (६) अरुणद्विपा। देवतानुं नाम. अरुणद्विप के देव का नाम. name of the deity of Arunadvipa. जीवा० ३, ४; (७) किन्नर देवती सभा। आगणुंैत्यवृक्ष-आसोपालवनुं आ॒। किन्नर देवता की सभा के आगे का चैत्यवृक्ष. the Asoka tree in front of the council-hall of Kinnara god. ग्रा० ८, १; (८) ए नामनी ऐक

लता; अशोकलता. एक लता का नाम; अशोकलता. a creeper. of that name; the Asoka creeper. पञ्च० १—लया. ली० (-लता) अशोक वृक्षने विटीने रहेली लता. अशोक वृक्ष से लिपटी हुई लता. a parasite encircling an Asoka tree. जं० प० १; —बण. पुं० (-बन) सूर्यांश विमानना पूर्वने दृवानेथी ५०० जेजनने अंतरे साता बार ६८२ जेजन लांधु अने ५०० जेजन पहाणुं अशोक वृक्षनुं वन. सूर्यांश विमान के पूर्व द्वार से ५०० योजन की दूरी पर साडे बारह हजार योजन लंबा और ५०० योजन चाँड़ा अशोकवृक्षों का बन. name of an Asoka forest 12500 Yojanas in length and 500 Yojanas in width, situated at a distance of 500 Yojanas from the eastern gate of the Suryabha celestial abode. राय० १२५; अणुजो० १३१; निर्मा० ३, ८१; भग० १, १; —वशिष्या. ली० (-वनिका) अशोक वृक्षनुं नामुं वन. अशोक वृक्षों का छोयासा बन. a grove of Asoka trees. नाया० ८; १४; १६; १८; विवा० १०; —वरपायव. पुं० (-वरपादप) अनि उत्कृष्ट-उत्तम अशोक वृक्ष. अत्युक्त अशोक वृक्ष. an excellent Asoka tree. “ ईसि असोगवरपायवसमुच्छिया ” जीवा० ३; नाया० ४; ८; १४; १६; निर० ३, ३; कप्प० ५, ११३; जं० प० २, ३०; **असोगजक्ष.** पुं० (अशोकयक्ष) प्राचीन कागमां विज्यपुर नगरना नन्दनवन नामन। उद्धाननो ऐक यक्ष. प्राचीन काल के विजयपुर नगर के नन्दन वन नामक उद्यान में रहने वाला एक यक्ष. A Yakṣa ( a kind of

demi-god) residing in the garden called Nandanavana in the city of Vijayapura in ancient times. विवा० २, ३;

**असोगवर्डिसन्न.** पुं० ( अशोकावतंसक ) जुओ। “ असोगवर्डिसग ” शब्द. Vide ‘ असोगवर्डिसग ’. राय० १०२;

**असोगवर्डिसग.** न० ( अशोकावतंसक ) पहेला हेवलेकना सौधर्म विभाननी पूर्व दिशामां आवेद विभाननं नाम. पहिले देवलोक के सौधर्म विमान की पूर्व दिशा में आये हुए विमान का नाम. Name of a celestial abode in the east of the Saundharmा heavenly abode of the first Devaloka. राय० १०२;

**असोगसिरी.** पुं० ( अशोकभी ) चंद्रगुप्तना दीक्षरा बिन्दुसारनो पुत्र; पाटलीपुत्र नगरनो एक प्राचीन राजा. चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार का लड़का; पाटलीपुत्र—पटना नगर का एक प्राचीन राजा. An ancient king of Pāṭaliputra ( Paṭnā ) city; son of Bindusāra the son of Chandragupta. चंद्रगुप्तस्स पुत्रो उ, बिन्दुसारस्स नस्तुओ असोगसिरिणो पुत्र, अंधो जायह कागणिं विशे० द६२;

**असोगा.** ही० ( अशोक ) नागकुमारना राजधरणेन्द्रना लोकपाल कालनी पहेली पट्टराखी. नागकुमार देवों के राजा धरणेन्द्र के काल नामक लोकपाल की पहिली पट्टराखी. The first principal or crowned queen of Kāla, the Lokapāla of Dharaṇeñdra the king of Nāgakumāras. ठा० ४, १; भग० १०, ५; (२) शीतानाथस्वामीनी शासनदीनुं नाम. शीतलनाथस्वामी की शासनदीनी का नाम.name of the tutelary

goddess of Śītalanātha Svāmī. प्रब० २७७; ( ३ ) नलिन विजयनी भुज्य राजधानी. नलिन विजय की मुख्य राजधानी. the principal capital of Nalina Vijaya. “दो असोगाओ”ठा० २, ३; जं० ८० **असोऽधा.** सं० कृ० अ० ( अशृत्वा ) धर्मोपदेश सांख्या विना. धर्मोपदेश सुने बिना. Without having heard religious instruction. “असोऽधाणं भेते ! केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा केवलि-सावियाए वा केवलिउवासगस्स वा केवलि-उवासियाए वा ” भग० ६, ३१;

**असोशित.** त्रि० ( अशोषित ) लोही वगरनुं रक्ख रहित; बिना रुधिर का. Bloodless. पंचा० १६, ६;

**असोत्थ.** पुं० ( अश्वत्थ ) पीपलनुं वृक्ष. पीपल का वृक्ष. The Pipala tree; the holy fig-tree. भग० २२, ३;

**असोम्म.** त्रि० ( असौम्य ) इ२; सौम्य नष्टि. कूर; जो सौम्य न हो वह. Cruel; not gentle. परह० १, २; —ग्रह. पुं० (-ग्रह) इ२ ग्रह—मंगल, शनि वगेरे. कूर ग्रह; मंगल, शनि वगेरह. a cruel planet, e. g. Mars, Saturn etc. परह० १, २; —ग्रहचरिय. न० (-ग्रहचरित) इ२ ग्रह-नी चाल; शनि आदि इ२ ग्रहनी गति. कूर ग्रहों की चाल. the motion of a cruel planet. परह० १, २;

**असोय.** न० ( अशोचै ) अपवित्रता. अपवित्रता; अशुद्धता. Impurity; absence of cleanliness. ओघ० न० ३१६; :

**असोय.** पुं० ( अशोक ) जुओ। ‘ असोग ’ शब्द. देखो “ असोग ” शब्द. Vide ‘ असोग ’. राय० ४; जीवा० ३, ३; भग० ३, २; सु० च० ३, ८०; —पल्लव. न० (-पल्लव) अशोकनां पांडां. अशोक वृक्ष का पत्ता. the

leaves of the Asoka tree. राय० ६४;—पञ्चवपविभक्ति. न० (—पञ्चवपविभक्ति ) धेमां अशेकना पांडाणी रथना कुरवामां आवे छे ऐंतु नाटक; ३२ नाटकमांतु ऐक. जिसमें अशोक वृक्ष के पत्तों की रचना की जाय ऐसा नाटक; ३२ प्रकार के नाटकों में से एक प्रकार का नाटक. a drama exhibiting ( a bower etc.) of the leaves of Asoka trees; one of the ३२ kinds of dramas. राय० ६४;—वरण्णंड. न० (—वनपरगड ) आसोपालवन्तु वन. अशोक वृक्षों का वन. a forest of Asoka trees. भग० ३, २;—वरपायव. पुं० (—वरपादप ) जुओ “ असोगवरपायव ” शब्द. देखो “ असोगवरपायव ” शब्द. vide “ असोगवरपायव. ” नाया० ८;

**असोयण्या.** ली० (\*अशोचनता·अशोचन )

शोय न करये। ते. शोक न करना; रज्ज न करना. Not giving way to grief; avoidance of grief. भग० ७, ६;

**असोयवडिंसय.** न० ( अशोकावतंसक )

जुओ “ असोगवडिंसग ” शब्द. देखो “ असोगवडिंसग ” शब्द. Vide “ असोगवडिंसग. ” भग० ३, ७; १०, ६;

**असोया.** ली० (अशोका) कुमुदा विजयनी

मुख्य नगरी. कुमुदा विजय की मुख्य नगरी. The capital city of Kumudā Vijaya. ला० २, ३; (२) दशभा शीतलनाथ तीर्थकर्ता शासन हेतींतु नाम. : दसवें तीर्थकर शीतलनाथ की शासन देवी का नाम. name of the tutelary goddess of the 10th Tirthankara Śitalanātha. प्रव० ३७७;

**अस्स.** अस्मद्धृष्ट० (अस्य) जुओ ‘एत’ शब्द-ना पधीना। ऐक वयनतु रूप. देखो ‘एत’ शब्द

की पढ़ी विभक्ति के एक वचन का रूप. Vide the genitive sing. of ‘एत’. क० गं० ४, ८१;

**अस्स.** पुं० (अश्व) धेड़. घोड़ा. A horse. पञ्च० १; ओघ० निं० १६२; भग० ३, २; (२) अश्विनी नक्षत्रनो देवता; अश्विनीकुमार. अश्विनी नक्षत्र का देवता; अश्विनीकुमार. the deity of the Asvini constellation; Asvinikumāra. ‘वो अस्सा’ ठा० २, ३; सू० प० १०;—चोरग. पुं० (—चोरक ) धेड़नी चोरी करना। धेड़नो चोर. घोड़े की चोरी करने वाला. a stealer of horses. परगह० १, ३;

**अस्सकंता.** ली० ( अश्वकान्ता ) भृथम ग्रामनी पांचभी भूर्च्छना। मध्यम ग्राम की पाँचवीं मूर्च्छना. The fifth note of the middle scale of music. ठा० ७, १;

**अस्सकरण.** पुं० ( अश्वकर्ण ) ऐ नामनो ऐक अन्तरद्वीप; ५६ अन्तरद्वीपमांनो। ऐक एक अन्तरद्वीप का नाम; ५६ अन्तरद्वीपों में से एक. An Anteradvipa of that name; one of the ५६ Anteradvipas. नंदी०

**अस्सकरणी.** ली० ( अश्वकर्णी ) धेड़ना क्षान जेवां पांडावाणी वनस्पति; ऐक जलनो ५६. घोड़े के कानों के आकार के समान पत्तों वाली वनस्पति; एक जाति का कन्द. A kind of vegetation having leaves of the shape of a horse's ear; a kind of bulbous root. उत्त० ३६, ६६; जीवा० १; पञ्च० १; भग० ७, ३; २३, २;

**अस्सतर.** पुं० ( अश्वतर ) ऐक जलनो धेड़—भृथर. एक जाति का घोड़ा; खेच्चर. A kind of horse; a mule. पञ्च० १;

**अस्सत्थ.** पुं० ( अश्वथ ) पिपो॑; असुरकुमारनु॑ चैत्य वृक्षः पीपल; असुरकुमारों का चैत्य वृक्षः The holy fig-tree; the Chaitya tree of Asurakumāra. ठा० १०, १;

**अस्सपुरा.** स्त्री० ( अश्वपुरी ) पश्चिम भाविदेहना दक्षिण भांडवानी प्रथम विजयनीभुष्य राजधानी। पश्चिम महाविदेह के दक्षिण खंड के प्रथम विजय की मुख्य राजधानी। The capital of the first Vijaya of the southern Khaṇḍa of western Mahāvīdeha. जं० प०

**अस्समाण.** व० कृ० त्रिं० ( \* आस्वमाण-आसूवन् ) स्रवतुं; अरतुं. भरता हुआ. Dropping; oozing. निसी० १८, १८; अस्समुहः पुं० ( अश्वमुख ) आदर्शभुष्य उपरनो एक अन्तरदीप; ५६ अन्तरदीप-भानो एक। आदर्शमुख के आगे का एक द्वीप; ५६ अन्तर्दीपों में से एक द्वीप। Name of an Antaradvīpa next to Ādarśamukha; one of the 56 Antaradvīpas. पञ्च० १;

**अस्सलेषा.** स्त्री० ( अश्लेषा ) अस्तेषा नक्षत्र। अरलेषा नक्षत्र। The constellation Aśleṣā. ठा० २, ३;

**अस्ससेण.** पुं० ( अश्वसेन ) पार्श्वनाथस्वामी-ना॒ पिता। पार्श्वनाथस्वामी के पिता। The father of Parśvanātha Svāmī. प्रब० ३६; (२) १४ भे॒ अ॒ १४ वाँ ग्रह, the fourteenth planet. चं० प० २०;

**अस्साएमाण.** व० कृ० त्रिं० ( \* आस्वादमाण-आस्वादयत् ) थोड़ू चाखते; सेरडीना-सांडानी ऐठू थोड़ू चुसतो अने धांडू नाभी हेते। थोड़ा चाखता हुआ; सांडे की तरह थोड़ा चूंसकर अधिक फैंक देता हुआ। Tasting or relishing a little. भग० १२, १;

**अस्साकं.** अस्मद्, ष० व० ( अस्माकम् ) आपणुः; अभारुः अपना; हमारा. Our. सूय० ३, ७, १३;

**अस्सादेमाण.** व० कृ० त्रिं० ( आस्वादयत् ) जुओ। “ अस्साएमाण ” शब्द. देखो ‘अस्साएमाण’। शब्द. Vide ‘अस्साएमाण’. भग० १२, १;

**अस्साय.** न० ( असात ) असातावेदनीयना उद्यथी प्राप्त थर्मेनुं दुःखः। असातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुआ दुःख। Misery arising from the maturity of Asatāvedaniya Karma ( i. e. one accompanied with pain-feeling ). आया० १, १, ६, ५०; क० गं० २, ७;

**अस्सायण.** पुं० ( अश्वायन ) अश्वनी नक्षत्रनु॑ गोत्र। अश्वनी नक्षत्र का गोत्र। The family line of the constellation Aśvinī. सू० प० १०; जं० प० ७, १५६;

**अस्सायणिज्ज.** त्रिं० ( आस्वादनीय ) २१६ लेवा योग्य। स्वाद लेने योग्य। Tasteful, full of relish. नाया० १२;

**अस्सावि.** त्रिं० ( आस्वाविन्-आसमन्तात् स्ववति तच्छील आस्ववी ) छिरसहित; जेभां पाणी आवे एवुं। छिद बाला; जिसमें पानी आ सके ऐसा। Having leaks or holes; leaking. “जहा अस्सावियि नाबं, जाहूभंधो दुरहइ” सूय० १, १, २, ३०;

**अस्सि.** उं० ( अक्षि ) खुणो. कोना. An angle; a corner, e.g. of a room etc. ठ० ६;

**अस्सि.** पुं० ( अश्विन् ) अस्त्रियी नक्षत्रो देवता. अश्विनी नक्षत्र का देव. The deity of the Aśvini constellation. ठ० २, २;

**अस्सिश्च-य.** त्रि० ( आप्ति ) आश्रय करी रहेक; डैर्हन आशरे रहेक; आश्रय करेक. आश्रयत; किसीके आश्रय में रहा हुआ. Resorted to; resting on; dependent on. उत्त० १३, १५; २८, ६; ३५, २; दस० ४; अणुजो० १२८;

**अस्सि.** इदम्, स० ए० ( अस्मिन् ) आभां; ऐभां. इसमें. In this; on this. नाया० १; ५; भग० ५, ४; ६, ३३; ११, ६; २०, ८; अस्सिं. इदम्, प० ब० ( एषाम् ) ऐभनुं; आभनुं. इनका. Of them; of these. भग० २, १; ५, ४;

**अस्सिणी.** ली० ( अश्विनी ) अस्त्रियी नाभनुं नक्षत्र. अश्विनी नामक नक्षत्र. A constellation named Aśvini. “अस्सिणी गणखत्ते तितारे परयत्ते” सम० ३; सू० प० १०; जं० प० ७, १५१; ठ० २, ३; अणुजो० १३१;—एकखत्त. न० (-नक्षत्र) ज्ञुओ. उपले. शब्द. देखो ऊपर का शब्द. vide above. नाया० ८;

**अस्सिलेसा.** ली० ( अश्लेषा ) ज्ञुओ. ‘अस्सेसा’ शब्द. देखो ‘अस्सेसा’ शब्द. Vide : ‘अस्सेसा.’ अणुजो० १३१;

**अस्सुय.** त्रि० ( अश्रुत् ) न संख्येतुं. न सुना हुआ. Not heard; unheard. भग० ३, २; ओव० २७;

**अस्सेसा.** ली० ( अश्लेषा ) अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा नक्षत्र. The constellation

Aślesā. ज० प० ७, १५५; सू० प० १०; विश० ३४०;

**अस्सोई.** ली० ( आश्रुजी - अश्रुजी भवां-डश्रुजी ) आसो—आश्रित भासनी पूर्णिमा तथा अमावस्या. आश्विन मास की पूर्णिमा तथा अमावस्या का नाम. The full-moon and the new-moon days of the month of Aśvina. सू० प० १०;

**अस्सोक्ता.** ली० ( अश्वेकान्ता ) भैयम आभनी पांचभी मूर्छना. मध्यम ग्राम की पाँचवीं मूर्छना. The fifth stage in the modulation of the middle gamut in the science of music. ठ० ७;

**अह.** अ० ( अथ ) हवे; हवे पछी; त्यार पछी; पछी. अब; इसके पश्चात्; उसके बाद; पीछे. Now; now then; after. आशा० १, ६, २, १८३; दस० ५, १, ६६; विश० ११८; १३४; नाया० १; ८; १७; निसी० ६, १२; २०, ११; दसा० ६, २; वव० १७, ५; वेय० २, २; सूय० १, २, १, ८; १, ११, १; उत्त० २, ४१; पिं० निं० ५३; भग० १, ६; ५, ६; (२) प्रकरण, वाक्य के शब्दनुं भंडाणु-शरूआत. प्रकरण, वाक्य या शब्द का प्रारम्भिक अव्यय, a word marking the beginning of a chapter, sentence etc. भग० २०, ३; नाया० १; आया० १, ६, १, १७३; (२) मांगल्य. मांगल्य. a word marking an auspicious beginning. सूय० १, १६, १; (४) पद्मान्तर देखाउनुं. पद्मान्तर दिखलाना. a word expressing vicinity or the other side. आया० नि० १, ८, १, २६३; (५) विकल्प. विकल्प. a word showing alternation.

क० प० १, २५; दस० ५, ९, ७७; जीवा० १; ( ६ ) विशेष. विशेष. a word showing particularity. ठा० ७; ( ७ ) वाक्यालंकार. वाक्यालंकार. an expletive. सूर्य० १, ७, ५;

अह. अ० ( अधस् ) नीचे; अधेऽभाग. नीचे; नीचे का भाग. Below; in the lower place. आया० १, १, ५, ४१; भग० १, १; दसा० ५, ३१; सूर्य० १६; ( २ ) अधेऽगति; नीची गति. अधोगति. damnation; low plight. ( ३ ) अधेऽलोक; पाताल लोक. अधोलोक; पाताल लोक. the nether world. ठा० ३, ४; ( ४ ) दिशाभेद; अधेऽदिशा. अधोदिशा; दिशा का एक भेद. the nether quarter. ठा० ६;

अह. न० ( अहन् ) दिवस; दहाइ; दिन. दिन. A day. जीवा० ३, १; सूर्य० ८० द;

अहं-अस्मद्, प्र० ए० ( अहम् ) हुं. मैं. I. नाया० १; २; ५; द; ६; १३; १४; १६; १८; १९; १०; ११; दस० ७, ६; ६, १, १३; भग० १, ६; १०; २, १; ७, १०; १६, २; जं० प० ५, ११५; अहंता. सं० कृ० अ० ( अहत्वा ) हृष्या वगर; नहि हुणीते. बिना मारे; न मारकर. Without having killed or struck. ठा० ३, २;

अहक्रम. न० ( यथाक्रम ) यथाक्रम; अनुक्रम. यथाक्रम; अनुक्रम. In serial order. पंचा० ७, ४६;

अहक्षय. न० ( अथाख्यात-अथशब्दो यथार्थे याथात्थयेन ख्यातं कथितमक्षयं चारित्रमथाख्यातम् ) न्यथाख्यात नमे चारित्रनो पांचमे प्रकार; ने चारित्रमां सर्वथा क्षयात्तो दोष लगाउवामां आवे नहि अनु; विशुद्ध-निर्भग चारित्र; तीर्थकरे क्षेल स्वरूपने अंशे अंशे पाणनारनु चारित्र. यथाख्यात चारित्र का पांचवाँ भेद; जिसमें

क्षय का विलक्षण दोष न लगे ऐसा विशुद्ध चारित्र; तीर्थकर द्वारा कहे हुए स्वरूप का अंशतः पालन करने वाले का चारित्र. The fifth variety of right conduct styled Yathākhyāta i. e. right conduct strictly observing the words of Tirthāñkara. पंचा० ११, ४; क० गं० ३, १७; ४, १५; २३; ठा० ५, २; पञ्चा० १; उत्त० २८, ३३; ओवा० २०; सु० च० १५, ७२; विशे० १२३८; भग० २५, ७—चरण. न० ( -चरण ) यथाख्यातचारित्र. यथाख्यात चारित्र. right conduct which is quite spotless explained or prescribed. प्रव० ६६३;—चरित्त. न० ( -चारित्र ) ज्ञुओ ‘अहक्षयायचरण’ शब्द. देखो ‘अहक्षयायचरण’ शब्द. vide ‘अहक्षयचरण.’ भग० ८, २; क० गं० १, १८;—चरित्तलक्ष्मि. लक्ष्मि ( -चारित्रलक्ष्मि ) यथाख्यात चारित्र की लक्ष्मि-प्राप्ति. यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति. the attainment of absolutely spotless right conduct. भग० ८, २;—लक्ष्मि. लक्ष्मि ( -लक्ष्मि ) यथाख्यात चारित्रनी लक्ष्मि-प्राप्ति. यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति. the attainment of perfectly spotless right conduct. भग० ८, २;—संज्ञम. पुं० ( -संयम ) यथाख्यात चारित्र. यथाख्यात चारित्र. perfectly spotless, blameless right conduct. ठा० ५, ३; भग० २५, ६;—संज्ञय. पुं० ( -संयत ) यथाख्यात चारित्रपान॒. अक्षयायचारित्री. यथाख्यात चारित्र वाला. ( one ) possessed of a b s o l u t e l y spotless right conduct “ अहक्षयसंज्ञय ”

पुण्ड्रा गोममा ! दुविहे पश्यते, तंजहा-  
कुडमरथे य केवली य ” भग० २५, ७;

**अहलुंद.** पुं० ( यथाच्छन्द ) पेते सूत्रविरुद्ध  
आचरणे करे अने उस्त्रे पूरुषाणि। करे ते  
साधु. जो स्वयं सूत्रविरुद्ध आचरण करे और  
उत्सूत्रप्रहृणा ( निरूपण ) करे वह. An  
ascetic who in his own conduct as well as in his scriptural  
explanations to others violates the teachings of the Sūtras.  
प्रब० १०३;

**अहड.** त्रि० ( अहत ) न होइन्-नोरेन्. हरण  
न किया हुआ; न चुराया हुआ अथवा बिना  
छीना हुआ. Not taken away; not stolen. “ तेणाहडे तक्षरप्पणोगे ” उवा०  
१, ४७;

**अहण.** त्रि० ( अधन ) धनरहित. धन रहित;  
निर्धन. Poor; having no wealth.  
दस० १०, १, ६;

**अहएण.** त्रि० ( अधन्य ) धन्यवादने पात्र  
नहि. धन्यवाद के अयोग्य. Unfor-  
tunate; not worthy of compliment-  
ments. नाया० १३; १६; जं० प० ५,  
११७;

**अहत.** त्रि० ( अहत ) दण्डायेत नहि; वृपरा-  
येत नहि; नवीन. वर्ताव में न आया हुआ;  
नया; साचेत. Not struck; not  
killed; not used; new. च० प०  
१६; जीवा० ३, ४; भग० ३, ३; ८, ६; सूर्य०  
२, ३, ५५; जं० प० ९, ३३;

**अहस्त.** न० ( अधस्त ) नवन्यता; नवन्यपत्ति.  
अधन्यता; अधन्यपत्ति. State of being  
low or below. भग० ६, ३;

अहत्थ. त्रि० ( यथास्थ ) यथावस्थित; नेवुं  
हेय तेवुं रहेन्दुं. जैसा हो वैसा ही रहा हुआ.

यथास्थित. Being in the same condition in which it originally was; status quo. ठा० ५, ३;

अहत्थ. त्रि० ( यथार्थ ) यथार्थ; अरापूर. यथार्थ;  
ठीक; उचित. Appropriate; proper.

“ अहथे वा भावे जायिस्सामि ” ठा० ५, ३;

**अहस्तचिङ्गेण.** त्रि० (\* अहस्तचिङ्ग-हस्ता-  
चिङ्गक्षो यस्य सोऽचिङ्गहस्तः) अप०  
हाथवाणी. अखंड हाथोंवाला. (One) with  
hands not cut or cut off; ( one ) having sound hands. निसी० १४, १;

**अहप्पहाण.** अ० ( यथाप्रधानम् ) प्रधानने  
अनुसरीने; प्रधान-मुख्य वस्तुने अनुसार.  
प्रधान-मुख्य वस्तु के अनुसार. In accordance with the principal thing; following the principal object.  
भग० १५, १;

**अहम.** त्रि० ( अधम ) अधम; नीय; कनिष्ठ;  
क्षुद्र. नीच; छुट; अधम. Low; base;  
mean. ‘नरेदजाई अहमा मराण’ उत्त० १३,  
१८; ६, ४४; ठा० ४, ४;

**अहमंति.** पुं० ( अहमन्तिन्-अहमेव जात्यादि-  
भिहतमतया पर्यन्तवर्तीत्यहमन्ति ) जिति  
आदिना अभिभानवाणी। जाति आदि के अभिभ-  
मान वाला. One proud of caste etc.  
‘ दसहि ठारेहि अहमंताति यंभेजा तं०.  
जाइमपुण वा कुलमपुण वा जाव हस्तारियम-  
पुण वा नागमनुवाचा वा मे अंतिश्च हस्तमाग-  
च्छंति पुरिसधम्माश्रो वा मे उत्सरिए अहोवाहिए  
नाशद्रव्ये समुप्यते ’ ठा० १०;

**अहमया.** त्रि० ( अधमता ) अधमपत्ति; नीयता-  
अधमता; नीचता. Baseness; mean-  
ness. विशेष० १६१०;

अहम्. पुं० ( अधर्म ) अधर्म; पाप; सावद्ध अनुश्रूति. अधर्म; पाप. Sin; sinful performance; irreligion. दसा० ६, ४; उत्त० ४, १३; ३४, ५६; परह० १, ४; राय० २०७; कप० ४, ६२; दस० ६, १७; पिं० नि० ६३; ( २ ) त्रि० अधर्म हेतु. अधर्म का हेतु. cause of sin. उत्त० ४, १३; ( ३ ) धर्म वगरनो. धर्म रहित; अधर्मी. irreligious. विवा० १, २;—अट्टि. त्रि० ( -आयिन् ) अधर्मना प्रयोजनवागो. अधर्महृष प्रयोजन वाला. ( one ) having a sinful or irreligious purpose. आया० १, ६, ४, ११२;—अणुग्र. त्रि० ( -अनुग्र ) अधर्मनी पृष्ठी जनार. अधर्म के पीछे चलने वाला. ( one ) following sin or irreligion. दसा० ६, ४;—अणुग्र. त्रि० ( -अनुग्र ) लुओ. उपदेश शब्द. देखो ऊर का शब्द. vide above. भग० १३, २;—इदंता. त्रि० ( -इन्द्रता ) अधर्म तु इदंपञ्च; अधर्मनी सरदारी. अधर्म की सरदारी; अधर्म का अग्रापन. power, authority based on sin, injustice etc. भग० २५, ६;—केतु. पुं० ( -केतु ) अधर्मनी ध्वनिरूप; अधर्म-पाप प्रधान. अधर्म-पाप की ध्वजा के समान; अधर्मप्रधान. the flag or banner of sin; anything outrageously sinful. नाया० १८;—क्षामा॒. त्रि० ( -आत्मायायिन्-अधर्मतात्मातुं क्षितिजस्वेत्यधर्माद्यायी ) अधर्मतुं प्रतिपादन करनार. अधर्म का प्रतिपादन करने वाला. one who establishes, propagates sin or irreligion. भग० १२, १;—क्षामा॒. त्रि० ( -खाति-अधर्मात् स्याति: प्रसिद्धिर्थस्य स तथा ) अधर्मथी जेनी भ्याति छे-अधर्मी तरीके जे प्रसिद्ध छे ते. अधर्म के कारण

जिसकी प्रसिद्धि है वह. ( one ) notorious for sinfulness or irreligiousness. दसा० ६, ४;—जीवि॒. त्रि० ( -जीविन् ) अधर्मथी ज्ञवनार. अधर्म से जीने वाला. ( one ) maintaining himself by sinful deeds. दसा० ६, ४;—दाण. पुं० न० ( -दान ) चोरादिने दान आपनु ते; अधर्मदान. अधर्म दान; चोरादिक को दान देना. irreligious charity, e.g. to a thief. ठा० १०;—पलज्जमाण. त्रि० ( -प्रज्ञमान ) अधर्मभाँ २७ रहेतो-रंजन थतो। अधर्म में प्रसन्न होता हुआ. ( one ) taking delight in sin or irreligion. भग० १२, २;—पलोइ॒. त्रि० ( -प्रलोकिन् ) धर्मथी विपरीत-अधर्मने जोवावागो. धर्म से विरह-अधर्म को देखने वाला. ( one ) whose view is sinful. भग० १२, २;—समुदायार. पुं० ( -समुश्चार ) धर्मथी विपरीत आयार; अधर्मय आयार-अनुष्टान. धर्म से विश्रीत आचार; अधर्ममय आचार. irreligious conduct; sinful performance. भग० १२, २;—सेवि॒. त्रि० ( -सेविन् ) अधर्म सेवनार. अधर्म का सेवन करने वाला. one practising sin or irreligion. दसा० ६, ४;

अहमश्चो. अ० ( अधर्मतस् ) अधर्म अंगीकार करने; अधर्म आश्री. अधर्म से; अधर्म को अंगीकार करके. Through sinfulness; sinfully. परह० १, २;

अहमतिथिकाय. पुं० ( अधर्मस्तिकाय ) लुओ। “ अधमतिथिकाय ” शब्द. देखो “ अधमतिथिकाय ” शब्द. Vide ‘ अधमतिथिकाय ’ भग० २०, २;

**अधिक्रम.** त्रिं ( अधिक्रम ) जुओ। ‘अधिक्रम’ शब्द. देखो “ अधिक्रम ” शब्द. Vide ‘अधिक्रम’. समा० ३०;

**अधिक्रमटु.** त्रिं ( अधिक्रमटु ) जुओ। ‘अधिक्रमटु’ शब्द. देखो “ अधिक्रमटु ” शब्द. Vide ‘अधिक्रमटु’. उत्ता० ७, ४; दसा० ६, ४; राया० २०७; भगा० १३, २;

**अधिक्रमय-आ.** त्रिं ( अधिक्रमय ) जुओ। ‘अधिक्रमय’ शब्द. देखो ‘अधिक्रमय’ शब्द. Vide ‘अधिक्रमय’. दसा० ६, ४; ६, २६; राया० २०७; भगा० १२, ८; नाया० १८;

**अहय.** त्रिं ( अहत ) अर्थः १. इत्यु दुरेत्यु  
नहि. अखंड; न द्वय कृद्य हुआ. Whole;  
sound; unbroken. भगा० ७, ६; ८, ५;  
राया० ७६; जं. पा० ३, ४३; (२) ननु; अथा  
दुष्टी वग्रस्तु; डेरू. नया; कोरा. new;  
without spots etc. कप्ता० ४, ६२;  
नाया० १;

**अहर.** पुं० ( अवर ) नीयेनो हेठा॒. नीचे का  
ओठ. The lower lip. नाया० १; पत्रा०  
२; —गह. ली० ( -गति ) नीची गति;  
अधेगति. अधोगति. damnation; low  
plight. पिं० नि० १०२; नाया० ६;  
—गहगमण. न० ( -गतिगमन ) अधेगति  
गमन; अधेगतिभाँ ननु ते. अधोगति गमन;  
अधोगति में जाना. downward motion;  
going towards a lower stage  
of existence. परहा० १, ३;

**अहरस्त.** न० ( अहोरात्र ) एक दिवस अने  
एक रात. एक दिन और एक रात. A day  
and a night. प्रवा० ६०२;

**अहोराई.** ली० ( अहोरात्रिकी ) जुओ। ‘अहोराई’  
शब्द. देखो ‘अहोराई’ शब्द. Vide ‘अहो-  
राई’. पंचा० १८, ३;

**अहरिम.** त्रिं ( अहरिम ) जुओ। “अहरिम”  
शब्द. देखो ‘अप्रारिम’ शब्द. Vide ‘अहरिम’.

भगा० ११, ११; नाया० १; जं० ५०

**अहरिय.** त्रिं ( अवरित ) तिरस्कृत क्रेत.  
तिरस्कृत. Despised; looked upon  
with contempt. सु० च० ५, ७२;

**अहरी.** ली० ( अवरी ) जुओ। ‘अधरी’ शब्द.  
देखो ‘अधरी’ शब्द. Vide ‘अधरी’.  
“ अहरीसंदाण्यसंठिया ” उत्ता० २, ६४;  
—लोह॑. पुं० ( -लोह ) जुओ। ‘अधरीलोह॑’  
शब्द. देखो ‘अवरीलोह॑’ शब्द. vide  
अधरीलोह॑. ‘ अहरीलोह॑संदाण्यसंठियाओ-  
पाणसु ’ उत्ता० २, ६४;

**अहरीभूय.** त्रिं ( अवरीभूत ) हक्कें गण्या-  
भाँ आवेद. जो हलका गिता गया हो वह.  
Despised; regarded as mean.  
सु० च० २, ५८;

**अहरुड.** पुं० ( अवरोह॑ ) जुओ। ‘अधरुड’ शब्द.  
देखो ‘अवरुड॑’ शब्द. Vide ‘अवरुड॑’. नंरी०

**अहरोह॑.** पुं० ( अधरोह॑ ) नीयेनो हेठा॒. नीचे  
का ओठ. The lower lip. शोवा० १०;  
जीवा० ३, ३; कप्ता० ६, ४२;

**अहरांद.** पुं० ( \* यथालन्द॑ ) जिनेनो दाथ  
सुकाय तेक्षा॒ वधनाथी भाँ धी पांच रात्रि॑ पर्यन्तो  
कागी. जितने समय में गोला हाथ सूखे उतने  
समय से लेकर पांच रात्रि॑ तक के काल का  
नाम. Time ranging between that  
taken up by a wet hand to get  
dry and that ( i. e. time ) mak-  
ing up five nights. प्रवा० ६२१;

**अहलंदि.** पुं० ( यथालन्द॑ ) जिनकृती  
नेवी कृतिहिय॑. करनार॑; गोयरी-जिक्षाने भाँउ  
अभुक्त हुँ अधनार साधु, के नेवे गती॑ यक्षि-  
त्सा न करने, आंधनो भेव पथ न काटे,  
गोम नहुर॑ रहे, कारण॑ पड़े पाणी गोमां  
आवे, तेना गण्यभाँ पांच साधुओ हेय,

जिनकल्पी के समान कठिन किया करने वाला; गोचरी के लिये खास सीमा बान्धने वाला, रोग की चिकित्सा न करने वाला, आंख का मैल भी न निकालने वाला, शहर के बाहर रहने वाला और कोइ कारण पड़ने पर ही वापिस गच्छ में आने वाला साधु, इसके गण में पांच साधु होते हैं। An ascetic practising hard austerities like those of a Jaina monk, e. g. one who imposes severe limitations upon alms-begging, does not take medical treatment for a disease, does not remove dirt even from eyes, stays outside the town and returns to his order only when necessary. His following (Gana) consists of five Sādhus.

प्रब० ६२१;

**अहलंदिय.** पुं० ( यथाकन्दिक ) जुओ। ‘अहलंदि’ शब्द. देखो ‘अहलंदि’ शब्द. Vide ‘अहलंदि.’ प्रब० ६२३;

**अहल.** त्रि० ( अफल ) इग विनानुं; निष्ठ०. फल रहित; निष्कल. Fruitless. उत्त० १४, २४;

**अहसोय.** पुं० ( अधोलोक ) नीचेनो लोक; पाताल लोक; सात राज्य परिमित लोकनो नीचयदे लाग. अधोलोक; सात राज्य परिमित लोक के नीचे का हिस्सा. The infernal world; the nether world. प्रब० ६१६;

**अहघ.** अ० ( अथवा ) अथवा; अग्र. अथवा; या. Or; (an alternative conjunction). सम० पञ्चा० १०, ३०;

\***अहवण.** न० ( गृह ) धरविशेष. घरविशेष. A particular house. जीवा० ३, ३;

**अहवण.** अ० ( अथवा ) अथवा. अथवा; या. Or. पञ्च० १२;

**अहवा.** अ० ( अथवा ) विकल्प; अथवा. अथवा; या; विकल्प. Or. भग० १, ५; ६, ४; ८, ५; सु० च० १, १४; अणुजो० ३७; पिं० निं० भा० ४; विशे० २२; सू० नि० १, १३, १२३; क० ग० ३, २८; क० प० ५, ३३; पंचा० ३, ३;

**अहवण.** पुं० ( आथर्वण ) चार वेदभाने। योथा अथर्वण वेद. चार वेदों में से चौथा अथर्व वेद. The fourth Veda viz the Atharva Veda. भग० २, १; ओव० ३८;—वेय. पुं० ( -वेद ) जुओ। उपदे। शृणु. देखो ऊपर का शब्द. vide above. भग० २, १; ओव० ३८;

**अहसुहुमश्र.** पुं० ( यथासूचमक ) भनभाने भनभाने ड्राधादि कुशीक्षनो। सेवनार; क्षयाय-कुशील. मन ही मन में क्रोधादि कषायों का सेवन करने वाला; क्षयकुशील. A morally impure person who cherishes anger etc. in his mind. प्रब० ७३२;

**अहस्त.** न० ( अहास्य ) हास्यनो। त्याग-अभाव. हास्य का त्याग; हास्य का अभाव. Absence of laughter; giving up or abstaining from laughter. प्रब० ६४४;

**अहस्तिर.** त्रि० ( \* अहस्तिर-अहसमशील ) भरा भैटा कारण वगर हसवाना स्वभाव-वाणो। नहि. बिना सच्चे मूँठे कारणों के न हसने वाला. (One) not given to laughter without a cause. “ अहस्तिरे संया दंते, न य मम्ममुदाहरे ” उत्त० ११, ४;

**अहा.** अ० ( अधस् ) नीचे; नीची दिशा। नीचे. Below; the nether quarter. ठा० ६; भग० २५, ३;

**अहा.** अ० ( यथा ) जैम; जैवी रीत; ऐ प्रकार. जिस प्रकार; जैसे. Just as; in

the way in which; as. राय० २६;  
भग० १, ६; ३, १; नाया० १;

अह. अ० (अथ) ज्ञाये। 'अह' शब्द. देखो 'अह' शब्द. Vide 'अह.' अणुजो० १६;

**अद्वावर्थं.** अ० ( यथार्थम्-अर्थमनतिक्रम्य )  
यथार्थः अवाभूतः यथार्थः उचितः Properly;  
appropriately. अ० ७;

**अहाइत्ति॒ त्रि॑ (यथातिरिक्त) पथातिरिक्त-**  
**क्त-पैताने भाटे उपलोग करतां पथे ते.**  
**अपने उपभोग से बचा हुआ-शेष रहा हुआ.**  
**(That) which remains after one**  
**has enjoyed; (portion) remain-**  
**ing after enjoyment. आया० १,**  
**७, ७, २२५;**

**આહાર. ન૦ ( યથાયુપ્ત ) જેટલું આઉંધું આંધું  
હોય તેટલું. જિતની આયુ વાંધી હો ઉતની.  
Period of life incurred by one's  
Karma. ઠા ૪, ૧; ભગ ૧૧, ૧૧;**

—**शिववत्तिकाल.** पुं० (—निर्वृत्तिकाल-यथा यत्प्रकारं नारकादिभेदेनायुः कर्मविशेषो यथाऽऽयुः; तस्य रौद्रादिध्यानादिना निर्वृत्तिं बन्धनं तस्याः सकाशात् यः कालो नारकादिक्वेन स्थितजीवानां स यथायुर्निर्वृत्तिकालः) एतद्विद्युत्युप्य वांध्युष्टु देह्य तेष्टु भोग्यव्युत्ते; वांधेत्वा आयुष्टु पुरेषुरी रीते भोग्यव्यानो सभ्य. जितनी आयु बांधी हो उतनी ही भोगना; बांधी हुई आयु पूर्ण रीति से भोगने का समय. completing the period of life incurred by Karmas.  
“ से कि तं अहाडशिववत्तिकाले ? अहा-उणिव्वत्तिकाले जं ख्येरहण्ण वा तिरिक्ष-ज्ञाणिण्ण वी मणुस्सेण वा देवेण वा अहाडशिववत्तियं से चं पालेमाये अहाड-शिववत्तिकाले ” भग० ११, ११; ग्र० ४, १; भग० ११, १०;

अहाउष्य-य. न० (यथायुज्ज) वेटदुं आयुष्य  
 भाषेत् हेत्य ते प्रभाषे भोगवनानो कण.  
 जितनी आयु बांधी हो उतनी ही भोगने का  
 काल. Duration of life incurred  
 by Karmas. 'दो अहाउष्यं पासेऽन्  
 तंजहा-देहेष्व नेरहएष्व' भा० ३, ३;  
**अहाकड. त्रि०** (यथाकृत) गृहस्थे पोताने  
 भाटे तैयार करेत् आहारादि; आधाकर्मादि  
 द्वैषरहित. यहस्थ ने अपने लिये तैयार किया  
 हुआ आहार वगैरह; आधाकर्मादि दोष रहित  
 आहारादि. Food etc. prepared by  
 a householder for himself. त्रि०  
 नि० भा० ३३; (२) साधुने भाटे खास तैयार  
 करेत् आहारादि; आधाकर्म आदि हेत्य. साधु  
 के लिये खास तैयार किया हुआ आहारादि;  
 आधाकर्म आदि दोष. food etc. spe-  
 cially prepared for a Sādhu; food tainted with Ādhākarma.  
 "अहाकडं न से सेवे सब्बसो कम्म अदरक्ष"  
 आया० १, ६, १, १८;

**अहाकर्पणं.** अ० (यथाकरणम्) क८५ प्रभाषेः  
ने क८५यानो ने क८५-विधि शास्त्रमां  
भत्तावेद हेतु तेन अनुसारीनः क८५पति रीते.  
कल्प के अनुसार; शास्त्रीय विधि के अनुसार.  
According to scriptural rites.  
वव० ४, १३; ६, ३७; नाया० १; भग० २,  
१; कप्प० ६, ६३;

आहारकम्म. न० ( आधाकर्मन् ) साधुने भाटे  
 खास आरंभ समारंभ की निपत्तिवेल  
 आहारादि; साधुने भाटे आहारने एक दोष;  
 उद्गमना १६ दोषमांने पहलें दोष. खास साधु  
 के लिये आरंभ समारंभ करके बनाया हुआ आहार  
 वगैरह; साधु के लिये होने वाला आहार का  
 एक दोष; उद्गम के १६ दोषों में से पहिला  
 दोष. One of the 16 faults of  
 Udgama; food etc.. produced,

prepared for a Sādhu by injuring or killing sentient beings.

भग० १, ४; परह० २, ३; सू० २, ५, ६;

**अहागड़. त्रि०** ( यथाहृत ) जुओ ‘अहाकड़’  
श॒८८. देखो ‘अहाकड़’ शब्द. Vide  
“अहाकड़.” “अहागड़ेसु रीयंति. पुण्येसु  
भमरा जहा” दस० १, ४; ओष० चि० २३३;  
प्रब० ८७८;

**अहाचर. त्रि०** ( अध्यात्म ) दरभां रहेनार साप  
दगेरे. बिल में रहने वाला सांप वगैरह.  
(A serpent etc.) living in under-  
ground holes. आया० १, ८, ७, ६;

**अहच्छंद. पुं०** ( यथाच्छंद ) पोतानी भरण  
भुज्य वर्तनार; शास्त्रनी आशाने आधीन न  
रहेतां पोताना । उंदा-अभिमाय प्रभ. षु  
वर्तनः२ साधु. अपनी इच्छा के अनुसार वर्ताव  
करने वाला; शास्त्र की आज्ञा के अधीन न रहकर  
स्वच्छन्दचारी साधु. One behaving  
wilfully, regardless of scriptures.  
निसी० ११, ३१; ३३; भग० १०, ४; ओष०  
चि० १०४; चब० १, ३४; प्रब० १२१;  
—विहारि. त्रि० ( -विहारिन् ) पोतानी  
भरण भुज्य चालनार; स्वेच्छाचारी. अपनी  
इच्छा के अनुसार चलने वाला; स्वेच्छाचारी.  
wilfully roaming; self-willed.  
नाया० ध० भग० १०, ४;

**अहाजाय. न०** ( यथाजात-जातं जन्म थम-  
शतप्रतिपासिर्वा, जन्मसमये रचितकरस-  
मुटो यथा बहिर्यांति अमण्डतप्रतिपत्ति-  
कासे च गृहीतरजोहरणमुखविकाचोक्त-  
पहुकमात्रो भवति, एव दद्यमपि जातशब्दार्थः,  
जातमनतिक्रम्य यथाजातं चन्दनकमित्यर्थः )  
७८८ व वधते जेम हाथ जेतेल हेय तेवी रीते  
हाथ जेतीने अनेदीक्षा वधते रजेहुरथु, मुभ-  
दुखिक्षा अनें योलपृष्ठ आदि जेम उपग्रथु  
झारथु कर्याहेय तेटलामात्र उपग्रथु धारीने

वंदना। करी ते; वंदनःनो ऐ६ ४५१३. जन्म  
के समय जिस प्रकार हाथ जुड़े हीते हैं उसी प्रकार  
हाय जोड़कर हाथ जोड़कर दीक्षा के समय रजोहरण,  
मुखविकाका, चोलपृष्ठ आदि उपकरण उस  
प्रकार धारण किये जाते हैं उसी प्रकार उसने  
ही उपकरण धारण करके वंदना करना; वंदना  
का एक भेद. A mode of salutation  
viz with folded hands as at  
the time of birth and with those  
materials only upon the body  
which were there at the time  
of Dikṣā, e. g. mouth-cloth  
etc. प्रब० २६; ८६७;

**अहाणिगरणं. अ०** ( यथानिकरणम् ) जेवी  
रीते कर्म वांधु छे-कर्मनीरयना करी छे तेवी  
रीते. जिस प्रकार कर्म बाधा है उसी प्रकार.  
In the way in which Karma  
is incurred. भग० १, ४;

**अहाणुपुद्धी. श०** ( यथानुपर्दी ) अनुप्रभ;  
परिपाठी. अनुक्रम; परिपाठी. Proper  
order; serial order. भग० २, १; ५;  
६, ३३; नाया० १; ओव० ३१; जं० प० ३,  
६७; ४, ११७;

**अहातच्च. न०** ( यथातत्त्व ) जेवुं हेय तेवुं  
करेवुं ते; तत्त्वं उद्देश्यन न करेवुं ते. जैसा  
हो वैसा कहना; तत्त्व का उल्लंघन न करना.  
Declaring what is truth; not  
going beyond truth. भग० ३, १;  
ठा० ५, १;

**अहातच्चं. अ०** ( यथातत्त्वम् ) सत्य; वार्ताविक्षः;  
भराभर. सत्य; वार्ताविक; ठीक. Truth;  
state of a thing being exactly  
as it has taken place. दस० ४,  
१०१; भग० १६, ६; चब० ६, ३७; सम० १०;  
कप्प० ३, ६३;

**अहातरिथजा.** न० ( यथातथ्यक ) भृत्यगां-  
गस्त्रना तेरभा अ४४५५नुं नाम् सूयगांग  
सूत्र के तेरहवें अध्याय का नाम. Name of  
the 13th chapter of Sūyaga-  
dāṅga Sūtra. अशुजो० १११;  
**अहातहं.** अ० ( यथातथ्यम् ) जेम हेऽप्य तेभ.  
जैसे का तैसा. Exactly; without the  
slightest deviation. आया० १, ४,  
४, १४०;

**अहापउजास्त.** त्रि० ( यथापर्याप्त ) ध३७। पुरतुं प्राप्त  
थमेक्ष; जेऽप्य तेट्डुं भगेलुं. आवश्यकतानुसार  
मिला हुआ. Enough; obtained to  
one's fill. विवा० २; ७; नाया० १६; १६;  
भग० २, ५; ७, १०;

**अहापडिगद्विह्य.** त्रि० ( यथाप्रतिगृहीत )  
जेट्टुं लीधुं हतुं तेट्डुं; अप्याधुं थमेलुं नहि  
किन्तु प्रथम लीधेक हतुं तेट्डुं०. जितना लिया  
था उतना ही, कम नहीं. Exactly as  
much as was taken or got;  
neither more nor less. भग० २, ५;

**अहापडिरुद्ध.** त्रि० ( यथाप्रतिरूप ) यथाये४५;  
जिथित. उचित; यथायोग्य. Proper; ap-  
propriate. नाया० १; २; ५; १३; १४;  
१६; भग० २, ५; ६, ३३; राय० २७; विवा०  
१; दसा० १०, १; नाया० ध० निर० १, १;

**अहापणिहिय.** त्रि० ( यथाप्रणिहित ) यथा-  
वस्थित. यथावस्थित; जैसे का तैसा रहा  
हुआ. Exactly in the condition  
in which a thing stands. अहापणि-  
हियहि॒ गाप्तहि॑ ” भग० ३, २; दसा० ७, १२;  
**अहापरिगद्विह्य.** त्रि० ( यथापरिगृहीत ) जेप्ये  
रीते लीधुं हेऽप्य तेवी द्विते रीकारेक. जिस  
प्रकार लिया हो० उसी प्रकार स्वीकार किया  
हुआ. (Anything) as accepted;  
in the manner in which (it) is  
accepted. भग० २, ५; ११, १२;

**अहापरिएखायं.** त्रि० ( यथापरिक्षात ) जेट्टी  
ज्ञाने भाटे क्षेवाभां-इरभावाभां आभ्युं  
हेऽप्य तेट्डी ज्ञाना. जितनी जगह के लिये कहा  
गया हो उतनी जगह. Room space  
exactly as ordered. “अहापरिएखायं  
वसिस्त्वामो ” आया० २, ३, ३, ८६;

**अहापवत्त.** न० ( यथाप्रवृत्त ) अनादि काण्ठी  
ने स्वभावे वर्ते छे ते स्वभावे वर्तनार;  
स्वभावान्तरने पामेडुं नहि. अनादि काल से  
जिस स्वभाव के अनुसार बर्ताव कर रही हो  
उसी स्वभाव के अनुसार बर्ताव करने वाली  
वस्तु; स्वभावान्तर को प्राप्त न होने वाली वस्तु.  
Unchanged in nature; maintaining  
the nature coming down  
from times immemorial. क० प०  
३, ६; ५, ८; पंचा० ३, ६; नाया० ५;  
—करण. न० ( -करण ) जुझे। ‘अहापवत्त’  
शब्द. देखो ‘अहापवत्त’ शब्द. vide  
‘अहापवत्त.’ क० प० ७, ४१;

**अहापवित्त.** त्रि० ( यथाप्रवृत्त ) यातु प्रवृत्ति-  
भां जेट्टुं जेऽप्ये तेट्डुं; यथाये४५. प्रव-  
लित प्रवृत्ति में जितना चाहिये उतना; यथा-  
योग्य. Proper; appropriate; just  
as much as is needed. अंत० ५,  
१; नाया० १६;

**अहापवित्ति.** अ० ( यथाप्रवृत्ति ) जिथित  
प्रवृत्ति. उचित प्रवृत्ति. Proper action  
or activity. नाया० ५; —करण. न०  
( -करण ) समक्षितने अनुदृग्य अ४४५४४४-  
प्रिशेष४. सम्यक्त्व के अनुकूल अध्यवसायवि-  
शेष. thought-activity favourable  
to right faith. क० गं० ५, ८;

**अहावद.** त्रि० ( यथावद ) जेऽप्ये तेतुं  
भज्युत थाप्तेहुं; ६६ गौठेहुं. आवश्यकता  
के अनुसार भज्यवृत्त बाधा हुआ. Strongly

fastened; tied; firmly fixed.

आया० ३, २, ३, ६६;

**अहाबादर. त्रि०** ( \* यथाबादर-यथास्थूल )

स्थूल स्थूल; लंडुं लंडुं स्थूलातिस्थूल; बहुत मोटा. Very gross. भग० १६, ४;

**अहाबायर. त्रि०** (\*यथाबादर-यथास्थूल) जुग्मे।

उपलो। शभ० ६. देखो ऊपर का शब्द. Vide above. “अहाबायराहं कम्माहं” भग० ६, १; आया० २, १५, १७६; कप्प० २, २६;

**अहाबीय. न०** ( यथाबीज ) जेमांथी आउनी

उपति थाप्ते भी० जिसमें से वृक्ष की उत्पत्ति हो वह बीज. A seed from which a tree grows. तेसिचण्डं अहाबीएण्डं” सूय० २, ३, ४१;

**अहाबुद्ध्य. न०** ( यथोक्त ) जेम ८८३ हेय तेम;

जैसे का तैसा कहा हुआ. (Anything) as said or mentioned. सूय० १, १४, २५;

**अहाभूत. त्रि०** ( यथाभूत ) जेम हेय तेम;

तात्पिक. जैसे का तैसा; तात्पक. As (it has) happened; true. ठा० १, १;

**अहामर्गं. अ०** ( यथामर्गम् ) शान आदि भेक्ष

भार्गने अनुसार. ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग के अनुसार. Following the path of

knowledge etc. leading to salvation. नाया० १; वव० ६, ३७; भग०

२, १; कप्प० ६, ६३; ( २ ) औद्यिक लावने पसार कीरीने; क्षयोपशम भावनुं

उद्धवंधन न कीरीने. औद्यिक भाव को दूर

करके; क्षयोपशम भाव का उद्धवंधन न करके.

crossing or transgressing the stages of destruction and subsidence of Karma. ठा० ७;

**अहाराहणिश्च-य. त्रि०** ( यथारात्निक )

आदि ने की अधिक दीक्षा-प्रवर्जन्याभां

भेदों चारित्र की अपेक्षा से महान्.

Superior by reason of right conduct; superior in asceticism.

वव० ८, १; वेय० ३, १६; नाया० १;

**अहारायणियं. अ०** ( यथारात्निकम् )

दीक्षाभां नहाना भेदों हेय तेना अनुक्तमें अनुसार; नहान भेदों हेय अनुसार-प्रभाषे।

दीक्षा की छोटाई बड़ाई के क्रम के अनुसार. In the order of superiority, seniority in asceticism. ‘अहारायणियं गामाणुगामं दूजज्ञेजा’ आया० २, ३, १२८;

**अहारिय. न०** (\*यथारीत-यथारीति) यथायोग्य

रीति; रीति-यात्रु पद्धतिने अनुसरी. यथायोग्य

रीति; प्रचलित रिंगज़ के अनुसार. According

to the current method or fashion; following the proper method. “अहारियं रीयहू” भग० ५, २;

**अहारिय. त्रि०** ( यथार्ह ) यथायोग्य; उचित;

वाक्षी; लोकाचार प्रभाषे. यथायोग्य;

वाजिब; लोकाचार के अनुसार. Proper;

appropriate; in accordance with prevailing popular opinion. ठा० ३, १;

**अहारियं. अ०** ( यथेर्गम् ) जेम धरिया सभिति

शोधाय-८४वाय तेवि रीते. जिस प्रकार से

इरिया सभिति का पालन हो सके उस प्रकार से.

In the way in which carefulness in walking is preserved.

“अहारियं रीपज्ञा” आया० २, ३, १२८;

दसा० ७, १;

**अहारिह. त्रि०** ( \*यथार्ह ) जुग्मे। ‘अहारिय’

शभ० देखो ‘अहारिय’ शब्द. Vide ‘अहारिय.’

दसा० १०, ११; वेय० ४, ३५; भग० ८,

६; ठा० २, १; वव० १, ३७;

**अहालंद.** पुं० ( यथालन्द ) जेटका वर्खतने भाटे कुंभ होय तेटलो। वर्खत; यथालंदकाण नवन्ध होय तो पाणीथी भीनो। दाथ सुक्राय तेटलो। वर्खत, उत्कृष्ट यथालंदकाण पांच हिंस अने भध्यम यथालंदकाण ते ऐनी भञ्चनो। वर्खत. जितने समय के लिये कहा गया हो उतना समय; पानी से भांगा हुआ हाथ जितना देरी में सूखे उतने समय को जयन्ध यथालंद काल कहते हैं और पांच दिन की अवधि तक उन्हकृष्ट यथालंद काल होता है तथा इन दोनों के बीच का समय मध्यम यथालंद काल कहलाता है। Specified time; the minimum Ythālānda time is that required by a wet hand to get dry; the maximum is five days the medium ranging between the two. वेय० २, १; आया० २, ७, १, १५६; वद० ४, २१; कप्य० ६, ६; ग्रब० १७;

**अहालंदिय.** पुं० ( यथालन्दिक ) जुओ। ‘अहलंदि’ शब्द. देखो ‘अहलंदि’ शब्द. Vide ‘अहलंदि.’ प्रव० ६३१;

**अहालहुगा.** त्रि० ( यथालघुक ) अतिलघु; अतिन्दोनो। बहुत छोटा; अत्यन्त लघु। Very small; very young. सूय० २, २, १८;

**अहालहुय.** त्रि० ( यथालघुक ) जुओ। उपलो। शब्द. देखो ऊपर का शब्द. Vide above. नाया० ६; दसा० ६, ४;

**अहालहुसग.** त्रि० ( यथालघुस्वक ) कंधक नानो अने हुड़ो; हुड़ानामां न्हानो। कुछ छोटा और हल्का; छोटे से भी छोटा। Some what small and light; smallest. “देवाणां अहालहुसगाहं रथणाहं हस्ता अस्ति” भग० ३, २; वद० ८, ११;

**अहावगात्तं.** अ० ( यथावकाशम्-यो यस्मावकाश उत्पत्तिस्थानं भूमिद्वीजसंयोगादिर्बातदनतिक्रमेणत्यर्थः) जेवुं उत्पत्ति स्थान होय ते प्रेमाणे। जैसा उत्पत्तिस्थान हो उसके अनुसार। In accordance with the source or place of birth. “तेषि चर्यं अहावीएयं अहावगासेयं इत्थीए” सूय० २, ३, ४३;

**अहावच्च.** पुं० ( यथापत्त्व ) पुत्रस्थानीय; पुत्र समान। पुत्रस्थानीय; पुत्र के समान। ( One ) in the place of a son; equal to a son. भग० ३, ६; ७; —**अभिरणाय.** त्रि० (—अभिज्ञात ) पुत्र समान जाणुओ। पुत्र के समान जाना हुआ. known as, treated as a son. भग० ३, ७; —**देव-पुं०** (—देव ) पुत्रस्थानीय देव; पुत्रसमान देव. पुत्र के समान देव. a god looked upon as a son; a god equal to a son. भग० ३, ७; ४, ४;

**अहावरं.** अ० ( अथापरम ) त्यार पठी; वर्णी भीजुं। इसके बाद. Again; moreover. सूय० १, १, २, २४; दसा० ४;

**अहाविहि.** अ० ( यथाविधि ) शास्त्रना न्यायने। अनुसार; भ्रात्यर विधिपूर्वक। शास्त्र के न्यायानुसार; यथायोग्य विधिपूर्वक। In accordance with prescribed, scriptural ceremony. दसा० ४, १३; ७, १;

**अहास.** त्रि० ( अहास्य ). हास्परहितः हास्य रहित। Free from laughter; devoid of laughter. भत्त० १३;

**अहासंथड.** न० ( यथासंस्तुत ) जेघंग्रे तेवी रीते पाथरेत; शयनयोग्य। जैसा चाहिये वैसा विश्वाया हुआ। Properly spread, e.g., bed. आया० ३, ३, ३, १०३; दसा० ७, १६;

**अहासंथङ्.** न० ( यथासंस्कृतं ) लेणी रीते उपभोग थै शके तेवी रीते संस्कार प्रभाडेणुं. जिस प्रकार उपभोग किया जा सके उस प्रकार संस्कार किया हुआ. Properly refined and made fit for use. ठा० ३, ४; **अहासंविभाग.** पुं० ( यथासंविभाग—यथासिद्धस्य स्वार्थं निर्वर्तितस्याशनादेः पश्चात्कर्मादिदोषपरिहारेण विभजनं साधवे दानद्वारेण विभागकरणं यथासंविभागः ) गृहुरथे ज्ञमती वधते, पुराकर्म अने पश्चात्कर्म होय न लागे तेवी रीते, पोताना ज्ञाराकर्मांथी 'अभुक्त लाग साधु पधारे तो जहारातुं' ऐवी लावना लावनी ते; श्रावकनुभावनु व्रत. भोजन करते समय पुराकर्म और पश्चात्कर्म दोष न लगे उस प्रकार अपने भोजन में से अमुक भाग साधु के पधारने पर देने की भावना करना; श्रावक का बारहवाँ व्रत. The 12 th vow of of a Śrāvaka viz meditating in mind at the time of taking food that a portion of it might be given without incurring any fault to a Sādhu if he came up there at the time. उवा० १, १;

**अहासच्च.** न० ( यथासत्य ) भरेभर; अराभृ; यथातथ्य; सायेसाच्यु. यथार्थ; सत्य; वास्तविक. Truly; truthfully. आया० १, ४, २, १३१;

**अहासंरिणाद्वयं.** अ० ( यथासञ्जिहितम् ) लेणुं ज्ञेधत्ते तेषुं नश्छ. जितना सर्वीप चाहिये उतना. As near as is necessary; within the necessary limits of proximity. नाया० ८; १४; भग० ७, ६;

**अहासम्म.** अ० ( यथासाम्यम् ) लेवे। ज्ञेधत्ते मेवा समभाव. जितना चाहिये उतना सम-

भाव. Proper equality; due even-handedness. भग० २, १;

**अहासुत्तं.** अ० ( यथासूत्रम् ) सत्रानुसार; सूत्रमां कुछु छे ते प्रभाषे. सूत्र के कदे अनुसार. In accordance with what is given in the Sūtras. नाया० १; ८; भग० २, १; ७, १; १०, १; सम० ४५; वव० ६, ३७; कप्य० ६, ६३;

**अहासुयं.** अ० ( यथाश्रुतम् ) लेणुं सांख्य्यु होय तेवुं; सांख्य्या प्रभाषे. जैसा सुना हो वैसा. In accordance with what is heard; as heard. आया० १, ६, १, १; सूय० १, ६, २;

**अहासुहं.** अ० ( यथासुखम् ) सुभानुसार; लेभ पोताने सुख थाय तेभ करेणु. जिस रीति से अपने को सुख हो उस प्रकार करना. As one likes; according as one is pleased. नाया० १; ५; १२; १४; १६; भग० १, ६; २, १; ५, ६; ६, ३३; १६, ५; निर० ३, ४; सूय० २, ७, ४०;

**अहासुहुम्.** पुं० ( यथासूत्रम् ) निर्ग्रथो ऐक प्रकार; सर्व समयवर्ति निर्ग्रथ; पदभ, अपदभावि विशेष्युरहित साभान्य निर्ग्रथ. सर्व समयवर्ती साधारण निर्ग्रन्थ. An ordinary Jaina monk; a class of Jaina monks to be met with in all times. प्रव० ७३३;—कसायकुसील. पुं० ( -कसायकुसील ) भन्थी सूक्ष्मभीते क्षाधादिने सेवन करनार (साधु). मन द्वारा सूक्ष्म रीति से क्षोधादिक का सेवन करने वाला (साधु), ( an ascetic ) harbouring anger etc. in the mind in a slight diluted form. भग० २५, ६;—णियंद, पुं० ( -निर्ग्रन्थ ) शुशुहाणुना. सर्व समयभाव वर्तमान निर्ग्रन्थ; यरम समयादि विशेष भेद,

रहित सामान्य निर्विध. गुणस्थान के सर्व समय में वर्तमान निर्ग्रन्थ; चरम समय आदि विशेष भेदों से रहित सामान्य निर्ग्रन्थ. an ordinary ascetic who is not strictly confined to a particular Guṇasthāna. भग० २५, ६;—पुलाय. पुं० (—पुलाक ) भन्थी ज्ञान आहिना अतिथार सेवी संयमने निःसार अनावनार ( साधु ). मन से ज्ञान आदि का अतिचार सेवन कर संयम को निःसार बनाने वाला ( साधु ). an ascetic frustrating the object of asceticism by harbouring in mind thoughts of violation of right knowledge etc. भग० २५, ६;—बउस. पुं० (—बकुश) शरीर संभवी के उपगरण संभवी किंचित् द्वेष लगाइनार ( साधु ). शरीर सम्बन्धी अथवा उपकरण सम्बन्धी किंचित् द्वेष लगाने वाला ( साधु ). a person who incures a slight fault in the matter of his implements or his body. भग० २५, ६;

अहासुहुमं. अ० ( यथासूद्धम् ) जेऽग्ने तेऽनुं सूक्ष्म-वारीक. जितना चाहिये उतना सूक्ष्म. As fine as is necessary; as fine as is needed. नाया० १; भग० ३, १; १५, ६; कप० २, १६; जं० प० ३, ६८; अहि. पुं० ( अहि ) सर्प; साप; नाग. सर्प; साप. A serpent. “से किं तं अही? अही दुष्टिहा पश्चत्ता, तंजहा-दवियकराय मउ-तिशो य” पञ्च० १; अगुजो० १३१; जं० प० सूय० २, ३, २४; उत्त० ३६, १८०; जीवा० १; पिं० निं० २००; नाया० १; भग० ६, ३३; पंचा० २, २२;—दहू. न० ( -दृष्ट ) सर्प दंश ( उश ). सर्प दंश. a serpent-bite. “ अहिद्वाहसु छेयाहं वज्रयतीह ”

तह सेस” पंचा० १८, २७;—मंडै. पुं० (—शूत) भरेखा सर्पनुं शरीर; सर्पनुं क्लेशर. मरे हुए सर्प का शरीर. a dead body of a serpent. नाया० ८; ६; १२; उत्त० ३४, १६; विवा० १, १;—सिलागा. ली० (—शलाका ) एक तरेहों भुट्ठी सर्प. एक तरह का मुकुली सर्प. a kind of serpent. पञ्च० १;

अहिंश्र. पुं० ( अहिंश्र ) हांस; धार. Edge. राय० १५६;

अहिंश्चार. पुं० ( अधिकार ) अधिकार; हेहा. अधिकार; ओहदा; पद. Authority; high post. पिं० निं० ८६;

अहिंसश्र. त्रि० ( अहिंसक ) हिंसा न करनार; प्राणिनो वध न करनार; भीन डेढ़ने हुः भ न आपनार. हिंसा न करने वाला; किसी प्राणी को दुःख न देने वाला. (One) who does not kill or injure or give pain to another. परह० २, १;

अहिंसया. ली० (\*अहिंसता-अहिंसा) अहिंसा; हिंसानो अभाव. अहिंसा; हिंसा का अभाव. Absence of killing or injuring; state of being free from the sin of killing. “ जं सोऽस्मा पङ्किव-जाति, तवं खंतिमहिंसयं ” उत्त० ३, ८;

अहिंसा. ली० ( अहिंसा ) अहिंसा; प्राणिना वर्तनो अभाव; गुवद्या. अहिंसा; प्राणिवध का अभाव; जीवद्या. Mercy towards living beings; non-injury; non-killing. दस० १, १; ६, ६; सूय० १, १, ४, १०; पंचा० ७, ४२;—समय. पुं० (—समय ) अहिंसा प्रधान आगम; अहिंसाने प्रधानपद्धे दर्शावनार शास्त्र. अहिंसा की प्रधानता से उपदेश देने वाला शास्त्र. a scripture principally inculcat-

ing non-injury and non-killing.

सू० १, ११, १०;

**अहिंसित.** त्रि० ( अहिंसित ) जे ने भारतवाभां न आवे ते. जिसे मारा न जाय वह. Not injured; non-killed. सू० १, १, ४, ६;

**अहिंक.** त्रि० ( अधिक ) अधिक; विशेष. अधिक; विशेष. More; additional. अणुजो० १२८;

**अहिंकरण.** न० ( अधिकरण ) जुआ। “अधिगरण” शब्द. देखो ‘अधिगरण’ शब्द. Vide “अधिगरण.” “भिक्षु य अहिंकरणं कहु तं अहिंकरणं अविओसमित्ता नो से कप्पइ गाहावहकुलं ” निर्सी० १०, ४;

/ **अहिंकिलन.** धा० १. ( अधि+क्षिप् ) तिरस्कार करना; अपमान करना. To insult; to show contempt.

अहिंकिलन. उत्त० ११, ११;

**अहिंकखेच.** पु० ( अधिखेच ) निन्दा. Censure. परह० १, २;

**अहिंग.** प्र० ( अधिक ) जुआ। “अधिक” शब्द. देखो ‘अधिक’ शब्द. Vide ‘अधिक’. पंचा० ३, १४;—पंद्राण. न० (—प्रदान) ठराप करतां अधिक हेवु ते. ठहराव से अधिक देना. giving more than what is settled by contract or agreement. पंचा० ७, २१;

**अहिंगत्त.** न० ( अधिकत्व ) अधिकपणु. अधिकता. State of being more or additional. पंचा० ३, १४;

**अहिंगम.** पु० ( अभिगम ) उपचार; आवकना पाँच अभिगमनभानों गमे ते अेक. उपचार; आवक के पाँच अभिगमनों में से कोई भी एक. Any one of the five Abhiga-

manas of a Śrāvaka; service, politeness of behaviour etc.

“ अभिगमेण अभिगच्छति ” श्रोव०

**अहिंगम.** पु० ( अधिगम ) जुआ। “अधिगम” शब्द. देखो “अधिगम” शब्द. Vide “अधिगम.” ठा० ७; दसा० ६, १३; विशे० २६५; ६०८; क० प० २, १०२;—हह. पु० (—हह) उपदेश सांभूतवाथी थयेलु सम्बृद्धत्व ( सम्बृद्धि ); सम्बृद्धत्वो। अेक प्रकार. उपदेश सुनने से उत्पन्न हुआ सम्बृद्धत्व; सम्बृद्धत्व का एक भेद. right faith engendered by hearing a religious sermon. प्रवा० १४५;

**अहिंगमओ.** अ० ( अधिगमतस् ) तीर्थ०२ आहिनी सभीपे धर्म अवश्य करवाथी. तीर्थ०२ कर आदि के समीप धर्म थवणा करने से. Through hearing religion explained by Tirthankaras etc. विशे० २६७५;

**अहिंगमय.** त्रि० ( अधिगमक ) अर्थने अतावनार; अर्थ को बताने वाला. (One) who explains the meaning. विशे० ५०३;

**अहिंगय.** न० ( अधिग्रह ) जुआ। “अधिग्रह” शब्द. देखो ‘अधिग्रह’ शब्द. Vide “अधिग्रह.” विशे० १२०;

**अहिंगय.** त्रि० ( अधिगत ) दीक्षा देवानी साथे स्वीकार करेक. दीक्षा लेने के साथ स्वीकार किया हुआ. Accepted at the time of taking Dikṣā. पंचा० २, २३; पञ्च० १; उत्त० २८, १७;—जीव. पु० (-जीव) जेजु अभिमत्यरूप जप्यु छे ते; दीक्षा देवाने योग्य श्रव. जिसने आत्मस्वैरूप को जान लिया हो; दीक्षा लेने के योग्य जीव. one who has known the real nature of a soul; a soul fitted to

take Dikṣā i. e. enter the ascetic order. पंचा० २, २३;—जीवा-जीव. त्रि० (—जीवाजीव-अधिगतौ सम्य-विज्ञातौ जीवाजीवौ येन स तथा ) ७४, अल्प आदि नव तत्त्वने जाणुनार. जीव, अजीव आदि नौ तत्त्वों को जानने वाला. ( one ) who knows the nine categories viz soul, matter etc. राय०

अहिगयर. त्रि० ( अधिकतर ) अत्यंत अधिक. बहुत इशादह. Much more; much in excess. पंचा० १, ५;—गुण. पुं० (—गुण ) वधारे श्रेष्ठ गुण. अधिक श्रेष्ठ गुण. a superior quality. पंचा० १, ३; ४;

अहिगरण. न० (अधिकरण) जुओ। “ अधिगरण ” श०८६. देखो “ अधिगरण ” शब्द. Vide “ अधिगरण.” जं० प० ३, ६३; प्रव० २८३; पंचा० १, २४; कप्य० ६, ५८; राय० २२४; ११५; दसा० १, १३; विशेष० २२६०; वेय० १, ३३; ३, २३; प्रि० निं० १६६; ५०६; सू० १, २, २, ३६; भग० २, ५; १६, १;

अहिगरणिया. ली० (अधिकरणिकी ) जुओ। ‘ अधिगरणिया ’ श०८६. देखो ‘ अधिगरणिया ’ शब्द. Vide “ अधिगरणिया.” भग० १, ८; ३, ३; ८; ३; सम० ५; पञ्च० २२;

आव० ४, ७;

अहिगरणी. ली० ( अधिकरणी ) जुओ। ‘ अधिगरणी ’ श०८६. देखो ‘ अधिगरणी ’ शब्द. Vide “ अधिगरणी.” भग० ६,

१; जं० प०—खोड़ी. ली० (—खोड़ि ) ऐ लाकड़ामां ऐरेशु भेसाडेली हेय छे ते लाकड़ूं जिस लकड़ी में ऐरेन लगी हुई हो वह “लकड़ी. a piece of wood in which anvil is fixed. भग० १६, १;

अहिगार. पुं० ( अधिकार ) जुओ। ‘ अधिगार ’ श०८६. देखो ‘ अधिगार ’ शब्द. Vide

‘ अधिगार.’ सु० च० २, ५५४; प्रि० निं० ६८; श्रोद० निं० ४०६; प्रव० १; विशेष० ६; अहिगारि. पुं० ( अधिकारिन् ) अधिकारी. अधिकारी. One who has got an authority, a right etc. प्रव० ६४; अहिगिच्छा. सं० कृ० श्र० (अधिगृह्य) प्रतीत करीने. प्रतीति-यकीन करके. Having confided. भग० १, १; पंचा० १३, ३७; अहिच्छुक्ता. ली० ( अहिच्छुक्ता ) वंगणी देशनी भु॒४४ नगरी. जंगल देश की मुख्य नगरी. The principal city of the country named Jaṅgala. “ चंपाए ण्यरीए उत्तरपुरतिथमे अहिच्छुक्ता नामं ण्यरी होत्था ” नाया० १६; १५; प्रव० १६०२; पञ्च० १;—ण्यरी. ली० (—नगरी) जुओ। उपर्ये। श०८६. देखो ऊपर का शब्द. vide above. नाया० १५;

अहिजाया. त्रि० ( अभिजात ) शुलीन; उंचा। शुलीमां उत्पन्न थमेक. कुलीन; ऊचे कुत्त में पैदा हुआ. Nobly born. “ अहिजायं महक्षतमं ” भग० ६, ३३;

✓ अहेज्जा. धा० I. ( अधि + इ ) अध्ययन करनुः; लेखनुः. अध्ययन करना; पढना. To study.

अहिज्जह. नाया० १; ५; १६; भग० २, १; ६, ३३; ११, ११; १६, ८; १८, १०; ११;

अहिज्जति. नाया० १६; सू० १, ८, ४;

अहिज्जाजा. वि० भग० २५, ६; ७;

अहिज्जिस्सामि. वव० ३, १०;

अहिज्जिङ. हे० कृ० दस० ४;

अहिज. सं० कृ० “ अहिज वेष परिवेष विष्ये ” उत्त० १४, ६; १२, १५;

अहिजिता. सं० कृ० नाया० ८; १२; १५; दस० ६, ४, २; ३; भग० ३, १; उत्त० १, १०;

अहिज्जर्य. सं० कृ० लु० च० १, २३०;  
अहिजि-ज्ञ-हता. सं० कृ० नाया० १; भग०  
२, १; ६, ३३; ११, ११; १८, २;  
अहिता. सं० कृ० सूय० १, १२, ६;  
अहीड़. सं० कृ० विशे० ५६३;  
अहिज्जंत. व० कृ० उत्त० २८, २९; पञ्च० १;  
प्रव० ६६;  
अहिज्जश. त्रि० ( अध्येतृक ) जुओ।  
'अहिज्जग' श॒८८. देखो 'अहिज्जग' शब्द.  
Vide "अहिज्जग." वर० ३, १०;  
अहिज्जग. त्रि० ( अध्येतृक ) अखुनार॒. पाठ  
-भ॒४५५८ उ॒२२८८. पढ़ने वाला. ( One )  
who studies. "दिव्विवायमहिज्जग"  
दस० ८, ५०;  
अहिज्जिभयत्ता. ली० ( \*अभिधितता-भिध्या  
लोभः सा सज्जासा यत्र स भिधितः; न  
भिधितोऽभिधितस्तस्य भावसत्ता )  
अलोभः दोषाने अखाव. लोभ का अभाव.  
Absence of greed or avarice.  
भग० ६, ३;  
✓ अहिट्ट. धा० II. ( अधि + स्था ) जुओ।  
'अधिट्ट' धातु. देखो 'अधिट्ट' धातु. Vide  
"अधिट्ट."  
अहिट्टेह. "जे भिक्खू रथहरणं अहिट्टेह"  
निसी० ५, २२; १३, ६;  
अहिट्टिष्ट. निसी० ५, ७८;  
अहिट्टपू. वि० उत्त० ३४, ६१;  
अहिट्टिए. वि० सूय० १, २, ३, १५;  
दस० ६, ४, १;  
अहिट्टिष्टए. हे० कृ० वेय० ३, ३; वर० ८, ८;  
अहिट्टाण. न० ( अधिष्ठान ) ऐसवुः आश्रय  
करवे। ते. बैठना; आश्रय लेना. Sitting;  
taking resort to. प्रव० ८८६;(२)ऐकै;  
युद्ध प्रदेश; ऐसखी. बैठक; युद्ध प्रदेश. the  
hips. शोघ० नि० भा० ७६;

अहिट्टिअ. त्रि० ( अधिष्ठात् ) अतुधान उ॒२२८८.  
अनुष्ठान करने वाला. ( One ) who  
does or performs. "सउम्मायजोगं च  
सवा अहिट्टिए" दस० ८, ६२;  
अहिट्टिअ. त्रि० ( अधिष्ठित ) निवास क्रेत;  
रहेत. निवास किया हुआ; रहा हुआ.  
Resorted to; having an abode  
in; remaining. "एंतमहिष्ठिज्ञो  
भयं" उत्त० ६, ४; ( २ ) वश थथेत;  
तभे थथेत. वशीभूत; वश हुआ. come  
under control. "राजाहिष्ठिया"  
नाया० १४;  
अहिष्ठिज्जमाण. व० कृ० त्रि० ( अधिष्ठीयमान )  
आ॑क्षम्यु उ॒रातुं. आक्रमण कराता हुआ.  
Being invaded. ढा० ४, १;  
अहिणव. त्रि० ( अभिनव ) नवे; नवीन गुण-  
वाणी. नया; नये गुणों वाला. New;  
fresh. राय०  
अहिणिवोह. पुं० ( अभिनिवोध ) भतिज्ञान.  
मतिज्ञान. Matijñāna; knowledge  
derived through the five  
senses and the mind. ( २ ) भति  
ज्ञाना आवरण्यने क्षेपापशम. मतिज्ञान के  
आवरण का क्षयोपशम. the destruction  
and subsidence of the  
obstacles of Matijñāna. पञ्च० २६;  
अहिरण. त्रि० ( अभिज्ञ ) न भेदेत. न भिजा  
हुआ. Unbroken; unpierced. पंचा०  
११, ३८;—गंठि. त्रि० (-प्रनिधि) नेत्रे  
राग द्वेष की मज़बूत गाँठ भेदी नथी ते. जिसने  
राग द्वेष की मज़बूत गाँठ नहीं भेदी वह.  
( one ) who has not broken or  
pierced the hard tie of passion  
and hatred. पंचा० ११, ३८;  
अहित्ता. त्रि० ( अभित्त ) अति पीड़ियेदेता;  
तपेदेता; तातो थथेदेता. अति पीड़ित; बहुत तपा

हुआ. Greatly afflicted; greatly heated. उत्त० २, ६;

अहिताव. पुं० ( अभिताप ) गरभी; ताप. गर्भी; साप. Heat. “पुटे गिम्हाहितावेण”  
सूय० १, ३, १, ५;

अहिता. सं० कृ० अ० ( अधीत्य ) लण्ठने;  
पढना करीने. पढ़कर. Having studied.  
“ अद्विगमेवं बहवे अहिता, लोगसि जायांति  
अशागताइ ” सूय० १, १२, ६;

अहितव. त्रि० ( अभितव ) जुओ. ‘अहितव’  
शब्द. देखो ‘अहितव’ शब्द. Vide “ अ-  
हितव.” पिं० निं० १८०;

अहितायदंसण. त्रि० ( अभिज्ञातदर्शन )  
अभिज्ञात-संभत छे दर्शन जेनु ते; शांत.  
जिसका दर्शन अभिज्ञात-सम्मत हो वह; शांत.  
Of a calm, agreeable appear-  
ance; ( one ) whose sight is  
agreeable. आया० १, ६, १, ११;

अहिमर. पुं० ( अभिमर-अभिमुखा: संतो त्रि-  
यन्ते पराकृ मारयन्ति वाये तेऽभिमराः ) रुद्धने  
रुद्धने भरे अथवा भारे ते. सन्मुख रहकर मरने,  
मारने वाला. (One) who stands face  
to face and kills or is killed. विशेष०  
१७६३; परह० १, ३; ओघ० निं० भा० २५;

अहिय-अ. त्रि० ( अधिक ) अधिक; पधारे;  
विशेष. अधिक; ज्यादह; विशेष. More;  
additional. उत्त० २४, ३४; ओव० ३०;  
अग्नुजो० १३४; नंदी० १२; पिं० निं० २२६;  
३२७; नाया० १; विशेष० १३४; भग० ७, ६, ११,  
११; २४, १; कप्य० ३, ४०; ४, ६२; क०य० ४,  
४१; जं० प० ४, ६७, ७, १३२; प्रव० ८२१;  
—खंति. लौ० (-ज्ञानित) अत्यन्त क्षान्ति;

अधिक क्षमा. अधिक ज्ञानित-ज्ञमा. greater  
forgiveness; additional pardon.  
नाया० १०; —दिण. पुं० ( -दिन ) अधिक

दिवस. अधिक दिन. an additional  
day. ठा० ६; —पिच्छुगिरुज्ज. त्रि०  
( -प्रेषणीय ) अधिक जेवा लायड. खूब  
देखने योग्य. worthy of being parti-  
cularly seen or observed. कप्य०  
४, ६३; —पोरिसीय. त्रि० ( -पौरुषीक )  
पुरुष अभाष्य करता अधिक. पुरुष प्रमाण से  
ज्यादह. more than is natural to  
man. “ कुंभी महंताहियपोरिसीया,  
समूसिता लोहियपूयपुरुषा ” सूय० १, ५,  
१, २४; —मंडल. पुं० ( -मण्डल ) अधिक  
मंडू-मंडलो. अधिक मंडल-धेराब. all  
additional or a larger circle. नाया०  
१०; —वरण. पुं० ( -वर्ण ) अधिक वर्ण-रंग.  
ज्यादह रंग. more colour; deeper.  
नाया० १०;

अहिय-अ. त्रि० ( अहित ) अहित करना॒ अहित  
करने वाला. Injurious; harmful.  
दसा० ६, १; ४; ७, १२; ६, १२;  
सम० ३०; सूय० १, १, ३, ६; ( २ )  
पुं० अहित; असुख. अहित; असुख.  
uneasiness; harm. आया० १, १, २,  
१६; १, ३, १, १०६; दस० ६, १, ४; —गा-  
मिणी. लौ० ( -गामिनी ) अहितकारी  
भाषा. अहितकारी भाषा. injurious,  
pernicious speech. दस० ८, ४८;

अहिययर. त्रि० ( अधिकतर ) अतिधृष्ट;  
अतिशय अधिक-वधारे. बहुत ज्यादह. Too  
much; excessive. मु० च० २, ३५८;  
—वरण. पुं० ( -वर्ण ) अतिशय अधिक रंग.  
बहुत ज्यादह रंग. too much colour;  
too deep colour. नाया० १०;

✓ अहियास. धा० II. ( अधि + आस )  
सहन करना; सहन करना. To bear; to  
endure.

- अहियासेह. आया० १, ६, ३, १८५; २,  
१५, १७६; नाया० ११; जं०  
१० २, ३१; अंत० ६, ३;

अहियासिज्ञा. वि० आया० १, ६, २, १८४;  
अहियासपू. वि० दसा० ७, १; उत्त० २,  
२३; सूर्य० १, ६, ३०; दस० ५,  
२, ६; चू, २६; वच० १०, १;  
नाया० १;

अहियासिस्तं. भवि० उ० ए० भग० १५, १;  
अहियासित्तपू. हे० कृ० आया० १, ७, ४,  
२१५; भग० ६, ३३;

अहियास. पुं० ( अध्यास ) परिषुष वर्गे रे  
सारी रीते सहन कर्तवां ते; उपसर्गथी  
चलायमान न थतां चारित्र वराभूर पाणिवुं ते.  
परीषह वर्गेरह का अच्छी तरह सहन करना;  
उपसर्ग से चलायमान न होकर चारित्र का  
बराबर पालन करना. Endurance of  
troubles and difficulties; main-  
tenance of right conduct in-  
spite of disturbances. पञ्च० २;

अहियासण. न० (\*अध्यासन-अधिसहन)०  
सहन कर्तुं; अभन्तुं. सहन करना. Endur-  
ance; bearing troubles etc.  
सम० ७;

अहियासणया. (\*अध्यासनता-अधिसहनता)  
अधिक सहन कर्तुं ते; सहनशीलपूर्णं.  
सहनशीलता; बहुत अविक सहन करना.  
Patient endurance; great  
patience. सम० २७;

अहियासणया. ली० ( अहितासनता-अहित-  
मनुकूलमासनं यस्य स तथा तज्जावस्त-  
ता ) अनुकूल आसन-ऐडकनुं न भगिवुं ते.  
अनुकूल आसन-बैठक का न मिलना. Not  
getting a proper, agreeable  
seat. ठा० ६;

अहियासणया. ली० ( अध्यशनता-अध्यशन-  
मधिकभोजनमेवाभ्यशनता ) अल्पुष्ट छतां

भोजन कर्तुं ते. अजीर्ण होते हुए भी  
भोजन का करना. Taking food in  
indigestion. ठा० ६;

अहियासिय. त्रि० ( अध्यासित ) परिषुषादि  
संहन करेतः उपसर्ग आदि गुतेश. परीषह  
आदि सहन किया हुआ. (One) who has  
endured and conquered  
troubles, disturbances etc. भग०  
१५, १; ( २ ) न० ( भावे कृः ) सहन कर्तुं  
ते. सहन करना. endurance; patience.  
“ दवियाण पास अहियासियं ” आया० १,  
६, ३, १८५;

अहियासिय. त्रि० ( अधिकासिक ) वधारे  
नज्जुन्तु; धृष्टु पासेन्. बहुत नज़दीकी.  
Very near; in the near; neigh-  
bourhood. ओघ० नि० ६३३;

अहिररण्यसोवाणिण्य. त्रि० ( अहिररण्यसोवाणिण्क )  
सोनु, रघु. आदि परिशुद्धरहित. सोना, चांदी  
आदि परिग्रह से रहित. Devoid of such  
worldly possessions as gold,  
silver etc. पराह० २, ३;

अहिरि. त्रि० ( अहारिन् ) अनिष्ट; अभनेन.  
अनिष्ट; भनोहरता रहित. Not attractive;  
not charming. “ जे य अहिरी जे य  
अहिरीमणा ” आया० १, ६, २, १८३;

अहिरिआ. त्रि० ( अद्रीक ) ऐशरम; निर्द्वन्द्व।  
निर्लज्ज; वे शर्म. Shameless. मि० नि०  
६३९;

अहिरीमण. त्रि० ( अद्रीमनम् ) शीत, उष्णू  
आदि परेसह अभवाभां लाजू न राखनार.  
शीत, उष्ण आदिकू परीषह सहन करने में  
लज्जा न रखने वाला. ( One ) not  
feeling ashamed of patiently  
enduring of the troubles of cold,  
heat etc. आया० १, ६, ३, १८३;

**आहिलसंत.** व० कू० त्रि० ( अभिलष्ट ) ध॒७।-  
अभिलापा॑ इरतो. इच्छा॑-अभिलाषा करता  
हुआ. Wishing; desiring. सु०  
च० १, ८;

**आहिला.** ली० ( अहल्या ) अहल्या॑ नामी॑  
एक ली॑, जैने भाटे युद्ध थयुं हुतु. अहल्या॑  
नाम की एक ली॑, कि जिसके लिये युद्ध हुआ  
था. A woman of the name of  
Ahalyā for whom a war was  
waged. परह० १, ४.

**आहिलाण.** न० ( \*अहिलान-खलीन ) च॒५६;  
लगाम. लगाम. A bridle; reins. आव०  
३१; ज० प० ३; नाय० ४; १७;

**आहिलाव.** पु० ( अभिलाप ) श॒५६तुं उ॒च्यारणु;  
उ॒च्यारथ॒श्चै तेवै॒श॒३८. शब्द का उच्चा-  
रण; उच्चारा जा सके पेसा शब्द. Pronunci-  
ation of a word; a word that can  
be pronounced. ठा० २, ३; प्रव०  
१२१४;—इत्थी. ली० (-री) श॒५६ उ॒च्या-  
रमां र्ही; र्ही नितिनो॑ श॒५६, नं॒म साक्षा,  
भागा॑ ध॒त्यादि॑. लालिंग शब्द, यथा शाला, माला  
आदि. A word in the feminine  
gender. सू० निं० १, ४, १, ५६;

**आहिलास.** पु० ( अभिलाप-अभिलष्टनमभि-  
लप्यते वा ) ध॒७।; अभिलापा॑. इच्छा॑; अभिला-  
षा. A desire; a wish. क० गं० १, २३;

**आहिलासि.** त्रि० ( अभिलापिन् ) ध॒७। आगो॑;  
अभिलापावागो॑. इच्छा॑ वाला; अभिलाषा॑  
वाला. ( One ) having a wish;  
desirous. विश० ४;

**आहिलोय.** न० ( अभिलोक-अभिलोक्यते-  
, उक्तोक्यते अन्न तदभिलोकम् ) उन्नत  
स्थान. उन्नत स्थान. A lofty or  
elevated place. परह० ३, ४;

**आहिव.** पु० ( अधिप ) रवामी॑; अधिपति॑; ध॒५६.

स्वामी॑; मालिक; धर्मी. Owner; lord;  
king. विश० १०५५;  
**आहिवह.** पु० ( अधिपति॑ ) जु॑ये॑ 'आहिव.'  
श॒५८. देखो 'आहिव' शब्द. Vide 'आहिव.'  
नाया० द; १७; राय० १६; ३७; ज० प०  
४, ११४; उत्त० ११, १६; भग० ३,  
१; १२, ६; परह० १, ४; काप० ३, १३;  
—जंभग. पु० (\*जृम्भक-जृम्भकाधिपति॑)  
जृम्भक देवतानो॑ अधिपति॑. जृम्भक देवों  
का अधिपति॑. the lord of the  
Jrimbhaka gods. भग० १४, द;

**आहिवड.** धा० I. ( अधि॒पति॑ ) आव॒नु॑  
आना. To come. आहिवडांति॑. ओघ०  
निं० द१;

**आहिवडंत.** व० कू० त्रि० ( अभिपतक ) सन्मु॒५०  
आवतो॑. सामने आता हुआ. Coming  
towards. गच्छा० ११२;

**आहिवासण.** न० ( अधिवासन ) चुंगिंधि॑ वस्तु॑  
छांटी॑ ते. सुगन्धित वस्तु का छिडकना.  
Sprinkling with a fragrant  
substance. पंचा० द, २१;

**आहिसंधारण.** न० ( अभिसन्धारण ) अभि-  
प्राय॑ आधवे॑-धारणा॑ कृती॑ ते. अभिप्राय निश्चित  
करना; धारणा करना. Act of forming  
a definite idea or opinion.  
पंचा० ६, ३६;

**आहिसकण.** न० ( अभिद्वक्कन ) कियाना॑  
समयने उक्तंधीने ते किया॑ कृती॑ ते, नं॒म डे॑  
ज्ञायरीती॑ समय भ॒ध्याह॒काग॑ नियत होवा॑  
ज्ञान॑ कृताकृते॑ भ॒ध्याह॒काग॑ भ॒ध्याह॒काग॑ नियत॑ ते.  
किसी किया के नियमित समय का उल्लंघन,  
करके वह किया करना, जैसे भिक्षा का  
समय मध्याह्न काल निश्चित होने पर भी घटे॑  
दो घंटे देरा से भिक्षार्थ जाना. Doing a  
thing after the appointed time has lapsed, e. g. going to beg;

food in the afternoon when the time fixed for it is mid-noon.

आघ० निं० भा० २१६; ( २ ) आसपास कुदंतु ते. आसपास चारों ओर कूदना. jumping about; leaping to and fro. प्रब० १५७;

**अहिसहण.** न० ( अधिसहण ) सहन करना. Act of bearing or enduring. ठा० ६;

**अहिसि.** हु-भूथा० भूत० त० ब० ( अभ्यून ) जुन्मे 'हु' धातु. देखो 'हु' धातु. Past tense 3rd person of 'भू' vide-the root 'हु.' "एतीए सब्बसत्ता सुहिया लु अहिसि तंमि कालामि" पंचा० ६, २०;

**अहिसिचण.** न० ( अभिव्यवन ) स्नान-अभिपेक; उपरथी पाणीनीधार सिंचनीते. स्नान; अभिपेक; ऊपर से पानी की धारा डालना. Sprinkling of water from above. सम० प० १६३;

**अहिपत्रल.** न० ( अभिविक्त ) राज्याभिपेक करेत. राज्याभिषेक किया हुआ. Appointed as a king; ( one ) crowned as a king with coronation ceremony. मु० च० १५, ८२;

**अहीरं सं० कृ० अ०** ( अधीत्य ) भणीने; पढ़े. भीने. पढ़कर. Having read or studied. विशे० ५६३;

**अहीरण.** त्रि० (\*अधीन-अधिकः स्वायत्त इनः स्वाधीनः) स्वाधीन. स्वाधीन. Self-dependent. परह० २, ४; विशे० ६३;

**अहीरण.** त्रि० ( अहीन ) अविकल; संपूर्ण; छीनताथी रहित. अविकल; संपूर्ण; हीनता से रहित. Full; perfect; not defective. नाथा० १; ७; ८; १२; १६; उत्त० १०, १७; भग० २६, १; अणुजो० १३;

ओव०—**अहरित.** त्रि० (-अतिरिक्त) छीन नहि तेम अधिक नहि. हीनता और अधिकता से रहित; यथार्थ. Neither more nor less; neither defective nor excessive. निसी० २०, ११;—**पर्यं-** दिय. न० (-पञ्चनित्रिय) पूरेपूरी पांच धन्द्रये। जेमां छे ऐवु ( शरीर ). संपूर्ण इन्द्रियों वाला(शरीर). (a body) having all the five senses. नाथा० १८;

✓ **अहीय.** धा० I. ( अधि + इ ) भणुनुँ; पठन करनुँ; अध्ययन करना. पढ़ा हुआ. To study; to learn.

**अहीयह.** विशे० ३१६६;

**अहिस्सं.** भवि० प्रब० ७८६;

**अहीय.** त्रि० ( अधीत ) भणेत; पठन करेत. Studied; learned. प्रव० ५३०;

**अहीरग.** न० ( अहरिक-छियमानस्यैव न विद्यन्ते हीरिकास्तन्तुक्षण्या मध्ये यस्य तद्वीरकम् ) तंतुरहित; जेने छेदतां रेसा न पडे ते. तन्तु रहित; जिसमें छेदन भेदन करते समय रेसा न निकले वह. Anything having no fibers in it. प्रब० २४४;

**अहीलाण्डिज़.** त्रि० (\*अहीक्षनीय-प्रशंसनीय) वभाषुरा लायक; स्तुत्य प्रशंसनीय; स्तुति करने योग्य. Praise-worthy; meritorious. उत्त० १२, २३;

**अहुणा.** अ० ( अधुना ) हुभणा; सध; आधीने. अभी; सदा; इसी समय. Now; just now. उत्त० ५, २७; निसी० १७, ३०; भग० ३, २, ५, ६;—**उद्बलित्त.** त्रि० (-उपलित्त) तरतुं लीपेद्धुं, अभी का लिपा हुआ.freshly smeared; smeared just a little time back. दस० ५,

१, २०; २१;—उववज्ञ. त्रिं (\*-उपपञ्च उत्पन्न) तत्काण्ठो उत्पन्न थमेद. तत्काल का उत्पन्न. born at that very moment; freshly born. ठा० ४, ३; भग० ३, १; १६, ५; राय० २४८;—धोय. त्रिं (-धौत) तत्काण्ठु धोयावणु; ने शब्द परिषुत्— अथित न थयुं हेऽय ते. अभी का धुला हुआ; जो अचित न हुआ दो वह. freshly washed; not freed from sentient beings. “अहुआधोयं विवज्ञए” दस० ५, १, ७५;—भिन्न. त्रिं (-भिन्न) तत्काण्ठाना फुटेक; नयां अंदुर उगेत. तत्काल का फूटा हुआ. नया आँकुर उगा हुआ. freshly sprouted up. आया० २, ३, १, १११;

**अहे.** अ० ( अधस् ) नीचे; अधौ। नीचे. Below; beneath. “अहे वयह कोहेण, मारेण अहमा गई” उत्त० १, ५४; ३६, ५०; विशेष० ४३०; जं० प० २, ३१; सूय० १, १, २, ८; १, ३, ४, २०; पि० निं० ६८; वेय० ४, २४; दस० ६, ३४; दस० ६, १; ७, १; नाया० ६; ८; १४; १६; भग० १, ६; २, ५; ३, १; २, ५, ४; ६, ५; ८, ८; १७, १; कप्य० ५, ११४;

**अहे.** अ० ( अथ ) ऊँचे। ‘अह’ श०८८. देखो ‘अह’ शब्द. Vide ‘अह.’ वेय० २, १०; ठा० ३, १; जं० प० ७, १३६;

**अहेत.** पुं० ( अहेतु ) हेत्याकास; अनुभितिने न साधनार डेतु. हेत्याकास; अनुभिति को सिद्ध न करने वाला हेतु. A fallacious middle term or mark; a middle term that does not prove the conclusion. “पंच अहेत पण्यता, तंजहा—अहेत या जाणह० जाव अहेत छुडम-थमरणं मरह” ठा० ५, १; सम० अणुजो० १५१; भग० ५, ७;

**अहेतश्च-**य. त्रिं ( अहेतुक ) हेतुरहित; अन्यत्य; नित्य. हेतु रहित; अजन्म्य; नित्य. Having no cause; eternally existing. विशेष० ७०;

**अहेकम्म.** न० ( अधःकर्मन्-विशुद्धसंयम-स्थानेभ्यः प्रतिपत्याऽस्तमानमविशुद्धसंयम-स्थानेषु यदधोऽधः करोति तदधःकर्मन् ) ने भोजन करवाथी साधुने अधोगतिमां जन्मुं पृष्ठे ते, आधाकर्म देष्वायुं भोजनः साधुने आ इराहिमां लागतो आधाकर्म देष्प. जिस भोजन के करने से साधु को अथोगति में जाना पड़े वह आधाकर्म दोष वाला भोजन; साधु को आहार में लगने वाला आधाकर्म दोष. Sin incurred by a Sādhu by Ādhākarmī food; food with the fault of Ādhākarma lowering down an ascetic in spiritual evolution. “भावं अहे करेत्य तम्हा तं भावदेकम्म” पिं० निं० ६७;

**अहेकाय.** पुं० ( अवःकाय ) शरीरनो नीचेदे। भाग. शरीर का अधोभाग—नीचे का हिस्सा. The lower part of the body. सूय० ४, १, ३;

**अहेगाम.** पुं० ( अधोग्राम ) निम्नं ग्राम. नीचे का गाँव. A low village. भग० ६, ७;

**अहेगारवपरिणाम.** पुं० ( अधंगारवपरिणाम ) ने परिणामना स्वभावथी जन्मने अधोगतिमां जन्मुं पृष्ठे तेनुं गैरव परिणाम; अलिमानरूपता. जिस परिणाम के स्वभाव से जीव को अथोगति में जाना पड़ता है वह अभिमानपूर्ण श्रुति. Pride which degrades a man to a lower condition of existence. भग० ६, ७;

**अहेतारण.** पुं० ( अधस्तारक ) प्रिशायनीयेक जन. प्रिशायनी का एक जाति. A species of fiends or goblins. पञ्च० १;

**अहेपश्चगद्वर्कव.** त्रिं० ( अधःपश्चगार्द्धरूप-अधोऽधस्तमं यत् पश्चगस्य सर्पस्यार्द्धं तस्येव रूपमाकारो यथां तेऽधःपश्चगार्द्धरूपाः) सर्पना नीयका ऐश्वर्णी भाइकु सरणी-सीधी। सर्प के नीचे के हिस्से के समान सरल-सीधा। Straight like the belly of a serpent. जावा० ३; राय०

**अहेभव.** पुं० (अधोभव) रत्नप्रभा आदि नारकों नाम। भव. रत्नप्रभा आदि नारकों का भव. Birth of Nārakis like those of Ratnaprabhā etc. पिं० निं० १०१;

**अहेलोग.** पुं० ( अधोलोक ) अधोलोक; नीचेनो लोक; पाताला लोक। अधोलोक; पाताल लोक. The lower world; the infernal world. भग० ३, ४; जं० प० ५, ११२;

**अहेलोय.** पुं० ( अधोलोक ) जुआ 'अहेलोग' १४६. देखो 'अहेलोग' शब्द. Vide 'अहेलोग.' भग० ११, १०; २०, २; —खेत्तणालो. छाँ० (- चेत्रनाली) अधोलोकमानी त्रस नाई; अधोलोकनी दृच्यावच्य अंडे २०७ प्रभाणु क्षेत्र। अधोलोक का त्रस नाई। अधोलोक के बीचों बाच का एक राजु प्रमाण क्षेत्र। A region in the midst of the infernal world. भग० ३४, १;

**अहेवाय.** पुं० ( अधोवात ) अधोवायु; नीची दिशानो वायु। अधोवायु; अधोदिशा का वायु। The lower wind. ठा० ७, १;

**अहेसणिज्ज.** त्रिं० ( अथेपणीय ) सुधारवा, व्यग्रात्या वर्गेरेन। संस्कार वग्रन्; वे रिथनिभां होते तेज रिथनिन्। मुश्वारने और विगाइने वग्रैरह के संस्कार से रहित। जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहने वाला। ( Any ) thing in its actual condition; neither set right nor thrown

into disorder. "अहेसणिज्जाहं वस्थाहं जाप्ज्ञा" आया० १, ८, ४, २११;

**अहेसत्तमा.** छाँ० ( अधःसहमी ) तमतमा प्रभा नाभी सातभी नरक। तमतमा प्रभा नाम का सातवां नरकभूमि. The seventh hell named Tamatamā Prabhā. "अहेसत्तमाए पुढवीए" ठा० २, ४; नाया० १६; भग० ३१, ५; ६;

**अहो.** अ० ( अहो ) आश्र्वय; विस्मय. An interjection of surprise, astonishment. विवा० १; दस० ५, १, ६३; ६, २३; अणुजो० १६; नाया० २; ३; १२; १३; १६; भग० ३, १; २; १५, १; १६, ५; ( २ ) दीनता। दीनता. an interjection of helplessness; ( ३ ) आमन्त्रण. आमन्त्रण. an interjection of address. प्रव० ६१२;

**अहो. अ०** ( अधस् ) नीचे. नीचे. Below; beneath; lower; down. अणुजो० १०३; ओव० २१; ३८; भग० ३, २;

**अहोअहो.** अ० ( अधोऽधम् ) नीचे नीचे नीचे नीचे. Below, lower and lower. पिं० निं० १००;

**अहोकंडयग.** त्रिं० ( अधःकण्डयक ) नालिथी नीचे ऐश्वर्णार. नार्मा से नीचे खुजान वाला। ( One ) who scratches below the navel. भग० ११, ६;

**अहोणिसं.** अ० ( अहनिशम् ) रातहिवस; अहोरातः लभेशां। रात दिन: अहनिश। Day and night; always. "यिरप् गोरहयाणं अहोणिसं पश्चमाणाणं" अणुजो० २८;

**अहोणिसि.** अ० ( अहनिशम् ) जुआ 'अहोणिसं' १४६. देखो 'अहोणिसं' शब्द। Vide "अहोणिसं." निश० ८३७;

**अहोदाण.** न० ( अहोदान ) आश्चर्यकारी दान; ऐहृद दान. आश्चर्यकारी दान; असीम दान. Wonderful act of charity. “आगा- से अहोदाणं च घुटं” उत्त० १२, ३६; भग० १५, १;

**अहोदिसा.** ली० ( अधोदिशा ) नीचेनी दिशा; अधोदिशा. नीचे की दिशा; अधोदिशा. The lower quarter. आया० १, १, १, २; **अहोनिसं.** अ० ( अहर्निशम् ) रात द्विवेस. दिन रात. Day and night; always. सूर्य० २, ४, १०;

**अहोभागि.** त्रि० (\*अधोभागिन्-हतभागिन्) कम्भागी; अभागा; हतभाग्य. Unfortunate; unhappy. सूर्य० २, ३, ५६; **अहोमुह.** त्रि० ( अधोमुख-अधोगत्यभिमुखा- नि-अधोगतिनयनशिळानि-अधोमुखानि ) अर्थागति-नरकादिमां लभ्यनार. अधोगति- नरकादि में ले जाने वाला. Leading to hell etc. पिं० निं० १०१; प्रव० ४५२; ६१२;—**मल्लग.** पुं० (\*-मङ्गक-मृत्पात्र) नीचे भेड़ छे नेनु अवेषा सरावले. नीचे मुख वाला मटी का एक पात्र विशेष. a kind of vessel with its mouth pointing downwards. प्रव० ६१२; \***अहोयराओ.** अ० ( अहोरात्रम् ) रात द्विवेस; निरन्तर. दिन रात; निरन्तर. Day and night; constantly. “अहोयराओ परितप्पमाणे” उत्त० १४, १४; सूर्य० १, १३, २;

**अहोरत्त.** न० ( अहोरात्र ) साठ धरी प्रभाष्यने। कणविलाग; रातद्विवेस; ऐक रात अने ऐक द्विवेस. साठ धड़ी परिभित कालविभाग; रात दिन; एक रात और एक दिन. A day and a night. “तिविहे अहोरत्त, तीते पडुप्पने अरीगाए” या० ३, ४; या० ३, ४; तंडु० ५; नाया० ८; भग० ५, १६, ७; २५, ५; अणुजा० ११५; १३८; जं० प० २, १८; ३१; ७; १३३; उत्त० ३६, ११३; प्रव० ८६;

**अहोरत्तिया.** ली० ( अहोरात्रिकी ) जुओ। ‘अहोराइंदिया’ शब्द. देखो ‘अहोराइंदिया’ शब्द. Vide “अहोराइंदिया.” दसा० ७, ११;

**अहोराइंदिया.** ली० ( अहोरात्रिनिदवा ) साधुनी ११ भी पठिभा, के नेमां छहनु तप करवामां आवे छे अने ऐक अहोरात्र प्रभाष्य गाम व्याहार रही अभुक्त आसने काउसग्न करवामां आवे ते भिक्षुकनी ११ भी पठिभा. सातु की ग्यारहवां प्रतिमा, जिसमें छठ का तप किया जाता है और एक अहोरात्र तक प्राम के बाहर रहकर अमुक आसन से कायोस्तर्ग किया जाता है. The 11th vow of an ascetic in which the austerity known as Chhatha is performed and religious meditation is practised outside the town in a certain bodily posture for a day and a night. भग० ३, १; नाया० १; दसा० ७, १;

**अहोराइया.** ली० ( अहोरात्रिकी ) जुओ। ‘अहोराइंदिया’ शब्द. देखो ‘अहोराइंदिया’ शब्द. Vide “अहोराइंदिया.” पंचा० १८, ३;

**अहोराई.** ली० ( अहोरात्रिकी ) भिक्षुनी ११ भी पठिभा, के नेमां छहनु तप करी गाम व्याहार रहेवानु लेख छे. भिक्षु की ग्यारहवां प्रतिमा, जिसमें छठ का तप करके गाँव के बाहर रहना पड़ता है. The 11th vow of a monk by which he has to remain outside the town after fasting. प्रव० ५६५;


**अहोलोअ-य.** पुं० ( अधोलोक ) नीचेनो लेक; पाताग लेक, के नेमां सातनरक आवेश छे, ते नरकमां व्रसनाडीना भागभां पाथडा छे तेना उपर नरकावासा थे, तेमां नारकी रहें छे. ऐकेकी

नरके केटला केटला पाथडा अने केटला-नरक-वासा छे, ते विन्द्रमां भतावेल छे, पहेली नरक एक राजनी, भीजु घे राजनी, एम एमेके राज वधारतां सातभाँ नरक सात राजना। विस्तारभाँ छे, अधिलोकमां नारकी, भवनपति, वाणव्यंतर अने जंबका देवता, रहे छे, ते उपरांत पांच स्थावर छे अधोलोक; पाताल लोक; जहाँ सात नरक हैं, त्रस नाडी के भाग में पाथड़े-स्तर हैं, उनके ऊपर नरकावास हैं, उनमें नारकी रहते हैं, एक एक नरक में कितने २ स्तर और कितने २ नरकावास हैं, सां चित्र में बताया गया है। प्रथम नरक एक राजु का, और दूसरा दो राजु का है, इस प्रकार एक एक राजु की वृद्धि होने पर

सातवाँ नरक सात राजु के विस्तार में है, अधोलोक में नारकी, भवनपति, वाणव्यंतर और जृम्भक दंव रहते हैं, इनके अतिरिक्त पांच स्थावर भी रहते हैं। The nether world; the lower world consisting of seven Narakas ( hell ) each separated by a certain number of earth layers. The middle portion of this world is known as Trasanādi which is habituated by Nārakī beings and Bhavanpati, Vaṇvyantara and Jrumbhāka gods. अगुजो १०३; १४८; पञ्च २; भग २, १०३;

### — अद्योलोक-अधोलोक —

#### प्रियोलोक



अहोलोग. पुं० ( अधोलोक ) जुओ। उपदे।  
श०६. देखो ऊपर का शब्द. Vide above.

ठा० ३, २;—चत्थव. त्रि० ( -वास्तव्य )  
अधोलोकमां वसनार. अधोलोक में बसने  
वाला. ( one ) residing in the  
nether world ( २ ) त्री० अधोलोकवासी  
दिशाकुमारिका। अधोलोक निवासी दिशाकु-  
मारिका. Dishākumārikā, living in  
the nether world. नाया० ८;

अहोवाय. पुं० ( अधोवात् , नीची दिशा ) वायु।  
नीची दिशा का वायु. The wind of the  
lower quarter. ( २ ) अधोवायु;  
अधोवा; अपानवायु। अपानवायु; अधोवायु.  
the lower wind. पञ्च० १; नाया० १;

अहोविहार. पुं० ( अहोविहार ) आश्र्ये कारक  
विहार; यथोक्त संयमनु अतुक्तान। आश्र्ये  
कारक विहार; यथोक्त संयम का अनुक्तान।  
Wonderful observance of the

rules of asceticism, e.g. leaving  
a place at a punctual time etc.

“ सुसुष्टुप् अहोविहारए ” आया० १, २  
१, ६५;

अहोसिर. त्रि० ( अधोशिरस् ) ऐनु भायु  
नियु छे ते, जिसका मस्तक नाचा है वह。  
( One ) with the head low or  
down ward.“अहोसिरा कंटवा जायंति”  
सम० ३४; “उड़ जाए अहोसिरे” नाया० १;  
भग० १, १; ८, ७; ११, २;

अहोहित्र. त्रि० ( अधोऽवधिक—परमावधे-  
रधोवर्त्यवधियस्य सोऽधोऽवधिकः ) परम  
अवधितानवाणी। करता उत्तरता अवधि-  
तानवाणी। उत्कृष्ट अवधिज्ञान वाले से कम  
दर्जे के अवधिज्ञान वाला। Next or infe-  
rior to one who has attaineded  
the highest Avadhijñāna;  
possessed of an inferior degree  
of Avadhijñāna. राय० २४०;

इति श्री लीम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपूज्यपाद

श्री १००८ श्री गुलाबचन्द्रजित्स्वामिशिष्य-

श्रीजिनशासनसुधाकर—शतावधानि—पारिडत

प्रवरमुनिराज श्री १०८ श्रीरत्नचन्द्रजित्स्वामी

विरचते वृहदर्धमागधीकोपे सप्रमाण-

मकारादिशब्दसङ्कलनं

समाप्तम् ।

इति

प्रथमो भागः





# Extracts From Opinions.

---

17 Bendler Strasse

Berlin (Germany)

June 14th. 1922.

Dear Sir,

With many thanks I beg to acknowledge the receipt of the specimen of the Ardha Māgadhi Dictionary. Your work deserves a cordial welcome from all students of Prākrit. It fills a decided gap in the literature devoted to this important branch of oriental studies and will be found invaluable to all who are interested in the language, literature and philosophy of Jainism. It bears evidence of a thorough grasp of the students requirements and is as far as I am able to judge from the specimen—comprehensive and well arranged. What I have seen of it, I consider interesting in the highest degree and a useful help to teachers and pupils.

Believe me dear sir,

Yours sincerely,

HELMUTH VON GLASENAPP, Ph. D.

*Privatdozent der indischen Philologie*

*an der Universität Berlin.*

---

1st. July 1922.

Dear Sir,

I received your letter with the copy of the specimen of the Ardha Māgadhi Dictionary. I cannot find anything that should be noted with respect to the Dictionary. There is no doubt that your book will be a work of very great interest for all scholars who

are occupied with the study of the Indian languages. For it is a matter of regret that there is up to this day no good dictionary of any of the Prākrit language, so that it is very difficult for the students to read a Prākrit text especially one in Ardha Māgadhi. This difficulty is a good deal greater for the European students on account of their being quite unacquainted with the element of Ardha Māgadhi whilst every man in India is familiar with it.

Hoping that we need not wait too long till your Dictionary will appear.

*Preussische Staatsbibliothek*

I remain

*Orientalists*

Dear Sir,

*Under den Linden 38.*

Yours sincerely,

*Berlin N. W. 7.*

JOH. NOBEL,

---

*Bonn 15 th March 1922.*

Dear Sir,

I have received your circular letter and the specimen of an Illustrated Ardha Māgadhi Dictionary, and I congratulate you on succeeding to bring out this eminently important work at a comparatively moderate cost,

Yours truly,

PROF. H. JACOBI.

---

*Godesberg, 4 th. July 1922.*

Dear Sir,

I thank you for your letter accompanied with a copy of the Ardha Māgadhi Dictionary. It will be the first complete Ardha Māgadhi Dictionary and certainly a very useful work for

scholars and students. I congratulate you for this great and prominent undertaking.

I will acquire this indispensable work.

Yours faithfully.

PROF. DR. W. KIRFEL.

---

Hamburgische Universität.

Seminar Fur Kultur und  
Geschichte Indiens.

Dear Sir,

Please accept my best thanks for a copy of the printed specimen of an Illustrated Ardha Māgadhi Dictionary. To judge from the specimen pages, the work is done with great devotion and care and deserves the attention of the European Prākritists in a high degree.

The S. S. Jain Conference which is going to publish this work should gain a great merit by distributing a few copies among those German scholars who by long years' work promote the knowledge of Jain religion and literature in Europe.

With my best wishes for good success of your undertaking.

I am dear sir,

Yours

PROF. W. SCHUBRING.

---

**Prague (Czecho-Slovakia)**

*July 16 th. 1922.*

Dear Sir,

I am much obliged to you for sending me the specimen of the Ardha Māgadhi Dictionary. It will, as far as I can see from the specimen, be a very useful work for all scholars interested in Jaina literature.

I have asked the Librarian of our University Library to order a copy of the work.

Yours truly

**M. WINTERNITZ.**

*10 August 1922.*

Dear Sir,

I am in receipt of your letter dated 26th/s which owing to my removal I could not answer sooner.

The prospectus formerly sent to me made a very favourable impression upon me and I shall be pleased to obtain with the help of this valuable work a wider knowledge of Prākrit and the Jaina writings.

*Valerius street 171,*

Yours Truly,

*Amsterdam.*

**B. TADDEGON.**

**Katmandu, Nepal,**

**6th July 1922;**

**Sir,**

I am in receipt of your post card dated 22-6-22 asking for my opinion. My opinion is that you are doing a very useful work and which will be greeted by all scholars. I wish to be one of your first subscribers, and I shall send you the amount as soon as required. I am sure that I shall get several subscriptioners from my colleagues and pupils at home.

My compliments also for the illustrations which are a very happy feature of the work. I am myself particularly interested in this line and I have been in communication with Mr. P. C. Nahar for getting photos of several of his Jain pictures. Perhaps I shall visit Indore next September, and I shall not miss to visit you.

**Yours sincerely,**

**SYLVAIN LEVI.**

*Professor*

*an Collège de France*

---

**56-58 Walkeshwar Road,**

**Malabar Hill,**

**Bombay.**

**The 18th June 1922.**

**Dear Sir, .**

As far as I can judge from the specimen, it seems to me to be a work of a real importance and very useful for every student of Jaina religious works. Already the simple fact, that there was not

any up-to-date Ardha-Māgadhi Dictionary, shows the importance of such a work. It is an excellent idea to illustrate the explanations of the words by pictures, as very often it is very difficult for a man, who never has been in India and did not study Indian knowledge by the help of an Indian native, to understand some of the abstruse theories about the Indian idea about the world, the heavens, hells etc. without proper diagrams. Therefore this book will be useful also to such students, who never have had the opportunity either to come to India or to have an Indian teacher.

The parallel explanation of each word in English, Gujarati and Hindi together will be useful not only to the Indian students, but also to the Europeans, specially to those of Non-English nationality, who will be helped very often by the Hindi translation especially.

The only suggestion I may make, is to advise you to carry the work through the press as soon as possible, because the work is badly wanted by all students of Jainism, and at the same time to care, that the printer's mistakes may be eliminated up to the unavoidable minimum, then very often the Indian books of a high importance lose all their value by heaps of either corrected or uncorrected printers' mistakes, which make often the book if not entirely useless, then at least a great hindrance in the scientific study of the respective subjects.

Hoping this will satisfy you.

I remain

Yours truly,

DR. O. PERTOLD, Ph. D.

Senate House

College Square Calcutta

29-8-1922

Dear Sir,

Your letter of 13th instant and a specimen of an illustrated Pāli-Māgadhi Dictionary are to hand. I have gone through the specimen pages and find that the Dictionary will be a very useful addition to Philologists Prākritists and lovers of Jain literature. It will remove a great want of students of ancient Indian literature.

To the students of Māgadhi now known as Pāli, it also will be very useful. There are many common words in these two languages. You will do a great service to the cause of Māgadhi literature by bringing out the proposed Dictionary.

I shall subscribe a copy of your dictionary later on,

Wishing you all success in your noble undertaking.

Yours faithfully

S PURNANAND.

---

48 Indian Mirror Street

Calcutta

1922.

Dear Sir.

I note with pleasure the publication of the Prākrit Dictionary undertaken by you. I am sure it will be a scholarly work and will be very useful to scholars interested in Prākrit language.

As Encouragement, I wish to subscribe 3 copies of Ardhā Māgadhi Dictionary which please note.

Yours faithfully,

PURANCHANDRA NAHAR.

*Camp Indore*

*27 th June 19<sup>24</sup>*

My dear Mr. Bhandari,

I have gone over the specimen of the Ardhā Māgadhi Dictionary which when completed will be very helpful to the students as well as to those who are in research work. Being pentalingual it should be very useful to almost all educated people of North India as well as elsewhere. It is not only a Lexicon but it is an, Encyclopaedia or mere Glossary but attempt has been made to explain as clearly as possible the numerous technical terms that are met in the A Māgadhi Literature. The quotations themselves give references to a rich Bibliography.

Suggestions are unnecessary when you have already taken much pains and diligence to make the Dictionary exhaustive. Suggestions will merely add to your labour. As for my opinion I can only say your work is highly creditable.

Yours sincerely,

I. W. JOHORY. M. A. B.D.,

*Prof. Indore Christian Coll*





